

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

संस्कृत ग्रन्थाङ्क १४

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रंथ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक—

डॉ० हीरालाल जैन,

एम० ए०, डी० लिट्

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय,

एम० ए०, डी० लिट्

प्रकाशक—

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड, बनारस

मुद्रक—बम्बई प्रिंटिंग काटेज, बाँसफाटक, बनारस

स्थापनाब्द  
फाल्गुन कृष्ण ६  
वीर नि०-२४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००  
१८ फरवरी सन् १९४४

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी



स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मतिश्वरी साहू शान्तिप्रसाद जैन





JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ

SANSKRITA GRANTHA NO. 14

# MAHĀPURĀNA

Vol. II

## UTTAR PURĀNA

of

ĀCĀRYA GUNBHADRA

WITH HINDI TRANSLATION



*Translated and Edited*

BY

PANDITA PANNĀLĀL JAIN, SĀHITYĀCĀRYA

Sahiyadhyapak-GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR

*Published by*

**Bhāratīya Jñānapītha Kāshī**

*First Edition* }  
1000 Copies. }

MARGSHIRSHA, VIR SAMVAT 2480  
VIKRAMA SAMVAT 2011  
NOVEMBER 1954.

{ Price  
Rs. 10/-

FOUNDED BY

SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI  
JAIN GRANTHAMALA

SANSKRITA GRANTHA NO. 14

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,  
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS  
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,  
KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN  
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR  
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT  
SCHOLARS AND POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

*General Editors*

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt.

Dr. A.N. Upadhye, M.A., D. Litt.



*Publisher*

**Ayodhya Prasad Goyal**

Secy., BHARATIYA JNANAPITHA  
DURGAKUND ROAD, BANARAS

Founded in  
Phalguna Krishna 9.  
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

Vikrama Samvat 2000  
18th Febr. 1944

## PREFACE

With the publication of this part containing the Uttarapurāna by Guṇabhadra, the Bhāratiya Jñānapīṭha, Banaras, has to its credit a signal achievement in presenting to the world of scholars the celebrated Sanskrit work, the Mahāpurāna (MP) or the Triṣaṣṭi-laksana-mahāpurāna-saṃgraha (TLMPS), of Jinasena-and-Guṇabhadra, in three handy volumes. As compared with the three or four earlier editions of this work, in part or full, with Marāṭhī, Hindī and Kannaḍa translations, this edition is characteristically superior. The Sanskrit text is critically presented after collating it from a number of Mss. important readings from which are duly noted; it is accompanied, just below, by a fluent Hindī praraphrase; there is an exhaustive Introduction in Hindī which not only puts together all information about the authors but also touches some important topics from the work itself; lastly, there is an alphabetical Index of the verses. Thus this edition meets the needs of a pious reader, and goes a great way to satisfy the demands of a critical scholar.

The MP or the TLMPS, as its title indicates, is a great narrative of the ancient times, basically describing the lives of 63 Śālākāpuruṣas, namely, 24 Tīrthakaras, 12 Cakravartins, 6 Balabhadras, 9 Nārāyaṇas and 9 Pratinārāyaṇas recognised and honoured by Jainism. These biographies do not cover only one life of theirs, but present a detailed account of the career of their souls through various earlier births and also indicate their march on the path of religious and spiritual progress. In fact, these lives hold before the religious aspirants various facets of the spiritual career of great many souls that inspire religious confidence in others and lay down spiritual standards for them.

The entire narration is put in the mouth of Gautama and delivered in reply to the enquiry of king Śreṇika, both of whom are historical persons. These biographies of souls give many an occasion to the authors to introduce various topics of traditional and conventional character and to embody in the work mythological, religious, dogmatical, sacramental and ritualistic details, and thus make the whole work almost an encyclopedia of Jainism. We get here a graphic description of the evolution of human society along the march of time and of what the great souls of the past did for man in the beginning. The careers of migrating souls bring before one the glim-

pses of the whole universe and its ideological associations. No opportunity to introduce poetical descriptions, ethical sermons, moral exhortations, theoretical details about dreams, town-planning, polity etc., religious dogmas and practices, polemical attacks and refutations, and technical information, is ever missed with the effect that the narratives get enriched by a variety of stuff which at once demonstrates the deep learning and width of hereditary scholarship the authors of this work possessed.

The MP is a magnificent traditional history so far as the great heroes of Śramaṇic culture are concerned. Rich details about the Kulakaras like Nābhi, about Tīrthakaras like Vṛṣabha, about Cakravartins like Bharata and others are presented with deep interest. It is here that we get the tales about Rāma and Rāvana, about Kṛṣṇa and Pāṇḍavas, about Bāhubali, Brahma-datta, Jivamdharma, Vasu, Nārada and many other luminaries which are of immense significance for a student of comparative mythology.

In describing the military campaign of Bharata, the author introduces important geographical information, though conventional in many details. The descriptions of Kalpavṛkṣas, numerals, three worlds, various mountains, philosophical schools, divisions of knowledge, renunciation, rituals, samskāras, penances, meditation, Samavasaraṇa etc. have enriched the work with religious and cultural details of great importance. Some socio-cultural topics deserve careful study and interpretation. Apart from the code of layman's and ascetic's morality which is elaborated throughout the work, we find in this work many ideas on statecraft and worldly wisdom expressed in a striking manner.

While composing this MP, Jinasena and Guṇabhadra have drawn a good deal of information from canonical tradition and post canonical texts like the Tiloyapaṇṇatti of Yativṛṣabha, as well as the Vāgartha-saṃgraha of Kavi Parameṣṭhi. Their performance proved so authoritative, magnificent and exhaustive that its prototypical predecessors were almost eclipsed. It may not be surprising, therefore, that works like that of Kaviparameṣṭhi came to be neglected and in course of time lost beyond recovery.

This MP has served as a model, if not necessarily a direct and the only source for many subsequent authors like Puṣpadanta, Hemacandra, Āśādhara, Cāmuṇḍarāja, and the author of Tamil Śrīpurāṇa, etc. who composed their works in Apabhraṃśa, Sanskrit, Kannaḍa and Tamil. Besides, many Jaina authors are directly or indirectly indebted to this class of works for patterns of details and descriptions with which they enriched their poems on select themes centring round one or the other hero, a Tīrthaṃkara, a Cakravartin, or any individual hero of antiquity like Bāhubali, Pradyumna, Jivamdharma etc.

The MP is divided into two parts, Ādipurāna in 47 Parvans and Uttara-purāna in 29 Parvans : the entire work thus has 76 Parvans. The total Granthāgra comes to about 20 thousand ślokas. Of the Ādipurāna, 42 Parvans and three verses more were composed by Jinasena (about 12 thousand ślokas) and the remaining work by his pupil Guṇabhadra. The Ādipurāna covers the biography of the first Tīrthakara and first Cakravartin, and the Uttarapurāna deals with the lives of the remaining Tīrthakaras and other Triṣaṣṭi Puruṣas. The Uttarapurāna (about eight thousand Ślokas in extent) obviously therefore becomes more enumerative than descriptive.

As an able exponent of Jainism in its manifold aspects and as a successful master of Sanskrit language, Jinasena occupies a unique place in Indian literature by both the quantity and quality of his contributions. Very little is known of his personal life. We get, however, some glimpses of his personality from some of his own poetic expressions at the close of his commentary Jayadhavalā. Almost as a boy he appears to have accepted renunciation, leading a strict celibate life and devoting himself wholly and solely to religious and scholarly life. Though physically weak and not quite handsome, he was strong in his penances and gifted with intelligence, forbearance and modesty. He was an embodiment of knowledge and spiritualism.

As a monk Jinasena was more an institution than an individual. He was a great disciple of a greater teacher, Vīrasena, whose Jayadhavalā commentary he completed in 837 A.D. just as his pupil Guṇabhadra completed his Mahāpurāna posthumously some years before 897 A.D. He belonged to the ascetic line or family called Pañcastūpānvaya to which belonged Guhanandi, Vṛṣabhanandi, Candrasena, Āryanandi and Vīrasena. This Pañcastūpānvaya had once its home in the North, in Eastern India; the monks of this line were perhaps the greatest custodians of the knowledge of Karma Siddhānta; and they travelled via Rajaputana and Gujrat as far as Śravana Belgol in the South carrying with them the hereditary learning of the Karma doctrine and pursuing their religious path of severe penances. Vīrasena and Jinasena attained such a position and eminence that after them the Senānvaya or Senagaṇa came to be mentioned as the family or line of teachers almost replacing the Pañcastūpānvaya.

Jinasena lived in an age of political prosperity and stability as well as academic fertility. The contemporary kings were Jagattuṅga and Nṛpatuṅga or Amoghavarṣa (815-877 A.D.) of the Rāstrakūṭa dynasty, with their capital at Mānyakheta which became a centre of learning. Amoghavarṣa was not only a mighty monarch but also a patron of letters and a man of academic aptitude and literary attainments. A Kannaḍa work, Kavirājamārga, on

poetics is attributed to him. He was a great devotee of Jinasena whose ascetic virtues and literary gifts must have captivated his mind. He soon became a devout Jaina and renounced the kingdom in preference to religious life as mentioned by him in his Sanskrit work *Praśnottara-ratnamālā* and as graphically described by his contemporary Mahāvīrācārya in his *Gaṇitasāra-saṃgraha*. (See Jaina Siddhānta Bhāskara IX, and *Anekānta* V, page 183) His reign was victoriously prosperous and the span of his career pretty long.

After finishing his training in various branches of traditional learning like grammar, poetics, Nyāya etc. under his teachers like Virasena and Jayasena, it seems, Jinasena began his literary career by composing (sometime before 783 A.D.) the *Pārśvābhyudaya*, a Sanskrit Kāvya, a curio in Sanskrit literature. In this poem he incorporates in every verse one or two lines of the *Meghadūta* of Kālidāsa in their serial order, the remaining lines being composed by himself. In this way the whole poem of Kālidāsa is subjected to the poetic art known as *samasyā-pūraṇa*. Though the stories are basically different, the lines of the *Meghadūta* get fitted admirably in the *Pārśvābhyudaya*. Composition by *samasyā-pūraṇa* puts a number of restrictions on the poet who undertakes it. Jinasena has achieved it so naturally and skilfully that while reading *Pārśvābhyudaya* by itself one hardly suspects that it embodies another poem of different theme as well as contexts. The *Pārśvābhyudaya* is a remarkable tribute to Jinasena's mastery over Sanskrit and abilities as a poet. His compliments to Kālidāsa's poem at once ennoble his personality. It is only a merited poet that can admire another poet. On this poem, Professor K.B. Pathak has remarked thus : 'This poem is one of the curiosities of Sanskrit literature. It is at once the product and the mirror of the literary taste of the age. The first place among Indian poets is allotted to Kālidāsa by consent of all. Jinasena, however, claims to be considered a higher genius than the author of *Cloud-messenger*.' (The Journal of the Bombay branch of the R.A.S., No. XLIX, vol. XVIII, 1892; also his ed. of Kālidāsa's *Meghadūta*, 2nd ed., Poona 1916, Intro. pp. xxiii etc.)

After completing the *Dhavalā* commentary on the *Ṣaṭkhaṇḍāgama* in 72 thousand *Granthāgras*, Virasena took up the *Jayadhavalā* commentary on the *Kaṣāya-prābhṛta*. He passed away when he had composed just 20 thousand *Granthāgras*. It was left consequently to his worthy disciple Jinasena to complete that commentary by composing some 40 thousand *Granthāgras* more (in 837 A.D.). These voluminous commentaries show their depth of learning and their mastery over the entire range of Jainology, especially the *Karma Siddhānta*. These works contained all that was worth



knowing in that context, practically absorbing the earlier Sanskrit and Prākṛit commentaries. The poetic abilities of Jināsena are explicit from his memorable poem, Pārśvābhyudaya, and the depth of his wide learning from his Jayadhavalā. This twofold ability of Jināsena is seen all the more blooming in his Mahāpurāṇa.

The MP as a systematic exposition of Jaina traditions and principles is sufficiently appreciated by the specialist; but the literary qualities of this work have not attracted the attention of the students of Sanskrit literature to the extent that they deserve. Many sections of the MP present an exquisite specimen of Kāvya. Jināsena shows an intelligent acquaintance with the works of his predecessors in the field. He handles Sanskrit language with ease and facility and further invests it with dignity. The Sahasranāma shows how fully he has availed himself of both the strength and weakness of Sanskrit language, grammar and vocabulary. He is a consummate master of versification, and now and then he has attended to even poetic and metrical tricks. His descriptions are exuberantly rich and full of poetic embellishments, both of sense and sound. Professor Pathak was already attracted, though casually, by Jināsena's 'richness of fancy, copiousness of imagery and fluency of verse' seen in the MP. It is a sad event in the history of Sanskrit scholarship that Jināsena left this work incomplete. His pupil Guṇabhadra, with much hesitation and after waiting for some time, but as a sacred duty to his teacher, had to complete it which was later consecrated by Lokāsena, a pupil of Guṇabhadra, in 897 A.D. It is a memorable event that Virāsena, Jināsena and Guṇabhadra formed a continued and composite academic personality ushered into existence as if for the purpose of completing three significant works of Indian literature, namely, Dhavalā, Jayadhavalā and Mahāpurāṇa which were too big and profound to be completed in one span of life by any one individual.

Besides completing his teacher's Mahāpurāṇa, Guṇabhadra composed two other Sanskrit works, the Ātmānuśāsana, a religious and didactic anthology in 272 verses of different metres, and the Jinadattacarita, a poem in nine cantos.

Earnest students of Sanskrit literature in general and of Jaina literature in particular feel highly obliged to Shṛīmān Seth Shānti Prasādji and his accomplished wife Shṛīmātī Ramā Rānji who founded the Bhāratiya Jñāna Pīṭha which is publishing important Prākṛit and Sanskrit works. Not minding the cost involved they are arranging the publication of these works with one great and laudable object that such gems of ancient Indian literature should not be allowed to be lost in oblivion. Words cannot adequately express their spirit of self-sacrifice and love of learning for its own

sake. If the Jñānapīṭha Lokodaya Granthamālā aims at educating the public at large, the Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā maintains respectfully the prestige of ancient Indian learning especially in its neglected branches. Thus the Jñānapīṭha is really serving a national cause and a great cultural purpose; and all its publications are enriching our national language Hindi.

Shri Ayodhyāprasād Goyaliya is pushing the activities of the Jñānapīṭha with zeal and sincerity. Thanks are due to Pt. Pannālāl Sāhityāchārya who prepared this edition of the Mahāpurāṇa with a lucid Hindī translation. We have every hope that this edition will give fresh impetus to the study of Mahāpurāṇa in its various aspects.

July 1954.

H. L. Jain,  
A. N. Upadhye.

## प्रारम्भिक [ हिन्दी ]

आचार्य गुणभद्र कृष्ण उत्तरपुराणके प्रकाशनके साथ जिनसेन और गुणभद्रकृत 'त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण-संग्रह' अपरनाम 'महापुराण' तीन भागोंमें पूर्णरूपसे प्रकाशित हो गया। इस सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थको ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वत्संसारके सन्मुख उपस्थित करनेका श्रेय 'भारतीय ज्ञानपीठ, काशी' को है। इससे पूर्व आंशिक अथवा पूर्णरूपमें हिन्दी, मराठी व कन्नड अनुवादों सहित इस ग्रन्थके तीन चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके मिलानके पश्चात् समालोचनात्मक रीतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठान्तर अङ्कित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत मूल पाठके साथ-साथ धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीकी सुविस्तृत प्रस्तावनामें ग्रन्थकारोंके सम्बन्धकी समस्त ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा ग्रन्थके कुछ महत्त्वपूर्ण विषयोंका भी परिचय कराया गया है। अन्तमें पद्योंकी वर्णानुक्रमसे सूची भी दे दी गई है। इस प्रकार यह संस्करण धर्मानुरागियोंके स्वाध्यायके लिए और आलोचनशील विद्वानोंके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा।

महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कालका एक महान् आख्यान है। इसमें जैनधर्मकी मान्यतानुसार चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण, इन त्रैलोक्यका पुरुषोंका मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके केवल एक ही जीवनकालका वर्णन नहीं है, किन्तु उनके अनेक पूर्वजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः इन चरित्रों द्वारा धर्मानुरागियोंके समक्ष अनेक आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धार्मिक श्रद्धा एवं आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं।

महापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रेणिकके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् गौतम गणधरके मुखसे प्रसूत हुआ है। गौतम गणधर और श्रेणिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें ग्रन्थकारोंको अनेक परम्परागत रूढ विषयोंके वर्णनका अवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचनामें नाना पौराणिक, धार्मिक, सैद्धान्तिक, सांस्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रायः जैनधर्मका विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके कालानुसार विकासका सजीव चित्रण तथा आदिकालीन महापुरुषोंके लोक-कल्याणकारी कार्योंका परिचय मिलता है। जीवोंके जन्मान्तर-वर्णनोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट झलकियाँ दिखाई देती हैं। काव्यात्मक वर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वप्नों, नगर-योजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा सिद्धान्त और सदाचार एवं मत-मतान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कलात्मक बातोंके वर्णन करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आख्यानोंमें सुन्दर वैचित्र्य आ गया है जिससे ग्रन्थकारोंकी विशाल विद्वत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डित्यका पता चलता है।

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नाभि आविक कुलकरों, वृषभादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रवर्तियों आदिके सुविस्तृत वर्णन बड़े रोचक ढङ्गसे प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मदत्त, जीवन्धर, वसु, नारद आदि अनेक महत्त्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसङ्गमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो अनेक बातोंमें रूढिगत होनेपर भी उपयोगी हैं। कल्पवृक्ष, गणना, त्रैलोक्य, नाना पर्वत, दर्शन, ज्ञानभेद, वैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनों द्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्वकी विविध वार्ताओंसे खूब परिपुष्ट हुई है। इनमेंके अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे अध्ययन करने और समझने योग्य हैं। ग्रन्थमें सर्वत्र व्यास श्रावकधर्म व मुनिधर्मके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावशाली रीतिसे अभिव्यक्त बहुतसी राजनीति और लोक-व्यवहार-वार्ता भी मिलती है।

महापुराणकी रचनामें आचार्य जिनसेन और गुणभद्रने आगमिक परम्परा तथा यतिवृषभकृत तिलोप-पण्णरि व कवि परमेष्ठि कृत 'वागर्थ-संग्रह' जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधार लिया है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वाङ्गपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तद्विषयक पूर्वकालीन रचनाएँ प्रायः अन्धकारमें पड़ गईं। अतः यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठी जैसे ग्रंथकारोंकी रचनाएँ उपेक्षित हो गईं और क्रमसे कालके गालमें समा गईं।

यह महापुराण अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि हेमचन्द्र और आशाधर, कन्नड कवि चामुण्ड-राय एवं श्रीपुराणकार तामिल कवि आदिकी रचनाओंके लिए यदि साक्षात् और एकमात्र आधार नहीं तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन लेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, प्रद्युम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुषका चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाओंके पोषक वर्णन और विस्तारके लिए इन्हीं ग्रंथोंके ऋणी हैं।

महापुराण दो भागोंमें विभक्त है। प्रथमभाग आदिपुराण कहलाता है और उसमें सैंतालीस पर्व हैं। द्वितीयभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पर्व हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहत्तर पर्वोंमें समाप्त हुआ है जिनका समस्त ग्रंथाग्र लगभग बीस हजार श्लोक-प्रमाण है। आदिपुराणके ब्यालीस पर्व और तेतालीसवें पर्वके तीन पद्य, जिनका श्लोक प्रमाण लगभग बारह हजार होता है, आचार्य जिनसेन कृत हैं और ग्रंथका शेषभाग उनके शिष्य आचार्य गुणभद्रकी रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती इन दो का ही चरित्र वर्णित हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराण में ग्रथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठहजार श्लोक प्रमाणमें वर्णन-विस्तारकी अपेक्षा नाम-धामोल्लेख ही अधिक है।

जैनधर्मके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेन अपनी रचनाके प्रमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवल टीकाके अन्तमें उन्होंने जो कुछ पद्य-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी कुछ झलकें मिल जाती हैं। जान पड़ता है, उन्होंने अपने बाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मचर्यके पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें ही पूर्णतः संलग्न रहे। यद्यपि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्यामें सुदृढ और बुद्धि, धैर्य एवं विनयादि गुणोंमें प्रतिभावान् थे। वे ज्ञान और अध्यात्मके मूर्तिमान् अवतार ही कहे जा सकते हैं।

मुनिधर्मकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्तिमात्र नहीं किन्तु एक संस्थाके समान थे। वे वीरसेन जैसे महान् गुरुके महान् शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुकी जयधवल टीकाको शक संवत् ७५९ (सन् ६३७ ई०) में समाप्त किया। उसी प्रकार उनके शिष्य गुणभद्रने उनकी मृत्युके पश्चात् उनके महापुराणको शक सं० ८१९ (सन् ८९७ ईस्वी) से कुछ पूर्व पूर्ण किया। वे पंचस्तूपान्वय नामक मुनि सम्प्रदायके सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गृहणन्दी, वृषभनन्दी, चन्द्रसेन, आर्यनन्दी और वीरसेन भी हुए थे। इस पंचस्तूपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूर्व भारतमें था। अनुमानतः इसी अन्वयके मुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञानके सबसे बड़े संरक्षक थे। वे राजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें श्रवणबेलगुल तक पहुँचे। वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको लेते गये, और कठोर तपस्याके धार्मिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे। वीरसेन और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चात् उनका मुनिसम्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगणके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हो गया।

जिनसेनका काल राजनैतिक स्थैर्य और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका युग था। उनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगधुंग और नृपतुङ्ग अपरनाम अमोघवर्ष (सन् ८१५—८७७) थे। इनकी राजधानी मान्यखेट थी जहाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोघवर्ष केवल एक प्रबल सम्राट ही नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय चर्चामें रुचि और साहित्यिक योग्यता रखते थे। अलंकार-विषयके एक कन्नडग्रंथ 'कविराजमार्ग' उनकी कृति

कही जाती है। वे जिनसेनके बड़े भक्त थे और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्के अनुयायी हो गये। उनके संस्कृतकव्य 'प्रश्नोत्तररत्नमाला' तथा उनके समकालीन महावीरचार्य कृत 'गणितसार संग्रह'के सुस्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। ( देखिये प्रो० हीरालाल जैन : 'राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्षकी जैनदीक्षा' जै० सि० भास्कर भा० ९ कि० १; तथा अनेकान्त, वर्ष ५, पृ० १८३-१८७ ) उनका राज्यकाल खूब विजयी और समृद्धिशाली रहा, तथा वे दीर्घकाल तक जीवित रहे।

जिनसेनने वीरसेन और जयसेन जैसे गुरुओंसे व्याकरण, भलङ्कार, न्याय आदि परम्परागत नाना विद्याओंको सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन् ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत काव्य पार्श्वभ्युदयकी रचनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अनूठा माना जाता है। इस कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्यमें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेघदूत नामक खण्डकाव्यकी एक या दो पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं और शेष पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्यमें समस्या-पूतिके काव्य कौशल द्वारा समस्त मेघदूतको ग्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कथाभाग परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पार्श्वभ्युदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढङ्गसे बैठ गई हैं। समस्यापूतिकी कला कविपर अनेक नियन्त्रण लगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी रचनाको ऐसी कुशलता और चतुराईसे सम्हाला है कि पार्श्वभ्युदयके पाठको कहीं भी यह सन्देह नहीं हो पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक् काव्यका भी समावेश है। इस प्रकार पार्श्वभ्युदय जिनसेनके संस्कृत भाषापर अधिकार तथा काव्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व और भी ऊँचा उठ जाता है। महान् कवि ही अपनी कवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेसर के० बी० पाठकका मत है कि "पार्श्वभ्युदय संस्कृत साहित्यकी एक अद्भुत रचना है। वह अपने युगकी साहित्यिक रुचिकी उपज और आदर्श है। भारतीय कवियोंमें सर्वोच्चस्थान सर्वसम्मतितसे कालिदासको मिला है। तथापि मेघदूतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं।" ( जर्नल, बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, ब्हा० १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' द्वि० संस्करण, पूना १९१६, भूमिका पृ० २३ आदि )

अपनी षट्खंडागम-टीकाको बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण ग्रंथाग्रमें समाप्त करनेके पश्चात् वीरसेन स्वामीने कषाय-प्राभृतपर जयधवलटीका लिखना प्रारम्भ किया। इसकी बीस हजार श्लोकप्रमाण ही रचना हो पाई थी कि उनका स्वर्गवास हो गया। अतः उस टीकाको पूरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेन पर पड़ा। इन्होंने इस महान् और पवित्र ग्रंथको अपनी चालीस हजार श्लोकप्रमाण रचना द्वारा सन् ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया। ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओंके गरु भीरु ज्ञानों तथा जैनधर्मके समस्त अंगों और विशेषतः कर्मसिद्धान्तके महान् पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाओंमें तद्विषयक समस्त ज्ञातव्य बातोंका एवं प्रायः पूर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया गया है। जिनसेनाचार्यका काव्यकौशल उनके स्मरणीय काव्य पार्श्वभ्युदयसे एवं उनकी विशाल विद्वत्ता उनकी अमर टीका जयधवलसे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी खूब विकसित रूपमें दृष्टि-गोचर हो रही है।

जैन पुराण और सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो महापुराणका विशेषज्ञों द्वारा पर्याप्त आदर किया जाता है; किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गुणोंकी ओर संस्कृतज्ञोंका जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं गया। महापुराणके अनेक खंड संस्कृत काव्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने अपने पूर्वकालीन कवियोंकी कृतियोंसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरल और स्वाभाविक ढंगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्रनाम स्तोत्र बतला रहा है कि उन्होंने संस्कृत भाषा, व्याकरण और शब्दभण्डारके सामर्थ्य और दीर्घत्व, दोनोंसे कितना अधिक लाभ उठाया है। वे पद्यरचनाके परिपक्व विद्वान् हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी अपनाया है। उनके वर्णन अति समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कल्पनाका उत्कर्ष,

चित्रणका प्राचुर्य तथा पद्यरचनाकी धारावाहिकता आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं उनसे प्रोफेसर पाठक बहुत आकर्षित हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेन अपनी इस रचनाको अपूर्ण छोड़कर परलोक सिंधार गये। उनके शिष्य गुणभद्रने बड़े संकोचके साथ, कुछ काल ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तव्य समझकर, इस ग्रन्थको सन् १९७ ईस्वीमें पूर्ण किया और गुणभद्रके शिष्य लोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा कराई। यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिन्न और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस असाधारण त्रिमूर्तिका अवतार धवला, जयधवला और महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निधियोंको उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त ग्रंथ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकालमें सम्पन्न करना असंभव था।

अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पूर्तिके अतिरिक्त गुणभद्रने दो और संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की— एक 'आत्मानुशासन' जिसमें धार्मिक व नैतिक २७२ पद्योंका समावेश है; और दूसरी 'जिनदत्तचरित' जो नौ सर्गोंका प्रबन्ध काव्य है।

संस्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोंका प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। इस प्रकाशनमें व्ययकी कोई चिन्ता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके सुन्दर रत्न अन्धकारमें पड़े न रह जावें। इस सम्बन्धमें उनके निस्वार्थ त्याग और साहित्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना शब्दसामर्थ्यसे बाहरकी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ लांकोदय ग्रंथमाला' जन-साधारणमें ज्ञानप्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रंथमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यिक निधि, और विशेषतः उसके उपेक्षित अङ्गोंका विनीत भावसे सत्कार और उत्कर्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान् सांस्कृतिक प्रयोजनकी पूर्तिमें संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दीकी समुन्नतिमें भी सहायक हो रहे हैं।

भारतीय ज्ञानपीठके मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय ज्ञानपीठके कार्यको गतिशील बनाये रखनेमें बड़ी तत्परता और लगनसे प्रयत्नशील हैं।

महापुराणके इस संस्करणको हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं० पञ्चालालजी साहित्याचार्य हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

हमें पूर्ण आशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसे अध्ययन-अन्वेषण कार्यमें नव-स्फूर्तिदायक सिद्ध होगा।

हीरालाल जैन  
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये

### प्रकाशन-व्यय

१८३४(६)॥ कागज २२ X २९ = २८ पौण्ड  
१४ रीम ४ जिस्ता  
१८८२) छपाई ८४ फार्म  
१०००) जिल्द बाँधाई  
५०) कवर कागज  
५०) कवर छपाई

१२०४) सम्पादन-व्यय  
२६४) ग्रूफ संशोधन  
१०००) भेंट, आलोचना  
१७५) पोस्टेज ग्रंथ भेंट भेजने का  
२८५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री व्ययादि

कुल लागत १०३५६(६)॥

१००० प्रति छपी। लागत एक प्रति १०(६)॥

मूल्य १०) रु०

## प्रस्तावना

### सम्पादनसामग्री

उत्तरपुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है।

‘क’ प्रति

यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनासे प्राप्त हुई है। पत्रसंख्या ३१८, लम्बाई-चौड़ाई १२ X ५ इंच। प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३४ से ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पत्र तक प्रति अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। कागज जर्जर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो चुका है। दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन मालूम होती है। २८२ से अन्ततक पुनः पत्र लिखाकर जोड़े गये हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिके चारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म अक्षरों द्वारा टिप्पण भी दिये गये हैं। किन्हीं-किन्हीं श्लोकोंमें अन्वयके क्रमाङ्क भी दिये गये हैं। लेखन प्रायः शुद्ध और सुवाच्य है। काली स्याहीसे लिखी गई है और श्लोकाङ्क लाल स्याहीसे दिये गये हैं। इसका सांकेतिक नाम ‘क’ है। इसमें १६६ वाँ पृष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं।

‘ख’ प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यके सौहार्दसे प्राप्त हुई है। इसकी कुल पत्र संख्या ३०९ है। पत्रोंका परिमाण १२ X ६ इंच है। प्रति पत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल १८१५ संवत् दिया हुआ है। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमीको इसकी प्रतिलिपि पूर्ण हुई है। दशा अच्छी है, लिपि सुवाच्य है, शुद्ध भी है, इसका सांकेतिक नाम ‘ख’ है। इसमें ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति नहीं है।

‘ग’ प्रति

यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनासे प्राप्त है। कुल पृष्ठसंख्या ४१३ है, पत्रोंका परिमाण १० X ५ इंच है। प्रति पत्रमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हैं। लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-काल १५५७ वर्ष आषाढ़ कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है। काली स्याहीसे लिखित है, कागज जीर्ण हो चुका है, रङ्ग भी मटमैला हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों पर टिप्पण भी दिये गये हैं। दशा जर्जर होनेपर भी अच्छी है। इसका सांकेतिक नाम ‘ग’ है।

‘घ’ प्रति

यह प्रति भी भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनासे प्राप्त है। इसमें कुल पत्रसंख्या ३१३ है, पत्रोंका परिमाण १३ X ७ इंच है, प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। कागजकी दशा और रङ्गसे अधिक प्राचीन नहीं मालूम होती। लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक नाम ‘घ’ है।

‘ल’ प्रति

यह प्रति श्रीमान् पण्डित लालारामजी शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा अनूदित है। ऊपर सूक्ष्म अक्षरोंमें मूल श्लोक तथा नीचे कुल स्थूलाक्षरोंमें हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं उक्त शास्त्रीजी द्वारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे अशुद्ध हो गया है, अब यह अप्राप्य है। इसका सांकेतिक नाम ‘ल’ है।

‘म’ प्रति

यह प्रति श्रीमान् पण्डित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ जयपुरके सौजन्य वश श्री अतिशयक्षेत्र महा-वीरजीके सरस्वती-भवनसे प्राप्त हुई है। इसमें १७९ पत्र हैं, पत्रोंका परिमाण १२ X ६ इंच है, प्रतिपत्रमें



१२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीच बीचमें कठिन पदोंके टिप्पण भी आजू-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-काल १८०५ है, जेठबदी पञ्चमी गुरुवारको सवाई जयपुरमें विमलसागर यतिके द्वारा लिखी गई है। इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

### एक प्रति और

उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें हुई है। प्रारम्भसे लेकर नमिनाथ-पुराण तक तो यह पं० लालारामजी शास्त्रीकृत अनुवाद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है और उसके बाद किसी हस्तलिखित प्रतिसे हुई है। यह प्रति कहाँसे आई, कैसे आई इसका परिचय ज्ञानपीठके व्यवस्थापक महाशयके स्थानान्तरित हो जानेके कारण नहीं जान सका। एक पत्र मैंने पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भूतपूर्व व्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे लिखा भी था पर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यक्ष भी चर्चा की थी पर उन्होंने कहा कि समय अधिक हो जानेसे स्मरण नहीं है। वर्तमान व्यवस्थापकजीको इस विषयकी जानकारी नहीं है। अस्तु, यह प्रति शुद्ध मालूम होती है और जहाँ कहीं अन्य प्रतियाँसे विभिन्न पाठान्तर लिखे हुए हैं। इस प्रतिके पाठोंका उल्लेख मैंने 'इत्यपि क्वचित्' इन शब्दों द्वारा किया है।

### उत्तरपुराण

उत्तरपुराण, महापुराणका पूरकभाग है। इसमें अजितनाथको आदि लेकर २३ तीर्थकर, सगरको आदि लेकर ११ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोंमें कितने ही कथानक इतने रोचक दृष्टसे लिखे गये हैं कि उन्हें प्रारम्भकर पूरा किये बिना बीचमें छोड़नेको जी नहीं चाहता। यद्यपि आठवें, सोलहवें, बाईसवें तेईसवें और चौबीसवें तीर्थकरको छोड़कर अन्य तीर्थकरोंके चरित्र अत्यन्त संक्षेपसे लिखे गये हैं परन्तु वर्णन शैलीकी मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रन्थमें न केवल पौराणिक कथानक ही हैं किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शनादिका और दार्शनिक दृष्टिसे सृष्टिकर्तृत्व आदि विषयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है।

रचयिता गुणभद्राचार्यका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामें विस्तारसे दे चुका है अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक है।

### उत्तरपुराणका रचना-स्थल—बंकापुर

उत्तर पुराणकी रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु साधनके अभावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूषण पं० के० मुजबली शास्त्री मूढबिद्दीने अपने एक पत्रमें संकेत किया कि 'यदि उत्तरपुराणकी भूमिकामें उसके रचना-स्थल बंकापुर का परिचय देना चाहें तो भेज दूँ'। मैंने शास्त्रीजीकी इस कृपाको अनभ्रवृष्टि जैसा समझ भूमिकामें बंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह उन्हींके शब्दोंमें दे रहा हूँ—

“बंकापुर, पूना-बेंगलूर रेलवे लाइनमें हरिहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशन से १५ मील पर धारवाड जिलेमें है। यह वह पवित्र स्थान है, जहाँ पर प्रातःस्मरणीय आचार्य गुणभद्रजीने शक संवत् १८२० में अपने गुरु भगवजिनसेनके विश्रुत महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराणको समाप्त किया था। आचार्य जिनसेन और गुणभद्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमें से हैं इस बातको साहित्य संसार अच्छी तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुतः एक अनूठा रत्न है। उत्तरपुराण के समाप्ति-कालमें बंकापुरमें जैन वीर बंक्रियका सुयोग्य पुत्र लोकादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकालवर्ष वा कृष्णराज (द्वितीय) के सामन्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी और शत्रु-विजयी था। इसकी ध्वजामें चिल्लावाचील का चिह्न अंकित था और वह चेल्लचीलजका अनुज तथा चेल्लकेत

( बंकेय ) का पुत्र था । उस समय समूचा बनवास ( बनवासि ) प्रदेश लोकादित्यके ही वशमे रहा । उपर्युक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर बंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उस जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था । बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं था । राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंगके लिए राज्यकार्योमें जैन वीर बंकेय ही पथप्रदर्शक था । मुकुलका पुत्र परकोरि, परकोरिका पुत्र घोर और घोरका पुत्र बंकेय था । बंकेयका प्रपितामह मुकुल शुभतुंग कृष्णराज का, पितामह परकोरि शुभतुंगके पुत्र ध्रुवदेव का, एवं पिता घोर चक्री गोविंद राज का राजकार्य-सारथि था । इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और बंकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी राजकार्य पटु तथा महाशूर थे ।

नृपतुङ्गको बंकेय पर अटूट श्रद्धा थी । वही कारण है कि एक लेखमें नृपतुङ्गने बंकेयके सम्बन्ध में 'विततज्योतिर्निशितासिरिवापरः' कहा है । पहले बंकेय नृपतुङ्गके भास सेनानायकके रूपमें अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र बननेके फलस्वरूप विशाल बनवास ( बनवासि ) प्रान्तका सामन्त बना दिया गया था । सामन्त बंकेयने ही गङ्गराज राजमल्लको एक युद्धमें हरा कर बंदी बना लिया था । बल्कि इस विजयोपलक्ष्यमें भरी सभामें वीर बंकेयको नृपतुङ्गके द्वारा जब कोई अभीष्ट वर माँगनेकी आज्ञा हुई तब जिनभक्त बंकेयने सगद्गद महाराज नृपतुङ्गसे यह प्रार्थना की कि 'महाराज ! अब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी नहीं रही । अगर आपको कुछ देना ही अभीष्ट हो तो कोलनूरमें मेरे द्वारा निर्मापित पवित्र जिनमन्दिरके लिए सुचारु रूपसे पूजादि कार्य-संचालनार्थ एक भूदान प्रदान कर सकते हैं, बस, ऐसा ही किया गया । यह उल्लेख एक विशाल प्रस्तरखण्डमें शासन के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है । बंकेयके असीम धर्मप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है । इस प्रसंगमें यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्नी विजया बड़ी विदुषी रही । इसने संस्कृतमें एक काव्य रचा है । इस काव्यका एक पद्य श्रीमान् बेंकटेश भीम राव आलूर बी०ए०-एल० एल०बी० ने 'कर्णाटकगतवैभव' नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उद्धृत किया है<sup>१</sup> । बंकेयके सुयोग्य पुत्र लोकादित्यमें भी पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर 'उत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणभद्राचार्यका प्रभाव भी पर्याप्त था । इसमें सन्देह नहीं कि धर्मधुरीण लोकादित्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था । यद्यपि लोकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोंका सामन्त था फिर भी राष्ट्रकूट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्ट्य था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे । आचार्य गुणभद्रके शब्दोंमें लोकादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त प्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान् भी था । उस जमानेमें बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे । इन मन्दिरोंको चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिला था । बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहाँ पर जैनाचार्योंका वास अधिक रहता था । यही कारण है कि इसका गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमें होती थी । इसीलिए ही गङ्गनरेश नारसिंह जैसे प्रतापी शासकने वहाँ आकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सल्लेखना व्रत सम्पन्न किया था । टंडाधिप हुल्लने वहाँपर कैलास जैसा उत्तुङ्ग एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था । इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहाँ पर एक दो नहीं, पाँच महाविद्यालय मौजूद थे ।<sup>२</sup> 'ये सब बीती हुई बातें हुईं' । वर्तमान कालमें बंकापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन लें । सरकारी रास्तेके बगलमें उन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्वंसावशिष्ट पुराना किला है । इस किलाके अन्दर १२ एकड़ जमीन है । यह किला बम्बई सरकारके वशमें है । वहाँ पर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल रखा है । जहाँ-तहाँ खेती भी होती है । राजमहलका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है । वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूपमें इष्टिगोचर होता है । इन विशाल खेतोंमें आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उड़द, मूँग, चना, तुवर, कपास और मूँगफली आदि पैदा होते हैं । स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमानेमें यह स्थान

१ "सरस्वती व कर्णाटी विजयाङ्गा जयत्यसौ । या वैदमीगिरां वासः कालिदासादनन्तरम् ॥" २. बम्बई प्रान्तके जैन स्मारक देखें ।

वस्तुतः देखने लायक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहाँसे हटनेकी इच्छा ही नहीं हुई। किलेके अन्दर इस समय एक सुन्दर जिनालय अवशिष्ट है वहाँ वाले इसे 'आवत्त मूस कंब गलवस्ति' कहते हैं। इसका हिन्दी अर्थ ६३ खम्भोंका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शान्ति-मन्दिर और इसके ६३ खम्भ जैनोंके त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंका स्मृतिचिह्न होना चाहिये। मन्दिर बड़ा पुष्ट है और वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एक प्रतीक है। खम्भोंका पालिश इतना सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, आज भी उनमें आसानीसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आरामसे बैठ सकते हैं। छत और दीवारों परकी सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियाँ निर्दय विध्वंसकोंके द्वारा नष्ट की गई हैं। इस मन्दिरको देखकर उस समय की कला, आर्थिक स्थिति और धार्मिक श्रद्धा आदिको आज भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीन महत्त्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों को जानती भी नहीं है।

### रामकथाकी विभिन्न धाराएँ

पद्मपुराण और उत्तर पुराणकी राम-कथामें पर्याप्त मतभेद है। यह क्यों और कब हुआ इसका विश्वस्त रूपसे कह सकना संभव नहीं दिखता। जब लोगोंको मालूम हुआ कि उत्तरपुराणका सम्पादन और अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब कई विद्वानोंने इस आशयके पत्र लिखे कि आप राम-कथाके मत-भेदकी गुत्थी अवश्य ही सुलझाइये। मेरी दृष्टि भी इस ओर बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेके बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुँच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चला। रामकथा की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास, नामक ग्रन्थमें प्रकाशित 'पद्मचरित और पउम चरिउ, नामक लेखमें 'राम कथा की विभिन्न धाराएँ' शीर्षक एक प्रकरण लिखा है जो कि इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकोंकी जानकारी के लिए मैं उसे यहाँ लेखकके ही शब्दोंमें उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ—

“रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इस पर विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गई है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं।

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले वाल्मीकि मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य (आदिकाव्य) वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े-थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें लिपि बद्ध की गई है। इसके सिवाय अभ्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ।

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें गुत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। इस पर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़ेमें दूधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा-चुभाकर उनके शरीरका बूँद-बूँद खून निकाला और उसे घड़े में भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीव्र है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई कि पति का मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परस्त्रियोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परन्तु उसके थोड़े-थोड़े वही मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ धारण हो जानेसे अब उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्भको जमीनमें गाड़कर वापिस चली आई। उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली और उन्होंने उसे पाल लिया वहीं सीता है।

विष्णुपुराण ( ४—५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुत्रलाभ के लिए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाङ्गलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई ।

बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्वजन्मकी कथाएँ लिखी गई हैं । दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं । उनमेंसे मुख्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकी एक कन्या हुई । फिर मुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे भरत नामका पुत्र हुआ । यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थी । तब इस भय से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे । नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेके लिए राजी नहीं हुए । इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही सिंहासन पर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे । आखिर बारह वर्ष पूरे होने पर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके साथ विवाह करके उन्होंने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया । पूर्व जन्ममें राजा शुद्धोदन राजा दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत और सारिपुत्र लक्ष्मण थे । इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाली बात रामका अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य-घरानोंमें राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका विवाह कर दिया जाता था । वह एक रिवाज था । इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें रामके कथाके तीन रूप देखते हैं एक वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अद्भुत रामायण का और तीसरा बौद्ध जातकका ।

### जैन रामायणके दो रूप

इसी तरह जैन साहित्यमें भी राम-कथा के दो रूप मिलते हैं एक तो पञ्चचरिय और पद्मचरित का तथा दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराण का । पञ्चचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्वमें वर्णित है । उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है—

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम सुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम कैकेयी था । भरत शत्रुघ्न किसके गर्भमें आये थे, वह स्पष्ट नहीं लिखा । केवल 'कस्यां चित् देव्याम्' लिख दिया । सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी, परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर जमीनमें गड़वा दिया । दैवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल ली । इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई । उन्होंने एक वैदिक यज्ञ किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुलवाया । फिर रामके साथ सीताको विवाह दिया । यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा ।

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है । पंचवटी, दण्डक-वन, जटायु, शूर्पणखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है । बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है । रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते हैं । सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है । लक्ष्मण एक असाध्यरोगमें ग्रसित होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्वेग होता है । वे लक्ष्मणके पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजपद पर और सीताके पुत्र अजितजयको युवराजपद पर अभिषेक करके अनेक राजाओं और अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं ।

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि<sup>१</sup> विद्याधर के वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। शत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहलाया। आदि।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा। वह बिलकुल 'पउमचरिय' की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि 'पउमचरिय और पद्मचरित' दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मौजूद थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित करके अपने अपने ग्रथ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसको भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिये। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें भी वही कथा है।<sup>१</sup>

पउमचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराण की कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तर पुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, लव-कुश जन्म आदि नहीं है।

अर्थात् भारतवर्षमें रामकथाकी जो दो तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं। पउमचरिउके कर्ताने कहा है कि उस पद्मचरितको मैं कहता हूँ जो आचार्योंकी परम्परासे चला आ रहा था और नामावली<sup>२</sup> निबद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात् उसमें कथाके प्रधान प्रधान पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी विमल सूरिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिंडिके दूसरे खण्डमें जो कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। उसमें कुछ श्रुतिनिबद्ध था और कुछ आचार्य परम्परागत था।

जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए होंगे तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादि को राक्षस, बसा-रफ-मांसका खाने पीनेवाला और कुम्भकर्णको छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि पर्वत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल डाले जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैंसे आदि जां कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता था।<sup>३</sup> उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपत्तिविरुद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावली निबद्ध ढांचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचार्य परम्परासे आया हुआ कथासूत्र भी था। उसीके आधार पर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी।

उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रविवेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थोंका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोक-प्रचलित कथाको ही स्वतन्त्ररूपसे जैनधर्मके सांचेमें ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है जो बहुत

१ पंपकविकी कनड़ी रामायण और स्वयंभू कविकी अपभ्रंश रामायण पद्मपुराणके आचार पर लिखी गई है। २ "गामावलियणिबद्धं त्रायारियपरंपरागयं सव्वं । वोन्धामि पउमचरियं अह्राणुपुब्बिं समासेण ॥ ८ ॥" ३ देखो पउमचरिय गाथा १०७ से ११६ तक।

प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमलसूरिके ही समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्यको गुरुपरम्परा द्वारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कवि परमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था—‘कविपरमेश्वरनिर्गदितगद्यकथामातृकं पुरोश्चरितम् ।’ और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या कवि परमेष्ठीको ‘वागर्थसंग्रह’ नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलाया है। अतएव मुनिसुव्रत तीर्थकरका चरित्र श्री गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरायने कवि परमेश्वरका स्मरण किया है।

गरज यह कि पउमचरिय और उत्तर पुराणकी रामकथाकी दो धाराएँ अलग-अलग स्वतन्त्र रूपसे निर्मित हुईं और वे ही आगे प्रवाहित होती हुईं हम तक आई हैं। इन दो धाराओंमें गुरु-परम्परा भेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एक धाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पउमचरियकी धारासे परिचित होने पर भी इस ख्यालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह हमारी गुरु-परम्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हें पउमचरियके कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा मालूम हुआ हो।

पउमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैन धर्म दिगम्बर श्वेताम्बर भेदोंमें वि० सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन धर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थमें कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस पर दोनों से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप लगी हो और उससे हम यह निर्णय कर सकें कि विमल सूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे। बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचारधारा है।

### अन्य कथाओंमें भी विविधता

इकहत्तरवें पर्वमें बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रद्युम्न आदिके भवान्तर बतलाये गये हैं इसमें जिनसेन [ द्वितीय ] के हरिवंशपुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक आदिमें भेद पाया जाता है। इसी प्रकार पचहत्तरवें पर्वमें जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें और आचार्य वादीभसिंहके द्वारा लिखित गद्यचिन्तामणि या क्षत्रचूड़ामणिके कथानकमें काफी विविधता है। नाम आदिकमें विविधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमें भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वादीभसिंहने पौराणिक कथानकको काव्यके ढाँचेमें ढालनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर आदिके प्रकरणोंको छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदिमें भेद कैसे हो गया यह समझमें नहीं आता।

### महापुराणका परिमाण

इस महापुराण ग्रन्थका अनुष्टुप् श्लोकोंकी संख्यामें कितना परिमाण है? इसके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं—एक तो गुणभद्राचार्यने ही ग्रन्थके अन्तमें २० हजार श्लोक प्रमाण बतलाया है और दूसरा उसी श्लोकके पाठान्तरमें २४ हजार श्लोक प्रमाण बतलाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर लेना ही उचित होगा। फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय भाग तथा उत्तर पुराणके श्लोकोंका निर्णय निम्न यन्त्रसे किया जाता है—

### आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण

क्रमांक	छन्द नाम	श्लोक संख्या	अक्षर
१.	अनुष्टुप्	१०४१२ × ३२	३३३१८४
२.	हरिणी	१६ × ६८	१०८८
३.	मालिनी	१०६ × ६०	६३६०

क्रमांक	छन्द नाम	श्लोक संख्या	अक्षर
४.	स्रग्धरा	९ × ८४	७५६
५.	शार्दूलविक्रीडित	८१ × ७६	६१५६
६.	उपजाति	१९ × ४४	८३६
७.	इन्द्रवज्रा	४ × ४४	१७६
८.	वसन्ततिलका	८१ × ५६	४५३६
९.	दोषक	८ × ४४	३५२
१०.	द्रुतविलम्बित	३३ × ४८	१५८४
११.	उपेन्द्रवज्रा	५ × ४४	२२०
१२.	वंशस्थ	४ × ४८	१९२
१३.	रुचिरा	१० × ५२	५२०
१४.	पुष्पिताम्रा	१२ × ५०	६००
१५.	अपरवक्त्र	२ × ४६	९२
१६.	चम्पकमाला	२ × ४०	८०
१७.	शालिनी	४ × ४४	१७६
१८.	मौक्तिकमाला	२ × ४४	८८
१९.	पृथिवी	१३ × ६८	८८४
२०.	चामर	१ × ६०	६०
२१.	अज्ञात नाम	४ × ५६	२२४
२२.	प्रहर्षिणी	१३ × ५२	६७६
२३.	भुजंगप्रथात	३१ × ४८	१४८८
२४.	जलधरमाला	१ × ४८	४८
२५.	स्वागता	५ × ४४	२२०
२६.	मन्दाक्रान्ता	७ × ६८	४७६
२७.	मरामयूर	७ × ५२	३६४
२८.	विद्युन्माला	२ × ३२	६४
२९.	समानिका	२ × ३२	६४
३०.	चित्रपदा	३ × ३२	९६
३१.	भुजगशशिभृता	२ × ३६	७२
३२.	रुक्मवती	१ × ४०	४०
३३.	पणव	१ × ४०	४०
३४.	उपस्थिता	१ × ४०	४०
३५.	मयूर सारिणी	१ × ४०	४०
३६.	अज्ञात नाम	२ × ४०	८०
३७.	तोटक	१० × ४८	४८०
३८.	वार्तोमि	१ × ४४	४४
३९.	अमरविलसित	१ × ४४	४४
४०.	रथोद्धता	२ × ४४	८८
४१.	धृताधृता	१ × ४४	४४
४२.	सैनिकाधृता	१ × ४४	४४
४३.	अज्ञात नाम	१ × ४४	४४



क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
४४.	इन्द्रवंशा	१ × ४८	४८
४५.	पुटवृत्त	१ × ४८	४८
४६.	जलोद्धतागति	४ × ४८	१५२
४७.	प्रमिताक्षरा	४ × ४८	१९२
४८.	तामरस	५ × ४८	२४०
४९.	नवमालिनी	५ × ४८	४२०
५०.	प्रसुदितवदना	१ × ४८	४८
५१.	जलधरमाला	६ × ४८	२८८
५२.	मञ्जुभाषिणी	१ × ५२	५२
५३.	अज्ञात नाम	२ × ५२	१०४
५४.	असम्बाधा	१ × ५६	५६
५५.	अपराजिता	१ × ५६	५६
५६.	प्रहरणकलिका	१ × ५६	५६
५७.	इन्दुवदना	१ × ५६	५६
५८.	शशिकला	५ × ६०	३००
५९.	ऋषभगजविलसित	२ × ६४	१२८
६०.	वाणिनी	१ × ६४	६४
६१.	शिखरिणी	४ × ६८	२७२
६२.	वंशपत्रपतित	१ × ६८	६८
६३.	कुसुमितलतावेल्लित	९ × ७२	७२
६४.	अज्ञात छन्द	१ × ७६	७६
६५.	सुवदना	१ × ८०	८०
६६.	अज्ञात छन्द	१ × ८४	८४
६७.	वियोगिनी	४ × ४२	१६८

१०९७९  
समस्त श्लोक

३६५७४८ + ३२  
११४२९अनुष्टुप् श्लोक  
शेष बचे २०

### उत्तरपुराणका परिमाण

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
१.	अनुष्टुप्	७३६० × ३२	२३५५२०
२.	मालिनी	३६ × ६०	२१६०
३.	शाङ्खविक्रीडित	६५ × ७६	४९४०
४.	द्रुतविलम्बित	३ × ४८	१४४
५.	वसन्ततिलका	७० × ५६	३९२०
६.	ऋग्धरा	५ × ८४	४१०
७.	रथोद्धता	२ × ४४	८८
८.	उपजाति	२ × ४४	८८
९.	वंशस्थ	४ × ४८	१९२
१०.	पृथिवी	९ × ६८	७०२

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
११	विशोगिर्णा	१ × ४२	४२
१२	हरिर्णा	१ × ६८	६८
१३	स्वागता	१ × ४४	४४
१४	ग्रहर्षिणी	१ × ५२	५२
१५	शिखरिणी	१ × ६८	६८
		७५६१	२४८४४८ + ३२
			७७६४ अनुष्टुप्
१६	मात्रिक छन्द, आर्या	१४	१४
		७५७५	७७७८

आदिपुराण—११४२९ अनुष्टुप्

उत्तरपुराण—७७७८ अनुष्टुप्

१९२०७

इस प्रकार विचार करने पर महापुराणके तीनों भागोंकी अनुष्टुप् श्लोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस हजार दो सौ सात है और यह भदन्त गुणभद्राचार्यके प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता है। पाठान्तरमें दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं है।

### अनुवाद और आभार-प्रदर्शन

उत्तरपुराणके पाठ-भेद लेनेमें श्री पं० कपूरचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, श्री लक्ष्मणप्रसादजी 'प्रशान्त' साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठीदासजी विद्यार्थी, गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी आदिका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिये इन सबका आभारी हूँ। हस्तलिखित प्रतियोंके वाचनमें श्रीमान् वयोवृद्ध पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आभार मानता हूँ। प्रस्तावना लेखमें श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी एवं पं० के० भुजबली शास्त्री मूढविद्वीके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्न धाराएँ' और 'बंकापुरका परिचय' शीर्षक प्रकरण दिये गये हैं अतः मैं इनका भी आभारी हूँ। इस ग्रन्थके सम्पादन एवं अनुवादमें दो वर्षका लम्बा समय लग गया है। दूरवर्ती रहनेके कारण मैं इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य बनारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मैं उसके संचालक और व्यवस्थापक महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूँ।

महापुराण, पद्मपुराण और हरिवंशपुराण ये तीन पुराण, दिगम्बर जैन प्रथमानुयोग साहित्यके अनूठे रत्न हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका आधुनिक रूपसे सम्पादन तथा अनुवाद हो जाय तो आम जनताका बहुत उपकार हो। इन तीन ग्रन्थोंमें से महापुराणका सम्पादन और अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन तथा अनुवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूँ उसकी प्रति कब होती है।

ग्रन्थ महान् है और मेरी बुद्धि अत्यन्त अल्प है उतने पर भी गृहस्थीके भारसे दबा रहनेके कारण अनेक कार्योंमें व्यस्त रहना पड़ता है इसलिये जहाँ कहीं अनुवादमें शुटि होना संभव है अतः विद्वज्जनोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ।

सागर  
चैत्रशुक्ल पूर्णिमा  
२४८० बी० नि० सं०

विनीत

पद्मलाल साहित्याचार्य

## विषय-सूची

अष्टचत्वारिंशत्तम पर्व		एकषष्टितम पर्व	
अजितनाथचरित	१	धर्मनाथ चरित	१३८
सगर चक्रवर्ती	६	मघवा चक्रवर्तीका चरित	१३४
एकोनपञ्चाशत्तम पर्व		सनत्कुमार चक्रवर्तीका चरित	१३५
सम्भवनाथ चरित	१४	द्विषष्टितम पर्व	
पञ्चाशत्तम पर्व		अपराजित बलभद्र तथा अनन्तवीर्य नारायणके	
अभिर्नन्दननाथ चरित	१९	अभ्युदयका वर्णन	१३८
एकपञ्चाशत्तम पर्व		त्रिषष्टितम पर्व	
सुमतिनाथचरित	२५	शांतिनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका चरित	१७५
द्विपञ्चाशत्तम पर्व		चतुःषष्टितम पर्व	
पद्मप्रभ चरित	३३	कुन्धुनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका चरित	२१३
त्रिपञ्चाशत्तम पर्व		पञ्चषष्टितम पर्व	
सुपाद्वर्चनाथ चरित	३८	अरहनाथ चरित	२१८
चतुःपञ्चाशत्तम पर्व		सुभौम चक्रवर्तीका चरित	२२४
चन्द्रप्रभ चरित	४४	नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और	
पञ्चपञ्चाशत्तम पर्व		निशुम्भ प्रतिनारायणका चरित	२३०
पुष्पदन्त चरित	६६	षट्षष्टितम पर्व	
षट्पञ्चाशत्तम पर्व		मल्लिनाथ चरित	२३३
शीतलनाथ चरित	७१	पद्म चक्रवर्तीका चरित	२३८
सप्तपञ्चाशत्तम पर्व		नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण और बलीन्द्र	
श्रेयान्सनाथ चरित	७९	प्रतिनारायणका चरित	२४१
विजय बलभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण और		सप्तषष्टितम पर्व	
अश्वप्रीव प्रतिनारायणका चरित	८४	मुनिसुव्रत चरित	२२४
अष्टपञ्चाशत्तम पर्व		हरिषेण चक्रवर्तीका चरित	२४८
वासुपुत्र्य चरित	८७	राम बलभद्र, लक्ष्मण नारायण और रावण	
त्रिपृष्ठनारायण, अचल बलभद्र और तारक		प्रतिनारायणका चरित, तदन्तर्गत राजा	
प्रतिनारायणका चरित	९१	सगर, सुलसा, मधुपिङ्गल, राजा वसु,	
एकोनषष्टितम पर्व		क्षीरकदम्बक, पर्वत, नारद आदिका	
विमलनाथ चरित	९७	वर्णन	२५०
धर्म बलभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु		अष्टषष्ट पर्व	
प्रतिनारायणका चरित	१०२	राम, लक्ष्मण, रावण और अणुमान् (हनुमान्)	
संजयन्त, मेह और मन्दर गणधरका चरित	१०५	का चरित	२७८
षष्टितम पर्व		एकोनसप्ततितम पर्व	
अनन्तनाथ चरित	१२१	नमिनाथ चरित	३३१
सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और		जयसेन चक्रवर्ती	३३७
मधुसूदन प्रतिनारायणका चरित	१२४		

सप्ततितम पर्व		षट्सप्ततितम पर्व	
नेमिनाथ चरित, तदन्तर्गत श्रीकृष्णकी विजय का वर्णन	३३९	राजा चेटक, चेलना आदिका वर्णन जीवन्धर चरित	४८३ ४९४
एकसप्ततितम पर्व		षट्सप्ततितम पर्व	
श्रीकृष्ण, बलदेव, श्रीकृष्णकी पट्टरानियों आदिके भवान्तरों का वर्णन	३७५	राजा श्वेतवाहनके मुनिपदका वर्णन अन्तिम केवली जग्गु स्वामीका वर्णन	५३० ५३१
द्विसप्ततितम पर्व		षट्सप्ततितम पर्व	
नेमिनाथ तीर्थकर, प्रद्युम्नकुमार, पद्म बलभद्र, कृष्ण, जरासन्ध और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का चरित	४०७	प्रीतिकर मुनिका वर्णन उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका विशिष्ट वर्णन करते हुए कल्कियोंका वर्णन	५४३ ५५५ ५५७
त्रिसप्ततितम पर्व		षट्सप्ततितम पर्व	
पार्श्वनाथ चरित	४२९	प्रलय कालका वर्णन आगामी तीर्थकर आदि शालाकापुरुषोंका वर्णन	५५९ ५६१
चतुःसप्ततितम पर्व		षट्सप्ततितम पर्व	
वर्धमान स्वामीका चरित	४४३	महावीर भगवान्की शिष्य-परम्परा	५६३
सती चन्दनाका चरित	४६६	ग्रन्थका समारोप	५६६
राजा श्रेणिक और अभयकुमारका वर्णन	४६९	प्रशस्ति	५७२
		टीकाकारकी प्रशस्ति	५७९



# महापुराणम्

## तदन्तर्गतं श्रीमद्-गुणभद्रविरचितम्

### उत्तरपुराणम्

#### अष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व

श्रीमान् जिनोऽजितो जीयाद् यद्द्वचास्यमलान्यलम् । क्षालयन्ति जलानीव विनेयानां मनोमलम् ॥ १ ॥  
पुराणं तस्य वक्ष्येऽहं मोक्षलक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भव्यानामव्याहृतमहोदयः ॥ २ ॥  
इह अन्ममति द्वीपे विदेहे प्राचि विश्रुते । सीतासरिदपागभागे वत्साख्यो विषयो महान् ॥ ३ ॥  
सुसीमानगरं तस्मिन् विभूत्या विस्मयावहम् । नाज्जास्य नृपतिः प्राभूत् प्रभुर्विमलवाहनः ॥ ४ ॥  
गुणा गुणार्थिभिः प्रार्थ्या न्यायोऽयं चित्रमन्न तत् । गुणाः प्रणयिनः सर्वे स्वयं तं वृण्वते स्म यत् ॥ ५ ॥  
शक्तिसिद्धिप्रयोपेतो यथान्यायमतन्त्रितः । प्रजाः स पालयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥  
धर्मादयः<sup>१</sup>स्ततोऽर्थोऽर्थात् कामो<sup>२</sup>ऽये<sup>३</sup>ऽनिष्ठिते,<sup>४</sup>न तौ । इति स्मरन् बभूवासौ जैनधर्मेण धार्मिकः ॥७॥  
स कदाचित् समुत्पन्नबोधिः सञ्ज्वलनोदयी । स्वगतं<sup>५</sup> जातसंवेदो रहस्येवमचिन्तयत् ॥ ८ ॥

अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरङ्ग लक्ष्मी और अष्टप्रातिहार्य रूप बहिरङ्ग लक्ष्मीसे युक्त वे अजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोष—पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित वचन, जलकी तरह भव्य जीवोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मलको धो डालते हैं ॥ १ ॥ मैं उन अजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन महा-भ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी लक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ इस जम्बूद्वीपके अतिशय प्रसिद्ध पूर्वविदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश है ॥ ३ ॥ उसमें अपने वैभवसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर है । किसी समय इस सुसीमा नगरका राजा विमलवाहन था जो बड़ा ही प्रभावशाली था ॥ ४ ॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्चर्यकी बात थी कि स्नेहसे भरे हुये सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे ॥ ५ ॥ वह राजा, उत्साह शक्ति, मन्त्रशक्ति और फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और फल-सिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आलस्यरहित था और अपनी सन्तानके समान न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था ॥ ६ ॥ 'धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थकी प्राप्ति होती है और अर्थसे काम—अभिलषित भोगोंकी प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अर्थ और काम नहीं मिलते हैं' यही सोचकर वह राजा जैनधर्मके द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था ॥ ७ ॥ किसी समय उस राजाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय दूर होकर सिर्फ संज्वलन कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई और वह संसारसे विरक्त हो मन ही मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने लगा ॥ ८ ॥

१ वणते क०, ख०, ग०, घ० । २ पुण्यम् । ३ पुण्ये । ४ अपूर्णों । ५ अर्थकामौ न भवतः ।  
६ स्वागतं ग० ।

आयुषो वसतिः काये कायस्थस्य <sup>१</sup>ममाप्यलम् । आयुर्जलं <sup>२</sup>गलत्याशु मितकालघटीधृतम् ॥ ९ ॥  
 ततो गलति निःशेषं न यावत्तावदेव हि । वत्स्याम्युत्सह्य सन्मार्गे जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥  
 इत्याशापाशान्मच्छिद्य बहुभिः सह निस्पृहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षालक्ष्म्या वशीकृतः ॥ ११ ॥  
 तपस्यन् सुचिरं तीव्रं विस्पष्टैकादशाङ्गकः । <sup>३</sup>नाम्नोऽन्त्यमेप पुण्यात्मा स्वकार्पाङ्गावनापरः ॥ १२ ॥  
 आयुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्ठिषु । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुरयात् स <sup>४</sup>विजयं जयी ॥ १३ ॥  
 तत्रादायाद्यसंस्थानं <sup>५</sup>शुक्लेश्याद्वयान्वितः । हस्तोच्छ्रायं शुभं देहं सुवर्णादिचतुष्टयम् ॥ १४ ॥  
 मातैः षोडशभिः पञ्चदशभिश्चोच्छ्रवसन् दिनैः । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दै <sup>६</sup>मानसाहारमाहरन् ॥ १५ ॥  
 निजतेजोऽवधिष्यात्सलोकनालिर्निजावधिः <sup>७</sup> । क्षेत्रोत्थापिबलस्तत्पूरककायजविक्रियः ॥ १६ ॥  
 सातपञ्चशुभैः सौख्यमप्रवीचारमन्वभूत् । सप्रवीचारसत्सौख्यात्तदनन्तगुणाधिकम् ॥ १७ ॥  
 तस्मान्महर्षी <sup>८</sup>महाभागे स्वर्गाद्गौरागमिष्यति । प्रागेव भावनोपात्ततीर्थकृन्नामपुण्यतः ॥ १८ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराभिपः । इक्ष्वाकुर्जितशश्चाख्यः ख्यातो गौत्रेण काश्यपः ॥ १९ ॥  
 तस्य शक्राज्ञया गेहे पण्मासान् प्रत्यहं मुहुः । रथान्यैलविल <sup>९</sup>स्तित्तः कोटीः सार्धं न्यपीपतत् ॥ २० ॥  
 ज्येष्ठे मासि <sup>१०</sup>कलाशेषशशिरोगिण्युपागमे । मुहूर्ताद् ब्रह्मणः पूर्वं <sup>११</sup>दरनिद्राविलेक्षणम् ॥ २१ ॥

‘इस जीवका शरीरमें जो निवास हो रहा है वह आयुर्कर्मसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीरमें स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घाड़ियोंमें धारण किया हुआ मेरा आयुर्रूपी जल शीघ्र ही गलता जाता है—उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह आयुर्रूपी जल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति करूँगा’ ॥ ९-१० ॥

इस प्रकार आशांरूपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निस्पृह हो गया तथा स्वाधीन होनेपर भी अनेक राजाओंके साथ दीक्षारूपी लक्ष्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया गया अर्थात् अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥ ११ ॥ जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, जिसे ग्यारह अङ्गोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके प्रकाशसे जगमगा रही है और जो दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमें निरन्तर तत्पर रहता है ऐसे इस विमलवाहनने तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया ॥ १२ ॥ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने-वाला वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पञ्चपरमेष्ठियोंमें चित्त स्थिरकर—समाधिमरण कर तैंतीस सागरकी आयुका धारक हो विजय नामक अनुत्तरविमानमें पहुँचा ॥ १३ ॥ वहाँ वह द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्लेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने और पन्द्रह दिन बाद उच्छ्वास लेता था, तैंतीस हजारवर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अर्थात् लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी पदार्थोंको वह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाड़ीको उखाड़कर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी, वह उतने ही क्षेत्रमें अपने शरीरकी विक्रिया भी कर सकता था और सुखस्वरूप पंचेन्द्रियोंके द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ॥ १४-१७ ॥ उस महाभागके स्वर्गसे पृथिवीपर अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे ही प्रतिदिन तीर्थकर नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अधिपति इक्ष्वाकुवंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशत्रुके घरमें इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वृष्टि की ॥ १८-२० ॥ तदनन्तर जेठ महीनेकी अमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब

१ ममाप्यरं ख०। ममापरम् ग०, क०, घ०। २ गलत्यशु क०, ख०, ग०, घ०। ३ नाम्नोऽन्त्यं शेष क०, ख०, ग०, घ०। ४ विजयनामानुत्तरविमानम्। ५ द्रव्यतो भावतश्च शुक्लेश्यासहितः। ६-मनसाहार-क०, ख०, ग०, घ०। ७ निजावधि-क्षेत्रो क०, ग०, घ०। ८ महाभागस्याप्राद्गौरागमिष्यतः क०, ख०, ग०। ९-कुबेरः। १० इषञ्जिद्राकलुषितलोचनाम्।

देवीं विजयसेनाख्यां षोडशस्वप्नपूर्वकम् । प्रविशन्तं विलोक्यात्मवक्त्राब्जं <sup>१</sup>गन्धसिन्धुरम् ॥ २२ ॥  
 प्रातः पृष्टवतीं स्वप्नान् देशावधिविलोचनः । जितशत्रुर्महाराजः फलान्येषामवबुधत् ॥ २३ ॥  
 विजयादागतं देवं तद्रभं<sup>२</sup> स्फटिकामलम् । विमलानुगासन्ज्ञान<sup>३</sup>नेत्रत्रितयभास्वरम्<sup>४</sup> ॥ २४ ॥  
 दशम्यां माघमासस्य शुक्लपक्षे प्रजेश्वरम् । प्रजेशयोगे नीतिवौ महोदयमसूत सा ॥ २५ ॥  
 सागरोपमकोटीनां लक्षाः पञ्चाशदुत्तरे । मुक्तिमाद्ये जिने याते तदभ्यन्तरजीविनः ॥ २६ ॥  
 तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृतेः । जन्माभिषेककल्याणमजिताख्यामकुर्वत ॥ २७ ॥  
 द्वासप्ततिगुणा लक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम् । चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधो धनुषां मतः ॥ २८ ॥  
 भर्तुः सुवर्णवर्णस्य पादे<sup>५</sup> स्वस्यायुषो गते । अजितस्य जिताशेषबाह्याभ्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥  
 पूर्वाणां लक्षया हीनं भागत्रितयमायुषः । पूर्वाङ्गमपि नार्पत्यं<sup>६</sup> निर्जितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥  
 त्वया सम्भोगसौख्यस्य पर्यन्तोऽयं ममेति व । राज्यलक्ष्म्या परिष्वक्तः श्लाघ्यान् भोगानभुङ्क्त सः ॥ ३१ ॥  
 स कदाचित्सुखासीनः सौधघृष्टे विशां पतिः । उल्कामलोकतानवपां<sup>७</sup> जल्पन्तीमध्रुवां श्रियम् ॥ ३२ ॥  
 विषयेषु तदैवासौ विदां निर्विदिदे वरः । लक्ष्मीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेमं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥  
 ब्रह्मलोकात्तदाभ्येत्य <sup>८</sup>सुराः सारस्वतादयः । मुनीश्वराः प्रशस्त्योच्चैस्तत्तदेवान्ववादिषुः ॥ ३४ ॥

ब्राह्ममुहूर्तके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे । उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई अल्प निद्रासे कलुषित हो रहे थे । सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे मुखकमलमें एक मद्योन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है । जब प्रातःकाल हुआ तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फल पूछा और देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले महाराज जितशत्रुने उनका फल बतलाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है । वह पुत्र, निर्मल तथा पूर्वभवसे साथ आनेवाले मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान है ॥ २१-२४ ॥ जिस प्रकार नीति, महान् अभ्युदयको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजयसेनाने माघमासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापति तीर्थंकर भगवान्को जन्म दिया ॥ २५ ॥ भगवान् आदिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर वर्ष बीत चुके तब द्वितीय तीर्थंकरका जन्म हुआ था । इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । जन्म होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थंकर भगवान्का देवोंने मेरुपर्वतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया और अजितनाथ नाम रक्खा ॥ २६-२७ ॥ इन अजितनाथकी बहत्तर लाख पूर्वकी आयु थी और चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी । अजितनाथ स्वामीके शरीरका रङ्ग सुवर्णके समान पीला था । उन्होंने बाह्य और आभ्यन्तरके समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली थी । जब उनकी आयुका चतुर्थांश अर्थात् बहत्तर लाख पूर्व प्रमाणकाल बीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ । उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूर्यका तेज जीत लिया था । एकलाख पूर्व कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक पूर्वाङ्गतक उन्होंने राज्य किया । 'देखूँ, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता है या मेरा ही अन्त होता है' इस विचारसे राज्यलक्ष्मीके द्वारा आलिङ्गित हुए भगवान् अजितनाथने प्रशंसनीय भोगोंका अनुभव किया ॥ २८-३१ ॥

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ॥ ३२ ॥ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयोंसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि जिन्हें शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होनेवाला है उन्हें लक्ष्मीको छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ? ॥ ३३ ॥ उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों अर्थात् लौकान्तिक देवोंने ब्रह्मस्वर्गसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की ॥ ३४ ॥

१ मत्तहस्तिनम् । २ मतिश्रुतावधिज्ञानानि एव नेत्रत्रितयम् । ३ भास्करम् ग० । ४ चतुर्थभागे । ५ नृपतेः कार्यं नार्पत्यं राज्यम् । ६ 'जल्पन्तीमध्रुवां श्रियम्' इति पाठः शुद्धो भाति । ७ सौराः क०, ख०, ग०, घ० ।



तेषां तदुदितं तस्य लोकस्येवांशुमालिनः । स चक्षुषो यथार्थावलोककेऽगात्सहकारिताम् ॥ ३५ ॥  
 सुतायाजितसेनाय राज्याभिषेकपूर्वकम् । दत्त्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्यं <sup>१</sup>भोज्यमिवोद्भितम् ॥ ३६ ॥  
 लब्धनिष्क्रान्तिकल्याणमहाभिषवसम्मदः । सुप्रभाशिविकारूढो ब्यूढो नरखगामरैः ॥ ३७ ॥  
 माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने सप्तपर्णद्विमसमीपगः ॥ ३८ ॥  
 अपराह्णे सहस्रेण राज्ञामाज्ञाविधायिनाम् । सार्धं <sup>२</sup>षष्ठोपवासेन <sup>३</sup>समास्थित स संयमम् ॥ ३९ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नो द्वितीयेऽङ्घ्रि प्रविष्टवान् । साकेतं दानिनां तोषमपूर्वमुपपादयन् ॥ ४० ॥  
 तत्र <sup>४</sup>ब्रह्मा महीपालस्तस्मै दानं <sup>५</sup>यथाक्रमात् । दत्त्वा सातादिभिः पुण्यैः <sup>६</sup>सहापाश्र्वर्यपञ्चकम् ॥ ४१ ॥  
 छाद्यस्थेन नयन्नदानौषे द्वादशशुद्धधीः । शुद्धैकादशयहःप्रान्ते<sup>७</sup> रोहिण्यामासतामगात् ॥ ४२ ॥  
 सिंहसेनादयस्तस्य नवतिः स्युर्गणाधिपाः । खपञ्चसप्तवह्युकप्रमाणाः पूर्वधारिणः ॥ ४३ ॥  
 शिक्षकाः स्रद्धयर्चकद्विप्रमागणनाः क्रमात् । शून्यद्वयचतुरन्ध्रमितास्त्रिज्ञानलोचनाः ॥ ४४ ॥  
 केवलागवमास्तत्र ते सहस्राणि विशतिः । चतुःशतैः सहस्राणां विशतिर्विकृतर्द्धयः ॥ ४५ ॥  
 शून्यपञ्चचतुर्द्वयैकमनःपर्ययवीक्षणाः । शून्यद्वयचतुर्द्वयैकैस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥  
 सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो लक्षमेकं तपोधनाः । प्रकुब्जाचार्यिकाः शून्यचतुष्कद्वयमिसम्मिताः ॥ ४७ ॥  
 श्रावकास्त्रीणि लक्ष्याणि श्राविकाः <sup>१</sup>पञ्चलक्षिकाः । देवा देव्यस्त्वसङ्ख्याताः सङ्ख्यातो द्वादश गणः ॥ ४८ ॥  
 एवं द्वादशभिर्देवो गणैरभिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्भेतुफलभेदान् प्रपञ्चयन् ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रोंसे हैं परन्तु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है उसी प्रकार भगवान् यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोंका कहना उनके यथार्थ अवलोकनमें सहायक हो गया ॥ ३५ ॥ उन्होंने जूँठनके समान विवेकी मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्याभिषेकपूर्वक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ३६ ॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी महाभिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर सहेतुक वनकी ओर चले । उनकी पालकीको सर्वप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याधरोंने और फिर देवोंने उठाया था । माघमासके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सहेतुक वनमें सप्तपर्ण वृक्षके समीप जाकर सायंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण कर लिया—दीक्षा ले ली ॥ ३७-३९ ॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये और दूसरे दिन दानियोंको अपूर्व आनन्द उपजाते हुए साकेतनगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥ वहाँ ब्रह्मा नामक राजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतियोंका बन्धकर पञ्चाश्र्वर्य प्राप्त किये ॥ ४१ ॥ शुद्धज्ञानके धारक भगवान्ने बारहवर्ष ब्रह्मस्थ अवस्थामें बिताये । तदनन्तर पौषशुक्ल एकादशीके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमें आप्तपना प्राप्त किया अर्थात् लोकालोकावभासी केवलज्ञानको प्राप्तकर सर्वज्ञ हो गये ॥ ४२ ॥ उनके सिंहसेन आदि नब्बे गणधर थे । तीन हजार सात सौ पचास पूर्वधारी, इक्कीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार केवलज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाञ्छिवाले, बारह हजार चार सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और बारह हजार चार सौ अनुत्तरवादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुब्जा आदि तीन लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, और असंख्यात देव देवियाँ थीं । इस तरह उनकी बारह सभाओंकी संख्या थी ॥ ४३-४८ ॥ इस प्रकार बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान् अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तारसे कथन करते

१ उच्छिष्ट-भोजनमिव । २ दिनद्वयोपवासेन । ३ अङ्गीचकार । ४ मनःपर्ययज्ञानसहितः ।  
 ५ ब्रह्ममहीपाल क०, ग०, घ० । ६ यथाक्रमम् क०, ख०, ग० । ७ सह सार्धम्, आप लेभे, आश्र्वर्यपञ्चकम्  
 पञ्चाश्र्वर्यान् इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग० । ९ पञ्चलक्षकाः क०, ख०, ग०, घ० ।

## मालिनी

समवसरणलक्ष्म्या वीक्ष्यमाणः कटाक्षैः

सुकृतविकृतचिह्नैरष्टभिः प्रातिहार्यैः ।

अविहितविहितारिः प्राज्यवैराग्यभावः

स्वपरगुरुकृतार्थप्रार्थ्यसम्यक्प्रसिद्धः<sup>१</sup> ॥ ५० ॥

## शार्दूलविक्रीडितम्

पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति वा दुर्वादिभिश्चाखिलै-

र्नामान्वर्थमवासवानिति विदां स्तोत्रस्य पात्रं भवन् ।

आर्यक्षेत्रमशेषमेव विहरन् सम्प्राप्य सम्मेदकं

स्थित्वा<sup>२</sup> दिव्यनिनादयोगरहितस्तत्रैव पञ्चद्वयम् ॥ ५१ ॥

कुर्वाणः समयं प्रति प्रकृतिषु<sup>३</sup> स्त्वावं गुणासङ्ख्यया<sup>४</sup>

स्थित्यादि च विधातयन् स्वमितिकं दण्डादिकं वर्तयन् ।

सूक्ष्मध्याननिरुद्धयोगविभवो विरिलष्टदेहत्रय-

स्तुर्यध्यानसमाश्रयात्समुपयंश्चाष्टौ गुणान् शुद्धिभाक् ॥ ५२ ॥

## आर्या

चैत्रज्योत्स्नापक्षे पञ्चम्यां रोहिणीगते चन्द्रे ।

प्रतिमायोगं विभूत्पूर्वाह्णेऽवाप मुक्तिपदम् ॥ ५३ ॥

## द्रुतविलम्बितम्

विमलवाहनमाहवदुर्द्धरं दुरितदूरतपश्चरणोद्यतम् ।

सुखनिधिं विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम् ॥ ५४ ॥

थे ॥ ४६ ॥ उन अजितनाथ स्वामीको समवसरण लक्ष्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित चिह्नस्वरूप आठ प्रातिहार्योंसे युक्त थे, उन्होंने कर्मरूपी शत्रुओंसे घातिया कर्मरूप शत्रुओंको अपने आधीन कर लिया था—जीत लिया था और अघातिया कर्मरूप शत्रुओंको अभी आधीन नहीं कर पाया था, उनकी वैराग्यपरिणति अत्यन्त बढ़ी हुई थी, वे निज और परके गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्योंके प्रार्थनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥ ५० ॥ 'यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते हैं और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हैं इसलिए 'अजित' इस सार्थक नामको प्राप्त हुए हैं' इस प्रकार विद्वानोंकी स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान् अजितनाथने समस्त आर्यक्षेत्रमें विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलपर पहुँचकर दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मासतक वहींपर स्थिर निवास किया ॥ ५१ ॥ उस समय उन्होंने प्रतिसमय कर्म-प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणी निर्जरा की, उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर आदि लोकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगोंका वैभव नष्ट किया, औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंके सम्बन्धको पृथक् किया, और सातिशय विशुद्धताको प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक चतुर्थ शुक्लध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥ ५२ ॥ इस प्रकार चैत्रशुक्ल पञ्चमीके दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, प्रातःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान् अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥ ५३ ॥

जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुर्जेय रहे, फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत रहे, तदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन्द्रको हे भव्यजीवो !

## शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं षोडशभावनाहितमहापुण्योदयापादकः

सद्धयानास्त्रलकर्मजालमखिलं निर्मूलयश्चिर्मलः ।

धर्मः शर्मपरम्परां प्रविदधद्धत्ते शिवे शाश्वते

तस्माद्धर्ममुपाद्ध्यमुज्जितमदाः शुद्धासंबुद्धं बुधाः ॥ ५५ ॥

तीर्थकृत्सु द्वितीयोऽपि <sup>१</sup>योऽद्वितीयपथस्तुतः । स विधेयात् पुराणोरुमार्गानिर्वहणं कवेः ॥ ५६ ॥

तत्तीर्थे सगराभिख्यो द्वितीयश्चक्रवर्तिनाम् । अभूत् पुराणमेतस्य शृणु श्रेणिक धीधन ॥ ५७ ॥

द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापागभागाभूपणे । विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिपः ॥ ५८ ॥

जयसेनो जनैः सेष्यो जनसेनास्य बल्लभा । रतिषेणस्तयोः सूनुर्धृतिषेणश्च ताबुभौ ॥ ५९ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ जित्वा सदा भातः कृतोदयौ । पितरौ च (न) <sup>३</sup>मरुन्मार्गपृथिव्यौ वा ततः पृथक् ॥ ६० ॥

कदाचिद्रतिषेणोऽभूत् कृतान्तमुखगङ्गरे । केनापि हेतुना किं वा न मृत्योर्हेतुतां व्रजेत् ॥ ६१ ॥

<sup>३</sup>सजानि जयसेनाख्यं <sup>४</sup>सलतं चामरद्रुमम् । <sup>५</sup>शोकाशनिरवाधिष्ट तन्मृत्युघननिर्गतः ॥ ६२ ॥

<sup>६</sup>प्रलयः प्राप्तकालस्तावाल्लिङ्गं यमाग्रगः । लब्धरन्ध्रा न तिष्ठेयुरकृत्वापकृतिं द्विपः ॥ ६३ ॥

भिषक्प्रायोर्जितोपायैः शनैः संलब्धचेतनौ । गुरुणा गुरुणेवैष तेन दुःखेन बोधितः ॥ ६४ ॥

विग्रहं तद्गृहं मत्वा निगृहीतुं कृताग्रहः । हन्तुं यमं समुद्युक्तस्तद्धि युक्तं मनस्विनाम् ॥ ६५ ॥

नमस्कार करो ॥ ५४ ॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओं से महापुण्य तीर्थकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कर्मोंके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, सुखकी परम्परा को करनेवाला है और नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा आप्तोपज्ञ धर्मकी हे विद्वज्जनो ! मद्रहित होकर उपासना करो ॥ ५५ ॥ जो तीर्थकरोंमें द्वितीय होनेपर भी श्रुतके मार्गमें अद्वितीय हैं—अनुपम हैं वे अजितनाथ भगवान्, कविको पुराणका विशाल मार्ग पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥ ५६ ॥

## सगर चक्रवर्तीका वर्णन

द्वितीय तीर्थकर अजितनाथके तीर्थमें सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे बुद्धिमान् श्रेणिक ! तू अब उसका चरित्र सुन ॥ ५७ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्सकावती नामका देश है । उसमें पृथिवी नगरका अधिपति, मनुष्योंके द्वारा सेवनीय जयसेन नामका राजा था । उसकी स्त्रीका नाम जयसेना था । उन दोनोंके रतिषेण और धृतिषेण नामके दो पुत्र थे ॥ ५८-५९ ॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमाको जीतते हुए शोभित होते थे । उनके माता-पिता आकाश और पृथिवीके समान उनसे कभी पृथक् नहीं रहते थे अर्थात् स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे ॥ ६० ॥ एक दिन किसी कारणवश रतिषेण की मृत्यु हो गई सो ठीक ही है क्योंकि मृत्युका कारण क्या नहीं होता ? अर्थात् जब मरणका समय आता है तब सभी मृत्युके कारण हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ रतिषेणकी मृत्युरूपी मेघसे निकले हुए शोक-रूपी वज्रने लतासहित कल्पवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनको बाधित किया—दुखी किया ॥ ६२ ॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाली मूर्च्छाने उन दोनोंका आलिंगन किया अर्थात् वे दोनों मूर्च्छित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र प्राप्त करनेवाले शत्रु अपकार किये बिना नहीं रहते ॥ ६३ ॥ जब वैद्यजनोंके श्रेष्ठ उपायोंके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो बृहस्पतिके समान श्रेष्ठ गुरुने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समझाया ॥ ६४ ॥ तदनन्तर वह इस शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निग्रह करनेके लिए आग्रह करने लगा । और यमराजको मारने

१ योऽद्वितीयः पथि श्रुते क०, ग० । पथि स्तुते ख०, घ० । २ आकाशपृथिव्यौ । ३ सभार्यम् । ४ लतोपेतं कल्पवृक्षमिव । ५ शोकवज्रम् । ६ मूर्च्छां ।

जीर्णपर्णवदागण्य प्राणप्रान्तान् परिग्रहान् । राज्यभोज्ये नियुज्यार्यं धृतिषेणं १धृतायतिम् ॥ ६६ ॥  
यशोधरगुरुद्विष्टं शुद्धमध्वानमाप सः । नृपैर्महारुताख्येन बहुभिर्मेथुनेन च ॥ ६७ ॥  
कालान्ते कृतसंन्यासविधिः कल्पेऽन्तिमेऽच्युते । देवो महाबलो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥  
महारुतोऽपि तत्रैव मणिकेतुः सुरोऽजनि । आवयोर्योऽवतीर्णः प्राक् तस्यान्यो बोधको भवेत् ॥ ६९ ॥  
इति तत्र तयोरारासीदन्योन्यं सम्प्रधारणम् । तत्र द्वाविंशतिसागरोपमाण्यामरं सुखम् ॥ ७० ॥  
अनुभूयात्र साकेतनगरे २कौशले नृपः । समुद्रविजयस्तस्य सुबाला रमणी तयोः ॥ ७१ ॥  
महाबलोऽभवत्सूनुरिक्ष्वाकुः सगराङ्गयः । पूर्वाणां सप्ततिर्लक्षाः तस्यायुःपरमावधिः ॥ ७२ ॥  
चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधेन धनूंषि सः । सर्वलक्षणसम्पूर्णाः श्रीर्माश्रामीकरच्छविः ॥ ७३ ॥  
कुमारत्वे दशाष्टौ च लक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः । महामाण्डलिकत्वं च तस्य तावत्प्रमामितम् ॥ ७४ ॥  
तदोदपादि षट्खण्डभूचक्राक्रमणक्षमम् । चक्रं कीर्तिंश्च ३दिव्यचक्रमाक्रमन्त्यात्तविक्रमा ॥ ७५ ॥  
आद्यचक्रिवदेपोऽपि कृत्वा दिग्विजयं चिरम् । गृह्णन् तत्सारवस्तूनि सर्वान् स्वाज्ञामजिग्रहत् ॥ ७६ ॥  
ततो निवृत्त्य साकेतं साम्राज्यश्रीनिकेतनम् । भोगान् दशाङ्गान् निर्भङ्गं निर्विंशन्नावसन् सुखम् ॥ ७७ ॥  
तस्य षष्ठिसहस्राणि पुत्राणां कृतिनोऽभवन् । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यञ्जिता गुणाः ॥ ७८ ॥  
तस्मिन् सिद्धिवने श्रीनाम्नश्चतुर्मुखयोगिनः । अन्यदाखिलभास्यासीत् केवलाधिगमस्तदा ॥ ७९ ॥  
तत्कल्याणस्य देवेन्द्रैर्मणिकेतुः सहागतः । महाबलोऽजनि क्वेति सोपयोगोऽवधिखिषा ॥ ८० ॥

के लिए उद्यत हुआ सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६५ ॥ वह प्राणोंका अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिग्रहोंको पुराने पत्तोंके समान समझने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आर्य धृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक राजाओं और महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमार्गको प्राप्त हुआ—दीक्षित हो गया ॥ ६६-६७ ॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे अन्तिम अच्युत स्वर्गमें महाबल नामके देव हुए ॥ ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी उसी स्वर्गमें मणिकेतु नामका देव हुआ । वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हमलोगोंके बीच जो पहले पृथिवीलोकपर अवतीर्ण होगा—जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समझानेवाला होगा—संसारका स्वरूप समझाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा । महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कौशल देशकी अयोध्या नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी राजा समुद्र-विजय और रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हुआ । उसकी आयु सत्तरलाख पूर्वकी थी । वह चारसौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान् था तथा सुवर्णके समान कान्तिसे युक्त था ॥ ६९-७३ ॥ उसके अठारह लाख पूर्व कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए । तदनन्तर महामण्ड-लेश्वर पद प्राप्त हुआ । उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डोंकी पृथिवीके समूहपर आक्रमण करनेमें समर्थ चक्रवर्त्त प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥ ७४-७५ ॥ प्रथम चक्रवर्त्ती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया, वहाँकी सारपूर्ण वस्तुओंको ग्रहण किया और सबलोगोंको अपनी आज्ञा ग्रहण कराई ॥ ७६ ॥ दिग्विजयसे लौटकर वह साम्राज्य-लक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमें वापिस आया और निर्विघ्न-रूपसे दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने लगा ॥ ७७ ॥ उस पुण्यवान्के साठ-हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रोंके आकारमें उसके गुण ही प्रकट किये हों ॥ ७८ ॥ किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुर्मुख नामके मुनिराज पधारे थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥ ७९ ॥ उनके कल्याणोत्सवमें अन्य देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव भी आया था । वहाँ आकर उसने जानना चाहा कि हमारा

सगरश्चक्रवर्त्येष शेषैः पुण्यैरभूदसौ । इति बुद्ध्वा विशां नाथमुपगम्येदमब्रवीत् ॥ ८१ ॥  
 स्मरस्यावां वदिव्यावस्तत्त्वं कल्पेऽच्युताङ्गये । प्राग्महीगतमन्नस्थो <sup>१</sup> बोधयत्वावयोरिति ॥ ८२ ॥  
 मनुष्यजन्मनः सारं साम्राज्यं चिरमन्वभूत् । किं भोगैर्भोगिभोगाभैर्भोगैर्भयैर्भयैर्भावहैः ॥ ८३ ॥  
 उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्तावित्यस्य विमुखोऽभवत् । चक्रवर्ती स सिद्धयध्वा काललब्ध्या विना कुतः ॥ ८४ ॥  
 ज्ञात्वा तत्तस्य वैमुख्यमन्यालापैर्न्यवर्तयत् । हितेनापि न कुर्वन्ति विप्रियं क्रमवेदिनः ॥ ८५ ॥  
 धिग्भोगानीदृशान्त्वोक्तेरेवं व्यावयतोऽवदान् । दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद् दिवम् ॥ ८६ ॥  
 उपायमेकमालोच्य ततो प्राहयितुं पुनः । मणिकेतुर्महीपालमवतीर्थं महीतलम् ॥ ८७ ॥  
 आलम्ब्य लक्षणैर्लक्ष्यं कान्त्येन्दुं भानुमाभया । वामेन वपुषा कामं निर्जित्य विजितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥  
 चारणत्वं समासाद्य भावयन् संयमं परम् । तस्यौ जिनेन्द्रान् वन्दित्वा सगरस्य जिनालये ॥ ८९ ॥  
 इष्ट्वा तं विस्मयापन्नो <sup>२</sup> वयस्यस्मिद्धिदं कुतः । तपस्तवेति पपृच्छ नृपः <sup>४</sup> सोऽप्यन्यथाब्रवीत् ॥ ९० ॥  
 यौवनं जरसा प्राप्त्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम् । हेयः कायोऽशुचिः पापी दुर्धरो दुःखभाजनम् ॥ ९१ ॥  
 सर्वदानिष्टसंयोगो वियोगश्चेष्टवस्तुभिः । गतोऽनादिर्भवत्वर्तः पुनश्चानन्त एव सः ॥ ९२ ॥  
 कर्मारिभिरिदं सर्वं ददध्वा तानि तपोऽग्निना । धास्याम्यनश्चरीं शुद्धिं यथाहं कनकोपलः ॥ ९३ ॥

मित्र महाबल कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इच्छा होते ही उसने अवधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिया कि वह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है । ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा और कहने लगा ॥ ८०-८१ ॥ कि 'क्यों स्मरण है ? हम दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा करते थे कि हमलोगोंके बीच जो पहले पृथिवीपर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहनेवाला साथी समभावगा ॥ ८२ ॥ हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभूत, साम्राज्यका तू चिरकाल तक उपभोग कर चुका है । अब सर्पके फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्या लाभ है ? हे राजन् ! अब मुक्तिके लिए उद्योग कर । मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि मुक्तिका मार्ग काललब्धिके बिना कहाँसे मिल सकता है ? ॥ ८३-८४ ॥ सगर चक्रवर्तीकी विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सो उचित ही है क्योंकि अनुक्रमको जाननेवाले पुरुष अहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ॥ ८५ ॥ 'इन भोगोंको धिक्कार है जो कि मनुष्योंको इस प्रकार अपने कहे हुए वचनोंसे च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और बड़ी कठिनाईसे छोड़े जाते हैं' इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव स्वर्ग चला गया ॥ ८६ ॥ फिर कुछ समय बाद मणिकेतु देव राजाको तप ग्रहण करानेका एक दूसरा उपाय सांचकर पृथिवीपर आया ॥ ८७ ॥ उसने चारण श्रद्धिधारी मुनिका रूप बनाया । वह मुनि अनेक लक्षणोंसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रभासे सूर्यको और सुन्दर शरीरसे कामदेवको जीत रहा था । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवान्की वन्दनाकर सगर चक्रवर्तीके चैत्यालयमें जा ठहरा ॥ ८८-८९ ॥ उस चारण मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों धारण किया है ? चारण मुनिने भी झूठमूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापाके द्वारा प्राप्त है—प्रसनेके योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चूँकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है, और दुःखोंका पात्र है अतः छोड़नेके योग्य है । सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग और इष्ट वस्तुओंका वियोग होता रहता है । यह संसार रूपी भँवर, अनादि काल से बीत रही है फिर भी अनन्त ही बनी हुई है । जीवकी यह सब दशा कर्मरूप शत्रुओंके द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अग्निके द्वारा उन कर्म-शत्रुओंको जलाकर सुवर्ण पाषाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा-मोक्ष प्राप्त करूँगा ॥ ९०-९३ ॥

इत्युक्तः संसृतेर्भूपो वेपमानोऽपि नापतत् । पन्थानं निवृत्तेर्बद्धः पुत्रशुद्धलया दृढम् ॥ ९४ ॥  
 नातिह्रस्वोऽस्य संसार इत्यथात्स विपादवान् । उपायो निष्फलः कस्य न विषादाय धीमतः ॥ ९५ ॥  
 वशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्म्या निधीशिना । विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च कामिनां क्रान्तरशता ॥ ९६ ॥  
 २ लाभो लाभेषु पुत्राणां लाभः स्वर्गापवर्गयोः । लक्ष्म्योर्नासाविति स्मृत्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान् ॥ ९७ ॥  
 कदाचित्ते सुता दृष्टाः सिंहपोता इवोद्धताः । इति विज्ञापयामासुः सभास्थं चक्रवर्तिनम् ॥ ९८ ॥  
 यदि क्षत्रियपुत्राणां ३ शौर्यसाहसशाशिनाम् । यौवनं न पितुः ४ प्रैषे दुःसाध्ये साधितेऽपि तम् ॥ ९९ ॥  
 किं तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा । ननु तत्सर्वसामान्यं जन्मजीवितयोर्द्वयम् ॥ १०० ॥  
 तदादिश विशामीश प्रैषं नः साहसावहम् । पात्रेऽसमिततादैव्यं येनैनो ५ वा निरस्यते ॥ १०१ ॥  
 तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः सर्वं चक्रेण साधितम् । भो किं यन्न मे सिद्धं मध्ये हिमसमुद्रयोः ॥ १०२ ॥  
 एष एव मम प्रैषो राज्यलक्ष्मीमिमं मम । सम्भूय भूयसीं भूयमनुभूष्वं यथोचितम् ॥ १०३ ॥  
 इति भूयो ६ नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोषमास्थुर्विधेया ७ हि पितृणां शुद्धवंशजाः ॥ १०४ ॥  
 तेऽन्येषुः पुनरासाद्य नृपं व्यज्ञापयन्निदम् । न भुज्महे न चेत्येष इत्यभ्यर्णोत्सुद्धयः ॥ १०५ ॥  
 तच्छुष्वैष स कः प्रैष ८ इति चिन्तयता मनाक् । नन्वस्ति कार्यशेषोऽयं धर्म इत्यात्तदृष्टिना ॥ १०६ ॥

मणिकेतुके इस प्रकार कहने पर वह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु मोक्षमार्गको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्ररूपी साँकलौसे मजबूत बँधा हुआ था ॥ ९४ ॥ अभी इसका संसार बहुत बड़ा है इस प्रकार विषाद करता हुआ मणिकेतु चला गया सो ठीक ही है क्योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता ? ॥ ९५ ॥ वह देव सोचने लगा कि देखो साम्राज्यकी तुच्छ लक्ष्मीसे वशीभूत हुए चक्रवर्तीने अच्युत स्वर्गकी लक्ष्मी मुला दी सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थके अन्तरका ज्ञान कहाँ होता है ? ॥ ९६ ॥ मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभको ही लाभ मानता है, स्वर्ग और मोक्षलक्ष्मीका लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, ऐसा समझकर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त लीन हो रहा है ॥ ९७ ॥

किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धत और अहङ्कारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें विराजमान चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरीरता और साहससे सुशोभित क्षत्रिय-पुत्रोंका यौवन याद दुःसाध्य कार्यमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन नहीं है। ऐसे प्राणीके जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या लाभ है ? जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण हैं अर्थात् सब जीवोंके होते हैं। इसलिए हे राजन् ! हम लोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बतलाइये कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके ॥ ९८-१०१ ॥

यह सुन चक्रवर्तीने हर्षित होकर कहा कि हे पुत्रो ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, हिमवान् पर्वत और समुद्रके बीच ऐसी कौनसी वस्तु है जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यलक्ष्मीका यथायोग्य रीतिसे उपभोग करो ॥ १०२-१०३ ॥ इस प्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं ॥ १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंको कोई कार्य नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं ॥ १०५ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ चिन्तामें पड़ गये। वे सोचने लगे कि इन्हें कौनसा कार्य दिया जावे। अकस्मात् उन्हें याद आ गई

१ विस्मृताच्युतलक्ष्मीश्च क०, ख०, ग०, घ० । विस्मृतोऽच्युत ल० । २ लाभालाभेषु क०, घ० ।  
 ३ सूर्य क०, घ०, । ४ प्रैष्यदुःसाध्ये ग० । ५ मात्रभोजनसंमेलनजन्यदैव्यम् । ६ पापमिव । ७ नृपेन्द्रेण क०, ख०, ग०, घ० । ८ आधीनाः आज्ञाकारिण इति यावत् । ९ प्रैष्य ग० ।

राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं कैलासे भरतेशिना । गृहाः कृता महारक्षेत्रतुविंशतिरर्हताम् ॥ १०७ ॥  
 तेषां गङ्गां प्रकुर्वीध्वं<sup>१</sup> परिखां परितो गिरिम् । इति तेऽपि तथा कुर्वन् दण्डरत्नेन सत्वरम् ॥ १०८ ॥  
 मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसौजन्यचोदितः । सचिवैर्बोधनोपायं स सहैवं व्यचिन्तयत् ॥ १०९ ॥  
 किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं किञ्चिच्च हितमप्रियम् । किञ्चिदप्रियं सदहितं परं चाहितमप्रियम् ॥ ११० ॥  
 अन्त्यद्वयं परित्यज्य शेषाभ्यां भाषता हितम् । इति निश्चित्य कैलासं तदैवागम्य दर्पिणः ॥ १११ ॥  
 कुमारान् भस्मराशिं वा व्यधात् क्रूररगाकृतिः । कुर्वन्ति सुहृदोऽगत्या हितं चेदप्रियं च तत् ॥ ११२ ॥  
 ज्ञात्वापि तन्मृतिं भूपमाकर्णयितुमक्षमाः । तस्नेहं तेषु जानानः संबृत्य सचिवाः स्थिताः ॥ ११३ ॥  
 तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतुरूपस्य तम् । महाशोकसमाक्रान्तो<sup>२</sup> वावेदयदिदं वचः ॥ ११४ ॥  
 देव देवे धराचक्रं रक्षति क्षेममत्र नः । किन्त्वन्तकेन मत्पुत्रोऽहार्यारो<sup>३</sup>जीवितावधेः ॥ ११५ ॥  
 प्रेयान् ममैक<sup>४</sup> एवासाँ नायुषा तेन जीवितम् । नानीतश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ ११६ ॥  
 तव चिद्धयप्रतो नीतं किं कुर्वन्ति न गर्विताः । “शलाटुभक्षणे<sup>५</sup> लोलः किं पक्षं तस्यजेदिति ॥ ११७ ॥  
 तदाकर्ण्यार्हं<sup>६</sup> सन् राजा द्विज किं वेत्सि नान्तकः<sup>७</sup> । सिद्धैरेव स वार्योऽन्यैर्नैत्यागोपालविश्रुतम् ॥ ११८ ॥  
 अपवर्त्यायुषः कैचिद्ध्यायुर्जीविनः परे<sup>८</sup> । तान् सर्वान् संहरत्येष यमो मृत्योरगोचरः ॥ ११९ ॥

किं अभी धर्मका एक कार्य बाकी है । उन्होंने हर्षित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलास पर्वत पर महारक्षेत्रसे अरहन्तदेवके चौबीस मन्दिर बनवाये हैं सो तुम लोग उस पर्वतके चारों ओर गङ्गा नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा बना दो । उन राजपुत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ही कर दिया ॥ १०६-१०८ ॥

प्रेम और सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा सगरको समझानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १०९ ॥ कि वचन चार प्रकारके होते हैं—कुछ वचन तो हित और प्रिय दोनों ही होते हैं, कुछ हित और अप्रिय होते हैं, कुछ प्रिय होकर अहित होते हैं और कुछ अहित तथा अप्रिय होते हैं । इन चार प्रकारके वचनोंमें अन्तके दो वचनोंको छोड़कर शेष दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया जा सकता है । ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैलास पर्वत पर आया और उन अहङ्कारी राजकुमारोंको भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मंत्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी अप्रिय वचनोंका प्रयोग करते ही हैं ॥ ११०-११२ ॥ मंत्री यह जानते थे कि राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह है अतः पुत्रोंका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके । समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपा कर ही बैठ रहे ॥ ११३ ॥

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रख कर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत भारी शोकसे आक्रान्त होकर निम्नाङ्कित वचन कहने लगा ॥ ११४ ॥ हे देव ! जब आप पृथिवीमण्डलका पालन कर रहे हैं तब हम लोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु आयुकी अवधि दूर रहने पर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है । वह मेरा एक ही पुत्र था । यदि आप उसे आयुसे युक्त अर्थात् जीवित नहीं करते हैं तो आज मुझे भी आपके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया हुआ समझें । क्योंकि अहङ्कारी लोग क्या नहीं करते हैं । जो कच्चे फल खानेमें सतृष्ण है वह भला पके फल क्यों छोड़ेगा ॥ ११५-११७ ॥

ब्राह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे द्विजराज ! क्या आप नहीं जानते कि यमराज सिद्ध भगवान्के द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीवोंके द्वारा नहीं, यह बात तो आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है ॥ ११८ ॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी आयु बीचमें ही

१ प्रकुर्वीत क०, ख०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग० । ३ हार्यारोजीवितावधिः घ० । ह्यहार्यो ल० । ४ ममैष ल० । ५ आत्रफलभक्षणे । ६ सतृष्णः । ७ स राजा क०, घ० । स राजा ल० । ८ नान्तकम् क० घ० । ९ चरे ल० ।

तस्मिन् वहसि चेद्वैरं जीर्णो मा भृगुंहे वृथा । मोक्षदीक्षां गृहाणाद्यु शोकं हित्वेत्युवाच तम् ॥ १२० ॥  
 इत्युक्ते देव किं सत्यमेतद्यन्तकालपरः । बलीति तन्न भेतव्यं मया किञ्चिद्विप्यता ॥ १२१ ॥  
 तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेऽपि स्वान्तिकं सुताः । तस्मात्तदुक्तमार्गेण बहुवैरं खलेऽन्तके ॥ १२२ ॥  
 इत्याह सोऽपि तद्वाक्यवज्रनिर्भिन्नमानसः । गतासुरिव निःस्पन्दो बभूव नृपतिः क्षणम् ॥ १२३ ॥  
 चन्दनोशीरसम्मिश्रसलिलैः सुहृदुक्तिभिः । उल्क्षेपैश्च मृदूल्क्षेपैः पुनरागत्य चेतनाम् ॥ १२४ ॥  
 १मा माया मा २वृथायामा भीमः कामो यमोऽधमः । भङ्गुरः सङ्गमः प्रेम्णाः कायोऽश्रेयोऽद्युचिः क्षयी ॥ १२५ ॥  
 ३वासुं क्कामुं कनिर्भासि यौवनं तद्ययौ वनम् । जानन् जिनोऽहमद्यापि मूढोऽत्रैवेति चिन्तयन् ॥ १२६ ॥  
 भव्ये भगलिदेशेशसिंहविक्रमराड्भुवः । विदर्भायाः सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथे ॥ १२७ ॥  
 राजते स्म तपोराज्ये दृढधर्मजिनान्तिके । तावदेव गृहे सन्तो न हेतुर्यावदीक्ष्यते ॥ १२८ ॥  
 ४सोऽपि गत्वा भवद्वार्तां महीपतिमब्रुवुधत् । अनाकर्ण्यामसौ श्रुत्वा गाढं शोकाग्निदीपितः ॥ १२९ ॥  
 कृत्वा भगीरथे राज्यं तपोऽयादहमप्यतः । इहान्वेषुं समायातः शोकाद्युभक्तुलद्विजः ॥ १३० ॥  
 इति देवः समभ्येत्य मायाभस्मावगुण्डितान् । कुमारान् बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥ १३१ ॥

छिद् जाती है और कितने ही ऐसे हैं कि जो जितनी आयुका बंध करते हैं उतना जीवित रहते हैं—  
 बीचमें उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे  
 रहित है ॥ ११६ ॥ यदि तुम उस यमराज पर द्वेष रखते हो तो घरके भीतर व्यर्थ ही जीर्ण-शीर्ण  
 मत होओ । मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही दीक्षा धारण करो; शोक छोड़ो ॥ १२० ॥

जब राजा सगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी मणिकेतु बोला—'हे देव ! यदि यह सच है  
 कि यमराजसे बढ़कर और कोई बलवान् नहीं है तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आपको भयभीत नहीं  
 होना चाहिये ॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र कैलास पर्वत पर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस  
 यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्गके अनुसार दुष्ट  
 यमराज पर बहुत वैर धारण करना चाहिये अर्थात् दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयत्न करना  
 चाहिये ॥ १२२ ॥

ब्राह्मणके उक्त वचन रूपी वज्रसे जिसका हृदय विदीर्ण हो गया है ऐसा राजा सगर क्षण भरमें  
 मरे हुके समान निश्चेष्ट हो गया ॥ १२३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जलसे, मित्रोंके वचनोंसे  
 तथा पंखोंकी कोमल वायुसे जब वह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यर्थ ही खेदको  
 बढ़ानेवाली यह लक्ष्मीरूपी माया मुझे प्राप्त न हो—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं । यह काम  
 भयंकर है, यमराज नीच है, प्रेमका समागम नश्वर है, शरीर अपवित्र है, क्षय हो जानेवाला है और  
 इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी है, यह यौवन इन्द्रधनुषके समान नश्वर  
 है...ऐसा जानते हुए तीर्थंकर भगवान् वनमें चले जाते हैं । परन्तु मैं मूर्ख अब भी इन्हींमें मूढ़ हो  
 रहा हूँ...ऐसा विचार कर सगर चक्रवर्तीने भगलि देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदर्भाके पुत्र  
 भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप दिया और आप दृढधर्मा केवलीके समीप दीक्षा धारण कर तप-  
 श्रमण रूपी राज्यमें सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते हैं  
 जबतक कि विरक्त होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ॥ १२४-१२५ ॥ इधर चक्रवर्तीने दीक्षा ली  
 उधर वह मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और कहने लगा कि किसीने आपके मरणका यह  
 अश्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाग्निसे बहुत ही अधिक उद्दीपित हुए और  
 भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं । मैं आपकी कुल-परम्परासे चला आया ब्राह्मण हूँ  
 अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२६-१३० ॥ ऐसा कहकर उस देवने

१ मा लक्ष्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत् । २ व्यर्थदर्ष्या । ३ वासुं क् मेघस्तरथ कासुं कं धनुरिव निर्मा-  
 सते शोभते इत्येवंशीलं नश्वरमिति यावत् । ४ सोऽपि ग०, ५० ।



तेऽपि तद्वचनात्प्रापन् तपस्तज्जिनसंश्रयात् । चरमाङ्गधरा युक्तं तदेवौचित्यवेदिनाम् ॥ १३२ ॥  
 भगीरथोऽपि तान् गत्वा कृत्वा भक्त्या नमस्क्रियाम् । धर्ममाकर्ण्य जैनेन्द्रमादत्त श्रावकव्रतम् ॥ १३३ ॥  
 प्रकटीकृततन्मायो मणिकेतुश्च तान् मुनीन् । क्षन्तव्यमित्युवाचैतान् सगरादीन् सुहृद्वरः ॥ १३४ ॥  
 कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्ठितम् । हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा 'तमसान्वयन् ॥ १३५ ॥  
 सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवमुपागमत् । परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३६ ॥  
 सर्वेऽन्ते सुचिरं कृत्वा सत्तपो विधिवद् भुजाः । शुक्लध्यानेन सम्मेदे सम्प्रापन् परमं पदम् ॥ १३७ ॥  
 निर्वाणगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । वरदत्ताय दत्त्वात्मराज्यलक्ष्मीं भगीरथः ॥ १३८ ॥  
 कैलासपर्वते दीक्षां शिवगुप्तमहामुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्थभूत्वधुनीतटे ॥ १३९ ॥  
 सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाब्धिपयोभिरभिषेचनात् । क्रमयोस्तत्प्रवाहस्य गङ्गायाः सङ्गमे सति ॥ १४० ॥  
 तदाप्रभृति तीर्थत्वं गङ्गायस्मिन्नुपागता । कृत्वोत्कृष्टं तपो गङ्गातटेऽसौ निवृत्तिं गतः ॥ १४१ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अत्रासुत्र च मित्रवन्न हितकृत् कोऽप्यस्ति बन्धुः परो

गुह्याद् गुह्यतरं गुरोरपि न तद्वाच्यं यदस्योच्यते ।

दुःसाध्याभ्यपि साधयत्यरणयन्प्राणाश्च तत्र स्फुटो

इष्टान्तो मणिकेतुरेव कुरुतां तन्मित्रमीदृग्विधम् ॥ १४२ ॥

मायामयी भस्मसे अचगुण्ठित राजकुमारोंको सचेत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रोंकी माया भी हित करनेवाली होती है ॥ १३१ ॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजकुमारोंने भी जिनेन्द्र भगवानका आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो उचित बातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना ही योग्य है ॥ १३२ ॥ जब भगीरथने यह समाचार सुना तब वह भी उन मुनियोंके पास गया और वहाँ उसने उन सबको भक्तिसे नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ १३३ ॥ अन्तमें मित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि मुनियोंके समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और कहा कि आप लोग क्षमा कीजिये ॥ १३४ ॥ 'इसमें आपका अपराध ही क्या है ? यह तो आपने हमारा हित तथा प्रिय कार्य किया है' इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों द्वारा उन सब मुनियोने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका कार्य सिद्ध हो गया है ऐसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चला गया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुषोंको संतोष होता है ॥ १३६ ॥ वे सभी विद्वान् मुनि-राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्मेद शैल पर पहुँचे और शुक्लध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए ॥ १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्वेदसे भर गया अतः उसने वरदत्तके लिए अपनी राज्यश्री सौंपकर कैलास पर्वत पर शिवगुप्त नामक महामुनिसे दीक्षा ले ली तथा गङ्गा नदीके तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३८-१३९ ॥ इन्द्रने क्षीरसागरके जलसे महामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गङ्गामें जाकर मिल गया । उसी समयसे गङ्गा नदी भी इस लोकमें तीर्थरूपताको प्राप्त हुई अर्थात् तीर्थ मानी जाने लगी । भगीरथ गङ्गा नदीके तट पर उत्कृष्ट तप कर वहींसे निर्वाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमें मित्रके समान हित करनेवाला दूसरा नहीं है । न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है । जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नहीं कही जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कही जाती है, मित्र अपने प्राणोंकी भी परवाह नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है । मणिकेतु ही इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको

१ तम् देवम् असान्वयन् शान्तं चक्रुरिति यावत् । २ गङ्गातीरे ।

मालिनी

स जयति जयसेनो यो जितारातिसेनः

श्रुत इति महदादियों बलः प्रान्तकल्ये ।

सगरसकलचक्री योजितो यश्च यश्च

प्रहतचरमदेहो देहमात्रात्मदेहः ॥ १४३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्गृहे अजिततीर्थकरसगरचक्रधर-  
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व ॥ ४८ ॥

ऐसा ही मित्र बनाना चाहिये ॥ १४२ ॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर अच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे आकर शत्रुओं द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें अपना चरम शरीर—अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयवन्त रहें ॥ १४३ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अजितनाथ तीर्थकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला अड़तालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥



## एकोनपञ्चाशत्तमं पर्व

श्रियं क्रियात्स मे निग्नन् सम्भवो दम्भजृम्भणम् । सस्मुखीनायते<sup>१</sup> यस्य सद्बोधः<sup>२</sup> सस्मुखेऽखिले ॥ १ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्नादिमे पूर्वविदेहे नद्युदकतटे । कच्छाख्ये विपये क्षेमपुरे विमलवाहनः ॥ २ ॥  
 नाम्ना नरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सति<sup>३</sup> त्रिभेदे निर्वेदे स समासन्ननिर्वृतिः ॥ ३ ॥  
 जन्तुरन्तकदन्तस्थो हन्त जीवितमीहते । मोहात्तन्निर्गमोपायं न चिन्तयति धिक् तमः ॥ ४ ॥  
 आयुः परमसङ्ख्याताः क्षणास्ते शरणीकृताः । प्राणिभिर्हानये चेमानर्पयन्त्यन्तकप्रभोः ॥ ५ ॥  
 अभिलाषातपातसादृश्यां भोग्यस्य संश्रिताः । जीर्णकूलस्य वासोऽभून्न हि क्षेमण<sup>४</sup> पालयेत् ॥ ६ ॥  
 इत्यादि चिन्तयन् राज्यं दत्त्वा विमलकीर्तये । स्वयम्प्रभजिनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान् ॥ ७ ॥  
 एकादशाङ्गधारी सन् त्रैलोक्यक्षोभकारणम् । भावनाभिर्निर्वृत्यान्यनामतीर्थकराह्वयम् ॥ ८ ॥  
 संन्यासविधिना त्यक्तदेहो प्रैवेयकादिमे । सुदर्शने विमानेऽभूदहमिन्द्रो महर्द्धिकः ॥ ९ ॥  
 त्रयोविंशतिवाध्यायुः स षष्ठयङ्गुलमानभाक् । शरीरो लेश्यया शुक्लः शसन् पक्षोनवत्सरे ॥ १० ॥  
 खन्नयाग्निद्विवर्णान्ते भोजनं मनसा स्मरन् । निःप्रवीचारभोगोऽन्यनरकान्तगतावधिः ॥ ११ ॥  
 स्वावधिक्षेत्रसञ्चारसमर्थस्तत्त्वमप्रभः । प्राग्देहोत्थतनुव्यासया स्वावधिक्षेत्रपूरकः ॥ १२ ॥

जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेके लिए दर्पणके समान है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारको नष्ट करनेवाले हैं ऐसे सम्भवनाथ तीर्थकर मेरा कल्याण करें ॥ १ ॥ इसी पहले जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला है ऐसा वह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो गया । वह विचार करने लगा कि इस संसारमें वैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ॥ ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह जीव यमराजके दौंतोंके बीचमें रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है और मोहकर्मके उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचता इसलिये इस अज्ञानान्धकारको धिक्कार हो ॥ ४ ॥ वैराग्यका दूसरा कारण यह है कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु आश्चर्य है कि ये आयुके क्षण ही इन जीवोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते हैं ॥ ५ ॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलाषारूपी धूपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी नदीके जीर्णशीर्ण तटकी छायाका आश्रय ले रहे हैं सो उनको यह आश्रय कुशलतापूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका ॥ ६ ॥ इत्यादि विचार करते हुए विमलवाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्ति नामके पुत्रके लिए देकर स्वयंप्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ ७ ॥ ग्यारह अङ्गोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थकर नामक नामकर्मका बन्ध किया ॥ ८ ॥ अन्तमें संन्यासकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम प्रैवेयकके सुदर्शन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ ९ ॥ तेईस सागरकी उसकी आयु थी, साठ अङ्गुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्ल लेस्या थी, साढ़े ग्यारह माहमें एकवार श्वास लेता था, तेईस हजार वर्ष बाद मनसे आहारका स्मरण करता था, उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सातवें नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके क्षेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी ही उसके शरीरकी प्रभा थी और उतनी ही दूर तक उसका

१-जायते ख०, ग० । सस्मुखे पुरस्ताद् भवतीति सस्मुखीनो दर्पणश्चतुर्दशदाचरतीति सस्मुखीनायते ।  
 २ सस्मुखोऽखिले ख० । ३ त्रिभेद क०, ख०, ग०, घ०, म० । ४ यापयेत् ख०, ग० । ५ सुदर्शनविमाने क०, ख०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धर्चादित्वायुंस्त्वम् ।

अणिमादिगुणोपेतं पञ्चपुण्योदयार्पितम् । अहमिन्द्रसुखं श्रीमानन्वभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे श्रावस्तिनगरेशिनः । राज्ञः काश्यपगोत्रस्य दृढराजस्य सद्युतेः ॥ १४ ॥  
 वल्लभेक्ष्वाकुवंशस्य सुषेणा तत्सुरागमे । षण्मासान् वसुधाराधि<sup>१</sup>माहात्म्यपदवीं गता ॥ १५ ॥  
 शुक्लफाल्गुनजाप्यन्यां स्वमान् षोडश पञ्चमे । प्रभातसमयेऽपश्यन्नक्षत्रे सुकृतोदयात् ॥ १६ ॥  
 ततोऽनु वदनं<sup>२</sup> तस्याः स्वप्ने प्राविशदग्रिमः<sup>३</sup> । गिरीन्द्रशिखराकारो वारणश्चारुलक्षणः ॥ १७ ॥  
 सा तेषां फलमाकर्ण्य स्वपतेर्मुदमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥  
 पौर्णमास्यामवापार्च्यमहमिन्द्रं<sup>४</sup> त्रिविद्युतम् । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत् ॥ १९ ॥  
 सम्भवे तव लोकानां शं भवत्यद्य शम्भव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृत्नामकर्मणः ॥ २० ॥  
<sup>५</sup>तवाङ्गचूते प्रीणन्ति लक्षणव्यञ्जनोद्गमे । प्रलम्बबाहुवितपे सुरदम्भमराश्विरम् ॥ २१ ॥  
 परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत् । मत्तानि कपिलादीनां स्याद्वादस्येव निर्मलम् ॥ २२ ॥  
 समस्ताह्लादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥  
 त्वां लोकः स्नेहसंबृद्धो निर्हेतुहितकारणम् । प्रदीपवन्नमत्येष निधानमिव<sup>६</sup> भास्वरम् ॥ २४ ॥  
 इति स्तुत्वादिकल्पेशो विहितानन्दनाटकः । पित्रोस्तमर्पयित्वा मा स्वर्लोकमगमत्सुरैः ॥ २५ ॥

वैक्रियिक शरीर आ जा सकता था ॥ १०-१२ ॥ इस प्रकार वह श्रीमान् उत्तम अहमिन्द्र अणिमा महिमा आदि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रके सुखोंका अनुभव करता था ॥ १३ ॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा दृढराज्य था । वह इक्ष्वाकु-वंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी । सुषेणा उसकी स्त्रीका नाम था । जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमें छहमास बाकी रह गये तब सुषेणा रत्नवृष्टि आदि माहात्म्यको प्राप्त हुई । फाल्गुन शुक्ल अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रमें पुण्योदयसे रानी सुषेणा ने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६ ॥ तदनन्तर स्वप्नमें ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वतके शिखरके समान आकारवाला तथा सुन्दर लक्षणोंसे युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥ १७ ॥ अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर वह आनन्दको प्राप्त हुई । उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया । तदनन्तर नवमें महीनेमें कार्तिक शुक्ला पौर्णमासीके दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य योगमें उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पूज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया । जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभव' यह नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ १८-१९ ॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान् संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की—हे संभवनाथ ! तीर्थकर नामकर्मके उदयके बिना ही केवल आपके जन्मसे ही आज जीवोंको सुख मिल रहा है । इसलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक है ॥ २० ॥ हे भगवन् ! जिसमें अनेक लक्षण और व्यञ्जनारूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी भुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्षपर देवोंके नेत्ररूपी भ्रमर चिरकाल तक वृत्त रहते हैं ॥ २१ ॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निर्मल तेज कपिल आदिके मर्तोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित होता है उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य लोगोंके तेजकों तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित हो रहा है ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवोंको आह्लादित करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्का हित करता है उसी प्रकार आप भी साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके ज्ञानसे जगत्का हित कर रहे हैं ॥ २३ ॥ हे नाथ ! आपके स्नेहसे बढ़ा हुआ यह लोक, दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देदीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है ॥ २४ ॥ इस प्रकार स्तुतिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका अधिपति सौधर्मेन्द्र माता-पिताके लिए भगवान्को सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥

१ वसुधारादिमाहात्म्यक०, ख०, ग०, घ० । २ वदनस्यान्तः ल० । ३-दग्रिमे ल० । ४ त्रिविद्य-  
 द्युतम् ख०, ग० । ज्ञानत्रयसहितम् । ५ तव शरीराम्रवृष्टे टि० । तवाङ्गभूजे ल० । ६ भास्वरः ल० ।

द्वितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । त्रिंशच्छतसहस्रोक्तकोटिभिः प्रान्तमीयुषि ॥ २६ ॥  
 शम्भवाख्योऽभवत्स्वामी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूर्वषष्टिलक्षायुः चतुःशतधनुःप्रमः ॥ २७ ॥  
 आयुषीते<sup>१</sup> चतुर्भागे प्राप्तराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवद्देवैरुपनीतान्यनुक्षणम् ॥ २८ ॥  
 चत्वारिंशच्चतुर्लक्षाः पूर्वाणां समतिक्रमे<sup>२</sup> । चतुःपूर्वाङ्गयुक्तानामभूविभूमदर्शनात् ॥ २९ ॥  
 लब्धबोधिः समुत्पन्नवैराग्यो जीवितादिकम् । स्वगतं स्मरति स्मेति शर्मभवः स भवान्तकः ॥ ३० ॥  
 आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भ्रान्त्योकोऽन्योऽन्तकः परैः । जन्तवस्तदजानन्तो म्रियन्तेऽनन्तशोऽन्तकात् ॥ ३१ ॥  
 अध्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभिभूयते । भूयो जन्तुरिदं जाड्यमत्रैव वसतीति यत् ॥ ३२ ॥  
 विरसान् सरसान् मत्वा विषयान् विषसन्निभान् । भुङ्क्ते रागरसाविद्धो धिग् धियोऽनादिविप्लवम् ॥ ३३ ॥  
 आत्मेन्द्रियायुरिष्टार्थसन्निधेः<sup>३</sup> संसृतौ सुखम् । स्वसन्निधिरिह<sup>४</sup> स्थेयान् किं न वेत्ति न तर्क्यते ॥ ३४ ॥  
 विद्युदुद्युतिवह्न क्षीर्नैर्न स्थेमानमृच्छति । "व्युच्छिन्नोच्छः श्रियं स्थातुं स्वच्छतद्बोधदीधितिम् ॥ ३५ ॥  
 इत्यात्तत्त्वसारं तं तुत्वा लौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्राप्तनिष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥  
 सिद्धार्थशिबिकामूढां देवैरासृष्ट निर्गतः । सहेतुकवने राज्ञां सहस्रेणाप संयमम् ॥ ३७ ॥  
 मनःपर्ययसञ्ज्ञानः श्रावस्तिनगरं<sup>५</sup> प्रति । भिक्षाहेतोर्द्वितीयेऽह्नि प्राविशत् कनकप्रभः ॥ ३८ ॥  
 नृपः सुरेन्द्रदत्ताख्यः सुवर्णभः प्रतीक्ष्य तम् । दत्त्वा दानं स्फुरद्रत्नमापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ३९ ॥

द्वितीय तीर्थकरकी तीर्थ-परम्परामें जब तीस लाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । उनकी साठ लाख पूर्वकी आयु थी, चार सौ धनुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्यका महान् वैभव प्राप्त हुआ था । वे सदा देवोपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे ॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग व्यतीत हो चुके तब किसी दिन मेघोंका विभ्रम देखनेसे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, वे उसी समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु आदिका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २९-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेवाला आयुकर्म ही यमराज है, अन्य वालोंने भूलसे किसी दूसरेको यमराज बतलाया है, संसारके प्राणी इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्तवार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं ॥ ३१ ॥ यमराज इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस जीवकी मूर्खता देखो कि यह इसी शरीरमें वास करता है ॥ ३२ ॥ रागरूपी रसमें लीन हुआ यह जीव विषके समान नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चले आये इसकी बुद्धिके विभ्रमको धिक्कार है ॥ ३३ ॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इष्ट पदार्थके संनिधानसे संसारमें सुख होता है सो आत्माका सन्निधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यह जीव क्यों नहीं जानता और क्यों नहीं इसका विचार करता । यह लक्ष्मी विजलीकी चमकके समान कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निर्मल सम्यग्ज्ञान की किरणोंसे प्रकाशमान भोक्षलक्ष्मीको प्राप्त हो सकता है ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार पदार्थके सारको ग्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लौकान्तिक देव चले गये । तथा भगवान् भी अपने पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धार्थ नामकी पालकीमें सवार हो नगरसे बाहर निकले और सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ३६-३७ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । सुवर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले भगवान्ने दूसरे दिन भिक्षाके हेतु श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ वहाँ काञ्चन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पगाहकर आहार दान दिया और जिनमें

१ आयुषि इते गते सतीत्यर्थः । २ सम्मतिक्रमे ल० । ३ सन्निधिः ल० । ४ स्वसन्निधेरिह स्थेयं ल०, घ० । स सन्निधिरिह स्थेयां ग०, क० । ५ व्युच्छिन्नोच्छः क०, घ० । व्युच्छिन्नोच्छः श्रियं स्थातुम् क०, ल०, ग०, घ० । ६ मुनिः क०, ल०, ग०, घ० ।

अथ मौनव्रतेनार्यं छत्रस्थाऽऽवेषु शुद्धधीः । द्विसप्तसु गते दीक्षावने शालतरोरधः ॥ ४० ॥  
जन्मक्षेत्रं कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्लगः । पष्ठोपवासो हत्वावान् पापानन्तचतुष्टयम् ॥ ४१ ॥  
कल्पामरैः समं सर्वैस्त्रिविधैर्ज्यौतिषादिभिः । व्यधात् कैवल्यकल्याणं तदैवैत्यामराधिपाः ॥ ४२ ॥  
पञ्चोत्तरशतोद्दिष्टैर्गणेशैः परिवारितः । चारुषेणादिभिः सोऽभाद् गिरीन्द्रो गिरिभिर्यथा ॥ ४३ ॥  
शून्यपञ्चैकपक्षोक्तचारुपूर्वधरावृतः । शून्यद्वयत्रिरन्ध्रद्वयेकोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ४४ ॥  
शून्यद्वितयपङ्कजप्रमितावधिविलोचनः । शून्यत्रयेन्द्रियैकोक्तकेवलावगमान्वितः ॥ ४५ ॥  
शून्यद्वयाष्टरन्ध्रैकज्ञातवैक्रियकानुगः । शून्यपञ्चैकपक्षैकज्ञानतुर्यावबोधकः ॥ ४६ ॥  
शून्यत्रितयपक्षैकसङ्ख्यावादिविभूषितः । पिण्डिताशेषदिग्वासो लक्षद्वयपरिष्कृतः ॥ ४७ ॥  
खचतुष्कद्विवह्वयुक्तधर्मार्थाधार्यिकागणः । त्रिलक्षोपासकोपेतश्राविकापञ्चलक्षगः ॥ ४८ ॥  
असङ्ख्यदेवदेवीढ्यस्तिर्यक्सङ्ख्यातसंस्तुतः । एवं द्वादशभेदोक्तधर्मभृद्गणनायकः ॥ ४९ ॥  
चतुस्त्रिंशदतीशेषप्रातिहाय्याष्टकप्रभुः । दिव्यवाग्ज्योत्सना कृत्स्नमाह्लाधानमितांशुमान् ॥ ५० ॥  
शुद्ध एव चरन् पक्षे मोक्षलक्ष्म्या सहोद्गतः । निष्कलङ्को निरातङ्को निर्द्धृतारिः कुपक्षहृत् ॥ ५१ ॥  
मुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषी महोष्मधृत् । सद्बृत्तः सर्वदा पूर्णः सदाभ्यर्णुवोदयः ॥ ५२ ॥

अनेक रत्न चमक रहे हैं ऐसे पञ्चाश्र्वर्य प्राप्त किये ॥ ३६ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान् संभवनाथ चौदह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थामें मौनसे रहे । तदनन्तर दीक्षावनमें पहुँचकर शास्त्रमाली वृक्षके नीचे कार्तिके कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन मृगशिर नक्षत्रमें शामके समय वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए और चार घातिया कर्मरूपी पाप-प्रकृतियोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ ॥ उसी समय इन्होंने कल्पवासियों तथा ज्यौतिष्क आदि तीन प्रकारके देवोंके साथ कैवल्य महोत्सव किया—ज्ञानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार छोटो-छोटो अन्य अनेक पर्वतोंसे घिरा हुआ सुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार चारुषेण आदि एक सौ पाँच गणधरोसे घिरे हुए भगवान् संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे ॥ ४३ ॥ वे दो हजार एक सौ पचास पूर्वधारियोंसे परिवृत थे, एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे ॥ ४४ ॥ नौ हजार छह सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे ॥ ४५ ॥ उन्नीस हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके साथ थे, बारह हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे ॥ ४६ ॥ तथा बारह हजार वादियोंसे सुशोभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंसे अत्यन्त शोभा पा रहे थे ॥ ४७ ॥ धर्मार्थोंको आदि लेकर तीन लाख वीस हजार आर्थिकाएँ थी, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यञ्च उनकी स्तुति करते थे । इस प्रकार वे भगवान्, धर्मको धारण करनेवाली बारह सभाओंके स्वामी थे ॥ ४८-४९ ॥ वे चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहाय्योंके प्रभु थे, दिव्यध्वनिरूपी चाँदनीके द्वारा सबको आह्लादित करते थे तथा नमस्कार करनेवालोंको सूर्यके समान प्रकाशित करते थे ॥ ५० ॥ भगवान् संभवनाथने चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और वदी दोनों पक्षोंमें संचार करता है परन्तु भगवान् शुद्ध अर्थात् निर्दोष पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लक्ष्मीहीन हो जाता है परन्तु भगवान् मोक्षलक्ष्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलङ्क सहित है परन्तु भगवान् निष्कलङ्क—निष्पाप थे, चन्द्रमा सातङ्क—राहु आदिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान् निरातङ्क—निर्मय और नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेघ आदिके आवरणरूप अनेक शत्रु हैं परन्तु भगवान् शत्रुरहित थे, चन्द्रमा कुपक्ष—कृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान् कुपक्ष—मलिन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओंसे रहित दिखता है परन्तु भगवान् सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान् कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेजरहित है परन्तु भगवान् महान् तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका धारक होता है परन्तु भगवान्

सदा त्रिभुवनासेव्यो भव्यपद्मावबोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो <sup>१</sup>लोकालोके प्रकाशकः ॥ ५३ ॥  
 विधुं सोऽधो विधायैवं विहरद् धर्मवृष्टये । पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा ॥ ५४ ॥  
 सम्मेदं पर्वतं प्राप्य त्यक्तमासविहारकः । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमागतः ॥ ५५ ॥  
<sup>२</sup>चैत्रे मासि सिते पक्षे षष्ठयामर्केऽस्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीं समागमत् ॥ ५६ ॥  
 पञ्चमावगमेशं तं पञ्चमीं गतिमास्थितम् । पञ्चमेऽभ्यर्च्य कल्याणे सञ्चिताया <sup>३</sup>ययुः सुराः ॥ ५७ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अष्टौ शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा-  
 दष्टौ दुष्टतमानुपायनिपुणो निर्मथ्य कर्मद्विषः ।  
 अष्टाविष्टतमान् गुणानविकलान् कृत्वा तनुं शाश्वती-  
 मष्टन्यामवनौ स्म <sup>४</sup>सम्भवविभुः शुम्भस्सुखः शोभते ॥ ५८ ॥

### मालिनी

विपुलविमललक्ष्मीर्वीक्षितानङ्गलक्ष्मीरिह भुवि विमलादिर्वाहनो देहदीप्त्या ।  
 हृतरविरहमिन्द्रो रुन्द्रकल्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्भः सम्भवः शं क्रियाद्गः ॥ ५९ ॥  
 इत्यार्यै भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्गहे सम्भवतीर्थकरपुराणं  
 परिसमाप्तमेकोनपञ्चाशत्तमं पर्वं ॥ ४९ ॥

सदा सद्वृत्त—सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमें अपूर्ण रहता है परन्तु भगवान् सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण रहते थे, चन्द्रमाके निकट ध्रुव ताराका उदय नहीं रहता परन्तु भगवान् सदा अभ्यर्ण ध्रुवोदय थे—उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात् स्थायी था, चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय है परन्तु भगवान् तीनों लोकोंके द्वारा सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान् सदा भव्य जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते थे अथवा भव्यजीवोंकी पद्मा अर्थात् लक्ष्मीको बढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल बाह्य अन्धकारको ही नष्ट करता है परन्तु भगवान्ने बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केवल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवान्ने लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था । इस प्रकार चन्द्रमाको तिरस्कृत कर धर्मकी वर्षा करनेके लिए भगवान्ने आर्य देशोंमें विहार किया था सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी चेष्टा मेघके समान सब लोगोंको सुख देनेवाली होती है ॥ ५१-५४ ॥ अन्तमें जब आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल प्राप्त कर विहार बन्द कर दिया और एक हजार राजाओंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥ ५५ ॥ तथा चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्म-नक्षत्रमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥ ५६ ॥ जो पञ्चम ज्ञान—केवलज्ञानके स्वामी हैं और पञ्चम-गति—मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवान् संभवनाथकी पञ्चमकल्याणक—निर्वाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चले गये ॥ ५७ ॥ उपायोंके जाननेमें निपुण भगवान् संभवनाथने छठवेंसे लेकर चौदहवें तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कर्मरूपी शत्रुओंका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको अपना अविनश्वर शरीर बनाया और अष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हो सुशोभित होने लगे ॥ ५८ ॥ जिन्होंने अनन्तचतुष्टयरूप विशाल तथा निर्मल लक्ष्मी प्राप्त की है, जिन्होंने शरीररहित मोक्षलक्ष्मीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे सूर्यको पराजित कर दिया है, जो पहले इस पृथिवी पर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर जिन्होंने पञ्च-कल्याणक लक्ष्मीका आर्लिगन प्राप्त किया ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥५९॥

इस प्रकार आर्षि नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यके द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके  
 संप्रहमें संभवनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला उनचासवां पर्व पूर्ण हुआ ।

## पञ्चाशत्तमं पर्व

अर्थे सत्ये वचः सत्यं सद्रक्तुर्वक्ति सत्यताम् । यस्यासौ पातु वन्दारूढन्दयन्मभिनन्दनः ॥ १ ॥  
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । सीताया विषयो भागे व्यभासीन्मङ्गलावती ॥ २ ॥  
राजा महाबलस्तत्र नगरे रत्नसञ्चये । स्वामिसम्पत्समेतोऽभूच्चतुर्वर्णाश्रमाश्रयः ॥ ३ ॥  
पाति तस्मिन् महीं नासीद् ध्वनिरन्याय इत्ययम् । <sup>१</sup>प्रावर्तना प्रजाः स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनर्गलाः ॥ ४ ॥  
षाड्गुण्यं तत्र नैर्गुण्यमगाद्विगतविद्विपि । निर्गुणोऽपि गुणैस्त्वागसत्वादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥  
निःसपन्नः श्रियः सोऽभूत्पतिस्तस्याः सरस्वती । कीर्तिर्वीरश्रियोऽभूवन्न सपत्न्यः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥  
<sup>२</sup>अन्यवाक्श्रोत्रयोः कीर्तिस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वक्षस्थहमित्यतुषद्रमा ॥ ७ ॥  
कान्ताकल्पलतारम्यो निजकायामरद्रमः । फलति स्म <sup>३</sup>सुखं तस्य यद्यत्तेनाभिवाञ्छितम् ॥ ८ ॥  
रम्यरामामुखाम्भोजसेवालोलालक्षिषट्पदः । सुखेन सोऽनयद्दीर्घं कालं कालकलामिव ॥ ९ ॥  
कदाचिजातवैराग्यः कामभोगेऽप्यतर्पणात् । सूनवे धनपालाय दत्त्वा राज्यं महामनाः ॥ १० ॥  
<sup>४</sup>आदात् संयममासाद्य गुरुं विमलवाहनम् । एकादशाङ्गधार्येष भावितद्वयप्टकारणः ॥ ११ ॥  
तीर्थकृन्नाम सम्प्रापत् <sup>५</sup>फलं कल्याणपञ्चकम् । येन तार्थकरोऽयं स्यात् किं नाप्यन्ति मनस्विनः ॥ १२ ॥  
आयुपोऽन्ते स संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिमे । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुरहमिन्द्रत्वमाययौ ॥ १३ ॥

पदार्थके सत्य होनेसे जिनके वचनोंकी सत्यता सिद्ध है और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी वन्दना करनेवाले लोगोंको आनन्दित करते हुए हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक मङ्गलावती नामका देश सुशोभित है ॥ २ ॥ उसके रत्नसंचय नगरमें महाबल नामका राजा था । वह बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णों और आश्रमोंका आश्रय था—रक्षा करनेवाला था ॥ ३ ॥ उसके पृथिवीकी रक्षा करते समय 'अन्याय' यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्गमें प्रवृत्ति करती थी ॥ ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विग्रह आदि छह गुणोंका समूह भी निर्गुणताको प्राप्त हो गया था और इस तरह निर्गुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणवान् था ॥ ५ ॥ वह राजा लक्ष्मीका एक ही पति था । यद्यपि सरस्वती कीर्ति और वीरलक्ष्मी उसकी सौतें थीं तो भी राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था । उसकी कीर्ति अन्य मनुष्योंके वचनों तथा कानोंमें रहती है, सरस्वती उसके वचनोंमें रहती है, वीरलक्ष्मी वक्षःस्थल पर रहती है और मैं सर्वाङ्गमें रहती हूँ यह विचार कर ही लक्ष्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी ॥ ६-७ ॥ स्त्रीरूपी कल्पलतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह जिस जिसकी इच्छा करता था वही वही सुख प्रदान करता था ॥ ८ ॥ जिसके नेत्ररूपी भ्रमर सुन्दर स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंकी सेवा करनेमें सदा सतृष्ण रहते हैं ऐसे उस राजा महाबलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया ॥ ९ ॥ किसी समय इच्छानुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोंमें संतुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम धारण कर लिया । वह ग्यारह अङ्ग का पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन किया ॥ १०-११ ॥ सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन करनेसे उससे पञ्चकल्याणकरूपी फलको देनेवाले तीर्थकर नामकर्म-बन्ध किया जिससे यह तीर्थकर होगा । सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥ १२ ॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वह विजय नामके पहले

१ प्रवर्तने ल० । २ अनिन्दाश्रोत्रयोः ख० । ३ सुखे ल० । ४ कामभोगेष्वतर्पणात् क०, ख०, ग०, घ० । ५ अघात् ल० । ६ फलकल्याण-ल० ।



तत्रोक्तदेहलेश्याविद्<sup>१</sup> गुण्योच्छ्वासादिसंयुतः । पञ्चशतसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥ १४ ॥  
 ध्यायन् वैराग्यसम्पत्त्या तत्रास्थाङ्गकितोऽर्हतः । कृत्स्नकर्मक्षयं कर्तुं<sup>२</sup> तस्मिन्नगामिष्यति ॥ १५ ॥  
 द्विपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः ॥ १६ ॥  
 राजा स्वयंवरो नाम्ना सिद्धार्थाऽस्याग्रवल्गुः । षड्मासान् वसुधारादि-पूजामानुवती सती ॥ १७ ॥  
 वैशाखस्य सिते पक्षे षष्ठ्यां मे सप्तमे शुभे । स्वप्नेक्षानन्तरं वक्त्रं विशन्तं वीक्ष्य सा गजम् ॥ १८ ॥  
 नृपात्स्वप्नफलैस्तुष्टा दिष्ट्यासूत तमुत्तमम् ।<sup>३</sup> माघे मास्यदितौ योगे धवलद्वादशीदिने ॥ १९ ॥  
 तत्रभावविशेषेण प्रकम्पितनिजासनः । त्रैलोक्येशसमुद्भूतिमवलुङ्खयाम्बुधैः सुधीः ॥ २० ॥  
 तं<sup>४</sup> तदावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिव्यमानवम् । देवावृती द्रुतद्रावी देवाद्रौ दिव्यविष्टरे ॥ २१ ॥  
 बालार्कस्तम्भिर्न बालं जलैः क्षीरापगापतेः ।<sup>५</sup> स्नापयित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्यास्याभिनन्दनम् ॥ २२ ॥  
 बंहुबाहुः सहस्राक्षो बहुभावरसान्वितः । विचित्रकरणा<sup>६</sup> रन्ध्रैरङ्गहारैर्नभोङ्गणे ॥ २३ ॥  
 उद्यताभिनयप्रार्थं भक्त्या नृत्यत्सताण्डवम् । गतो रागः परां कोटिं धीरोदात्तांश्च<sup>७</sup> नाटयन् ॥ २४ ॥  
 निवृत्त्यागत्य साकेतं<sup>८</sup> निकृष्य कृतकार्भकम् । पित्रोः पुरो विधायैर्न<sup>९</sup> सुरेडारामरं पदम् ॥ २५ ॥  
 सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षान्धिकांतिभिः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुराबभासे विदां त्रिभिः ॥ २६ ॥

अनुत्तरमें तैतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ १३ ॥ विजय विमानमें जो शरीरकी ऊंचाई, लेश्या, अवधिज्ञानका क्षेत्र तथा श्वासोच्छ्वासादिका प्रमाण बतलाया है वह उन सबसे सहित था, पांचो इन्द्रियोंके सुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिसे उपलक्षित हो भक्ति-पूर्वक अर्हन्त भगवान्का ध्यान करता हुआ वहां रहता था और आयुके अन्तमें समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिए इस पृथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-१५ ॥ जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें अयोध्या नगरीका स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यपगोत्री तथा आश्रयकारी वैभवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था । सिद्धार्था उसकी पटरानी का नाम था । अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे सिद्धार्थाने रत्नवृष्टि आदि पूजाको प्राप्त किया और वैशाख मासके शुक्लपक्षकी षष्ठी तिथिके दिन सातवें शुभ नक्षत्र (पुनर्वसु) में सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥ १६-१८ ॥ राजासे स्वप्नोंका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुई और माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन अदिति योगमें उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानने अवधिज्ञानके द्वारा त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया ॥ २० ॥ इन्द्रने अपनी शचीदेवी द्वारा उस दिव्य मानवको प्राप्त किया और उसे लेकर देवोंसे आवृत्त हो शीघ्रतासे सुमेरु पर्वत पर पहुँचा । वहां दिव्य सिंहासनपर विराजमानकर बाल सूर्यके समान प्रभावाले बालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहनाये और अभिनन्दन नाम रक्खा ॥ २१-२२ ॥ उस समय जिसने विक्रिया वश बहुत-सी भुजाएँ बना ली हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जो अनेक भाव तथा रसोंसे सहित हैं ऐसे इन्द्रने आश्रयकारी करणोंसे प्रारम्भ किये हुए अङ्गहारों द्वारा आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डव नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, साथ ही वह अन्य अनेक धीरोदात्त नटोंको भी नृत्य करा रहा था ॥ २३-२४ ॥ जन्माभिषेकसे वापिस लौटकर इन्द्र अयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको रख कर स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥ श्री संभवनाथ तीर्थकरके बाद दश लाख करोड़ वर्षका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित

१ लेश्यादिगुणोच्छ्वासादि ख०, ग० । २ माघमास्य-ख० । ३ तदादाय क०, घ० । ४ स्नापयित्वा इति भवितव्यम् । ५ करणारम्भैः क०, ख०, घ० । करणारम्भिरङ्गहारैः ग० । ६ नाटयेत् ख०, ग० । ७ निकृष्य ग० । ८ सुरेड् इन्द्रः, आर जगाम, आमरं देवसम्बन्धि ।

पञ्चाशत्क्षत्रपूर्वायुः सार्द्धं त्रिंशत्तत्रापमः<sup>१</sup> । <sup>२</sup>बालेन्दुरिव सज्ज्योत्सुनः पुण्यौघो वा <sup>३</sup>स्फुरद्द्रसः ॥ २७ ॥  
 स श्रीवृद्धिं च सम्प्रापत् सर्वानाह्लादयन् गुणैः । चामीकरच्छविर्थाते कौमारे <sup>४</sup>कामसारथौ ॥ २८ ॥  
 पूर्वद्वादशलक्षेषु सार्द्धेषु प्राप्तवान् स तत् । राज्यं नियोज्य भुङ्क्ष्वेति पितर्याप्ते तपोवनम् ॥ २९ ॥  
 इन्दुः कामयते कान्तिं दीप्तिमिच्छ <sup>५</sup>त्यहर्षतिः । वाञ्छत्यैश्वर्यमस्येन्द्रः शममादासते स्पृहाः ॥ ३० ॥  
 निजोक्त्वानुभागानामनन्तगुणवृद्धितः । तस्य पुण्याणवः सर्वे फलन्ति स्म प्रतिक्षणम् ॥ ३१ ॥  
 अभिभूयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरञ्जनात् । तारेशमंशुमन्तं च जित्वाराजत्स <sup>६</sup>तेजसा ॥ ३२ ॥  
 नमिताखिलभूपालमौलिरित्यत्र का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतोऽयं चेदमरेन्द्रार्चितक्रमः ॥ ३३ ॥  
 नेया श्रीरागिणी <sup>७</sup>वास्याभूद्गता कोऽत्र विस्मयः । मोक्षलक्ष्या च चेदेव कटाक्षैर्गोचरीकृतः ॥ ३४ ॥  
 शुद्धश्रद्धानमक्षय्यमयस्तीर्थकराह्वयः । आत्मसम्पदितः काण्या जगत्त्रयजयैपिणः<sup>८</sup> ॥ ३५ ॥  
 स धीरललितः पूर्वं राज्ये धीरोद्धतो यमी । <sup>९</sup>धीरः प्रशान्तः पर्यन्ते धीरोदात्तत्वमीयिवान् ॥ ३६ ॥  
 अफलन् शक्तयस्तिष्ठः सिद्धिं धर्मानुबन्धिनीम् । ता एव शक्तयो या हि लोकद्वयहितावहाः ॥ ३७ ॥  
 कीर्तौ श्रुतिः स्तुतौ तस्य गीतिर्वर्णाक्षराङ्किता । प्रीतिर्दृष्टौ जनस्यासीत्स्मृतिश्च गुणगोचरा ॥ ३८ ॥  
 गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सर्वैराभिगामिकैः । न चेत्किं सेवितुं गर्भं निलिम्पाः कम्पितासनाः ॥ ३९ ॥

थी वे मति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित थे, पचास लाख पूर्व उनकी आयु थी, साढ़े तीन सौ धनुष ऊँचा शरीर था, वे बाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कर्मके समूहके समान जान पड़ते थे ॥ २६-२७ ॥ गुणोंसे सबको आह्लादित करते हुए वे शोभा अथवा लक्ष्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे । उनकी कान्ति सुवर्णके समान देदीप्यमान थी । कामदेवके सारथिके समान कुमार अवस्थाके जब साढ़े बारह लाख पूर्व वीत गये तब 'तुम राज्यका उपभोग करो' इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनको चले गये । उसी समय इन्होंने राज्य प्राप्त किया ॥ २८-२९ ॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाहता था, सूर्य इनके तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनकी शान्ति चाहती थी ॥ ३० ॥ अपने उल्का अनुभागबन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल देते रहते थे ॥ ३१ ॥ इन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सब प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा और सूर्यको भी जीत लिया था इस तरह वे अपने ही तेजसे सुशोभित हो रहे थे ॥ ३१-३२ ॥ समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट मुकाते थे इसमें उनकी क्या स्तुति थी । क्योंकि ये जन्मसे ही ऐसे पुण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा करता था ॥ ३३ ॥ जब मोक्षलक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलक्ष्मी इनमें अनुराग करने लगी इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ॥ ३४ ॥ उनके कभी नष्ट नहीं होनेवाला शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन था और तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृति थी । सो ठीक ही है क्योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके इससे बढ़कर दूसरी कौनसी आत्मसम्पत्ति है ? ॥ ३५ ॥ वे भगवान् कुमार-अवस्थामें धीर और उद्धत थे, संयमी अवस्थामें धीर और प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें धीर और उदात्त अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥ ३६ ॥ उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोंने धर्मानुबन्धिनी सिद्धिको फलीभूत किया था सो ठीक ही है क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोकोंमें हित करनेवाली हैं ॥ ३७ ॥ उनकी कीर्तिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अक्षरोंसे अङ्कित अनेक गीत थे, मनुष्योंकी दृष्टिमें उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुणोंके विवेचनके समय होता था ॥ ३८ ॥ वे उत्पन्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे । यदि ऐसा न होता तो गर्भमें

१ चापगः ख० । चापसः ग० । २ तलेन्दुरिव घ० । ३ पुण्यौघो वा ससद्रसः ग० । पुण्योदावाससद्रसः ख० । पुण्यौघो वा स्फुटद्रविः ल० । ४ कामतां दधौ क०, ख०, ग० । कामसा दधौ घ० । ५-मीप्स्यत्यहर्षतिः क०, ख०, ग०, घ० । ६ स्वतेजसा क०, ख० । ७ रागिणी मात्या ग०, ख० । रागिणी सात्या ल० । ८ जयीक्षिणः ग० । जगत्त्रितयजयैपिणः ल० । ९ अत्र पाठे इन्दोभङ्गः । ६ धीरप्रशान्तः घ०, क० ।

पुष्कलं प्राग्भवायातं बोधित्रितयमुत्तमम् । तस्य प्रज्ञागुणाः केऽन्ये वर्णनीयाः मनीषिभिः ॥ ४० ॥  
 न वाच्यः पृथगुत्साहो यद्ययं हन्तुमीहते । मोहशत्रुं सशेषावं खलं त्रैलोक्यकण्टकम् ॥ ४१ ॥  
 १ उद्गमेऽपि प्रतापोऽस्य माध्यन्दिनदिनाधिपम् । निःप्रतापं करोत्यद्य तमन्यः सहते नु कः ॥ ४२ ॥  
 लिलङ्घयिषवोऽन्योन्यं वर्द्धन्तेऽस्याखिला गुणाः । समानं वर्द्धमानानां स्पर्धा केन २ निषिध्यते ॥ ४३ ॥  
 एवं संसारसारो रुविसरद्भोगभागिनः । ३ प्रान्तबोधदिनाधीशप्रोद्गमोदयभृशृतः ॥ ४४ ॥  
 खचतुष्केन्द्रियत्वभिर्मितपूर्वेषु निष्ठिते । राज्यकाले जगद्गर्तुरष्टपूर्वाङ्गशेषतः ॥ ४५ ॥  
 प्रादुर्भूतक्षणप्रान्तविनश्यत्सौधविभ्रमे । गन्धर्वनगरे साक्षाद्याते सञ्जातबोधिकः ॥ ४६ ॥  
 अवश्यं भङ्गुरा भोगा भङ्गयन्त्यत्र मां स्थितम् । न पातयति किं स्वस्थं भङ्गुरो वितपः स्फुटम् ॥ ४७ ॥  
 तनुर्मथेप्सितैः सर्वैः स्वीकृतापि त्यजेद्भ्रुवम् । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स तनावभूरु ॥ ४८ ॥  
 सत्यायुषि मृतिस्तस्मिन्नसत्यत्रास्ति सापि न । विभेति चेन्मृतेस्तंन भेतव्यं पूर्वमायुषः ॥ ४९ ॥  
 गन्धर्वनगरेणैव संवादः सर्वसम्पदाम् । विधाय्यभ्रविलायित्वविधेरपधियामपि ॥ ५० ॥  
 इत्यपश्यत्तद्वैवैनमानचूर्णमरद्विजाः । सुरैः सम्प्राप्तनिष्क्रान्तिकल्याणः शमितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥  
 हस्तचित्राख्ययानाधिरूढोऽप्रोद्यानमागतः । मावे सिते ४ स्वगर्भर्क्षे द्वादश्यामपराङ्गः ॥ ५२ ॥  
 दीक्षां पद्योपवासेन जैनीं जग्राह राजभिः । सहस्रसङ्ख्यैर्विख्यातैस्तदासज्ञानतुर्यकः ॥ ५३ ॥

ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोंके आसन कम्पायमान क्यों होते ? ॥ ३६ ॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रामें पूर्वभवसे साथ आया था तथा अन्य गुणोंकी क्या बात ? उनकी बुद्धिके गुण भी विद्वानोंके द्वारा वर्णनीय थे ॥ ४० ॥ उनके उत्साह गुणका वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योंकि वे तीनों लोकोंके कण्टक स्वरूप मोह शत्रुको अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ट करना ही चाहते थे ॥ ४१ ॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहरके सूर्यको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय उसे दूसरा सह ही कौन सकता था ? ॥ ४२ ॥ इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे मानो परस्परमें एक दूसरेका उल्लंघन ही करना चाहते हों । सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़नेवालोंकी ईर्ष्याको कौन रोक सकता है ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्ठतम विशाल भोगोंके समूहका उपभोग करनेवाले भगवान् अभिनन्दननाथ केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेके लिए उदयाचलके समान थे ॥ ४४ ॥ जब उनके राज्यकालके साढ़े छत्तीस लाख पूर्व बीत गये और आयुके आठ पूर्वाङ्ग शेष रहे तब वे एकदिन आकाशमें मेघोंकी शोभा देख रहे थे कि उन मेघोंमें प्रथम तो एक सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़े ही देरमें वह नष्ट हो गया । इस घटनासे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे अवश्य ही नष्ट कर देंगे । क्या टूटकर गिरनेवाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्यको नीचे नहीं गिरा देती ? ॥ ४५ ॥ यद्यपि मैंने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थोंसे परिपुष्ट किया है तो भी यह निश्चित है कि वेर्याके समान यह मुझे छोड़ देगा । इस तरह विचार कर वे शरीरसे विरक्त हो गये ॥ ४६-४८ ॥ उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुके रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहने पर मरण नहीं होता । इसलिए जो मरणसे डरते हैं उन्हें सबसे पहिले आयुसे डरना चाहिये ॥ ४९ ॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धर्वनगरके ही समान है अर्थात् जिस प्रकार यह मेघोंका बना गन्धर्वनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएं भी नष्ट हो जाती हैं यह बात विद्वानोंकी कौन कहे मूर्ख भी जानते हैं ॥ ५० ॥ जिस समय भगवान् ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की । देवोंने भगवान्का निष्क्रमणकल्याणक किया । तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान् हस्तचित्रा नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर अग्र-उद्यानमें आये । वहाँ उन्होंने माघ शुक्ल द्वादशीके दिन शामके समय अपने जन्म नक्षत्रका उदय

१ जन्मकालेऽपि । २ निषेध्यते क०, ख०, घ० । सर्वं किम् निषेध्यते (१) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० । ४ स्वगर्भनक्षत्रे ।

द्वितीयेऽहनि साकेतं बुभुक्षुः प्राविशन् नृपः । तं प्रतीक्ष्येन्द्रदत्तोऽर्क्षं दस्वापाश्रय्यपञ्चकम् ॥ ५४ ॥  
 अथ मौनव्रतेनेते<sup>१</sup> छात्रस्थ्येऽष्टादशाब्दके । दीक्षावनेऽसनक्षमाजमूले षष्ठोपवासिनः ॥ ५५ ॥  
 सिते पौषे चतुर्दश्यां सायाह्ने भेऽस्य सप्तमे । केवलावगमो जज्ञे विश्वामरसमर्चितः ॥ ५६ ॥  
 त्रिलोकोक्तं गंगाधीशैर्वज्रनाभ्यादिनामभिः । खट्वयेन्द्रियपक्षोक्तैः स्वयच्छाङ्गैः पूर्वधारिभिः ॥ ५७ ॥  
 खाक्षखट्वयवह्निद्विप्रमालक्षितशिक्षकैः । खट्वयाष्टनवज्ञेयैः प्राज्ञैश्चिज्ञानलोचनैः ॥ ५८ ॥  
 खत्रयत्वेकसङ्ख्यानैः केवलज्ञानमानिभिः । शून्यत्रितयरन्ध्रैकमितवैक्रियार्कद्विभिः<sup>२</sup> ॥ ५९ ॥  
 शून्यपञ्चतुं रुद्रोक्तमनःपर्ययबोधनैः । एकादशसहस्रोद्यद्वादिभिर्विन्दितक्रमः ॥ ६० ॥  
 लक्षत्रितयसम्पिण्डिताशेषयतिनायकः । खट्वयतुं खवह्णयमिसङ्ख्याभिरभितो युतः ॥ ६१ ॥  
 मेरुषेणार्थिकाद्यार्थिकाभिर्जगदधीश्वरः । लक्षत्रयोदितोपासकाभ्यर्चितपदद्वयः ॥ ६२ ॥  
 लक्षपञ्चप्रमाप्रोक्तश्राविकालोकं<sup>३</sup> संस्तुतः । असङ्ख्यदेवदेवीह्य<sup>४</sup> स्तिर्यक्सङ्ख्यातसेवितः ॥ ६३ ॥  
 इति द्वादशनिर्दिष्टशिष्टभव्यगणाग्रणीः । धर्मवृष्टिं किरन् दूरं विहृत्यार्थावनीतलम् ॥ ६४ ॥  
 यदृच्छ्याप्य सन्मदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्कालिकक्रियायुक्तो ध्यानद्वयमयोऽमलः ॥ ६५ ॥  
 मुनिभिर्बहुभिः प्राह्ये प्रतिमायोगवानगात् । भे सिते सप्तमे षण्ढ्यां वैशाखेऽयं<sup>५</sup> परं पदम् ॥ ६६ ॥  
 तदा भक्त्या नताप्याङ्गाः सुरेन्द्राः कृतपूजनाः । नुत्वा तमगमभ्राकं त्रैलोक्यैर्वा यथायथम् ॥ ६७ ॥

रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१-५३ ॥ दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने साकेत ( अयोध्या ) नगरमें प्रवेश किया । वहां इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हें आहार दिया तथा पञ्चाश्रय्य प्राप्त किये ॥ ५४ ॥

तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके अठारह वर्ष मौनसे बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावनमें असन वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पौष शुक्ल चतुर्दशीके दिन शामके समय सातवें पुनर्वसु नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान हुआ, समस्त देवोंने उनकी पूजा की ॥ ५६ ॥ वज्रनाभि आदि एक सौ तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले दो हजार पाँच सौ पूर्वधारी, दो लाख तीस हजार पचास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिज्ञानी, सोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड वादी उनके चरणोंकी निरन्तर वन्दना करते थे ॥ ५७-६० ॥ इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे, मेरुषेणा आदि तीन लाख तीस हजार छह सौ आर्थिकाओंसे सहित थे, तीन लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा वे स्तुत्य थे, और संख्यात तिर्यञ्च उनकी सेवा करते थे ॥ ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवोंकी बारह सभाओंके नायक भगवान् अभिनन्दननाथने धर्मवृष्टि करते हुए इस आर्यखण्डकी वसुधा पर दूर-दूर तक विहार किया ॥ ६४ ॥ इच्छाके विना ही विहार करते हुए वे सन्मद गिरि पर जा पहुँचे । वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे, उस समय वे ध्यान कालमें होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया-प्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक दो ध्यानसे रहित थे, अत्यन्त निर्मल थे, और प्रतिमा-योगको धारण किये हुए थे । वहींसे उन्होंने वैशाख शुक्ल षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय पुनर्वसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोंके साथ परमपद—मोक्ष प्राप्त किया ॥ ६५-६६ ॥ उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अङ्ग भुक्त रहे हैं ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६७ ॥

१ मौनव्रतेन इते गते । २ वैक्रियार्कद्विभिः क०, ख०, ग०, घ० । वैक्रियार्कद्विभिः ल० । ३ संयुतः ल० । ४ देवदेवीभिः क०, घ० । ५ वैशाखेऽयात् परं पदम् ल० ।

## शार्दूलविक्रीडितम्

येनाप्तानिमिपेश्वरैरयमयी<sup>१</sup> श्रीः पञ्चकल्याणजा  
 यस्यानन्तचतुष्टयोऽज्ज्वलतरा श्रीरक्षया क्षायिकी ।  
 यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रियालिङ्गितः  
 स त्रिश्रिरभिनन्दनो निजपतिर्जीयादनस्तोदयः ॥ ६८ ॥

## वसन्ततिलका

यो रत्नसञ्जयपुरेशमहाबलाख्यो  
 योऽनुत्तरेषु विजयी विजयेऽहमिन्द्रः ।  
 यश्चाभिनन्दननृपो वृषभेशवंशे  
 साकेतपत्तनपतिः स जिनोऽवताद्गः ॥ ६९ ॥


उभयनयभेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन्  
 स्वभविभवभ्रष्ट्यै भक्त्या द्युभूमिरभिप्लुतः ।  
 त्रिभुवनविभुभूर्धो भव्या भवान्नवतां भवद्  
 भयमभिववन् भूत्यै भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्तमभिनन्दन-  
 स्वामिनः पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५० ॥



जिन्होंने इन्द्रोंके द्वारा पञ्च कल्याणकोंमें उत्पन्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म क्षयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरङ्ग लक्ष्मी प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भी निर्मल गुणोंके धारक रहे, मोक्षलक्ष्मीने जिनका आलिङ्गन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियोंसे युक्त रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥ ६८ ॥ जो पहले रत्नसंचय नगरके राजा महाबल हुए, तदनन्तर विजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषभनाथ तीर्थकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर समस्त पदार्थोंका विचार किया है, अपने भवकी विभूति को नष्ट करनेके लिए देवोंने भक्तिसे जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसारके प्राणियोंका भय दूर करनेवाले हैं ऐसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवो ! तुम सबकी विभूतिको करनेवाले हों ॥ ७० ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला पचासवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## एकपञ्चाशत्तमं पर्व

लक्ष्मीरनश्वरी तेषां येषां १ तस्य मते १ मतिः । देयादादेयवाक् ३ सङ्घिः सोऽस्मभ्यं सुमतिर्मतिम् ॥ १ ॥  
 अखण्डे धातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूर्वगे । विदेहे नद्युदक्कूले सुराङ्गं पुष्कलावती ॥ २ ॥  
 पुरेऽस्मिन् पुण्डरीकिण्यां रतिषेणो महीपतिः । प्राग्जन्मोपाजितो दीर्घपुण्यपण्यात्मसाकृतम् ॥ ३ ॥  
 राज्यं विनिजितारतिनिःकोपं निव्यवृद्धिकम् । स्वामिसम्पत्समेतः सक्षीत्या ४ निर्व्यसनोऽन्वभूत् ॥ ४ ॥  
 ५ या स्वस्यैवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु वर्तन्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥  
 रक्तस्य मनसा तृप्तिः कामः करणगोचरे । स्वेष्टाशेषार्थसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुर्लभः ॥ ६ ॥  
 अर्थे चतुष्टयी वृत्तिरर्जनादि यथागमम् । देवोऽर्हन्तर्धर्मौ च तदनीपद्युधौ मती ॥ ७ ॥  
 गच्छत्येवं चिरं काले हेलया पालितक्षितेः । परस्परानुकूल्येन वर्गाभितयवर्द्धिनः ॥ ८ ॥  
 जन्तोः किं कुशलं कस्मात्सुखमेषोऽधितिष्ठति । पर्यायावर्तदुर्जन्मदुर्मृत्यूरगदूरगः ॥ ९ ॥  
 न तावदर्थकामाभ्यां सुखं संसारवर्द्धनात् । नासुष्मादपि मे धर्माद्यस्मात्सावद्यसम्भवः ॥ १० ॥

अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषोंके द्वारा ब्राह्म हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान् हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें ॥ १ ॥ अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूर्व मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर स्थित विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है ॥ २ ॥ उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें रतिषेण नामका राजा था। वह राजा राज-सम्पदाओंसे सहित था, उसे किसी प्रकारका व्यसन नहीं था और पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-पूर्वक उपभोग करता था। उसका वह राज्य शत्रुओं से रहित था, क्रोधके कारणोंसे रहित था और निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ ३-४ ॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसी की थी वैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पाई जाती थी। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड इन चारों विद्याओंमें चौथी दण्डावद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा प्राणदण्ड आदि अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी ॥ ५ ॥ इन्द्रियोंके विषयमें अनुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। वह काम, अपने इष्ट समस्त पदार्थोंकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुर्लभ नहीं था ॥ ६ ॥ वह राजा अर्जन, रक्षण, वर्धन और व्यय इन चारों उपायोंसे धन संचय करता था और आगमके अनुसार अर्हन्त भगवान्को ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्मको वह कामकी अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था अर्थात् कामकी अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थका अधिक सेवन करता था ॥ ७ ॥ इस प्रकार लीलापूर्वक पृथिवीका पालन करनेवाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसके हृदयमें निम्नांकित विचार उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ वह विचार करने लगा कि इस संसारमें जीवका कल्याण करनेवाला क्या है? और पर्यायरूपी भँवरोंमें रहनेवाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण रूपी सर्पोंसे दूर रहकर यह जीव सुखको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? अर्थ और कामसे तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही वृद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्ममें पापकी संभावना है उस धर्मसे भी सुख नहीं हो

१ यस्य क०, ख०, ग०, घ० । २ मतिर्मतम् क०, ग० । ३ वाक्सिद्धिः ग० । ४ निर्व्यसनन्वभूत् ख० ।  
 ५ या स्वस्यैष्टा च सा विद्या ग० ।

निःसावधोऽस्ति भर्मोऽन्यस्ततः सुखमनुचामम्<sup>१</sup> । इत्युदर्को वितर्कोऽस्य विरक्तस्याभवत्ततः ॥ ११ ॥  
 राज्यस्य दुर्भरं भारं निवेश्यातिरथे<sup>२</sup> तुजि ।<sup>३</sup> सुभरं तपसो भारं बभार स भवान्तकृत् ॥ १२ ॥  
 जिनाहंश्चन्दनाभ्यासे विदितैकादशाङ्गकः । उदासीनः स्वदेहेऽपि मोहारातिजयेच्छया ॥ १३ ॥  
 यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धिस्तच्चरन्ति सुमेधसः । अद्धानविनयाद्युक्तकारणोपात्ततीर्थकृत् ॥ १४ ॥  
 प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्यायुष्कृष्टमहमिन्द्रताम् ।<sup>४</sup> वैजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारिभाररीरकः ॥ १५ ॥  
 मासैः षोडशभिः पञ्चदशभिश्च दिनैः श्वसन् । अयश्चिंशत्सहस्राब्दैरन्धो<sup>५</sup> मानसमाहरत् ॥ १६ ॥  
 शुक्लेशयः स्वतेजोऽवधीतविष्टपनालिकः । तत्क्षेत्रविक्रियद्धींशस्तदुद्धारिबलान्वितः ॥ १७ ॥  
 आहमिन्द्रं सुखं मुख्यमङ्गिनामाजवंजवे । निर्द्वन्द्वं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमत् ॥ १८ ॥  
 आयुरन्ते समाधानात्स्मिन्नगामिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेते वृषभान्वये ॥ १९ ॥  
 तद्गोत्रे क्षत्रियोऽस्तारिः श्लाघ्यो मेघरथोऽभवत् । मङ्गलाऽस्य महादेवी वसुधारादिपूजिता ॥ २० ॥  
 मघायां श्रावणे मासि दृष्ट्वा स्वप्नान् गजादिकान् । आस्यं सितद्वितीयायामैक्षिष्टागामुक्तं द्विपम् ॥ २१ ॥  
 तत्फलान्यवबुध्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम् । नवमे मासि चित्रायां सज्ज्योत्सैकादशीदिने ॥ २२ ॥  
 त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं पितृयोगे सतां पतिम् । जगत्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमलब्ध सा ॥ २३ ॥  
 देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा मेरौ<sup>६</sup> जन्मसैवोत्सवम् । कृत्वा सुमतिसञ्ज्ञां च पुनस्तद्देहमानयन् ॥ २४ ॥

सकता । हां, पापरहित एक मुनिधर्म है उसीसे इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार विरक्त राजाके हृदयमें उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हुआ । ॥ ६-११ ॥ तदनन्तर संसार का अन्त करनेवाले राजा रतिषेणने राज्यका भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सौंप कर तपका हलका भार धारण कर लिया ॥ १२ ॥ उसने अर्हन्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया और मोह-शत्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी ॥ १३ ॥ उसने दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता आदि कारणोंसे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट पदार्थकी सिद्धि होती है बुद्धिमान् पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं ॥ १४ ॥ उसने अन्त समयमें संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ उसका एक हाथ ऊँचा शरीर था । वह सोलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक बार श्वास लेता था, तैतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, शुक्लेशयाका धारक था, अपने तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता था, और लोकनाडी उखाड़ कर फेंकनेकी शक्ति रखता था ॥ १५-१७ ॥ इस संसारमें अहमिन्द्रका सुख ही मुख्य सुख है, वही निर्द्वन्द्व है, प्रवीचारसे रहित है और रागसे शून्य है । अहमिन्द्रका सुख राजा रतिषेणके जीवको प्राप्त हुआ था ॥ १८ ॥ आयुके अन्तमें समाधि-मरण कर जब वह अहमिन्द्र यहाँ अवतार लेनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें मेघरथ नामका राजा राज्य करता था । वह भगवान् वृषभदेवके वंश तथा गोत्रमें उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था । मङ्गला उसकी पट्टरानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोंसे सन्मानको प्राप्त थी ॥ १९-२० ॥ उसने श्रावणशुक्ल द्वितीयाके दिन मघा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया ॥ २१ ॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी बहुत ही हर्षित हुई । तदनन्तर नौवें चैत्र माहके शुक्लपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृ योगमें उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ और त्रिभुवनके भर्ता उस अहमिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया ॥ २२-२३ ॥ सदाकी भांति इन्द्र लोग जिन-बालकको सुमेरु पर्वत

१-मनुस्मृतम् क०, ४० । २ पुत्रे 'तुक् तोकं चात्मजः प्रजा' इति कोशः । ३ सुचिरम् ख०, ग० ।  
 ४ वैजयन्ते द्व त्त० । ५ भोजनम् । ६ जन्मोत्सवोत्सवम् क०, ४० । जन्ममहोत्सवम् ख० ।

नवलक्ष्णाब्धिकोटीषु प्रयातेऽनन्तरेऽन्तरे<sup>१</sup> । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरुदपाद्युदितोदयः<sup>२</sup> ॥ २५ ॥  
 शून्यषड्वर्धाधिपूर्वायुः शरासत्रिशतोद्धृतिः<sup>३</sup> । सन्तप्तपनीयाभः स्वभावसुमगाकृतिः ॥ २६ ॥  
 शैशवोचितसर्वाथैर्देधानितैः सदैधितुः<sup>४</sup> । अंशवो वा शिशोरिन्दोर्व्यक्त्यास्यावयवा बभुः ॥ २७ ॥  
 तनवः कुञ्चिताः स्निग्धाः मूर्धजाजाम्बवत्त्विषः । मुखपङ्कजमाशङ्क्य मिलिता वास्य षट्पदाः ॥ २८ ॥  
 मया त्रैलोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः । पट्टोऽलम्भीति<sup>५</sup> वास्याधाल्ललाटतटमुञ्चतिम् ॥ २९ ॥  
 कर्णौ लक्षणसम्पूर्णौ नास्य त्रिज्ञानधारिणः । पञ्चवर्षोर्ध्वशिष्यत्वपरिभूतिं प्रतेनतुः ॥ ३० ॥  
 सुभ्रुवो न भ्रुवोर्वाच्यो विभ्रमोऽस्य पृथग्विदाम् । भ्रूक्षेपमात्रदत्तार्थसार्थसन्तपिताथिनः ॥ ३१ ॥  
 नेत्रे विलासिनी स्निग्धे त्रिवर्णे तस्य रेजतुः । इष्टाखिलार्थसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥ ३२ ॥  
 मया विनाऽऽस्यशोभा<sup>६</sup> स्यान्नोत्सवौ नासिका, स्मयम् । उन्नता दधतीवाभाद्रन्राब्जामोदपायिनी ॥ ३३ ॥  
 लक्ष्म्यौ कपोलयोर्लक्ष्म्या वक्षःस्थलसमाश्रितेः<sup>७</sup> । उत्तमाङ्गाश्रयाद् द्वित्वात् जित्वर्यौ वास्य रेजतुः ॥ ३४ ॥  
 जित्वास्य कुन्दसौन्दर्यं द्विजराजिर्व्यराजत । वक्राब्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती ॥ ३५ ॥  
 नाधरस्याधराख्या<sup>८</sup> स्यात्सप्तमास्वादशाखिनः । अधरीकृतविश्रामराधरस्याद्रिशोभिनः ॥ ३६ ॥  
 नालप्यते लपस्यास्य शोभा वाग्वल्लभोज्ज्वला । यदि दिव्यो ध्वनिर्विश्रवाचकोऽस्माद्विनिःसृताः ॥ ३७ ॥

पर ले गये, वहां उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रक्खा और फिर घर वापिस ले आये ॥ २४ ॥ अभिनन्दन स्वामीके बाद नौ लाख करोड़ सागर बीत जानेपर उच्छृष्ट पुण्यको धारण करनेवाले भगवान् सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी समयमें शामिल थी ॥ २५ ॥ इनकी आयु चालीस लाख पूर्वकी थी, शरीरकी ऊंचाई तीन सौ धनुष थी, तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति थी, और आकार स्वभावसे ही सुन्दर था ॥ २६ ॥ वे देवोंके द्वारा लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होते थे । उनके शरीरके अवयव ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाकी किरणें ही हों ॥ २७ ॥ उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जामुनके समान कान्ति वाले शिरके केश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखमें कमलकी आशंका कर भौंरे ही इकट्ठे हुए हों ॥ २८ ॥ मैंने देवोंके द्वारा अभिषेकके बाद तीन लोकके राज्यका पट्ट प्राप्त किया है । यह सोच कर ही मानो उनका ललाटतट ऊंचाईको प्राप्त हुआ था ॥ २९ ॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान्के कान सब लक्षणोंसे युक्त थे और पांच वर्षके बाद भी उन्होंने किसीके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था ॥ ३० ॥ उनकी भौंहें बड़ी ही सुन्दर थीं, भौंहोंके संकेत मात्रसे दिये हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंको संतुष्ट कर दिया था अतः उनकी भौंहोंकी शोभा बड़े-बड़े चिद्धानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी ॥ ३१ ॥ समस्त इष्ट पदार्थोंके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले अपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र विलास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, शुक्ल कृष्ण और लाल इस प्रकार तीन वर्ण के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे ॥ ३२ ॥ मुख-कमलकी सुगन्धिका पान करनेवाली उनकी नाक, 'मेरे विना मुखकी शोभा नहीं हो सकती' इस बातका अहंकार धारण करती हुई ही मानो ऊंची उठ रही थी ॥ ३३ ॥ उनके दोनों कपोलोंकी लक्ष्मी उत्तमाङ्ग अर्थात् मस्तकका आश्रय होने तथा संख्यामें दो होनेके कारण वक्षःस्थल पर रहनेवाली लक्ष्मीको जीतती हुई-सी शोभित हो रही थी ॥ ३४ ॥ उनके दांतोंकी पंक्ति कुन्द पुष्पके सौन्दर्यको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मुख कमलमें निवास करनेसे संतुष्ट हो हँसती हुई सरस्वती ही हो ॥ ३५ ॥ जिन्होंने समस्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वतकी शोभा बढ़ाई है और छहरसोंके सिवाय सप्तम अलौकिक रसके आस्वादसे सुशोभित हैं ऐसे उनके अघरों (ओठों) की अघर (तुच्छ) संज्ञा नहीं थी ॥ ३६ ॥ जिससे समस्त पदार्थोंका उल्लेख करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई है ऐसे उनके मुखकी शोभा तो कही ही

१ प्रयातेऽनन्तरान्तरे ग०, क० । २ द्युतितोदितः क०, ख०, ग० । द्युतितोदितम् घ० । ३ त्रिशतोद्धृतिः क०, घ० । ४ सदैव च ग० । ५ वास्यागाङ्गलाट-ख०, ग० । ६ आस्यशोभा-मुखशोभा । ७-माश्रितः ल० । ८-धराख्यस्य क०, ख०, ग०, घ० ।



१हावो वक्राम्बुजस्यास्य किं पुनर्वर्ण्यसेतराम् । यदि लोलालितां जग्मुर्निलिम्पेशाः सवल्लभाः ॥ ३८ ॥  
 कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्याद्यदि श्रैलोष्यकण्ठिका । बद्धामरेशैः स्याद्वादकुण्ठिताखिलवादिनः ॥ ३९ ॥  
 तद्वाहुशिखरे मन्ये शिरसोऽप्यतिलङ्घिनी । वक्षःस्थलनिवासिन्या लक्ष्म्याः क्रीडाचलायते ॥ ४० ॥  
 धरालक्ष्मीं समाहर्तुं १वीरलक्ष्मीप्रसारितौ । भ्राजते जयिनस्तस्य भुजावाजानुलङ्घिनौ ॥ ४१ ॥  
 पृथक् पृथक्त्वं नाख्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्युदयलक्ष्म्यौ चेतदेवावसतः समम् ॥ ४२ ॥  
 कृशमप्यकृशं मध्यं लक्ष्मीद्वयसमाश्रितम् । ऊर्ध्वदेहं महाभारं वहदेतस्य हेलया ॥ ४३ ॥  
 नाभिः प्रदक्षिणावर्ता गम्भीरेति न कथ्यते । सा चेन्न तादृशी तस्मिन्न स्यादेवं सुलक्षणा ॥ ४४ ॥  
 रूपशोभां विना नेमः<sup>३</sup> ४स्वाश्रयादिति वाणवः । सन्तः सर्वेऽपि तत्रासन् रम्यस्तत्र कटीतटः ॥ ४५ ॥  
 रम्भास्तम्भादयोऽन्येषामूर्वीर्यान्पुमानताम् । उपमेयास्तदूरुभ्यां ते वृत्त्वादिभिर्गुणैः ॥ ४६ ॥  
 कृतो जातुक्रियेत्येतद् वेधि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिन्नूरुजङ्घानां शोभास्पर्द्धानि<sup>५</sup>वृत्तये ॥ ४७ ॥  
 वज्रेण घटिते जङ्घे वेधसाऽस्यान्यथा कथम् । जगत्त्रयगुरोर्भारं विधाते ते तनोस्तनू ॥ ४८ ॥  
 धरेयं सर्वभावेन लम्नाऽस्मत्तलयोरिति । तल्लमौ प्रमदेनेव कूर्मपृष्ठौ शुभच्छवी ॥ ४९ ॥  
 इयन्तोऽस्मिन् भविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवर्हणाः । इत्याख्यातुमिवाभान्ति विभिनाङ्गुलयः कृताः ॥ ५० ॥

नहीं जा सकती । उनके मुखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा उज्ज्वल थी अथवा वचनरूपी वल्लभा—सरस्वतीसे देदीप्यमान थी ॥ ३७ ॥ जब कि अपनी-अपनी वल्लभाओंसे सहित देवेन्द्र भी उस पर सत्पण भ्रमर जैसी अवस्थाको प्राप्त हो गये थे तब उनके मुख-कमलके हावका क्या वर्णन किया जावे ? ॥ ३८ ॥ जिन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त वादियोंको कुण्ठित कर दिया है ऐसे भगवान् सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंने तीन लोकके अधिपतित्वकी कण्ठी बाँध रखी थी तब उसकी क्या प्रशंसा की जावे ? ॥ ३९ ॥ शिरसे भी ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओंके शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्षःस्थल पर रहने वाली लक्ष्मीके क्रीडा-पर्वत ही हों ॥ ४० ॥ घुटनों तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो पृथिवीकी लक्ष्मीको हरण करनेके लिए वीर-लक्ष्मीने ही अपनी भुजाएँ फैलाई हों ॥ ४१ ॥ उनके वक्षःस्थलकी शोभाका पृथक्-पृथक् वर्णन कैसे किया जा सकता है जब कि उस पर मोक्षलक्ष्मी और अभ्युदयलक्ष्मी साथ ही साथ निवास करती थीं ॥ ४२ ॥ उनका मध्यभाग कृश होने पर भी कृश नहीं था क्योंकि वह मोक्षलक्ष्मी और अभ्युदय-लक्ष्मीसे युक्त उनके भारी शरीरको लीलापूर्वक धारण कर रहा था ॥ ४३ ॥ उनकी आवर्तके समान गोल नाभि गहरी थी यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी ही नहीं जान पड़ती ॥ ४४ ॥ समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी अच्छे आश्रयके विना रूप तथा शोभाको प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर आ कर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुन्दर हो गई थी ॥ ४५ ॥ केलेके स्तम्भ आदि पदार्थ अन्य मनुष्योंकी जाँघोंकी; उपमानताको भले ही प्राप्त हो जावें परन्तु भगवान् सुमतिनाथके जाँघोंके सामने वे गोलाई आदि गुणोंसे उपमेय ही बने रहते थे ॥ ४६ ॥ विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ अन्य लोग नहीं जानते और वह बात यह है कि इनकी ऊरुओं तथा जंघाओंमें शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो इस विचार सेही बीचमें घुटने बनाये थे ॥ ४७ ॥ विधाताने उनकी जंघाएँ वज्रसे बनाई थीं, यदि ऐसा न होता तो वे कृश होने पर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके भारको कैसे धारण करतीं ॥ ४८ ॥ यह पृथिवी संपूर्ण रूपसे हमारे तलवोंके नीचे आकर लग गई है यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हर्षसे कछुवेकी पीठके समान शुभ कान्तिके धारक हो गये थे ॥ ४९ ॥ इन भगवान् सुमतिनाथमें कर्मोंको नष्ट करनेवाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए

१ मुखस्य । २ श्रीयं श्लोकः ष० पुस्तके नास्ति । ३ वीरलक्ष्म्या ख०, ग० । ४ नेमः ग० । रूपशोभा-वितानेन ख० । ५ शुभ आश्रयः स्वाश्रयः तस्मात् । ६ निषिद्धये ल० ।

विधाय दशधाऽऽत्मानं विधुरह्नी निषेवते । कान्तिमाभ्यां परं प्राप्नुमित्याशङ्कावहा नखाः ॥ ५१ ॥  
 एवं सर्वाङ्गशोभास्य लक्षणैर्व्यञ्जनैः शुभा । स्वीकरिष्यति मुक्त्यङ्गनां वेत्यत्र न संशयः ॥ ५२ ॥  
 कौमारमिति रूपेण सन्धते रामणीयकम् । अनास्रयौवनस्यास्य तद्विनापि मनोभवात् ॥ ५३ ॥  
 ततो यौवनमालम्ब्य कामोऽप्यस्मिन् कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्ठन्ति के स्वयम् ॥ ५४ ॥  
 कुमारकाले पूर्वाणां दशलक्षेषु निष्ठिते । भुञ्जन् स्वलोकसाम्राज्यं नृराज्यं चाप स क्रमात् ॥ ५५ ॥  
 न हिंसा न मृषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वप्नेऽपि तद्गतानन्दः शुक्ललेप्यस्य केन सः ॥ ५६ ॥  
 तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तत्सङ्कुशो न तद्गतः ॥ ५७ ॥  
 गुणानां वृद्धिमातन्वन् सञ्चयं पुण्यकर्मणाम् । विपाकं विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ ॥  
 सेव्यमानः सदा रक्तैः सुरलेखरभूचरैः । निराकृतैर्हिकारम्भः सम्भृतः सर्वसम्पदाम् ॥ ५९ ॥  
 निश्चितं कामभोगेषु नित्यं नुसुरभाविषु । न्याय्यार्थपथ्यधर्मेषु शर्मसारं समाप सः ॥ ६० ॥  
 कान्ताभिः कमनीयाभिः सवयोभिः समीप्सुभिः । दिव्याङ्गरागस्त्रग्वस्त्रभूषाभी रमते स्म सः ॥ ६१ ॥  
 दिव्यश्रीर्मानुषी च श्रीः समप्रेमप्रतोषिते । सुखं विदधन्तुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥  
 सुखं नाम तदेवात्र यदत्येन्द्रियगोचरम् । स्वर्गन्धसारभोग्यं चेत्युरेशास्यैव रक्षितम् ॥ ६३ ॥  
 एवं सङ्गमयन् कालं दिव्यराज्यश्रियोर्द्वये । व्यरंत्सीत् संघृतेः सा हि प्रत्यासन्नविनेयता ॥ ६४ ॥

ही मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियाँ बनाई थीं ॥ ५० ॥ उनके चरणोंके नख ऐसी शङ्का उत्पन्न करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी सेवा करता था ॥ ५१ ॥ इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्जनोंसे सुशोभित उनके सर्व शरीरकी शोभा मुक्तिरूपी स्त्रीको स्वीकृत करेगी इसमें कुछ भी संशय नहीं था ॥ ५२ ॥ इस प्रकार भगवान्की कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था तो भी वे कामदेवके बिना ही अधिक सुन्दर थे ॥ ५३ ॥ तदनन्तर यौवन प्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते ॥ ५४ ॥

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व बीत चुके तब उन्हें स्वर्गलोकके साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥ ५५ ॥ शुक्ललेप्यको धारण करनेवाले भगवान् सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोलते थे और न चोरी तथा परिग्रह सम्बन्धी आनन्द उन्हें स्वप्नमें भी कभी प्राप्त होता था । भावार्थ—वे हिंसानन्द, मृषानन्द, स्तेयानन्द और परिग्रहानन्द इन चारों रौद्रध्यानसे रहित थे ॥ ५६ ॥ उन्हें न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते थे । इस प्रकार वे चारों आर्तध्यानसम्बन्धी संक्षेपसे रहित थे ॥ ५७ ॥ गुण, पुण्य और सुखोंको धारण करनेवाले भगवान् अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मोंके विपाकका अनुभव करते थे ॥ ५८ ॥ अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर और भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त आरम्भ दूर कर दिये थे, और वे सर्व सम्पदाओंसे परिपूर्ण थे ॥ ५९ ॥ वे मनुष्य तथा देवोंमें होनेवाले काम-भोगोंमें, न्यायपूर्ण अर्थमें तथा हितकारी धर्ममें श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥ ६० ॥ वे दिव्य अङ्गराग, माला, वस्त्र और आभूषणोंसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई स्त्रियोंके साथ रमण करते थे ॥ ६१ ॥ समान प्रेमसे संतोषित दिव्य लक्ष्मी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुँचाती थीं सो ठीक ही है क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता ? ॥ ६२ ॥ संसारमें सुख वही था जो इनके इन्द्रियगोचर था, क्योंकि स्वर्गमें भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्हींके लिए सुरक्षित रखता था ॥ ६३ ॥ इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य-

१ सुधीः कथं सुखांशेषु विषयामिषगृह्णिमान् । न पापबडिशं पश्येन्न चेदनिमि २ पायते ॥ ६५ ॥  
 मूढः प्राणी परं प्रौढिमप्राप्तोऽस्त्वहिताहितः ३ । अहितेनाहितोऽहं च कथं बोधत्रयाहितः ॥ ६६ ॥  
 निरङ्कुशं न वैराग्यं यादृग्ज्ञानं च तादृशम् । कुतः रयादात्मनः स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम् ॥ ६७ ॥  
 खपञ्चकनवद्द्रुयुक्तैः पूर्वैः राज्येऽवसाधिते । सह द्वादशपूर्वाङ्गैः स्वस्मिन्नेवेत्यचिन्तयत् ॥ ६८ ॥  
 स्तुतस्तदैव संस्तोत्रैः सर्वैः सारस्वतादिभिः । अभिषेकं सुरैराप्य देवोढाभययानकः ॥ ६९ ॥  
 दीक्षां षष्ठोपनासेन सहेतुकवनेऽगृहीत् । सिते राज्ञां सहस्रेण सुमतिर्नवमीदिने ॥ ७० ॥  
 मघाशशनि वैशाखे पूर्वाह्णे संयमाश्रयम् ४ । तदैवाविरभूदस्य मनःपर्ययसञ्चकम् ॥ ७१ ॥  
 धुरं सौमनसं नाम भिक्षायै पश्चिमे दिने । प्राप्तं ५ प्रतीक्ष्य पद्मोऽगात्पूजां धुमन्द्युतिर्नृपः ॥ ७२ ॥  
 सामायिकं समादाय समौनः शान्तकल्मषः । तपस्तेपे समाधानात्सहिष्णुर्दुस्सहं, परैः ॥ ७३ ॥  
 विशतिं बत्सरास्तीत्वा छद्मस्थः प्राक्तने वने । प्रियङ्गुभूरुहोऽवस्तातुपवासद्वयं श्रितः ॥ ७४ ॥  
 मघायां चैत्रमासस्य धवलकैकादशीदिने । पश्चिमाभिमुखे भानौ कैवल्यमुदयादयत् ६ ॥ ७५ ॥  
 सुरैः सम्प्राप्ततत्पूजो गणेशैश्चामरादिभिः । स ससद्भिर्भिरभ्यर्च्यः सपोडशशतान्मुसैः ॥ ७६ ॥  
 शून्यद्वयचतुःपक्षमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चत्रिचतुःपञ्चपक्षोक्तैः ७ शिक्षकैर्युतः ॥ ७७ ॥

लक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान् सुमतिनाथ संसारसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यपना इसीको कहते हैं ॥ ६४ ॥ भगवान् ने विचार किया कि अल्प सुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् मानव, इस विषयरूपी मांसमें क्यों लम्पट हो रहे हैं । यदि ये संसार के प्राणी मछलीके समान आचरण न करें तो इन्हें पापरूपी वंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥ ६५ ॥ जो परम चातुर्यको प्राप्त नहीं है ऐसा मूर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्योंमें लीन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानोंसे सहित हूँ फिर भी अहितकारी कार्योंमें कैसे लीन हो गया ? ॥ ६६ ॥ जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यथेष्ट सम्यग्ज्ञान नहीं होता तब तक आत्माकी स्वस्वरूपमें स्थिरता कैसे हो सकती है ? और जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नहीं है उसके सुख कैसे हो सकता है ? ॥ ६७ ॥ राज्य करते हुए जब उन्हें उन्तीस लाख पूर्व और बारह पूर्वाङ्ग बीत चुके तब अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया ॥ ६८ ॥ उसी समय सारस्वत आदि समस्त लौकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की, देवोंने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी अभय नामक पालकी उठाई ॥ ६९ ॥ इस प्रकार भगवान् सुमतिनाथने वैशाख सुदी नवमीके दिन मघा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली । संयमके प्रभावसे उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ७०-७१ ॥ दूसरे दिन वे भिक्षाके लिए सौमनस नामक नगरमें गये । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिके धारक पद्म-राजाने पङ्गाह कर आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की ॥ ७२ ॥ उन्होंने सर्वपापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण किया था, वे मौनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चुके थे, वे अत्यन्त सहिष्णु—सहनशील थे और जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तपको बढ़ी सावधानीके साथ तपते थे ॥ ७३ ॥ उन्होंने छद्मस्थ रहकर बीस वर्ष बिताये । तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें प्रियङ्गु वृक्षके नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ॥ ७४ ॥ और चैत्र शुक्ल एकादशीके दिन जब सूर्य पश्चिम दिशाकी ओर ढल रहा था तब केवलज्ञान उत्पन्न किया ॥ ७५ ॥ देवोंने उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की । सप्त ऋद्धियोंके धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर निरन्तर सम्मुख रह कर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूर्वधारी निरन्तर उनके साथ

१ अयं श्लोकः ४० पुस्तके नास्ति । २ अनिमिषो मत्स्यस्तद्वदाचरतीति—अनिमिषायते 'पाठीनोऽनिमिष-  
 स्तिमिः' इति धनञ्जयः । ३ परं प्रौढिं विशतामप्राप्तो मूढः प्राणी अहिते-अहितकरे कार्ये आहित आसक्तः अस्तु  
 भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽहं अहितेन कथं माहित इत्याश्चर्यम् । ४ संयमाश्रयात् ग० । ५ प्राप्ते ग० ।  
 ६ केवल्यग्रुपपादिवान् ल० । ७ पद्मोत्तरैः ल० ।

एकादशसहस्रावधीद्वबोधविदीडितः । त्रयोदशसहस्रात्मसमानज्ञान<sup>१</sup>संस्तुतः ॥ ७८ ॥  
 शून्यद्वययुगाष्टैकमितवैक्रियकस्तुतः । शून्यद्वयचतुःशैकप्रमितोपान्तविद्व<sup>२</sup>तः ॥ ७९ ॥  
 शून्यपञ्चचतुःशैकमितवाद्यभिवन्दितः । पिण्डितैः खचतुष्कद्वित्रिमितैस्तैर्विश्रुषितः ॥ ८० ॥  
 खचतुष्कत्रिवह्युक्तानन्तार्याधार्मिकानुगः । त्रिलक्षश्रावकाभ्यर्चः श्राविकापञ्चलक्षवान् ॥ ८१ ॥  
 स देवदेव्यसङ्ख्याततिर्यक्सङ्ख्यातवेष्टितः । विहृत्याष्टदशक्षेत्रविशेषेणमराञ्चितः ॥ ८२ ॥  
 प्रशस्ताशस्तभाषासु भव्यानां दिव्यमक्षिपत् । ध्वनिं बीजविशेषं वा सुभूमिषु महाफलम् ॥ ८३ ॥  
 विमुक्त<sup>३</sup>विहृतिर्मांसं सहस्रमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निर्वृतिं ययौ ॥ ८४ ॥  
 एकादश्यां सिते चैत्रे मघायामपराङ्गः । अमरैरन्त्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८५ ॥

## मालिनी

रिपुनृपयमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो

हरिरिव रतिपेणो वैजयन्तेऽहमिन्द्रः ।

\*सुमतिरमितलक्ष्मीस्तीर्थकृद्यः कृतार्थः

सकलगुणसमृद्धो वः स सिद्धिं विदध्यात् ॥ ८६ ॥

रहते थे, वे दो लाख चौअन हजार तीन सौ पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारह हजार अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलज्ञानी उनकी स्तुति करते थे, आठ हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सौ मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, और दश हजार चार सौ पचास वादी उनकी बंदना करते थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख बीस हजार मुनियोंसे वे सुशोभित हो रहे थे ॥ ७६-८० ॥ अनन्तमती आदि तीन लाख तीस हजार आर्थिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं ॥ ८१ ॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यञ्चोंसे वे सदा घिरे रहते थे । इस प्रकार देवोंके द्वारा पूजित हुए भगवान् सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रोंमें विहार कर भव्य जीवोंके लिए उपदेश दिया था । जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया जाता है और उससे महान् फलकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार भगवान्ने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओंमें भव्य जीवोंके लिए दिव्य ध्वान रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवोंको रत्नत्रयरूपी महान् फलकी प्राप्ति हुई थी ॥ ८२-८३ ॥

अन्तमें जब उसकी आयु एक मासकी रह गई तब उन्होंने विहार करना बन्द कर सम्मेद-गिरि पर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वहींसे चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्रमें शामके समय निर्वाण प्राप्त किया । देवोंने उनका निर्वाणकल्याणक किया ॥ ८४-८५ ॥ जो पहले शत्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिपेण थे, फिर वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य सुमतिनाथ तीर्थकर हुए वे तुम

१ ज्ञानिसंयुतः ग० । २-विद्वतः क०, घ० ।-विद्वतः ग० । ३ विमुक्तविकृतिर्मांसं क०, ख०, ग०, घ० ।  
 विमुक्तविकृतिः ल० ।

## स्रग्धरा

सद्यो जातं जिनेन्द्रं स्वरवतरणसम्प्राप्तकल्याणकार्ये

वामं जन्माभिषेके १सुरपविरचितैर्भूषणैरिद्धशोभम् ।

सन्निष्कान्तावधोरं सुमतिमतिमतिं केवलज्ञानसिद्धा-

वीशानं निर्द्वैतौ तत्पुरुषमपरुषं शान्तये संश्रयध्वम् ॥ ८७ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुमतितीर्थपुराणं नाम  
समाप्तमेकपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥

—:ॐ:—

सबको सिद्धि प्रदान करें ॥ ८६ ॥ जो भगवान् स्वर्गावतरणके समय गर्भकल्याणकके उत्सवमें 'सद्यो-जात' कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्रोंके व्रजसे विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर 'वाम' कहलाये, दीक्षा-कल्याणकके समय 'अधोर' कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'ईशान' कहलाये और निर्वाण होने पर 'तत्पुरुष' कहलाये ऐसे रागद्वेष रहित अतिशय पूज्य भगवान् सुमतिनाथका शान्तिके लिए हे भव्य जीवो ! आश्रय ग्रहण करो ॥ ८७ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें सुमतिनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला इक्यावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## द्विपञ्चाशत्तमं पर्व

पद्मेऽस्थाङ्गुर्न भातीव प्रभास्मिन्निति वाञ्छिता । त्यक्त्वा तं यं स पद्मात्मान्पातु पद्मप्रभः प्रभुः ॥ १ ॥  
द्वितीये धातकीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपूर्वजे । विदेहे दक्षिणे कूले सीताया वत्सदेशजम् ॥ २ ॥  
सुसीमानगरं तस्मिन् महाराजोऽपराजितः । न परैर्जायते जेता स बाह्याभ्यन्तरद्विषाम् ॥ ३ ॥  
विक्रमेणैव वक्राणां जेतुर्बाह्यपरिच्छदः । सप्ताङ्गपूर्णं तस्य बलं दोर्बलशालिनः ॥ ४ ॥  
तस्य सत्येन वर्षन्ति जीमूताः कर्षकैश्छया । आदिमध्यान्तवापाश्च धान्यभेदाः फलप्रदाः ॥ ५ ॥  
त्यागेन तस्य दारिद्र्यशब्दः खकुसुमायते । भुवि प्राग्गेषु द्वारिद्र्यं तैरथ धनदायितम् ॥ ६ ॥  
राज्ञां महागुणास्तस्मिन् सुक्षेत्रोऽसुबीजवत् । त्रयोऽप्येते फलन्ति स्म सजातीयान् परान् गुणान् ॥ ७ ॥  
षरेषां बास्यरूपादिसम्पन्नोन्मार्गवृत्तये । तरूत्पाटी मरुन्मेहं<sup>१</sup> क्षमः कम्पयितुं च किम् ॥ ८ ॥  
स षट्प्रकृतिभिर्भूष्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत् । तद्राज्यं न परैर्धृष्यं परेषां<sup>२</sup> धर्षकः स्वयम् ॥ ९ ॥  
एवं भवान्तरावजितोजितायोदयापितम् । नार्पत्यं सुचिरं युक्त्वा संविभक्तं सुहृद्दरैः ॥ १० ॥  
क्षणिकाः सर्वपर्यायाः पर्यायैश्चानुभूयते । सुखं कारणविध्वंसे कार्ये कौतस्कुती स्थितिः ॥ ११ ॥  
<sup>३</sup>इत्यृजुसूत्रभावेन स सर्वं भङ्गुरं स्मरन् । इत्था राज्यं सुमित्राय सुताय विजितात्मने ॥ १२ ॥  
गत्वा तपोगुरुं कृत्वा जिनेन्द्रं पिहितान्नवम् । एकादशाङ्गविद् बध्वा नाम तीर्थकराङ्ग यम् ॥ १३ ॥

कमल दिनमें ही फूलता है, रातमें बन्द हो जाता है अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके कारण जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमलको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे पद्मप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥ दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राज्य करते थे । महाराज अपराजित वास्तव में अपराजित थे क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्गके सभी शत्रुओंको जीत लिया था ॥ २-३ ॥ वह राजा कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशोभित उस राजाकी सप्ताङ्ग सेना केवल बाह्य आडम्बर मात्र थी ॥ ४ ॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोंकी इच्छानुसार बरसते थे और वर्षके आदि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे ॥ ५ ॥ उसके दानके कारण दारिद्र्य शब्द आकाशके फूलके समान हो रहा था और पृथिवी पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान आचरण करने लगे थे ॥ ६ ॥ जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय अन्य बीजोंको उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान् गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे ॥ ७ ॥ इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं ले गई थी सो ठीक ही है क्योंकि वृक्षोंको उखाड़ने वाला क्या मेरु पर्वतको भी कम्पित करनेमें समर्थ है ? ॥ ८ ॥ वह राजा राजाओंके योग्य सन्धि विग्रहादि छह गुणोंसे सुशोभित था और छह गुण उससे सुशोभित थे । उसका राज्य दूसरोंके द्वारा धर्षणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दूसरोंका धर्षक-तिरस्कार करने वाला था ॥ ९ ॥ इस प्रकार अनेक भावोंमें उपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें बटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ॥ १० ॥ तदनन्तर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें समस्त पर्याय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है ? ॥ ११ ॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थोंको भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया,

संन्यस्यान्तपरित्यक्तदेहोऽयादहमिन्द्रताम् । ऊर्ध्वप्रैवेयके रम्ये प्रीतिङ्करविमानजः ॥ १४ ॥  
 एकत्रिंशत्समुद्रायुर्हस्तद्वयशरीरकः । शुक्लेशयो दिनैः पञ्चषट्चतुःसन्मितैः श्वसन् ॥ १५ ॥  
 एकत्रिंशत्सहस्राब्दीमानसाहारतपितः । तेजोबलावधिज्ञानव्यासाससमभूतलः ॥ १६ ॥  
 तत्क्षेत्रविक्रियद्धीशः <sup>१</sup>सुखमापाहमिन्द्रजम् । <sup>२</sup>स्वायुरन्ते ततस्तस्मिन्नवनीमागमिष्यति ॥ १७ ॥  
<sup>३</sup>जम्बूद्वीपेऽत्र कौशाम्ब्यां पतिरिक्ष्वाकुवंशजः । गोत्रेण काश्यपो राजा धरणाख्यो महानभूत् ॥ १८ ॥  
 तस्य देवी सुसीमाख्या रत्नवृष्ट्यादिमानिता । प्रभाते माघकृष्णायां पष्ठयां चित्रेन्दुसङ्गमे ॥ १९ ॥  
 गजादिषोडशस्वमवीक्षणानन्तरास्यगम् । निरीक्ष्य वारणं ज्ञातैस्तत्फलैः प्रमदान्विता <sup>४</sup> ॥ २० ॥  
 कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां त्वष्ट्रयोगेऽपराजितम् । कार्तिके मास्यसूतैषा रक्ताभोजदलच्छविम् ॥ २१ ॥  
 अस्योत्पत्तौ समुत्पत्तिर्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः प्रमोदास्तर्वदेहिनाम् ॥ २२ ॥  
 मोहशत्रुर्हृतच्छायो नष्टोऽहं वेति कम्पते । स्वर्गापवर्गयोर्मार्गं वाहकेऽस्मिन् भविष्यति ॥ २३ ॥  
 मोहनिद्रां विहास्यन्ति बहवोऽस्मिन् प्रबोधके । जन्मिनां जातिः <sup>५</sup>सम्बन्धविरोधश्च विनङ्क्ष्यति ॥ २४ ॥  
 लक्ष्मीर्विकाश <sup>६</sup>मस्यायात् प्रायात् कीर्तिर्जगत्त्रयम् । अभूदित्यादिसंलापो विदुषामितरेतरम् ॥ २५ ॥  
 तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरवारिभिः । क्षपयित्वा विधायानुमुदा पञ्चप्रभाभिधाम् ॥ २६ ॥  
 अभिष्टुत्य पुनर्नीत्वा मातुरङ्गे महाद्युतिम् । निधाय मुदित्वा नृत्यं विधाय <sup>७</sup>प्रययुर्दिवम् ॥ २७ ॥  
 समस्तैः शैशवं तस्य मुदेन्दोरिव वन्द्यते । कः स यः सर्वमाहाद्यं वर्द्धमाने पराङ्मुखः ॥ २८ ॥

वनमें जाकर पिहितास्त्रव जिनन्द्रको दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीर्थकर प्रकृति का बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त रमणीय ऊर्ध्व-प्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥ १२-१४ ॥ इकतीस सागर उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, चार सौ पैसठ दिनमें श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता था, इकतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहारसे संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-ज्ञानसे सप्तमी पृथिवीको व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विक्रियात्कृद्धि थी। इस प्रकार अहमिन्द्र सम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। आयुके अन्तमें जब वह वहां से चय कर पृथिवीपर अवतार लेनेके लिए उद्यत हुआ ॥ १५-१७ ॥ तब इसी जम्बूद्वीपकी कौशाम्बी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री धरण नामका एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोक्ते सम्मानित थी। माघकृष्ण षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र और चन्द्रमाका संयोग हो रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। पतिसे स्वप्नका फल जानकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १८-२० ॥ कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदश्याके दिन त्वष्ट्र योगमें उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणोंकी उत्पत्ति हुई, दोष-समूहका नाश हुआ और हर्षसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो गया ॥ २२ ॥ स्वर्ग और मोक्षका मार्ग चलानेवाले भगवान्के उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रु कान्तिरहित हो गया तथा 'अब मैं नष्ट हुआ' यह सोचकर कौंपने लगा ॥ २३ ॥ उस समय विद्वानोंमें निम्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान् सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुतसे लोग मोह-निद्राको छोड़ देवेंगे, प्राणियोंका जन्मजात विरोध नष्ट हो जावेगा, लक्ष्मी विकासको प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगत्में फैल जावेगी ॥ २४-२५ ॥ उसी समय इन्द्रोंने मेरु पर्वत पर, ले जाकर क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, हर्षसे पद्मप्रभ नाम रक्खा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान् जिन-बालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें रक्खा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया ॥ २६-२७ ॥ चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़े हर्षसे प्रशंसा करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो

१ सुखमापाहमिन्द्रजं ल० । २ आयुरन्ते क०, ख०, ग०, घ०, ल० । ३ जम्बूद्वीपे च कौशाम्ब्यां ल० ।  
 ४ प्रमदान्वितैः ख० । ५ सम्बन्ध-ग०, ख० । ६-र्विकासक०, घ० । ७ प्राययुर्दिवम् क०, घ०, ग० ।

न कामनीयकं कामेऽविकायेऽन्यत्र चेद्दशम् । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥  
 तथैव रूपमप्यस्य कथ्यते किं पृथक् पृथक् । यद्यत्तस्मिन्न तत्त्वज्ञैरन्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥  
 कामयन्ते स्त्रियः पुंसः पुमांसस्ता इमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौभाग्यं नाल्पभावावैरवाप्यते ॥ ३१ ॥  
 तत्तनावेव सर्वेषां दृष्टिस्तृप्तिं परामिता । सन्ततं चूतमञ्जर्या मत्तालीनामिवावली ॥ ३२ ॥  
 सर्वेन्द्रियसमाह्लादस्तस्मिन् चेन्न भृशायते । परत्रापूर्णपुण्येषु न कापीति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥  
 खचतुष्केण कोटीनां नवभिश्चोक्तवाङ्मिभिः । मिते सुमतिसन्ताने पद्मप्रभजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥  
 षट्शून्यवह्निपूर्वायुः शून्यपञ्चद्विचापभाक् । जीवितस्य चतुर्भागे<sup>१</sup> कुमारत्वेन निष्ठिते ॥ ३५ ॥  
 अलब्ध राज्यं प्राप्तामरेज्यो<sup>२</sup> द्वैराज्यवर्जितम् । क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्तन्धान्याथागतम् ॥ ३६ ॥  
<sup>३</sup>पद्मवन्त्रेऽस्य सर्वस्य स्वस्य स्वस्येव सम्मदः । महाभयानि तद्देशे नष्टान्यष्टौ निरन्वयम् ॥ ३७ ॥  
 दारिद्र्यं विद्रुतं दूरं स्वैरं स्वं संप्रवर्तते । सर्वाणि मङ्गलान्यासन् सङ्गमः सर्वसम्पदाम् ॥ ३८ ॥  
 कस्य कस्मिन्समीपेति वदान्येष्वभवद्बहवः । कस्यचिन्नैव कस्मिन्निदर्थितेत्यवदज्जनः ॥ ३९ ॥  
 इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ जगत्सुप्तमिवोत्थितम् । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम् ॥ ४० ॥  
 हीने षोडशपूर्वाङ्गैः<sup>४</sup> ५<sup>५</sup>पूर्वलक्षायुषि स्थिते । कदाचिद् द्वारिवन्धस्थगजप्रकृतिसंभ्रुतेः ॥ ४१ ॥

सबको आह्लादित कर वृद्धिको प्राप्त होता है उससे कौन पराङ्मुख रहता है ? ॥ २९ ॥ भगवान् पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी । यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती थी ॥ २९ ॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी पृथक् पृथक् वर्णन नहीं करना चाहिये क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्यमान थे विद्वान् लोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योंमें रहनेवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ॥ ३० ॥ स्त्रियाँ पुरुषोंकी इच्छा करती हैं और पुरुष स्त्रियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे सो ठीक ही है । क्योंकि जिनका भाग्य अल्प है वे इनके सौभाग्यको नहीं पा सकते हैं ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार मत्त भौरोंकी पंक्ति आममञ्जरिमें परम संतोषको प्राप्त होती है उसी प्रकार सब मनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीरमें ही परम संतोष प्राप्त करती थी ॥ ३२ ॥ हम तो ऐसा समझते हैं कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवान्में पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर अण्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी मनुष्योंमें पूर्णताको प्राप्त नहीं हो सकते थे ॥ ३३ ॥ जब सुमतिनाथ भगवान्की तीर्थ परम्पराके नब्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान् पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे ॥ ३४ ॥ तीस लाख पूर्व उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे । उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एकछत्र राज्य प्राप्त किया । उनका वह राज्य क्रमप्राप्त था—वंश-परम्परासे चला आ रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ॥ ३५-३६ ॥ जब भगवान् पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको ऐसा हर्ष हुआ मानो मुझे ही राज्यपट्ट बाँधा गया हो । उनके देशमें आठों महाभय समूल नष्ट हो गये थे ॥ ३७ ॥ दरिद्रता दूर भाग गई, धन स्वच्छदन्तासे बढ़ने लगा, सब मङ्गल प्रकट हो गये और सब सम्पदाओंका समागम हो गया ॥ ३८ ॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा है और याचक लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है ॥ ३९ ॥

इस प्रकार जब भगवान् पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाको सुख देनेवाला हो ॥ ४० ॥ जब उनकी आयु सोलह पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय दरवाजे पर बँधे हुए हाथीकी दश-सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया और तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारको इस

१ चतुर्भागे-ज्ञ० । २ प्राप्तामरेज्यो ल० । प्राप्तामरेज्यो ग० । ३ पद्मवन्धस्य ग० । ४ पूर्वाङ्गे ग०, क० । ५ पूर्व लक्षायुषि ल० ।



ज्ञातात्मान्यभवो धिक् धिक् संसारमिति तत्त्वविद् । विरक्तः कामभोगेषु पापदुःखप्रदायिषु ॥ ४२ ॥  
 अदृष्टं किं किमस्पृष्टमनाघ्रातं किमश्रुतम् । किं <sup>१</sup>किमस्वादितं येन पुनर्नवमिवेष्यते ॥ ४३ ॥  
 भुक्तमेव पुनर्भुक्तं जन्तुनानन्तशो भवे । <sup>२</sup>मध्यमप्यमिलाषाब्धेरितं वदत किं ततः ॥ ४४ ॥  
 नेन्द्रियैरात्मनस्तुसिर्मिथ्यात्वादिदूषितैः । <sup>३</sup>वीतघात्युपयोगेऽस्य विश्वं यावन्नगोचरम् ॥ ४५ ॥  
 रोगोरगाणां तु ज्ञेयं शरीरं वामल्लरकम् । दष्टान् दृष्ट्वापि तैरेव किमिष्टान्द्वयजीवितान् ॥ ४६ ॥  
<sup>४</sup>आहितो <sup>५</sup>देहिनो देहे मोहोऽनेनाविनश्वरः <sup>६</sup> । <sup>७</sup>सहवासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुषा किमु ॥ ४७ ॥  
 हिंसादिपञ्चकं धर्मः सुखं यस्येन्द्रियार्थजम् । संसृती रोचते तस्मै विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥  
 पापापापोपलेपापक्षेपो येनोपपद्यते । तद्ध्येयं तदनुष्ठेयं तद्ध्येयं सदा बुधैः ॥ ४९ ॥  
 इति त्रिविधनिर्वेदभूतबोधिः <sup>८</sup> सुरोत्तमैः । प्रोत्साहितः सुरैः प्राप्तनिष्कान्तिस्नानसम्मदः ॥ ५० ॥  
 निवृत्त्याख्यां समारूढां शिबिकां स मनोहरे । वने षष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रहीत् ॥ ५१ ॥  
 कार्तिके कालपक्षस्य त्रयोदशपराह्वयः । चित्रायां भूभुजां सार्द्धं सहस्रेणाहितादरः ॥ ५२ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नश्चायै पश्चिमे दिने । नगरं वर्द्धमानाख्यं प्राविशद्विदुषां वरः ॥ ५३ ॥  
 सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥  
 चिन्वन् शुभाक्षवैः पुण्यं संवरं कर्मसंहतेः । कुर्वन्पुण्यादिषट्केन तपसा निर्जरां च सः ॥ ५५ ॥

प्रकार धिक्कार देने लगे । वे पाप तथा दुःखोंको देनेवाले काम-भोगोंमें विरक्त हो गये । वे विचारने लगे कि इस संसारमें ऐसा कौन-सा पदार्थ है जिसे मैंने देखा न हो, छुआ न हो, सूँघा न हो, सुना न हो, और खाया न हो जिससे वह नयेके समान जान पड़ता है ॥ ४१-४३ ॥ यह जीव अपने पूर्वभवेमें जिन पदार्थोंका अनन्त बार उपभोग कर चुका है उन्हें ही बार-बार भोगता है अतः अभिलाषा रूप सागरके बीच पड़े हुए इस जीवसे क्या कहा जावे ? ॥ ४४ ॥ घातिया कर्मोंके नष्ट होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमें जब तक सारा संसार नहीं भूलकने लगता तब तक मिथ्यात्व आदिसे दूषित इन्द्रियोंके विषयोंसे इसे तृप्ति नहीं हो सकती ॥ ४५ ॥ यह शरीर रोगरूपी साँपोंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोगरूपी साँपोंसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अविनाशी मोह कर रहा है यह बड़ा आश्चर्य है । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास किया है ? अर्थात् नहीं किया ॥ ४६-४७ ॥ जो हिंसादि पाँच पापोंको धर्म मानता है, और इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे होनेवाले सुखको सुख समझता है उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके लिए यह संसार रुचता है—अच्छा मालूम होता है ॥ ४८ ॥ जिस कार्यसे पाप और पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश हो जाता है, विद्वानोंको सदा उसीका ध्यान करना चाहिये, उसीका आचरण करना चाहिये और उसीका अध्ययन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ इस प्रकार संसार, शरीर और भोग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौकान्तिक देवोंने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर्निकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेकोत्सव किया है ऐसे भगवान् पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामके वनमें गये और वहाँ वेलाका नियम लेकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ आदर पूर्वक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर ली ॥ ५०-५२ ॥ जिन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए वर्धमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५३ ॥ शुक्र कान्तिके धारक राजा सोमदत्तने उन्हें दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है ? ॥ ५४ ॥ शुभ आक्षेपोंसे

१ किमनस्वारितं येन । २ मध्यमेत्यमिलाषाब्धेरितं वदतु किं ततः क०, घ०, ख० । नवामप्यभि-ग० ।

३ वीतघात्युपयोगस्य क०, ग०, ख० । ४ अहितो ख० । ५ देहिनां घ० । ६ विनश्वरम् क०, घ० । ७ सहवासः कृतं क०, घ०, ख०, सहवासकृतं ख० । ८ निर्वेदभूतो बोधिसुरोत्तमैः क०, घ० । निर्वेदभूतबोधेः ग० ।

षण्मासेमौर्नमास्थाय छात्रस्थयमपनीतवान् । क्षपकश्रेणिमारुह्य नष्टघातिचतुष्टयः ॥ ५६ ॥  
 पौर्णमास्यां सिते चैत्रे मध्याह्नौ<sup>१</sup> रवौ गते । चित्रायां केवलज्ञानं प्रतिपेदे परार्थकृत् ॥ ५७ ॥  
<sup>२</sup>समर्चितो महादेवैः शतेनेतो गणेशिनाम् । स वज्रचामरादीनां दशभिश्च जगद्धितः ॥ ५८ ॥  
 शून्यद्वयाभिपक्षो कसर्वपूर्वधरान्वितः । शून्यत्रिकनवर्तुद्विप्रोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ५९ ॥  
<sup>३</sup>शून्यत्रिकशदज्ञेयविधिवावधिबीक्षणः । खत्रयद्वादशालक्ष्यकेवलावगमाश्रितः ॥ ६० ॥  
 खद्वयाष्टषडेकाङ्कविक्रियद्धिसमृद्धिमान् । शून्यद्वयत्रिशून्यैकप्रोक्तस्तुर्यावबोधनः ॥ ६१ ॥  
 शून्यद्वयतुरन्ध्रोकख्यातानुचरवादिकः । खचतुष्कादिवह्नुशुक्तसम्पिण्डितयतीक्षरः ॥ ६२ ॥  
 खचतुष्कद्विवाराशिप्रमिताभिरभिष्टुतः । ४रात्रिषेणाख्यमुख्याभिरार्थिकाभिः समन्ततः ॥ ६३ ॥  
 त्रिलक्षश्रावकोपेतः श्राविकापञ्चलक्षवान् । सदेवदेव्यसङ्ख्यातस्तिर्यक्सङ्ख्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥  
 कुर्वन् धर्मोपदेशेन मोक्षमार्गं तन्मृतः । भव्यान् पुण्योदयेनेव धर्मसत्त्वान् सुखोदये ॥ ६५ ॥  
 सम्मेदपर्वते मासं स्थित्वा ५योगं निरुद्धवान् । सार्द्धं यतिसहस्रेण प्रतिमायांगमास्थितः<sup>६</sup> ॥ ६६ ॥  
 फाल्गुने मासि चित्रायां चतुर्थ्यामपराह्णगः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिन्नक्रियात्मना ॥ ६७ ॥  
 शुक्लध्यानेन कर्माणि हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैव चक्रुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपूजनम् ॥ ६८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

किं सेव्यं क्रमयुग्ममब्जविजयामस्यैव लक्ष्म्यास्पदं

किं श्रव्यं सकलप्रतीतिजननादस्यैव सत्यं वचः ।

पुण्यका सञ्चय, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोसे कर्म समूह-  
 का संवर और तपके द्वारा निर्जरा करते हुए उन्हेने छद्मस्थ अवस्थाके छह माह मौनसे व्यतीत  
 किये । तदनन्तर क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ होकर उन्हेने चार घातिया कर्मोका नाश किया तथा चैत्र  
 शुक्ल पौर्णमासीके दिन जब कि सूर्य मध्याह्नसे कुछ नीचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्रमें उन पर-  
 कल्याणकारी भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया ॥ ५५-५७ ॥ उसी समय इन्द्रोने आकर उनकी  
 पूजा की । जगत्का हित करनेवाले भगवान्, वज्र चामर आदि एक सौ दश गणधरोसे सहित थे,  
 दो हजार तीन सौ पूर्वधारियोसे युक्त थे, दो लाख उनहत्तर हजार शिक्षकोसे उपलक्षित थे, दश  
 हजार अवधिज्ञानी और बारह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, सोलह हजार आठ सौ विक्रिया-  
 ऋद्धिके धारकोसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थे, और नौ  
 हजार छह सौ श्रेष्ठ वादियोसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख तीस हजार मुनि संदा  
 उनकी स्तुति करते थे । रात्रिषेणाको आदि लेकर चार लाख बीस हजार आर्यिकाएँ सब ओरसे  
 उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रावक, पाँच लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव-देवियाँ और  
 संख्यात तिर्यञ्च उनके साथ थे ॥ ५८-६४ ॥ इस प्रकार धर्मोपदेशके द्वारा भव्य जीवोको मोक्षमार्गमें  
 लगाते और पुण्यकर्मके उदयसे धर्मात्मा जीवोको सुख प्राप्त कराते हुए भगवान् पद्मप्रभ सम्मेद  
 शिखर पर पहुँचे । वहाँ उन्हेने एक माह तक ठहर कर योग-निरोध किया तथा एक हजार राजाओं  
 के साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥ ६५-६६ ॥

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्हेने समुच्छिन्न-क्रिया-  
 प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा कर्मोका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया । उसी समय इन्द्र  
 आदि देवोने आकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ॥ ६७-६८ ॥ सेवा करने योग्य क्या है ?  
 कमलोको जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया है ऐसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के चरण-

१ मध्याह्न ल० । २ समर्थितमहो देवैः क०, ख०, ग०, घ० । ३ शून्यत्रिदशज्ञेय ल० । ४ रतिषेणाख्य-ल० ।  
 ५ योगान्निरुद्ध ल० । ६ संस्थितः ल० ।

किं ध्येयं गुणसन्ततिद्व्युत्तमलस्यास्यैव काष्ठाश्रया-

दित्युक्तस्तुतिगोचरः स भगवान् पद्मप्रभः पातु वः ॥ ६९ ॥

राजा प्रागपराजितो जितरिपुः श्रीमान् सुसीमेश्वरः

पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितो प्रैवेयकेऽन्त्येऽमरः ।

कौशाख्यां कलितो गुणैरगणितैरिक्वाकुवंशाप्रणीः


षष्ठस्तीर्थकरः परात्महितकृत् पद्मप्रभः शं क्रियात् ॥ ७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे पद्मप्रभाहृतपुराणवर्णनं नाम  
द्विपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५२ ॥



युगल सेवन करने योग्य हैं । सुनने योग्य क्या है ? सब लोगोंको विश्वास उत्पन्न करानेवाले इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के सत्य वचन सुननेके योग्य हैं, और ध्यान करने योग्य क्या है ? अतिशय निर्मल इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणोंके समूहका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान् पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ जो पहले सुसीमा नगरीके अधिपति, शत्रुओंके जीतनेवाले, अपराजित नामके लक्ष्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करते हुए अन्तिम प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर कौशाखी नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इक्ष्वाकुवंशके अप्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छठवें तीर्थकर हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सब लोगोंका कल्याण करें ॥ ७० ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराणके संप्रहमें पद्मप्रभ भगवान्के पुराणका वर्णन करनेवाला बावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व

तत्त्वं सत्त्वादिना येन नैकेनाप्यवधारितम् । तद्विद्ययाप्यसावेव स सुपार्श्वोऽस्तु मे गुरुः ॥ १ ॥  
 विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नन्दिषेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥  
 प्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्यानुगुणदैवस्य राज्यश्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥  
 शरीरं न भिषप्रर्क्ष्यं न राज्यमपि मन्त्रिभिः । तथापि तद्द्वयं तस्य क्षेमवसुकृतोदयात् ॥ ४ ॥  
 पुरुषार्थत्रयं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव सुस्थितम् । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥  
 जितारिभूभुजस्यास्य विजिगीषैहलौकिकी । मा भून्नन्वस्ति सन्मार्गं रक्षतः पारलौकिकी ॥ ६ ॥  
 एवं राज्यसुखं श्रीमान् बन्धुमित्रानुजीविभिः । सहसानुभवाज्जातवैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥  
 मोहोदयोभयाविद्धकायवाक्चित्तवृत्तिभिः । बद्ध्वा कर्माणि तैर्नीतो जातो गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥  
 संसारे चक्रकप्रान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं भ्रान्त्यन्न भक्त्यो यदृच्छया ॥ ९ ॥  
 लब्धकालादिरासोऽपि मुक्तिमार्गं सुदुर्गमम् । श्रेमे रामादिभिर्मुग्धो धिग्धिग्मां कामुकाग्रिमम् ॥ १० ॥  
 निर्मूल्याखिलकर्माणि निर्मूलो लोकमूर्ध्वगः । किल नामोमि निर्वाणं सार्धं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ११ ॥  
 इत्याविष्कृतसञ्चिन्तः सुस्वान्तः स्वस्य सन्ततौ । सुस्थाप्यात्मजमाल्मीयं पतिं धनपतिं सताम् ॥ १२ ॥  
 नरेन्द्रैर्बहुभिः सार्धं निर्धुनानो रजो मुदा । अर्हन्नन्दनपूज्यान्तेवासित्वं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥

जिन्होंने जीवाजीवादि तत्त्वोंको सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया है फिर भी उनके जानकार वही हैं ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान् मेरे गुरु हों ॥ १ ॥ धातकीखण्डके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें नन्दिषेण नामका राजा राज्य करता था ॥ २ ॥ वह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं दैव भी सदा उसके अनुकूल रहता था । इसलिए उसकी राज्य-लक्ष्मी सबको सुख देनेवाली थी ॥ ३ ॥ उसके शरीरकी न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे और न राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त थे ॥ ४ ॥ धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था ॥ ५ ॥ शत्रुओंको जीतनेवाले इस राजा नन्दिषेणको जीतनेकी इच्छा सिर्फ इस लोक सम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके परलोकके जीतनेकी भी इच्छा थी ॥ ६ ॥ इस प्रकार वह श्रीमान् तथा बुद्धिमान् राजा बन्धुओं, मित्रों तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो गया ॥ ७ ॥ वह विचार करने लगा कि यह जीव दर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंको बाँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित् कालादि लब्धियाँ पाकर अतिशय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके साथ क्रीडा करता है । मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुझको बार-बार धिक्कार है ॥ ९-१० ॥ मैं समस्त कर्मोंको नष्ट कर निर्मूल हो उध्व-गामी बनकर सबका हित करनेवाले सर्वज्ञ-निरूपित निर्वाणलोकको नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःख की बात है ॥ ११ ॥ इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयको धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने पद पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओंके

१ स शीघ्रमनुभवन् जातवैराग्यातिशयः क०, घ० । २ मोहोभयोदयाविद्ध ल० । ३ प्रासोऽपि ग० । ४ रमे ल० । ५ निर्धुनानो ल० ।

एकादशाङ्गधारी सन्नुक्तद्योग्यकारणैः । स्वीकृत्य तीर्थकृत्नाम संन्यस्यान्ते समाधिमान् ॥ १४ ॥  
 शुक्लेशयो द्विहस्ताङ्गको भ्रैवेयकमध्यमे । अहमिन्द्रः सुभद्राख्ये विमाने मध्यमेऽजनि ॥ १५ ॥  
 चतुःशतेषु पञ्चोत्तरेष्वहःस्वेप निःश्वसन् । शून्यन्नितयसप्तद्विप्रमिताब्देषु विश्वणन् ॥ १६ ॥  
 विक्रियावधिवीर्यत्विट्वासासप्तमभूमिकः । सप्तविंशतिवार्यायुरथ मुक्त्वाखिलं सुखम् ॥ १७ ॥  
 आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिष्यति भूतलम् । द्वीपेऽस्मिन् भारते काशीविषये वृषभान्वये ॥ १८ ॥  
 सुप्रतिष्ठमहाराजो पाराणस्या महीपतिः । तस्यासीत् पृथिवीपेणा देवी तस्या गृहाङ्गणे ॥ १९ ॥  
 षण्मासान् साररत्नानि ववृषुः सुरवारिदाः । सितषष्ठ्यां विशाखायां मासि भाद्रपदे शुभान् ॥ २० ॥  
 स्वभान् पोडश संवीक्ष्य वारणं चाननागतम् । ज्ञात्वा पत्युः फलं तेषां परितुष्टामिमित्रके ॥ २१ ॥  
 शुभयोगे सितज्येष्ठद्वादश्यां तं सुरोचमम् । सोदपीपददुत्तुङ्गमैरावतमिवोजितम् ॥ २२ ॥  
 सुरेन्द्रैर्मन्दरस्यान्ते कृतजन्ममहोत्सवैः । तस्याकारि सुपार्श्व्या तत्पादानतमौलिभिः ॥ २३ ॥  
 कोटीनवसहस्रेषु पद्मप्रभजिनान्तरे । सागरोपमसङ्ख्येषु गते तद्गतजीवितः ॥ २४ ॥  
 १ शून्यषट्शुगपक्षोक्तपूर्वजीवी धनुःशत-। द्वयोत्सेधो विधुं कान्त्या ह्येपयन्नाप यौवनम् ॥ २५ ॥  
 २ लक्षपञ्च सुपूर्वाणां कौमार्यं गतवत्यतः । धनं त्यक्तुं वदान्यो वा साम्राज्यं स्वीचकार सः ॥ २६ ॥  
 शुश्रूपाद्यष्टवीशुर्यान् सर्वशास्त्रविशारदान् । नटान् सपेटकान् प्रेक्ष्यान्नर्तकान् नृत्यकोविदान् ॥ २७ ॥  
 सुकण्ठान् गायकान् श्रन्यानप्यार्धातोद्यवादकान् । सनर्मरुचिरानन्यात्नानाविद्याकलागुणान् ॥ २८ ॥

साथ पाप कर्मको नष्ट करता हुआ बड़े हर्षसे पूज्य अर्हन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया ॥ १२-१३ ॥ तदनन्तर ग्यारह अङ्गका धारी होकर उसने आगममें कही हुई दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम भ्रैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म धारण किया । वहाँ उसके शुक्ल लेश्या थी, और दो हाथ ऊँचा शरीर था ॥ १४-१५ ॥ चार सौ पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था ॥ १६ ॥ उसकी विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बल और कान्ति सप्तमी पृथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी । इस प्रकार समस्त सुख भोगकर आयुके अन्तमें जब वह पृथिवी तल पर अवतीर्ण होनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भारत-वर्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी । उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे । सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान् वृषभदेवके इक्ष्वाकु-वंशमें हुआ था । उनकी रानीका नाम था पृथिवी-पेणा था । रानी पृथिवीषेणाके घरके आंगनमें देवरूपी मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट रत्नोंकी वर्षा की थी । उसने भाद्रपद शुक्ल षष्ठीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया । पतिके मुखसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी पृथिवीषेणा बहुत ही हर्षित हुई । तदनन्तर ज्येष्ठशुक्ल द्वादशीके दिन अग्निमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत हाथीके समान उन्नत और बलवान् अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥ १७-२२ ॥ इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट मुकाये और सुपार्श्व ऐसा नाम रक्खा ॥ २३ ॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके बाद नौ हजार करोड़ बीत जानेपर भगवान् सुपार्श्वनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥ २४ ॥ उनकी आयु बीस लाख पूर्वकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुष थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको लज्जित करते थे । इस तरह उन्होंने यौवन-अवस्था प्राप्त की ॥ २५ ॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी भौति धनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ॥ २६ ॥ उस समय इन्द्र शुश्रूषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ठ, सर्वशास्त्रोंमें निपुण सुण्डके सुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको, उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य सादृशात प्रकारके वादित्र-वादकोंको, हास्य-विनोद

स्त्रीश्च तादृग्गुणोपेता गन्धर्वानीकसत्तमाः । आनीय तस्य देवेन्द्रो विनोदैरकरोत्सुखम् ॥ २९ ॥  
 शेषेन्द्रियत्रयार्थैश्च तत्रोत्कृष्टैर्निरन्तरम् । सुखं तदेव संसारे यदनेनानुभूयते ॥ ३० ॥  
 निःस्वेदत्वादिसन्नामसम्भूतातिशयाष्टकः । सर्वप्रियहितालापी निर्व्यापारोऋवीर्यकः ॥ ३१ ॥  
 १ प्रसन्नोऽनपवर्त्यायुर्गुणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकायःत्रिज्ञानः प्रियङ्गुप्रसवच्छविः ॥ ३२ ॥  
 मन्दाद्युभानुभागोऽयं शुभोत्कृष्टानुभावभाक् । निर्वाणाभ्युदयैश्वर्यकण्ठिकाकान्तकण्ठकः ॥ ३३ ॥  
 स्वपादनखसंक्रान्तनिखिलेन्द्रमुखाम्बुजः । एषते श्रीधरोऽगाधतृप्यम्भोधौ प्रबुद्धवान् ॥ ३४ ॥  
 स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां परतो भवेत् । उदिताष्टकषायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३५ ॥  
 ततोऽस्य भोगवस्तूनां साकल्येऽपि जितात्मनः । वृत्तिर्नियमितैकामूदसङ्ख्यगुणनिर्जरा ॥ ३६ ॥  
 पूर्वाङ्गविंशतिन्यूनलक्षपूर्वायुषि स्थिते । विलोक्यतुंपरावर्तं सर्वं भावयतोऽध्रुवम् ॥ ३७ ॥  
 कदाचिक्काललब्ध्यास्य विशुद्धोद्बोधदर्पणे । छायाक्रोडेव सा सर्वा साञ्जायश्रीरभासत ॥ ३८ ॥  
 ईदृशी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायामयी मया । धिग्धिग्मां के न मुह्यन्ति भोगरागान्धचेतसः ॥ ३९ ॥  
 इत्युदापो मनोऽम्भोधौ बोधिर्विशुरिबोद्धतः । देवर्षयस्तदैत्यैर्न प्रस्तुताथैः समस्तुवन् ॥ ४० ॥  
 सुरैरूढां समारूढ्य शिविकां च मनोगतिम् । सहेतुकवने शुक्ले ज्येष्ठे षष्ठोपवासद्यत् ॥ ४१ ॥

करनेमें चतुर, अनेक विद्याओं और कलाओंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंको, ऐसे ही गुणोंसे सहित अनेक स्त्रियोंको तथा गन्धर्वोंकी श्रेष्ठ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवान्को सुख पहुँचाता था ॥ २७-२९ ॥ इसी प्रकार चतु और कर्णके सिवाय शेष तीन इंद्रियोंके उत्कृष्ट विषयोंसे भी इन्द्र, भगवान्को निरन्तर सुखी रखता था । यथार्थमें संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान् सुपार्श्वनाथ उपभोग करते थे ॥ ३० ॥ प्रशस्त नामकर्मके उदयसे उनके निःस्वेदत्व आदि आठ अतिशय प्रकट हुए थे, वे सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन बोलते थे, उनका व्यापाररहित अतुल्य बल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवर्त्य थी—असमयमें कटनेवाली नहीं थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियङ्गुके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अशुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त मन्द था, शुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वर्ग तथा मानवोचित ऐश्वर्यकी कण्ठीसे ही सुशोभित था । उनके चरणोंके नखोंमें समस्त इन्द्रोंके मुखकमल प्रतिविम्बित हो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको धारण करनेवाले प्रकृष्टज्ञानी भगवान् सुपार्श्वनाथ अगाध संतोष-सागरमें वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायोंका ही केवल उदय रह जाता है ऐसे सभी तीर्थकरोंके अपनी आयुके प्रारम्भिक आठ वर्षके बाद देश-संयम हो जाता है ॥ ३५ ॥ इसलिए यद्यपि उनके भोगो-पभोगकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निर्जराका कारण थी ॥ ३६ ॥

जब उनकी आयु बीस पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय ऋतुका परिवर्तन देखकर वे 'समस्त पदार्थ नश्वर हैं' ऐसा चिन्तन करने लगे ॥ ३७ ॥ उनके निर्मल सम्यग्-ज्ञान रूपी दर्पणमें काललब्धिके कारण समस्त राज्य-लक्ष्मी छायाकी क्रीडाके समान नश्वर जान पड़ने लगी ॥ ३८ ॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली तथा मायासे भरी हुई है । मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो । सचमुच ही जिनके चित्त भोगोंके रागसे अन्धे हो रहे हैं ऐसे कौन मनुष्य है जो मोहित न होते हों ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भगवान्के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर समयानुकूल पदार्थोंसे भगवान्की स्तुति की ॥ ४० ॥ तदनन्तर भगवान् सुपार्श्वनाथ, देवोंके द्वारा उठाई हुई मनोगति नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ ज्येष्ठशुक्ल द्वादशी-

गर्भागमर्षे द्वादश्यां सायाह्ने संयमं श्रितः । नृपैः सह सहस्रेण तदापोपान्यबोधनम्<sup>१</sup> ॥ ४२ ॥  
 पश्चिमे दिवसे सोमखेटे तं कनकद्युतिः । नृपो महेन्द्रदत्ताख्यः<sup>२</sup> प्रतीक्ष्यापामरार्चनम् ॥ ४३ ॥  
 सुपार्श्वौ मौनमास्थाय छाद्मस्थे नववर्षकः । सहेतुकवने मूले शिरीषस्य द्रुयोपोषितः ॥ ४४ ॥  
 गर्भावतारनक्षत्रे कृष्णषष्ठ्यपराह्णगः । समुत्पन्नान्तदग्ज्ञानः सम्प्राप्तामरपूजनः ॥ ४५ ॥  
 बलाख्यमुख्यपद्मान्तरन्ध्रोक्तगणभृद्बृहत् । शून्यत्रिशून्यपक्षोक्तसर्वपूर्वधराधिपः ॥ ४६ ॥  
 शून्यद्विरन्ध्रवार्य्यभिधपक्षमानोक्तशिक्षकः । शून्यत्रयनवज्ञाततृतीयावगमश्रितः ॥ ४७ ॥  
 खत्रयैकैकनिर्दिष्टकेवलावगमान्वितः । शून्यद्वयत्रिपञ्चैकसंख्यावैक्रियिकाचितः ॥ ४८ ॥  
 शून्यपञ्चैकरन्ध्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । षट्शताष्टसहस्रोक्तवादिबन्दिदत्तवाक्पतिः ॥ ४९ ॥  
 पिण्डीकृतत्रिलक्षोक्तमुनिवृन्दारकाधिपः । मीनार्याधार्यिकात्रिंशत्सहस्रान्तत्रिलक्षकः ॥ ५० ॥  
 त्रिलक्षश्रावकः पञ्चलक्षसत्श्राविकाचितः । असंख्यदेवदेवीद्यस्तियैकसंख्यातसंयतः<sup>३</sup> ॥ ५१ ॥  
 धर्माभृतमयीं वाणीं प्राहयन् विहरन् महीम् । पश्चात्संहत्य सम्मेदे विहारं मासमुद्रहन् ॥ ५२ ॥  
 प्रतिमायोगमापार्श्वं सहस्रमुनिभिः समम् । फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां राधार्यां दिनपोष्ये ॥ ५३ ॥  
 कृतपञ्चमकल्याणाः कल्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमत्रेति परिकल्प्यागमन् दिवम् ॥ ५४ ॥

### शादूलविक्रीडितम्

दुवारां दुरितोरुशत्रुसमितिं निष्पन्नधीर्निष्क्रियन्<sup>१</sup>

तूष्णीं युद्धमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः प्रतिष्ठां गतः ।

के दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें वेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयमी हो गये—दीक्षित हो गये। उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ४१-४२ ॥ दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखेट नामक नगरमें गये। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पदगाह कर देवोंसे पूजा प्राप्त की ॥ ४३ ॥ सुपार्श्वनाथ भगवान् छद्मस्थ अवस्थामें नौ वर्ष तक मौन रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें दो दिनके उपावासका नियम लेकर वे शिरीष वृक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए। वहीं फाल्गुन (?) कृष्ण षष्ठीके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके विशाखा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जिसमें देवोंने उनकी पूजा की ॥ ४४-४५ ॥ वे बलको आदि लेकर पंचानवे गुणधरोंसे सदा धिरे रहते थे, दो हजार तीस पूर्वधारियोंके अधिपति थे, दो लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानी उनके सहगामी थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाच्छदिके धारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ हजार छह सौ वादी उनकी वन्दना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे। मीनार्याको आदि लेकर तीन लाख तीस हजार आर्यिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन लाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियों उनकी स्तुति करती थीं और संख्यात तिर्यञ्च उनकी वन्दना करते थे ॥ ४६-५१ ॥ इस प्रकार लोगोंको धर्माभृतरूपी वाणी प्रहण कराते हुए वे पृथिवीपर विहार करते थे। अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार बन्द कर वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सूर्योदयके समय लोकका अग्रभाग प्राप्त किया—मोक्ष पधारें ॥ ५२-५३ ॥ तदनन्तर पुण्यवान् कल्पवासी उत्तम देवोंने निर्वाण-कल्याणक किया, तथा 'यहाँ निर्वाण-क्षेत्र है' इस प्रकार सम्मेदशिखरको निर्वाण-क्षेत्र ठहराकर स्वर्गकी ओर प्रयाण किया ॥ ५४ ॥

१ मनःपर्ययज्ञानम् । २ प्रतीक्ष्य प्रतिग्राह्य आप लेमे, अमरार्चनं देवकृतपूजाम् । ३ संमतः क०, ख०, ग०, घ० । ४-निष्क्रियस् क०, ख०, ग०, घ० ।

निष्ठां दुष्टतमां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्ठामितः

प्रेष्ठो द्वाक्कुर्वताच्चिरं परिचितान् पार्श्वे सुपार्श्वः स नः ॥५५॥

### वसन्ततिलका


क्षेमाख्यपत्तनपतिर्नूतनन्दिषेणः

कृत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽहमिन्द्रः ।

वाराणसीपुरि सुपार्श्वनृपो जितारि-


रिदवाकुवंशतिलकोऽचतु तीर्थकृद् वः ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुपार्श्वस्वामिनः पुराणं  
परिसमाप्तं त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५३ ॥



अत्यन्त बुद्धिमान् और निपुण जिन सुपार्श्वनाथ भगवान् ने दुःखसे निवारण करनेके योग्य पापरूपी बड़े भारी शत्रुओंके समूहको निष्क्रिय कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, कुछ काल तक समवसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया और अन्तमें निर्वाणकी अवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्ठतम भगवान् सुपार्श्वनाथ हम सब परिचितोंको चिरकालके लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें ॥ ५५ ॥ जो पहले भवमें क्षेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिषेण राजा हुए, फिर तप कर नव प्रैवेयकोंमेंसे मध्यके प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर बनारस नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाले और इक्ष्वाकु वंशके तिलक महाराज सुपार्श्व हुए वे सप्तम तीर्थकर तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५६ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें सुपार्श्वनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ।





निर्लिङ्गशब्दः खड्गेषु विश्वाशित्वं हुताशने । तापकत्वं खराभीषौ मारकत्वं यमाह्वये ॥ २२ ॥  
 धर्मो जैनेन्द्र एवास्मिन् विवसे वा दिवाकरः । ततो नैकान्तवादानामुल्लूकानामिवोद्गमः ॥ २३ ॥  
 दुर्गाण्यासन् यथास्थानं सातत्येनानुसंस्थितैः । ऋतानि यन्त्रशस्त्राम्बुयवसैन्यवरक्षकैः ॥ २४ ॥  
 तस्य मध्ये शुभस्थाने ललाटे वा विशेषकम् । विशेषैः सर्वरम्याणां श्रीपुरं <sup>१</sup>वामरं पुरम् ॥ २५ ॥  
 विकसन्नीलनीरेजसरोजालिविलोचनैः । स्वच्छवारिसरोवक्त्रैर्हसत्परपुरश्रियम् ॥ २६ ॥  
 नानाप्रसूनसुस्वादकेसरासवपायिनः । तत्रालिनोंऽलिनीवृन्दैः प्रथान्यापानकोत्सवम् ॥ २७ ॥  
 तदुत्तुङ्गमहासौधगोष्ठैः समुत्तारवैः । विश्राम्यन्तु भवन्तोऽन्त्रेत्याह्वयद्वा घनाघनान् ॥ २८ ॥  
 तदेव सर्ववस्तूनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठां न किं धान्ति तथा भोगैर्निरन्तरम् ॥ २९ ॥  
 यद्यदालोक्यते तत्तत्स्ववप्रीणेषु सत्तमम् । भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति करोति मरुतामपि ॥ ३० ॥  
 सत्कुलेषु समुद्भूतास्तत्र सर्वेऽपि <sup>२</sup>सत्रताः । उत्पद्यन्ते यतः प्रेत्य स्वर्गजाः शुद्धदृष्टयः ॥ ३१ ॥  
 स्वर्गः किमीदृशो वेति तत्रस्थाश्चारुदर्शनाः । मुक्त्यर्थमेव कुर्वन्ति धर्मं न स्वर्गमेधया ॥ ३२ ॥  
 तत्रोत्सवे जनाः पूजां मङ्गलार्थं प्रकुर्वते । शोके तदपनोदार्यमेते जैनीं विवेकिनः ॥ ३३ ॥  
 साध्वार्था इव साध्यन्ते जैनवादैः <sup>३</sup>सहेतुभिः । धर्मार्थकामास्तजातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥

नहीं—ऋता नहीं थी । रुकावट केवल पुलोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी । और अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्रमें ही था वहाँके मनुष्योंमें अपवाद—अपयश नहीं था ॥ २१ ॥ निर्लिङ्ग शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात् कृपाण ही ( त्रिशदभ्योऽङ्गुलिभ्यो निर्गत इति निर्लिङ्गः ) तीस अङ्गुलसे बड़ी रहती थी, वहाँके मनुष्योंमें निर्लिङ्ग—ऋर शब्दका प्रयोग नहीं होता था । विश्वाशित्व अर्थात् सब चीजें खा जाना यह शब्द अभ्रिमें ही था वहाँके मनुष्यों में विश्वाशित्व—सर्वभक्षकपना नहीं था । तापकत्व अर्थात् संताप देना केवल सूर्यमें था वहाँके मनुष्योंमें नहीं था, और मारकत्व केवल यमराजके नामोंमें था वहाँके मनुष्योंमें नहीं था ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्ममें ही रहता था । यही कारण था कि वहाँ पर उल्लुओंके समान एकान्त वादोंका उद्गम नहीं था ॥ २३ ॥ उस देशमें सदा यथास्थान रखे हुए यन्त्र, शस्त्र, जल, जौ, घोड़े और रक्षकोंसे भरे हुए किले थे ॥ २४ ॥ जिस प्रकार ललाटेके बीचमें तिलक होता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है । वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर वस्तुओंसे देवनगरके समान जान पड़ता था ॥ २५ ॥ खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा वह नगर शत्रुनगरोंकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था ॥ २६ ॥ उस देशमें अनेक प्रकारके फूलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भौरे भ्रमरियोंके समूहके साथ पान-गोष्ठीका आनन्द प्राप्त करते थे ॥ २७ ॥ उस नगरमें बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदङ्गोंका शब्द हो रहा था । जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 'आप लोग यहाँ विश्राम कीजिये' इस प्रकार वह नगर मेघोंको ही बुला रहा था ॥ २८ ॥ ऐसा मालूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुओंका मानो खान था । यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें आने पर वे समाप्त क्यों नहीं होतीं ? ॥ २९ ॥ उस नगर में जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्गमें सर्वश्रेष्ठ रहती थी अतः देवोंको भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है ? ॥ ३० ॥ वहाँके रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, व्रतसहित थे तथा सम्यग्दृष्टि थे अतः वहाँके मरे हुए जीव स्वर्गमें ही उत्पन्न होते थे ॥ ३१ ॥ 'स्वर्गमें क्या रक्खा ? वह तो ऐसा ही है' यह सोच कर वहाँके सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्वर्गकी इच्छासे नहीं ॥ ३२ ॥ उस नगरमें विवेकी मनुष्य उत्सवके समय मङ्गलके लिए और शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र भगवान्की पूजा किया करते थे ॥ ३३ ॥ वहाँके जैनवादी लोग अपरिमित सुख देनेवाले धर्म, अर्थ

द्वीपाद्धृक्कवालो वा प्राकारो यत्परीतवान् । भियेव रविसन्तापाङ्गीनोऽभूमणिरश्मिषु ॥ ३५ ॥  
 श्रीषेणो नाम तस्यासीत् पतिः सुरपतिद्युतिः । नतारिमौखिरत्नांशुवाविकासिक्रमाशुजः ॥ ३६ ॥  
 पाति यस्मिन् भुवं जिष्णौ दुष्टा विगतविक्रियाः । अभूवन् शक्तिवन्मन्त्रसन्निधौ वा भुजङ्गमाः ॥ ३७ ॥  
 उपाया येन सञ्चिन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फलमतिस्फीतं समाहर्तृवदर्थितम् ॥ ३८ ॥  
 श्रीकान्ता नाम तस्यासीद् वनिता विनयान्विता । सती मृदुपदन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥  
 रूपाद्याः स्त्रीगुणास्तस्याः समुत्पन्नाः सुखायहाः । सुता इव सदा पाल्या बन्धाश्च गुरुवत्सताम् ॥ ४० ॥  
 अरीरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपादयो गुणाः । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीषिणः ॥ ४१ ॥  
 प्रतिच्छन्दः परस्त्रीणां वेधसैषा विनिर्मिता । गुणानामिव मञ्जूषा स्वमतिप्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥  
 १अपारं सुखमच्छिन्नं १सन्नेहं समतृप्तिदम् । मिथुनं सत्समापोद्धैमिथुनं वामरं परम् ॥ ४३ ॥  
 स कदाचिन्महीनाथो निष्पुत्रत्वाच्छुचाहितः । इति स्वगतमेकाकी सन्त्यर्थमचिन्तयत् ॥ ४४ ॥  
 स्त्रियः संसारवह्न्यः सत्युत्रास्तत्फलायिताः । न चेत्ते तस्य रामाभिः पापाभिः किं नृपापिनः ॥ ४५ ॥  
 यः पुत्रवदनाम्भोजं नापश्येवैवयोगतः । पङ्खण्डश्रीमुखाब्जेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम् ॥ ४६ ॥  
 ततः पुरोधसः प्राप्तुं सुतं सद्गुणपदेशतः । अनर्चैर्मणिभिः पञ्चवर्णैरञ्जितकाञ्चनैः ॥ ४७ ॥

और कामको साध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए हेतुओंसे सिद्ध करते थे ॥ ३४ ॥ उस नगरको घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पड़ा हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो । वह कोट अपने रत्नोंकी किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके संतापके भयसे छिप ही गया हो ॥ ३५ ॥ नमस्कार करनेवाले शत्रु राजाओंके मुकुटोंमें लगे हुए रत्नोंकी किरणों रूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप सर्प विकाररहित हो जाते हैं उसी प्रकार विजयी श्रीषेणके पृथिवीका पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकाररहित हो गये थे ॥ ३७ ॥ उसने साम, दान आदि उपायोंका ठीक-ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसलिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे ॥ ३८ ॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी स्त्री थी । वह श्रीकान्ता किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी । क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अर्थात् दुःश्रवत्व आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी सती अर्थात् पतिव्रता थी और अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार मृदुपदन्यासा अर्थात् कोमलकान्तपदविन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी मृदुपदन्यासा अर्थात् कोमल चरणोंके निक्षेपसे सहित थी ॥ ३९ ॥ स्त्रियोंके रूप आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेवाले उत्पन्न हुए थे । वे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुओंके समान सज्जनोंके द्वारा बन्दनीय थे ॥ ४० ॥ जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात् एव शब्दसे ( किसी अपेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है ) से युक्त नय किसी विद्वान्के मनको आनन्दित करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दित करते थे ॥ ४१ ॥ वह स्त्री अन्य स्त्रियोंके लिए आदर्शके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकर्षता बतलानेके लिए गुणोंकी पेट्टी ही बनाई हो ॥ ४२ ॥ वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरहित, अविनाशी, कभी नष्ट न होनेवाले और समान तृप्तिको देनेवाले उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करता था ॥ ४३ ॥ वह राजा निष्पुत्र था अतः शोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करने लगा ॥ ४४ ॥ स्त्रियाँ संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके समान हैं । यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियोंसे क्या प्रयोजन है ? ॥ ४५ ॥ जिसने दैवयोगसे पुत्रका मुखकमल नहीं देखा है वह छद्म खण्डकी लक्ष्मीका मुख भले ही देख ले पर उससे क्या लाभ है ॥ ४६ ॥ उसने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पुरोहितके

विधाय जिनबिम्बानि प्रातिहार्यैः सहाष्टभिः । शृङ्गारादिविनिर्दिष्टैः सङ्गतान्यष्टमङ्गलैः ॥ ४८ ॥  
 प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमैः । कृत्वा महाभिषेकं च जिनसङ्गममङ्गलैः ॥ ४९ ॥  
 गन्धोदकैः स्वयं देव्या सहैवान्नास्तुवन् जिनान् । व्यधादाष्टाह्निकीं पूजामैहिकामुग्रिकोदयाम् ॥ ५० ॥  
 यातैः कतिपयैर्देवी दिनैः स्वमात्रं व्यलोकत । गजसिंहेन्दुपद्माभिषेकानीषद्विनिद्रिता ॥ ५१ ॥  
 तदैव गर्भसङ्क्रान्तिरभूत्स्थास्ततः क्रमात् । आलस्यमरुचिस्तन्द्रा जुगुप्सा वा निमित्तिका ॥ ५२ ॥  
 'अशक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्मुखम् । कुचयोरादधौ तस्याः कालिमानं दिने दिने ॥ ५३ ॥  
 योषितां भूषणं लज्जा श्लाघ्यं नान्यद्विभूषणम् । इति स्पष्टयितुं वैषा सर्वचेष्टा स्थिता द्विधा ॥ ५४ ॥  
 तस्या भाराक्षमत्वेन भूषणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुलानीव निशान्ते स्वल्पतां यथुः ॥ ५५ ॥  
 वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभूतयः । चिरं विरम्य श्रव्यत्वान्नवाभ्योदावलेरिव<sup>२</sup> ॥ ५६ ॥  
 कुर्युः कुतूहलोत्पत्तिं वाढमभ्यर्णवर्तिनाम् । एवं तद्दर्भचिह्नानि व्यक्तान्यन्यानि चाभवन् ॥ ५७ ॥  
 प्रमोदात्प्राप्य राजानं प्रणम्याननसूचितम् । इति चैत्याब्रुवन् कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥  
 सरोजं बोध्याम्नानोः कुमुदं वा हिमद्युतेः । व्यकसत्तन्मुखाम्भोजं श्रुतगर्भमहोदयात् ॥ ५९ ॥  
 चन्द्रोदयोन्वयाम्भोधेः कुलस्य तिलकायितः । प्रादुर्भावस्तनूजस्य न प्रतोपाय कस्य वा ॥ ६० ॥  
 अष्टवदनाम्भोजमपत्यं गर्भगं च माम् । एवं प्रतोपयत्येतत् दृष्टवक्त्रं किमुच्यते ॥ ६१ ॥  
 मत्वेति तान्यो दत्त्वेष्टं स्वासैः कतिपयैर्वृतः । महादेवीगृहं गत्वा द्विगुणीभूतसम्मदः ॥ ६२ ॥

उपदेशसे पाँच वर्णके अमूल्य रत्नोंसे मिले सुवर्णकी जिन-प्रतिमाएँ बनवाईं । उन्हें आठ प्रातिहार्यों तथा शृङ्गार आदि आठ मङ्गल-द्रव्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशास्त्रमें कही हुई क्रियाओंके क्रमसे उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्के संसर्गसे मङ्गल रूप हुए गन्धोदकसे रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी अभ्युदयको देनेवाली आष्टाह्निकी पूजा की ॥ ४७-५० ॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर कुछ कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे ॥ ५१ ॥ उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने लगा; अरुचि होने लगी, तन्द्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी ॥ ५२ ॥ उसके दोनों स्तन चिरकाज व्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समर्थ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिन कालिमाको धारण कर रहे थे ॥ ५३ ॥ 'स्त्रियोंके लिये लज्जा ही प्रशंसनीय आभूषण है अन्य आभूषण नहीं' यह स्पष्ट करनेके लिए ही मोनो उसकी समस्त चेष्टाएँ लज्जासे सहित हो गई थीं ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार धारण करनेमें समर्थ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गये थे—विरल हो गये थे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार अल्प धनवाले मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे और नई मेघमालाके शब्दके समान रुक-रुक कर बहुत देर बाद सुनाई देते थे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे । वे चिह्न कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे ॥ ५७ ॥ किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्षसे राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा । यद्यपि यह समाचार दासियोंके मुखकी प्रसन्नतासे पहले ही सूचित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था ॥ ५८ ॥ गर्भ धारणका समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमल और चन्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता है ॥ ५९ ॥ जो वंशरूपी समुद्रको वृद्धिजत करनेके लिए चन्द्रोदयके समान है अथवा कुलको अलंकृत करनेके लिए तिलकके समान है ऐसा पुत्रका प्रादुर्भाव किसके संतोषके लिए नहीं होता ? ॥ ६० ॥ जिसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है, केवल गर्भमें ही स्थित है ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है तब मुख दिखाने पर कितना संतुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है ॥ ६१ ॥ ऐसा मान कर राजाने उन दासियोंके लिये

अभितां वाभ्रपदवीं रत्नगर्भामिव क्षितिम् । उपोदयार्कां प्राचीं वा तां ददर्श दृशः सुखम् ॥ ६३ ॥  
 सापि दृष्ट्वा महीनाथमभ्युत्थातुं कृतोद्यमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थिता राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥  
 नृपस्तयैकशय्यायामुपविश्य चिरं मुदा । सलज्जया सहालाप्य यथा तदुचितोक्तिभिः ॥ ६५ ॥  
 दिनेषु केषुचित्पश्चाद्यतेषु प्रकटीभवत् । प्राक् पुण्याद् गुरुशुक्रादिशुभग्रहनिरीक्षणात् ॥ ६६ ॥  
 हरेर्हरिदिवादित्यं सस्यपाकं यथा शरत् । महोदयमिवाख्यातिरसूतं सूतमुत्तमम् ॥ ६७ ॥  
 प्रवर्द्धमानभाग्यस्य योग्यस्य सकलश्रियः । श्रीवर्मैति शुभं नाम तस्य बन्धुजनो व्यधात् ॥ ६८ ॥  
 प्रबोधो मूर्च्छितस्येव दुर्विधस्येव वा निधिः । जयो वात्यरूपसैन्यस्य राज्ञस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥  
 तस्याङ्गतेजसा रत्नदीपिका विहतत्वियः । विभावर्या सभास्थाने नैरर्थक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥  
 शरीरवृद्धिस्तस्यासीद् भिषक्शास्त्रोक्तवृत्तितः । शब्दशास्त्रादिभिः प्रज्ञावृद्धिः सुविहितक्रियाः ॥ ७१ ॥  
 स राजा तेन पुत्रेण द्वीपोऽयमिव मेरुणा । तुङ्गेन सङ्गतः श्रीमान् पालयन् वलयं क्षितेः ॥ ७२ ॥  
 जिर्नं श्रीपवनमानमवतीर्णं यदृच्छया । शिवङ्करवनोद्याने कदाचिद्गनपालतः ॥ ७३ ॥  
 श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा तां दिशं शिरसाऽनमत् । तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥  
 त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य तं यथास्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरिग्रहं बुद्ध्या वस्तु यथोदितम् ॥ ७५ ॥  
 भोगतृष्णामपास्याशु धर्मतृष्णात्तमानसः । दत्त्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्रात्राजीत्तज्जिनान्तिके ॥ ७६ ॥

इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित होता हुआ कुछ आम जनोके साथ वह रानीके घर गया ॥ ६२ ॥ वहाँ उसने नेत्रोंको सुख देनेवाली रानीको ऐसा देखा मानो मेघसे युक्त आकाश ही हो, अथवा रत्नगर्भा पृथिवी हो अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सूर्यसे युक्त पूर्वं दिशा ही हो ॥ ६३ ॥ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु 'हे देवि, बैठी रहो' इस प्रकार राजाके मना किये जाने पर बैठी रही ॥ ६४ ॥ राजा एक ही शय्या पर चिरकाल तक रानीके साथ बैठा रहा और लज्जा सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर हर्षित होता हुआ वापिस चला गया ॥ ६५ ॥

तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कर्मके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि शुभ ग्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा ( प्राची ) सूर्यको उत्पन्न करती है, शरदः ऋतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६६-६७ ॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लक्ष्मी पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने 'श्रीवर्मा' यह शुभ नाम रक्खा ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार मूर्च्छितको सचेत होनेसे संतोष होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है और थोड़ी सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे संतोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको संतोष हुआ था ॥ ६९ ॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे रत्नोंके दीपक रात्रिके समय सभा-भवनमें निरर्थक हो गये थे ॥ ७० ॥ उसके शरीरकी वृद्धि वैद्यक शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओंको करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रोंके अनुसार हुई थी ॥ ७१ ॥ जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु पर्वतसे सुशोभित होता है उसी प्रकार पृथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्रसे सुशोभित हो रहा था ॥ ७२ ॥ किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानमें श्रीपद्म नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे थे । वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार किया और बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, और यथास्थान आसन ग्रहण किया । राजाने उनसे धर्मका स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोंकी तृष्णा छोड़ी, धर्मकी तृष्णामें अपना मन लगाया, श्रीवर्मा पुत्रके

श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या <sup>१</sup>भूतमिथ्यामहातमाः । आस्थात्तुर्थगुणस्थानमार्घं सोपानमुच्यते ॥ ७७ ॥  
 सन्निधाने च तस्यायः<sup>२</sup> सन्निधापयति स्वयम् । यथाकाममशेषार्थास्तैः स प्रापेप्सितं सुखम् ॥ ७८ ॥  
 असौ कदाचिदापाढयौर्णमासीदिने जिनान् । उपोष्याभ्यर्च्य सत्स्वाप्तै रात्रौ हर्म्यतले स्थितः ७९ ॥  
 विलोक्यापातमुल्काया भोगसारे विरक्तवान् । प्राग्विश्राणितसाम्राज्यः श्रीकान्तायाप्रसूनवे ॥ ८० ॥  
 अभ्यासे श्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवत्प्रान्ते संन्यस्य श्रीप्रभे गिरौ ॥ ८१ ॥  
 श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे विमाने सागरोपम- । द्वित्वायुः श्रीधरो नाम्ना देवः समुदपद्यत ॥ ८२ ॥  
 अणिमादिगुणः सप्तहस्तो वैक्रियिकाङ्गभाक् । चतुर्थलेख्यो मासेन निःश्वसन् मनसाहरन्<sup>३</sup> ॥ ८३ ॥  
 वर्षद्वयसहस्रेण पुद्गलानमृतात्मकान् । वृषः कायप्रवीचाराद् व्यासाद्यक्षमातलावधिः ॥ ८४ ॥  
 बलतेजोमहाविक्रियाभिः स्वावधिसम्मितः । सुस्थितोऽनुभवन्सौख्यं स्वपुण्यपरिपाकजम् ॥ ८५ ॥  
 दक्षिणे धातकीखण्डे प्राचीष्वाकारपर्वतात् । भारते <sup>४</sup>विषये श्रीमदलकाल्ये पुरोरामम् ॥ ८६ ॥  
 अयोध्याङ्गं नृपस्तस्मिन्नावभावजितञ्जयः । आसीदजितसेनास्य देवी <sup>५</sup>सुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥  
 सा कदाचित्तन्जाप्यै परिपूज्य जिनेश्वरान् । सुप्ता तच्चिन्तया स्वमान्विलोक्याष्टौ शुभानिमान् ॥ ८८ ॥  
 गजेन्द्रवृषसिंहेन्द्रवीन् पद्मसरोवरम् । शङ्खं पूर्णघटं चैतत् फलान्यप्यजितञ्जयात् ॥ ८९ ॥  
 गजात्पुत्रं गर्भारं गोः सिंहेनानन्तवीर्यकम् । चन्द्रेण तर्पकं तेजः प्रतापाढ्यं दिवाकरात् ॥ ९० ॥

लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपद्म जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ ७३-७६ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के उपदेशसे जिसका मिथ्यादर्शनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया है। ऐसे श्रीवर्माने भी वह चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीढ़ी कहलाती है ॥ ७७ ॥ चतुर्थ गुणस्थानके सन्निधानमें जिस पुण्य-कर्मका संवय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थोंको सन्निहित-निकटस्थ करता रहता है। उन पदार्थोंसे श्रीवर्माने इच्छित सुख प्राप्त किया था ॥ ७८ ॥

किसी समय राजा श्रीवर्मा आषाढ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवान्की उपासना और पूजा कर अपने आप्तजनोके साथ रात्रिमें महलकी छत पर बैठा था ॥ ७९ ॥ वहाँ उल्कापात देखकर वह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया और श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रभ नामक पर्वत पर विधिपूर्वक संन्यासमरण किया ॥ ८०-८१ ॥ जिससे प्रथम स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें दो सागरकी आयु वाला श्रीधर नामका देव हुआ ॥ ८२ ॥ वह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त था, सात हाथ ऊँचा उसका शरीर था, वैक्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेख्या वाला था, एक माहमें श्वास लेता था, दो हजार वर्षमें अमृतमय पुद्गलोंका मानसिक आहार लेता था, काय-प्रवीचारेसे संतुष्ट रहता था, प्रथम पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथिवी तक थी, इस तरह अपने पुण्य कर्मके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका उपभोग करता हुआ वह सुखसे रहता था ॥ ८३-८५ ॥

धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें जो इष्वाकार पर्वत है उससे दक्षिणकी ओर भरतक्षेत्रमें एक अलका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें अजितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजितसेना नामकी वह रानी थी जो कि पुत्र-सुख को प्रदान करती थी ॥ ८६-८७ ॥ किसी एक दिन पुत्र-प्राप्तिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान् की पूजा की और रात्रिको पुत्रकी चिन्ता करती हुई सो गई। प्रातः काल नीचे लिखे हुए आठ शुभ स्वप्न उसने देखे। हाथी, बैल, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कमलोंसे सुशोभित सरोवर, शङ्ख और पूर्ण कलश। राजा अजितंजयसे उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देवि! हाथी देखनेसे तुम पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे वह पुत्र गंभीर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तबलका धारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको संतुष्ट करनेवाला होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और प्रतापसे युक्त होगा, सरोवरके

१ नीतमिथ्या-ख०, ग०। २ पुण्यम्। ३ मनसाहरत् ल०। ४ विषये क०, ख०, ग० घ०। ५ सुखसुतप्रदा।

संरेसा शङ्खचक्रादि द्वात्रिंशलक्षणांश्चितम् । शङ्खेन चक्रिणं पूर्णकुम्भाज्जात्वा निधीशिनम् ॥ ९१ ॥  
 तुष्टा कतिपर्यैर्मासैस्तु श्रीधरमजीजनत् । व्यधादजितसेनाख्यां राजास्य जितविद्विषः ॥ ९२ ॥  
 तेन तेजस्विना राजा सदाभाद् भास्करेण वा । दिवसो विरजास्तादृक् तनूजः <sup>१</sup>कुलभूषणम् ॥ ९३ ॥  
 स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेशमशोकवनमागतम् । परेद्युः सपरीवारः सम्प्राप्याभ्यर्च्य सञ्चतः ॥ ९४ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं सतां त्याज्यं राज्यं निजितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संयम्यासीत्स केवली ॥ ९५ ॥  
 राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि रक्तया स वशीकृतः । प्रौढ एव युवा कामं मुख्यं सौख्यमुपेयिवान् ॥ ९६ ॥  
 तत्पुण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिणः । यद्यत्तत्समुत्पन्नं चेतनेतरभेदकम् ॥ ९७ ॥  
 चक्रमाक्रान्तदिवचक्रमस्य तस्योज्ज्वेऽभवत् । पुनर्दिग्विजयो जेतुः पुरबाह्यविहारवत् ॥ ९८ ॥  
 नासुखोऽनेन कोऽप्यासीन्न परिग्रहमूर्च्छना । षट्खण्डाधीशिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यानुबन्धि यत् ॥ ९९ ॥  
 दुःखं स्वकर्मपाकेन सुखं तदनुपालनात् । प्रजानां तस्य साम्राज्ये तत्ताभिः सोऽभिनन्द्यते ॥ १०० ॥  
 देवविद्याधराधीशमुकुटाम्रेषु सद्युतीन् । विच्छायीकृत्य रत्नांशूस्तदाज्ञैवोच्छिखा बभौ ॥ १०१ ॥  
 नित्योदयस्य चेन्न स्यात् पन्नानन्दकृतो बलम् । चण्डद्युतेः कथं पाति शक्रोऽभ्यक्षः स्वयं दिशम् ॥ १०२ ॥  
<sup>२</sup>विधिवेधा न चेदग्निं स्थापयेद्रक्षितुं दिशम् । स्वयोनिदाहिना कोऽपि क्वचित् केनापि रक्षितः ॥ १०३ ॥  
 पालको मारको वेति नान्तर्कं सर्वभक्षिणम् । किं वेत्ति वेधास्तं पातुं पापिनं परिकल्पयन् ॥ १०४ ॥

देखनेसे शंख-चक्र आदि बन्तीस लक्षणोंसे सहित होगा, शंख देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा ॥ ८८-९१ ॥ स्वप्नोंका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही संतुष्ट हुई । तदनन्तर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया । राजाने शत्रुओंको जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रक्खा ॥ ९२ ॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूर्यसे सुशोभित होता है । यथार्थमें ऐसा पुत्र ही कुलका आभूषण होता है ॥ ९३ ॥ दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीर्थकर अशोक वनमें आये । राजाने परिवारके साथ जाकर उनकी पूजा की, 'स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्जनोंके छोड़ने योग्य राज्य शत्रुओंको जीतनेवाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलज्ञानी बन गया ॥ ९४-९५ ॥ इधर अनुरागसे भरी हुई राज्य-लक्ष्मीने कुमार अजितसेनको अपने वश कर लिया जिससे वह युवावस्थामें ही प्रौढ़की तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने लगा ॥ ९६ ॥ उसके पुण्य कर्मके उदयसे चक्रवर्तीके चक्ररत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह सब आकर उत्पन्न हो गई ॥ ९७ ॥ उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेवाला चक्ररत्न प्रकट हुआ । चक्ररत्नके प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो गया ॥ ९८ ॥ इस चक्रवर्तीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था और यद्यपि यह छह खण्डका स्वामी था फिर भी परिग्रहमें इसकी आसक्ति नहीं थी । यथार्थमें पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्मका बन्ध करनेवाला हो ॥ ९९ ॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अशुभकर्मोंदयसे था और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक् रक्षा होनेसे था । यही कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना करती थी ॥ १०० ॥ देव और विद्याधर राजाओंके मुकुटोंके अग्रभागपर चमकने वाले रत्नोंकी किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी ॥ १०१ ॥ यदि निरन्तर उदय रहने वाले और कमलोंको आनन्दित करने वाले सूर्यका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति हो कर भी अपनी दिशाकी रक्षा कैसे करता ! ॥ १०२ ॥ विधाता अवश्य ही बुद्धिहीन है क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आग्नेय दिशाकी रक्षाके लिए अग्निको क्यों नियुक्त करता ? भला, जो अपने जन्मदाताको जलाने वाला है उससे भी क्या कहीं किसीकी रक्षा हुई है ? ॥ १०३ ॥ क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक ? फिर भी उसने उसी सर्वे-

शुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वर्जावितेऽपि सन्देहो नैर्ऋतः कंस्य पालकः ॥ १०५ ॥  
 १काललीलां विलम्ब्यालं (?) पाशहस्तो २जलप्रियः । स ३नदीनाश्रयः पाशी प्रजानां केन पालकः ॥१०६॥  
 धूमध्वजसखोऽस्थास्तुः स्वयमन्याश्च चालयन् । पालकः स्थापितस्तादृक् स किमेकत्र तिष्ठति ॥ १०७ ॥  
 लुब्धो न लभते पुण्यं विपुण्यः केन पालकः । धनेन चेददाता तत् गुह्यकोऽपि न पालकः ॥ १०८ ॥  
 ईशानोऽन्यां दशां यातो गणने सर्वपश्चिमः । पिशाचावेष्टितो दुष्टः कथमेष दिशः पतिः ॥ १०९ ॥  
 कृत्वैतान् बुद्धिवैकल्यात्तत्प्रमार्ष्टुं प्रजापतिः । व्यधादेकमिमं मन्ये विश्वदिक्पालनक्षमम् ॥ ११० ॥  
 इत्युदात्तवचोमाला विरचय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिक्चक्रः शक्रादीन् सोऽतिलङ्घते ॥ १११ ॥  
 धनं दाने मतिर्धर्मं शौर्यं भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तनुर्भोगे तस्य वृद्धिमवाप्तिरम् ॥ ११२ ॥  
 अपरायत्तमच्छिन्नमबाधमयवर्द्धनम् । गुणान्पुष्पान् वितृष्णः सन् सुखेन सुखमीयिवान् ॥ ११३ ॥  
 ऋतं वाचि दया चित्तं धर्मकर्मणि निर्मलः । स्वान् गुणान् वा प्रजाः पाति राजर्षिः केन नास्तु सः ॥११४॥  
 मन्ये नैसर्गिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पापेऽपि रिपौ नोपैति विक्रियाम् ॥ ११५ ॥  
 न हि मूलहरः कोऽपि नापि कोऽपि कदर्यकः । तादात्विकोऽपि तद्राज्ये सर्वे सद्व्ययकारिणः ॥ ११६ ॥

भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥ १०४ ॥ जो लुत्तेके स्थानपर रहता है, दीन है, सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे संदेह है ऐसा नैऋत किसकी रक्षा कर सकता है ? ॥ १०५ ॥ जो जल भूमिमें विद्यमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है, जिसके हाथमें पाश है, जो जलप्रिय है—जिसे जल प्रिय है ( पक्षमें जिसे जड-मूर्ख प्रिय है ) और जो नदीनाश्रय है—समुद्रमें रहता है ( पक्षमें दीन मनुष्योंका आश्रय नहीं है ) ऐसा वरुण प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ? ॥ १०६ ॥ जो अग्निका मित्र है, स्वयं अस्थिर है और दूसरोंको चलाता रहता है उस वायुको विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सो ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है ? ॥ १०७ ॥ जो लोभी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन है वह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबेर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधाताने रक्षक कैसे बना दिया ? ॥ १०८ ॥ ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, पिशाचों से घिरा हुआ है और दुष्ट है इसलिए यह ऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ? ॥ १०९ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाओंका रक्षक बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था । अब विधाताने अपना सारा अपयश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ बनाया था ॥ ११० ॥ इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते हैं और अपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि देवोंका उल्लंघन करता था ॥ १११ ॥ उसका धन दान देनेमें, बुद्धि धार्मिक कार्योंमें, शूरवीरता प्राणियों की रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभोगमें सदा वृद्धिकी प्राप्त होता रहता था ॥ ११२ ॥ उसके पुण्यकी वृद्धि दूसरेके आधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी बाधा नहीं आती थी । इस प्रकार वह तृष्णारहित होकर गुणोंका पोषण करता हुआ बड़े आरामसे सुखको प्राप्त होता था ॥ ११३ ॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योंमें निर्मलता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्षि क्यों न हो ? ॥ ११४ ॥ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था । यदि ऐसा न होता तो प्राण हरण करनेवाले पापी शत्रु पर भी वह विकारको क्यों नहीं प्राप्त होता ॥ ११५ ॥ उसके राज्यमें न तो कोई मूलहर था—मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कदर्य था—अतिशय कृपण था और

१ 'कालिलेखाविलम्ब्यालः' इति पाठो भवेत् । कालिलस्येयं जलस्य इयं कालिला सा चासौ इला च भूमि-  
 श्चेति कालिलेखा तस्यां विद्यमानो विलो गर्तसन्निभो नीचैः प्रदेशः तत्र विद्यमानो व्याखो मकरादिजन्तुरिव, इति  
 तदर्थः । २ जलं प्रियो यस्य सः, पक्षे डल्लयोरभेदात् जडो मूर्खः प्रियो यस्य सः । ३ नदीनामिनः स्वामी-  
 नदीनः समुद्रः स आश्रयो यस्य स, पक्षे न दीनानाम् आश्रय इति नदीनाश्रयः 'सह सुपा' इत्यनेन समासः ।

इति तस्मिन् महीं पाति सौराज्ये सति भूपतौ । प्रजाः प्रजापतिं मत्वा तमैधन्त सुमेधसम् ॥ ११७ ॥  
 रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दश नवाभवत् । नवयौवनसम्प्राप्तौ प्राप्तपुण्योदयात् प्रभोः ॥ ११८ ॥  
 भाजनं भोजनं शय्या चमूर्वाहनमासनम् । निर्धारत्नं पुरं नाट्यमिति भोगान्दशान्भवत् ॥ ११९ ॥  
 श्रद्धादिगुणसम्पन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्त्वाङ्गं सते मासोपवासिने ॥ १२० ॥  
 गृहीतनवपुण्यात्मा वसुधारादिपञ्चकम् । प्रापाश्चर्यमनाप्यं किं सदनुष्ठानतत्परैः ॥ १२१ ॥  
 असौ मनोहरोद्याने गुणप्रभजिनेश्वरम्<sup>१</sup> । परेषुः प्राप्य तत्प्रोक्तं धर्मसारं रसायनम् ॥ १२२ ॥  
 पीत्वा<sup>२</sup> स्वभवसम्बन्धश्रुतिबन्धुप्रचोदितः । सद्यो निविद्य साम्राज्यं वितीर्य जितशत्रवे ॥ १२३ ॥  
 त्रैलोक्यजयिनं जेतुं मोहराजं कृतोद्यमः ।<sup>३</sup> राजभिर्बहुभिः सार्द्धं गृहीत्वा साधनं तपः ॥ १२४ ॥  
 चरित्वा<sup>४</sup> निरतीचारं तनुं त्यक्त्वायुषोऽवधौ । नभस्तिलकगिर्यग्रे शान्तकारविमानगः ॥ १२५ ॥  
 अच्युतेन्द्रोऽजनिष्टासवाङ्घ्रिद्विंशतिस्थितिः । हस्तत्रयप्रमाणात्तनिर्धातुतनुभास्करः ॥ १२६ ॥  
 शुक्लेशयः श्वसन्मासैरेकादशभिराहरन् । द्वाविंशतिसहस्राब्दैर्मनसा<sup>५</sup>ऽऽहारमामरम् ॥ १२७ ॥  
 तमःप्रभावधिष्यात्सदेशावधिविलोचनः । तत्क्षेत्रन्यापिसत्तेजांबलोत्तरशरीरभाक् ॥ १२८ ॥  
 दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा स्वायुरन्ते विशुद्धकम् ।<sup>६</sup> प्राग्भागधातकीखण्डे सीतादक्षिणकूलगे ॥ १२९ ॥  
 विषये मङ्गलावल्यां रत्नसञ्चय<sup>७</sup> पूःपतिः । देव्यां कनकमालायां वल्लभः कनकप्रभः ॥ १३० ॥

न कोई तादात्विक था—भिषिष्यत्का विचार न रख वर्तमानमें ही मौज उड़ानेवाला था, किन्तु सभी समीचीन कार्योंमें खर्च करनेवाले थे ॥ ११६ ॥ इस प्रकार जब वह राजा पृथिवीका पालन करता था तब सब ओर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान् राजाको ब्रह्मा मानकर वृद्धिको प्राप्त हो रही थी ॥ ११७ ॥ जब नव यौवन प्राप्त हुआ तब उस राजाके पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई थीं ॥ ११८ ॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, आसन, निधि, रत्न, नगर और नाट्य इन दश भोगोंका वह अनुभव करता था ॥ ११९ ॥ श्रद्धा आदि गुणोंसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक माहका उपवास करनेवाले अरिन्दम नामक साधुके लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्न-वृष्टि आदि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम कार्योंके करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको क्या दुर्लभ है ? ॥ १२०-१२१ ॥ दूसरे दिन वह राजा, गुप्तप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायनका पान किया, अपने पूर्व भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। वह जितशत्रु नामक पुत्रके लिए राज्य देकर त्रैलोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतेसे राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निरतिचार तप तप कर आयुके अन्तमें वह नभस्तिलक नामक पर्वतके अग्रभाग पर शरीर छोड़ सोलहवें स्वर्गके शान्तकार विमानमें अच्युतेन्द्र हुआ। वहाँ उसकी बाईस सागरकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्लेशया थी, वह ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र छठवीं पृथिवी तकके पदार्थों तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, बल तथा पैक्रियिक शरीर भी छठवीं पृथिवी तक व्याप्त हो सकता था ॥ १२२-१२८ ॥ इस प्रकार निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला वह अच्युतेन्द्र चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोग आयुके अन्तमें कहाँ उत्पन्न हुआ यह कहते हैं ॥ १२९ ॥ पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तट पर एक मङ्गलावती नामका देश था। उसके रत्नसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नामकी रानी थी। वह अहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके शुभ स्वप्नों द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मनाभ नामका पुत्र

१ जिनेशितम् ल० । २ स्वभाव क०, घ० । स्वभवः ख०, ग०, ल० । ३ रामाभिः ल० । ४ मर्निसाहार -क०, ख०, घ० । ५ प्राग्भागे ल० । ६ रत्नसंचयभूपतिः ख० ।



## महापुराणे उत्तरपुराणम्

पद्मनाभः सुतो जातस्तयोः सुस्वप्नपूर्वकम् । बालानुकूलपर्युष्टिविशेषैः सोऽभ्यवर्द्धत ॥ १३१ ॥  
उपयोगक्षमाशेषपर्याप्तिपरिनिष्ठितम् । आरोप्य तं व्रतं राजा विद्यागृहमवीविशत् ॥ १३२ ॥  
अभिजातपरीवारो दासहस्तिकादिकान् । दूरीकृत्य स निःशेषा विद्याः शिक्षितुमुद्ययौ ॥ १३३ ॥  
तथेन्द्रियततिस्तेन परार्जायत सा यथा । निजाथैः सर्वभावेन तनांति प्रीतिमात्मनः ॥ १३४ ॥  
स धीमान् वृद्धसंयोगं व्यधाद् विनयवृद्धये । <sup>१</sup>विनयः शास्त्रनिर्णीतः कृत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥  
तं सम्पूर्णकलं प्राप्य कान्तं सहजकृत्रिमौ । राजानं गुरुशुक्रौ वा रेजतुविनयौ भृशम् ॥ १३६ ॥  
स धीमान् षोडशे वर्षे विरेजे प्राप्य यौवनम् । वनं सुष्ठु विनीतात्मा संयतो वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥  
रूपान्वयवयःशिक्षासम्पन्नं तमविक्रियम्<sup>२</sup> । <sup>३</sup>भद्रं गजं विनीतात्मा<sup>४</sup> समालोक्य मुदा पिता ॥ १३८ ॥  
विद्यापूर्जां विधायास्य जिनपूजापुरःसरम् । संस्कृतस्येव रत्नस्य व्यधाद् बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १३९ ॥  
कलाभिरिव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयात् । रम्यं राजा तमूर्जो<sup>५</sup> वा प्रमदाभिरपर्ययन् ॥ १४० ॥  
तस्य सोमप्रभादीनां देवीनामभवन् सुताः । शुभाः सुवर्णनाभाद्याः भास्करस्येव <sup>६</sup>भानवः ॥ १४१ ॥  
पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान् परीतः कनकप्रभः । स्वराज्यं पालयन्नेवं सुखेनात्येयुर्दुःखीः ॥ १४२ ॥  
मनोहरवने धर्मं श्रीधराजिनपुङ्गवाद् । श्रुत्वा संयोज्य साम्राज्यं सूनौ संयम्य निवृत्तः ॥ १४३ ॥  
पद्मनाभश्च तत्रैव गृहीतोपासकव्रतः । <sup>७</sup>तन्त्रावापगतव्याप्तिसमालयैः सम्प्रवर्तयन् ॥ १४४ ॥

उत्पन्न हुआ । पद्मनाभ, बालकोचित सेवा-विशेषके द्वारा निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ १३०-१३१ ॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पूर्णता हो जानेपर राजाने उसे व्रत देकर विद्यागृहमें प्रविष्ट कराया ॥ १३२ ॥ कुलीन विद्वानोंके साथ रहनेवाला वह राजकुमार, दास तथा महाव्रत आदिको दूर कर समस्त विद्याओंके सीखनेमें उद्यम करने लगा ॥ १३३ ॥ उसने इन्द्रियोंके समूहको इस प्रकार जीत रक्खा था कि वे इन्द्रियाँ सब रूपसे अपने विषयोंके द्वारा केवल आत्माके साथ ही प्रेम बढ़ाती थीं ॥ १३४ ॥ वह बुद्धिमान् विनयकी वृद्धिके लिए सदा वृद्धजनोंकी संगति करता था । शास्त्रोंसे निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्वभावसे ही विनय करना स्वाभाविक विनय है ॥ १३५ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर गुरु और शुक्र ग्रह अत्यन्त सुशोभित होते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण कलाओंको धारण करनेवाले अतिशय सुन्दर उस राजकुमारको पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम-दोनों प्रकारके विमान अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥ १३६ ॥ वह बुद्धिमान् राजकुमार सोलहवें वर्षमें यौवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान् जितेन्द्रिय संयमी वनको पाकर सुशोभित होता है ॥ १३७ ॥ जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे रहित पुत्रको देखकर पिता बहुत ही हर्षित हुए । उन्होंने जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके साथ उसकी विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हुए रत्नके समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्यमें लगाई ॥ १३८-१३९ ॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्लपक्षके आश्रयसे कलाओंके द्वारा बालचन्द्रको पूर्ण किया जाता है उसी प्रकार बलवान् राजाने उस सुन्दर पुत्रको अनेक स्त्रियोंसे पूर्ण किया था अर्थात् उसका अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था ॥ १४० ॥ जिस प्रकार सूर्यके किरणें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियोंके सुवर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १४१ ॥ इस प्रकार पुत्र-पौत्रादिसे घिरे हुए श्रीमान् और बुद्धिमान् राजा कनकप्रभ सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे ॥ १४२ ॥

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पधारे हुए श्रीधर नामक जिन-राजसे धर्मका स्वरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-क्रमसे निर्वाण प्राप्त कर लिया ॥ १४३ ॥ पद्मनाभने भी उन्हीं जिनराजके समीप श्रावकके व्रत लिये तथा मन्त्रियोंके साथ स्वराष्ट्र

१ विनीतः ख० । २ तमविक्रियः ल० । ३ मद्राज्जं क०, ग०, घ० । ४ विनेता वा क०, ख०, ग०, घ० । ५ तमूर्जो वा ग० । ६ भाजनम् ग० । ७ 'तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तनम्' ।

विश्रम्भहाससंस्पर्शविनोदैरतिपेशलैः । कामिनीनां कलालापैः<sup>१</sup> सविलोलैर्विलोकनैः ॥ १४५ ॥  
 अनङ्गपूर्वरङ्गस्य पुष्पाङ्गलिनिभैः<sup>२</sup> शुभैः । समप्रेमसमुत्पन्नैः प्रसादं प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥  
 कामकल्पद्रुमोद्भूतं परिपक्वं फलोत्तमम् । रामाप्रेमोपनीतं सा<sup>३</sup> सीमाऽऽसीत्तस्य निर्द्वृतेः ॥ १४७ ॥  
 प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य फलमेतदिति स्फुटम् । प्रबोधयन्नसौ मूढानुद्यद्वांसिरभूत्सुखी ॥ १४८ ॥  
 सोऽपि श्रीधरसान्निध्ये बुद्ध्या धर्मं बुधोत्तमः । संसारमोक्षयाथात्म्यमात्मन्येवमचिन्तयत् ॥ १४९ ॥  
 यावदौदयिको भावस्तावत्संस्तुरित्वात्मनः । स च कर्माणि तत्कर्म तावद्यावत्सकारणम् ॥ १५० ॥  
 कारणान्यपि पञ्चैव मिथ्यात्वादीनि कर्मणः । मिथ्यात्वे सत्यवश्यं स्यात्तत्र शेषं चतुष्टयम् ॥ १५१ ॥  
 असंयमे त्रयं द्वे स्तः प्रमादे योगसञ्ज्ञकम्<sup>४</sup> । कषाये निःकषायस्य योग एव हि बन्धकृत् ॥ १५२ ॥  
 स्वस्मिन् स्वस्मिन् गुणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात् । स्वहेतोस्तत्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यति ॥ १५३ ॥  
 सदादित्रितयं नक्षयत् पश्चात्तच्च स्वकालतः । आपर्यन्तगुणस्थानात्तत्क्षयात्संसृतेः क्षयः ॥ १५४ ॥  
 संसारे प्रलयं याते पापे जन्मादिलक्षणे । क्षायिकैरात्मनो भावैरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥  
 इति तत्त्वं जिनोद्दिष्टमज्ञानानोऽन्धवच्चिरम् । भ्रान्तः संसारकान्तारे दुर्गे दुःखी<sup>५</sup> दुरन्तके ॥ १५६ ॥  
 असंयमादिकं सर्वमुज्जित्वा कर्मकारणम् । शुद्धश्रद्धादिमोक्षाङ्गपञ्चकं समुपैत्यहम् ॥ १५७ ॥

और पर-राष्ट्रीकी नीतिकला विचार करता हुआ वह मुखसे रहने लगा ॥ १४४ ॥ परस्परके समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रङ्गीकी शुभ पुष्पाङ्गलिके समान अत्यन्त कोमल स्त्रियोंकी विनय, हँसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर बातचीत और चञ्चल चित्तवर्णोंके द्वारा वह चित्तकी परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥ १४५-१४६ ॥ कामदेव रूपी कल्प-वृक्षसे उत्पन्न हुए, स्त्रियोंके प्रेमसे प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभके वैराग्यकी सीमा हुए थे अर्थात् इन्हीं भोगोपभोगोंसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था ॥ १४७ ॥ ये स-भोगोपभोग पूर्वभवमें किये हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूर्ख मनुष्योंको स्पष्ट रीतिसे बतलाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥ १४८ ॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मनाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार और मोक्षका यथाथ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा ॥ १४९ ॥ उसने विचार किया कि 'जब तक औदयिक भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-भ्रमण करना पड़ता है, औदयिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कर्म रहते हैं और कर्म तब तक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते हैं ॥ १५० ॥ कर्मोंके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं । उनमेंसे जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ बाकीके चार कारण अवश्य रहते हैं ॥ १५१ ॥ जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कषाय और योग ये तीन कारण रहते हैं । जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ उसके सिवाय योग और कषाय ये दो कारण रहते हैं । जहाँ कषाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है और जहाँ कषायका अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बन्धका कारण रहता है ॥ १५२ ॥ अपने-अपने गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता है ॥ १५३ ॥ पहले सत्ता, बन्ध और उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चात् चौदहवें गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होते हैं तथा कर्मोंका नाश होनेसे संसारका नाश हो जाता है ॥ १५४ ॥ जो पाप रूप है और जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है ऐसे संसारके नष्ट हो जानेपर आत्माके क्षायिक भाव ही शेष रह जाते हैं । उस समय यह आत्मा अपने-आपमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है ॥ १५५ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा कहे हुए तत्त्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसार-रूपी दुर्गम वनमें अन्धेके समान चिरकालसे भटक रहा है ॥ १५६ ॥ अब मैं असंयम आदि कर्म-बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोक्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त होता हूँ—धारण करता हूँ ॥ १५७ ॥

१ सविलासैर्विलोकनैः ख० । २ निभः ल० । ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० ।

४ योगसंज्ञके ल० । ५ दुःखे ख० ।

इत्यन्तस्तत्त्वतो ज्ञात्वा पद्मनाभो हिताहिते । दत्त्वा सुवर्णनाभाय <sup>१</sup>प्राभवं बाह्यसम्पदः ॥ १५८ ॥  
 राजभिर्बहुभिः सार्धं संयमं प्रतिपद्य सः । समाचरंश्चतुर्भेदे प्रसिद्धे मुक्तिसाधने ॥ १५९ ॥  
 द्रुथष्टकारणसम्प्राप्तभावनो नामतीर्थकृत् । स्वीकृत्यैकादशाङ्गाब्धिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥  
 सिंहनिःक्रीडिताद्युग्रं विधायान्बुधदुस्तरम् <sup>२</sup> । कालान्ते सम्यगाराभ्य समुत्सृष्टशरीरकः ॥ १६१ ॥  
 वैजयन्ते त्रयत्रिंशत्सागरायुरजायत । पूर्वोक्तदेहलेश्यादिविशेषो दिव्यसौख्यभाक् ॥ १६२ ॥  
 तस्मिन् षण्मासशेषायुष्या <sup>३</sup>गमिष्यति भूतले । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे नृपश्चन्द्रपुराधिपः <sup>४</sup> ॥ १६३ ॥  
 इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥  
 वसुधारां सुरैः प्राप्ता देवीभिः परिवारिता । दिव्यवस्त्रस्त्रगालेपशयनादिसुखोचिता ॥ १६५ ॥  
 चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वमान् याममनोहरे । दृष्ट्वा पोडश संतुष्य समुत्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥  
<sup>५</sup>पुण्यप्रसाधनोपेता <sup>६</sup>स्ववक्त्रार्पितसम्पदा । स्वप्नान् सिंहासनासीनं स्वानवाजीगमत पतिम् ॥ १६७ ॥  
 सोऽपि स्वावधिबोधेन तत्फलानि पृथक् पृथक् । राज्यै निवेदयामास सापि सन्तोषसम्भृता ॥ १६८ ॥  
 कान्ति लज्जां धृतिं कीर्तिं बुद्धिं सौभाग्यसम्पदम् । श्रीह्रीद्यत्यादिदेवीषु वर्धयन्तीषु सन्ततम् ॥ १६९ ॥  
<sup>७</sup>पौषसितैकदश्यां सा शक्रयोगे सुराचितम् । अहमिन्द्रमतर्क्याभं त्रिबोधमुपपादयत् ॥ १७० ॥  
 तदैवाभ्येत्य नाकीशो महामन्दरमस्तके । सिंहासनं समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥

इस प्रकार अन्तरङ्गमें हिताहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनाभने बाह्य सम्पदाओंकी प्रभुता सुवर्णनाभके लिए दे दी और बहुतसे राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह मोक्षके कारण भूत चारों आराधनाओंका आचरण करने लगा, सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तवन करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया। जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप उसने किये और आयुके अन्तमें समाधिमरण-पूर्वक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमें तैतीस सागरकी आयुका धारक अहमिन्द्र हुआ। उसके शरीरका प्रमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले कहे अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुखका उपभोग करता हुआ रहता था ॥ १५८-१६२ ॥

तदनन्तर जब उसकी आयु छहकी बाकी रह गई तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक चन्द्रपुर नामका नगर था। उसमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री तथा आश्वर्यकारी वैभवकी धारण करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणाने अपने घरके आंगनमें देवोंके द्वारा बरसाई हुई रत्नोंकी धारा प्राप्त की थी। श्री ह्री आदि देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं। देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा शय्या आदिके सुखोंका समुचित उपभोग करनेवाली रानीने चैत्रकृष्ण पञ्चमीके दिन पिछली रात्रिमें सोलह स्वप्न देखकर संतोष लाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वस्त्राभरण धारण किये तथा प्रसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ॥ १६३-१६७ ॥ राजा महासेनने भी अवधिज्ञानसे उन स्वप्नोंका फल जानकर रानीके लिए पृथक्-पृथक् बतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १६८ ॥ श्री ह्री धृति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लज्जा, धैर्य, कीर्ति, बुद्धि और सौभाग्य-सम्पत्तिको सदा बढ़ाती रहती थीं ॥ १६९ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषकृष्ण एकादशीके दिन शक्रयोगमें देव पूजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १७० ॥ उसी समय इन्द्रने आकर महामेरुकी शिखर पर विद्यमान सिंहासन पर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया, तीन लोकके राज्यकी कण्ठी बाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार

१ प्रभावं राज्यसम्पदः ग० । प्राभवं राज्यसंपदः क०, ख०, घ० । २ विधायान्बुधदुस्तरम् ल० ।

३ शेषायुषा क० । ४ चण्डपुराधिपः क०, घ० । ५ पुण्यप्रसाधनोपेतो क०, ख०, ग०, घ० ।

६ स्ववक्त्रार्पितसंभवा क० । ७ पौषे सितैकदश्यान्ते ग० ।

विभूय भूपणैः सर्वैर्बद्ध्वा त्रैलोक्यकण्ठकाम् । मुदा वीक्ष्य सहस्राक्षो व्यवहारप्रसिद्धये ॥ १७२ ॥  
 कुलं कुवलयस्यास्य सम्भवे व्यकसत्तराम् । यतस्ततश्चकाराख्यां सार्थां चन्द्रप्रभं प्रभोः ॥ १७३ ॥  
 आनन्दनाटकं चास्य निर्वर्त्याग्ने शचीपतिः । पुनरानीय तत्पिन्नोरर्पयित्वा जगत्पतिम् ॥ १७४ ॥  
 भोगोपभोगयोग्योखवस्तुभिः परिचर्यताम् । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥  
 प्रबोधमहतां स्त्रीत्वमपि निन्द्यं जगत्पतेः । लोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां लक्ष्मणामिमाम् ॥ १७६ ॥  
 पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा देवाश्चापन् महाफलम् । स्त्रीतेदृशी वरिष्ठेति मेनिरेऽनिमियाङ्गनाः ॥ १७७ ॥  
 गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमक्रोदिभिः । शतैर्नवभिरेपोऽभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥  
 शून्यषट्कैकपूर्वायुः सार्द्धचापशतोच्छ्रितः । अवर्द्धन्तेव शीतांशुः कलाशेषो जगन्नुतः ॥ १७९ ॥  
 इतः स्वामिस्त्वमेहीति कुतूहलविलासिनी । प्रसारितकरन्यस्ततलाम्भोजसमाश्रयः ॥ १८० ॥  
 अकारणसमुद्भूतस्मितकान्तमुखाम्बुजः । कदाचित्प्रसखलत्पादविन्यासो मणिकुट्टिमे ॥ १८१ ॥  
 इत्यादितद्वयोयोग्यमुग्धशुद्धविचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्रार्थ्यं सुखार्थिभिः ॥ १८२ ॥  
 अमृतैस्तनुमेतस्य<sup>१</sup> कृतां मन्यामहे वयम् । वेधसेति जनालापाः प्रवर्तन्ते स्म कौतुकान् ॥ १८३ ॥  
 आधिकाद्वालेदयेव निर्गतैवेक्षयाप्रिया । द्रव्यलेख्या व्यभासिष्ट जित्वा पूर्णेन्दुजद्युतिम् ॥ १८४ ॥  
 यशसा लेख्याया चास्य ज्योतिषां छादिता द्युतिः । भोगभूमिनिष्ठचेति प्रतोषमकरोऽज्जनः ॥ १८५ ॥

नेत्र बनाकर उन्हें देखा । उनके उत्पन्न होते ही यह कुवलय अर्थात् पृथ्वी-मण्डलका समूह अथवा नील-कमलोंका समूह अत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए उनका 'चन्द्रप्रभ' यह सार्थक नाम रक्खा ॥ १७१-१७३ ॥ इन्द्रने इन त्रिलोकीनाथके आगे आनन्द नामका नाटक किया । तदनन्तर उन्हें लाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया ॥ १७४ ॥ 'तुम भोगोपभोगकी योग्य वस्तुओंके द्वारा भगवान्की सेवा करो' इस प्रकार कुबेरके लिए संदेश देकर इन्द्र अपने स्थान पर चला गया ॥ १७५ ॥ यद्यपि विद्वान् लोग स्त्री-पर्यायको निन्द्य बतलाते हैं तथापि लोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवान्को धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्यवती है, बड़ी ही पवित्र है, इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान् फलको प्राप्त हुए थे तथा 'इस प्रकारकी स्त्री-पर्याय श्रेष्ठ है' ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था ॥ १७६-१७७ ॥

भगवान् सुपार्श्वनाथके मोक्ष जानेके बाद जब नौ सौ करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका तब भगवान् चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी ॥ १७८ ॥ दश लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, एक सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी तरह वे बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था ॥ १७९ ॥ 'हे स्वामिन् ! आप इधर आइये' इस प्रकार कुतूहलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी । वे उसके फैलाये हुए हाथों पर कमलोंके समान अपनी हथेलियाँ रख देते थे । उस समय कारणके बिना ही प्रकट हुई मन्द सुसकानसे उनका मुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था । वे कभी मणिजटित पृथिवी पर लड़खड़ाते हुए पैर रखते थे ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीभाली शुद्ध चेष्टाओंसे बाल्यकालको क्लृप्तकर वे सुखाभिलाषी मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८२ ॥ उस समय वहाँके लोगोंमें कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा समझते हैं कि विधाताने इनका शरीर अमृतसे ही बनाया है ॥ १८३ ॥ उनकी द्रव्य लेख्या अर्थात् शरीरकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वाह्य वस्तुओंको देखनेके लिए अधिक होनेसे भाव लेख्या ही बाहर निकल आई हो ॥ भावार्थ—उनका शरीर शुक्त था और भाव भी शुक्त-उज्ज्वल थे ॥ १८४ ॥ उनके यश और लेख्यासे ज्योतिषी देवोंकी कान्ति छिप गई

१-स्तनुरेतस्य क०, घ० ।

\* १८५ तमश्लोकादग्रे क०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकेष्वयं श्लोकोऽधिको वर्तते, ल० पुस्तके नास्ति—  
 'आबाल्यादेव पीयूषभोजी तेन तनुद्युतिः । अमानुषी हताशेषद्युतिरित्यब्रवीन्नः' ॥

धृतिस्तस्य धृतिर्वाभात् मिश्रिता रविचन्द्रयोः । तत्सदा व्यकसन्मन्ये पद्मानि कुमुदान्यपि ॥ १८६ ॥  
 कुन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवांशवोऽमलाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवलयवालम् ॥ १८७ ॥  
 सहोत्पत्तौ श्रियोऽनेन सोदर्येन्दोरिति श्रुतिः । अजानद्भिर्जनैरेतदन्यथा परिकल्पितम् ॥ १८८ ॥  
 चन्द्रस्येवोदयेऽस्यापि<sup>१</sup> सर्वसन्तापहारिणः । ह्लादते भासते वर्द्धते स्म लोकां निराकुलः ॥ १८९ ॥  
 एतस्यैव गुणैर्लक्ष्मी<sup>२</sup> मन्ये कीर्तिंश्च निर्मला । कारणानुगुणं कार्यमिति सत्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥  
 महाविभूतिसम्पन्नः<sup>३</sup> सज्जमज्जनमङ्गलः । सालङ्कारक्रियो<sup>४</sup> वेलां कदाचिदनयत् कृती ॥ १९१ ॥  
 वीणावाद्येन हृद्येन गीतैर्मुर्जवादनैः<sup>५</sup> । कदाचिद् धनदानीतभूपावस्त्रावलोकनैः ॥ १९२ ॥  
 वादिप्रवाद्युपन्यस्तपश्चादिसुपरीक्षणैः । कुतूहलेक्षणायातभव्यलोकाल्मदर्शनैः ॥ १९३ ॥  
 धर्मादयो व्यवर्द्धत गुणाः पापाद्ययाक्षयम् । कौमारेऽस्मिन् स्थितेऽप्येवं किं वाच्यं संयमे सति ॥ १९४ ॥  
 इति द्विलक्षणपञ्चाशत्सहस्रप्रमितैर्गतैः । पूर्वं राज्याभिषेकाख्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९५ ॥  
 नावतो मण्डलं राहोः स्वहस्ततलसस्मितम् । किं तेजोऽर्कस्य तेजोऽस्य तेजश्चैलोक्यरक्षणः ॥ १९६ ॥  
 शक्रादयोऽपि कैङ्कर्यं जन्मनः प्राग्वहन्ति चेत् । ऐश्वर्यादिभिरेषोऽन्यैर्द्वैतः कैरुपमीयताम् ॥ १९७ ॥  
 तले कपोलयोः स्त्रीणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुखमेयिवान् ॥ १९८ ॥

थी इसलिए 'भोगभूमि लौट आई है' यह समझ कर लोग संतुष्ट होने लगे थे ॥ १८५ ॥ ( ये बाल्य अवस्थासे ही अमृतका भोजन करते हैं अतः इनके शरीरकी कान्ति मनुष्योंसे भिन्न है तथा अन्य सबकी कान्तिको पराजित करती है । ) उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो सूर्य और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे ॥ १८६ ॥ कुन्दके फूलोंकी हँसी उड़ानेवाले उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल थे । इसीलिए तो वे भव्य जीवोंके मनरूपी नीलकमलोंके समूहको विकसित करते रहते थे ॥ १८७ ॥ लक्ष्मी इन्हींके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए वह इन्हींकी बहिन थी । 'लक्ष्मी चन्द्रमाकी बहिन है' यह जो लोकमें प्रसिद्धि है वह अज्ञानी लोगोंने मिथ्या कल्पना कर ली है ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यह लोक हर्षित हो उठता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढ़ने लगता है उसी प्रकार सब प्रकारके संतापको हरनेवाले चन्द्रप्रभ भगवान्का जन्म होने पर यह सारा संसार हर्षित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ़ रहा है ॥ १८९ ॥ 'कारणके अनुकूल ही कार्य होता है' यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना पड़ता है कि इनकी लक्ष्मी और कीर्ति इन्हींके गुणोंसे निर्मल हुई थीं । भावार्थ—उनके गुण निर्मल थे अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी ॥ १९० ॥ जो बहुत भारी विभूतिसे सम्पन्न हैं, जो स्नान आदि माङ्गलिक कार्योंसे सजे रहते हैं और अलङ्कारोंसे सुशोभित हैं ऐसे अतिशय कुशल भगवान् कभी मनोहर वीणा बजाते थे, कभी मृदङ्ग आदि बाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुन्नेरेके द्वारा लाये हुए आभूषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा उपस्थापित पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कभी कुतूहलवश अपना दर्शन करनेके लिए आये हुए भव्य जीवोंको दर्शन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ॥ १९१-१९३ ॥ जब भगवान् कौमार अवस्थामें ही थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गई थी और पाप आदिका क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है ? ॥ १९४ ॥ इस प्रकार दो लाख पचास हजार पूर्व व्यतीत होने पर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुन्दर जान पड़ते थे ॥ १९५ ॥ जो अपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर सकता ऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज तो इन भगवान् चन्द्रप्रभका था जो कि तीन लोककी रक्षा करते थे ॥ १९६ ॥ जिनके जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किङ्करता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे अन्य ऐश्वर्य आदिसे विरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवान्को किसकी उपमा दी जावे ? ॥ १९७ ॥ वे

१ चन्द्रस्येवोदयस्यापि ल० । २ मान्या ल० । ३ मान्यमज्जनमङ्गलः ख०, ग० । सज्जं सावधानीकृतं मज्जनं मङ्गलस्नानं यस्य सः इति क-पुस्तके टिप्पणी । ४ सालङ्कारक्रियां ल० । ५ मुरजवादिभिः ल० ।

विलोकिनीनां कान्तानामुत्सुकानां विलासकृत् । त्यागीव स सुखी जातः १स्ववक्त्ररसतर्पणान् ॥ १९९ ॥  
 नान्तरायः परं तस्य कान्तावक्त्राब्जवीक्षणो । जातपङ्केरुहाशङ्कैर्भ्रमद्भिर्भ्रमैर्विना ॥ २०० ॥  
 मधुपैश्वर्यलैर्लैर्युक्तायुक्ताविचारकैः । मलिनैः किमकर्तव्यं प्रवेशो यदि लभ्यते ॥ २०१ ॥  
 खचतुष्केन्द्रियतृप्तैः पूर्वंः साम्राज्यसम्पदः । चतुर्विंशतिपूर्वाङ्गैः सम्मितौ क्षणवत्सुखम् ॥ २०२ ॥  
 सत्यां प्रयाति कालेऽसावलङ्कारगृहेऽन्यदा । प्रपश्यन् वदनाम्भोजं दर्पणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥  
 १तत्रावधार्यनिर्वेदहेतुं कञ्चिन्मुखे स्थितम् । पातुकः पश्य कायोऽयमीतयः प्रीतयोऽप्यमूः ॥ २०४ ॥  
 किं सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्चेदियं चला । किं यौवनं यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि ॥ २०५ ॥  
 सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्वियोगपुरस्सरः । स एवाहं त एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥  
 प्रीतिः सैवानुभूतिश्च वृत्तिश्चास्यां भवावनौ ३ । परिवृत्तमिदं सर्वं पुनः पुनरनन्तरम् ॥ २०७ ॥  
 तत्र किं जातमप्येष्यत्काले किं वा भविष्यति । इति जानन्नहं चास्मिन्मोसुहीमि मुहुर्मुहुः ॥ २०८ ॥  
 अनित्ये नित्यबुद्धिर्मे दुःखे सुखमिति स्मृतिः । अञ्चुचौ शुचिरित्यास्था परत्रान्ममतिर्यथा ॥ २०९ ॥  
 भविष्यैवमाक्रान्तो दुरन्ते भववारिधौ । चतुर्विधोरुदुःखोद्गुर्गदैराहितश्चिरम् ॥ २१० ॥  
 इत्यथेनायतेनैवमायासित इवाकुलः । काललब्धिं परिप्राप्य क्षुण्णमार्गजिहासया ॥ २११ ॥  
 गुणाब्धं भातुको भाविकेवलवावगमादिभिः । स्मरन्नित्याप सन्मत्या ४संफल्येव समागमम् ५ ॥ २१२ ॥

स्त्रियोंके कपोल-तलमें अथवा हाथी-दाँतके टुकड़ेमें कामदेवसे मुसकाता हुआ अपना मुख देखकर सुखी होते थे ॥ १९८ ॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता है उसी प्रकार शृङ्गार चेषाओंको करने वाले भगवान्, अपनी ओर देखनेवाली उत्सुक स्त्रियोंके लिए अपने मुखका रस समर्पण करनेसे सुखी होते थे ॥ १९९ ॥ मुखमें कमलकी आशङ्का होनेसे जो पास हीमें मँडरा रहे हैं ऐसे भ्रमरोंको छोड़कर स्त्रीका मुख-कमल देखनेमें उन्हें और कुछ बाधक नहीं था ॥ २०० ॥ चञ्चल सत्क्षण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और मलिन मधुप-भ्रमर भी ( पक्षमें मद्यपायी लोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं तब संसारमें ऐसा कार्य ही कौन है जो नहीं किया जा सकता हो ॥ २०१ ॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास हजार पूर्व तथा चौबीस पूर्वाङ्गका लम्बा समय सुख पूर्वक क्षणभरके समान बीत गया तब वे एक दिन आभूषण धारण करनेके घरमें दर्पणमें अपना मुख-कमल देख रहे थे ॥ २०२-२०३ ॥ वहाँ उन्होंने मुख पर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार करने लगे । देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईतिके समान दुःखदायी है ॥ २०४ ॥ वह सुख ही क्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चञ्चल हो, वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, और वह आयु ही क्या है जो अवधिसे सहित हो—सान्त हो ॥ २०५ ॥ जिसके आगे वियोग होनेवाला है ऐसा बन्धुजनोंके साथ समागम किस कामका ? मैं वही हूँ, पदार्थ वही हैं, इन्द्रियाँ भी वही हैं, प्रीति और अनुभूति भी वही है, तथा प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसारकी भूमिमें यह सब बार-बार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७ ॥ इस संसारमें अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होनेवाला है यह मैं जानता हूँ, फिर भी बार बार मोहको प्राप्त हो रहा हूँ यह आश्चर्य है ॥ २०८ ॥ मैं आज तक अनित्य पदार्थोंको नित्य समझता रहा, दुःखको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थोंको पवित्र मानता रहा और परको आत्मा जानता रहा ॥ २०९ ॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुआ यह जीव, जिसका अन्त अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयङ्कर रोगोंके द्वारा चिरकालसे पीड़ित हो रहा है ॥ २१० ॥ इस प्रकार काल-लब्धिको पाकर संसारका मार्ग छोड़नेकी इच्छासे वे बड़े लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुल हो गये थे ॥ २११ ॥ आगे

१ स्ववक्त्रसंतर्पणात् ६० ( छन्दोभङ्गः ) । २ तदावधार्यं ६० । ३ भवावनौ ६० । ४ संफल्येव ६० ।

५ समागमे ६० ।

दीक्षालक्ष्याः स्वयं प्राप्ता सद्वुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्धतत्त्वं तं प्रपद्य सुरसंयताः ॥ २१३ ॥  
 यथोचितमभिष्टुत्य ब्रह्मलोकं पुनर्यथुः । नृपोऽपि वरचन्द्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ २१४ ॥  
 विनिःक्रमणकल्याणपूजां प्राप्य सुरेश्वरैः । आरुह्य सुरसन्धार्यां शिबिकां विमलाह्वयात् ॥ २१५ ॥  
 दिनद्वयोपवासित्वा वने सर्वर्तुकाह्वये । १पौषे मास्यनुराधायामेकादश्यां महीभुजाम् ॥ २१६ ॥  
 सहस्रेणाप्य नैर्ग्रन्थ्यं मनःपर्ययमासवान् । २द्वितीये दिवसे तस्मै पुरे नलिननामनि ॥ २१७ ॥  
 सोमदत्तो नृपो गौरः प्रदायाहारमुत्तमम् । पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपञ्चकम् ॥ २१८ ॥  
 सुरैस्तदानसन्तुष्टैरापितं स्वीचकार सः । धृत्वा व्रतानि सम्पाल्य समितीस्त्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥  
 निगृहीतकषायारिर्वर्द्धमानविशुद्धिभाक् । त्रिगुप्तः शीलसम्पन्नो गुणी प्रोक्तपोद्भवः ॥ २२० ॥  
 वस्तुवृत्तिवचोभेदाश्चैरन्तर्येण भावयत् । दशप्रकारधर्मस्थः पोढाशेषपरीपहः ॥ २२१ ॥  
 अनित्याशुचिदुःखत्वं स्मरन् कायादिकं मुहुः । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाश्रितः ॥ २२२ ॥  
 श्रीन् मासान् जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्ताज्जागवृक्षस्य स्थित्वा पष्ठोपवासभृत् ॥ २२३ ॥  
 फाल्गुनेऽकृष्णसप्तम्यामनुराधापरारूढके । प्रागेव निहिताशेषश्रद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥  
 करणत्रयसंयोगात् क्षपकश्रेणिमाश्रितः । स्फुरत्सुरीयचारित्रो द्रव्यभावविकल्पतः ॥ २२५ ॥  
 ३शुक्लध्यानोद्धसद्ध्यत्या मोहारातिं निहत्य सः । ४सावगाढदृगर्थोऽभाद् विचतुष्कादिभास्करः ॥ २२६ ॥

होनेवाले केवलज्ञानादि गुणोंसे मुझे समृद्ध होना चाहिए...ऐसा स्मरण करते हुए वे दूतीके समान सद्वुद्धिके साथ समागमको प्राप्त हुए थे ॥ २१२ ॥ मोक्ष प्राप्त करानेवाली उनकी सद्वुद्धि अपने आप दीक्षा-लक्ष्मीको प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्वको समझ लिया है ऐसे भगवान् चन्द्रप्रभके समीप लौकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर ब्रह्मस्वर्गको वापिस चले गये। तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर देवोंके द्वारा की हुई दीक्षान्कल्याणककी पूजाको प्राप्त हुए और देवोंके द्वारा उठाई हुई विमला नामकी पालकीमें सवार होकर सर्वर्तुक नामक वनमें गये। वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर पौष कृष्ण षकादशीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ निर्ग्रन्थ दीक्षा कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरे दिन वे चर्याके लिए नलिन नामक नगरमें गये। वहाँ गौर वर्णवाले सोमदत्त राजाने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पञ्चाश्रय प्राप्त किये। भगवान् अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंको धारण करते थे, ईर्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, मन वचन कायकी निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करते थे ॥ २१३-२१६ ॥ उन्होंने कषायरूपी शत्रुका निग्रह कर दिया था, उनकी विशुद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुणियोंसे युक्त थे, शील सहित थे, गुणी थे, अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग दोनों तपोंको धारण करते थे, वस्तु वृत्ति और वचनके भेदसे निरन्तर पदार्थका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंमें स्थित रहते थे, समस्त परिषह सहन करते थे, 'यह शरीरादि पदार्थ अनित्य हैं, अशुचि हैं और दुःख रूप हैं' ऐसा बार-बार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थोंमें माध्यस्थ्य भाव रखकर परमयोगको प्राप्त हुए थे ॥ २२०-२२२ ॥ इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके द्वारा तीन माह बिताकर वे दीक्षावनमें नागवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके सायंकालका समय था और उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय था। सम्यग्दर्शनको घातनेवाली प्रकृतियोंका तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया अब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणरूप तीन परिणामोंके संयोगसे क्षपकश्रेणीको प्राप्त हुए। वहाँ उनके द्रव्य तथा भाव दोनोंही रूपसे चौथा सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥ २२३-२२५ ॥ वहाँ उन्होंने प्रथम शुक्लध्यानके प्रभावसे मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यग्दर्शन अवगाढ सम्यग्दर्शन हो गया।

१ पौषमास्यनु-ल० । २ द्वितीयदिवसे ल० । ३ धर्मध्यानेद्धसद्ध्यत्या ल०, ग०, ष०, क० ।  
 ४ सावगाढदृगन्त्यायां ल० । सावगाढदृगन्त्येऽर्थो ल० ।

द्वितीयशुक्लध्यानेन घातिभ्रितयघातकः । जीवस्यैवोपयोगाख्यो गुणः शेषेष्वसम्भवात् ॥ २२७ ॥  
 घातीति नाम तद्घातादाद्भूदघचतुष्टये । अघातिष्वपि केपाञ्चिदेव तत्र विलोपनात् ॥ २२८ ॥  
 परावगाढं सम्यक्त्वं चर्यान्त्यां ज्ञानदर्शने । दानादिपञ्चकं प्राप्य सयोगः सकलो जिनः ॥ २२९ ॥  
 सर्वज्ञः सर्वलोकेशः सार्वः सर्वैकरक्षकः । सर्वदृक् सर्वदेवेन्द्रवन्द्यः सर्वार्थदेशकः ॥ २३० ॥  
 चतुस्त्रिंशदतीशेषविशेषविभवोदयः । प्रातिहार्याष्टकव्यक्तीकृततीर्थकरोदयः ॥ २३१ ॥  
 देवदेवः समस्तेन्द्रमुकुटोढाङ्घ्रिपङ्कजः । स्वप्रभाह्लादिताशेषविश्वो लोकविभूषणः ॥ २३२ ॥  
 गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्तृतेः । प्रबोधकः स्थितो व्योम्नि श्रीमान् चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥  
 क्रौर्यधुर्येण शौर्येण १ यदहः सञ्चितं परम् । सिंहैर्हर्तुं स्वजातेर्वा व्यूढं तस्यासनं व्यभात् ॥ २३४ ॥  
 केवलद्युतिरेवैवं मूर्तिजातेव भास्वरा । देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य शोभते ॥ २३५ ॥  
 २ चामरैरामरैरेष प्रभाप्रकटितायतिः । हंसांसधवलैर्गाङ्गातरङ्गैरिव सेव्यते ॥ २३६ ॥  
 ध्वनिरेकोऽपि दिव्योऽस्य प्रकाशो बांशुमालिनः । ३ द्रष्टृणां सर्वभावानां सगोत्राणां प्रकाशकः ॥ २३७ ॥  
 त्रिभिः शिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत् । मोक्षमार्गः पृथग्भूतो भाति छत्रत्रयं विभोः ॥ २३८ ॥  
 भाति पिण्डीद्रुमो भर्तुरशोकः संश्रयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पल्लवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥

उस समय चार ज्ञानोंसे देदीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान् अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ २२६ ॥ बारहवें गुणस्थानके अन्तमें उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घातिया कर्मोंका क्षय कर दिया । उपयोग जीवका ही खास गुण है क्योंकि वह जीवके सिवाय अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्तराय कर्म जीवके उपयोग गुणका घात करते हैं इसलिए घातिया कहलाते हैं । उन भगवान्के घातिया कर्मोंका नाश हुआ था और अघातिया कर्मोंसे भी किञ्चि ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था । इस प्रकार वे परमावगाह सम्यग्दर्शन, अन्तिम यथाख्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दर्शन तथा ज्ञानादि पाँच लब्धियाँ पाकर शरीर सहित सयोगकेवली जिनेन्द्र हो गये ॥ २२७-२२९ ॥ उस समय वे सर्वज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे, सर्वदर्शी थे, समस्त इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय थे और समस्त पदार्थोंका उपदेश देनेवाले थे ॥ २३० ॥ चौतीस अतिशयोंके द्वारा उनके विशेष वैभवका उदय प्रकट हो रहा था और आठ प्रातिहार्योंके द्वारा तीर्थकर नामकर्मका उदय व्यक्त हो रहा था ॥ २३१ ॥ वे देवोंके देव थे, उनके चरण-कमलोंको समस्त इन्द्र अपने मुकुटों पर धारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्होंने समस्त संसारको आनन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके आभूषण थे ॥ २३२ ॥ गति, जीव, समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदिके विस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र आकाशमें स्थित थे ॥ २३३ ॥ सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा था कि सिंह जातिने क्रूरता-प्रधान शूर-वीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए मानो उन्होंने भगवान्का सिंहासन उठा रक्खा था ॥ २३४ ॥ समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुई उनके शरीरकी प्रभा ऐसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति ही तदाकार हो गई हो ॥ २३५ ॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोंके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी दीर्घता प्रकट हो रही है ऐसे भगवान् ऐसे जान पड़ते थे मानो गङ्गानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों ॥ २३६ ॥ जिस प्रकार सूर्यका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देता है उसी प्रकार भगवान्की एक ही दिव्यध्वनि सुननेवालों के लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देती थी ॥ २३७ ॥ भगवान्का छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुड़ा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षकी प्राप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती है अन्यसे नहीं ॥ २३८ ॥ लाल-लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान्के आश्रय-

१ यदहः ग०, ल० । २ चमरै-ल० । ३ द्रष्टृणां सर्वभावानां सगोत्राणां प्रकाशकः ख०, ग० । नराणां सर्वभावानां संभ्रोतृणां प्रकाशकः ल० ।



अभात् सुमनसां वृष्टिः पतन्ती नभसो विशुम् । तारावलिरिवायान्ती सेवितुं भक्तिर्भरा ॥ २४० ॥  
 देवदुन्दुभयो बाढं दध्वनुस्तजिताब्धयः । दिशः श्रावयितुं वास्य मोहारातिजयं विभोः ॥ २४१ ॥  
 अभादस्य प्रभामध्ये प्रसन्नं वक्त्रमण्डलम् । नाकनद्यामिवाभोजमिव वा बिम्बमैन्दवम् ॥ २४२ ॥  
 श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये चतुर्भिस्त्रिगुणैर्गणैः । तारागणैः शरच्चन्द्र इव सेव्यो व्यराजत ॥ २४३ ॥  
 दशादित्रिनवत्युक्तगणेशः खत्रयद्विस-<sup>१</sup> । श्रोकपूर्वधरः शून्यत्रिकाष्टावधिलोचनः ॥ २४४ ॥  
 शून्यद्वयचतुःशून्यद्विक<sup>२</sup>पक्षोक्तशिक्षकः । खचतुष्कैकनिर्दिष्टकेवलवागमाप्रणीः ॥ २४५ ॥  
 चतुर्दशसहस्रोक्तविक्रियद्विबिभूषितः । खत्रयाष्टचतुर्ज्ञानपरिपत्परिवारितः ॥ २४६ ॥  
 खद्वयत्वंद्विवादीशः सर्वसाद्धैलक्षकः । खचतुष्काष्टवङ्ग्युक्तवर्णाद्यायिकानुतः ॥ २४७ ॥  
 त्रिलक्षश्रावकाभ्यर्च्यः श्राविकापञ्चलक्षकः । असङ्ख्यदेवदेवीव्यस्तियक्सङ्ख्यातसेवितः<sup>३</sup> ॥ २४८ ॥  
 प्रादक्षिण्येन भव्येशं परीत्यैते गणाः पृथक् । स्वकोष्ठेष्ववतिष्ठन्ति विहिताञ्जलिङ्गमलाः ॥ २४९ ॥  
 तत्राकृत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्फुरन् । मुकुटाग्रमणिः स्तोत्रं द्वितीयेन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ २५० ॥  
 रत्नत्रयेण येनासं रत्नत्रयमनुत्तरम् । त्वं देह्यस्मभ्यमप्युच्चैः सरत्नत्रयसम्पदम् ॥ २५१ ॥  
 स्वार्थः सागरमेरूणां परार्थः कल्पभूरुहाम् । देव स्वार्थः परार्थश्च महिमा महत्तव ॥ २५२ ॥  
 ददासि परमं सौख्यमित्यस्तु भवतः <sup>४</sup>स्त्वः । नन्द नन्देति देवस्य साधितात्मार्थसम्पदः ॥ २५३ ॥

से ही मैं अशोक-शोकरहित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलोंके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हूँ ॥ २३६ ॥ आकाशसे पड़ती हुई फूलोंकी वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भगवान्की सेवा करनेके लिए भक्तिसे भरी हुई ताराओंकी पंक्ति ही आ रही हो ॥ २४० ॥ समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले देवोंके नगाड़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानो वे दिशाओंको यह सुना रहे हों कि भगवान्ने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है ॥ २४१ ॥ उनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतासे भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा सुशोभित होता था मानो आकाशगङ्गामें कमल हो खिल रहा हो अथवा चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब ही हो ॥ २४२ ॥ जिस प्रकार तारागणोंसे सेवित शरद्-ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार बारह सभाओंसे सेवित भगवान् गन्धकुटीके मध्यमें सुशोभित हो रहे थे ॥ २४३ ॥ उनके दत्त आदि तेरानवें गणधर थे, दो हजार पूर्वधारी थे, आठ हजार अवधिज्ञानी थे, दो लाख चार सौ शिक्षक थे, दश हजार केवलज्ञानी थे । वे चौदह हजार विक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनियोंसे विभूषित थे, आठ हजार मनःपर्यय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार छह सौ वादियोंके स्वामी थे । इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या अढ़ाई लाख थी । वरुणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं । वे असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यञ्च उनकी सेवा करते थे ॥ २४३-२४८ ॥ ये सब बारह सभाओंके जीव प्रदक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान् चन्द्रप्रभको घेरे हुए थे, सब अपने-अपने कोठोंमें बैठे थे और सभी कमलके मुकुलके समान अपने-अपने हाथ जोड़े हुए थे ॥ २४६ ॥

उसी समय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्र हो रहा है और जिसके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए मणि देवीप्यमान हो रहे हैं ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥ २५० ॥ वह कहने लगा कि हे भगवन् ! जिस रत्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त किया है वही रत्नत्रय-सम्पत्ति आप मुझे भी दीजिये ॥ २५१ ॥ हे देव ! समुद्र और सुमेरु पर्वतकी महिमा केवल अपने लिए हैं तथा कल्पवृक्षकी महिमा केवल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपकी महिमा अपने तथा दूसरे दोनोंके लिए है ॥ २५२ ॥ हे भगवन् ! आप परम सुखके देनेवाले हैं ऐसी आपकी स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्मतत्त्व रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले आप सदा समृद्धिमान् हों

१ द्वयं ख० । २ द्वयं क०, ख०, ग०, घ० । ३ सन्नतः ल० । ४ स्वकोष्ठेष्ववतिष्ठन्ते ख० ।

५ स्तवं ल०, ख० ।

स्वद्वचो वाचि धर्मस्ते हृदि वृत्तिस्तनौ भवेत् । यस्य स त्वाद्दशो भूत्वा परमानन्दमश्नुते ॥ २५४ ॥  
 स्वयैवैकेन कर्मारिन् भुवनत्रयविद्विषः । शुक्लध्यानासिना हत्वा मुक्तिसाम्राज्यमजितम् ॥ २५५ ॥  
 त्वत्पादपादपोद्भूतसान्द्रच्छायां समाश्रिताः । पापाकर्षणघर्मोऽग्रदुःखसन्तापद्वर्गाः ॥ २५६ ॥  
 सागरोऽनन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम् । त्वन्मताश्रितभक्त्यानां गोष्पदं नन्दनं वनम् ॥ २५७ ॥  
 फलं त्रिलोकसाम्राज्यं क्लेशकृच्चरणस्मृतिः । लोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेत्ति हितमात्मने ॥ २५८ ॥  
 आधाराधेयभावोऽयमनन्यसदृशस्तव । अधःस्थं जगदाधेयमाधारस्त्वं तदग्रिमः ॥ २५९ ॥  
 वेदकोऽसि न वेद्योऽसि न पाल्योऽस्यसि पालकः । कर्तासि नासि कार्यस्त्वं न पोष्योऽस्यसि पोषकः ॥ २६० ॥  
 त्वां नमन्नुचामः स्तोता गुरुश्च गुणगौरवात् । अनमन् तप्यते पापैरस्तुवन् शप्यते सदा ॥ २६१ ॥  
 नास्तिकाः पापिनः केचिद् दैष्टिकाश्च हतोद्यमाः । त्वदीयास्वास्तिका धर्म्याः परत्र विहितोद्यमाः ॥ २६२ ॥  
 सर्वत्र सर्वदा सर्वं सर्वैस्त्वं सार्वसर्ववित् । प्रकाशयति नैवेन्दुर्भानुवान्येषु का कथा ॥ २६३ ॥

समृद्धिमान् हों, मैं यहीं स्तुति करता हूँ ॥ २५३ ॥ जो मनुष्य आपके वचनको अपने वचनोंमें, आपके धर्मको अपने हृदयमें और आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमें धारण करता है वह आप जैसा ही होकर परम आनन्दको प्राप्त होता है ॥ २५४ ॥ हे नाथ ! आप अकेलेने ही शुक्लध्यान रूपी तलवारके द्वारा तीनों लोकोंसे द्वेष रखनेवाले कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त कर लिया है ॥ २५५ ॥ हे प्रभो ! जो आपके चरणरूपी वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छायाका आश्रय लेते हैं वे पापरूपी सूर्यके रोगरूपी घामके तीव्र दुःखरूपी संतापसे दूर रहते हैं ॥ २५६ ॥ हे देव ! यह संसार, समस्त जीवोंके लिए या तो समुद्र है या अनन्त वन है परन्तु जो भग्य आपके मतका आश्रय लेते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्दन वन है ॥ २५७ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपके चरणोंका स्मरण करनेसे बुद्ध क्लेश अवश्य होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साम्राज्य है । आश्चर्य है कि ये संसारके प्राणी उस महान् फलमें भी मन्द इच्छा रखते हैं इससे जान पड़ता है कि ये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ॥ २५८ ॥ हे प्रभो ! आपका यह आधाराधेय भाव अनन्यसदृश है—सर्वथा अनुपम है क्योंकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है और उसके ऊपर रहनेवाले आप आधार हैं । भावार्थ—जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और जो उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । दूसरे पक्षमें यह अर्थ है कि आप जगत्के रक्षक हैं अतः आधार हैं और जगत् आपकी रक्षाका विषय है अतः आधेय है ॥ २५९ ॥ आप सबको जानते हैं परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, आप सबके रक्षक हैं परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं हैं, आप सबके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं और आप सबका पोषण करने वाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥ २६० ॥ जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणोंके गौरवसे गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे संतप्त होता है और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निन्दाको प्राप्त होता है ॥ २६१ ॥ हे भगवन् ! इस संसारमें कितने ही लोग नास्तिक हैं—परलोककी सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छन्द होकर तरह-तरहके पाप करते हैं और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग आस्तिक हैं—परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं इसलिए 'परलोक बिगड़ न जावे' इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाएँ करते हैं और परलोकके सुधारके लिए सदा उद्यम करते हैं ॥ २६२ ॥ सबका हित करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह सब समय सब पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं । ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है और न सूर्य ही,

न स्थिरं क्षणिकं ज्ञानमात्रं शून्यमनीक्षणत् १ । वस्तु प्रतिक्षणं तत्त्वान्यत्वरूपं तत्वेक्षणत् ॥ २६४ ॥  
 अस्यात्मा बोधसद्भावात्परजन्मास्ति तत्स्मृतेः । सर्वविच्चास्ति धीबुद्धेस्त्वदुपज्ञमिदं त्रयम् ॥ २६५ ॥  
 द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याप्यवदद्विधीः । गुणैः परिणतिं द्रव्यस्यावादीस्त्वं यथार्थश्च ॥ २६६ ॥  
 अप्रतीपा प्रभा भाति देव देहस्य तेऽनिशम् । चन्द्रप्रभेति नामेदमपरीक्ष्य हरिर्व्यधात् ॥ २६७ ॥  
 इति शब्दार्थगम्भीरस्तवनेन सुराधिपः । चिरं सपुण्यमाल्मानं बहुमेने स हृष्टधीः ॥ २६८ ॥  
 अथ चन्द्रप्रभः स्वामी धर्मतीर्थं प्रवर्तयन् । सर्वान् देशान् विहृत्यार्यान् सम्मेदतलमाप्तवान् ॥ २६९ ॥  
 विहारमुपसंहृत्य मासं सिद्धशिलातले । प्रतिमायोगमास्थाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ २७० ॥  
 फाल्गुने शुक्लसप्तम्यां ज्येष्ठाचन्द्रेऽपराह्वके । तृतीयशुक्लध्यानेन कृतयोगनिरोधकः ॥ २७१ ॥  
 अयोगपदमासाद्य तुर्यशुक्लेन निर्हरन् । शेषकर्माणि निर्लुप्तशरीरः परमोऽभवत् ॥ २७२ ॥  
 सुरा निर्वाणकल्याणपूजाविधिविधायिनः । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम् ॥ २७३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

सम्पूर्णः किमयं शरच्छशधरः किं वार्षितोऽदर्पणः

सर्वार्थावगतेः किमेष विलसत्पीयूषपिण्डः पृथुः ।

किं पुण्याणुमयश्चयोऽयमिति यद्वक्त्राम्बुजं शङ्कयते

सोऽयं चन्द्रजिनस्तमो व्यपहरन्नंहोभयाद्रक्षतात् ॥ २७४ ॥

फिर, अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या है ? ॥२६३॥ हे भगवन् ! कोई भी वस्तु न नित्य है, न क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है और न अदृश्य होनेसे शून्य रूप है किन्तु आपके दर्शनसे प्रत्येक वस्तु तत्त्व और अतत्त्व रूप—अस्ति और नास्ति रूप है ॥ २६४ ॥ आत्मा है, क्योंकि उसमें ज्ञानका सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती है। हे भगवन् ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपके ही कहे हुए हैं ॥ २६५ ॥ जिस प्रकार एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य जुदा है उसी प्रकार द्रव्यसे गुण भी जुदा है ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं परन्तु आपने कहा है कि द्रव्यका परिणामन गुणोंसे ही होता है अर्थात् द्रव्यसे गुण सर्वथा जुदा पदार्थ नहीं है। इसीलिए आप यथार्थद्रष्टा हैं—आप पदार्थोंके स्वरूपको ठीक-ठीक देखते हैं ॥ २६६ ॥ हे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रभा तो राहुसे तिरोहित हो जाती है परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित रही आती है अतः इन्द्रने जो आपका 'चन्द्रप्रभ' (चन्द्रमा जैसी प्रभावाला) नाम रक्खा है वह बिना परीक्षा किये ही रख दिया है ॥ २६७ ॥ इस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गंभीर हैं ऐसे स्तवनेसे प्रसन्न बुद्धिके धारक इन्द्रने अपने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान् माना था ॥ २६८ ॥

अथानन्तर चन्द्रप्रभ स्वामी समस्त आर्य देशोंमें विहार कर धर्म-तीर्थोंकी प्रवृत्ति करते हुए सम्मेदशिखर पर पहुँचे ॥ २६९ ॥ वहाँ वे विहार बन्द कर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर आरूढ रहे ॥ २७० ॥ और फाल्गुन शुक्ल सप्तमीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्ल-ध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो गये ॥ २७१-२७२ ॥ उसी समय निर्वाण-कल्याणककी पूजाकी विधिको करनेवाले देव आये और पुण्यरूपी पण्य—खरीदने योग्य पदार्थोंको लेकर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ २७३ ॥

‘क्या यह शरदृच्छतुका पूर्ण चन्द्रमा है, अथवा समस्त पदार्थोंको जाननेके लिए रक्खा हुआ दर्पण है, अथवा अमृतका शोभायमान विशालपिण्ड है अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह है’ इस प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर लोग शङ्का किया करते हैं वे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र अज्ञानान्धकारको

लेदया यस्य मृणालनालधवला श्लाघ्योभयी<sup>१</sup> शोभते .

यस्यास्येन्दुरहदिवं कुवलयह्लादं विधत्ते ध्रुवम् ।


यद्वोधोज्ज्वलदर्पणे त्रिसमयं जीवादिकं लक्ष्यते

स श्रीमान् दिशताच्छ्रियं जिनपतिर्नष्टाष्टकर्माष्टकः ॥ २७५ ॥

श्रीवर्मा श्रीधरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पद्मनाभोऽहमिन्द्रोऽस्मान् पातु चन्द्रप्रभः प्रभुः ॥ २७६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्द्रप्रभपुराणं

परिसमाप्तं चतुःपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५४ ॥



नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ॥ २७४ ॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी लेश्याएँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनीय सुशोभित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा रात-दिन कुवलय—पृथिवी-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हर्षित करता रहता है, जिनके ज्ञानरूपी निर्मल दर्पणमें त्रिकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं और जिन्होंने अष्ट कर्मोंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे भोक्ष-लक्ष्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ २७५ ॥ जो पहले श्रीवर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन हुए, तत्पश्चात् अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर अष्टम तीर्थकर हुए ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ २७६ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें चन्द्रप्रभ पुराणका वर्णन करनेवाला चौवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥



## पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व

विधाय विपुले मार्गे विनेयांश्चामले स्वयम् । स्वयं च सुविधिर्योऽभूद् विधेयान्नः स तं विधिम् ॥ १ ॥  
 पुष्करार्द्धेन्द्रदिग्भागे<sup>१</sup> मन्दरप्राग्विदेहभाक् । सीतासरिदुदक्कूले विषयः पुष्कलावती ॥ २ ॥  
 तत्राभूत्पुण्डरीकिण्यां महीपद्मो महीपतिः । दोर्दण्डखण्डितारातिमण्डलश्रण्डविक्रमः ॥ ३ ॥  
 पुराणमपि सन्मार्गं स स्ववृत्त्याऽकरोन्नवम् । पाश्चात्यानां तु तद्वृत्त्या पुराणः सौऽभवत्पुनः ॥ ४ ॥  
 सम्पोष्य पालयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । प्रस्तुता निजसारेण तं सदा समतर्पयत् ॥ ५ ॥  
 स्वानुरक्तान् जनान् सर्वान् स्वगुणैः स व्यधात् सुधीः । ते च तं प्रीणयन्ति स्म प्रत्यहं सर्वभावात् ॥ ६ ॥  
 शेषाः प्रकृतयस्तेन विहिता वद्धिताश्च थाः । स्वेन स्वेनोपकारेण ताश्चैवं वृद्धिमानयन् ॥ ७ ॥  
 अवर्द्धन्त गुणास्तस्मिन् सद्बृत्ते शास्त्रशालिनि । मुनिवल्लब्धसंस्कारा बभुश्च मणयो यथा ॥ ८ ॥  
 विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाश्रितैः । स्वोऽन्वभूच्चिरमच्छिन्नं सन्तः साधारणश्रियः ॥ ९ ॥  
 वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रस्थान एवायं दण्ड्याभावात्प्रजागुणात् ॥ १० ॥  
 रतिरच्छिन्नसन्ताना तस्य भोग्याश्च<sup>२</sup> तादृशाः । तस्मात्स्वसुखविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकः<sup>३</sup> ॥ ११ ॥

जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्षमार्गमें अनेक शिष्योंको लगाया और स्वयं लगे एवं जो सुविधि रूप हैं—उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं वे सुविधि-नाथ भगवान् हम सबके लिए सुविधि—मोक्षमार्गकी विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें ॥ १ ॥ पुष्करार्धद्वीपके पूर्व दिग्भागमें जो मेरु पर्वत है उसके पूर्वविदेहक्षेत्रमें सीतानदीके उत्तर तट पर पुष्कलावती नामका एक देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें महापद्म नामका राजा राज्य करता था । उस राजाने अपने भुजदण्डोंसे शत्रुओंके समूह खण्डित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, वह किसी पुराने मार्गको अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था और फिर आगे होनेवाले लोगोंके लिए वही नया मार्ग पुराना हो जाता था ॥ २-४ ॥ जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे दूध देती हुई सदा संतुष्ट रखती है उसी प्रकार वह राजा अपनी पृथिवीका भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता था और वह पृथिवी भी द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न होनेवाले रत्न आदि श्रेष्ठ पदार्थोंके द्वारा उस राजाको संतुष्ट रखती थी ॥ ५ ॥ वह बुद्धिमान् सब लोगोंको अपने गुणोंके द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और सब लोग भी सब प्रकारसे उस बुद्धिमान्को प्रसन्न रखते थे ॥ ६ ॥ उसने मंत्री पुरोहित आदि जिन कार्य-कर्ताओंको नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था वे सब अपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा बढ़ाते रहते थे ॥ ७ ॥ जिस प्रकार मुनियोंमें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस सदाचारी और शास्त्रज्ञानसे सुशोभित राजामें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उस राजामें अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे ॥ ८ ॥ वह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग कर अपने आश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लक्ष्मीका उपभोग करता रहा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मीको सर्वसाधारणके उपभोगके योग्य समझते हैं ॥ ९ ॥ नीतिके जाननेवाले राजाको इन्द्र और यमके समान कहते हैं परन्तु वह पुण्यात्मा इन्द्रके ही समान था क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणवती थी अतः उसके राज्यमें कोई दण्ड देनेके योग्य नहीं था ॥ १० ॥ उसके सुखकी परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके भोगोपभोगके योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी वह राजा अपने सुखके विरहको कभी

इति स्वपुण्यमाहात्म्यसम्पादितमहोत्सवः । स कदाचिन्महैश्वर्यं श्रुत्वा स्ववनपालकात् ॥ १२ ॥  
जिनं मनोहरोद्याने स्थितं भूतहिताह्वयम् । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीत्य कृतार्चनः ॥ १३ ॥  
वन्दित्वा म्बोचितस्थाने स्थित्वा मुकुलिताञ्जलिः । आकर्ण्य धर्ममुत्पन्नबोधिरेवमचिन्तयत् ॥ १४ ॥  
आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्याविष्कृतासुखम् । विधायानादिकालीनमिथ्यात्वोदयदूषितः ॥ १५ ॥  
उन्मादीव मदीवान्धो वावेशी वाविचारकः । यद्यदात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरँश्चिरम् ॥ १६ ॥  
भ्रमित्वा भवकान्तारे प्रभ्रष्टो निर्वृतेः पथः । इत्यतोऽनुभवाङ्गीत्वा मुक्तिमार्गप्रपित्सया ॥ १७ ॥  
सूनवे धनदाख्याय वित्तीयैश्वर्यमात्मनः । प्राञ्जाजीद् बहुभिः साङ्गं राजभिर्भवभीरुभिः ॥ १८ ॥  
क्रमादेकादशाङ्गाब्धिपारगो भावनापरः । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १९ ॥  
विंशत्यत्यब्ध्युपमात्तायुः साङ्गहस्तत्रयोच्छ्रितः । शुक्लेशयः श्वसन् मासैर्दशभिर्दशभिर्बली ॥ २० ॥  
स्मरन् सहस्रविंशत्या वत्सरानां तनुस्थितिम् । मानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तधूमप्रभावधिः ॥ २१ ॥  
विक्रियाबलतेजोभिः स्वावधिषेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाष्टगुणैश्वर्यः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥  
दीर्घं तत्र सुखं भुक्त्वा तस्मिन्नगामिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥  
इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यां क्षत्रियाग्रिमः । सुग्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्यभाः ॥ २४ ॥  
सा देवैर्वसुधारादिपूजां प्राप्य पराधिकाम् । फाल्गुने मूलनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥  
प्रभाते षोडश स्वप्नान् दरनिद्राविलेक्षणा । विलोक्य तत्फलान्यात्मपतेर्ज्ञात्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥

जानता ही नहीं था ॥ ११ ॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते रहते हैं ऐसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने वनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमें महान् ऐश्वर्यके धारक भूतहित नामके जिनराज स्थित हैं । वह उनकी वन्दनाके लिए बढ़े वैभवसे गया और समस्त जीवोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वह इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १२-१४ ॥ अनादि कालीन मिथ्यात्वके उदयसे दूषित हुआ यह आत्मा, अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागलकी तरह अथवा मतवालेकी तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी हो रहा है । जो जो कार्य आत्माके लिए अहितकारी हैं मोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींका आचरण करता चला आ रहा है । संसाररूपी अटवीमें भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्गसे भ्रष्ट हो गया है । इस प्रकार चिन्तन कर वह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मार्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे धनद नामक पुत्रके लिए अपना ऐश्वर्य प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया ॥ १५-१८ ॥ क्रम-क्रमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, सोलह कारण भावनाओंके चिन्तनमें तत्पर रहने लगा और तीर्थकर नामकर्मका बन्ध कर अन्तमें उसने समाधिमरण धारण किया ॥ १९ ॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ । वहाँ बीस सागरकी उसकी आयु थी, साढ़ेतीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्लेशया थी, दश-दश माहमें श्वास लेता था, बीस हजार वर्ष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धूम्रप्रभा पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, विक्रिया बल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उत्कृष्ट गुणोंसे उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुआ था ॥ २०-२२ ॥ वहाँ-का दीर्घ सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रकी काकन्दी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री सुग्रीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था । सुन्दर कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पट्टरानी थी ॥ २३-२४ ॥ उस रानीने देवोंके द्वारा अतिशय श्रेष्ठ रत्नवृष्टि आदि सम्मानको पाकर फाल्गुनकृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूल-नक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुञ्ज-कुञ्ज बाकी बची हुई निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे ।

मार्गशीर्षे सिते पक्षे जैत्रयोगे तमुत्तमम् । प्राप्तु प्रतिपद्याञ्च तदैत्येन्द्राः सहामरैः ॥ २७ ॥  
 क्षीराभिषेकं भूषान्ते पुष्पदन्ताख्यमब्रुवन् । कुन्दपुष्पप्रभाभासि देहदीप्या विराजितम् ॥ २८ ॥  
 सागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरे गते । एष चन्द्रप्रभस्याभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २९ ॥  
 पूर्वलक्षद्वयात्मायुः शतचापसमुच्छ्रितिः । लक्षार्द्धपूर्वकालेऽस्य कौमारमगमत् सुखम् ॥ ३० ॥  
 अथाप्य पूज्यं साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिर्विभुः । अन्वभूत्सुखमाश्लिष्टमिष्टैः शिष्टैरभिष्टुतः ॥ ३१ ॥  
 कान्ताभिः करणैः सर्वैरमुष्मादपिभ्यत्सुखम् । ताम्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां भुवैः ॥ ३२ ॥  
 पुण्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यर्णनिर्वाणसुखमेनमरीरमन् ॥ ३३ ॥  
 यः स्वर्गसारसौख्याब्धिमग्नः सन् सुवमागतः । तान्येव भोग्यवस्तूनि यानि तं चाभ्यलाषयन् ॥ ३४ ॥  
 अनन्तशोऽहमिन्द्रत्वं प्राप्य तेनाप्यतृप्तवान् । सुखेनानेन चेदेप तृप्तः सौख्येऽपिदं सुखम् ॥ ३५ ॥  
 अष्टाविंशतिपूर्वाङ्गयुतलक्षार्द्धपूर्वके । राज्यकाले गते प्रीत्या कुर्वतो दिग्विलोकनम् ॥ ३६ ॥  
 आपतन्तीं विलोक्योत्कामस्यासीदीदृशी मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहतमोऽपहा ॥ ३७ ॥  
 इति तद्धेतुसम्भूतविमलावगमाल्मकः । स्वयंबुद्धो विबुद्धः सन् तत्त्वमेवं विभावयन् ॥ ३८ ॥  
 स्पष्टमद्य मया दृष्टं विश्रमेतद्विडम्बनम् । कर्मेन्द्रजालिकेनैवं विपर्यस्य प्रदर्शितम् ॥ ३९ ॥

स्वप्न देखकर उसने अपने पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्षित हुई ॥ २५-२६ ॥ मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमें उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय इन्द्रोंने देवोंके साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये और कुन्दके फूलके समान कान्तिसे सुशोभित शरीरकी दीप्तिसे विराजित उन भगवान्का पुष्पदन्त नाम रखवा ॥ २७-२८ ॥ श्री चन्द्रप्रभ भगवान्के बाद जब नब्बै करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका था तब श्री पुष्पदन्त भगवान् हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥ २९ ॥ दो लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, सौ धनुष ऊँचा शरीर था और पचास लाख पूर्व तक उन्होंने कुमार-अवस्थाके सुख प्राप्त किये थे ॥ ३० ॥

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूज्य समझते हैं ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भगवान्ने इष्ट पदार्थोंके संयोगसे युक्त सुखका अनुभव किया । उस समय बड़े-बड़े पूज्य पुरुष उनकी स्तुति किया करते थे ॥ ३१ ॥ सब स्त्रियोंसे, इन्द्रियोंसे और इस राज्यसे जो भगवान् सुविधिनाथको सुख मिलता था और भगवान् सुविधिनाथसे उन स्त्रियोंको जो सुख मिलता था उन दोनोंमें विद्वान् लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें ? ॥ ३२ ॥ भगवान् पुण्यवान् रहें किन्तु मैं उन स्त्रियोंको भी बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ क्योंकि मोक्षका सुख जिनके समीप है ऐसे भगवान्को भी वे प्रसन्न करती थीं—क्रीड़ा कराती थीं ॥ ३३ ॥ वे भगवान् स्वर्गके श्रेष्ठ सुख-रूपी समुद्रमें मग्न रहकर पृथिवी पर आये थे अर्थात् स्वर्गके सुखोंसे उन्हें संतोष नहीं हुआ था इसलिए पृथिवी पर आये थे । इससे कहना पड़ता है कि यथार्थ भोग्य वस्तुएँ वही थीं जो कि भगवान्को अभिलाषा उत्पन्न कराती थीं—अच्छी लगती थीं ॥ ३४ ॥ जो भगवान् अनन्त वार अहमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए वे यदि मनुष्य-लोकके इस सुखसे संतुष्ट हुए तो कहना चाहिए कि सब सुखोंमें यही सुख प्रधान था ॥ ३५ ॥ इस प्रकार प्रेम-पूर्वक राज्य करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और अट्ठाईस पूर्वांक बीत गये तब वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे । उसी समय उल्कापात देखकर उनके मनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं है किन्तु मेरे अनादि-कालीन महामोह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है ॥ ३६-३७ ॥ इस प्रकार उस उल्काके निमित्तसे उन्हें निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे स्वयंबुद्ध भगवान् इस निमित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विड-

कामशोकभयोन्मादस्वप्नचौर्याद्युपद्रुताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो वा व्यवस्थितम् ॥ ४० ॥  
 न स्थास्तु न शुभं किञ्चिन्न सुखं मे न किञ्चन । ममाहमेव मत्तांऽन्यदन्यदेवाखिलं जगत् ॥ ४१ ॥  
 अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम् । तथापि कोऽन्ययं मोहादाग्रहो विग्रहादिषु ॥ ४२ ॥  
 अहं मम शुभं नित्यं सुखमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद् भ्रान्तोऽहं भववारिधौ ॥ ४३ ॥  
 जन्मदुःखजरामृत्युमहामकरभीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मीं स तितिश्चुरभवत्तदा ॥ ४४ ॥  
 क्षिप्त्वा लौकान्तिकावाप्तपूजो राज्यभरं सुते । सुमतौ प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्रैः परिवारितः ॥ ४५ ॥  
 आरुह्य शिविकां सूर्यप्रभाख्यां पुष्पके वने । मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपद्यपराङ्गके ॥ ४६ ॥  
 दीक्षां षष्ठोपवासेन ससहचरुपोऽगृहीत् । मनःपर्ययसंज्ञानो द्वितीयेऽङ्घ्रि प्रविष्टवान् ॥ ४७ ॥  
 वर्यां शैलपुरे पुष्पमित्रश्रामीकरच्छविः । तत्र तं भोजयित्वाऽऽप पञ्चाश्रयाणि पार्थिवः ॥ ४८ ॥  
 एवं तपस्यतो याताः छात्रस्थेन चतुःसमाः । मूलक्षेत्रे कार्तिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४९ ॥  
 दिनद्वयोपवासः सन्नधस्ताभ्रागभूरुहः । दीक्षावने विधूताघः प्राप्तानन्तचतुष्टयः ॥ ५० ॥  
 त्रुविधामराधीशविहितातर्क्यवैभवः । सुनिरूपितविश्वार्थदिव्यध्वनिविराजितः ॥ ५१ ॥  
 विदर्भनाममुल्याष्टाशीतिससिद्धिसंयुतः । शून्यद्वयेन्द्रियैकोक्तश्रतकेवलिनायकः ॥ ५२ ॥  
 खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रियैकशिक्षकरक्षकः । शून्यद्वयाब्धिकर्मोक्तत्रिज्ञानधरसेवितः ॥ ५३ ॥  
 शून्यत्रयमुनिप्रोक्तकेवलज्ञानलोचनः । खत्रयत्र्येकनिर्णीतविक्रियद्विविष्टितः ॥ ५४ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियद्वयर्कमनःपर्ययबोधनः । शून्यद्वयतुंषट्प्रोक्तवादिवन्द्याङ्घ्रिमङ्गलः ॥ ५५ ॥

म्बना रूप है । कर्मरूपी इन्द्रजालिया ही इसे उल्टा कर दिखलाया है ॥ ३८-३९ ॥ काम, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदिसे उपद्रुत हुए प्राणी सामने रखे हुए असत् पदार्थको सत् समझने लगते हैं ॥ ४० ॥ इस संसारमें न तो कोई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली है और न कोई पदार्थ मेरा है, मेरा तो मेरा आत्मा ही है, यह सारा संसार मुझसे जुदा है और मैं इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दोंके द्वारा ही जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है, फिर भी आश्चर्य है कि मोहोदयसे शरीरादि पदार्थोंमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है ॥ ४१-४२ ॥ शरीरादिक ही मैं हूँ, मेरा सब सुख शुभ है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थोंमें जो मेरी पिपर्यय-बुद्धि हो रही है उसीसे मैं अनेक दुःख देनेवाले जरा, मरण और मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ । ऐसा विचार कर वे राज्य-लक्ष्मीको छोड़नेकी इच्छा करने लगे ॥ ४३-४४ ॥ लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की । उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप दिया, इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया ॥ ४५ ॥ वे उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय बेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय-ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहारके लिए शैलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४६-४८ ॥ इस प्रकार छद्मस्थ अवस्थामें तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष वीत गये । तदनन्तर कार्तिक शुक्ल द्वितीयाके दिन सायंकालके समय मूल-नक्षत्रमें दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और उसी दीक्षावनमें घातिया कर्मरूपी पापकर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये ॥ ४९-५० ॥ चतुर्णिकाय देवोंके इन्द्रोंने उनके अचिन्त्य वैभवकी रचना की—समवसरण बनाया और वे समस्त पदार्थोंका निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनिसे सुशोभित हुए ॥ ५१ ॥ वे सात ऋद्धियोंको धारण करनेवाले विदर्भ आदि अष्टासी गणधरोंसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुतकेवलियोंके स्वामी थे; एक लाख पचपन हजार पाँच सौ शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे, सात हजार केवलज्ञानियों और तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानियों और छह हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उनके मङ्गलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंके स्वामी थे, घोषार्याको आदि लेकर तीन लाख




पिण्डितर्षिद्विलक्षेशः खच्चतुष्काष्टवह्निमान् । घोषार्थाद्यार्थिकोपेतो द्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥  
 श्राविकापञ्चलक्षार्च्यः सङ्ख्यातीतमरुद्गणः । तिर्यक्सङ्ख्यातसम्पन्नो गणैरित्येभिरर्चितः ॥ ५७ ॥  
 विहृत्य विषयान् प्राप्य सम्मेदं रुद्धयोगकः । मासे भाद्रपदेऽष्टम्यां शुक्ले मूले पराह्वके ॥ ५८ ॥  
 सहस्रमुनिभिः सार्द्धं मुक्तिं सुविधिरासवान् । निलिम्पाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥

### सुगंधरा

दुर्गं मार्गं परेषां सुगममभिगमात्स्वस्य शुद्धं व्यधाद्यः  
 प्राप्तुं स्वर्गोपवर्गौ सुविधिमुपशमं चेतसा बिभ्रतौ तम् ।  
 भक्तानां मोक्षलक्ष्मीपतिमतिविकसत्पुष्पदन्तं भदन्तं  
 भास्वन्तं दन्तकान्त्या ग्रहस्त्रितवदनं पुष्पदन्तं ननामः ॥ ६० ॥

### वसन्ततिलका

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं  
 सर्वोपकारि तव देव ततो भवन्तम् ।  
 संसारमारवमहास्थलरुद्रसान्द्र-  
 छायामहीरुहमिमे सुविधिं श्रयामः ॥ ६१ ॥  
 योऽजायत क्षितिभृदन्न महादिपद्यः  
 पश्चादभूद्विचि चतुर्दशकल्पनाथः ।  
 प्रान्ते बभूव भरते सुविधिर्नृपेन्द्र-  
 स्तीर्थेश्वरः स नवमः कुरुताच्छिष्यं वः ॥ ६२ ॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा-  
 वसति पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५५ ॥



अस्सी हजार आर्थिकाओंसे सहित थे, दो लाख श्रावकोंसे युक्त थे, पाँच लाख श्राविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तिर्यक्षोंसे सम्पन्न थे । इस तरह बारह सभाओंसे पूजित भगवान् पुष्पदन्त आर्य देशोंमें बिहार कर सम्मेदशिखर पर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रशुक्ल अष्टमीके दिन मूल नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हो गये । देव आये और उनका निर्वाण-कल्याणक कर स्वर्ग चले गये ॥ ५२-५६ ॥

जिन्होंने स्वयं चलकर मोक्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, जिन्होंने चित्तमें उपशम भावको धारण करनेवाले भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी उत्तम विधि बतलाई है, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्वामी हैं, जिनके दाँत खिले हुए पुष्पके समान हैं, जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दाँतोंकी कान्तिसे सुशोभित है ऐसे भगवान् पुष्पदन्तको हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव ! आपका शरीर शान्त है, वचन कानोंको हरनेवाले हैं, चरित्र सबका उपकार करनेवाला है और आप स्वयं संसाररूपी विशाल रेगिस्तानके बीचमें 'सघन-छायादार वृक्षके समान हैं अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं ॥ ६१ ॥

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वर्गमें चौदहवें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर भरतक्षेत्रमें महाराज सुविधि नामक नौवें तीर्थकर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुष्पदन्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६२ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें पुष्पदन्त पुराणका वर्णन करनेवाला पंचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## षट्पञ्चाशत्तमं पर्व

शीतलो यस्य सद्धर्मः कर्मधर्माश्रमीषुभिः<sup>१</sup> । सन्तसानां शशीवासौ शीतलः शीतलोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 पुष्करद्वीपपूर्वाद्धर्मन्दरप्राग्विदेहभाक् । सीतापाक्तवत्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥  
 भूपतिः पद्मगुल्माख्यो दृष्टोपायचतुष्टयः । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीतसन्धिविग्रहतत्त्ववित् ॥ ३ ॥  
 प्रज्ञावारिपरीषेकवृद्धिमद्राज्यभूरुहः । सप्तप्रकृतिशाखाभिः फलत्यस्य फलत्रयम् ॥ ४ ॥  
 प्रतापवाडवालोलज्वालामालापरिस्फुरन् । अन्द्रासिधारावावाङ्घिमग्नारातिमहीधरः ॥ ५ ॥  
 स्वयमुत्पाद्य दैवेन लक्ष्मीं बुद्धयोद्यमेन च । विधाय सर्वसम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥  
 न्यायाजितार्थसन्तर्पितार्थिसार्थे निराकुलम् । पाति तस्मिन् धराचक्रं सर्वतुसुखशालिनि ॥ ७ ॥  
 कोकिलालिकलालापा विलसत्पल्लवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलितोद्गमलोचना ॥ ८ ॥  
<sup>२</sup>वीतनीहारसज्ज्योत्सनाहासा स्वच्छाम्बराम्बरा । सम्पूर्णचन्द्रबिम्बास्या वकुलामोदवासिता ॥ ९ ॥  
 मलयानिलनिःश्रासा कर्णिकारतनुच्छविः । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सङ्गमसमुत्सुका ॥ १० ॥  
 अनङ्गस्तद्वलेनैनं पञ्चवाणोऽपि निष्कुरम् । अविध्यद्बहुवाणो वा को न कालबले बली ॥ ११ ॥

जिनका कहा हुआ समीचीन धर्म, कर्मरूपी सूर्यकी किरणोंसे संतप्त प्राणियोंके लिए चन्द्रमाके समान शीतल है—शान्ति उत्पन्न करनेवाला है वे शीतलनाथ भगवान् हम सबके लिए शीतल हों—शान्ति उत्पन्न करनेवाले हों ॥ १ ॥ पुष्करवर द्वीपके पूर्वार्ध भागमें जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशाके विदेह क्षेत्रमें सीतानदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है । उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था । राजा पद्मगुल्म साम, दान, दण्ड और भेद इन चार उपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, कालविभाग और विनिपातप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णीत संधि और विग्रह—युद्धके रहस्यको जाननेवाला था । उसका राज्यरूपी वृक्ष बुद्धिरूपी जलके सिञ्चनसे खूब वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, अर्थ और कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर फलता रहता था ॥ २-४ ॥ वह प्रतापरूपी बड़वानलकी चञ्चल ज्वालाओंके समूहसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खङ्गकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजा रूप-पर्वतोंको डुबा दिया था ॥ ५ ॥ उस गुणवान् राजाने दैव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपार्जन कर उसे सर्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था । साथ ही वह स्वयं भी उसका उपभोग करता था ॥ ६ ॥ न्यायोपार्जित धनके द्वारा याचकोंके समूहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त ऋतुओंके सुख भोगनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस धराचक्रका—पृथिवीमण्डलका पालन करता था तब उसके समागमकी उत्सुकतासे ही मानो वसन्त ऋतु आ गई थी । कोकिलाओं और भ्रमरोंके मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृक्षोंके लहलहाते हुए पल्लव ही उसके झोठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्त भ्रमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, कुहरासे रहित निर्मल चाँदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकाश ही उसका वस्त्र था, सम्पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मौलिश्रीकी सुगन्धिसे सुवासित मलय समीर ही उसका श्वासोच्छ्वास था और कनेरके फूल ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ ७-१० ॥ कामदेव यद्यपि शरीररहित था और उसके पास सिर्फ पाँच ही वाण थे, तो भी वह राजा पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठुरतासे पीड़ा पहुँचाने लगा जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठीक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं बलवान् हो

१ कृतधर्माश्रमीषुभिः ख० । कर्मधर्माशुभीषुभिः ल० । कर्म एव धर्मोऽस्तुः सूर्यः तस्य अमीषवः किरणाः तैः ।

२ भामिनीहार ख०, ल० ।

१स सुखेऽसुखसन्तश्चीविवशीकृतमानसः । तथा विवृद्धसम्प्रीतिराक्रीडति निरन्तरम् ॥ १२ ॥  
 सापि कालानिलोद्धृता घनाली वा व्यलीयत । तदपायसमुद्भूतशोकव्याकुलिताशयः ॥ १३ ॥  
 कामो नाम खलः कोऽपि तापयत्यखिलं जगत् । पापी सकलचित्तस्थो विग्रही १विग्रहाद्विना ॥ १४ ॥  
 तं ध्यानानलनिर्दग्धमद्यैव विदधाम्यहम् । इत्याविर्भूतवैराग्यश्चन्दने निजनन्दने ॥ १५ ॥  
 राज्यभारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम् । सम्प्राप्य ३सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं स समीयिवान् ॥ १६ ॥  
 विपाकसूत्रपर्यन्तसकलाङ्गधरः शमी । स्वीकृत्य तीर्थकृत्नाम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥  
 सम्प्राप्य ४जीवितस्यान्तं त्रिधाराधनसाधनः । आरणाख्येऽभवत्कल्पे सुरेन्द्रो ५इन्द्रवैभवः ॥ १८ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुः हस्तत्रितयविग्रहः । शुक्ललेख्याद्वयो मासैः सदैकादशभिः श्वसन् ॥ १९ ॥  
 द्वाविंशतिसहस्राब्दैर्मनिसाहारतपितः । श्रीमान् मनःप्रवीचारः ६प्राकाम्याद्यष्टधागुणः ॥ २० ॥  
 प्राक्षष्टनरकाद् व्यासतृतीयज्ञानभास्वरः । तत्प्रमाणबलस्तावत् प्रकाशतनुविक्रियः ॥ २१ ॥  
 वीतबाह्यविकारोऽरुवरसौख्याब्धिपारगः । कलामिव ७किलासङ्ख्यामयमायुरजीगमत् ॥ २२ ॥  
 तस्मिन्मुवं समायाति षण्मासस्थितिजीविते । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे विषये मल याह्वये ॥ २३ ॥  
 राजा भद्रपुरे वंशे पुरोऽर्द्धरथोऽभवत् । महादेवी सुनन्दास्य तद्गृहं धनदाज्ञया ॥ २४ ॥  
 रत्नैरपूरयन् देवाः पण्मासैर्गुह्यकाह्वयाः । सापि स्वभ्रात्रिशाप्राप्ते ८ षोडशालोक्य मानिनी ॥ २५ ॥

जाता है ? ॥ ११ ॥ जिसका मन वसन्त-लक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा प्रीतिको बढ़ाता हुआ उस वसन्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने लगा ॥ १२ ॥ परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ाई हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार कालरूपी वायुसे उड़ाई वह वसन्त-ऋतु कहीं जा छिपी—नष्ट हो गई और उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया ॥ १३ ॥ वह विचार करने लगा कि यह काम बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारको दुःखी करता है, सबके चित्तमें रहता है और विग्रह-शरीर रहित होनेपर भी विग्रही—शरीरसहित ( पक्षमें उपद्रव करनेवाला ) है ॥ १४ ॥ मैं उस कामको आज ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा भस्म करता हूँ । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ । वह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा और समस्त परिग्रह तथा शरीरसे विमुख हो गया ॥ १५-१६ ॥ शान्त परिणामोंको धारण करनेवाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीर्थकर नाम-कर्मका बन्ध किया, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीन आराधनाओंका साधन किया तथा आयुके अन्तमें वह समाधिभरण कर आरण नामक पन्द्रहवें स्वर्गमें विशाल वैभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुआ ॥ १७-१८ ॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्ललेख्याएँ थी, ग्यारह माहमें श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रहता था, लक्ष्मीमान् था, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य आदि आठ गुणोंका धारक था, छठवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले अवधिज्ञानसे देदीप्यमान था, उतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी और बाह्य-विकारोंसे रहित विशाल श्रेष्ठ सुखरूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयुको कालकी कलाके समान—एक क्षणके समान बिता दिया ॥ १९-२२ ॥ जब उस इन्द्रकी आयु छह माहकी बाकी रह गई और वह पृथिवी पर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी मलय नामक देशमें भद्रपुर नगरका स्वामी इन्द्राकुवंशी राजा दृढरथ राज्य करता था । उसकी महारानीका नाम सुनन्दा था । कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रत्नोंके द्वारा सुनन्दाका

१ सन् सुखेऽसु-ग० । सुसुखेऽसु-ल० । २ विग्रहं विना ख० । ३ सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं (सर्वपरिग्रहशरीर-वि-मुखत्वं) क०, टि० । ४ सर्वसंभोगवैमुख्यम् ल० । ५ जीवितस्यान्ते ल० । ६ विशालवैभवः । ७ प्राकाम्याद्यष्ट-धागुणः ल० । प्राकाम्यद्यष्टधागुणैः ख० । ८ कलासंख्य-ल० । ९ निशाप्रान्ते ल० ।

प्रविशन्तं गजं चास्ये भूपतेस्तत्फलान्यवैत्<sup>१</sup> । तदाग्राषाढनक्षत्रे कृष्णाष्टम्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥  
 चैत्रे स देवः स्वर्गाग्रात् गुणैः सद्बृत्ततादिभिः । भावी शुक्तिपुटे तस्या वारिन्दुर्वोदरेऽभवत् ॥ २७ ॥  
 आविकल्याणसत्यज्ञां प्रीत्यैत्य विदधुः सुराः । द्वादश्यामसिते भावे विश्वयोगेऽजनि क्रमात् ॥ २८ ॥  
 तदैवागत्य तं नीत्वा<sup>२</sup> महामेहं महोत्सवाः । देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्ति स्म शीतलम् ॥ २९ ॥  
 नवकोट्यभिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपमचतुर्भागे व्युच्छिन्ने धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥  
 तदभ्यन्तरवर्त्यासुरत्पन्नः कनकच्छविः । खपञ्चकैर्पूर्वायुर्धनुर्नवतिविग्रहः ॥ ३१ ॥  
 गते स्वायुश्चतुर्भागे कौमारे स्वपितुः पदम् । प्राप्य प्रधानसिद्धिं च पालयामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥  
 गत्यादिशुभनामानि सद्ब्रह्मं गोत्रमुत्तमम् । आयुस्तीर्थकरोपेतमपवर्तविवर्जितम् ॥ ३३ ॥  
 सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोत्कृष्टानुभवोदयात् । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ३४ ॥  
 स्वायुश्चतुर्थभागावशेषे द्वासितसत्सृतिम्<sup>३</sup> । प्रत्याख्यानकषायोदयावसाने प्रतिष्ठितम् ॥ ३५ ॥  
 तं कदाचिद्विहारार्थं वनं यातं महौजसम् । हिमानीपटलं सद्यः प्रच्छाद्य<sup>४</sup> विलयं गतः ॥ ३६ ॥  
 स तद्धेतुसमुद्भूतबोधिरिस्थमचिन्तयत् । क्षणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम् ॥ ३७ ॥  
 दुःखदुःखिनिमित्ताख्यत्रितयं निश्चितं मया । सुखादित्रयविज्ञानमेतन्मोहानुबन्धजात् ॥ ३८ ॥  
 अहं किल सुखी सौख्यमेतन् किल पुनः सुखम् । पुण्यात्किल महामोहः काललब्ध्या विनाभवत् ॥ ३९ ॥

घर भर दिया । मानवती सुनन्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय चैत्रकृष्ण अष्टमीके दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रमें सद्बृत्तता—सदाचार आदि गुणोंसे उपलक्षित वह देव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके उदरमें उस प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार कि सद्बृत्तता—गोलाई आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी वृद्ध शुक्तिके उदरमें अवतीर्ण होती है ॥ २२-२७ ॥ देवोंने आकर बड़े प्रेमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की । क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर माघकृष्ण द्वादशिके दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुआ ॥ २८ ॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव लोग आकर उस बालकको सुमेरु पर्वत पर ले गये । वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रक्खा ॥ २९ ॥ भगवान् पुष्पदन्तके मोक्ष चले जानेके बाद नौ करोड़ सागरका अन्तर वीत जानेपर भगवान् शीतलनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके पहले पल्यके चौथाई भाग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था । भगवान्के शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, आयु एक लाख पूर्वकी थी और शरीर नब्बे धनुष ऊँचा था ॥ ३०-३१ ॥ जब आयुके चतुर्थ-भागके प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया ॥ ३२ ॥ गति आदि शुभ नामकर्म, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र और अपघात मरणसे रहित तथा तीर्थकर नामकर्मसे सहित आयु-कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ॥ ३३-३४ ॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेष रह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानावरण कषायका अन्त हो गया । महातेजस्वी भगवान् शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए वनमें गये । वहाँ उन्होंने देखा कि पालेका समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थोंको ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है ॥ ३५-३६ ॥ इस प्रकरणसे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण भरमें बदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्वर है ॥ ३७ ॥ आज मैंने दुःख, दुःखी और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया । मोहके अनुबन्धसे मैं इन तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रहा ॥ ३८ ॥ 'मैं सुखी हूँ, यह सुख है और यह सुख पुण्योदयसे फिर भी मुझे मिलेगा' यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके बिना हो रहा

१ न्यवैत् (?) ल० । २ महामेह ल० । ३ संसृतिः ल० । ४ प्रलयं ल० ।

कर्म स्यात्किं न वा पुण्यं कर्म चेत्कर्मणा कुतः । सुखं रतिविकाराभिलाषदोषवतोऽङ्गिनः ॥ ४० ॥  
 विषयैरेव चेत्सौख्यं तेषां पर्यन्तगोऽस्यहम् । ततः कुतो न मे वृत्तिः मिथ्यावैषयिकं सुखम् ॥ ४१ ॥  
 औदासीन्यं सुखं तच्च सति मोहे कुतस्ततः । मोहारिरेव निर्मूलं विलयं प्रापये द्रुतम् ॥ ४२ ॥  
 इत्याकलयन् १याथात्म्यं हेयपक्षे निवेशितम् । दृष्ट्वा पुत्राय साम्राज्यं मोहिनामादरावहम् ॥ ४३ ॥  
 लब्धलौकान्तिकस्तोत्रः प्रासक्तकालपूजनः । शुक्रप्रभां समारुह्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥  
 पूर्वापादे माघमासे कृष्णद्वादश्याहःक्षये । उपवासद्वयी<sup>२</sup> राजसहस्रेणैत्य संयमम् ॥ ४५ ॥  
 चतुर्ज्ञानो द्वितीयेऽङ्घ्रि स चर्यार्थं प्रविष्टवान् । अरिष्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनर्वसुः ॥ ४६ ॥  
 नाम्ना नरपतिर्दत्त्वा परमार्थं प्रमोदवान् । वितीर्णममरैस्तुष्टैः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४७ ॥  
 छाद्यस्थेन समास्तिस्रो नीत्वा बिल्वद्रुमाश्रयः । पौषकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वापादेऽपराह्णगे ॥ ४८ ॥  
 दिनद्वयोपवासेन कैवल्यं कनकद्युतिः । प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामकुर्वत ॥ ४९ ॥  
 अनगाराख्यमुख्यैकाकीतिसप्तद्विसत्तमः । शून्यद्वययुगैकोक्तपूज्यपूर्वधरान्वितः ॥ ५० ॥  
 शून्यद्वयद्विरन्ध्रेन्द्रियोक्तशिक्षकलक्षितः । शून्यद्वयद्विससाङ्गज्ञानत्रयविलोचनः ॥ ५१ ॥  
 शून्यत्रितयसप्तोक्तपञ्चमावगमान्वितः । शून्यत्रितयपक्षैकविक्रियद्वियतीडितः ॥ ५२ ॥  
 खद्विकेन्द्रियसप्तोक्तमनःपर्ययसंयतः । शून्यद्वयद्विपञ्चोक्तवादिमुख्याञ्चितक्रमः ॥ ५३ ॥  
 एकीकृतयतिव्रात<sup>३</sup> लक्षासमुपलक्षितः । खचतुष्काष्टवह्युकध<sup>४</sup>रणाधार्यिकान्वितः ॥ ५४ ॥  
 उपासकद्विलक्षाभ्यो द्विगुणश्राविकानुतः । असङ्ख्यदेवदेवीढ्यस्तिर्यक्संख्यातसेवितः ॥ ५५ ॥

है ॥ ३६ ॥ कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवको सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्वेष तथा अभिलाषा आदि अनेक दोषोंसे युक्त है ॥ ४० ॥ यदि विषयोंसे ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विषयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थात् मुझे सबसे अधिक सुख प्राप्त हैं फिर मुझे संतोष क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता है कि विषय-सम्बन्धी सुख मिथ्या सुख है ॥ ४१ ॥ उदासीनता ही सच्चा सुख है और वह उदासीनता मोहके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शत्रुको ही शीघ्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता हूँ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके योग्य और मोही जीवोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया ॥ ४३ ॥ उसी समय आये हुए लौकान्तिक देवोंने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान् शीतलनाथ शुक्रप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें पहुँचे ॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने माघकृष्ण द्वादशीके दिन सार्यकालके समय पूर्वापादा नक्षत्रमें दो उपवासका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण किया ॥ ४५ ॥ चार ज्ञानके धारी भगवान् दूसरे दिन चर्यके लिए अरिष्ट नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ नवधा भक्ति करनेवाले पुनर्वसु राजाने बड़े हर्षके साथ उन्हें खीरका आहार देकर संतुष्ट देवोंके द्वारा प्रदत्त पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४६-४७ ॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके तीन वर्ष बिताकर वे एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर बिराजमान हुए । जिससे पौषकृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्वापादा नक्षत्रमें सार्यकालके समय सुवर्णके समान कान्तिवाले उन भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोंने आकर उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ॥ ४८-४९ ॥ उनकी सभामें सप्त ऋद्धियोंको धारण करनेवाले अनगरा आदि इक्यासी गणधर थे । चौदह सौ पूर्वधारी थे, उनसठ हजार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनि उनकी पूजा करते थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब मुनियोंकी संख्या एक लाख थी, धरणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ उनके साथ थीं,

१ याथात्म्यहेय ल० । २ उपवासद्वयो ल०, ल० । ३ लब्धः समुप-ख० । लब्धसमुप-ल० ।

४ धारणाद्या ल० ।

विहृत्य विविधान् देशान् भव्यमिथ्यादृशो बहून् । सम्यक्त्वादिगुणस्थानान्यापयन्<sup>१</sup> धर्मदेशनात् ॥ ५६ ॥  
सम्मेदशैलमासाद्य मासमात्रोऽजितक्रियः । प्रतिमायोगमासाद्य सहस्रमुनिसंवृतः ॥ ५७ ॥  
धवलाश्वयुजाष्टम्यां पूर्वाषाढेऽपराह्लगः । नाशिताशेषकर्मारिः सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ५८ ॥  
कृत्वा पञ्चमकल्याणं देवेन्द्रा द्योतिताखिलाः । स्वदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतलं संसृता दिवम् ॥ ५९ ॥

### शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्

यस्योत्पादमनुप्रसादमगमच्चन्द्रोदयाद्वा जगत्  
बन्धूनां व्यकसन्मुखानि निखिलान्यब्जानि वोष्णद्युतेः ।  
अर्थान् प्राप्य समीप्सितान् बहुमुदा सन्नर्थवन्तोऽर्थिनः  
तं वन्दे त्रिदशाचितं रतिवृषानिःशेषिणं शीतलम् ॥ ६० ॥  
दिङ्मातङ्गकपोलमूलगलितैर्दानैस्ततामोदनै-  
र्दृष्ट्वाद्धेन्दुनिभोज्ज्वलोत्तिलकिकास्तद्वत्पर्यङ्कके<sup>२</sup> ॥  
दिङ्कन्याः कलकण्ठिकाश्च रचितैर्गार्थान्ति वर्णाक्षरै-  
र्यस्याल्युद्धतमोहवीरविजयं तं शीतलं संस्तुवे ॥ ६१ ॥

### रथोद्धतावृत्तम्

पद्मगुल्ममखिलैः स्तुतं गुणैरारणेन्द्रममराचितं ततः ।  
तीर्थकृत्सुदशमं दयामयं शीतलं नमत सर्वशीतलम् ॥ ६२ ॥

### अनुष्टुप्

शातलेशस्य तीर्थान्ते सद्धर्मो नाशमेयिवान् । वक्तुश्रोतुचरिष्णूनामभावाक्कालदोषतः ॥ ६३ ॥

दो लाख श्रावक और तीन लाख श्राविकाएँ उनकी अर्चा तथा स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-  
देवियों उनका स्तवन करती थीं और संख्यात तिर्यञ्च उनकी सेवा करती थीं ॥ ५०-५५ ॥ असंख्यात  
देशोंमें विहार कर धर्मोपदेशके द्वारा बहुतसे भव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंको सम्यक्त्व आदि गुणस्थान  
प्राप्त कराते हुए वे सम्मेदशिखर पर पहुँचे । वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने प्रतिमा  
योग धारण किया और एक हजार मुनियोंके साथ आश्विन शुक्ला अष्टमीके दिन सायंकालके समय  
पूर्वाषाढा नक्षत्रमें समस्त कर्म-शत्रुओंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५६-५८ ॥ अपने शरीरकी  
कान्तिसे सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्रकी  
स्तुति कर स्वर्गको चले गये ॥ ५९ ॥

जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदयसे  
होता है । समस्त भाई-बन्धुओंके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यसे कमल  
विकसित हो जाते हैं और याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े हर्षसे कृतकृत्य हो गये उन देव  
पूजित, रति तथा वृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ—स्तुति करता हूँ  
॥ ६० ॥ दिग्गजोंके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सबको सुगन्धित एवं हर्षित करनेवाले मद-जलसे  
जिन्होंने ललाट पर अर्धचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं ऐसी दिङ्कन्याएँ स्वरचित  
पद्योंके द्वारा जिनकी अत्यन्त उद्दण्ड मोहरूपी शूर-वीरको जीत लेनेके गीत गाती हैं उन शीतल  
जिनेन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ६१ ॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा  
हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित आरण स्वर्गके इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीर्थकर हुए उन दयालु  
तथा सबको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको हे भव्य जीवो ! नमस्कार करो ॥ ६२ ॥

अथानन्तर—श्री शीतलनाथ भगवान्के तीर्थके अन्तिम भागमें काल-दोषसे वक्ता, श्रोता और  
आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्मका नाश हो गया ॥ ६३ ॥

तदा मलयदेशेशो निबसन् भद्रिले पुरे । राजा मेघरथस्तस्य सचिवः सत्यकीर्तिवाक्<sup>१</sup> ॥ ६४ ॥  
 स कदाचित्सभागोहे सिंहासनमधिष्ठितः । आपृच्छत् सभासीनान् धर्मार्थं द्रव्यदित्सया ॥ ६५ ॥  
 दानेषु कतमद्दानं दत्तं बहुफलं भवेत् । इत्यतो मतिवाक्सारः सचिवो दानतत्त्ववित् ॥ ६६ ॥  
 शास्त्राभयान्नदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूर्वपूर्वबहूपात्तफलानीमानि धीमताम् ॥ ६७ ॥  
 पूर्वापरविरोधादित्दूरं हिंसाद्यपासनम् । प्रमाणद्वयसंपादि<sup>२</sup> शास्त्रं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ६८ ॥  
 भूयः संसारभीरूणां सतामनुजिघृक्षया । व्याख्यानं तस्य शास्त्रस्य शास्त्रदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥  
 सुमुक्षोर्हृष्टतत्त्वस्य बन्धहेतुजिहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तद्दानमभयाह्वयम् ॥ ७० ॥  
 हिंसादिदोषदूरेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाह्यसाधनम् । प्रादुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसर्जनम् ॥ ७१ ॥  
 आभ्यामाद्यन्तदानाभ्यामुभयोः कर्मनिर्जरा । पुण्यास्त्रवश्च शेषेण दातुस्तदुभयं भवेत् ॥ ७२ ॥  
 न ज्ञानात्सन्ति दानानि विना ज्ञानं न शास्त्रतः । <sup>३</sup>हेयोदेयादितच्चावभासनं परमं हि तत् ॥ ७३ ॥  
 तद्गयाख्यातं श्रुतं सम्यक् भावितं शुद्धबुद्धये । <sup>४</sup>तयोर्हेयं परित्यज्य हितमादाय सत्रताः ॥ ७४ ॥  
 मुक्तिमार्गं समाश्रित्य <sup>५</sup>क्रमाच्छान्तेन्द्रियाशयाः । शुद्धध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥  
 तस्माद् दानेषु तच्छ्रेष्ठं प्रदातुर्गुह्यतामपि । निरवद्यं निजानन्दनिर्वाणपदसाधनम् ॥ ७६ ॥  
 अत्यादाप्यल्पसावद्यादभयाख्यमभिष्टुतम् । त्रिभिरेभिर्महादानैः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ७७ ॥

उस समय भद्रिलपुरमें मलय देशका स्वामी राजा मेघरथ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीर्ति था ॥ ६४ ॥ किसी एक दिन राजा मेघरथ सभा-भवनमें सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने धर्मके लिए धन दान करनेकी इच्छासे सभामें बैठे हुए लोगोंसे कहा ॥ ६५ ॥ कि सब दानोंमें ऐसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फल होता हो ? इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा ॥ ६६ ॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शास्त्रदान, अभयदान और अन्नदान ये तीन प्रकारके दान कहे हैं । ये दान बुद्धिमानोंके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले हैं अर्थात् अन्नदानकी अपेक्षा अभयदानका और अभयदानकी अपेक्षा शास्त्रदानका बहुत फल है ॥ ६७ ॥ जो सर्वज्ञ-देवका कहा हुआ हो, पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित हो, हिंसादि पापोंको दूर करनेवाला हो और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते हैं ॥ ६८ ॥ संसारफे दुःखोंसे दरे हुए सत्पुरुषोंका उपकार करनेकी इच्छासे पूर्वोक्त शास्त्रका व्याख्यान करना शास्त्रदान कहलाता है ॥ ६९ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाला मुनि कर्मबन्धके कारणोंको छोड़नेकी इच्छासे जो प्राणिपीडाका त्याग करता है उसे अभयदान कहते हैं ॥ ७० ॥ हिंसादि दोषोंसे दूर रहनेवाले ज्ञानी साधुओंके लिए शरीरादि बाह्य साधनोंकी रक्षाके अर्थ जो शुद्ध आहार दिया जाता है उसे आहारदान कहते हैं ॥ ७१ ॥ इन आदि और अन्तके दानोंसे देने तथा लेनेवाले दोनोंको ही कर्मोंकी निर्जरा एवं पुण्य कर्मका आस्त्रव होता है और अभयदानसे सिर्फ देनेवालेके ही उक्त दोनों फल होते हैं ॥ ७२ ॥ इस संसारमें ज्ञानसे बढ़कर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शास्त्रके बिना नहीं हो सकता । वास्तवमें शास्त्र ही हेय और उपादेय तत्त्वोंको प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है ॥ ७३ ॥ शास्त्रका अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिन्तन करना शुद्ध बुद्धिका कारण है । शुद्ध बुद्धिके होने पर ही भव्य जीव हेय पदार्थको छोड़कर और हितकारी पदार्थको ग्रहण कर व्रती बनते हैं, मोक्षमार्गका अवलम्बन लेकर क्रम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमें शुद्ध-ध्यानका अवलम्बन लेकर अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इसलिए सब दानोंमें शास्त्रदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्यसे रहित है तथा देने और लेनेवाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप मोक्ष-प्राप्तिका कारण है ॥ ७६ ॥ अन्तिम आहारदानमें थोड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना-पड़ता है इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है । यह जीव इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त

१ कीर्तिभाक् ख० । २ संवादि ल० । ३ हेयोपेयादि ल० । ४ तदा हेयं ख०, ग० । ५ क्रमात् शान्तेन्द्रियाशयाः क०, घ० ।

इति प्राहैवमुक्तेऽपि राज्ञा तन्नावमन्यता । कपोतलेश्यामाहात्म्यादन्यदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥  
 तत्रैव नगरे भूतिशर्माख्यो ब्राह्मणोऽभवत् । प्रणीतदुश्रुतीः राज्ञोऽरञ्जयत्स्वमनीषया ॥ ७९ ॥  
 तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्वशास्त्रविद् । मुण्डशालायनो जातस्तत्रासीनोऽश्रवीदसौ ॥ ८० ॥  
 मुनीनां दुर्विधानां च दानत्रयमिदं मतम् । १महेच्छानां महीशानां दानमस्त्यन्यदुत्तमम् ॥ ८१ ॥  
 भूसुवर्णादिभूयिष्ठमाचन्द्रार्कयशस्करम् । शापानुग्रहशालिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छत ॥ ८२ ॥  
 आर्षमत्र श्रुतं चास्ति दानस्यास्योपदेशकम् । इत्यानीय गृहात्स्वोक्तं तत्पुस्तकमवाचयत् ॥ ८३ ॥  
 इत्थं तेनेङ्गितज्ञेन लब्ध्वाचसरमुत्पथम् । मुण्डशालायनेनोक्तं राजा तद्ब्रह्ममन्यत ॥ ८४ ॥  
 पापामीरोरभद्रस्य विषयान्धस्य दुर्मतेः । रञ्जितः स महीपालः परलोकमहाशया ॥ ८५ ॥  
 कदाचित्कार्तिके मासे पौर्णमास्यां शुचीभवन् । मुण्डशालायनं भक्त्या पूजयित्वाश्रतादिभिः ॥ ८६ ॥  
 भूसुवर्णादितत्प्रोक्तदानान्यदित दुर्मतेः । तं दृष्ट्वा भक्तिमान् भूपममात्यः २प्रत्युवाच तम् ॥ ८७ ॥  
 अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं जिनैर्मतम् । स्वपरोपकृतिं प्राहुरत्र तज्ज्ञा अनुग्रहम् ॥ ८८ ॥  
 ३स्वोपकारोऽयसंबृद्धिः परस्य गुणवर्द्धनम् । स्वशब्दो धनपर्यायवाची पात्रेऽतिसर्जनम् ॥ ८९ ॥  
 स्वस्य दानं प्रशंसन्ति तज्जानन्नपि किं वृथ । कुपात्रेऽर्थं विसृष्ट्वैवं त्रयाणां विहतिः कृता ॥ ९० ॥  
 सुबीजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्तं किं तदूपरे । फलं भवति सङ्क्लेश-बीजनाश-फलाद्रिना ॥ ९१ ॥

होता है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार कहे जानेपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह कपोतलेश्याके माहात्म्यसे इन तीन दानोंके सिवाय और ही कुछ दान देना चाहता था ॥ ७८ ॥

उसी नगरमें एक भूतिशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था । वह अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे-खोटे शास्त्र बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ॥ ७९ ॥ उसके मरने पर उसका मुण्डशालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला हुआ । वह उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था अतः मंत्रीके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥ ८० ॥ कि ये तीन दान मुनियोंके लिए अथवा दरिद्र मनुष्योंके लिए हैं । बड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए तो दूसरे ही उत्तम दान हैं ॥ ८१ ॥ शाप तथा अनुग्रह करनेकी शक्तिसे सुशोभित ब्राह्मणोंके लिए, जब तक चन्द्र अथवा सूर्य हैं तब तक यशका करनेवाला पृथिवी तथा सुवर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए ॥ ८२ ॥ इस दानका समर्थन करनेवाला ऋषिप्रणीत शास्त्र भी विद्यमान है, ऐसा कहकर वह अपने घरसे अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और सभामें उसे बचवा दिया ॥ ८३ ॥ इस प्रकार अभिप्रायको जाननेवाले मुण्डशालायनने अचरित पाकर कुमार्गका उपदेश दिया और राजाने उसे बहुत माना—उसका सत्कार किया ॥ ८४ ॥ देखो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, विषयान्ध था और दुर्बुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो गया—प्रसन्न हो गया ॥ ८५ ॥ किसी समय कार्तिक मासकी पौर्णमासीके दिन उस दुर्बुद्धि राजाने शुद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्रव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे हुए भूमि तथा सुवर्णादिके दान दिये । यह देख भक्त मंत्रीने राजासे कहा ॥ ८६-८७ ॥ अनुग्रहके लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है और इस विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको ही अनुग्रह कहते हैं ॥ ८८ ॥ पुण्य कर्मकी वृद्धि होना यह अपना उपकार है—अनुग्रह है और परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार है । स्व शब्द धनका पर्यायवाची है । धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है । यही दान प्रशंसनीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर आप दाता, दान और पात्र तीनोंको क्यों नष्ट कर रहे हैं ॥ ८९-९० ॥ उत्तम बीज कितना ही अधिक क्यों न हो, यदि ऊसर जमीनमें डाला जावेगा तो उससे संकलेश और बीज नाश-रूप फलके सिवाय और क्या होगा ?



सुबीजमल्पमप्युसं सुक्षेत्रे कालवेदिना । तत्सहस्रगुणीभूतं वापकस्य फलं भवेत् ॥ ९२ ॥  
इति भक्तेन तेनोक्तमुदाहरणकोटिभिः । धीमता तन्महीभर्तुरुपकाराय नाभवत् ॥ ९३ ॥  
कालदष्टस्य वा मन्त्रो भैषज्यं वा गतायुषः । आजन्मान्धस्य वादर्शो विपरीतस्य सद्बचः ॥ ९४ ॥  
विहायादिक्रमायातं दानमार्गं कुमार्गगः । मूर्खप्रलपितं दानमारातीयमवीवृतत् ॥ ९५ ॥


### शार्दूलनिक्रीडितम्

कन्याहस्तिसुवर्णवाजिकपिलादासीतिलस्यन्दन-  
क्षमागेहप्रतिबद्धमन्न दशधा दानं दरिद्रेप्सितम् ।

तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्रकार स्वयं


लुब्धो वस्तुषु भूतिशर्मतनयोऽसौ मुण्डशालायनः ॥ ९६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलपुराणं नाम  
परिसमाप्तं षट्पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥



कुछ भी नहीं ॥ ९१ ॥ इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले मनुष्यके द्वारा उत्तम क्षेत्रमें बोया जाता है तो बोनेवालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान् एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाको समझाया परन्तु उससे राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥ ९३ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि विपरीत बुद्धिवाले मनुष्यके लिए सत्-पुरुषोंके वचन ऐसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मंत्र, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए औषधि, और जन्मके अन्धेके लिए दर्पण ॥ ९४ ॥ उस कुमार्गगामी राजाने प्रारम्भसे ही चले आये दानके मार्गको छोड़कर मूर्ख मुण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक दानके मार्गको प्रचलित किया ॥ ९५ ॥ इस प्रकार लौकिक वस्तुओंके लोभी, भूतिशर्मके पुत्र मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रके तीर्थके अन्तिम समयमें दरिद्रोंको अच्छा लगनेवाला—कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्णदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान और गृहदान यह दश प्रकारका दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया—चलाया ॥ ९६ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें शीतलपुराणका वर्णन करनेवाला छप्पनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## सप्तपञ्चाशत्तमं पर्व

१श्रेयः श्रेयेषु<sup>२</sup> नास्त्यन्यः ३श्रेयसः श्रेयसे बुधैः। इति ४श्रेयोऽर्थिभिः श्रेयः श्रेयांसः श्रेयसेऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 पुष्करार्द्धेन्द्रदिग्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके । सीतानद्युत्तरे देशे नृपः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥  
 नलिनप्रभनामाभूष्मिताशेषविद्विपः । प्रजानुरागसम्पादिताचिन्त्यमहिमाश्रयः ॥ ३ ॥  
 पृथक्त्रिभेदनिर्णातिशक्तिसिद्धयुदयोदितः । शमव्यायामसम्प्राप्तक्षेमयोगोऽयमैधत ॥ ४ ॥  
 भूशृत्वमर्थवत्तस्मिन्सन्मागं वतिनि । अर्थकामौ च धर्म्यौ यत्तत् स धर्ममयोऽभवत् ॥ ५ ॥  
 एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः । लोकपालोपमो दीर्घं पालयन्त्रिलामिलाम् ॥ ६ ॥  
 १सहस्राभ्रवणेऽनन्तजिनं तद्वनपालकात् । अवतीर्णं विदित्वात्मपरिवारपरिष्कृतः ॥ ७ ॥  
 गत्वाऽभ्यर्च्य चिरं स्तुत्वा नत्वा स्वोचितदेशभाक् । श्रुत्वा धर्मं समुत्पन्नतत्त्वबुद्धिरिति स्मरन् ॥ ८ ॥  
 कस्मिन् केन कथं कस्मात् कस्य किं श्रेय इत्यदः । अजानता मया भ्रान्तं श्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ ९ ॥  
 आहितो बहुषा मोहान्मन्यैवैष परिग्रहः । तत्त्यागाद्यदि निर्वाणं कस्मात्कालविलम्बनम् ॥ १० ॥  
 इति नाम्ना सुपुत्राय १पुत्राय गुणशालिने । दत्त्वा राज्यं समं भूयैर्बहुभिः संयमं ययौ ॥ ११ ॥  
 शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ तीर्थं कृत्वा मधाम सन् । संन्यस्याजनि कल्पेऽन्ते सुराधीशोऽच्युताह्वयः ॥ १२ ॥

जो आश्रय लेने योग्य हैं उनमें श्रेयान्सनाथको छोड़कर कल्याणके लिए विद्वानोंके द्वारा और दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है—इस तरह कल्याणके अभिलाषी मनुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान् श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥ १ ॥ पुष्करार्ध द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रके सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटपर क्षेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला तथा प्रजाके अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नलिनप्रभ नामका राजा राज्य करता था ॥ २-३ ॥ पृथक्-पृथक् तीन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है ऐसी शक्तियों, सिद्धियों और उदयोसे जो अभ्युदयको प्राप्त है तथा शान्ति और परिश्रमसे जिसे क्षेम और योग प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था ॥ ४ ॥ वह राजा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था और स्नेह पूर्ण पृथिवीको मर्यादामें स्थित कर उसका भूशृत्पना सार्थक था ॥ ५ ॥ समीचीन मार्गमें चलनेवाले उस श्रेष्ठ राजामें धर्म तो धर्म ही था, किन्तु अर्थ तथा काम भी धर्म-युक्त थे। अतः वह धर्ममय ही था ॥ ६ ॥ इस प्रकार स्वकृत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सुखकी खान स्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त पृथिवीका दीर्घकाल तक पालन करता रहा ॥ ७ ॥ एक दिन वनपालसे उसे मालूम हुआ कि सहस्राभ्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीर्ण हुए हैं तो वह अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर सहस्राभ्रवणमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्रदेवकी पूजा की, चिरकाल तक स्तुति की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इस प्रकार चिन्तन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किस प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जान कर मैंने खेद-खिन्न होते हुए अनन्त जन्मोंमें भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रकारका परिग्रह इकट्ठा कर रक्खा है वह मोह वश ही किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तब समय बितानेसे क्या लाभ है ? ॥ ८-११ ॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत-से राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२ ॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीर्थकर नाम-

१ श्रेययोगीयः । २ श्रेयेषु आश्रयणीषु । ३ श्रेयसः एकादशतीर्थकरात् । ४ कल्याणार्थिभिः ।

५ सहस्राभ्रवने ख० । ६ सुपुत्राय सुपुत्रगुणशालिने ख०, ग०, ल० ।

पुष्पोत्तरविमानेऽसौ द्वाविंशत्यब्धिजीवितः । हस्तत्रयप्रमाणाङ्गः प्रोक्तेऽश्यादिभिर्युतः ॥ १४ ॥  
 देवीभिर्दिव्यभावाभिः कमनीयाभिरन्वहम् । भवसाराणि सौख्यानि तत्र प्रीत्यान्वभूच्चिरम् ॥ १५ ॥  
 कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः । संसारसौख्यपर्यन्तसन्तोषात्समतीयिवान् ॥ १६ ॥  
 अनुभूय सुखं तस्मिन् तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥  
 इक्ष्वाकुवंशविख्यातो विष्णुनामास्य वल्लभा । नन्दा षण्माससम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ १८ ॥  
 ज्येष्ठे मास्यसिते षष्ठ्यां श्रवणे रात्रिनिर्गमे । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रात्स्वभ्रानैक्षिष्ट षोडश ॥ १९ ॥  
 तत्फलान्यवबुध्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम् । तदैवायातदेवेन्द्रविहितोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥  
 नवमासान् यथोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि कृष्णैकादश्यां त्रिज्ञानधारिणम् ॥ २१ ॥  
 विष्णुयोगे महाभागमसूताच्युतनायकम् । मेघावलीव सद्बृष्टिविशेषं विश्वतुष्टये ॥ २२ ॥  
 तदुद्भवे प्रसन्नानि मनांसि सकलाङ्गिनाम् । जलस्थलानि वा<sup>१</sup> सद्यः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥  
 अर्थिनो धनसन्तृप्त्या धनिनो दीनतर्पणैः<sup>२</sup> । ते च ते चेष्टसम्भोगात्सोद्धवाः<sup>३</sup> स्युस्तदुद्भवे ॥ २४ ॥  
 तदा सर्वतवस्तत्र स्वैः स्वैर्भावैर्मनोहरैः । प्रादुर्बभूवुः सम्भूय सर्वाङ्गिसुखहेतवः ॥ २५ ॥  
 सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो वीतशोकताम् । धर्मिष्ठतां च पापिष्ठाश्चरमीशसमुद्भवे ॥ २६ ॥  
 जनस्य चैदं तोपस्तदानीमतिमात्रया । पित्रोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥

कर्मका बन्ध किया और आयुके श्रन्तमें समाधिभरण कर सोलहवें अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमान-  
 में अच्युत नामका इन्द्र हुआ । वहाँ बाईस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर  
 था, और ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदिसे सहित था ॥ १३-१४ ॥ दिव्य भावों-  
 को धारण करनेवाली सुन्दर देवियोंके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखोंका बड़ी  
 प्रीतिसे उपभोग किया ॥ १५ ॥ कल्पातीत—सोलहवें स्वर्गके आगेके अहमिन्द्र विराग हैं—राग  
 रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखवाले हैं इसलिए संसारके सबसे अधिक सुखोंसे संतुष्ट होकर  
 वह अपनी आयु व्यतीत करता था ॥ १६ ॥ वहाँके सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत  
 हुआ तब इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी इक्ष्वाकु वंशसे प्रसिद्ध विष्णु नामका  
 राजा राज्य करता था ॥ १७ ॥ उसकी वल्लभाका नाम सुनन्दा था । सुनन्दाने गर्भधारणके छह माह पूर्वसे  
 ही रत्नवृष्टि आदि कई तरहकी पूजा प्राप्त की थी ॥ १८ ॥ ज्येष्ठकृष्ण षष्ठीके दिन श्रवण नक्षत्रमें प्रातःकालके  
 समय उसने सोलह स्वप्न तथा अपने सुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥ १९ ॥ पतिसे उनका  
 फल जानकर वह बहुत ही हर्षको प्राप्त हुई । उसी समय इन्द्रोंने आकर गर्भकल्याणकका महोत्सव  
 किया ॥ २० ॥ उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली सुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिता कर  
 फाल्गुनकृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्यु-  
 तेन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम वृष्टिको  
 उत्पन्न करती है ॥ २१-२२ ॥ जिस प्रकार शरद-ऋतुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही  
 प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सब जीवोंके मन प्रसन्न हो गये थे—  
 हर्षसे भर गये थे ॥ २३ ॥ भगवान्का जन्म होनेपर याचक लोग धन पाकर हर्षित हुए थे, धनी  
 लोग दीन मनुष्योंको संतुष्ट करनेसे हर्षित हुए थे और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे ॥ २४ ॥  
 उस समय सब जीवोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोंसे प्रकट  
 हुई थीं ॥ २५ ॥ बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवान्का जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो  
 गये थे, शोकवाले शोकरहित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे ॥ २६ ॥ जब उस  
 समय साधारण मनुष्योंको इतना संतोष हो रहा था तब माता-पिताके संतोषका प्रमाण कौन

१ 'वा स्याद्विकल्पोपममोरिवार्थेऽपि समुच्चये' इति कोशः । २ दीनतर्पणात् ग० । ३ सोद्धवाः सहर्षाः  
 "क्षुण उद्धव उत्सवः" ।

सद्यश्चतुर्विधा देवाः कृत्वा तेजोमयं जगत् । स्वाङ्गाभरणभामारैरापतन्ति स्म सर्वतः ॥ २८ ॥  
 नेदुर्दुन्दुभयो ह्यद्याः पेटुः कुसुमवृष्टयः । नेदुरामरनर्तक्यो जगुः स्वाहुः १द्युगायकाः ॥ २९ ॥  
 लोकोऽयं देवलोको वा तत्श्चात्यद्भुतोदयः । अपूर्वः कोऽप्र्यभूद्वेति तदासन् २द्युसदां गिरः ॥ ३० ॥  
 ३पितरौ तस्य सौधर्मः स्वयं सद्भूषणादिभिः । शची देवीं च सन्तोष्य माययाऽऽदाय बालकम् ॥ ३१ ॥  
 ऐरावतगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया । सहलीलः स सम्प्राप्य महामेरुं महौजसम् ॥ ३२ ॥  
 पञ्चमावारपारात्क्षीरवारिघटोत्करैः । अभिषिच्य विभूष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥  
 ततः पुरं समानीय मातुरङ्गे निधाय तम् । सुराधीशः सुरैः सार्द्धं ४प्रमुद्यार ५ सुरालये ॥ ३४ ॥  
 गुणैः सार्द्धंभवद्भक्तं तदास्यावयवाः शुभाः । क्रमात्कान्तिं प्रपुष्यन्तो बालचन्द्रस्य वाञ्छुभिः ॥ ३५ ॥  
 स खत्रयर्तुपक्षर्तुपद्भस्वरशताब्धिभिः । ऊनसागरकोट्यन्ते पल्याङ्गं धर्मसन्ततौ ॥ ३६ ॥  
 व्युच्छिन्नायां तदभ्यन्तरायुः श्रेयःसमुद्भवः । पञ्चद्वययुगाष्टाब्दजीवितः कनकप्रभः ॥ ३७ ॥  
 चापाशीतिसमुत्सेधो बलोजस्तेजसां निधिः । एकविंशतिलक्षाब्दकौमार ६सुखसागरः ॥ ३८ ॥  
 प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं सर्वलोकनमस्कृतः । तर्पयन् चन्द्रवत्सर्वान् दर्पितान् भानुवरापन् ॥ ३९ ॥  
 तेजोमहामणिर्वाङ्मिर्गांभीर्यं मलयोद्भवः । शैल्यं धर्मं इव श्रेयः सुखं स्वस्याकरोच्चिरम् ॥ ४० ॥  
 प्राग्जन्मसुकृतायेन ७ कृतायां सर्वसम्पदि । बुद्धिपौरुषयोर्व्यासिस्तस्याभूद्धर्मकामयोः ॥ ४१ ॥ ८

बता सकता है ? ॥ २७ ॥ शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके समूहसे समस्त संसारको तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥ २८ ॥ मनोहर दुन्दुभियों बजने लगीं, पुष्प-वर्षाएँ होने लगीं, देव-नर्तकियाँ नृत्य करने लगीं और स्वर्गके गवैया मधुर गान गाने लगे ॥ २९ ॥ 'यह लोक देव लोक है अथवा उससे भी अधिक वैभवको धारण करनेवाला कोई दूसरा ही लोक है' इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे ॥ ३० ॥ सौधर्मेन्द्रने स्वयं उत्तम आभूषणादिसे भगवान्के माता-पिताको संतुष्ट किया और इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर जिन-बालकको उठा लिया ॥ ३१ ॥ सौधर्मेन्द्र जिन-बालकको ऐरावत हाथीके कंधे पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूर्वक महा-तेजस्वी महामेरु पर्वत पर पहुँचा ॥ ३२ ॥ वहाँ उसने पञ्चम क्षीरसमुद्रसे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोंके समूहसे भगवान्का अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये और बड़े हर्षके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रक्खा ॥ ३३ ॥ इन्द्र मेरु पर्वतसे लौटकर नगरमें आया और जिन-बालकको माताकी गोदमें रख, देवोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग चला गया ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमाके अवयव बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार गुणोंके साथ-साथ उस समय भगवान्के शरीरावयव बढ़ते रहते थे ॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवान्के मोक्ष जानेके बाद जब सौ सागर और छयासठ लाख छब्बीस हजार वर्ष कम एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पल्य तक धर्मकी परम्परा टूटी रही तब भगवान् श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी कुल आयु चौरासी लाख वर्षकी थी । शरीर सुवर्णके समान कान्तिवाला था, ऊँचाई अस्ती धनुष की थी, तथा स्वयं बल, ओज और तेजके भंडार थे । जब उनकी कुमारावस्थाके इक्कीस लाख वर्ष बीत चुके तब सुखके सागर स्वरूप भगवान्ने देवोंके द्वारा पूजनीय राज्य प्राप्त किया । उस समय सब लोग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संतुष्ट करते थे और अहंकारी मनुष्योंको सूर्यके समान संतापित करते थे ॥ ३६-३६ ॥ उन भगवान्ने महामणिके समान अपने आपको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल बनाया था और धर्मके समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप बनाया था ॥ ४० ॥ पूर्व जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य-कर्मसे उन्हें सर्व प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि और पौरुषकी व्याप्ति

१ स्वर्गायकाः । द्युनायकाः ख० । द्युगायनाः ल० । २ दिवि सीदन्तीति द्युसदः तेषाम् देवानाम् ।  
 ३ माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ, एकशेषः । ४ प्रसक्तो भूत्वा । ५ आर जगाम । ६ कौमारे सु-ल० ।  
 ७ पूर्वजन्मसुविहितपुण्यकर्मणा ।

तथा शुभविनोदेषु देवैः पुण्यानुबन्धिषु । सम्पादितेषु कान्ताभिर्दिनान्यारमतोऽगमन् ॥ ४२ ॥  
 एवं पञ्चलपक्षाब्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकालेऽयमन्येद्युर्वसन्तपरिवर्तनम् ॥ ४३ ॥  
 विलोक्य किल कालेन सर्वं ग्रासीकृतं जगत् । सोऽपि कालो न्ययं याति क्षणादिपरिवर्तनैः ॥ ४४ ॥  
 कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेतद्विनश्वरम् । शाश्वतं न पदं यावत् प्राप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५ ॥  
 इति स चिन्तयन् लब्धस्तुतिः सारस्वतादिभिः । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥  
 प्राप्य निष्क्रमणज्ञानमारुह्य विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाह्यां त्यक्ताहारो दिनद्वयम् ॥ ४७ ॥  
 मनोहरमहोद्याने फाल्गुनैकादशीदिने । कृष्णपक्षे सहस्रेण पूर्वाह्णे भूभुजां समम् ॥ ४८ ॥  
 श्रवणे संयमं प्राप्य चतुर्थावगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगरं भुक्त्वेऽविशत् ॥ ४९ ॥  
 तस्मै हेमद्युतिर्नन्दभूपतिर्भक्तिपूर्वकम् । दत्त्वाऽन्नं प्राप्य सत्पुण्यं पञ्चाश्रयार्थाग्रयज्यधीः ॥ ५० ॥  
 द्विसंवत्सरमानेन छात्रस्थये गतवत्यसौ । मुनिर्मनोहरोद्याने तुम्बुरद्रुमसंश्रयः ॥ ५१ ॥  
 दिनद्वयोपवासेन भावे मास्यपराङ्मगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुदपादयत् ॥ ५२ ॥  
 तदा चतुर्थकल्याणपूजां देवाश्रतुर्विधाः । तस्य निर्वर्तयामासुर्विधिधृष्टिसमन्विताः ॥ ५३ ॥  
 सप्तसप्ततिकुन्धादिगणभृद्वृन्दवेष्टितः । शून्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः ॥ ५४ ॥  
 खट्वर्यद्वयष्टवाधुर्युक्शिक्षकोत्तमपूजितः । शून्यत्रितयपट्टप्रोक्ततृतीयज्ञानमानितः ॥ ५५ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियतृक्पञ्चमज्ञानभास्करः । शून्यत्रिकैकैकाख्येयविक्रियद्विविभूपितः ॥ ५६ ॥

सिर्फ धर्म और काममें ही रहती थी । भावार्थ—उन्हें अर्थकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी ॥ ४१ ॥  
 देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी शुभ विनोदोंमें स्त्रियोंके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार बयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया । तदनन्तर किसी दिन वसन्त ऋतुका परिवर्तन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस कालने इस समस्त संसारको प्रस्त कर रक्खा है वह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस पदार्थमें स्थिरता रह सकती है ? यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जब तक शाश्वत पद—अविनाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ? ॥ ४३—४५ ॥ भगवान् ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की । उन्होंने श्रेयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला महाभिषेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठाई जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामक महान् उद्यानकी ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय श्रवण नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हें चौथा मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रवेश किया ॥ ४६—४८ ॥ वहाँ उनके लिए सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्द राजाने भक्ति-पूर्वक आहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५० ॥ इस प्रकार छद्मस्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर तुम्बुर वृक्षके नीचे बैठे और वहाँ पर उन्हें माघकृष्ण अमावस्याके दिन श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१—५२ ॥ उसी समय अनेक ऋद्धियोंसे सहित चार निकायके देवोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ५३ ॥

भगवान् कुन्धुनाथ, कुन्धु आदि सतहत्तर गणधरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहसौ पूर्वधारियोंसे सहित थे, अड़तालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियोंके द्वारा पूजित थे, छह हजार अवधिज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छह हजार पाँचसौ केवलज्ञानी रूपी सूर्योंसे सहित थे, ग्यारह हजार विक्रया-ऋद्धि के धारकोंसे सुरोमित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियोंसे युक्त थे, और पाँच हजार मुख्य वादियोंसे सेवित थे । इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी हजार मुनियोंसे सहित थे । इनके सिवाय

षट्सहस्रप्रमाप्रोक्तमनःपर्ययवीक्षणः । शून्यत्रितयपञ्चोक्तवादिमुख्यसमाश्रितः ॥ ५७ ॥  
 शून्यत्रययुगाप्तोक्तपिण्डिताखिललक्षितः । खचतुष्टयपक्षैकधारणाद्यार्थिकार्चितः ॥ ५८ ॥  
 द्विलक्षोपासकोपेतो द्विगुणश्राविकार्चितः । पूर्वोक्तदेवतिर्यक्तो विहरन् धर्ममादिशन् ॥ ५९ ॥  
 सम्मेदगिरिमासाद्य<sup>१</sup> निष्क्रियो मासमास्थितः । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥  
 पौर्णमास्यां धनिष्ठ्यां दिनान्ते श्रावणे सताम् । असङ्ख्यातगुणश्रेण्या निर्जरां व्यदधन् मुहुः ॥ ६१ ॥  
 विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान् सुनिवृतः ॥ ६२ ॥  
<sup>२</sup> विफलानिमिपत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैव त्रिदिवं ययुः ॥ ६३ ॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

निर्धूय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त-  
 मान्ध्र्यं चराचरमशेषमवेक्षमाणम् ।  
 ज्ञानं प्रतीपविरहाश्लिजरूपसंस्थं  
 श्रेयान् जिनः स दिशतादशिवच्युतिं वः ॥ ६४ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

सत्यं सार्वदयामयं तव वचः सर्वं सुहृद्भयो हितं  
 चारित्र्यं च विभोस्तदेतदुभयं ब्रूते विशुद्धिं पराम् ।  
 तस्माद्देव समाश्रयन्ति विबुधास्त्वामेव शक्रादयो  
 भक्त्येति स्तुतिगोचरो स विदुषां श्रेयान् स वः श्रेयसे ॥ ६५ ॥  
 राजाभूञ्जलिनप्रभः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्रभः  
 कल्पान्ते सकलामराधिपपतिः सङ्कल्पसौख्याकरः ।

एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्थिकाएँ उनकी पूजा करनी थीं, दो लाख श्रावक और चार लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहे अनुसार असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यञ्च सब उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते और धर्मका उपदेश देते हुए वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया। श्रावणशुक्ला पौर्णमासीके दिन सार्यकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मोंकी असंख्यातगुणश्रेणी निर्जरा की और अ इ उ ऋ लृ इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगता है उतने समयमें अन्तिम दो शुक्लध्यानोंसे समस्त कर्मोंको नष्ट कर पञ्चमी गतिमें स्थित हो वे भगवान् श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये ॥ ५४-६२ ॥ इसके विना हमारा टिमकाररहित-पना व्यर्थ है ऐसा विचार कर देवोंने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक किया और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये ॥ ६३ ॥

जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वको देख लिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपमें स्थित रहा था ऐसे श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें ॥ ६४ ॥ हे प्रभो! आपके वचन सत्य, सबका हित करने-वाले तथा दयामय हैं। इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र्य सुहृत् जनोंके लिए हितकारी है। हे भगवन्! आपकी ये दोनों वस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिको प्रकट करती हैं। हे देव! इसीलिए इन्द्र आदि देव भक्ति-पूर्वक आपका ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार विद्वान् लोग जिनकी स्तुति किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान् तुम सबके कल्याणके लिए हों ॥ ६५ ॥ जो पहले पापकी प्रभाको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले

यस्तीर्थाधिपतिस्त्रिलोकमहितः श्रीमान् श्रियै श्रायसं

स्याद्वादं प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत् श्रेयान् जिनः सोऽस्तु वः ॥ ६६ ॥

<sup>१</sup>जिनसेनानुगायास्मै पुराणकवये नमः । गुणभद्रभदन्ताय लोकसेनाधिंताङ्घ्रये ॥ ६७ ॥

तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान्भूदाद्यः समुद्यमी । भरतश्चक्रिणां वासौ त्रिखण्डपरिपालिनाम् ॥ ६८ ॥

आतृतीयभवात्तस्य चरितं प्रणिगद्यते । उदितास्तगभूपानामुदाहरणमित्यदः ॥ ६९ ॥

द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषयो मगधाह्वयः । पुरं राजगृहं तस्मिन् पुरन्दरपुरोत्तमम् ॥ ७० ॥

स्वर्गादेत्यात्र भूष्णानां राज्ञां यद्गृहमेव तत् । भोगोपभोगसम्पत्त्या नाम तस्यार्थवत्ततः ॥ ७१ ॥

विश्वभूतिः पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनशीलत्वाद्विश्वनन्दीति विश्रुतः ॥ ७२ ॥

विश्वभूतेविशाखादिभूतिर्जातोऽनुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्यास्य नन्दान्तविशाखस्तनयोऽनयोः ॥ ७३ ॥

विश्वभूतिस्तपः प्रायात् कृत्वा राज्ये निजानुजम् । प्रजाः प्रपालयत्प्रस्मिन्प्रणताखिलभूपतौ ॥ ७४ ॥

नानावीरुल्लतावृक्षैर्विराजन्वनन्दनं वनम् । यद्विश्वनन्दिनस्तत्र प्राणेभ्योऽपि प्रियं परम् ॥ ७५ ॥

विशाखभूतिपुत्रेण निर्भर्त्स्य वनपालकान् । स्वीकृतं तद्वलात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयोः ॥ ७६ ॥

संभ्रामासहनाचत्र दृष्ट्वा तस्य पलायनम् । विश्वनन्दी विरक्तः सन्न चिन्मोहमिति चिन्तयन् ॥ ७७ ॥

त्यक्त्वा सर्वं समागत्य सम्भूतगुरुसन्निधौ । पितृव्यमग्रणीकृत्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥ ७८ ॥

स शीलगुणसम्पन्नः कुर्वन्ननशनं तपः । विहरन्नोक्तदा भोक्तुं प्राविशन् मथुरापुरम् ॥ ७९ ॥

सुखीकी खान स्वरूप, समस्त देवोंके अधिपति—अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिलोकपूजित तीर्थंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान् श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी लक्ष्मीके लिए हों—तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६६ ॥

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं—शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके चरण-कमल पूजित हुए हैं और जो इस पुराणके बनानेवाले कवि हैं ऐसे भदन्त गुणभद्राचार्यको नमस्कार हो ॥ ६७ ॥ ]

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीर्थमें तीन खण्डको पालन करनेवाले नारायणोंमें उद्यमी प्रथम नारायण हुआ ॥ ६८ ॥ उसीका चरित्र तीसरे भवसे लेकर कहता हूँ । यह उद्यय तथा अस्त होनेवाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण है ॥ ६९ ॥ इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी से भी उत्तम है ॥ ७० ॥ स्वर्गसे आकर उत्पन्न होनेवाले राजाओंका यह घर है इसलिए भोगोपभोगकी सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम सार्थक है ॥ ७१ ॥ किसी समय विश्वभूति राजा उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था । इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि सबके लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था ॥ ७२ ॥ विश्वभूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी स्त्रीका नाम लक्ष्मणा था और उन दोनोंके विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥ ७३ ॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राज्य सौंपकर तपके लिए चला गया और समस्त राजाओंको नम्र बनाता हुआ विशाखभूति प्रजाका पालन करने लगा ॥ ७४ ॥ उसी राजगृह नगरमें नाना गुल्मों, लताओं और वृक्षोंसे सुशोभित एक नन्दन नामका बाग था जो कि विश्वनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था ॥ ७५ ॥ विशाखभूतिके पुत्रने वनवालोंको डॉट कर जबर्दस्ती वह वन ले लिया जिससे उन दोनों—विश्वनन्दी और विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ ॥ ७६ ॥ विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ । यह देखकर विश्वनन्दीको वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह विचार करने लगा कि इस मोहको धिक्कार है ॥ ७७ ॥ वह सबको छोड़कर सम्भूत गुरुके समीप आया और काका विशाखभूतिको अग्रगामी बनाकर अर्थात् उसे साथ लेकर दीक्षित हो गया ॥ ७८ ॥ वह शील तथा गुणोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा

स बालवत्सया धेन्वा क्रुधा प्रतिहतोऽपतत् । दौष्याभिर्वासितो देशान् भ्राम्यंस्तत्रागतो विधीः ॥ ८० ॥  
 विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा वेश्यासौघतले स्थितः । व्यहसद्विक्रमस्तेऽद्य क्व यातः स इति क्रुधा ॥ ८१ ॥  
 सशल्यः सोऽपि तच्छ्रुत्वा सनिदानोऽसुसङ्क्षये । महाशुक्रेऽभवद्देवो यत्रासीदनुजः पितुः ॥ ८२ ॥  
 १ षोडशाब्ध्यायुषा दिव्यभोगान् देव्यप्सरंगणैः । ईप्सिताननुभूयासौ ततः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे<sup>२</sup> सुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिर्महाराजः पोदनाख्येऽभवत्पतिः ॥ ८४ ॥  
 प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि मृगावती । तस्यां सुखमवीक्षान्ते त्रिपृष्ठाख्यः सुतोऽभवत् ॥ ८५ ॥  
 पितृव्योऽपि च्युतस्तस्मात्तोको<sup>३</sup>ऽभूतन्महीपतेः । जयावत्यां ४पुरे चैत्य विक्रमी विजयाह्वयः ॥ ८६ ॥  
 भ्रमन् विशाखनन्दी च चिरं संसारचक्रके । विजयाद्द्वोत्तरश्रेण्यामलकाख्यपुरंशिनः ॥ ८७ ॥  
 मयूरग्रीवसंज्ञस्य स्वपुण्यपरिपाकतः । ह्यग्रीवाह्वयः सूनुर्जायत जितारिराट् ॥ ८८ ॥  
 अशीतिचापदेहैः तावादिमौ रामकेशवौ । पञ्चशून्ययुगाद्याब्दनिर्भङ्गपरमायुषौ ॥ ८९ ॥  
 शङ्खेन्द्रनीलसङ्काशौ हत्वाऽश्वग्रीवमुद्धतम् । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूतां पती क्षितेः ॥ ९० ॥  
 द्विगुणाष्टसहस्राणां मुकुटाङ्गमहीशुजाम् । खगव्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ॥ ९१ ॥  
 त्रिपृष्ठस्य धनुःशङ्खचक्रदण्डासिश्चक्रयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्पुरैः ॥ ९२ ॥  
 रामस्यापि गदा रत्नमाला ५समुशलं हलम् । श्रद्धानज्ञानचारित्रतपांसीवाभवत्स्थित्ये ॥ ९३ ॥  
 देव्यः स्वयम्भ्रभासुख्या ६मुकुटेशप्रमा बभुः । केशवस्य तदर्द्धास्ता रामस्यापि मनःप्रियाः ॥ ९४ ॥

विहार करता हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥ ७६ ॥ वहाँ एक छोटे बल्लुङ्गेवाली गायने क्रोधसे धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ा । दुष्टताके कारण राज्यसे बाहर निकाला हुआ मूर्ख विशाखनन्दी अनेक देशोंमें घूमता हुआ उसी मथुरानगरीमें आकर रहने लगा था । वह उस समय एक वेश्याके मकानकी छतपर बैठा था । वहाँसे उसने विश्वनन्दीको गिरा हुआ देखकर क्रोधसे उसकी हँसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज कहाँ गया ? ॥ ८०-८१ ॥ विश्वनन्दीको कुछ शल्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी सुनकर निदान किया । तथा प्राणक्षय होनेपर महाशुक स्वर्गमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥ ८२ ॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी । समस्त आयु भर देवियों और अप्सराओंके समूहके साथ मनचाहे भोग भोगकर वहाँसे च्युत हुआ और इस पृथिवी तल पर जम्बूद्वीप समन्धी भरत क्षेत्रके सुरम्य देशमें पोदनपुर नगरके राजा प्रजापतिकी प्राणप्रिया मृगावती नामकी महादेवीके शुभ स्वप्न देखनेके बाद त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥ ८३-८५ ॥ काकाका जीव भी वहाँसे—महाशुक स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दूसरी पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुआ ॥ ८६ ॥ और विशाखनन्दी चिरकाल तक संसार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी मयूरग्रीव राजाके अपने पुण्योदयसे शत्रु राजाओंको जीतनेवाला अश्वग्रीव नामका पुत्र हुआ ॥ ८७-८८ ॥ इधर विजय और त्रिपृष्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुष ऊँचा था और चौरासी लाख वर्षकी उनकी आयु थी ॥ ८९ ॥ विजयका शरीर शंखके समान सफेद था और त्रिपृष्ठका शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था । वे दोनों उदण्ड अश्वग्रीवको मारकर तीन खण्डोंसे शोभित पृथिवीके अधिपति हुए थे ॥ ९० ॥ वे दोनों ही सोलह हजार मुकुट-बद्ध राजाओं, विद्याधरों एवं व्यन्तर देवोंके अधिपत्यको प्राप्त हुए थे ॥ ९१ ॥ त्रिपृष्ठके धनुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति और गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोंसे सुरक्षित थे ॥ ९२ ॥ बलभद्रके भी गदा, रत्नमाला, मुसल और हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपके समान लक्ष्मीको बढ़ानेवाले थे ॥ ९३ ॥ त्रिपृष्ठकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं और बलभद्रके

१ एष पाठः क०-ख०-ग०-घ०-प्रतिसंमतः, षोडशाब्धिसमायुर्दिव्यभोगानप्सरोगणैः ख० । २ वर्षे ल० ।  
 ३ पुत्रः । 'पुत्रः सूनुर्पत्यं च तुक्लोकौ चात्मजः सुतः ।' इति कोशः । ४ परैवैत्य ल० । ५ समुशलं ग० ।  
 ६ मुकुटबद्धराजप्रमाणाः षोडशसहस्रप्रमिता इति यावत् ।



स संरम्य चिरं ताभिर्बह्वारम्भपरिग्रहः । सप्तमीं पृथिवीं प्राप केशवश्चाश्वकन्धरः ॥ ९५ ॥  
सीरपाणिश्च तद्दुःखात्तदैवादाय संयमम् । सुवर्णकुम्भयोगीन्द्रादभूदशुभकेवली ॥ ९६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्


कृत्वा राज्यममू सहैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं तादृशं  
पृथ्वीमूलमगात्किलाखिलमहादुःखालयं केशवः ।  
रामो धाम परं सुखस्य जगतां मूर्धानमध्यास्त धिक्  
दुष्टं कः सुखभाग्विलोमगविधिं यावन्न हन्यादमुम् ॥ ९७ ॥

### उपजातिच्छन्दः

प्राग्विश्वनन्दीति विशामधीशस्ततो महाशुक्रमधिष्ठितोऽमरः ।  
पुनस्त्रिपृष्ठो भरतार्द्धचक्री चिताघकः सप्तमभूमिमाश्रयत् ॥ ९८ ॥

### वंशस्थवृत्तम्

विशाखभूतिर्धरणीपतिर्यमी मरुन्महाशुक्रगतस्ततश्च्युतः ।  
हलाशुभ्रोऽसौ विजयाह्वयः क्षयं भवं स नीत्वा परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥  
विशाखनन्दी विह्वतप्रतापो<sup>१</sup> व्यसुः परिभ्रम्य भवे चिरं ततः ।  
खगाधिनाथो ह्यकन्धराह्वयो रिपुस्त्रिपृष्ठस्य ययावधोगतिम् ॥ १०० ॥  
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तीर्थकरत्रिपृष्ठ-  
विजयाश्वप्रीवपुराणं परिसमाप्तं सप्तपञ्चाशत्तमं पर्वं ॥ ५७ ॥



चित्तको प्रिय लगनेवाली आठ हजार स्त्रियाँ थीं ॥ ९४ ॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहको धारण करनेवाला त्रिपृष्ठ नारायण उन स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक रमण कर सातवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ—सप्तम नरक गया । इसी प्रकार अश्वप्रीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥ ९५ ॥ बलभद्रने भाईके दुःखसे दुःखी होकर उसी समय सुवर्णकुम्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया और क्रम-क्रमसे अनगारकेवली हुआ ॥ ९६ ॥ देखो, त्रिपृष्ठ और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, और चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण—त्रिपृष्ठ समस्त दुःखोंके महान् गृह स्वरूप सातवें नरकमें पहुँचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अग्रभाग पर जाकर अधिष्ठित हुआ इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुष्ट कर्मको धिक्कार हो । जब तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर दिया जावे तब तक इस संसारमें सुखका भागी कौन हो सकता है ? ॥ ९७ ॥ त्रिपृष्ठ, पहले तो विश्वनन्दी नामका राजा हुआ फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर त्रिपृष्ठ नामका अर्धचक्री—नारायण हुआ और फिर पापोंका संचय कर सातवें नरक गया ॥ ९८ ॥ बलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा था फिर मुनि होकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे चयकर विजय नामका बलभद्र हुआ और फिर संसारको नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ ९९ ॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा, फिर अश्वप्रीव नामका विद्याधर हुआ जो कि त्रिपृष्ठ नारायणका शत्रु होकर अधोगति—नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥ १०० ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें श्रेयांसनाथ तीर्थकर त्रिपृष्ठनारायण, विजय बलभद्र और अश्वप्रीव प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ



१ अत्र छन्दोभङ्गः, 'विह्वतप्रतापकः' इति पाठो भवेत् ।

## अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व

<sup>१</sup>वासोरिन्द्रस्य पूज्योऽयं वसुपूज्यस्य वा सुतः । वासुपूज्यः सतां पूज्यः स ज्ञानेन पुनातु नः ॥ १ ॥  
 पुष्कराङ्गेन्द्रदिग्मेरुसीतापाग्वत्सकावती-<sup>२</sup>विषये ख्यातरत्नादिपुरे पद्मोत्तरः पतिः ॥ २ ॥  
 कीर्तिर्गुणमयी वाचि मूर्तिः पुण्यमयीक्षणे । वृत्तिर्धर्ममयी चित्ते सर्वेषामस्य भूभुजः ॥ ३ ॥  
 साम वाचि दया चित्ते धाम देहे नयो मतौ । धनं दाने जिने भक्तिः प्रतापस्तस्य शत्रुषु ॥ ४ ॥  
 पाति तस्मिन् भुवं भूपे न्यायमार्गानुवर्तिनि । वृद्धिमेव प्रजाः प्राप्सुर्मुनौ समितयो यथा ॥ ५ ॥  
<sup>३</sup>गुणास्तस्य धनं लक्ष्मीस्तदीयापि<sup>४</sup> गुणप्रिया । तथा सह ततो दीर्घं निर्द्वन्द्वं मुखमाप्नुवन् ॥ ६ ॥  
 स कदाचित् समासीनं मनोहरगिरौ जिनम् । युगन्धराङ्ग्यं स्तोत्रैरुपास्य खलु भक्तिमान् ॥ ७ ॥  
 श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्ममनुप्रेक्षानुचिन्तनात् । जातत्रिभेदनिर्वेगः<sup>५</sup> पुनश्चेत्यप्यचिन्तयत् ॥ ८ ॥  
 श्रियो माया सुखं दुःखं<sup>६</sup> विश्रसावधि जीवितम् । संयोगो विप्रयोगान्तः कायोऽयं<sup>७</sup> सामयः खलुः ॥ ९ ॥  
 कात्र प्रीतिरहं जन्मपद्मावर्तान्महाभयात् । निर्गच्छाम्यवलम्ब्यैतां काललब्धिमुपस्थिताम् ॥ १० ॥  
 ततो राज्यभरं पुत्रे धनमित्रे निथोज्य सः । महीशैर्बहुभिः सार्द्धमदीक्षिष्टात्मशुद्धये ॥ ११ ॥  
 अर्धात्यैकादशाङ्गानि श्रद्धानाद्याससम्पदा । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते संन्यस्य शुद्धधीः ॥ १२ ॥

जो वासु अर्थात् इन्द्रके पूज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं ऐसे वासुपूज्य भगवान् अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ॥ १ ॥ पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व मेरुकी और सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्सकावती नामका एक देश है । उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था ॥ २ ॥ उस राजाकी गुणमयी कीर्ति सबके वचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, और धर्ममयी वृत्ति सबके चित्तोंमें रहती थी ॥ ३ ॥ उसके वचनोंमें शान्ति थी, चित्तोंमें दया थी, शरीरमें तेज था, बुद्धिमें नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवान्में भक्ति थी और शत्रुओंमें प्रताप था अर्थात् अपने प्रतापसे शत्रुओंको नष्ट करता था ॥ ४ ॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले मुनिमें समितियाँ बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले उस राजाके पृथिवीका पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी ॥ ५ ॥ उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्ष्मी भी गुणोंसे प्रेम करनेवाली थी इसलिए वह उस लक्ष्मीके साथ बिना किसी प्रतिबन्धके विशाल सुख प्राप्त करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी एक दिन मनोहर नामके पर्वत पर युगन्धर जिनराज विराजमान थे । पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना की ॥ ७ ॥ विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन किया । अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे उसे संसार, शरीर, और भोगोंसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया । वैराग्य होने पर वह इस प्रकार पुनः चिन्तन करने लगा ॥ ८ ॥ कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुःखरूप है, जीवन मरण पर्यन्त है, संयोग-वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है ॥ ९ ॥ अतः इन सबमें क्या प्रेम करना है ? अब तो मैं उपस्थित हुई इस काललब्धिका अवलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक इस संसार रूपी पञ्च परावर्तनोंसे बाहर निकलता हूँ ॥ १० ॥ ऐसा विचार कर उसने राज्यका भार धनमित्र नामक पुत्रके लिए सौंपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली ॥ ११ ॥ निर्मल बुद्धिके धारक पद्मोत्तर मुनिने ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, दर्शनविशुद्धि

<sup>१</sup> वासुना इन्द्रेण पूज्यः, वासुपूज्यः, अथवा वसुपूज्यस्य अपत्यं वासुपूज्यः । <sup>२</sup> विषयख्यात ख० । <sup>३</sup> गुणस्तस्य ग०, ल० । <sup>४</sup> तद्वायापि ल० ( ? ) । <sup>५</sup> निर्वेदः ल० । <sup>६</sup> मरणावधि । <sup>७</sup> सामयः सयोगः ।

महाशुक्रविमानेऽभून्महाशुक्रोऽमराधिपः । षोडशाब्धिप्रमाणायुश्चतुर्हस्तशरीरभाक् ॥ १३ ॥  
 पद्मलेख्यः श्वसन्मासैरष्टभिस्तुष्टमानसः । षोडशाब्दसहस्रान्ते मानसाहारमाहरन् ॥ १४ ॥  
 सदा शब्दप्रवीचारश्चतुर्थक्षमागतावधिः । प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियाबलतेजसाम् ॥ १५ ॥  
 तत्रामरीकलालापगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कालपर्यायैस्तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते चम्पानगरेऽङ्गनराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपः ख्यातो वसुपूज्योऽस्य भामिनी ॥ १७ ॥  
 प्रिया जयावती प्राप्तवसुधारादिमानना । आषाढकृष्णपक्ष्यन्ते चतुर्विंशत्क्षलक्षिते ॥ १८ ॥  
 इष्ट्वा स्वमान् फलं तेषां पत्युर्जात्वाऽतितोषिणी । अष्टौ मासान् क्रमाञ्चीत्वा प्राप्तफाल्गुनमासिका ॥ १९ ॥  
 कृष्णायां १ वारुणे योगे चतुर्दश्यां सुरोरमम् । सर्वप्राणिहितं पुत्रं सुखेनेयमजीजनत् ॥ २० ॥  
 सुराः सौधर्ममुख्यास्तं सुराद्रौ क्षीरसागरात् । घटैरानीय पानीयं स्नपयित्वा प्रसाधनम् ॥ २१ ॥  
 विधाय वासुपूज्यं च नामादाय पुनर्गृहम् । नीत्वा वासान् स्वकीयांस्ते जग्मुर्जातमहोत्सवाः ॥ २२ ॥  
 श्रेयस्तीर्यान्तरे पञ्चाशच्चतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यत्रिभगोऽस्मिन् व्युच्छित्तौ १ धर्मसन्ततेः ॥ २३ ॥  
 तदभ्यन्तरवर्त्यायुः सोऽभवच्चापससतिः । पञ्चशून्यद्विसप्तसप्तदजीवितः कुङ्कुमच्छविः ॥ २४ ॥  
 हृष्टाष्टादशधान्यानां बीजानां वृद्धिकारणम् । ३ भेकलेह्यमिव क्षेत्रं गुणानामेव भूपतिः ॥ २५ ॥  
 धियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फलदायिनः । समां वृष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २६ ॥

आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थकर नामकर्मका बन्ध क्रिया और अन्तमें संन्यास धारण किया ॥ १२ ॥ जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र नामका इन्द्र हुआ । सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी और चार हाथ ऊँचा शरीर था ॥ १३ ॥ पद्मलेख्या थी, आठ माहमें एक बार श्वास लेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था और सोलह हजार वर्ष बीतने पर एक बार मानसिक आहार लेता था ॥ १४ ॥ सदा शब्दसे ही प्रवीचार करता था अर्थात् देवाङ्गनाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसकी कामवाधा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुर्थ पृथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल और तेजकी अवधि थी ॥ १५ ॥ वहाँ देवियोंके मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था । अन्तमें काल द्रव्यकी पर्यायोंसे प्रेरित होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ॥ १६ ॥

तब इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें वसुपूज्य नामका अङ्गदेशका राजा रहता था । वह इक्ष्वाकुवंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसकी प्रिय स्त्रीका नाम जयावती था, जयावतीने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था । तदनन्तर उसने आषाढकृष्ण षष्ठीके दिन चौबीसवें शतभिषा नक्षत्रमें सोलह स्वप्न देखे और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोष प्राप्त किया । क्रम-क्रमसे आठ माह बीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन वारुण योगमें सब प्राणियोंका हित करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे उत्पन्न किया ॥ १७-२० ॥ सौधर्म आदि देवोंने उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए जलके द्वारा उसका जन्माभिवेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपूज्य नाम रक्खा, घर वापिस लाये और अनेक महोत्सव कर अपने अपने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया ॥ २१-२२ ॥ श्री श्रेयांसनाथ तीर्थकरके तीर्थसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्ततम पल्यके तृतीय भागमें जब धर्मकी सन्ततिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्का जन्म हुआ था । इनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, बहत्तर लाख वर्षकी उनकी आयु थी और कुङ्कुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥ २३-२४ ॥ जिस प्रकार मेंढकोंके द्वारा आस्वादन करने योग्य अर्थात् सजल क्षेत्र अठारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था ॥ २५ ॥ जिस प्रकार संसारका हित करनेवाले सब प्रकारके धान्य, समा नामकी इच्छित वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण

त्रयः सासाहिका मेधा अशीतिः कणशीकराः । पष्टिरातपमेधानामेधवृष्टिः<sup>१</sup> समा मता ॥ २७ ॥  
 अगुर्गुणा गुणीभावमन्येष्वस्मिन्स्तु मुख्यताम् । आश्रयः कस्य वैशिष्ट्यं विशिष्टो न प्रकल्पते ॥ २८ ॥  
 गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तत्राश इष्यते । इति बुद्ध्या सुधीः सर्वान् गुणान् सम्यगपालयत् ॥ २९ ॥  
 अष्टादशसमाः लक्षाः कौमारे प्राप्य संसृतेः । निर्विद्यात्मगतं धीमान् याथात्म्यं समचिन्तयत् ॥ ३० ॥  
 विधींविषयसंसक्तो<sup>२</sup> बन्धनात्मानमात्मना । बन्धैश्चतुर्विधैर्दुःखं भुञ्जानश्च चतुर्विधम् ॥ ३१ ॥  
 भनादौ जन्मकान्तारे भ्रान्त्वा कालादिलब्धितः । सन्मार्गं प्राप्तवांस्तेन प्रगुणं यामि सद्गतिम् ॥ ३२ ॥  
 अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः प्रेक्षणीयो निरामयः । आयुश्चिरमनाबाधं सुखं<sup>३</sup> सन्ततसाधनम् ॥ ३३ ॥  
 किन्तु ध्रुवो विद्योगोऽत्र रागात्मकमिदं सुखम् । रागी बध्नाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम् ॥ ३४ ॥  
 चतुर्गतिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहाः । ततः किममुनेत्येतत्त्याज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥  
 इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो लौकान्तिकैः कृतः । सुरा निष्कमणश्चानभूषणाद्युत्सवं व्यधुः ॥ ३६ ॥  
 शिबिकां देवसंरूढामारुह्य पृथिवीपतिः । वने मनोहरोद्याने चतुर्योषोषितं बहन् ॥ ३७ ॥  
 विशाखक्षेत्रं चतुर्दश्यां सायाह्ने कृष्णफाल्गुने । सामायिकं समादाय तुर्यज्ञानोऽप्यभूदनु ॥ ३८ ॥  
 सह तेन महीपालाः षट्सप्ततिमिताहिताः । प्रभ्रज्यां प्रत्यपद्यन्त परमार्थविदो मुदा ॥ ३९ ॥  
 द्वितीये दिवसेऽविश्वान् महानगरमन्वसे । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मै सुवर्णाभोऽदित्याशनम् ॥ ४० ॥  
 आश्चर्यपञ्चकं चापि तेन छाद्यस्थवत्सरे । गते श्रीवासुपूज्येशः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४१ ॥

इस राजाकी बुद्धिको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले हो गये थे ॥ २६ ॥ सात दिन तक मेघोंका बरसना त्रय कहलाता है, अस्सी दिन तक बरसना कणशीकर कहलाता है और बीच-बीचमें आतप-धूप प्रकट करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक बरसना समावृष्टि कहलाती है ॥ २७ ॥ गुण, अन्य हरि-हरादिकमें जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवान्में वही गुण मुख्यताको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते ? ॥ २८ ॥ चूँकि सब पदार्थ गुणमय हैं—गुणोंसे तन्मय हैं अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जावेगा यह विचार कर ही बुद्धिमान् वासुपूज्य भगवान् समस्त गुणोंका अच्छी तरह पालन करते थे ॥ २९ ॥ जब कुमारकालके अठारह लाख वर्ष बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान् भगवान् अपने मनमें पदार्थके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यह निर्बुद्धि प्राणी विषयोंमें आसक्त होकर अपनी आत्माको अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकारका दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें भ्रमण कर रहा है । अब मैं कालादि लब्धियोंसे उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मार्गको प्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए ॥ ३१-३२ ॥ शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय—सुन्दर हो, नीरोग हो, आयु चिरकाल तक बाधासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि इन सबका वियोग-अवश्यभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोंको बाँधता है, बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली हैं अतः मुझे इस संसारसे क्या प्रयोजन है ? यह तो बुद्धिमानोंके द्वारा छोड़ने योग्य ही है ॥ ३३-३५ ॥ इधर भगवान् ऐसा चिन्तन कर रहे थे उधर लौकान्तिक देवोंने आफर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ कर दी । देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥ ३६ ॥ महाराज वासुपूज्य देवोंके द्वारा उठाई गई पालकी पर सवार होकर मनोहरोद्यान नामक वनमें गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सामायिक नामका चारित्र्य ग्रहण कर साथ ही साथ मनःपर्यय-ज्ञानके धारक भी हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उनके साथ परमार्थको जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाओंने भी बड़े हर्षसे दीक्षा प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ दूसरे दिन उन्होंने आहारके लिए महानगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥ ४० ॥ और पञ्चाश्रय प्राप्त

१ षष्टिरातपमेधानां मेघवृष्टिः क०, ४०।-मेघा वृष्टिः ल० । २ संशक्तो ल० । ३ सन्ततसाधनम् ग०, ख०।

कदम्बवृक्षमूलस्थः सोपवासोऽपराह्णके । माघज्योत्स्नाद्वितीयायां विशाखर्क्षेऽभवज्जिनः ॥ ४२ ॥  
 सौधर्ममुख्यदेवेन्द्रास्तदैवैनमपूजयन् । तत्कल्याणं न विस्तार्य नाम्नोऽन्त्यस्योदये अतः ॥ ४३ ॥  
 षट्षष्टिमितधर्मादिगणभृद्दृष्टवन्दितः । खड्गद्वयैकविज्ञातपूर्वपूर्वधरावृतः ॥ ४४ ॥  
 खड्गद्वयद्विनवाग्न्युक्तशिक्षकाभिष्टुतक्रमः । शून्यद्वयचतुःपञ्चमोक्तावधिद्वयश्रितः<sup>१</sup> ॥ ४५ ॥  
 शून्यत्रिकर्तुर्विल्यातश्रुतकेवलवीक्षणः । खचतुष्कैकनिर्णोतविक्रियद्विविभूषितः ॥ ४६ ॥  
 षट्सहस्रचतुर्ज्ञानमानितक्रमपञ्चजः । खड्गद्वयचतुःमोक्तवादिसाधितमच्छ्रुतिः ॥ ४७ ॥  
 शून्यत्रयद्विसप्तोक्तपिण्डिताखिलमण्डितः । शून्यत्रयर्तुशून्यैकसेनार्याद्यार्थिकादिष्टत् ॥ ४८ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेतः श्राविकातुर्यलक्षकः । पूर्वोक्तदेवदेवीव्यस्तिर्यक्सङ्ख्यातसंस्तुतः ॥ ४९ ॥  
 स तैः सह विहृत्याखिलार्यक्षेत्राणि तर्पयन् । धर्मवृष्ट्या क्रमात्प्राप्य चम्पामन्दसहस्रकम् ॥ ५० ॥  
 स्थित्वाऽत्र निष्क्रियं मासं नद्या रजतमालिका-<sup>२</sup> सञ्जायाश्चित्तहारिण्याः<sup>३</sup> पर्यन्तावनिवर्तिनि ॥ ५१ ॥  
 अग्रमन्दरशैलस्य सानुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोद्याने पत्यङ्कासनमाश्रितः ॥ ५२ ॥  
 मासे भाद्रपदे ज्योत्स्नाचतुर्दश्यापराह्णके । विशाखायां ययौ मुक्तिं चतुर्णवतिसंयतैः ॥ ५३ ॥  
 परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवैः । अवन्दिषत ते देवं देवाः सेवाविचक्षणाः ॥ ५४ ॥  
 विजिगीषोगुणैः<sup>४</sup> षड्भिः<sup>५</sup> सिद्धिश्चेत्सुप्रयोजितैः । मुमुक्षोः किं न<sup>६</sup> सामोभिः<sup>७</sup> लक्षाचतुरशीतगैः ॥ ५५ ॥

क्रिये । तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षा-  
 वनमें आये ॥ ४१ ॥ वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्ल  
 द्वितीयाके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया ।  
 अब वे जिनराज हो गये ॥ ४२ ॥ सौधर्म आदि इन्द्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजा की । चूँकि  
 भगवान्का वह दीक्षा-कल्याणक नामकर्मके उदयसे हुआ था अतः उसका विस्तारके साथ वर्णन  
 नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ वे धर्मको आदि लेकर छयासठ गदाधरोंके समूहसे वन्दित थे, बारह  
 सौ पूर्वधारियोंसे धिरे रहते थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थे, पाँच  
 हजार चार सौ अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दश हजार  
 विक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके  
 चरण-कमलोंका आदर करते थे और चार हजार दो सौ वादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे थे ।  
 इस प्रकार सन्न मिलकर बहत्तर हजार मुनियोंसे वे सुशोभित थे, एक लाख छह हजार सेना आदि  
 आर्थिकाओंको धारण करते थे, दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे युक्त थे,  
 असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यञ्चोंसे स्तुत थे ॥ ४४-४६ ॥ भगवान्ने इन सब-  
 के साथ समस्त आर्यक्षेत्रोंमें विहार कर उन्हें धर्मवृष्टिसे संतुष्ट किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरीमें  
 आकर एक हजार वर्ष तक रहे । जब आयुमें एक मास शेष रह गया तब योग-निरोधकर रजत-  
 मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वर्तमान, मन्दरगिरिकी शिखरको सुशोभित करनेवाले  
 मनोहरोद्यानमें पर्यङ्कासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपदशुक्ला चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा  
 नक्षत्रमें चौरानके मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ५०-५३ ॥ सेवा करनेमें अत्यन्त निपुण वेचोंने  
 निर्वाणकल्याणककी पूजाके बाद बड़े उत्सवसे भगवान्की बन्दना की ॥ ५४ ॥ जब कि विजयकी  
 इच्छा रखनेवाले राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हुए सन्धि-विग्रह आदि छह गुणोंसे ही सिद्धि  
 ( विजय ) मिल जाती है तब मोक्षभिलाषी भगवान्को चौरासी लाख गुणोंसे सिद्धि ( मुक्ति ) क्यों  
 नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥ ५५ ॥

१ स्मृतः ख० । २ रजतमालिका क०, घ० । रजतमालिका ख०, ग० । रजतमौखिका ल० । ३ पर्य  
 न्तावनिवर्तनः ग० । ४ सन्धि-विग्रहादिभिः षट्गुणैः । ५ सफलता-विजयः । ६ सा सिद्धिः अमोभिः गुणैः ।  
 ७ चतुरशीतिलक्षप्रमितोत्तरगुणैः ।

## मालिनी

सदसदुभयमेतेनैकशब्देन वाच्ये

त्रितयमपि पृथक्तत्तुर्भङ्गेन युज्यात् ।

इति सकलपदार्थासप्तभङ्गी त्वयोक्ता

कथमवितथवाक्त्वं वासुपूज्यो न पूज्यः ॥ ५६ ॥

## वसन्ततिलका

धर्मो दया कथमसौ सपरिग्रहस्य

वृष्टिर्धरातलहिता किमवग्रहेऽस्ति ।

तस्मात्त्वया द्वयपरिग्रहमुक्तिरुक्ता

तद्वासनासुमहितो जिन वासुपूज्यः ॥ ५७ ॥

पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि पार्थिवेशः

शुक्रे महत्यमरषट्पदपद्मपादः ।

यो वासुपूज्ययुवराट् त्रिजगत्प्रपूज्यः

राज्ये जिनः स दिशतादतुलं सुखं वः ॥ ५८ ॥

## अनुष्टुप्

तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य द्विपृष्ठो नाम भूपतिः । त्रिखण्डाधिपतिर्जातो द्वितीयः सोऽर्द्धचक्रिणाम् ॥ ५९ ॥

वृत्तकं तस्य वक्ष्यामो जन्मत्रयसमाश्रितम् । श्रुतेन येन भव्यानां भवेद् भूयो भवाङ्गयम् ॥ ६० ॥

द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे कनकादिपुराधिपः । सुषेणो नाम तस्यासीश्वर्तकी गुणमञ्जरी ॥ ६१ ॥

रूपिणी सुभगानृत्यगीतवाद्यादिविश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्वभूपाभिवाञ्छिता ॥ ६२ ॥

अस्ति तत्रैव देशोऽन्यो मलयाख्यो मनोहरः । विन्ध्यशक्तिः पतिस्तस्य नृपो विन्ध्यपुरे वसन् ॥ ६३ ॥

पदार्थं कथंचित् सत् है, कथंचित् असत् है, कथंचित् सत्-असत् उभयरूप है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् सत् अवक्तव्य है, कथंचित् असत् अवक्तव्य है, और कथंचित् सदसद-वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्, आपने प्रत्येक पदार्थके प्रति सप्तभङ्गीका निरूपण किया है और इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध हैं फिर हे वासुपूज्य देव ! आप पूज्य क्यों न हों ? अवश्य हों ॥ ५६ ॥ धर्म दया रूप है, परन्तु वह दयारूप धर्म परिग्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है ? वर्षा पृथिवीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु प्रतिबन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसीलिए आपने अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग—दोनों परिग्रहोंके त्यागका उपदेश दिया है । हे वासुपूज्य जिनेन्द्र ! आप इसी परिग्रह-त्यागकी वासनासे पूजित हैं ॥ ५७ ॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महा-शुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंके लिए कमलके समान थे और फिर त्रिजगत्पूज्य वासुपूज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालब्रह्मचारी रह कर ही राज्य किया था, वे बारहवें तीर्थकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥ ५८ ॥

अथानन्तर—श्री वासुपूज्य स्वामीके तीर्थमें द्विपृष्ठ नामका राजा हुआ जो तीन खण्डका स्वामी था और दूसरा अर्धचक्र ( नारायण ) था ॥ ५९ ॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ जिसके सुननेसे भव्य-जीवोंको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥ ६० ॥ इसी जन्मद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है । उसके राजाका नाम सुषेण था । सुषेणके एक गुणमञ्जरी नामकी नृत्यकारिणी थी ॥ ६१ ॥ वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसीलिए सब राजा उसे चाहते थे ॥ ६२ ॥ उसी भरतक्षेत्रमें एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विन्ध्य-

स रक्तो गुणमञ्जर्याः प्रेक्षायामिव षट्पदः । चूतप्रसवमञ्जर्यां माधुर्यरसरञ्जितः ॥ ६४ ॥  
 रत्नाद्युपायनोपेतं मितार्थं<sup>१</sup> चिचहारिणम् । सुषेणं प्रतिस्मन्मान्य प्रादिणोन्नतकीपस्यथा ॥ ६५ ॥  
 दूतोऽपि सत्वरं गत्वा स सुषेणमहीपतिम् । दृष्ट्वा यथोचितं तस्मै दत्त्वोपायनमब्रवीत् ॥ ६६ ॥  
 युष्मद्गृहे महारत्नं नर्तकी किल विश्रुता । विन्ध्यशक्तिर्मवद्बन्धुस्तं द्रष्टुमभिलाषुकः ॥ ६७ ॥  
 तत्प्रयोजनमुद्दिश्य प्रहितोऽहं महीपते । त्वयापि सा प्रहेतव्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥  
 इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि याहि किमश्रन्यैर्वचोभिर्दर्पशालिभिः ॥ ६९ ॥  
 इति निर्भत्सितो भूयः सुषेणेन दुरुक्तिभिः । दूतः प्रत्येत्य तत्सव विन्ध्यशक्तिं<sup>२</sup> प्रजिज्ञपत् ॥ ७० ॥  
 सोऽपि कोपग्रहाविष्यस्तद्वचःश्रवणाद् भृशम् । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमालोच्य मन्त्रिभिः ॥ ७१ ॥  
 शूरो लघुसमुत्थानः कूटयुद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांप्रामिकाप्रणीः ॥ ७२ ॥  
 विधाय सङ्गरे भङ्गं तत्कीर्तिमिव नर्तकीम् ।<sup>३</sup> तामाहरद् गते पुण्ये कस्य किं कोऽन्न नाहरत् ॥ ७३ ॥  
 दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट्रभङ्गो गजद्विषः । मानभङ्गो महीभर्तुर्महिमानमपह्नुते ॥ ७४ ॥  
 स तेन मानभङ्गेन स्वगुहाद्ग्रमानसः । पृष्ठभङ्गेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्यदम् ॥ ७५ ॥  
 स कदाचित्सनिर्वेदः<sup>४</sup> सुव्रताध्यजिनाधिपात् । अनगारात्परिज्ञातधर्माश्रिमलचेतसा ॥ ७६ ॥  
 स कोऽपि पापपाको मे येन तेनाप्यहं जितः । इति सञ्चित्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोत् ॥ ७७ ॥  
 तपस्तनूनात्तापतनूकृततनुश्चिरम् । सारिकोपः स संन्यस्य सनिदानः सुरोऽभवत् ॥ ७८ ॥

पुर नगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार मधुरताके रससे अनुरक्त हुआ भ्रमर आम्रमञ्जरीके देखनेमें आसक्त होता है उसी प्रकार वह राजा गुणमञ्जरीके देखनेमें आसक्त था ॥ ६४ ॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुषेण राजाका सम्मान कर उसके पास रत्न आदिकी भेंट लेकर चित्तको हरण करनेवाला एक दूत भेजा ॥ ६५ ॥ उस दूतने भी शीघ्र जाकर सुषेण महाराजके दर्शन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा ॥ ६६ ॥ उसने कहा कि आपके घरमें जो अत्यन्त प्रसिद्ध नर्तकीरूपी महारत्न है, उसे आपका भाई विन्ध्यशक्ति देखना चाहता है ॥ ६७ ॥ हे राजन् ! इसी प्रयोजनको लेकर मैं यहाँ भेजा गया हूँ । आप भी उस नृत्यकारिणीको भेज दीजिए । मैं उसे वापिस लाकर आपको सौंप दूँगा ॥ ६८ ॥ दूतके ऐसे वचन सुनकर सुषेण क्रोधसे अत्यन्त काँपने लगा और कहने लगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकारसे भरे हुए इन वचनोंसे क्या लाभ है ? इस प्रकार सुषेण राजाने खोटे शब्दों द्वारा दूतकी बहुत भारी भर्त्सना की । दूतने वापिस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिए ॥ ६९-७० ॥ दूतके वचन सुननेसे वह भी बहुत भारी क्रोधरूपी ग्रहसे आविष्ट हो गया—अत्यन्त कुपित हो गया और कहने लगा कि रहने दो, क्या दोष है ? तदनन्तर मंत्रियोंके साथ उसने क्रुद्ध गुप्त विचार किया ॥ ७१ ॥ कूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धाओंके आगे चलनेवाला और शूरवीर वह राजा अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला ॥ ७२ ॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुषेणको पराजित किया और उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीको जबरदस्ती छीन लिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता ? ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार दाँतका टूट जाना हाथीकी महिमाको छिपा लेता है, और दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार मान-भङ्ग राजाकी महिमाको छिपा देता है ॥ ७४ ॥ उस मान-भङ्गसे राजा सुषेणका दिल टूट गया अतः जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सर्प एक पद भी नहीं चल पाता है उसी प्रकार वह भी अपने स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका ॥ ७५ ॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको जाननेवाले गृह-त्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना और निर्मल चित्तसे इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया । ऐसा विचार कर उसने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की ॥ ७६-७७ ॥ और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले

विमानेऽनुपमे नाम्ना कल्पे प्राणतनामनि । विश्वव्युपमायुः सन् स्वर्द्धिकृतसम्मदः ॥ ७९ ॥  
 अत्रैव <sup>१</sup>भारते श्रीमान् महापुरमधिष्ठितः । नृपो वायुरथो नाम भुक्त्वा राज्यश्रियं चिरम् ॥ ८० ॥  
 श्रुत्वा सुव्रतनामाहृत्पार्श्वे धर्मं स तत्त्ववित् । सुतं घनरथं राज्ये स्थापयित्वाऽगमत्तपः ॥ ८१ ॥  
 अधीत्य सर्वशास्त्राणि विधाय परमं तपः । तत्रैवेन्द्रोऽभवत्कल्पे विमानेऽनुचाराङ्गये ॥ ८२ ॥  
 ततोऽवतीर्य वर्षेऽस्मिन् पुरीद्वारावर्तापतेः <sup>२</sup> । ब्रह्माख्यस्याचलस्तोकः सुभद्रायामभूद्विशुः ॥ ८३ ॥  
 तस्यैवासौ सुषेणाख्योऽप्युषायामात्मजोऽजनि । द्विपृष्ठाख्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसम्मिता ॥ ८४ ॥  
 द्वासप्ततिसमालक्षाः परमायुर्निरन्तरम् । राजभोगानभुक्तोच्चैरिक्ष्वाकूणां कुलाग्रणीः ॥ ८५ ॥  
 कुन्देन्द्रनीलसङ्काशावभातां बलकेशवौ । सङ्गमेन प्रवाहो वा गङ्गायमुनयोरमू ॥ ८६ ॥  
 अविभक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायकौ । सरस्वतीं गुरुद्विष्टां समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥  
 अविवेकस्तयोरासीदधीताशेषशास्त्रयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे स एव किल शस्यते ॥ ८८ ॥  
 स्थिरावत्युन्नतौ शुक्लनीलौ भातः स्म भूभृतौ । कैलासाब्जनसञ्ज्ञौ वा सङ्गतौ तौ मनोहरौ ॥ ८९ ॥  
 इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो घटीयन्त्रसमाश्रितम् । भ्रान्त्वा संसारवाराशावणीयः पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥  
 इहैव श्रीधराख्यस्य भोगवर्द्धनपूःपते <sup>३</sup> । अभूदखिलविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९१ ॥  
 बभार भास्वरां लक्ष्मीं भरताहं निवासिनीम् । स्वचक्राक्रान्तिसन्त्रासदासीभूत (ख) भूचरः ॥ ९२ ॥

ली । बहुत दिन तक तपरूपी अग्नि के संतापसे उसका शरीर कृश हो गया था । अन्तमें शत्रुपर क्रोध रखता हुआ वह निदान बन्ध सहित संन्यास धारण कर प्राणत स्वर्गके अनुपम नामक विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हर्षित देव हुआ ॥ ७८-७९ ॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान् वायुरथ नामका राजा रहता था । चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके पास धर्मका उपदेश सुना, तत्त्वज्ञानी वह पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए चला गया ॥ ८०-८१ ॥ समस्त शत्रुओंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ ॥ ८२ ॥ वहाँसे चय कर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके राजा ब्रह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हुआ ॥ ८३ ॥ तथा सुषेणाका जीव भी वहाँसे चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी रानी उषाके द्विपृष्ठ नामका पुत्र हुआ । उस द्विपृष्ठका शरीर सत्तर धनुष ऊँचा था और आयु बहत्तर लाख वर्षकी थी । इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशका अग्नेसर वह द्विपृष्ठ, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था ॥ ८४-८५ ॥ कुन्द पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गङ्गा और यमुनाके प्रवाहके समान जान पड़ते थे ॥ ८६ ॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सरस्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई बिना विभाग किये ही पृथिवीका उपभोग करते थे ॥ ८७ ॥ समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंमें अभेद था—किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है क्योंकि उसी अभेदकी प्रशंसा होती है जो कि लक्ष्मी और स्त्रीका संयोग होनेपर भी बना रहता है ॥ ८८ ॥ वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊँचे थे, तथा सफेद और नील रङ्गके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास और अञ्जनगिरि ही एक जगह आ मिले हों ॥ ८९ ॥

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण करता रहा । अन्तमें जब थोड़ेसे पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसी भरतक्षेत्रके भोगवर्द्धन नगरके राजा श्रीधरके सर्व प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ ॥ ९०-९१ ॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंको अपना दास बना लिया है ऐसा वह तारक आधे



आस्तामन्यत्र तद्गत्या मन्दमन्दप्रभे रवौ । मन्ये <sup>१</sup>विकस्वरा पद्मा पद्मेष्वपि न जातुचित् ॥ ९३ ॥  
<sup>२</sup>पुराणभूपमार्गस्य सोऽभवत्पारिपन्थिकः । सिंहिकानन्दनो वोग्रः पूर्णमास्यमृतद्युतेः ॥ ९४ ॥  
 गलन्ति गर्भास्तन्नाम्ना गर्भिणीनां भयोद्भवात् । घनाघनावलीनां वा क्रूरग्रहविकारतः ॥ ९५ ॥  
 अन्विष्य प्रतियोद्धारमलब्ध्वा क्रुद्धमानसः । स्वप्रतापान्निधूमेन दूषितो वा मषीनिभः ॥ ९६ ॥  
 संतप्तसर्वमूर्धन्यः धर्मधर्माश्रुदुस्सहः । स पाताभिमुखः किं स्युः स्थावरास्तादृशाः श्रियः ॥ ९७ ॥  
 अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्रहन् । जन्मान्तरागतात्युग्रविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥  
 द्विपृष्ठाचलयोर्द्विं प्रकृष्टां सोढुमक्षमः । करदीकृतनिःशेषमहीपालकृपीबलः ॥ ९९ ॥  
 ब्रह्मवत्करदौ नैतौ दुर्मदेनापि दर्पितौ <sup>३</sup> । <sup>४</sup>दुष्टमात्रीविपं गोहे वर्द्धमानं सहेत कः ॥ १०० ॥  
 उच्छेद्यकोटिमारुढौ ममेमौ येन केनचित् । सन्दूष्याहं हनिष्यामि निजप्रकृतिदूषितौ ॥ १०१ ॥  
<sup>५</sup>इत्युपायं विचिन्त्यैकं दुर्वाक्यं कलहप्रियम् । प्राहिणोत्सोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुर्मुखः ॥ १०२ ॥  
 इत्यादिशक्ति वां देवस्तारको <sup>६</sup>भारको द्विपाम् । युष्मद्गृहे किलैकोऽस्ति ख्यातो गन्धराजो महान् ॥ १०३ ॥  
 आश्वसौ मे प्रहेतव्यो नो चेद्युष्मच्छिरोद्वयम् । खण्डीकृत्याहरिष्यामि गर्जं मज्जयसेनया ॥ १०४ ॥  
 इत्यसभ्यमसोढव्यं तेनोक्तं कलहार्थिना । ध्रुत्वाऽचलोऽचलो वोच्चैर्धीरोदात्तोऽब्रवीदिदम् ॥ १०५ ॥  
 गजो नाम क्रियान् शीघ्रमेत्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेऽन्यच्च येनासौ स्वास्थ्यमाप्नुयात् ॥ १०६ ॥

भरतक्षेत्रमें रहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीको धारण कर रहा था ॥ ९२ ॥ अन्य जगहकी बात रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि—उसके डरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्द पड़ गई थी इसलिए लक्ष्मी कमलोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थी ॥ ९३ ॥ जिस प्रकार उग्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका विरोधी होता है उसी प्रकार उग्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था ॥ ९४ ॥ जिस प्रकार किसी क्रूर ग्रहके विकारसे मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥ ९५ ॥ स्याहीके समान श्याम वर्णवाला वह तारक सदा शत्रुओंको दूँढ़ता रहता था और जब किसी शत्रुको नहीं पाता था तब ऐसा जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अग्निके धुँएसे ही काला पड़ गया हो ॥ ९६ ॥ जिसने समस्त क्षत्रियोंको संतप्त कर रखा है और जो ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके समान दुःखसे सहन करने योग्य है ऐसा वह तारक अन्तमें पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे लोगोंकी लक्ष्मी क्या स्थिर रह सकती है ? ॥ ९७ ॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वाभित्व धारण करता था ऐसा तारक जन्मान्तरसे आये हुए तीव्र विरोधसे प्रेरित होकर द्विपृष्ठनारायण और अचल बलभद्रकी वृद्धको नहीं सह सका । वह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंको कर देनेवाला बना लिया है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते । इतना ही नहीं, दुष्ट गर्वसे युक्त भी हैं । अपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट साँपको कौन सहन करेगा ? ॥ ९८-१०० ॥ ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट किये जाने योग्य शत्रुओंकी श्रेणीमें स्थित हैं तथा अपने स्वभावसे दूषित भी हैं अतः जिस किसी तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूँगा ॥ १०१ ॥ इस प्रकार अपायका विचार कर उसने दुर्बचन कहनेवाला एक कलह-प्रेमी दूत भेजा और वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयोंके पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओंको मारनेवाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मँगा लूँगा ॥ १०२-१०४ ॥ इस प्रकार उस कलहकारी दूतके द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर पर्वतके सम्मान अचल, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचल बलभद्र इस तरह कहने लगे ॥ १०५ ॥ कि हाथी क्या चीज है ? तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र आवें । हम उनके

१ विकस्वरा ल० । २ पुराण भूतमार्गस्य ल० । ३ दर्पितम् घ० । ४ दुष्टवाशी-ल० । ५ इत्युपायं ल० । ६ वारको क० ।

इत्यादि तेन गम्भीरमभ्युद्य स विसर्जितः । पवमान इव प्राप्य तत्कोपाग्निमदीपयत् ॥ १०७ ॥  
 तच्छ्रुत्वा सोऽपि कोपाग्निप्रदीप्तः पावकप्रभः । तौ पतङ्गायितावित्थं मत्क्रोधाग्नेरवोचताम् ॥ १०८ ॥  
 इत्यनालोच्य कार्याङ्गं सङ्गतः सचिवैः समम् । स्वयमभ्युत्थितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्नुमन्तकम् ॥ १०९ ॥  
 दुर्णयाभिमुखो मूर्खश्चालयित्वाऽखिलामिलाम् । षडङ्गेन बलेनासौ प्राप्य तावुदयोन्मुखौ ॥ ११० ॥  
 समुल्लङ्घितमर्यादः कालान्तजलधिं जयन् । अरुणहारुणस्तूर्णं पुरं स्वबलवेलेया ॥ १११ ॥  
 बालवद्धेलया वेलां तत्सेनां निजसेनया । न्यरौत्सीजलनिःसारामचलोऽप्यचलस्थितिः ॥ ११२ ॥  
 द्विपृष्ठो मत्समातङ्गं सिंहपोत इवोद्धतः । पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद् बलिनं द्विषम् ॥ ११३ ॥  
 तारकोऽपि चिरं युद्ध्वा तं निराकर्तुमक्षमः । भ्रामयित्वाऽक्षिपच्छक्रं यमचक्रमिवात्मनः ॥ ११४ ॥  
 तत्परीत्य स्थितं बाहौ दक्षिणे दयितश्रियः । तस्यासौ तेन चक्रेण नरकं तमजीगमत् ॥ ११५ ॥  
 द्विपृष्ठः सप्तसद्रत्नखण्डेशस्तदाभवत् । अचलो बलदेवोऽभूत्प्रासरत्नचतुष्टयः ॥ ११६ ॥  
 कृत्वा दिग्विजयं जित्वा प्रतीपाख्यातभृशतः । नत्वा श्रीवासुपूज्येशं प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ ११७ ॥  
 चिरं त्रिखण्डसाम्राज्यं विधाय विविधैः सुखैः । द्विपृष्ठः कालनिष्ठायामवधिष्ठानमाश्रितः ॥ ११८ ॥  
 अचलोऽपि तदुद्वेगाद्वासुपूज्यजिनाश्रयात् । सम्प्राप्य संयमं मोक्षलक्ष्म्या सङ्गममीयिवान् ॥ ११९ ॥

### वसन्ततिलका

पुण्यैकबीजमवलम्ब्य महीमिवाप्य लब्धोदयौ सममुपाजितसत्स्वरूपौ ।

एकोऽगमन् फलितुमङ्कुरवत् किलोद्ध्वं पापी परो विफलमूलसमस्त्वधस्तात् ॥ १२० ॥

लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुरालता ( पक्षमें स्वः स्वर्गे तिष्ठ-  
 तीति स्वस्थः 'शर्परि खरि विसर्गलोपो वा वक्तव्यः' इति वार्तिकेन सकारस्य लोपः । स्वस्थस्य  
 भावः स्वास्थ्यम् ) मृत्युको प्राप्त कर सकेंगे ॥ १०६ ॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल  
 बलभद्रने उस दूतको विदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाग्निको प्रदीप्त  
 कर दिया ॥ १०७ ॥ यह सुनकर कोपाग्निसे प्रदीप्त हुआ तारक अग्निके समान प्रज्वलित हो गया  
 और कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाग्निके पतंगे बन रहे हैं ॥ १०८ ॥ उसने  
 मंत्रियोंके साथ बैठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया और अपने आपको सर्वशक्ति-सम्पन्न मान  
 कर मृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥ १०९ ॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूर्ख  
 षडङ्ग सेनासे समस्त पृथिवीको कँपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा  
 पहुँचा । उसने सब मर्यादाका उलंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा  
 था । इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला ( ज्वारभाटा ) के  
 द्वारा अचल और द्विपृष्ठके नगरको घेर लिया ॥ ११०-१११ ॥ जिस प्रकार कोई पर्वत जलकी लहर-  
 को अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके  
 द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था ॥ ११२ ॥ जिस प्रकार सिंहका बच्चा मत्स्य  
 हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले द्विपृष्ठने भी एक पराक्रमकी सहायता-  
 से ही बलवान् शत्रु पर आक्रमण कर दिया ॥ ११३ ॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर  
 तो भी वह द्विपृष्ठको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका । अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान  
 अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥ ११४ ॥ वह चक्र द्विपृष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी  
 भुजा पर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया ॥ ११५ ॥ उसी समय  
 द्विपृष्ठ, सात उत्तम रत्नोंका तथा तीन खण्ड पृथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया  
 तथा चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ॥ ११६ ॥ दोनों भाइयोंने शत्रु राजाओंको जीतकर दिग्विजय किया  
 और श्री वासुपूज्य स्वामीको नमस्कार कर अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ ११७ ॥ चिरकाल तक तीन  
 खण्डका राज्य कर अनेक सुख भोगे । आयुके अन्तमें मरकर द्विपृष्ठ सातवें नरक गया ॥ ११८ ॥  
 भाईके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर  
 संयम धारण कर लिया तथा मोक्ष-लक्ष्मीके साथ समागम प्राप्त किया ॥ ११९ ॥ उन दोनों भाइयोंने

## मालिनी

इदमिति विधिपाकाद् वृचमस्मिन् द्विपृष्ठे  
परिणतमचले च प्रत्यहं चिन्तयित्वा ।  
विपुलमतिभिरार्यैः कार्यमुत्सृज्य पापं  
सकलसुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम् ॥ १२१ ॥

## पृथ्वी

पुरेऽत्र कनकादिके प्रथितवान् सुषेणो नृपः  
ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुर्दशस्वर्गभाक् ।  
त्रिखण्डपरिपालकोऽभवदतो द्विपृष्ठाख्यया  
परिग्रहमहाभरादुपगतः क्षिति सप्तमीम् ॥ १२२ ॥

## वंशस्थवृत्तम्

महापुरे वायुरथो महीपतिः प्रपद्य चारित्रमनुत्तरं ययौ ।  
ततो बलो द्वारावतीपुरेऽचलखिलोकपूज्यत्वमवाप्य निर्हृतः ॥ १२३ ॥


## वसन्ततिलका

विख्यातविन्ध्यनगरेऽजनि विन्ध्यशक्ति-  
भ्रान्त्वा चिरं भववने चित्तपुण्यलेशः ।

श्रीभोगवर्द्धनपुराधिपतारकाख्यः

प्राप द्विपृष्ठरिपुरन्त्यमहीं <sup>१</sup>महाहाः ॥ १२४ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे वासुपूज्यजिनपतिद्विपृष्ठाचल-  
तारकपुराणं परिसमाप्तम् अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥



किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी पृथिवी पाई, अनेक विभूतियाँ पाई और साथ ही साथ उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमेंसे एक तो अंडुरके समान फल प्राप्त करनेके लिए ऊपरकी ओर ( मोक्ष ) गया और दूसरा पापसे युक्त होनेके कारण फलरहित जड़के समान नीचेकी ओर ( नरक ) गया ॥ १२० ॥ इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचलका जो भी जीवन-वृत्त घटित हुआ है वह सब कर्मो-दयसे ही घटित हुआ है ऐसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक आर्य पुरुषोंको पाप छोड़कर उसके विपरीत समस्त सुखोंका भंडार जो पुण्य है वही करना चाहिए ॥ १२१ ॥ राजा द्विपृष्ठ पहले इसी भस्तत्रेणके कनकपुर नगरमें सुषेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चौदहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विपृष्ठ नामका अर्धचक्री हुआ और इसके बाद परिग्रहके महान् भारसे भरकर सातवें नरक गया ॥ १२२ ॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद-नन्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका बलभद्र हुआ और अन्तमें निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवनके द्वारा पूज्य हुआ ॥ १२३ ॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार-वनमें भ्रमण करता रहा । कदाचित् थोड़ा पुण्यका संचय कर श्री भोगवर्द्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमें द्विपृष्ठनारायणका शत्रु होकर—उन्के हाथसे मारा जाकर महापापके उदयसे अन्तिम पृथिवीमें नारकी उत्पन्न हुआ ॥ १२४ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें श्री वासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विपृष्ठनारायण, अचल बलभद्र और तारक प्रति-नारायणका वर्णन करनेवाला अष्टावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## एकोनषष्टितमं पर्व

विमलेऽब्दसमे बोधे दृश्यते विमलं जगत् । <sup>१</sup>विमलं यस्य मे सोऽद्य विमलं विमलः क्रियात् ॥ १ ॥  
 प्रतीचि धातकीखण्डे देवाद्रथपरभागभाक् । नदीदक्षिणकूलस्थो विपयो रम्यकावती ॥ २ ॥  
 पद्मसेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य इव कल्पागः समीप्सितफलप्रदः ॥ ३ ॥  
<sup>२</sup>तन्त्रावापविभागोक्तनीतिशास्त्रार्थनिश्चये<sup>३</sup> । उदाहरणमित्याहुस्तद्बृतां शास्त्रवेदिनः ॥ ४ ॥  
 अर्जुनानुभवावर्थे प्रजानामात्मवृत्तिभिः । व्यापारो रक्षके तस्मिन् महीशे मदितद्विधिः ॥ ५ ॥  
 नाक्रामति प्रजा न्यार्थं तां नाक्रमति भूपतिः । तं त्रिवर्गं त्रिवर्गस्य नान्योन्यातिक्रमः क्वचित् ॥ ६ ॥  
 प्रीतिक्रवने <sup>४</sup>सर्वगुप्तकेवलसन्निधौ । धर्मतत्त्वं परिज्ञाय स्वैव्यजन्मद्वयं च सः ॥ ७ ॥  
 तदैव तीर्थकृजात इव जातमहोत्सवः । पद्मनाभाय दत्त्वैश्यं <sup>५</sup>प्रारब्ध परमं तपः ॥ ८ ॥  
 प्रतीतैकादशज्ञार्थो भावनाहिततीर्थकृत् । शेषपुण्यसमप्रोऽयमारध्यान्ते षतुष्टयम् ॥ ९ ॥  
 सहस्रारविमानेशस्तन्नामेन्द्रोऽजनिष्ट सः । अष्टादशाब्धिमानायुरेकचापतनूच्छ्रितिः ॥ १० ॥  
 जघन्यशुक्लद्वयभाग् नवमासेषु निःश्वसन् । अष्टादशशहस्राब्दैराहारं मनसाऽऽहरन् ॥ ११ ॥  
 तृप्तो रूपप्रवीचारात् प्राक्चतुर्थचरावधिः । तावन्मात्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोन्नतः ॥ १२ ॥  
 स स्नेहामृतसमृत्कमुखाम्बुरुहदर्शनात् । सन्तपितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत् ॥ १३ ॥

जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके सब प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलोंका अभाव करें—हम सबको निर्मल बनावें ॥ १ ॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सीता नदीके दक्षिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है ॥ २ ॥ उसके महानगरमें वह पद्मसेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३ ॥ स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शास्त्र सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका चरित्र उदाहरण रूप था ऐसा शास्त्रके जानकार कहा करते थे ॥ ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अर्जन तथा उपभोग करना ही प्रजाका व्यापार रह गया था ॥ ५ ॥ वहाँकी प्रजा कभी न्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥ ६ ॥ किसी एक दिन राजा पद्मसेनने प्रीतिक्र वनमें स्वर्गगुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना और उन्हींसे यह भी जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव बाकी रह गये हैं ॥ ७ ॥ उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप तपना शुरू कर दिया ॥ ८ ॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर दृढ़ प्रत्यय किया, दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक स्वर्गमें सहस्रार नामका इन्द्रपद प्राप्त किया । वहाँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक धनुष अर्थात् चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्य शुक्ललेख्या थी, वह नौ माहमें एक बार श्वास लेता था, अठारह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था, देवांगनाओंका रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी, वह अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुन्नत

१ मत्तस्याभावो विमलम् अव्ययीभावसमासः । २ विभोगोक्त क०, घ० । ३ शास्त्रसमुच्चये ल० ।

४ सर्वतत् ल० । ५ प्रारब्धं ख०, ल० ।

सुरलोकादिमं लोकमिन्द्रेऽस्मिन्नागमिष्यति । क्षेत्रेऽत्र पुरि काम्पिल्ये पुरुदेवान्वयो नृपः ॥ १४ ॥  
 कृतवर्मा महादेवी जयश्यामाऽस्य विश्रुता । देवेन्द्रकृतपूजार्हा वसुधारादिवस्तुभिः ॥ १५ ॥  
 शुचौ कृष्णदशम्यन्तरजन्वामुत्तरादिमे । ऋक्षे भाद्रपदे इष्ट्वा स्वमान् षोडश सत्फलान् ॥ १६ ॥  
 तदानामेव हस्तीन्द्रं विशन्तं वक्त्रवारिजे<sup>१</sup> । व्यलोकित् फलान्येषामवबुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥  
 ततः स्वविष्टराकम्पाश्रित्वेदिततदुत्सवैः । सुरैः स्वर्गात्समायातैराप कल्याणमादिमम् ॥ १८ ॥  
 वर्द्धमानेन गर्भेण तेनावर्द्धत सम्मदः । हृदये बन्धुवर्गस्य दुर्गतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥  
 प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः । किमुच्यते पुनः सूतेः प्रागानन्नसुरेशिनः ॥ २० ॥  
<sup>२</sup>माघशुक्लचतुर्थ्यां सा तमहिर्बुध्नयांगतः । त्रिबोधं त्रिजगन्नाथं प्रासूत विमलप्रभम् ॥ २१ ॥  
 जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमलवाहनम् । तमाहुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोचरम् ॥ २२ ॥  
 वासुपूज्येशसन्ताने त्रिशस्तागरसम्मते । <sup>३</sup>प्रान्तपत्योपमे धर्मध्वसे तन्नतजीवितः ॥ २३ ॥  
 षष्टिलक्षमिताब्दायुः षष्टिचापतनुप्रमः<sup>४</sup> । अष्टापदप्रभः <sup>५</sup>सोऽभूत् सर्वपुण्यसमुच्चयः ॥ २४ ॥  
 खपञ्चकेन्द्रियैकाब्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥  
 लक्ष्मीः सहचरी तस्य कीर्तिर्जन्मान्तरागता । सरस्वती सहोत्पन्ना वीरलक्ष्म्या स्वयं वृतः ॥ २६ ॥  
 गुणाः सत्यादयस्तस्मिन् वर्द्धन्ते स्म यथा तथा । मुनीन्द्रैरपि सम्प्राथ्यां वर्णना तेषु का परा ॥ २७ ॥

था, स्नेह रूपा अमृतसे सम्पृक्त रहनेवाले उसके मुख-कमलको देखनेसे देवांगनाओंका चित्त संतुष्ट हो जाता था । इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखोंका अनुभव किया ॥ ६-१३ ॥

वह इन्द्र जब स्वर्ग लोकसे चयकर इस पृथिवी लोक पर आनेवाला हुआ तब इसी भरत-क्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान् ऋषभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था । जय-श्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी । इन्द्रादि देवोंने रत्नवृष्टि आदिके द्वारा जयश्यामाकी पूजा की । ॥ १४-१५ ॥ उसने ज्येष्ठकृष्णा दशमीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके रहते हुए सोलह स्वप्न देखे, उसी समय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और राजासे इन सबका फल ज्ञात किया ॥ १६-१७ ॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ-कल्याणककी सूचना हो गई है ऐसे देवोंने स्वर्गसे आकर प्रथम-गर्भकल्याणक किया ॥ १८ ॥

जिस प्रकार बढ़ते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगती है उसी प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गर्भसे बन्धुजनोंके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगी थी ॥ १९ ॥ इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हर्षका कारण है तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र लोग नम्रीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना है ? ॥ २० ॥ माघशुक्ल चतुर्थीके दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेक्षा चतुर्दशीके दिन ) अहिर्बुध्न योगमें रानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी, तीन जगत्के स्वामी तथा निर्मल प्रभाके धारक भगवान्को जन्म दिया ॥ २१ ॥ जन्माभिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रक्खा और सबने स्तुति की ॥ २२ ॥ भगवान् वासुपूज्यके तीर्थके बाद जब तीस सागर वर्ष बीत गये और पत्यके अन्तिम भागमें धर्मका विच्छेद हो गया तब विमलवाहन भगवान्का जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥ २३ ॥ उनकी आयु साठ लाख वर्षकी थी, शरीर साठ धनुष ऊँचा था, कान्ति सुवर्णके समान थी और वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो संमस्त पुण्योंकी राशि ही हों ॥ २४ ॥ समस्त लोकको पवित्र करनेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान् विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण कुमारकाल बीतजानेपर राज्याभिषेकसे पवित्र हुई थी ॥ २५ ॥ लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीर-लक्ष्मीने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया था ॥ २६ ॥ उस राजामें जो सत्यादिगुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनियोंके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इससे

१ वारिजम् ख०, ग० । २ माघशुक्लचतुर्दश्यां ख०, ग० । ३ प्राप्त-ख० । ४ वपुःप्रमः ख० । ५ सोऽभात् ख०, ख०, ग०, घ० ।

सुखस्य तस्य को वेत्ति प्रमां मुक्तिमुखस्य चेत् । १ अनन्तरनितान्तत्वादानन्यावतिशुद्धितः ॥ २८ ॥  
 देवदेवस्तदैवासावासीद् विश्वसुरेश्वरैः । अभ्यर्चितां हिरागन्त्री केवलं केवलाल्मता ॥ २९ ॥  
 यशः प्रकाशयत्याशाः २ श्रीशः कुन्देन्दुनिर्मलम् । काशप्रसवनीकाशमाकारां चाकरोददः ॥ ३० ॥  
 त्रिशच्छतसहस्राब्दराज्यकालावसानम् । भोगान् विभज्य भुञ्जानो भूयः पङ्क्तुसम्भवान् ॥ ३१ ॥  
 हिमानीपटलच्छन्नदिग्भूरुहभूधरे । हेमन्ते हैमनीं लक्ष्मीं विलीनां वीक्ष्य तत्क्षणात् ॥ ३२ ॥  
 विरक्तः संसृतेः पूर्वनिजजन्मोपयोगवान् । रोगीव नितरां खिन्नो मानभङ्गविमर्शानात् ॥ ३३ ॥  
 सञ्जानैस्त्रिभिरप्येभिः किं कृत्यमवधौ स्थिते । वीर्येण च किमेतेन यद्युत्कर्षमनाप्तवत् ३ ॥ ३४ ॥  
 चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतः । बन्धश्चतुर्विधोऽप्यस्ति बहुमोहपरिग्रहः ॥ ३५ ॥  
 प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निर्जराप्यल्पिकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्यं माघान्यहमिहैव हि ॥ ३६ ॥  
 साहसं ४ पश्य भुञ्जेऽहं ५ भोगान्भोगानिवौरगान् । पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्मे सम्प्रवर्तते ॥ ३७ ॥  
 तस्य यावन्न थाय्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः । इतीवचित्तो विमलो विमलावगमोद्गमात् ॥ ३८ ॥  
 तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः । सुरैस्तृतीयकल्याणे विहिताभिषेवात्सवः ॥ ३९ ॥  
 देवदत्तां समारुह्य शिबिकाभमरैर्वृतः । विभुः सहेतुकोद्याने प्रात्राजीद् ध्रुपवासभाक् ॥ ४० ॥  
 माघशुक्लचतुर्थ्याहःप्रान्ते षड्विंशत्कर्षके । सहस्रनरपैः सार्द्धं प्राप्य तुर्यावबोधनम् ॥ ४१ ॥

बढ़कर उनकी और क्या स्तुति हो सकती थी ॥ २७ ॥ अत्यन्त विशुद्धताके कारण थोड़े ही दिन बाद जिन्हें मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होनेवाला है ऐसे विमलवाहन भगवान् के अनन्त सुखका वर्णन भला कौन कर सकता है ? ॥ २८ ॥ जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरणकमलोंकी पूजा की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे ॥ २९ ॥ लक्ष्मीके अधिपति भगवान् विमलवाहनका कुन्दपुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मल यश दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था और आकाशको काशके पुष्पके समान बना रहा था ॥ ३० ॥ इस प्रकार छह ऋतुओंमें उत्पन्न हुए भोगोंका उपभोग करते हुए भगवान्के तीस लाख वर्ष बीत गये ॥ ३१ ॥

एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और पर्वत बर्फसे ढक रहे थे ऐसी हेमन्त ऋतुमें बर्फकी शोभाको तत्क्षणमें विलीन होता देखा ॥ ३२ ॥ जिससे उन्हें उसी समय संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूर्व जन्मकी सब बातें याद आ गईं और मान-भंगका विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खेदखिन्न हुए ॥ ३३ ॥ वे सोचने लगे कि इन तीन सम्यग्ज्ञानोंसे क्या होने वाला है क्यों कि इन सभीकी सीमा है—इन सभीका विषय क्षेत्र परिमित है और इस वीर्यसे भी क्या लाभ है ? जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं है ॥ ३४ ॥ चूँकि प्रत्याख्यानावरण कर्मका उदय है अतः मेरे चारित्रका लेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह तथा परिग्रह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान है ॥ ३५ ॥ प्रमाद भी अभी मौजूद है और निर्जरा भी बहुत थोड़ी है । अहो ! मोहकी बड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संसारकी वस्तुओंमें मत्त हो रहा हूँ ॥ ३६ ॥ मेरा साहस तो देखो कि मैं अब तक सर्पके शरीर अथवा फणके समान भयंकर इन भोगोंको भोग रहा हूँ । यह अब भोगोपभोग मुझे पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए हैं ॥ ३७ ॥ सो जब तक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता जब तक मुझे अनन्त सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवान्ने अपने हृदयमें विचार किया ॥ ३८ ॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव किया ॥ ३९ ॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा घिरे हुए भगवान् देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ॥ ४० ॥ उन्होंने यह दीक्षा

१ अनन्तरं नितान्तत्वात् क०, घ० । २ श्रिया ईट् तस्य लक्ष्मीश्वरस्य । ३-मनाप्तवान् ग०, ङ० ।  
 ४ परिभुञ्जेऽमून् ङ० । ५ सर्पशरीरपीष ।

द्वितीयेऽह्नि पुरं<sup>१</sup> नन्दनाभिर्धं भुक्तयेऽविशत् । जयो नाम नृपस्तस्मै दत्त्वाऽन्नं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥  
 पञ्चाश्रयं<sup>२</sup> समापार्यं किञ्च वा पात्रदानतः । सामायिकं समादाय संयमं शुद्धचेतसा ॥ ४३ ॥  
 त्रिवत्सरमिते याते तपस्येव महामुनिः । निजदीक्षावने जग्बूद्गुममूले ह्युपोषितः ॥ ४४ ॥  
 माघे मासि सिते पक्षे षष्ठ्यां प्रेष्ठोपराहृके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकर्मविनाशनात् ॥ ४५ ॥  
 केवलावगमं प्रापत्सद्यो न्यासचराचरः । तदैवाप्यंश्च देवेन्द्राः स्वानमन्सुकुटाननाः ॥ ४६ ॥  
 देवदुन्दुभिमुख्याष्टप्रातिहार्यादिवैभवम् । प्राप्य तैर्गन्धकुञ्जन्तर्गतसिंहासने स्थितः ॥ ४७ ॥  
 मन्दरादिगणाधीशपञ्चपञ्चाशदाश्रुतः । शतोत्तरसहस्रोक्तपूज्यपूर्वधरैर्वृतः ॥ ४८ ॥  
 खत्रिपञ्चतुर्वह्युक्तशिक्षकैरुपलक्षितः । खट्वयाष्टचतुर्भेयत्रिविधावधिवन्दितः ॥ ४९ ॥  
 खट्वयेन्द्रियपञ्चाभिधेयकेवललोचनः । शून्यत्रयनवज्ञातविक्रियद्वयु<sup>३</sup>पट्टं हितः ॥ ५० ॥  
 खट्वयेन्द्रियपञ्चाधिगम्यतुर्यावबोधनः । खट्वयत्त्वंग्निनिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥  
 अष्टषष्टिसहस्रोक्तसर्वसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्रैकलक्षोक्तपञ्चार्याधार्यिकाचितः ॥ ५२ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकाचितः । पूर्वोक्तद्विगुणोपेतो धर्मक्षेत्रेण्वनारतम् ॥ ५३ ॥  
 भवात्तपपरिभ्रान्भव्यसस्याभितर्पकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतक्रियः ॥ ५४ ॥  
 खट्वयत्त्वंष्टसम्प्रोक्तयतिभिः प्रतिमां गतः । आषाढस्योत्तराषाढे कृष्णाष्टम्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥  
 सद्यः कृत्वा समुद्घातं सूक्ष्मं शुद्धं समाश्रितः । सम्यग्योगादयोगः सन्स्वास्थ्यं रोगीव सोऽगमत् ॥ ५६ ॥

माघशुक्ल चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छद्मबीसवें—उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ ली थी और उसी दिन वे चौथा—मनःपर्ययज्ञान प्राप्तकर चार ज्ञानके धारी हो गये थे ॥४१॥ दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमें प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा कनकप्रभुने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्रयं प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे तपस्या करने लगे ॥ ४२-४३ ॥ जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनके उपवासका नियम ले कर जासुनके वृक्षके नीचे ध्यानारूढ हुए ॥ ४४ ॥ फलस्वरूप माघशुक्ल षष्ठीके दिन सायंकालके समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान् विमलवाहनने अपने दीक्षाग्रहणके नक्षत्रमें घातिया कर्मोंका विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वे चर-अचर समस्त पदार्थोंको शीघ्र ही जानने लगे। उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाये हुए देव लोग आये। उन्होंने देवदुन्दुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहार्योंका वैभव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्ध-कुटीके मध्यमें स्थित सिंहासनपर विराजमान हुए ॥ ४५-४७ ॥ वे भगवान् मन्दर आदि पचपन गणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, ग्यारह सौ पूज्य पूर्वधारियोंसे सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सौ तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार आठसौ तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोंसे वन्दित थे, पाँच हजार पाँचसौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके संघकी वृद्धि करते थे, पाँच हजार पाँच सौ मनःपर्यय ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सौ वादियोंसे सहित थे, इस प्रकार अड़सठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे। पद्माको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे लाख श्रावकोंसे सहित थे तथा चार लाख श्राविकाओंसे पूजित थे। इनके सिवाय दो गणों अर्थात् असंख्यात देव देवियों और संख्यात तिर्यञ्चोंसे वे सहित थे। इस तरह धर्मक्षेत्रोंमें उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी आतपसे मुरझाये हुए भव्यरूपी धान्योंको संतुष्ट किया। अन्तमें वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हुए और वहाँपर उन्होंने एक मादका योग निरोध किया ॥ ४८-५४ ॥ आठ हजार छह सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा आषाढ कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तराषाढ नक्षत्रमें प्रातःकालके समय शीघ्र ही समुद्घात कर सूक्ष्म-क्रियाप्रतिपाती नामका शुक्तध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य (स्वरूपावस्थान) अर्थात् मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि कोई

तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्या कालाष्टमी बुधैः । तदेवालम्बनं कृत्वा मिथ्यादृग्भिश्च पूज्यते ॥ ५७ ॥  
कृत्वाऽन्त्येष्टिं तदाभ्येत्य सौधर्मप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिभिरर्थ्याभिरवन्दिपत निर्घृतम् ॥ ५८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

सन्तत्या मलसञ्चयः परिणतो हिंसादिभिः सन्ततं  
संसारे सुकृतात्ततो निजगुणा नेयुर्विशुद्धिं क्वचित् ।  
तानद्याहमवाप्य बुद्धिममलां शुद्धिं नयामीत्ययं  
शुक्लध्यानमुपाश्रितोऽतिविमलस्तस्माद्यथार्थाङ्गयः ॥ ५९ ॥

### वसन्ततिलका

श्रद्धानबोधरदनं गुणपुण्यमूर्ति—  
माराधना चरणमायतधर्महस्तम् ।  
सन्मार्गवारणमधारिमभिप्रचोद्य  
विध्वंसनाद्विमलवाहनमादुरेनम् ॥ ६० ॥

### मालिनी

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीशः  
सुरसमितिसमर्च्यः स्पष्टसौख्योऽष्टमेन्द्रः ।  
विपुलविमलकीर्तिविश्वविश्वम्भरेशो  
विमलजिनपतिः स्तात् सुष्ठुतस्तुष्टये वः ॥ ६१ ॥  
स्तिमिततमसमाधिध्वस्तनिःशेषदोषं  
क्रमगमकरणान्तर्द्धानहीनावबोधम् ।  
विमलममलमूर्तिं कीर्तिभाजं ध्रुभाजां  
नमत विमलताप्यै भक्तिभारेण भव्याः ॥ ६२ ॥

रोगी स्वास्थ्य ( नीरोग अवस्था ) प्राप्त करता है ॥ ५५-५६ ॥ उसी समयसे ले कर लोकमें आषाढ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नामसे विद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गई और इसी निमित्तको पाकर मिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥ ५७ ॥ उसी समय सौधर्म आदि देवोंने आकर उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवान्की अर्थपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे वन्दना की ॥ ५८ ॥

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मलका संचय करता रहता है और पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंको विशुद्ध बनाना चाहिये—पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिये । आज मैं निर्मल बुद्धि-शुद्धोपयोगकी भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्धि प्राप्त कराता हूँ—पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ' ऐसा विचार कर ही जो शुक्लध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान् अपने सार्थक नामको धारण करते थे ॥ ५९ ॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ही जिसके दो दाँत हैं; गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी सूँड है ऐसे सन्मार्गरूपी हाथीको पाप-रूपी शत्रुके प्रति प्रेरित कर भगवान् विमलवाहनने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट किया था इसलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन ( विमल वाहनं यानं यस्य सः विमलवाहनः—निर्मल सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥ ६० ॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करने-वाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विशाल निर्मलकीर्तिके धारक एवं समस्त पृथिवीके स्वामी विमलवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तोरहवें विमलनाथ तीर्थकर-अच्छी तरह आप लोगोंके संतोषके लिए हों ॥ ६१ ॥ हे भव्य जीवो ! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका



तीर्थे विमलनाथस्य सञ्जातौ रामकेशवौ । धर्मस्वयम्भूनामानौ तयोश्चरितमुच्यते ॥ ६३ ॥  
 विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूगुजः । स्ववशीकृतनिःशेषनिजभोग्यमहीतलः ॥ ६४ ॥  
 प्रजानामेष रक्तत्वात् प्रजाश्चास्य प्रपालनात् । सर्वदा वृद्धयेऽभूवन् भवेत्स्वार्था परार्थता ॥ ६५ ॥  
 स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्रं च धीमतः । चक्रबुद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात् ॥ ६६ ॥  
 अतृप्यदेष भूपालस्तर्पयित्वाऽखिलाः प्रजाः । परोपकारवृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तये ॥ ६७ ॥  
 स कदाचित्समास्ताद्य सुव्रतं जिनपुङ्गवम् । श्रुत्वा धर्मं सुधीर्मत्वा स्वाङ्गभोगादि भंगुरम् ॥ ६८ ॥  
 अङ्गिनो वत सीदन्ति सङ्गमादाहितांहसः । निःसङ्गतां न गच्छन्ति किं गतं न विदन्त्यमी ॥ ६९ ॥  
 इति निर्विद्य संसाराद् गृहीत्वा संयमं परम् । संन्यस्यागात् त्रयस्त्रिंशद्वाङ्घ्रिस्थितिरनुत्तरम् ॥ ७० ॥  
 ततो द्वारवतीपुर्यां सुतो भद्रमहीपतेः । सुभद्रायाश्च धर्माख्यः सोऽभूत्सुखमपूर्वकम् ॥ ७१ ॥  
 अमुस्मिन् भारते वर्षे कुणालविषये पुरम् । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुभोगतत्परः ॥ ७२ ॥  
 कामजे व्यसने द्यूते संसक्तः कर्मचोदितः । निषिद्धो मन्त्रिभिर्बन्धुवरेश्च बहुशो हितैः ॥ ७३ ॥  
 चोदितो वा स तैर्भूयो दीव्यन् दैवविलोमतः । राष्ट्रं वित्तं बलं देवी सर्वमस्यापहारितम् ॥ ७४ ॥  
 क्रोधजेषु त्रिषूक्तेषु कामजेषु चतुर्षु च । नापरं व्यसनं द्यूतास्त्रिकृष्टं प्रादुरागमाः ॥ ७५ ॥

ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका शरीर अत्यन्त निर्मल है और देव भी जिनकी कीर्तिका गान करते हैं ऐसे विमलवाहन भगवान्को निर्मलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥ ६२ ॥

अथानन्तर श्री विमलनाथ भगवान्के तीर्थमें धर्म और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है ॥ ६३ ॥ इसी भरतक्षेत्रके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी ॥ ६४ ॥ प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह प्रजाकी वृद्धिके लिए था और यह प्रजाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी—राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही है क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है ॥ ६५ ॥ उस बुद्धिमान्के लिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और जिसकी बुद्धि चक्रके समान फिरा करती थी—चंचल रहती थी उसके लिए क्रमका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शत्रुसेनाके समान हो जाती थी ॥ ६६ ॥ यह राजा समस्त प्रजाको संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था सो ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मनुष्योंके दूसरोंको संतुष्ट करनेसे ही अपना संतोष होता है ॥ ६७ ॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान् सुव्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा और वहाँ धर्मका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने लगा ॥ ६८ ॥ वह सोचने लगा—बड़े दुःखकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिग्रहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दुःखी हो रहे हैं फिर भी निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते—सब परिग्रह छोड़ कर दिगम्बर नहीं होते। बड़ा आश्चर्य है कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥ ६९ ॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास धारण कर अनुत्तर विमानमें तैतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ ७० ॥

वहाँसे चयकर द्वारवती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म नामका पुत्र हुआ ॥ ७१ ॥ इसी भारतवर्षके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर भोगोंमें तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था ॥ ७२ ॥ अशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी था, तथा द्यूत व्यसनमें आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेवाले मन्त्रियों और कुटुम्बियोंने उसे बहुत बार रोका पर उसके बदले उसने प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खेलता रहा और कर्मोदयके विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-बल और रानी सब कुछ हार गया ॥ ७३-७४ ॥ क्रोधसे उत्पन्न

महागुणेषु यत्सत्यमुक्तं प्राग् हार्यते हि तत् । द्यूतासक्तेन लज्जाभिमानं पश्चात्कुलं सुखम् ॥ ७६ ॥  
 सौजन्यं बन्धवो धर्मो द्रव्यं क्षेत्रं गृहं यथाः । पितरौ दारका दाराः स्वयं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥  
 न ज्ञानं भोजनं स्वापो निरोधाद्रोगमृच्छति । न याल्यथान् वृथा क्लेशी बहुदोषं चिनोत्यधम् ॥ ७८ ॥  
 करोति कुत्सितं कर्म जायते पारिपन्थिकः । याचतेऽन्येषु <sup>१</sup>वार्थार्थमकार्येषु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥  
 बन्धुभिः स परित्यक्तो राजभिर्याति यातनाम् । इति द्यूतस्य को दोषानुद्देश्यमपि शक्नुयात् ॥ ८० ॥  
 सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्यं च हारितम् । तस्माच्छोकद्वयं वाञ्छन् दूरतो द्यूतमुत्सृजेत् ॥ ८१ ॥  
 सुकेतुरिति सर्वस्वहानिशोकाकुलीकृतः । गत्वा सुदर्शनाचार्य<sup>२</sup>पादमूलं श्रुतागमः ॥ ८२ ॥  
 सद्यो निर्विद्य संसाराल्प्रज्याप्यञ्जुभाशयः<sup>३</sup> । शोकादन्नं समुत्सृज्य तपोभिरतिदुष्करैः ॥ ८३ ॥  
 दीर्घकालमलं तस्या कलागुणविदग्धता । बलं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुषः क्षये ॥ ८४ ॥  
 कृत्वा निदानं संन्यस्य लान्तवकल्पमास्थितः । तत्र दिव्यसुखं प्रापत्स चतुर्दशसागरम् ॥ ८५ ॥  
 ततः सोऽप्यवतीर्यात्र भद्रस्यैव महीभुजः । बभूव पृथिवीदेव्यां स्वयम्भूः सुनुषु प्रियः ॥ ८६ ॥  
 धर्मो बलः स्वयम्भूश्च केशवस्तौ परस्परम् । अभूतां प्रीतिसम्पन्नावन्वभूतां श्रियं चिरम् ॥ ८७ ॥  
 सुकेतुजातौ द्यूतेन निजित्य बलिना हठात् । स्वीकृतं येन तद्राज्यं सोऽभूद्दत्तपुरे मधुः ॥ ८८ ॥  
 तज्जन्मवैरसंस्कारसमेतेनाधुनामुना । तज्जामश्रुतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ ८९ ॥

होनेवाले मद्य, मांस और शिकार इन तीन व्यसनोमें तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुआ, चोरी, बेइया और पर-स्त्रीसेवन इन चार व्यसनोमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हारता है । पीछे लज्जा, अभिमान, कुल, सुख, सज्जनता, बन्धुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, यश, माता-पिता, बाल-बच्चे, स्त्रियाँ और स्वयं अपने आपको हारता है—नष्ट करता है । जुआ खेलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन आवश्यक कार्योंका रोध हो जानेसे रोगी हो जाता है । जुआ खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्द्य कार्य कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लोगोंसे याचना करने लगता है और धनके लिए नहीं करने योग्य कर्मोंमें प्रवृत्ति करने लगता है । बन्धुजन उसे छोड़ देते हैं—घरसे निकाल देते हैं, एवं राजाकी ओरसे उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं । इस प्रकार जुआके दोषोंका नामोल्लेख करनेके लिए भी कौन समर्थ है ? ॥ ७६-८० ॥ राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त है क्योंकि वह इस जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था । इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकोंका भला चाहता है वह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥ ८१ ॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका तब शोकसे व्याकुल होकर सुदर्शनाचार्यके चरण-मूलमें गया । वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली । यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था । उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया ॥ ८२-८३ ॥ इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमें निदान किया कि इस तपके द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥ ८४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्गमें देव हुआ । वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उपभोग करता रहा ॥ ८५ ॥ वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी पृथिवी रानीके स्वयंभू नामका पुत्र हुआ । यह पुत्र राजाको सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था ॥ ८६ ॥ धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था । दोनोंमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे ॥ ८७ ॥ सुकेतुकी पर्यायमें जिस बलवान् राजाने जुआमें सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मर कर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था ॥ ८८ ॥ पूर्व जन्मके

मधोः केनापि भूपे च प्रहितं प्राभृतं स्वयम् । घातयित्वाभयोर्दूतौ साधिक्षेपमगृह्यत ॥ ९० ॥  
 प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्नः संस्कारो जायते स्थिरः<sup>१</sup> । तस्मादप्रीतिमात्मज्ञो न कुर्यात्कापि कस्यचित् ॥ ९१ ॥  
 आकर्ण्य नारदाद् दूतमृत्युमावेशितक्रुधा । ययावभिसुखं योद्धुं रामकेशवयोर्भुधुः ॥ ९२ ॥  
 तौ च संग्रामसन्नद्धौ क्रुद्धौ युद्धविशारदौ । प्रापतुः सहसा हन्तुं तं यमानलसन्निभौ ॥ ९३ ॥  
 सैन्ययोरुभयोरासीत् संग्रामः संहरन्निव । परस्परं चिरं घोरः शूरयोर्भीरुभीप्रदः ॥ ९४ ॥  
 स्वयम्भुवं समुद्दिश्य तदा सोढा मधुः क्रुधा । ज्वलच्चक्रं विवर्त्यांशु न्यक्षिपत्तज्जिघांसया ॥ ९५ ॥  
 तद्गत्वाऽऽशु परीत्यैर्न भुजाग्रे दक्षिणे स्थितम् । अवतीर्थं मरुन्मार्गाद्गास्करस्येव मण्डलम् ॥ ९६ ॥  
 तदेवादाय सक्रोधः स्वयम्भूविद्विषं प्रति । \*प्रहित्यादादसुस्तस्य किं न स्यात् सुकृतोदयात् ॥ ९७ ॥  
 आधिपत्यं तदावाप्य भरतार्द्धस्य केशवः । वासवो वोऽन्वभूद्भोगान्निविर्त्रं स्वाग्रजान्वितः ॥ ९८ ॥  
 मधुः सत्त्वं समुत्सृज्य भूयः<sup>३</sup> संश्रितवान् रजः । बद्ध्वायुर्नारकं प्रापच्चिरं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥  
 केशवोऽपि तमन्वेष्टुमिव वैरानुबन्धनात् । तदेव<sup>४</sup> नरकं पश्चात्प्राविशत् पापपाक्ततः ॥ १०० ॥  
 बलोऽपि तद्विद्योगोत्थशोकसन्तप्तमानसः । निर्विद्य संसृतेः प्राप्य जितं विमलवाहनम् ॥ १०१ ॥  
 सामायिकं समादाय संयमं संयताग्रणीः । \*विग्रहे<sup>६</sup> विग्रहीवोत्रं निर्व्यग्रमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥  
 सद्वृत्तस्तेजसो मूर्तिर्धुन्वन्नभ्युदितस्तमः । असम्बाधमगादूर्ध्वं भास्वानिव बलोऽमलः ॥ १०३ ॥

वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था ॥ ८९ ॥ किसी समय किसी राजाने राजा मधुके लिए भेंट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनोंके दूतोंको मारकर तिरस्कारके साथ वह भेंट स्वयं छीन ली ॥ ९० ॥ आचार्य कहते हैं कि प्रेम और द्वेषसे उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कहीं किसीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए ॥ ९१ ॥ जब मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करनेके लिए बलभद्र और नारायणके सन्मुख चला ॥ ९२ ॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित बलभद्र और नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज और अग्निकी समानता रखनेवाले वे दोनों राजा मधुको मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ॥ ९३ ॥ दोनों शूरकी सेनाओंमें परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ ॥ ९४ ॥ अन्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता हुआ चक्र घुमा कर फेंका ॥ ९५ ॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी दाहिनी भुजाके अग्रभाग पर ठहर गया । उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशसे उतरकर सूर्यका बिम्ब ही नीचे आ गया हो ॥ ९६ ॥ उसी समय राजा स्वयंभूने कुपित होकर वह चक्र शत्रुके प्रति फेंका सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता ? ॥ ९७ ॥ उसी समय स्वयंभू-नारायण, आधे भरतक्षेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विघ्न उपभोग करने लगा ॥ ९८ ॥ राजा मधुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नरकायु बाँध कर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥ ९९ ॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कारसे उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १०० ॥ स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था ऐसा बलभद्र धर्म भी संसारसे विरक्त होकर भगवान् विमलनाथके समीप पहुँचा ॥ १०१ ॥ और सामायिक संयम धारण कर संयमियोंमें अग्रसर हो गया । उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके साथ विद्वेष ही ठान रक्खा हो ॥ १०२ ॥ उस समय बलभद्र ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्वृत्ता अर्थात् गोलाकार होता है उसी प्रकार बलभद्र भी सद्वृत्ता सदाचार से युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्ति स्वरूप होता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्ति स्वरूप

१ स्थितिः ग० । २ प्रहित्य अदात् असूत् तस्य इति पदच्छेदः । ३ संसृतिवीजम् ल० । ४ नारकं क०, घ० । ५ विग्रहे शरीरे । ६ विग्रही विद्वेषी ।

### वसन्ततिलका

ब्रूतेन मोहविहितेन विधीः स्वयम्भूः  
 यातो मधुश्च नरकं दुरिती दुरन्तम् ।  
 धर्मादिकं त्रितयमेव कुमार्गवृत्त्या  
 हेतुः श्रितं भवति दुःखपरम्परायाः ॥ १०४ ॥  
 क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेन्नदानं  
 तत्स्याद् दुरन्तदुरितोजितदुःखहेतुः ।  
 तेनाप मुक्तिपथगोऽप्यपथं सुकेतु-  
 स्त्याज्यं ततः खलसमागमवन्निदानम् ॥ १०५ ॥

### मालिनी

द्युतिविनिहतमिन्नो मिन्ननन्दी क्षितीशो  
 यमसमितिसमग्रोऽनुत्तराधीश्वरोऽभूत् ।  
 अनुभ्रणमितः सन् द्वारवत्यां सुधर्मः  
 परमपदमवापत्साधितात्मस्वरूपः ॥ १०६ ॥

### पृथ्वी

कुणालविषये सुकेतुरधिराड्भूद्दुर्मति-  
 स्ततः कृततपाः सुरोऽजनि सुखालये लान्तवे ।  
 कृतान्तसदृशो मधोरनुबभूव चक्रेश्वर-  
 स्ततश्च दुरितोदयाक्षितिमगात्स्वयम्भूरधः ॥ १०७ ॥

जिनस्यास्यैव तीर्थेऽभ्यौ गणेशौ मेरुमन्दरौ । तुङ्गौ स्थिरौ सुरैः सेव्यौ वक्ष्यामश्चरितं तयोः ॥ १०८ ॥

थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बलभद्रने मुनि होते ही अन्तरङ्गके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी कर्ममलके नष्ट हो जानेसे निर्मल थे और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावटके ऊपर आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन लोकके अग्रभाग पर जा विराजमान हुए ॥ १०३ ॥ देखो, मोह वश किये हुए जुआसे मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पापका संचय कर दुःखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि धर्म, अर्थ, काम इन तीनका यदि कुमार्ग वृत्तिसे सेवन किया जावे तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥ १०४ ॥ कोई उत्तम तपश्चरण करे और क्रोधादिके बशीभूत हो निदान-बंध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है । देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमार्गका पथिक था तो भी निदान-बन्धके कारण कुगतिको प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे ही छोड़ने योग्य है ॥ १०५ ॥ धर्म, पहले अपनी कान्तिसे सूर्यको जीतनेवाला मिन्ननन्दी नामका राजा हुआ, फिर महाव्रत और समितियोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तरविमानका स्वामी हुआ, वहाँसे चयकर पृथिवीपर द्वारावती नगरीमें सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्धकर मोक्ष पद-को प्राप्त हुआ ॥ १०६ ॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर सुखके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वर्गमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं पृथिवीमें गया ॥ १०७ ॥

अथानन्तर—इन्हीं विमलवाहन तीर्थकरके तीर्थमें अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देवोंके द्वारा सेवनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥ १०८ ॥

द्वीपेऽपरविदेहेऽस्मिन् सीतोदानद्युदकटे । विषये गन्धमालिन्यां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥  
 वैजयन्तो नृपस्तस्य देव्याः सर्वश्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥  
 सावन्येद्युरशोकाख्यवने तीर्थं कृतोऽन्तिके । धर्मं स्वयम्भुवः श्रुत्वा भोगनिर्वेदचोदितौ ॥ १११ ॥  
 संजयन्ततनूजाय वैजयन्ताय धीमते । दत्त्वा राज्यं समं पित्रा संयमं समवापतुः ॥ ११२ ॥  
 सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकपायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेशिताम् ॥ ११३ ॥  
 पितुः कैवल्यसम्प्राप्तिकल्याणे । धरणेशिनः । जयन्तो वीक्ष्य सौन्दर्यमैश्वर्यं च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥  
 धरणेन्द्रोऽभवन्मृत्वा दुर्मतिः स निदानतः । अत्यल्पं बहुमौल्येन गृह्णतो न हि दुर्लभम् ॥ ११५ ॥  
 अन्येषुः सञ्जयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम् । मनोहरपुराभ्यर्णभीमारण्यान्तरे यतिम् ॥ ११६ ॥  
 विद्युद्दंष्ट्राङ्गो विद्याधरो वीक्ष्याक्षमो रुषा । १ पूर्ववैरानुसन्धानस्मृत्युद्भूतातिवेगया ॥ ११७ ॥  
 उद्दंष्ट्रत्याख्ययाप्यद्वेषैरतेऽपाविदगाश्रिता । नदी कुसुमवत्याख्या हरवत्यभिधा परा ॥ ११८ ॥  
 सुवर्णगजवत्यौ च षण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपत्सङ्गमे तासामगाधे सखिले खलः ॥ ११९ ॥  
 अयं पापी महाकायो दानवो मानवाशनः । सर्वानस्मान् पृथग्दृष्ट्वा खादितुं निमृत्तं स्थितः ॥ १२० ॥  
 शरकुन्तादिशस्त्रैर्निवृणं सर्वभक्षणम् । वयं सर्वेऽपि सम्भूय हनामोऽखिलविद्विषम् ॥ १२१ ॥  
 उपेक्षितोऽयमद्यैव भुङ्क्तेऽक्षिर्बुभुक्षितः । भक्षयेद्युक्तितोऽवश्यं निशायां स्त्रीः शिशून्पशून् ॥ १२२ ॥  
 तस्मान्मद्भवनं यूयं प्रतीत किमहं ब्रूया । मृषा भाषे किमेतेन वैरमस्त्यत्र मे पृथक् ॥ १२३ ॥  
 इति तेन खगा मुग्धाः पुनः सर्वेऽपि नोदिताः । तथेति मृत्युसन्त्रस्ताः समस्ताः शस्त्रसंहतीः ॥ १२४ ॥  
 आदाय साधुमूर्धन्यं समाहितमहाधियम् । समन्ताद्दन्तुमारब्धा विश्रब्धं लुब्धकोपमाः ॥ १२५ ॥

जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है उसके वीतशोक नगरमें वैजयन्त राजा राज्य करता था । उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी और उन दोनोंके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सहित थे ॥ १०९-११० ॥ किसी दूसरे दिन अशोक वनमें स्वयंभू नामक तीर्थकर पधारे । उनके समीप जाकर दोनों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोनों ही भोगोंसे विरक्त हो गये ॥ १११ ॥ उन्होंने संजयन्तके पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमान् था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ११२ ॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात् बारहवें गुणस्थानमें संमस्त कषायोंका क्षय कर जिन्होंने समरसपना—पूर्ण वीतरागता प्राप्त कर ली है ऐसे वैजयन्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ ११३ ॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धरणेन्द्र भी आया । धरणेन्द्रके सौन्दर्य और बहुत भारी ऐश्वर्यको देखकर जयन्त मुनिने धरणेन्द्र होनेका निदान किया । उस निदानके प्रवाहसे वह दुर्बुद्धि मर कर धरणेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुर्लभ नहीं है ॥ ११४-११५ ॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि, मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे ॥ ११६ ॥ वहींसे विद्युद्दंष्ट्रा नामका विद्याधर निकला । वह पूर्वभवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीव्र वेगसे युक्त क्रोधसे आगे बढ़नेके लिए असमर्थ हो गया । वह दुष्ट उन मुनिराजको उठा लाया तथा भरतक्षेत्रके इला नामक पर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ कुसुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती और षण्डवेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ॥ ११७-११८ ॥ इतना ही नहीं उसने भोले-भाले विद्याधरोंको निम्नाङ्कित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया । वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्योंको खानेवाला पापी राक्षस है, यह हम सबको अलग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्यको हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रोंके समूहसे मारें, देखो, यह भूखा है, भूखसे इसका पेट भुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही स्त्रियों-बच्चों

सोऽपि सर्वसहिष्णुः सन् वज्रकायोऽच्छलाकृतिः । निश्चलो निर्द्विंतिं यातः शुक्लध्यानेन शुद्धधीः ॥ १२६ ॥  
 सर्वे निर्वाणकल्याणपूजां कर्तुं सुराधिपाः । चतुर्विधाः समं प्रापंस्तदा तद्भक्तिकोदिताः ॥ १२७ ॥  
 स्वाग्रजाङ्गक्षणेद्भूतनृतीयावगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाशेन तान् बन्ध्वाखिलान् खगान् ॥ १२८ ॥  
 नास्माकं देव दोषोऽस्ति विद्युद्दंष्ट्रेण पापिना । विदेहादमुमानीय भयं चास्मात्खचारिणाम् ॥ १२९ ॥  
 प्रतिपाद्य जनैरभिरकारि त्रिविधो मुधा । महोपसर्गं इत्याहुस्तेषु केचिद्विचक्षणाः ॥ १३० ॥  
 श्रुत्वा तन्नागराजोऽपि तेषु कालुष्यमुत्सृजन् । विद्युद्दंष्ट्रं पयोराशौ सबन्धुं क्षेप्तुमुद्यतः ॥ १३१ ॥  
 आदित्याभस्तदा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत् । मध्ये ज्ञातानुबन्धो वा धातुप्रत्यययोः परः ॥ १३२ ॥  
 कृतदोषोऽस्त्ययं नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शान्यतां क्षुद्रे कः कोपस्त्वादृशां पणौ ॥ १३३ ॥  
 पुरादितीर्थकृत्काले भवद्वंशसमुद्भवैः । वंशोऽस्य निमित्तो वत्सा विद्या विद्याधरेशिनाम् ॥ १३४ ॥  
 १संबद्धं विषवृक्षं च छेतुं स्वयमवैतु कः । इत्यावालप्रसिद्धं किं न वेत्ति विषभृत्यते ॥ १३५ ॥  
 इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः प्रत्युवाच तपोधनम् । मदग्रजमयं दुष्टां निर्हेतुकममीमरत् ॥ १३६ ॥  
 तद्भ्रुवं मम हन्तव्यो न निषेधं त्वयार्थितम् । मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान् वृथा ॥ १३७ ॥  
 वैरं बहसि ते भ्राता जातौ जातोऽयमेव किम् । विद्युद्दंष्ट्रो न किं भ्राता सञ्जातः संसृतौ भ्रमन् ॥ १३८ ॥

तथा पशुओंको खा जावेगा । इसलिए आप लोग मेरे वचनों पर विश्वास करो, मैं वृथा ही भूठ क्यों बोलूँगा ? क्या इसके साथ मेरा द्वेष है ? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुष्यको ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शत्रुओंका समूह लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब ओरसे मारने लगे ॥ १२०-१२५ ॥ जयन्त मुनिराज भी इस समस्त उपसर्गको सह गये, उनका शरीर वज्रके समान सुदृढ़ था, वे पर्वतके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्लध्यानके प्रभावसे निर्मल ज्ञानके धारी मोक्षको प्राप्त हो गये ॥ १२६ ॥ उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिसे प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणकी पूजा करनेके लिए आये ॥ १२७ ॥ सब देवोंके साथ पूर्वोक्त धरणेन्द्र भी आया था, अपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे उसे अधिज्ञान प्रकट हो गया जिससे वह बड़ा कुपित हुआ । उसने उन समस्त विद्याधरोंको नागपाशसे बाँध लिया ॥ १२८ ॥ उन विद्याधरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान् भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव ! इस कार्यमें हम लोगोंका दोष नहीं है, पापी विद्युद्दंष्ट्र इन्हें विदेह क्षेत्रसे उठा लाया और विद्याधरोंको इसने बतलाया कि इनसे तुम सबको बहुत भय है । ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोंसे व्यर्थ ही यह महान् उपसर्ग करवाया है ॥ १२९-१३० ॥ विद्याधरोंकी प्रार्थना सुनकर धरणेन्द्रने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवारसहित विद्युद्दंष्ट्रको समुद्रमें गिराने का उद्यम किया ॥ १३१ ॥ उसी समय वहाँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विद्युद्दंष्ट्र और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभका उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध गुण—व्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञा विशेषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ वह कहने लगा कि हे नागराज ! यद्यपि इस विद्युद्दंष्ट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिये । आप जैसे महापुरुषोंका इस छद्र पशु पर क्रोध कैसा ? ॥ १३३ ॥ बहुत पहले, आदिनाथ तीर्थकरके समय आपके वंशमें उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके द्वारा विद्याधरोंकी विद्याएं देकर इसके वंशकी रचना की गई थी । लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-वृक्षको भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज ! आप क्या यह बात नहीं जानते ? ॥ १३४-१३५ ॥ जब आदित्याभ यह कह चुका तब नागराज-धरणेन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बड़े भाईको अकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जावेगा । इस विषयमें आप मेरी इच्छाको रोक नहीं सकते ।' यह सुनकर बुद्धिमान् देवने कहा कि—'आप वृथा ही वैर धारण कर

बन्धुः कः को न वा बन्धुः बन्धुताबन्धुताद्वयम् । संसारे परिवर्तेत १विदामत्राग्रहः कुतः ॥ १३९ ॥  
 कृतापराधे आता ते विद्युद्द्रष्टृमदण्डयत् । ततोऽयं स्मृततज्जन्मा मुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥  
 अग्रजं तव पापोऽयं प्राक्तजन्मचतुष्टये । महावैरानुबन्धेन २लोकान्तरमजीगमत् ॥ १४१ ॥  
 अस्मिन् जन्मन्यमुं मन्ये मुनेरस्योपकारकम् । खगमेतत् कृतं सोढायन्मुक्तिमयमेथिवान् ॥ १४२ ॥  
 आस्तां तावदिदं भद्रं भद्रं निर्वृत्तिकारणम् । प्राक्तनस्यापकारस्य वद केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥  
 इत्याकर्ण्य फणीन्द्रस्तत्कथ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुक्तासावादित्याभं समुत्सुकाः ॥ १४४ ॥  
 शृणु वैरं विद्युज्यास्मिन् बुद्धिमान् शुद्धचेतसा । तत्प्रपञ्चं वदामीति देवो विस्पष्टमभ्यधात् ॥ १४५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो महीपतिः । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥  
 श्रीभूतिः सत्यघोषाङ्गो मन्त्री तस्य महीपतेः । श्रुतिस्मृतिपुराणादिशास्त्रविद् ब्राह्मणोत्तमः ॥ १४७ ॥  
 पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठिसुदत्ताख्यसुमित्रयोः । भद्रमित्रः सुतो रत्नद्वीपे पुण्योदयात्स्वयम् ॥ १४८ ॥  
 उपाजितपराधोऽरत्नः सिंहपुरे स्थिरम् । तिष्ठासुर्मन्त्रिणं दृष्ट्वा सर्वमावेष्ट तन्मतात् ॥ १४९ ॥  
 तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स बान्धवान् । आनेतुं पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्माच्चिदर्थं सः ॥ १५० ॥  
 पुनरभ्येत्य रत्नानि सत्यघोषमयाचत । सोऽपि तद्गत्नमोहेन न जानामीत्यपाङ्कत ॥ १५१ ॥  
 भद्रमित्रोऽपि प्लकारं सर्वतो नगरेऽकरोत् । सत्यघोषोऽपि पापिष्ठैरेष चौरैरभिद्रुतः ॥ १५२ ॥

रहे हैं । इस संसारमें क्या यही तुम्हारा भाई है ? और संसारमें भ्रमण करता हुआ विद्युद्द्रष्टृ क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ । इस संसारमें कौन बन्धु है ? और कौन बन्धु नहीं है ? बन्धुता और अबन्धुता दोनों ही परिवर्तनशील हैं—आज जो बन्धु है वह कल अबन्धु हो सकता है और आज जो अबन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्वानोंको आग्रह क्यों होना चाहिये ? ॥ १३६-१३९ ॥ पूर्व जन्ममें अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयन्तने विद्युद्द्रष्टृके जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूर्वजन्मकी वह बात याद आ गई अतः इसने मुनिका अपकार किया है ॥ १४० ॥ इस पापीने तुम्हारे बड़े भाईको पिछले चार जन्मोंमें भी महावैरके संस्कारसे परलोक भेजा है—मारा है ॥ १४१ ॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार करनेवाला मानता हूँ क्योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्गको सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ १४२ ॥ हे भद्र ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिये । आप यह कहिये कि पूर्व-जन्ममें किये हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ? ॥ १४३ ॥

यह सुनकर धरणिन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है ? आप मुझसे कहिये ॥ १४४ ॥ वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान् ! इस विद्युद्द्रष्टृ पर वैर छोड़कर शुद्ध हृदयसे सुनो, मैं वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ ॥ १४५ ॥

इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था उसकी रामदत्ता नामकी पतिव्रता रानी थी ॥ १४६ ॥ उस राजाका श्रीभूति नामका मंत्री था, वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि शास्त्रोंका जानने वाला था, उत्तम ब्राह्मण था और अपने आपको सत्यघोष कहता था ॥ १४७ ॥ उसी देशके पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुवृत्त नामकासेठ रहता था। उसकी सुमित्रा स्त्रीसे मद्रमित्र नामकापुत्र हुआ उसने पुण्योदयसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं बहुतसे बड़े-बड़े रत्न कमाये । उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया और वहाँ स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने लगा । उसने श्रीभूति मंत्रीसे मिलकर सब बात कही और उसकी संमतिसे अपने रत्न उसकेहाथमें रखकर अपने भाई-बन्धुओंको लेनेके लिए वह पद्मखण्ड नगरमें गया । जब वहाँसे वापिस आया तब उसने सत्यघोषसे अपने रत्न माँगे परन्तु रत्नोंके मोहमें पड़कर सत्यघोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता ॥ १४८-१५१ ॥ तब भद्रमित्रने सब नगरमें रोना-चिल्लाना शुरू किया और सत्यघोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके लिए लोगोंको यह बतलाया कि पापी चोरोंने इसका सब धन लूट लिया है । इसी शोकसे इसका

सर्वस्वहरजोद्भूतशोकव्याकुलिताशयः । प्रलापीति जनानेतत् स्वप्रामाण्यादजिग्रहत् ॥ १५३ ॥  
 समक्षं भूपतेरात्मशुद्धयर्थं शपथं च सः । धर्माधिकृतनिर्दिष्टं चकाराचारदूरगः ॥ १५४ ॥  
 भद्रमित्रोऽपि पापेन वञ्चितोऽहं निजातिना । द्विजातिनेत्यनाथोऽपि नामुञ्चन् पृच्छति मुहुः ॥ १५५ ॥  
 चतुर्विधोपघा शुद्धं युक्तं जात्यादिभिर्गुणैः । त्वां सत्यं सत्यघोषाङ्गं मत्वा मन्त्रिगुणोत्तमम् ॥ १५६ ॥  
 यथा न्यासीकृतं हस्ते तव रत्नकरण्डकम् । किमेवमपलापेन हेतुं तद्ब्रूहि युज्यते ॥ १५७ ॥  
 सिंहसेनमहाराजप्रसादेन न तेऽस्ति किम् । छत्रसिंहासने मुक्त्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ॥  
 धर्मं यशो महत्त्वं च किं वृथैव विधातयेः । न्यासापह्नवदोषं किं न वेत्सि स्मृतिपूदितम् ॥ १५९ ॥  
 एतदेवार्थशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम् । यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयते परैः ॥ १६० ॥  
 इत्यत्र परशब्दार्थे विपर्येयि परो मतः । तत्र शत्रुरहं किं भोः सत्यघोष रिपुस्तव ॥ १६१ ॥  
 सद्भावप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता । अङ्गमारुह्य सुप्तस्य हन्तुः किं नाम पौरुषम् ॥ १६२ ॥  
 महामोहग्रहप्रस्त-श्रीभूते भाविजन्मना । त्वं तन्मा नीनशो देहि मह्यं रत्नकरण्डकम् ॥ १६३ ॥  
 ईदृश्येतत्प्रमाणानि जातिस्तेषामिदं स्वयम् । जानंश्च मम रत्नानि किमित्येवमपह्नुषे ॥ १६४ ॥  
 एवं नित्यं निशाप्रान्ते रोरौत्यारुह्य भूरुहम् । कृत्ये कृच्छ्रेऽपि सत्त्वाढ्या न त्यजन्ति ससुधमम् ॥ १६५ ॥  
 मुहुमुहुस्तदाकर्ण्य महादेव्या मनस्यभूत् । जानेऽहं नायमुन्मत्तः सर्वदानुगतं वदन् ॥ १६६ ॥  
 इति सावेध भूपालं धृतोपायेन मन्त्रिणम् । जित्वा यज्ञोपवीतेन सार्द्धं तन्नाममुद्रिकाम् ॥ १६७ ॥  
 दत्त्वा निपुणमत्याख्यघात्रीकरतले मिथः । प्रहितं मन्त्रिणा देहि भद्रमित्रकरण्डकम् ॥ १६८ ॥

चित्त व्याकुल हो गया है आर उसी दशामें वह यह सब वक रहा है ॥ १५२-१५३ ॥ सदाचारसे दूर रहने वाले उस सत्यघोषने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजाके समक्ष धर्माधिकारियों—न्यायाधीशोंके द्वारा बतलाई हुई शपथ खाई ॥ १५४ ॥ भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यही कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मणने मुझे ठग लिया ॥ १५५ ॥ हे सत्यघोष ! मैंने तुम्हें चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मंत्रियोंके उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष समझा था इसलिए ही मैंने अपना रत्नोंका पिटारा तेरे हाथमें सौंप दिया था, अब इस तरह तू क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका कारण क्या है और यह सब करना क्या ठीक है ? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है ? छत्र और सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है ॥ १५६-१५८ ॥ फिर धर्म, यश और बड़प्पनको व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है ? क्या तू स्मृतियोंमें कहे हुये न्यासापहारके दोषको नहीं जानता ? ॥ १५९ ॥ तूने जो निरन्तर अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है क्या उसका यही फल है कि तू सदा दूसरोंको ठगता है और दूसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥ १६० ॥ अथवा तू पर शब्द का अर्थ विपरीत समझता है—पर का अर्थ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सो हे सत्यघोष ! क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ ? ॥ १६१ ॥ सद्भावनासे पासमें आये हुए मनुष्योंको ठगनेमें क्या चतुराई है ? गोद आकर सोये हुएको मारने वालेका पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ है ? हे श्रीभूति ! तू महामोह रूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवनको नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा मुझे दे दे ॥ १६२-१६३ ॥ मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है ? ॥ १६४ ॥ इस प्रकार वह भद्रमित्र प्रति दिन प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार रोता था सो ठीक ही है क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥ १६५ ॥ बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूँकि यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है ॥ १६६ ॥ रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये और मंत्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नामकी अंगूठी जीत ली ॥ १६७ ॥ तदनन्तर उसके

१ स्मृतिनिन्दितम् ख०, ग० । स्मृतिदूषितम् ख० । २ सुप्तानां हेतुः (?) ख० । ३ नित्ये ख० ।

४ च—पुस्तकेऽयं श्लोक उज्जितः ।



अभिज्ञानं च तस्यैतदित्युक्त्वा साक्षिधानृतः । तदानयेति सन्दिश्य १ धात्रीमानीनयत्तदा ॥ १६९ ॥  
 तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम् । भद्रमित्रं समाहूय रहस्येतरुवेत्तव ॥ १७० ॥  
 २ इत्युक्तः स भवेदेव ममैव तत्करण्डकम् । किन्तु रत्नान्यनभ्याणि मिश्रितान्यत्र कानिचित् ॥ १७१ ॥  
 एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति शुद्धधीः । स्वरत्नान्येव सत्योक्तिर्जग्राहोत्काग्रणीः सताम् ॥ १७२ ॥  
 सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सत्यघोषाङ्कसङ्गतम् । ज्येष्ठं श्रेष्ठिपदं मद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥  
 सत्यघोषो मृषावादी पापी पापं समाचरन् । धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति भूभुजा ॥ १७४ ॥  
 प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्टाख्यमल्लस्य त्रिंशद्भूजिताः ॥ १७५ ॥  
 कांस्यपात्रत्रयापूर्णनवगोमयभक्षणम् । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृह्णन् ३ पुररक्षकाः ॥ १७६ ॥  
 नृपेऽनुबन्धवैरः सन् मृत्वाचंध्यानदूषितः । द्विजिह्वोऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥  
 अन्यायेनान्यवित्तस्य स्वीकारश्चौर्यमुच्यते । नैसर्गिकं निमित्तोत्थं ४ तदेवं द्विविधं स्मृतम् ॥ १७८ ॥  
 आद्यमाजन्मनो लोभनिकृष्टस्पर्द्धाकोदयात् । सत्यप्यर्थे गृहे स्वस्य कोटीकोट्यादिसङ्ख्यया ॥ १७९ ॥  
 न चौर्येण विना तोषः सत्याये सति च व्यये । तद्वत्स्तादृशो भावः सर्वेषां वा क्षुधादितः ५ ॥ १८० ॥  
 ६ स्त्रीसुतादिव्यथाशक्तेर्विनार्थादितरुवेत् । तच्च लोभोदयेनैव दुर्विपाकेन केनचित् ॥ १८१ ॥

निपुणमती नामकी धायके हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समझाया कि 'तू श्रीभूति मंत्रीके घर जा और उनकी स्त्रीसे कह कि मुझे मंत्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्रको पिटारा दे दे । पहिचानके लिए उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं इस प्रकार भूठ-भूठ ही कह कर तू वह रत्नोंका पिटारा ले आ, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्ताने धाय भेजकर मंत्रीके घरसे वह रत्नोंका पिटारा बुला लिया ॥ १६८-१६९ ॥ राजाने उस पिटारेमें और दूसरे रत्न डालकर भद्रमित्रको स्वयं एकान्तमें बुलाया और कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥ १७० ॥ राजाके ऐसा कहने पर भद्रमित्रने कहा कि हे देव ! यह पिटारा तो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला दिये गये हैं ॥ १७१ ॥ इनमें ये रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं इस तरह कहकर सच बोलनेवाले, शुद्धबुद्धिके धारक तथा सज्जनोंमें श्रेष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न ले लिये ॥ १७२ ॥ यह जान कर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने भद्रमित्रके लिए सत्यघोष नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट सेठका पद दे दिया—भद्रमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया और उसका 'सत्यघोष' उपनाम रख दिया ॥ १७३ ॥ सत्यघोष मंत्री भूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं इसलिए इसे दण्डित किया जावे इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कहे अनुसार राजाने उसे दण्ड दिये जानेकी अनुमति दे दी ॥ १७४ ॥ इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षकोंने श्रीभूति मंत्रीके लिए तीन दण्ड निश्चित किये—१ इसका सब धन छीन लिया जावे, २ वज्रमुष्टि पहलवानके मजबूत तीस घूसे दिये जावें, और ३ कांसेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया गोबर खिलाया जावे, इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥ १७५-१७६ ॥ श्रीभूति राजाके साथ बैर बाँधकर आर्तध्यानसे दूषित होता हुआ मरा और मरकर राजाके भाण्डारमें अगन्धन नामका साँप हुआ ॥ १७७ ॥

अन्यायसे दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गई है एक जो स्वभावसे ही होती और दूसरी किसी निमित्तसे ॥ १७८ ॥ जो चोरी स्वभावसे होती है वह जन्मसे ही लोभ कषायके निकृष्ट स्पर्द्धाकोका उदय होनेसे होती है । जिस मनुष्यके नैसर्गिक चोरी करनेकी आदत होती है उसके घरमें करोड़ोंका धन रहने पर भी तथा करोड़ोंका आय-व्यय होने पर भी चोरीके बिना उसे संतोष नहीं होता । जिस प्रकार सबको लुधा आदिकी बाधा होती है उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है ॥ १७९-१८० ॥ जब घरमें स्त्री-पुत्र आदिका खर्च अधिक होता

१ धात्रीमानीनात्तदा ( १ ) ल० । २ इत्युक्ते ख० । ३ निरुहन् ल० । ४ तदेव ल० । ५ क्षुधादिकाः ख० । ६ स्त्रीसुतादि क०, ख०, ग०, घ० ।

द्वयेन तेन बध्नाति दुरायुर्दुष्टचेष्टया । दुर्गतौ तच्चिरं दुःखं दुरन्तं ह्यनुभावयेत् ॥ १८२ ॥  
 सौजन्यं हन्यते भ्रंशो विश्रम्भस्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणपर्यन्ता मित्रबन्धादिभिः सह ॥ १८३ ॥  
 गुणप्रसवसन्देहा कीर्तिरभ्लानमालिका । लतेव दावसंश्लिष्टा सद्यश्चौर्येण हन्यते ॥ १८४ ॥  
 इतीदं जानता सर्वं सत्यघोषेण दुधिया । आद्यांशकेन चौर्येण साहसं तदनुष्ठितम् ॥ १८५ ॥  
 सद्यो मन्त्रिपदाद् भ्रष्टो निग्रहं तादृशं गतः । दुर्गतिं च पुनः प्राप्तो महापापानुबन्धिनीम् ॥ १८६ ॥  
 इत्यमात्यस्य दुर्वृत्तं राजाऽऽत्मनि विचिन्तयन् । धर्मिलाख्याय विप्राय तत्साचिव्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥  
 काले गच्छति सत्येवमन्येद्युरसनाटवी- । पर्यन्तविमलाद्युक्तिकान्तरक्षमाभृति स्थितम् ॥ १८८ ॥  
 वरधर्मयतिं प्राप्य भद्रमित्रवर्णगवरः । श्रुत्वा धर्मं धनं दाने त्यजन्तमतिमात्रया ॥ १८९ ॥  
 तस्य माता सुमित्राख्यासहमानातिकोपिनी । काले मृत्वासनाटव्यां शार्दूलभूयमागता ॥ १९० ॥  
 यहच्छया वनं यातमवलोक्य दुराशया । साऽखादत्स्वसुतं कोपाच्चिरं किं ३नाश्यमङ्गिनाम् ॥ १९१ ॥  
 स स्नेहाद्रामदत्तायाः सिंहचन्द्रः सुतोऽभवत् । पूर्णचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूपतेस्तावतिप्रियौ ॥ १९२ ॥  
 भाण्डागारावलोकार्थं कदाचिन्तृपतिं गतम् । दशति स्म निजक्रोधाश्चाक्षुःश्रुतिरगन्धनः ॥ १९३ ॥  
 तदा गरुडदण्डेन सर्पानाहूय मन्त्रतः । निर्दोषोऽमुं प्रविश्यामि निर्गतः शुद्धिमान्पुन्यात् ॥ १९४ ॥  
 अन्यथा निग्रहीष्यामीत्युक्ता विषधराः परे । जलाशयादिवाङ्मेशान्निर्यान्ति स्म हुताशनात् ॥ १९५ ॥

है और घरमें धनका अभाव होता है तब दूसरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह भी लोभ कषाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्मके उदयसे होती है ॥ १८१ ॥ यह जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे अशुभ आयुका वन्य करता है और अपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥ १८२ ॥ चोरी करनेवालेकी सज्जनता नष्ट हो जाती है, धनादिके विषयमें उसका विश्वास चला जाता है, और मित्र तथा भाई-बन्धुओंके साथ उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है ॥ १८३ ॥ जिस प्रकार दावानलसे छुई हुई लता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी हुई कीर्तिरूपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ १८४ ॥ यह सब जानते हुए भी मूर्ख सत्यघोष ( श्रीभूति )ने पहली नैसर्गिक चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥ १८५ ॥ इस चोरीके कारण ही वह मंत्री पदसे शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे बँधी हुई दुर्गतिमें जाना पड़ा ॥ १८६ ॥ इस प्रकार अपने हृदयमें मंत्रीके दुराचारका चिन्तवन करते हुए राजा सिंहसेनने उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए दे दिया ॥ १८७ ॥

इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नामके वनमें विमलकान्तार नामके पर्वत पर विराजमान वरधर्म नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भद्रमित्रने धर्मका स्वरूप सुना और अपना बहुत-सा धन दानमें दे दिया। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अतः अत्यन्त क्रुद्ध हुई और अन्त में मरकर उसी असना नामके वनमें व्याघ्री हुई ॥ १८८-१८९ ॥ एकदिन भद्रमित्र अपनी इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्याघ्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया सो ठीक ही है क्योंकि क्रोधसे जीवोंका क्या भक्ष्य नहीं हो जाता ? ॥ १८९ ॥ वह भद्रमित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ। ये दोनों ही पुत्र राजाको अत्यन्त प्रिय थे ॥ १९० ॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डागार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्यघोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकीय क्रोधसे डस लिया ॥ १९१ ॥ उस गरुडदण्ड नामक गारुड़ीने मन्त्रसे सब सर्पोंको बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोष हो वह अग्निमें प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे ॥ १९२ ॥ अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं दण्डित करूँगा। इस प्रकार कहने पर अगन्धनको छोड़ वाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके बिना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल

भगन्धनस्तु तद्ब्रह्मै भस्मितः कोपमानवान् । कालकाल्ये वने जज्ञे सखोभश्चमरो मृगः ॥ १९६ ॥  
 सिंहसेनोऽपि कालान्ते सामजः सल्लकीवने । सम्भूयाशनघोषाख्यां समवाप मदोद्दुरः ॥ १९७ ॥  
 सिंहचन्द्रोऽभवद्राजा यौवराज्येऽजनीतरः । भुञ्जानयोस्तयोर्लक्ष्मीं काले क्षण इवायति ॥ १९८ ॥  
 कदाचित्सिंहसेनोपरतवार्ताश्रुतेरिते<sup>१</sup> । द्रष्टुं दान्तहिरण्यादिमती संयमसंयुते ॥ १९९ ॥  
 समीपे रामदत्तापि तयोः संयममाददौ । तच्छोकाल्सिंहचन्द्रोऽपि पूर्णचन्द्रयति श्रितः ॥ २०० ॥  
 श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म यदि याति वृथा नृणाम् । कुतः पुनरिहोत्पत्तिर्नान्तिरेवेति शिन्तयन् ॥ २०१ ॥  
 कृत्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे<sup>२</sup> । गुणस्थानं विशुद्धयन्<sup>३</sup> स<sup>४</sup> प्रमादपरिवर्जनात् ॥ २०२ ॥  
 स्वचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्षं च लब्धवान् । रामदत्ता कदाचित्तं दृष्ट्वा सञ्जातसम्भवा ॥ २०३ ॥  
 मनोहरवनोद्याने वन्दित्वा विधिपूर्वकम् । तत्तपोविघ्नसम्प्रश्नपर्यन्ते पुत्रवत्सला ॥ २०४ ॥  
 पूर्णचन्द्रः परित्यज्य धर्मं भोगे कृतादरः । प्रत्येत्युत न वा धर्ममसावित्यन्वयुक्त सा ॥ २०५ ॥  
 प्रत्याह सिंहचन्द्रोऽपि युष्मद्धर्मं ग्रीह्यति । मा भूत्खेदः कथां चास्य शृणुतान्यभवाश्रिताम् ॥ २०६ ॥  
 कौशले विषये वृद्धग्रामे नाम्ना मृगायणः । विप्रस्तस्याभवद्धर्मपत्नी च मधुराह्वया ॥ २०७ ॥  
 तत्सुता वारुणीसञ्ज्ञा जीवितान्ते मृगायणः । साकेतार्धाशिनो दिव्यबलस्य सुमतेश्च सः ॥ २०८ ॥  
 सुता हिरण्यवत्यासीत्सुरभ्यविषये पुरे । पोदनेऽधीशिने पूर्णचन्द्रायादायि सा सती ॥ २०९ ॥

आये हों ॥ १९५ ॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानसे भरा था अतः उस अग्निमें जल गया और मरकर कालक नामक वनमें लोभ सहित चमरी जातिका मृग हुआ ॥ १९६ ॥ राजा सिंहसेन भी आयुके अन्तमें मरकर सल्लकी वनमें अशनिघोष नामका मदोन्मत्त हाथी हुआ ॥ १९७ ॥

इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ और पूर्णचन्द्र युवराज बना । राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥ १९८ ॥ तब एक दिन राजा सिंहसेनकी मृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमति और हिरण्यमति नामकी संयम धारण करनेवाली आर्यिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आईं ॥ १९९ ॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप संयम धारण कर लिया । इस शोकसे राजा सिंहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजके पास गया और धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा नाना योनियोंमें भटकना ही बाकी रह जाता है ॥ २००-२०१ ॥ इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचन्द्रको राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली । वह प्रमादको छोड़कर विशुद्ध होता हुआ संयमके द्वितीय गुणस्थान अर्थात् अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥ २०२ ॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ । किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हर्षित हुई ॥ २०३ ॥ उसने मनोहरवन नामके उद्यानमें विधि पूर्वक उनकी वन्दना की, तपके निर्विघ्न होनेका समाचार पूछा और अन्तमें पुत्रस्नेह के कारण यह पूछा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं ? ॥ २०४-२०५ ॥ सिंहचन्द्र मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्मको ग्रहण करेगा । मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखने वाली कथा कहता हूँ सो सुनो ॥ २०६ ॥

कोशल देशके वृद्ध नामक ग्राममें एक मृगायण नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मधुरा था ॥ २०७ ॥ उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण आयुके अन्तमें मरकर साकेत-नगरके राजा दिव्यबल और उसकी रानी सुमतिके हिरण्यवती नामकी पुत्री हुई । वह सती

१ मरणावार्ताश्रवणात् इतै—प्राप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थः । २ संयमम् क०, ग०, घ० । ३ सन् क०, ख०, ग०, घ०, स०, छ० । ४ प्रमादपरिवर्जनात् क०, घ० ।

मधुराऽपि तयोर्जाता रामदत्ता त्वमुत्तमा । भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतोऽभवत् ॥ २१० ॥  
 वारुणी पूर्णचन्द्रोऽयं त्वल्पिता भद्रबाहुतः । गृहीतसंयमोऽद्यात्र संबृत्तो गुरुरावयोः ॥ २११ ॥  
 माता ते दान्तमल्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरद्य ते । सिंहसेनोऽहिना दष्टः करीन्द्रोऽशनिघोषकः ॥ २१२ ॥  
 भूत्वा वने भ्रमन्मत्तो मामालोक्य जिघांसया । धावति स्म मयाऽऽकाशे स्थित्वाऽसौ प्रतिबोधितः ॥ २१३ ॥  
 पूर्वसम्बन्धमाख्याय सर्वं सम्यक् प्रबुद्धवान् । संयमासंयमं भव्यः स्वयं सद्यः समग्रहीत् ॥ २१४ ॥  
 शान्तचित्तः स निर्वेदो ध्यायन् कायाद्यसारताम् । कृत्वा मासोपवासादीन् शुष्कपत्राणि पारयन् ॥ २१५ ॥  
 कुर्वन्नेवं महासत्त्वश्चिरं घोरतरं तपः । १ यूपकेसरिणीनामसरितीर्थे कृशो जलम् २ ॥ २१६ ॥  
 पातुं प्रविष्टस्तं वीक्ष्य स सर्पश्चमरः पुनः ३ । जातः ४ कुक्कुटसर्पोऽत्र तदास्याहृद्य मस्तकम् ॥ २१७ ॥  
 दशति स्म गजोऽप्येतद्विषेण विगतासुकः । समाधिमरणाज्ज्ञे सहस्रारे रविप्रिये ॥ २१८ ॥  
 विमाने श्रीधरो देवो धर्मिलश्चायुषः क्षये । तत्रैव वानरः सोऽभूत्सख्या तेन गजेशिनः ॥ २१९ ॥  
 हतः ५ कुक्कुटसर्पोऽपि ६ तृतीयनरकेऽभवत् । गजस्य रदनौ मुक्ताश्चादायाधिकतेजसः ॥ २२० ॥  
 व्याधः शृगालवन्धाम धनमित्राय दत्तवान् । राजश्रेष्ठी च तौ ताश्च पूर्णचन्द्रमहीभुजे ॥ २२१ ॥  
 ददौ दन्तद्वयेनासौ व्यधात्पादचतुष्टयम् । पल्यङ्गस्यात्मनो मुक्ताभिश्च हारमधाद्य तम् ॥ २२२ ॥  
 ईदृशं संसृतेर्भावं भावयन् को विधीर्न ७ चेत् । रतिं तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन् ८ ॥ २२३ ॥

हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गई—व्याही गई ॥ २०८—२०९ ॥ मृगायण ब्राह्मणकी स्त्री मधुरा भी मर कर उन दोनों—पूर्णचन्द्र और हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री हुई थी, सेठ भद्रमित्र तेरे स्नेहसे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ था और वारुणीका जीव यह पूर्णचन्द्र हुआ है । तुम्हारे पिताने भद्रबाहुसे दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥ २१०—२११ ॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की थी और फिर हिरण्यवती मातासे तूने दीक्षा धारण की है । आज तुम्हें सब प्रकारकी शान्ति है । राजा सिंहसेनको साँपने डस लिया था जिससे मर कर वह वनमें अशनिघोष नामका हाथी हुआ । एक दिन वह मदोन्मत्त हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुझे देखकर वह मारनेकी इच्छासे दौड़ा, मुझे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर उसे समझाया । वह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम—देशव्रत ग्रहण कर लिया ॥ २१२—२१४ ॥ अब उसका चित्त बिलकुल शान्त है, वह सदा विरक्त रहता हुआ शरीर आदि की निःसारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है ॥ २१५ ॥ इस प्रकार महान् धैर्यका धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुर्बल हो गया । एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे पानी पीनेके लिए घुसा । उसे देखकर श्रीभूति—सत्यघोषके जीवने जो मरकर चमरी मृग और बादमें कुक्कुट सर्प हुआ था उस हाथीके मस्तक पर चढ़कर उसे डस लिया । उसके विषसे हाथी मर गया, वह चूँकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्रार स्वर्गके रविप्रिय नामक विमानमें श्रीधर नामका देव हुआ । धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्त्री बनाया था आयुके अन्तमें मर कर उसी वनमें वानर हुआ था । उस वानरकी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता थी अतः उसने उस कुक्कुट सर्पको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ । इधर शृगालवान् नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठके लिए दिये । राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूर्णचन्द्रके लिए दिये ॥ २१६—२२१ ॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये और मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना ॥ २२२ ॥ वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा

१ पयःकेसरिणी ख० । २ कृशोवहः ख०, लं० । ३ पुरः लं० । ४ कुक्कुट लं०, ग० । ५ कुक्कुट ग० । ६ तृतीये नरके ख० । ७ विगता धैर्यस्य स विधीः मूर्ख इत्यर्थः । ८ अचिन्तयन् ।

इत्यसौ सिंहचन्द्रोक्तं रामदत्ताऽवबुध्य तत् । पुत्रस्नेहात्स्वयं गत्वा पूर्णचन्द्रमजिज्ञपत् ॥ २२४ ॥  
 गृहीतधर्मतत्त्वोऽसौ चिरं राज्यमपालयत् । रामदत्तापि तत्स्नेहात्सनिदानायुषोऽवबौ ॥ २२५ ॥  
 महाशुक्रे विमानेऽभूद् भास्करे भास्कराङ्गयः । पूर्णचन्द्रोऽपि तत्रैव वैदूर्यं तत्कृताङ्गयः ॥ २२६ ॥  
 सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि सम्यगाराध्य शुद्धधीः । प्रीतिङ्करविमानेऽभूदूर्ध्वम्रैवेयकोर्ध्वके ॥ २२७ ॥  
 रामदत्ता ततश्च्युत्वा धरणीतिलके पुरे । भ्रमैव दक्षिणश्रेण्यामतिवेगस्त्रगोशिनः ॥ २२८ ॥  
 श्रीधराख्या सुता जाता माताऽस्याः स्यात्सुलक्षणा । दत्तेयमलकाधीशे १दर्शकाय खगोशिने ॥ २२९ ॥  
 वैदूर्याधिपतिश्चायं दुहिताऽभूद्यशोधरा । २पुष्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ॥ २३० ॥  
 ३राजा श्रीधरदेवोऽपि रश्मिवेगस्तयोरभूत् । कदाचिन्मुनिचन्द्राख्यमुनिधर्मानुशासनात् ॥ २३१ ॥  
 सूर्यावर्ते ४तपो याते श्रीधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्यार्थिकान्तिके ॥ २३२ ॥  
 कदाचिद्रश्मिवेगोऽगात्सिद्धकूटजिनालयम् । हरिचन्द्राङ्गयं ५तत्र दृष्ट्वा चारणसंयतम् १ ॥ २३३ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं च सम्यक्त्वं संयमं प्रतिपद्य सः । चारणत्वं च सम्प्राप्तः सद्योगगनगोचरम् २ ॥ २३४ ॥  
 काञ्चनाख्यगुहायां तं कदाचिदवलोकयते । वन्दित्वा तिष्ठतां तत्र श्रीधरा च यशोधरा ॥ २३५ ॥  
 प्राक्तनो तारकस्तस्मात्प्रच्युत्याद्यविपाकतः । चिरं भ्रमित्वा संसारे महानजगरोऽभवत् ॥ २३६ ॥

संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन मनुष्य है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेवाला हो ? ॥ २२३ ॥ इस तरह सिंहचन्द्र मुनिके समझाने पर रामदत्ताको बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गई और उसे सब बातें कहकर समझाया ॥ २२४ ॥ पूर्णचन्द्रने धर्मके तत्त्वको समझा और चिरकाल तक राज्यका पालन किया । रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया और आयुके अन्तमें मरकर महाशुक स्वर्गके भास्कर नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्वर्गके वैदूर्य नामक विमानमें वैदूर्य नामका देव हुआ ॥ २२५-२२६ ॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण कर नौवें भ्रैवेयके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र हुए ॥ २२७ ॥ रामदत्ताका जीव महाशुक स्वर्गसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ । वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था । यह श्रीधरा पुत्री अलकानगरीके अधिपति दर्शक नामक विद्याधरके राजके लिए दी गई । पूर्णचन्द्रका जीव जो कि महाशुक स्वर्गके वैदूर्य विमानमें वैदूर्य नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावर्तके लिए दी गई थी ॥ २२८-२३० ॥ राजा सिंहसेन अथवा अशानिघोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों—सूर्यावर्त और यशोधराके रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ । किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तपके लिए चले गये और श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवती आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २३१-२३२ ॥ किसी समय रश्मिवेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन-मन्दिरके दर्शनके लिए गया था, वहाँ उसने चारण-ऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके दर्शन कर उनसे धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यग्दर्शन और संयम प्राप्त कर मुक्ति हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋद्धि प्राप्त कर ली ॥ २३३-२३४ ॥ किसी दिन रश्मिवेग मुनि काञ्चना नामकी गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा आर्थिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गई ॥ २३५ ॥

इधर सत्यघोषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँसे निकल कर पापके उदयसे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा और अन्तमें उसी वनमें महान् अजगर हुआ ॥ २३६ ॥

१ दर्शिताय ख० । २ भास्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ख०, ग० । ३ गजः श्रीधर ख०, ग० । गजः षाठान्तरं इति ऋ-पुस्तके सूचितम् । ४ तपो जाते क०, ग०, व० । ५ यत्र क०, ख० । ६ चारणसंयमम्, ख० । ७ गमनगोचरम्, ख० ।

ते च तं च निरीक्ष्यैष स सूर्यप्रतिमं क्रुधा । सहागिल्त् समाराध्य ते कापिष्ठे बभूवतुः ॥ २३७ ॥  
 रुचकाख्ये विमानेऽयं मुनिश्चाकंप्रभाह्वये । देवः पङ्कप्रभां प्रापत् पापादजगरोऽपि सः ॥ २३८ ॥  
 सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य द्रूपेऽस्मिन् चक्रपूरपतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्च सुतोऽभवत् ॥ २३९ ॥  
 चक्रायुधस्ततोऽस्यैव रश्मिवेगाश्च्युतो दिवः । सजातश्चित्रमालायां सुतो वज्रायुधाह्वयः ॥ २४० ॥  
 श्रीधरा चागता नाकात् पृथिवीतिलके पुरे । सुताऽभूत् प्रियकारिण्यामतिवेगमहीपतेः ॥ २४१ ॥  
 सर्वलक्षणसम्पूर्णा<sup>१</sup> रत्नमालातिविश्रुता । वज्रायुधस्य सा देवी समजायत<sup>२</sup> सम्भुवे ॥ २४२ ॥  
 यशोधरा तयो रत्नायुधः सूनुरजायत । एवमेते स्वपूर्वायफलमन्त्रापुरन्वहम् ॥ २४३ ॥  
 श्रुत्वाऽपराजितो धर्ममन्येद्युः पिहितास्त्रवात् । चक्रायुधाय साम्राज्यं दत्त्वाऽदीक्षिष्ट घोरधीः ॥ २४४ ॥  
 वज्रायुधे समारोप्य राज्यं चक्रायुधो नृपः । प्रात्राजीत् स्वपितुः पार्श्वं स तजन्मनि मुक्तिभाक् ॥ २४५ ॥  
 अधिरत्नायुधं राज्यं कृत्वा चक्रायुधान्तिके । वज्रायुधोऽप्यगाहीक्षां किं न कुर्वन्ति सात्त्विकाः ॥ २४६ ॥  
 सको रत्नायुधो भोगे त्यक्त्वा धर्मकथामपि । सोऽन्वभूदति<sup>३</sup>गृध्नुत्वात्सुखानि चिरमन्यदा ॥ २४७ ॥  
 मनोरममहोद्याने वज्रदन्तमहामुनि । व्यावर्ण्यमानलोकानुयोगश्रवणवृद्धधीः ॥ २४८ ॥  
 पूर्वजन्मस्मृतेर्मैघविजयो<sup>४</sup> योगधारणः । मांसादिकवर्ल<sup>५</sup> नादाद् ध्यायन् संसृतिदुःस्थितिम् ॥ २४९ ॥  
<sup>६</sup>राजाऽन्न व्याकुलीभूय मन्त्रिवैद्यवरान् स्वयम् । पप्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्याहितादरः ॥ २५० ॥

उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्यिकाओंको और सूर्यके समान दीप्तिवाले उन रश्मिवेग मुनिराजको देखकर उस अजगरने क्रोधसे एक ही साथ निगल लिया । समाधिमरण कर आर्यिकाएँ तो कापिष्ठ नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्वर्गके अर्कप्रभ नामक विमानमें देव उत्पन्न हुए । वह अजगरभी पापके उदयसे पङ्कप्रभा नामक चतुर्थ पृथिवीमें पहुँचा ॥ २३७-२३८ ॥ सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गसे चय कर इसी जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित और उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ २३९ ॥ उसके कुछ समय बाद रश्मिवेगका जीव भी स्वर्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ २४० ॥ श्रीधरा आर्यिका स्वर्गसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण रत्नमाला नामकी अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई । यह रत्नमाला आगे चलकर वज्रायुधके आनन्दको बढ़ानेवाली उसकी प्राणप्रिया हुई ॥ २४१-२४२ ॥ और यशोधरा आर्यिका स्वर्गसे चयकर इन दोनों—वज्रायुध और रत्नमालाके रत्नायुध नामका पुत्र हुई । इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूर्व पुण्यका फल प्राप्त करने लगे ॥ २४३ ॥

किसी दिन धीरबुद्धिके धारक राजा अपराजितने पिहितास्त्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना और चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली ॥ २४४ ॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वज्रायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्ममें मोक्ष चले गये ॥ २४५ ॥ अब वज्रायुधने भी राज्यका भार रत्नायुधके लिए सौंपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा ले ली सौं ठीक ही है क्योंकि सत्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते ? ॥ २४६ ॥ रत्नायुध भोगोंमें आसक्त था । अतः धर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राज्यके सुख भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमें वज्रदन्त महामुनि लोकानुयोगका वर्णन कर रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविजय नामक हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि प्राप्त लेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय स्थितिका वह विचार करने लगा ॥ २४७-२४८ ॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े बड़े मन्त्र-वादिनों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार हो गया

१ सम्पूर्ण ल० । २ संपदे क०, ग०, घ० । संपदे ख० । ३-दतिगृध्नुत्वात् ग० । ४ योगधारणः ख० । यागधारणः ग० । जागवारणः क०, घ० । ५ मांसादिकवर्लान्नादाद् ग० । ६ राजा वृ ल० ।

विचार्य ते त्रिदोषोत्थविकारानवलोकनात् । अनुमानादर्थं<sup>१</sup> धर्मश्रुतेर्जातिस्मरोऽभवत् ॥ २५१ ॥  
 इति सत्पात्रनिष्पञ्चशुद्धाहारं घृतादिभिः । मिश्रितं न्यक्षिपत्क्षिसं तमभुञ्ज्क द्विपोत्तमः ॥ २५२ ॥  
 तदा सविस्मयो राजा गत्वाऽवधिविलोचनम् । वज्रदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं पृच्छति स्म सः ॥ २५३ ॥  
 मुनिर्बभाषे भो भूप शृणु तत्संविधानकम् । भरतेऽस्मिन्नृपः प्रीतिभद्रः छत्रपुराधिपः ॥ २५४ ॥  
 सुन्दर्यामभवत्तस्य सुतः प्रीतिङ्कराह्वयः । मन्त्री चित्रमतिस्तस्य कमला कमलोपमा ॥ २५५ ॥  
 गृहिणी तुग्वभूवास्या विचित्रमतिराख्यया । नृपमन्त्रिसुतौ श्रुत्वा धर्मं धर्मरुचेर्यतेः ॥ २५६ ॥  
 तदैव भोगनिर्बिण्णौ द्वावप्याददतुस्तपः । क्षीरास्त्रवर्द्धिरूपश्चा प्रीतिङ्करमहामुनेः ॥ २५७ ॥  
 साकेतपुरमन्येद्युर्जग्मस्तुतौ यथाक्रमम् । विहरन्तावुपोष्यास्त<sup>२</sup> तत्र मन्त्रिसुतो यतिः ॥ २५८ ॥  
 प्रीतिङ्करः पुरे चर्या यान्तं स्वगृहसन्निधौ । गणिका बुद्धिषेणाख्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥  
 दानयोग्यकुला नाहमस्मीत्यात्मानमुच्छुषा । निन्दन्ती वाढमप्राक्षीन्मुने कथय जन्मिनाम् ॥ २६० ॥  
 कुरुरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मद्यमांसादिकत्यागादित्युदीर्य<sup>३</sup> मुनिश्च सः ॥ २६१ ॥  
 ततः प्रत्यागतः कस्मात् स्थितो हेतोश्चिरं पुरे । भवानिति तमप्राक्षीद्विचित्रमतिरादरात् ॥ २६२ ॥  
 सोऽपि तद्गणिकावार्ता यथावृत्तं न्यवेदयत् । परेद्युर्मन्त्रितुग् भिक्षावेलायां गणिकागृहम् ॥ २६३ ॥  
 प्राविशत्सापि तं दृष्ट्वा समुत्थाय ससम्भ्रमम् । वन्दित्वा पूर्ववद्धर्ममन्वयुक्ता कृतादरा ॥ २६४ ॥  
 कामरागकथामेव न्याजहार स दुर्मतिः । तदिक्रितज्ञयावज्ञा तथा तस्मिन्न्यधीयत ॥ २६५ ॥  
 प्राप्तापमानेन रूषा सूपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात् । मांसात्तन्नगराधीशं गन्धमित्रमहोपतिम् ॥ २६६ ॥

है ? ॥ २५० ॥ उन्होंने जब बात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे विचारकर कहा कि धर्मश्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे वर्तनमें बना तथा घृत आदिसे मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखवा जिसे उस गजराजने खा लिया ॥ २५१-२५२ ॥ यह देख राजा बहुत ही आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वह वज्रदन्त नामक अवधिज्ञानी मुनिराजके पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा ॥ २५३ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन् ! मैं सब कारण कहता हूँ तू सुन । इसी भरतक्षेत्रमें छत्रपुर नगरका राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिङ्कर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक चित्रमति नामक मंत्री था और लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी स्त्री थी ॥ २५४-२५५ ॥ कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुआ । एक दिन राजा और मंत्री दोनोंके पुत्रोंने धर्मरुचि नामके मुनिराजसे धर्मका उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे उदास होकर दोनोंने तप धारण कर लिया । महामुनि प्रीतिकरको क्षीरास्त्र नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गई ॥ २५६-२५७ ॥ एक दिन वे दोनों मुनि क्रम-क्रमसे विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे । उनमेंसे मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनि उपवासका नियम लेकर नगरके बाहर रह गये और राजपुत्र प्रीतिकरमुनि चर्याके लिए नगरमें गये । अपने घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिषेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनयसे प्रणाम किया ॥ २५८-२५९ ॥ और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़े शोकसे अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पूछा कि हे मुने, आप यह बताइये कि प्राणियोंको उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? 'मद्य मांसादिके त्यागसे होती है' ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापिस लौट आये । दूसरे विचित्रमति मुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६२ ॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो बात हुई थी वह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी । दूसरे दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया । वेश्या मुनिको देखकर धंक्कदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी ॥ २६३-२६४ ॥ परन्तु दुर्बुद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग सम्बन्धी कथाएँ ही कहीं । वेश्या उनके अभिप्रायको समझ गई अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥ २६५ ॥ विचित्रमति

वशीकृत्य ततो बुद्धिषेणा चात्मकृतामुना । स विचित्रमतिर्भूत्वा तत्रायमभवद्गजः ॥ २६७ ॥  
 अस्मिन् त्रिलोकप्रज्ञसिध्वणाज्जातिसंस्मृतः । निर्विण्णोऽथ समासन्नविनेयो नाम्रहीद्विधाम् ॥ २६८ ॥  
 त्यागो भोगाय धर्मस्य काचायैव महामणेः । जनन्या इव दास्यर्थं तस्मात्तादृक् त्यजेद् बुधः ॥ २६९ ॥  
 इति तद्भूभुगाकर्ण्य धिक्कामं धर्मदूपकम् । धर्म एव परं मित्रमिति धर्मरतोऽभवत् ॥ २७० ॥  
 तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं स्वपुत्रायैत्य संयमम् । मात्रा सहायुषः प्रान्ते कल्पेऽन्तेऽनिमिषो<sup>१</sup>ऽभवत् ॥ २७१ ॥  
 प्राक्तनो नारकः पङ्कप्रभाया निर्गतश्चिरम् । नानायोनिषु सम्भ्रम्य नानादुःखानि निर्विदान् ॥ २७२ ॥  
 इह क्षत्रपुरे दारुणाख्यस्य तनयोऽभवत् । मङ्ग्यां व्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारुणः ॥ २७३ ॥  
 वने प्रियङ्गुखण्डाख्ये प्रतिमायोगधारिणम् । वज्रायुधं खलस्तस्मिच्छोकान्तरमजीगमत् ॥ २७४ ॥  
 सोढ्वा व्याधकृतं तीव्रमुपसर्गमसौ मुनिः । धर्मध्यानेन सर्वार्थसिद्धिं संप्रापदिद्धधीः ॥ २७५ ॥  
 सप्तमीं पृथिवीं पापादध्युवासातिदारुणः । प्राग्भागे धातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे महान् ॥ २७६ ॥  
 देशोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिन्नयोध्यानगरे नृपः । अर्हद्दासोऽभवत्तस्य सुव्रता सुखदायिनी ॥ २७७ ॥  
 रत्नमाला तपोरासीत्सुवर्वातभयाङ्कयः । तस्यैव जिनदत्तायामभूद्गत्यायुधः सुतः ॥ २७८ ॥  
 नाम्ना विभीषणां जातो तावुभौ रामकेशवौ । अविभज्य श्रियं दीर्घकालं भुक्त्वा यथोचितम् ॥ २७९ ॥  
 कालान्ते केशवोऽयासीद्बुध्वायुः शर्कराप्रभाम् । स हल्यपि निवृत्त्यन्तेवासित्वा लान्तवं ययौ ॥ २८० ॥  
 आदित्याभः स एवाहं द्वितीयपृथिवीस्थितम् । प्रविश्य नरकं स्नेहाद्विभीषणमबोधयत्<sup>२</sup> ॥ २८१ ॥

वेश्यासे अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हुआ । उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजाकी नौकरी कर ली । वहाँ पाकशास्त्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिषेणाको अपने आधीन कर लिया । अन्त में वह विचित्रमति मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है ॥ २६६-२६७ ॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रज्ञप्तिका पाठ कर रहा था उसे सुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ है । अब यह संसारसे विरक्त है, निकट भव्य है और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥ २६८ ॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए विद्वानोंको चाहिये कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥ २६९ ॥ यह सुनकर राजा कहने लगा कि 'धर्मको दूषित करनेवाले कामको धिक्कार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र है' ऐसा कहकर वह धर्ममें तत्पर हो गया ॥ २७० ॥ उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ संयम धारण कर लिया । तपश्चरण कर मरा और आयुके अन्तमें सोलहवें स्वर्गमें देव हुआ ॥ २७१ ॥

सत्यघोषका जीव जो पङ्कप्रभा नामक चौथे नरकमें गया था वहाँसे निकलकर चिरकाल तक नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख भोगता रहा ॥ २७२ ॥ एक बार वह पूर्वकृत पापके उदयसे इसी क्षत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक स्त्रीसे अतिदारुण नामका पुत्र हुआ ॥ २७३ ॥ किसी एक दिन प्रियङ्गुखण्ड नामके वनमें वज्रायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया—मार डाला ॥ २७४ ॥ तीक्ष्ण बुद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ २७५ ॥ और अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ ।

पूर्व धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें राजा अर्हद्दास रहते थे, उनकी सुख देने वाली सुव्रता नामकी स्त्री थी । रत्नमालाका जीव उन दोनोंके वीतभय नामका पुत्र हुआ । और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रत्नायुधका जीव विभीषण नामका पुत्र हुआ । वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घकाल तक विभाग किये बिना ही राजलक्ष्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥ २७६-२७९ ॥ अन्तमें नारायण तो नरकायुका बंध कर शर्कराप्रभामें गया और बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥ २८० ॥ मैं वही आदित्याभ नामका देव हूँ, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ



बुद्ध्या ततः स निर्यातो द्वीपेऽस्मिन् विजये पुरे । ऐरावते महत्यासीदयोध्या तदधीश्वरः ॥ २८२ ॥  
 श्रीधर्माऽस्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत् । श्रीधर्मासावनन्ताख्यमुनेरादाय संयमम् ॥ २८३ ॥  
 ब्रह्मकल्पेऽभवद् देवो दिव्याष्टगुणभूषितः । सर्वार्थसिद्धिजः संजयन्तो वज्रायुधोऽभवत् ॥ २८४ ॥  
 ब्रह्मकल्पादिहागत्य त्वं जयन्तो निदानतः । मोहाद्विखुससम्यक्त्वोऽजनिष्ट नागनायकः ॥ २८५ ॥  
 प्राक्तनो नारकः प्रान्तपृथिवीतो विनिर्गतः । जघन्यायुरहिर्भूत्वा तृतीयां पृथिवीं गतः ॥ २८६ ॥  
 ततो निर्गत्य तिर्यक्षु असेषु स्थावरेषु च । भान्त्वाऽस्मिन् भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥  
 ऐरावतीनदीतीरे मृगशृङ्गसुतोऽभवत् । गोशृङ्गतापसाधीशः शङ्खिकायां विरक्तधीः ॥ २८८ ॥  
 स पञ्चाश्रितपः कुर्वन् दिव्यादितिलकाधिपम् । खगं वीक्ष्यांशुमालाख्यं निदानमकरोत्कुधीः ॥ २८९ ॥  
 मृत्वाऽत्र खगशैलोदकश्रेण्यां गगनवल्लभे । वज्रदंष्ट्रखगेशस्य प्रिया विद्युत्प्रभा तयोः ॥ २९० ॥  
 विद्युदंष्ट्रः सुतो जातः सोऽयं वैरानुबन्धतः । बद्ध्या कर्म चिरं दुःखमापदाप्स्यति चापरम् ॥ २९१ ॥  
 पृथं कर्मवशाज्जन्तुः संसारे परिवर्तते । पिता पुत्रः सुतो माता माता आता स च स्वसा ॥ २९२ ॥  
 स्वसा नसा भवेत्का वा बन्धुसम्बन्धसंस्थितिः । कस्य को नापकर्ताऽत्र नोपकर्ता च कस्य कः ॥ २९३ ॥  
 तस्माद्द्वैरानुबन्धेन मा कृथाः पापबन्धनम् । मुञ्च वैरं महानाग ! विद्युदंष्ट्रश्च मुच्यताम् ॥ २९४ ॥  
 इति तद्देववासौधकृष्या सन्तर्पितोऽहिराट् । देवाहं त्वल्पसादेन सद्धर्मं श्रद्धे स्म भोः ॥ २९५ ॥  
 किन्तु विद्याबलादेव विद्युदंष्ट्रोऽघमाचरत् । तस्मादस्यान्वयस्यैव महाविद्यां छिनद्म्यहम् ॥ २९६ ॥  
 इत्याहैतद्वचः श्रुत्वा देवो मदनुरोधतः । त्वया नैतद्विधातव्यमित्याख्यस्फणिनां पतिम् ॥ २९७ ॥

रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था ॥ २८१ ॥ वह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ और वहाँसे निकलकर इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीधर्माकी सुसीमा देवीके श्रीधर्मा नामका पुत्र हुआ । और वयस्क होने पर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्वर्गमें आठ दिव्य गुणोंसे विभूषित देव हुआ । वज्रायुधका जीव जो सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था वहाँसे आकर संजयन्त हुआ ॥ २८२-२८४ ॥ श्रीधर्माका जीव ब्रह्मस्वर्गसे आकर तू जयन्त हुआ था और निदान बाँधकर मोह-कर्मके उदयसे धरणीन्द्र हुआ ॥ २८५ ॥ सत्यघोषका जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर जघन्य आयुका धारक साँप हुआ और फिर तीसरे नरक गया ॥ २८६ ॥ वहाँसे निकल कर त्रस स्थावर रूप तिर्यक् गतिमें भ्रमण करता रहा । एक बार भूतरमण नामक वनके मध्यमें ऐरावती नदीके किनारे गोशृङ्ग नामक तापसकी शङ्खिका नामक स्त्रीके मृगशृङ्ग नामका पुत्र हुआ । वह विरक्त होकर पञ्चाश्रितप कर रहा था कि इतनेमें वहाँसे दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस मूर्खने निदान बन्ध किया ॥ २८७-२८९ ॥ अन्तमें मर कर इसी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवल्लभ नगरके राजा वज्रदंष्ट्र विद्याधरको विद्युत्प्रभा रानीके विद्युदंष्ट्र नामका पुत्र हुआ । इसने पूर्व वैरके संस्कारसे कर्मबंध कर चिरकाल तक दुःख पाये और आगे भी पावेगा ॥ २९०-२९१ ॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है । पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है और बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धु-जनके सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए वैर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज—हे धरणीन्द्र ! वैर छोड़ो और विद्युदंष्ट्रको भी छोड़ दो ॥ २९२-२९४ ॥ इस प्रकार उस देवके वचनरूप अमृतकी वर्षासे धरणीन्द्र बहुत ही संतुष्ट हुआ । वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज मैं समीचीन धर्मका श्रद्धान करता हूँ ॥ २९५ ॥ किन्तु इस विद्युदंष्ट्रने जो यह पापका आचरण किया है वह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंशकी महाविद्याको छीन लेता हूँ यह कहा ॥ २९६ ॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणीन्द्रसे फिर कहने लगा कि आपर्णों

सोऽपि यद्येवमेतस्य वंशानां मासिभ्रन् महा- । विद्याः पुंसां स्त्रियः सञ्जयन्तभट्टारकान्तिके ॥ २९८ ॥  
 साध्यन्त्वन्वथा दर्पादिमे दुष्टाः कुचेष्टिताः । भविष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युपद्रवम् ॥ २९९ ॥  
 पृथोऽपि पर्वतो विद्याधरह्रीक्रीडितः परः । ह्रीमन्नामेल्युदीर्यास्मिन् भावप्रतिनिधिं व्यधात् ॥ ३०० ॥  
 विद्युदंष्ट्रं च सामोक्तैर्धर्मन्यायानुयायिभिः । कृत्वा 'प्रशान्तकालुष्यं देवं चाभ्यर्च्य यातवान् ॥ ३०१ ॥  
 देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मिन्नुत्तरे मथुरापुरे । अनन्तवीर्यराड्मेरुमालिन्यां मेरुनामभाक् ॥ ३०२ ॥  
 तस्यैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रवृहस्पती ॥ ३०३ ॥  
 तावासन्नविनेयत्वात् श्रित्वा विमलवाहनम् । श्रुत्वा स्वभवसम्बन्धमजायेतां गणेशिनौ ॥ ३०४ ॥  
 ब्रह्म प्रत्येकमेतेषां नामग्रहणपूर्वकम् । गतिभेदावली व्याख्या सङ्कलश्राभिधीयते ॥ ३०५ ॥  
 सिंहसेनोऽशनिघोषप्रान्तः श्रीधरसञ्जकः । रश्मिवेगः प्रभातार्को वज्रायुधमहानृपः ॥ ३०६ ॥  
 सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्रः सञ्जयन्तः ततश्च्युतः । इत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिंहसेनः श्रियः पदम् ॥ ३०७ ॥  
 मथुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमालाऽच्युते देवस्ततो वीतभयाह्वयः ॥ ३०८ ॥  
 आदित्याभस्ततो मेरुगणेशो विमलेशिनः । ससद्धिसमवेतः सन् प्रायासीत्परमं पदम् ॥ ३०९ ॥  
 वारुणी पूर्णचन्द्राख्यो वैदूर्यास्माद्यशोधरा । कापिष्ठकल्पेऽनल्पद्विदैवोऽभूद्रचकप्रभः ॥ ३१० ॥  
 रत्नायुधोऽन्यकल्पोत्थस्ततश्च्युत्वा विभीषणः । द्वितीये नरके पापी श्रीधर्मा ब्रह्मकल्पजः ॥ ३११ ॥  
 जयन्तो धरणाधीशो मन्दरो गणनायकः । चतुर्ज्ञानधरः पारमवापजन्मवारिधेः ॥ ३१२ ॥  
 श्रीभूतिसचिवो नागश्चमरः कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःखी शयुः पङ्कप्रभोजनः ॥ ३१३ ॥

रुच्यं नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ २९७ ॥ धरणेन्द्रने भी उस देवके वचन सुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके वंशके पुरुषोंको महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस वंशकी स्त्रियाँ संजयन्त स्वामीके समीप महाविद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं । यदि इन अपराधियों को इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे होने वाले मुनियों पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥ २९८-२९९ ॥ इस घटनासे इस पर्वत परके विद्याधर अत्यन्त लज्जित हुए थे इसलिए इसका नाम 'ह्रीमान्' पर्वत है ऐसा कहकर उसने उस पर्वत पर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवाई ॥ ३०० ॥ धर्म और न्यायके अनुसार कहे हुए शान्त षट्चर्चोंसे विद्युदंष्ट्रको कालुष्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया ॥ ३०१ ॥ वह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीर्य राजा और मेरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ ॥ ३०२ ॥ तथा धरणेन्द्र भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर नामका पुत्र हुआ । ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पतिके समान थे ॥ ३०३ ॥ तथा अत्यन्त निकट भव्य थे इसलिए विमलवाहन भगवान्के पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये ॥ ३०४ ॥ अब यहाँ इनमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति और भवोंके समूहका वर्णन करता हूँ—॥ ३०५ ॥

सिंहसेनका जीव अशनिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मिवेग, अर्कप्रभदेव, महाराज वज्रायुध, सर्वार्थसिद्धिमें देवेन्द्र और वहाँसे चयकर सञ्जयन्त केवली हुआ । इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद पाया ॥ ३०६-३०७ ॥ मथुराका जीव रामदत्ता, भास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, वीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर विमलवाहन भगवान्का मेरु नामका गणधर हुआ और सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर उसी भवसे मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ ३०८-३०९ ॥ वारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, वैदूर्यदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला रुचकप्रभ नामका देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, ब्रह्मस्वर्गका देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्दर नामका गणधर हुआ और चार ज्ञानका धारी होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥ ३१०-३१२ ॥ श्रीभूति—( सत्यघोष ) मंत्रीका जीव

त्रसस्थावरसम्भान्तः पश्चाज्जातोऽतिदारुणः । ततस्तमस्तमस्यासीत्सर्पस्तस्माच्च नारकः ॥ ३१४ ॥  
 बहुयोनिपरिधान्तो मृगशृङ्गो मृतस्ततः । विद्युद्दंष्ट्रः खगाधीशः पापी पश्चात् प्रसन्नवान् ॥ ३१५ ॥  
 भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रः प्रीतिङ्करः सुरः । चक्रायुधो विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान् ॥ ३१६ ॥

### वसन्ततिलका


एवं चतुर्गतिषु ते चिरमुच्चनीच-  
 स्थानानि कर्मपरिपाकवशात् प्रपद्य ।  
 सौख्यं क्वचित् क्वचिदयाचितमुग्रदुःख-  
 मार्पस्त्रयोऽत्र परमात्मपदं प्रसन्नाः ॥ ३१७ ॥

### मालिनी

खलखगमकृतोऽप्योपद्रवं कस्यचिद्वा  
 मनसि शमरसत्वान्मन्यमानो महेच्छः ।  
 शुचितरवरशुक्लध्यानमध्यास्य शुद्धिं  
 समगमदमलो यः सञ्जयन्तः स वोऽन्यात् ॥ ३१८ ॥

### रथोद्धता


मेरुमन्दरमहाभिधानकौ स्तामिनेन्दुविजयाद्बृहत्तौजसौ ।  
 पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयागमस्य वः ॥ ३१९ ॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीर्थकर-धर्म-स्वयम्भू-मधु-  
 सञ्जयन्त-मेरुमन्दरपुराणं परिसमाप्तम् एकोनषष्टितमं पर्व ॥ ५९ ॥



सर्प, चमर, कुर्कुट सर्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस और  
 स्थावरोंके बहुत भव अति दारुण, सातवें नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें भ्रमण कर  
 मृगशृङ्ग और फिर भरकर पापी विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वैररहित-प्रसन्न भी हो गया  
 था ॥ ३१३-३१५ ॥ भद्रमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव धारण कर  
 आठों कर्मोंको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ था ॥ ३१६ ॥

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोंदयके वश चिरकाल तक उच्च-नीच स्थान  
 पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे और कहीं बिना माँगे हुए तीव्र दुःख भोगते रहे परन्तु  
 अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥ ३१७ ॥ जिन महानुभावने हृदयमें समता  
 रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको 'यह किसी विरले ही  
 भाग्यवानको प्राप्त होता है' इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल शुक्ल-  
 ध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥३१८॥  
 जिन्होंने सूर्य और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं,  
 तथा नयोंसे परिपूर्ण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणधर सदा आपलोगोंसे पूजित  
 रहें—आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥ ३१९ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणक सप्तहम  
 विमलनाथ तीर्थकर, धर्म, स्वयंभू, मधु, संजयन्त, मेरु और मंदर गणधरका  
 वर्णन करनेवाला उन- सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥



## षष्ठितमं पर्व

अनन्तोऽनन्तदोषाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । हन्त्वन्तध्वान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः स नः ॥ १ ॥  
 धातकीखण्डप्रागभागेरुदग्विषये महत् । रम्यं पुरमरिष्टाख्यमैकभ्यमिव सम्पदाम्<sup>१</sup> ॥ २ ॥  
<sup>१</sup>पतिः पद्मरथस्तस्य पद्मासन्न स्वयं गुणैः । यस्मिन् महीं चिरं पति प्रापन्प्रीतिं परां प्रजाः ॥ ३ ॥  
 पुण्योदयात्सुरूपदिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्कलोऽस्ति निरर्गलः ॥ ४ ॥  
 तदिन्द्रियार्थसाभिध्यसमुद्भूतसुखेन सः । शक्रवत्सुष्टु<sup>३</sup> सन्तुप्यन्संसारसुखमन्वभूत् ॥ ५ ॥  
 अथान्यदा समासाद्य स्वयम्प्रभजिनाधिपम् । सप्रथयमभिष्टुत्य श्रुत्वा धर्मं सुनिर्मलम् ॥ ६ ॥  
 संयोगो देहिनां देहैरक्षाणां च स्वगोचरैः । अनित्योऽन्यतराभावे सर्वेषामाजवञ्जवे ॥ ७ ॥  
 आहितान्यमताः सन्तु देहिनो मोहिताशयाः । अहं<sup>४</sup> निहतमोहारिमाहात्म्यार्हकमाश्रयः ॥ ८ ॥  
 करवाणि कथङ्कारं मतिमेतेषु निश्चलाम् । इति मोहमहाप्रन्थिमुक्तिधात्योद्ययौ मतिः ॥ ९ ॥  
 ततः परीतदावाग्निशिखासन्त्रासितैणवत् । चिरोचितां च संसारस्थलीं हातुं कृतोद्यमः ॥ १० ॥  
 सूनौ घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम् । एकादशाङ्गवाराशिपारगो बद्धतीर्थकृत् ॥ ११ ॥  
 प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्द्रः पुष्पोत्तरविमानजः ॥ १२ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुर्हस्ताद्धौनधनुस्तनुः । शुक्लेश्वरः श्वसन्नेकादशमासैस्तु सङ्गयथा ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अनन्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं ऐसे श्री अनन्तनाथ भगवान् हम सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्यकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥१॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान ही हो ॥ २ ॥ उस नगरका राजा पद्मरथ था, वह अपने गुणोंसे पद्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक पृथिवीका पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्त होती रही ॥ ३ ॥ जीवोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है और राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा बाधारहित था ॥ ४ ॥ इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखसे वह इन्द्रके समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥ ५ ॥ किसी एक दिन वह स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने विनयके साथ उनकी स्तुति की और निर्मल धर्मका उपदेश सुना ॥ ६ ॥ तदनन्तर वह चिन्तवन करने लगा कि 'जीवोंका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवोंके आत्मा और शरीर तथा इन्द्रियाँ और उनके विषय इनमेंसे एकका अभाव होता ही रहता है ॥७॥ यदि अन्य मतावलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शत्रुके माहात्म्यको नष्ट करनेवाले अर्हन्त भगवान्के चरण-कमलोंका आश्रय प्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ—इन विषयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ' इस प्रकार इसकी बुद्धि मोहरूपी महागाँठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥ ८-९ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार चारों ओर लगी हुई वनाग्निकी ज्वालाओंसे भयभीत हुआ हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥ १० ॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर लिया और ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ११ ॥ अन्तमें सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया ॥ १२ ॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्लेश्वर था, वह

१ सम्पदा ग०, घ० । २ पतिपद्मरथस्तस्य ग० । ३ संतुप्य क०, ग०, घ० । ४ विहृत क०, घ० ।

खत्रयायनपक्षोक्त्वैराहारमाहरत् । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गतावधिः ॥ १४ ॥  
 तत्प्राणबलस्तेजोविक्रियाभ्यां च तत्प्रभः । चिरं तत्र सुखं भुक्त्वा तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वरः । इक्ष्वाकुः काश्यपः सिंहसेनो नाम महानृपः १६ ॥  
 जयश्यामा महादेवी तस्यास्या वेदमनः पुरः । वसुधारां सुराः सारां मासषट्कीमपीपतन् ॥ १७ ॥  
 कार्तिके मासि रेवत्यां प्रभातेऽङ्घ्रि तदादिमे । निरीक्ष्य षोडश स्वप्नान् विशन्तं वाऽऽननं गजम् ॥ १८ ॥  
 अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽवधिलोचनात् । गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोषमगाल्परम् ॥ १९ ॥  
 ततः स्वर्गावतरणकल्याणाभिषवम् सुराः । सम्पाद्य वस्त्रमाल्योरुभूपणैस्तावपूजयन् ॥ २० ॥  
 सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्ठमास्यसिते सुतम् । द्वादश्यां <sup>१</sup>पूषयोगेऽसौ सपुण्यमुदपादयत् ॥ २१ ॥  
 तदागत्य मरुन्मुष्या <sup>२</sup>मेरुशैलेऽभिषिच्य तम् । अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विदधुर्मुदा ॥ २२ ॥  
 नवाब्ध्युपमसन्ताने पत्युपादश्रये स्थिते । धर्मेऽतीताहृतो ध्वस्ते तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २३ ॥  
 त्रिंशद्विंशसमात्मायुः पञ्चाशन्नापसम्मितः । कनकनकसङ्काशः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ २४ ॥  
 खचतुष्केन्द्रियद्वयैर्बुधैर्व्यतीतेष्वभिषेचनम् । राज्यस्यालभताभ्यर्च्यस्स <sup>३</sup>नृपेशमद्वरैः ॥ २५ ॥  
 खपञ्चकेन्द्रियैकोक्त्वर्षे राज्यव्यतिक्रमे । कदाचिदुल्का <sup>४</sup>पतनहेतुनोत्पन्नबोधिकः ॥ २६ ॥  
 अज्ञानबीजसंरूढामसंयममहीधृताम् । प्रमादवारिसंसिकां कषायस्कन्धयष्टिकाम् ॥ २७ ॥  
 योगालम्बनसंघृष्टां तिर्यग्गतिपृथक्कृताम् । जराकुसुमसंछन्नां बह्नामयपलाशिकाम् ॥ २८ ॥

ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था, मानसिक प्रवीचारेसे सुखी रहता था, तमःप्रभा नामक छठवीं पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीं तक उसका बल, विक्रिया और तेज था । इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम लोकमें आनेके लिए समुख्य हुआ ॥ १३-१५ ॥

उस समय इस जम्बूद्वीपके दक्षिणभरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री महाराज सिंहसेन राज्य करते थे ॥ १६ ॥ उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था । देवोंने उसके घरके आगे छह माह तक रत्नोंकी श्रेष्ठ धारा बरसाई ॥ १७ ॥ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥ १८ ॥ अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना । उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें आकर स्थित हुआ जिससे वह बहुत भारी सन्तोषको प्राप्त हुई ॥ १९ ॥ तदनन्तर देवोंने गर्भकल्याणकका अभिषेक कर वस्त्र, माला और बड़े-बड़े आभूषणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयश्यामाकी पूजा की ॥ २० ॥ जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा । नव माह व्यतीत होने पर उसने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीके दिन पूषयोगमें पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका मेरु पर्वत पर अभिषेक किया और बड़े वर्षसे अनन्तजित् यह सार्थक नाम रखा ॥ २२ ॥ श्रीविमलनाथ भगवान्के बाद नौ सागर और पौन पत्यु बीत जाने पर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद हो जाने पर भगवान् अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥ २३ ॥ उनकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुवर्णके समान रङ्ग था और वे सब लक्षणोंसे सहित थे ॥ २४ ॥ मनुष्य, विद्याधर और देवोंके द्वारा पूजनीय भगवान् अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक प्राप्त किया था ॥ २५ ॥ और जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ २६ ॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी बेल अज्ञानरूपी बीजसे उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी पृथिवीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गई है, कषाय ही इसकी स्कन्धयष्टि है—बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है, तिर्यञ्च

१ पुष्य-ल० । २ मुख्यशैले ल०, ग०, ल० । ३-भ्यर्च्यस्स नृपेशमद्वरैः ल० ।-भ्यर्च्यस्स नृपेशमद्वरैः ल० । ४-दुल्कापातेन ग० ।

दुःखदुःफलसन्नदां दुष्कर्मविषवहरीम् । शुक्लध्यानासिनामूलं चिच्छित्सुः स्वात्मसिद्धये ॥ २९ ॥  
लौकान्तिकैः समभ्येत्य प्रस्तुवद्भिः प्रपूजितः । अनन्तविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥  
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूढवान् । यानं सागरदत्ताख्यं सहेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥  
ज्येष्ठे पद्योपवासेन रेवत्यां द्वादशादिने । सहस्रेणासिते राज्ञामदीक्षिष्यापराह्वके ॥ ३२ ॥  
सम्प्राप्तोपान्थसंज्ञानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽह्नि स चर्यायै साकेतं समुपेयिवान् ॥ ३३ ॥  
विशाखभूपतिस्तस्मै दत्त्वाऽन्नं कनकच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप ज्ञापकं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ३४ ॥  
संवत्सरद्वये याते छाद्यस्थये प्राक्तने वने । अश्वत्थपादपोपान्ते कैवल्यमुदरीपदत् ॥ ३५ ॥  
चैत्रेऽमामास्यह्रान्ते रेवत्यां सुरसत्तमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां च निरवर्तयन् ॥ ३६ ॥  
जयाख्यमुख्यपञ्चाशद्गणभृद्बृंहितात्मवाक् । सहस्रपूर्वभृद्वन्धः खद्वयद्वयमिवाद्यधीत् ॥ ३७ ॥  
खद्वयेन्द्रियरन्ध्रामिसद्ब्रह्म्यालक्षितशिक्षकः । शून्यद्वयत्रिवाच्युक्ततृतीयज्ञानपूजितः ॥ ३८ ॥  
शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवलवगमान्वितः । शून्यत्रयवसूहित्विक्रियद्विबिभूषितः ॥ ३९ ॥  
शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तमनःपर्ययबोधनः<sup>१</sup> । पिण्डाङ्कितोक्तषट्षष्टिसहस्रमुनिमानितः<sup>२</sup> ॥ ४० ॥  
सलक्ष्णाष्टसहस्रोक्तसर्वश्रयाद्यार्थिकागणः । द्विलक्षश्रावकाभ्यर्च्यो द्विगुणश्राविकास्तुतः ॥ ४१ ॥  
असङ्ख्य देवदेवीष्वस्तिर्यक्सङ्ख्यातसेवितः । इति द्वादशविख्यातभन्ववृन्दारकाप्रणीः ॥ ४२ ॥  
सदसद्वादसद्भावमाविष्कृत्यन्नन्तजित् । विद्वत्पुत्रं विश्रुतान् देशान् विनेयान्योजयन् पथि ॥ ४३ ॥  
सम्मेदगिरिमासाद्य विहाय विहतिं स्थितः । मासं शताधिकैः षड्भिः सहस्रैः मुनिभिः सह ॥ ४४ ॥

गतिके द्वारा फैली हुई है, वृद्धावस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई है, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, और दुःखरूपी दुष्ट फलोंसे भुक्त रही है। मैं इस दुष्ट कर्मरूपी वेलको शुक्ल ध्यानरूपी तलवारके द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ ॥ २७-२९ ॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते हुए लौकान्तिक देव आ पहुँचे। उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवान्ने अपने अनन्तविजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने तृतीय—दीक्षा-कल्याणककी पूजा की, भगवान् सागरदत्त नामक पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ वेलका नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-३२ ॥ जिन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए साकेतपुरमें गये ॥ ३३ ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्ति वाले विशाख नामक राजाने उन्हें आहार देकर स्वर्ग तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ३४ ॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत गये तब पूर्वोक्त सहेतुक वनमें अश्वत्थ—पीपल वृक्षके नीचे चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ३५-३६ ॥

जय आदि पचास गणधरोंके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक हजार पूर्वधारियोंके द्वारा वन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले मुनियोंके स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार विक्रियात्रद्विके धारकोंसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूजा करते थे। सर्वश्रीको आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्थिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनकी पूजा करते थे और चार लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तिर्यञ्चोंसे सेवित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान भव्य समूहके अप्रणी थे ॥ ३७-४२ ॥ पदार्थ कथंचित् सदरूप है और कथंचिद् असदरूप है इस प्रकार विधि और निषेध पक्षके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान् अनन्तजित्ने प्रसिद्ध देशोंमें विहार कर भव्य जीवोंको सन्मार्गमें लगाया ॥ ४३ ॥ अन्तमें सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने

प्रतिमायोगधारी सन्नमावस्याग्ररात्रिभाक् । तुरीयध्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ४५ ॥  
सद्यो<sup>१</sup> द्युसत्समूहोऽपि सम्प्राप्यान्त्येष्टिमादरात् । विधाय विधिवत्सवैकः स्वर्लोकं सर्वतो ययौ ॥ ४६ ॥

### मालिनी

कुनयघनतमोऽन्धं कुश्रुतोल्लङ्घविद्विद्  
सुनयमयमयूखैः विश्वमाश्रु प्रकाश्य ।  
प्रकटपरमदीप्तिर्बोधयन् भव्यपद्मान्  
प्रदहतु स<sup>२</sup> जिनेनोऽनन्तजिद् दुष्कृतं वः<sup>३</sup> ॥ ४७ ॥

### वसन्ततिलका

प्राक्पालकः प्रथितपद्मरथः पृथिव्याः<sup>४</sup>  
पश्चाद्विनिश्चितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः ।  
तस्माच्च्युतोऽभवदनन्तजिदनन्तकान्तो

यः सोऽवताद् द्रुतमनन्तभवान्तकाद् वः ॥ ४८ ॥

तत्रैव सुप्रभो रामः केशवः पुरुषोरामः । व्यावर्ण्यते भवेपूखैः त्रिषु वृत्तकमेतयोः ॥ ४९ ॥  
एतस्मिन् भारते वर्षे पोदनाधिपतिः नृपः । वसुषेणो महादेवी तस्य नन्देत्यनिन्दिता ॥ ५० ॥  
देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां स राजा प्रेमनिर्भरः । रेमे वसन्तमञ्जरीं चञ्चरीकं द्रवोत्सुकः ॥ ५१ ॥  
मलयाधीश्वरो नाम्ना कदाचिच्छण्डशासनः । आजगामं नृपं द्रष्टुं तत्पुरं मिश्रतां गतः ॥ ५२ ॥  
नन्दासन्दर्शनेनासौ मोहितः पापपाकवान् । आहत्य तामुपायेन स्वदेशमगमत्कुधीः ॥ ५३ ॥  
वसुषेणोऽप्यशक्तत्वात्पराभवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाकृष्यमाणप्राणः स्मृतेर्बलात् ॥ ५४ ॥

विहार करना छोड़ दिया और एक माहका योग निरोध कर छह हजार एकसौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया । तथा चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिके प्रथम भागमें चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा परमपद प्राप्त किया ॥ ४४-४५ ॥ उसी समय देवोंके समूहने आकर बड़े आदरसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सब ओर अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ ४६ ॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको सम्यक् नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शास्त्ररूपी उल्लुओंसे द्वेष करनेवाले हैं, जिनकी उत्कृष्ट दीप्ति अत्यन्त प्रकाशमान है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले हैं ऐसे श्री अनन्तजित् भगवान्रूपी सूर्य तुम सबके पापको जलावें ॥ ४७ ॥ जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशङ्क बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्र हुए और फिर वहाँसे चयकर मरणको जीतनेवाले अनन्तजित् नामक जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भवोंमें हानेवाले मरणसे तुम सबकी रक्षा करें ॥ ४८ ॥

अथानन्तर—इन्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामक नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥ ४९ ॥ इसी भरत क्षेत्रके पोदनपुर नगरमें राजा वसुषेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥ ५० ॥ उस राजा के यद्यपि पाँच सौ स्त्रियाँ थीं तो भी वह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक ही है क्यों कि वसन्त ऋतु में अनेक फूल होने पर भी भ्रमर आम्रमंजरी पर ही अधिक उत्सुक रहता है ॥ ५१ ॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा वसुषेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय उसके दर्शन करनेके लिए पोदनपुर आया ॥ ५२ ॥ पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्दाको देखनेसे उसपर मोहित हो गया अतः वह दुर्बुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥ ५३ ॥ राजा वसुषेण असमर्थ था अतः उस पराभवसे बहुत दुःखी हुआ, चिन्ता रूपी यमराज

१ दिवि स्वर्गे सीदन्तीति द्युसदस्तेषां समूहः देवसमूहः । २ जिनेसूर्यः । ३ तत् क०, घ० । ४ पृथिव्यां ज०, ख० ।

श्रेयोगणधरं प्राप्य प्रव्रज्यां प्रतिपद्य सः । सिंहनिःक्रीडिताद्युग्रं तपस्तप्त्वा महाबलः<sup>१</sup> ॥ ५५ ॥  
यदि विद्येत चर्यायाः फलमन्यत्र जन्मनि । अलङ्घ्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मतिम् ॥ ५६ ॥  
ततो विहितसंन्यासः सहस्रारं जगाम सः । अप्टादशसमुद्रायुद्वाद्दशं कल्पसुतमम् ॥ ५७ ॥  
अथ जम्बूमति द्वीपे प्राग्विदेहे महर्द्धिके । नन्दनाख्ये पुरे प्राभूधराधीशो महाबलः<sup>१</sup> ॥ ५८ ॥  
प्रजानां पालको भोक्ता सुखानामतिधार्मिकः । श्रीमान् दिक्प्रान्तविभ्रान्तकीर्तिरार्तिहरोऽर्थिनाम् ॥ ५९ ॥  
स कदाचिच्छरीरादियाथाल्यावगमोदयात् । विरक्तस्तेषु निर्वाणपदवीप्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥  
दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापालार्हदन्तिके । गृहीतसंयमः सिंहनिःक्रीडिततपः श्रितः ॥ ६१ ॥  
संन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याष्टादशसागर- । स्थितिं भोगाश्रिरं भुक्त्वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥  
अथेह भारते द्वारवत्यां सोमप्रभप्रभोः । जयवत्यामभूत्सुतुः सुरूपः सुप्रभाङ्गयः ॥ ६३ ॥  
महायतिः समुत्तुङ्गः सुरविद्याधराश्रयः । श्वेतिमानं दधत् सोऽभाद् विजयार्द्धं इवापरः ॥ ६४ ॥  
कलङ्कविकलः कान्तः सन्ततं सर्वचित्तहृत् । पद्मानन्दविधायीत्यमलिशेते विभुं च सः ॥ ६५ ॥  
तस्यैव सुषेणाख्यः सीतायां पुरुषोत्तमः । तोकोऽजनि जनानन्दविधायी विविधैर्गुणैः ॥ ६६ ॥

उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शास्त्रज्ञानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक गणधरके पास जाकर दीक्षित हो गया । उस महाबलवान्ने सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तपकर यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का कुछ फल हो तो मैं अन्य जन्ममें ऐसा राजा होऊँ कि जिसकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन न कर सके ॥ ५४-५६ ॥ तदनन्तर संन्यासमरणकर वह सहस्रार नामक बारहवें स्वर्ग गया । वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी ॥ ५७ ॥

अथानन्तर-जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर है । उसमें महाबल नामका राजा राज्य करता था । वह प्रजाकी रक्षा करता हुआ सुखोंका उपभोग करता था, अत्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान् था, उसकी कीर्ति दिशाओंके अन्त तक फैली थी, और वह याचकोंकी पीड़ा दूर करनेवाला था—बहुत दानी था ॥ ५८-५९ ॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो गया ॥ ६० ॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अर्हन्तके समीप संयम धारण कर सिंहनिष्क्रीडित नामका तप किया ॥ ६१ ॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा । जब अन्तिम समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा ॥ ६२ ॥ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी द्वारवती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयवन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ ॥ ६३ ॥ वह सुप्रभ दूसरे विजयार्थके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयार्थ महायति—बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति—उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्थ समुत्तुङ्ग—ऊँचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुत्तुङ्ग—उदार प्रकृति का था, जिस प्रकार विजयार्थ देव और विद्याधरोंका आश्रय—आधार—रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव और विद्याधरोंका आश्रय—रक्षक था और जिस प्रकार विजयार्थ श्वेतिमा—शुक्लवर्णको धारण करता है उसी प्रकार सुप्रभ भी श्वेतिमा शुक्लवर्ण अथवा कीर्ति सम्बन्धी शुक्लताको धारण करता था ॥ ६४ ॥ यही नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलङ्कसहित है परन्तु सुप्रभ कलङ्करहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त—सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता—चक्रवा आदिको प्रिय नहीं लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्तको हरण करता था—सर्वप्रिय था, और चन्द्रमा पद्मानन्दविधायी नहीं है—कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी था—लक्ष्मीको आनन्दित करनेवाला था ॥ ६५ ॥ उसी राजाकी सीता नामकी रानीके वसुषेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र



सेव्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविलङ्घ्यमहोन्नतिः । महारत्नसमुद्भासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥  
 शुक्लकृष्णस्त्रिषौ लोकव्यवहारप्रवर्तकौ । पक्षाविव विभातः स्म युक्तौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥  
 पञ्चाशद्वनुरुच्छ्रयौ त्रिशल्लक्षसमायुषौ । समं समसुखौ कालं समजीगमतां चिरम् ॥ ६९ ॥  
 अथ भ्रान्त्वा भवे दीर्घं प्राक्तनश्चण्डशासनः । चण्डांश्चुरिव चण्डोऽभूद्दण्डितारातिमण्डलः ॥ ७० ॥  
 काशिदेशे नृपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दाख्यो विख्यातबलविक्रमः ॥ ७१ ॥  
 तौ तदोदयिनौ श्रुत्वा नारदादसहिष्णुकः । तव मे प्रेषय प्रार्थ्यगजरत्नादिकं करम् ॥ ७२ ॥  
 तदाकर्णनकालान्तवातोद्भूतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदुःप्रैक्ष्यदचुक्रोध पुरुषोत्तमः ॥ ७३ ॥  
 सुप्रभोऽपि प्रभाजालं विकिरन् दिक्षु चक्षुषोः । ज्वालावलिमिव क्रोधपावकाचिस्तताशयः ॥ ७४ ॥  
 न ज्ञातः कः करो नाम किं करो येन मुञ्चते । तं दास्यामः स्फुरत्सङ्गं शिरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥  
 पटु गृह्णातु को दोष इत्याविष्कृततेजसौ । उभाववोचतामुच्चैर्नारदं परुषोक्तिभिः ॥ ७६ ॥  
 ततस्तदवगम्यायात् संक्रुद्धो मधुसूदनः । हन्तुं तौ तौ च हन्तुं तं रोपादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥  
 सेनयोर्हभयोरासीत्संग्रामः सहरन्निव । सर्वानहँस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोत्तमः ॥ ७८ ॥

हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंको आनन्दित करने वाला था ॥ ६६ ॥ वह पुरुषोत्तम सुमेरु-पर्वतके समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरुपर्वत समस्त तेजस्वियों—सूर्य चन्द्रमा आदि देवोंके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों—प्रतापी मनुष्योंके द्वारा सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी महोन्नति—भारी ऊँचाईका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महोन्नति—भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत महारत्नों—बड़े-बड़े रत्नोंसे सुशोभित है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी महारत्नों—बहुमूल्य रत्नों अथवा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुशोभित था ॥ ६७ ॥ वे बलभद्र और नारायण क्रमशः शुक्ल और कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवहारके प्रवर्तक थे अतः शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे ॥ ६८ ॥ उन दोनोंका पचास धनुष ऊँचा शरीर था, तीस लाख वर्षकी दोनोंकी आयु थी और एक समान दोनोंको सुख था अतः साथ ही साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥ ६९ ॥

अथानन्तर—पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं वह अनेक भवोंमें घूमकर काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ । वह सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुओंके समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका बल और पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध था ॥ ७०-७१ ॥ नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर स्वरूप भेजो ॥ ७२ ॥ उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा लुभित हो गया मानो प्रलय-कालकी वायुसे ही लुभित हो उठा ही, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेक्ष्य हो गया और अत्यन्त क्रोध करने लगा ॥ ७३ ॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशाओंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार बिखेरने लगा मानो क्रोधरूपी अग्निकी ज्वालाओंके समूहको ही बिखेर रहा हो ॥ ७४ ॥ वह कहने लगा—'मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्या हाथ को कर कहते हैं ? जिससे कि खाय जाता है । अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर—हाथ दूँगा वह सिरसे उसे स्वीकार करे ॥ ७५ ॥ वह आवे और कर ले जावे इसमें क्या हानि है ?' इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले दोनों भाइयोंने कटुक शब्दोंके द्वारा नारदको उच्च स्वरसे उत्तर दिया ॥ ७६ ॥ तदनन्तर यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही क्रुपित हुआ और उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला तथा वे दोनों भाई भी क्रोधसे उसे मारनेके लिए चले ॥ ७७ ॥ दोनों सेनाओंका ऐसा संग्राम हुआ मानो सबका संहार ही करना चाहता हो । शत्रु—मधुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्र चलाया परन्तु वह चक्र पुरुषोत्तमका कुछ नहीं बिगाड़ सका । अन्तमें पुरुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूदनको

त्रिल्लण्डाधिपतित्वं तौ चतुर्थौ रामकेशवौ । ज्योतिर्लोकधिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्रिनौ<sup>१</sup> ॥ ७९ ॥  
 केशवो जीवितान्तेऽगादवधिस्थानमायुषाम्<sup>२</sup> । सुप्रभस्तद्वियोगोत्थशोकानलसमन्वितः ॥ ८० ॥  
 प्रबोधितः प्रसन्नात्मा सोमप्रभजिनेशिना । दीक्षित्वा श्रेणिमारुह्य स मोक्षमगमत्सुधीः ॥ ८१ ॥

### वसन्ततिलका

सम्भूय पोदनपुरे वसुषेणनामा कृत्वा तपः सुरवरोऽजनि शुक्ललेख्यः ।  
 तस्माच्च्युतोऽर्द्धभरताधिपतिर्हृतारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुरुषोत्तमाख्यः ॥ ८२ ॥

### वियोगिनी


मलयाधिपचण्डशासनो नृपतिः<sup>३</sup> पापमतिर्भ्रमंश्चिरम् ।  
 भववारिनिधावभूदधः खलु गन्ता मधुसूदनाभिधः ॥ ८३ ॥

### वंशस्थवृत्तम्

महाबलाख्यः पुरि नन्दने नृपः महातपा द्वादशकल्पजः सुरः ।  
 पुनर्बलः सुप्रभसंज्ञयाऽगमत् परं पदं प्रास्तसमस्तसङ्गकः ॥ ८४ ॥

### आर्या


साम्राज्यसारसौख्यं सुप्रभपुरुषोत्तमौ समं भुक्त्वा ।  
 प्रथमो निर्वाणमगादपरोऽधो वृत्तिवैचिन्त्यम् ॥ ८५ ॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अनन्ततीर्थकर-सुप्रभपुरुषोत्तम-  
 मधुसूदनपुराणं समाप्तं षष्टितमं पर्व ॥ ६० ॥



मार डाला ॥ ७८ ॥ दोनों भाई चौथे बलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका अनुभव करते हैं ॥ ७९ ॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठवें नरक गया और सुप्रभ बलभद्र उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही संतप्त हुआ ॥ ८० ॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे समझाया जिससे प्रसन्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली और अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरुढ़ होकर उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ८१ ॥

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमें वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्ललेश्याका धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अर्धभरतक्षेत्रका स्वामी, तथा शत्रुओंका नष्ट करनेवाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधोलोकमें सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ ॥ ८२ ॥ मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ मधुसूदन हुआ और तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ॥ ८३ ॥ सुप्रभ पहले नन्दन नामक नगरमें महाबल नामका राजा था फिर महान् तप कर बारहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ और समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भवसे परमपदको प्राप्त हुआ ॥ ८४ ॥ देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका उपभोग करते थे परन्तु उनमेंसे पहला—सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा—पुरुषोत्तम नरक गया, यह सब अपनी वृत्ति-प्रवृत्तिकी विचित्रता है ॥ ८५ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अनन्तनाथ तीर्थकर, सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला साठवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## एकषष्टितमं पर्व

धर्मं यस्मिन् समुद्भूता धर्मा दश सुनिर्मलाः । स धर्मः शर्म मे दद्यादधर्ममपहृत्य नः ॥ १ ॥  
 धातकीखण्डप्रागभागे प्राग्विदेहे सरिराटे । दक्षिणे वत्सविषये सुसीमानगरं महत् ॥ २ ॥  
 पतिर्दशरथस्तस्य प्रजाविक्रमदैवधान् । स्ववशीकृतसर्वारिः निर्व्यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥  
 सुखानि धर्मसाराणि प्रजापालनलालसः । बन्धुभिश्च सुहृद्भिश्च सह विश्रब्धमन्वभूत् ॥ ४ ॥  
 माधवे शुक्रपक्षान्ते सम्प्रवृत्तजानोत्सवे । चन्द्रोपरागमालोक्य सद्यो निर्विण्णमानसः ॥ ५ ॥  
 कान्तः कुवलयान्नादी कलाभिः परिपूर्णवान् । ईदृशस्यापि चेदीदृगवस्थाऽन्यस्य का गतिः ॥ ६ ॥  
 इति मत्वा सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । नैःसङ्गयाच्छाघवोपेतमङ्गीकृत्य स संयमम् ॥ ७ ॥  
 एकादशाङ्गधारी सन् भावितद्वयपकारणम् । निबद्धतीर्थकृत्युण्यः स्वारारभ्यान्ते विशुद्धधीः ॥ ८ ॥  
 त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुः एकहस्ततनूच्छ्रितः । पञ्चरन्ध्रचतुर्मानदिनैरुच्छ्र्वासवान् मनाक् ॥ ९ ॥  
 लोकनाल्यन्तरन्यापिविमलावधिबोधनः । तक्षेत्रविक्रियातेजोबलसम्पत्समन्वितः ॥ १० ॥  
 त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्सहस्राब्दैः समाहरन् । सुहृते मानसाहारं शुक्रलेश्याद्वयश्चिरम् ॥ ११ ॥  
 सर्वार्थसिद्धौ सत्सौख्यं निःप्रवीचारमन्वभूत् । ततो नृलोकमेतस्मिन् पुण्यभाज्यागमिष्यति ॥ १२ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते रत्नपुराधीशो महीपतेः । कुरुवंशस्य गोत्रेण काश्यपस्य महौजसः ॥ १३ ॥  
 देव्या भानुमहाराजसंज्ञस्य विपुलश्रियः । सुप्रभायाः सुरानीतवसुधारादिसम्पदः ॥ १४ ॥

जिन धर्मनाथ भगवान्से अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा आदि दश धर्म उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ भगवान् हमलोगोंका अधर्म दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥ १ ॥ पूर्व धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है । उसमें सुसीमा नामका महानगर है ॥ २ ॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था, वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनोंसे सहित था । चूँकि उसने समस्त शत्रु अपने वश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे रहित होकर वह शान्तिसे रहता था ॥ ३ ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी और वह बन्धुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्ततापूर्वक धर्म-प्रधान सुखोंका उपभोग करता था ॥ ४ ॥ एक बार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन सबलोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्र ग्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥ ५ ॥ यह चन्द्रमा सुन्दर है, कुवलयों—नीलकमलों ( पक्षमें—महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है और कलाओंसे परिपूर्ण है । जब इसकी भी ऐसी अवस्था हुई है तब अन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ॥ ६ ॥ ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए राज्यभार सौपा और स्वयं परिग्रहरहित होनेसे भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥ ७ ॥ उसने ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन कर सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तन किया, तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपनी बुद्धिको निर्मल बनाया ॥ ८ ॥ अब वह सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, तैत्तीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्यानवे दिन अथवा साढ़े सोलह माहमें एक बार कुञ्ज श्वास लेता था ॥ ९ ॥ लोक नाड़ीके अन्त तक उसके निर्मल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फलनेवाली विक्रिया तेज तथा बलरूप सम्पत्तिसे सहित था ॥ १० ॥ तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार लेता था, द्रव्य और भाव सम्बन्धी दोनों शुक्लेश्याओंसे युक्त था ॥ ११ ॥ इसप्रकार वह सर्वार्थसिद्धिमें प्रवीचार रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था । वह पुण्यशाली जब वहाँसे च्यकर मनुष्य लोकमें जन्म लेनेके लिए तत्पर हुआ ॥ १२ ॥ तब इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर था उसमें कुरुवंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी और महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते थे उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवोंने रत्नवृष्टि आदि सम्पदाओंके द्वारा उसेका सम्मान

सितपक्षत्रयोदश्यां वैशाखे रेवतीविधौ । निशान्ते षोडशस्वप्नाः समभूवन् इशोः स्फुटाः ॥ १५ ॥  
 सा १ प्रबुध्य फलान्यात्मपतेरवधिलोचनात् । तेषां विज्ञाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्मदा ॥ १६ ॥  
 तदैतानुरादन्त्यादस्या गर्भेऽभवद्विशुः । सुरेन्द्राश्चादिकल्याणमकुर्वत १ समागताः ॥ १७ ॥  
 धवले नवमासान्ते गुरुयोगे त्रयोदशी । दिने माघे सुतं मासे साऽसूतावधिलोचनम् ॥ १८ ॥  
 तदैवानिमिषाधीशास्तं नीत्वाऽमरभुधरे । क्षीराग्निवारिभिर्भूरिकार्तस्वरघटोद्धृतैः ॥ १९ ॥  
 अभिषिच्य विभूष्योच्चैर्धर्माख्यमगदन्मुदा । सर्वभूतहितश्रीमत्सद्धर्मपथदेशनात् ॥ २० ॥  
 अनन्तजिनसन्ताने चतुःसागरसन्मिते । काले पर्यन्तपत्योपमार्द्धे धर्मेऽस्तमीयुषि ॥ २१ ॥  
 तदभ्यन्तरवर्षायुर्धर्मनामोदयादि सः । दशलक्षसमाजीवी तसकाञ्चनसच्छविः ॥ २२ ॥  
 खान्दैकहस्तसद्देहो ३ वयः कौमारमुद्गहन् । सार्द्धलक्षद्वयादन्ते लब्धराज्यमहोदयः ॥ २३ ॥  
 तुङ्गत्वादतिशुद्धत्वात्प्रेक्ष्यत्वात्स्वाश्रयात्ततः । अशेषपोषकत्वाच्च मेघान्तजलदोषमः ॥ २४ ॥  
 भद्रत्वात् बहुदानत्वात्सौलक्षण्यान्महत्त्वतः । सुकरत्वात्सुरेभत्वादपरो वा गजोत्तमः ॥ २५ ॥  
 निग्रहानुग्रहौ तस्य न द्वेषेच्छाप्रवर्तितौ । गुणदोषकृतौ तस्मान्निगृह्यन्नपि पूज्यवे ॥ २६ ॥  
 कीर्तिस्तस्य लता सत्यं नो चेद्विश्वविसर्पिणी । कथं कविवचोवारिषैकादद्यापि वद्धंते ॥ २७ ॥  
 धरित्री सुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरक्षिता । नायिकेवोत्तमा काममभीष्टफलदायिनी ॥ २८ ॥

बढ़ाया था । रानी सुप्रभाने वैशाख शुद्ध त्रयोदशीके दिन रेवती नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सोलह स्वप्न देखे ॥ १३-१५ ॥ जागकर उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया और ऐसा हर्षका अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥ १६ ॥ उसी समय अन्तिम अनुत्तरविमानसे —सर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ । इन्द्रोंने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव किया ॥ १७ ॥ नव माह बीत जाने पर माघ शुद्धा त्रयोदशीके दिन गुरुयोगमें उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ उसी समय इन्द्रोंने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बहुत भारी सुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक कर आभूषण पहिनाये तथा हर्षसे धर्मनाथ नाम रक्खा ॥ १९ ॥ जब अनन्तनाथ भगवान्के बाद चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब धर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी आयु दशलाल्प वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी । जब उनके कुमारकालके अढ़ाईलाख वर्ष बीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था ॥ २०-२३ ॥ वे अत्यन्त ऊँचे थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे, और सबका पोषण करनेवाले थे अतः शरद्भृत्तुके मेघके समान थे ॥ २४ ॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार बहु दान—बहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहु दान—बहुत दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण—अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुलक्षण—अच्छे सामुद्रिक चिह्नोंसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान् होता है उसी प्रकार वे भी महान्—श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर—उत्तम सूँड़से सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुकर—उत्तम हाथोंसे सहित थे, और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ—उत्तम शब्दसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ—उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे ॥ २५ ॥ वे दुर्जनोका निग्रह और सज्जनोका अनुग्रह करते थे सो द्वेष अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी अपेक्षा करते थे अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजाके पूज्य थे ॥ २६ ॥ उनकी समस्त संसारमें फैलने-वाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रवचनरूपी जलके सेकसे आज भी क्यों बढ़ रही है ॥ २७ ॥ सुखसे संभोग करनेके योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त पृथिवी उनके लिए उत्तम

धर्मादस्माद्वाप्यन्ति कर्मांशानिनिर्ग्रहणात् । शर्म चेत्त्रिमलं भव्याः शर्मास्य किमुदण्यते ॥ २९ ॥  
 पञ्चलक्षसमारज्यकालेऽतीते कदाप्यसौ । उल्कापातसमुद्भूतवैराग्यादित्यचिन्तयत् ॥ ३० ॥  
 कथं क्व कस्माज्जातो मे <sup>१</sup>किम्मयः कस्य <sup>२</sup>भाजनम् । किं भविष्यति कायोऽग्रमिति चिन्तामकुर्वता ॥ ३१ ॥  
 दुर्विदग्धेन साङ्गत्यमनेन सुचिरं कृतम् । अक्षता दुःखमावर्ज्य पापं पापविपाकतः ॥ ३२ ॥  
 दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कर्मचोदितः । शर्मं शाश्वतमप्राप्य श्रान्तोऽहं जन्मसन्ततौ ॥ ३३ ॥  
 बोधादयो गुणाः स्वेऽमी ममैतदविकल्पयन् । रागादिकान् गुणान्मत्वा धिग्मां मतिविपर्यात् ॥ ३४ ॥  
 स्नेहमोहग्रहप्रस्तो मुहुर्बन्धुधनान्यलम् <sup>३</sup> । पोषयन्नर्जयन्पापसञ्चयाद् दुर्गातीर्गतः ॥ ३५ ॥  
 एवमेतं स्वयं बुद्धं मत्वा लौकान्तिकाः सुराः । तुष्टुवुनिष्ठितार्थस्त्वं देवाद्येत्यातिभक्तिकाः ॥ ३६ ॥  
 सुधर्मनाम्नि स ज्येष्ठे पुत्रे निहितराज्यकः । <sup>४</sup>प्राप्तनिष्क्रमणारम्भकल्याणाभिषवोत्सवः <sup>५</sup> ॥ ३७ ॥  
 शिबिकां नागदत्ताख्यामाराह्य सुरसत्तमैः । सह शालवनोद्यानं गत्वा षष्ठोपवासवान् ॥ ३८ ॥  
 माघज्योत्स्नान्नयोदश्यामपराह्णे नृपैः <sup>६</sup>समम् । सहस्रेण स पुष्यर्क्षे दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत् ॥ ३९ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नो द्वितीयेऽह्नयविश्वपुरीम् । भोक्तुं पाटलिपुत्राख्यां ससुनद्धपताकिकाम् ॥ ४० ॥  
<sup>७</sup>धन्यषेणमहीपालो दत्त्वाऽस्मै कनकद्युतिः । दानमुत्तमपान्नाय प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४१ ॥  
 तथैकवर्षच्छस्यकालेऽतीते पुरातने । वने सप्तच्छदस्याधः कृतषष्ठोपवासकः ॥ ४२ ॥  
 पूर्णमास्यां च पुष्यर्क्षे सायाह्ने प्राप केवलम् । आससाद् च सत्पूजां तुर्यकल्याणसूचिनीम् ॥ ४३ ॥

नायिकाके समान इच्छानुसार फल देने वाली थी ॥ २८ ॥ जब अन्य भव्य जीव इन धर्मनाथ भगवान्के प्रभावसे अपने कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे तब इनके सुखका वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ॥ २९ ॥

जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया । विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे—‘मेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है ? किमात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या होगा? ऐसा विचार न कर मुझ मूर्खने इसके साथ चिरकाल तक संगति की । पापका संचय कर उसके उदयसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा । कर्मसे प्रेरित हुए मुझ दुर्मतिने दुःखको ही सुख मानकर कभी शाश्वत—स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया । मैं व्यर्थ ही अनेक भवोंमें भ्रमण कर थक गया । ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा । स्नेह तथा मोहरूपी प्रहोंसे भ्रसा हुआ यह प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करता हुआ पाप उपाजेन करता है और पापके संचयसे अनेक दुर्गातियोंमें भटकता है’ । इस प्रकार भगवान्को स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव आये और बड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव ! आज आप कृतार्थ—कृतकृत्य हुए ॥ ३०—३६ ॥ उन्होंने सुधर्म नामके ज्येष्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर ज्येष्ठ देवोंके साथ शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया और माघशुक्ला त्रयोदशीके दिन सायंकालके समय पुष्य नक्षत्रमें एकहजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥ ३७—३९ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहार लेनेके लिए पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ॥ ४० ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले धन्यषेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४१ ॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाका एक वर्ष बीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वनमें सप्तच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर योग धारण किया और पौषशुक्ल पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय पुष्य

१ किमात्मकः । २ भाजनः क०, घ० । भाजने ख० । ३ धनाद्यलम् ल० । ४ प्राप्तः ल० ।

५—सवम् ल० । ६ सह ख० । ७ धान्यषेण क०, घ० ।

अरिष्टसेनाद्यनलयुरमानगणाधिपः । शून्यद्वयनवप्रोक्तसर्वपूर्वधरावृतः ॥ ४४ ॥  
 शून्यद्वयद्विद्विशून्याब्धिमितशिक्षकलक्षितः । षट्शतत्रिसहस्रोक्तत्रिविधावधिलोचनः ॥ ४५ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियाम्भोधिप्रोक्तकेवलवीक्षणः । शून्यत्रिकमुनिज्ञातविक्रियद्विभिभूषितः ॥ ४६ ॥  
 केवलज्ञानिमानोक्तमनःपर्ययविद्भृतः<sup>१</sup> । खट्वयाष्टद्विविज्ञातवादिबृन्दाभिवन्दितः ॥ ४७ ॥  
 पिण्डीकृतचतुःषष्टिसहस्रमुनिसाधनः । खखाब्धिपक्षपट्टप्रोक्तसुव्रताचार्यिकाचितः ॥ ४८ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकावृतः । पूर्वोक्तदेवसन्दोहतिर्यक्सङ्ख्यातसंश्रितः ॥ ४९ ॥  
 इति द्वादशभेदोक्तगणसम्पत्समचितः<sup>२</sup> । धर्मो धर्ममुपादिक्षद्धर्मध्वजविराजितः ॥ ५० ॥  
 विहारमन्ते संहृत्य सम्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाष्टशतसंयतैः ॥ ५१ ॥  
 शुचिशुक्लचतुर्थ्यन्त<sup>३</sup>रात्रौ ध्याति पृथग्द्वयीम् । आपूर्य पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीमुपागमत् ॥ ५२ ॥  
 तदामृतताशानाधीशाः सहसाऽऽगत्य सर्वतः । कृत्वा निर्वाणकल्याणमवन्दिषत तं जिनम् ॥ ५३ ॥

### आर्या

निर्जित्य दशरथः स रिपून्तृपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा ।

धर्मः स पातु पापैर्धर्मा शुधि यस्य दशरथायन्ते ॥ ५४ ॥

### मालिनी

निहतसकलवाती निश्चलाप्रावबोधो

गदितपरमधर्मो धर्मनामा जिनेन्द्रः ।

श्रितयतनुविनाशा<sup>४</sup>श्चिर्मलः शर्मसारो

दिशतु सुखमनन्तं शान्तसर्वात्मको वः ॥ ५५ ॥

नक्षत्रमें केवलज्ञान प्राप्त किया। देवोंने चतुर्थ कल्याणककी उत्तम पूजा की ॥४२-४३॥ वे अरिष्टसेनको आदि लेकर तैतालीस गणधरोंके स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पूर्वधारियोंसे आवृत थे, चालीस हजार सात सौ शिक्षकोंसे सहित थे, तीन हजार छह सौ तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार पाँच सौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाष्टद्विके धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, चार हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उन्हें धेरे रहते थे, दो हजार आठ सौ वादियोंके समूह उनकी वन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चौंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुव्रताको आदि लेकर बासठ हजार चार सौ आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे आवृत थे, असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यच्छ्रोंसे सेवित थे ॥४४-४६॥ इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ध्वजासे सुशोभित भगवान्ने धर्मका उपदेश दिया ॥५०॥ अन्तमें विहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्मेदशिखर पर पहुँचे और एक माहका योग निरोध कर आठ सौ नौ मुनियोंके साथ ध्यानारूढ़ हुए। तथा ज्येष्ठशुक्ला चतुर्थीके दिन रात्रिके अन्त भागमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर पुष्य नक्षत्रमें मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए ॥ ५१-५२ ॥ उसी समय सब ओरसे देवोंने आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सव किया तथा वन्दना की ॥ ५३ ॥ जो पहले भवमें शत्रुओंको जीतनेवाले दशरथ राजा हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए दश धर्म पापोंके साथ युद्ध करनेमें दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान् तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५४ ॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका केवलज्ञान अत्यन्त निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मल है, जो स्वयं अनन्त सुखसे सम्पन्न है और जिन्होंने समस्त आत्माओंको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख प्रदान करें ॥ ५५ ॥

अस्मिन्नेवाभवत्तीर्थं बलुः श्रीमान् सुदर्शनः । केशवः सिंहशब्दान्तपुरुषः परिषद्वलः ॥ ५६ ॥  
 तयोरारख्यानकं वक्ष्ये भवत्रयसमाश्रयम् । इह राजगृहे राजा सुमित्रो नाम गर्वितः ॥ ५७ ॥  
 १महामल्लो बहून् जित्वा लब्धपूजः परीक्षकैः । तृणायमन्यमानोऽन्यानमाद्यद् तुष्टदन्तिवत् ॥ ५८ ॥  
 कदाचिद्राजसिंहस्यः महीनाथो मदोद्धतः । तद्दर्पशातनायागान्तां पुरीं मल्लयुद्धवित् ॥ ५९ ॥  
 सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो निजितः सुचिराद्यथा । उत्खातदन्तदन्तीव तदास्थादतिदुःखितः ॥ ६० ॥  
 मानभङ्गेन भग्नः सन्नसौ राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान् सुतं राज्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥ ६१ ॥  
 कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा धर्मं २यथोदितम् । प्रवत्राजातिनिविण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम् ॥ ६२ ॥  
 क्रमेणोप्रां तपः कुर्वन् सिंहनिःश्रीडितादिकम् । स्वपराजयसंक्षेपादिति प्रान्ते व्यचिन्तयत् ॥ ६३ ॥  
 फलं चेदस्ति चर्यायास्तथा सोऽन्यत्र जन्मनि । ३मम स्तां विद्विषो जेतुं महाबलपराक्रमौ ४ ॥ ६४ ॥  
 तथैव संन्यस्याभूच्च माहेन्द्रे सप्तसागर- । स्थितिर्देवश्चिरं भोगान् भुञ्जानः सुखमास्थितः ॥ ६५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि ५वीतशोकापुरीपतिः । नरादिबृषभो राजाऽजनि जातमहोदयः ॥ ६६ ॥  
 भुक्त्वा कोपद्रयापेतं राज्यमूजितसौख्यभाक् । सद्यः सञ्जातनिर्वेदोऽत्यजहमव्रान्तिके ॥ ६७ ॥  
 स घोरतपसा दीर्घं गमयित्वाऽऽयुरात्मनः । सहस्रारं जगामाष्टदशसागरसंस्थितिः ६ ॥ ६८ ॥  
 फलं ७स्वानिमिषत्वस्य प्राण्यानारतलोकनात् । प्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुषः ॥ ६९ ॥  
 अस्मिन् खगपुराधीशसिंहसेनमहीपतेः । इक्ष्वाकोर्विजयायाश्च तनूजोऽभूत्सुदर्शनः ॥ ७० ॥

अथानन्तर इन्हीं धर्मेनाथ भगवान्के तीर्थमें श्रीमान् सुदर्शन नामका बलभद्र तथा सभामें सबसे बलवान् पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ ॥ ५६ ॥ अतः यहाँ उनका तीन भवका चरित कहता हूँ । इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, वह बड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था, उसने बहुत मल्लोंको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे—उसे पूज्य मानते थे, वह सदा दूसरोंको तृणके समान तुच्छ मानता था, और दुष्ट हाथीके समान मदोन्मत्त था ॥ ५७-५८ ॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जानने वाला राजसिंह नामका राजा उसका गर्व शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥ ५९ ॥ उसने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद रङ्गभूमिमें स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया जिससे वह दाँत उखाड़े हुए हाथीके समान बहुत दुःखी हुआ ॥ ६० ॥ मान भङ्ग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा अतः उसने राज्य पर पुत्रको नियुक्त कर दिया सो ठीक ही है ; क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण हैं ॥ ६१ ॥ निर्वेद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचार्यके पास पहुँचा और उनके द्वारा कहे हुए धर्मोपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६२ ॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे [सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप किये तो भी उसके हृदयमें अपने पराजयका संक्षेप बना रहा अतः अन्तमें उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुझे ऐसा महान् बल और पराक्रम प्राप्त होवे जिससे मैं शत्रुओंको जीत सकूँ ॥ ६३-६४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्याससे मरा और माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी स्थिति वाला देव हुआ । वह वहाँ भोगोंको भोगता हुआ चिरकाल तक सुखसे स्थित रहा ॥ ६५ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतके पूर्वकी ओर वीतशोकापुरी नामकी नगरी है उसमें ऐश्वर्यशाली नरवृषभ नामका राजा राज्य करता था । उसने बाह्याभ्यन्तर प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दमवर मुनिराजके पास दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥ ६६-६७ ॥ अपनी विशाल आयु कठिन तपसे बिताकर वह सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ ॥ ६८ ॥ प्राणप्रिय देवाङ्गनाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया

१ महाबलो ग० । २ यथोचितम् ल० । ३ समस्तान् ल० । ४ पराक्रमे ल० । ५ वीतशोकपुरीपतिः ग० । ६ संस्थितः क०, व० । ७ फलं स्वानिमिषत्वस्य ल० ।

अम्बिकायां सुतोऽस्यैव सुमित्रः केशवोऽभवत् । पञ्चाब्धिधनुस्सेधौ दशलक्षासमायुधौ ॥ ७१ ॥  
 परस्परानुकूल्येन मतिरूपबलान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वान् स्वान् रञ्जयामासतुर्गुणैः ॥ ७२ ॥  
 अविभक्तापि दोषाय सुज्यमाना तयोरभूत् । न लक्ष्मीः शुद्धचित्तानां शुद्धयै निखिलमप्यलम् ॥ ७३ ॥  
 अथाम्भोजरते क्षेत्रे विषये कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुराधीशो मधुक्तीडो महीपतिः ॥ ७४ ॥  
 राजसिंहचरो लङ्घिताखिलारातिसंहतिः । असहस्तौ समुद्यन्तौ तेजसा बलकेशवौ ॥ ७५ ॥  
 करं परार्थरत्नानि याचित्वा प्राहिणोद्वली । दण्डगर्भाभिधानाभिशालिनं सचिवाग्रिमम् ॥ ७६ ॥  
 तद्वचःश्रवणात्तौ च गजकण्ठरवश्रुतेः । कण्ठीरवौ वा संक्रुद्धौ रुद्ध्वाऽहर्षतितेजसौ ॥ ७७ ॥  
 क्रीडितुं याचते मूढो गर्भव्यालं जडः करम् । समीपवर्ती चेतस्य समवर्तं तु दीयते ॥ ७८ ॥  
 इत्युक्तवन्तौ तत्कोपकठोरोक्त्या स सत्वरम् । गत्वा तत्कार्यपर्यायमधुक्तीडमजिज्ञप्तम् ॥ ७९ ॥  
 सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा कोपारुणितविग्रहः । विग्रहाय सहैताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥ ८० ॥  
 अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिनत्तस्य चक्रेण शिरः सद्यः स केशवः ॥ ८१ ॥  
 तौ त्रिखण्डापित्येन लक्ष्मीमनुवभूवतुः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥ ८२ ॥  
 हलायुधोऽपि तच्छोकाद्धर्मतीर्थकरं श्रितः । प्रब्रज्य प्रोद्घुतावधौघः प्राप्नोति स्म परं पदम् ॥ ८३ ॥

### मालिनी

प्रतिहतपरसैन्यौ मानंशोण्डौ प्रचण्डौ

फलितसुकृतसारौ तावखण्डत्रिणखडौ ।

और आयुके अन्तमें, शान्तचित्त होकर इसी जम्बूद्वीपके खगपुर नगरके इद्वाकुर्वशी राजा सिंहसेनकी विजया रानीसे सुदर्शन नामका पुत्र हुआ ॥ ६६-७० ॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ । वे दोनों भाई पैतालीस धनुष ऊँचे थे और दश लाख वर्षकी आयुके धारक थे ॥ ७१ ॥ एक दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप और बलसे सहित उन दोनों भाइयोंने समस्त शत्रुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लोगोंको अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया था ॥ ७२ ॥ यद्यपि उन दोनोंकी लक्ष्मी अविभक्त थी—परस्पर बाँटी नहीं गई थी तो भी उनके लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं ॥ ७३ ॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके कुरुजांगल देशमें एक हास्तिनापुर नामका नगर है उसमें मधुक्तीड़ नामका राजा राज्य करता था । वह सुमित्रको जीतनेवाले राजसिंहका जीव था । उसने समस्त शत्रुओंके समूहको जीत लिया था, वह तेजसे बढ़ते हुए बलभद्र और नारायणको नहीं सह सका इसलिए उस बलवान्ने कर-स्वरूप अनेकों श्रेष्ठ रत्न माँगनेके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमंत्री भेजा ॥ ७४-७६ ॥ जिस प्रकार हाथीके कण्ठका शब्द सुनकर सिंह क्रुद्ध हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यके समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमंत्रीके शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठे ॥ ७७ ॥ और कहने लगे कि वह मूर्ख खेलनेके लिए साँपों भरा हुआ कर माँगता है सो यदि वह पास आया तो उसके लिए वह कर अवश्य विया जावेगा ॥ ७८ ॥ इस प्रकार क्रोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे और उस मंत्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुक्तीड़को इसकी खबर दी ॥ ७९ ॥ राजा मधुक्तीड़ भी उनके दुर्वचन सुनकर क्रोधसे लाल शरीर हो गया और उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी सेना लेकर चला ॥ ८० ॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया और अन्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीघ्र ही उसका शिर काट डाला ॥ ८१ ॥ दोनों भाई तीन खण्डके अधीरवर बनकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे । उनमें नारायण, आयुका अन्त होने पर सातवें नरक गया ॥ ८२ ॥ उसके शोकसे बलभद्रने धर्मनाथ तीर्थकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली और पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया



किल खलविधिनैवं पश्य विदलेषितौ धिग्  
दुरितपरवशत्वं केशवस्यैव मोहात् ॥ ८४ ॥

### वसन्ततिलका

प्राग्भूभुजः (?) प्रथितराजगृहे सुमित्रो  
माहेन्द्रकल्पजसुरश्च्युतवाँस्ततोऽस्मिन् ।

भूपोऽभवत्खगपुरे पुरुषादिसिंहः  
पश्चात्ससप्तमहीं च जगाम भीमाम् ॥ ८५ ॥

प्रोहर्षदन्तिदमनोऽजनि राजसिंहो  
भ्रान्त्वा चिरं भववनेषु विनष्टमार्गः ।

दृष्टानुमार्गमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये  
क्रीडाक्षरान्तमधुराप गतिं दुरन्ताम् ॥ ८६ ॥

### पृथ्वी

नरादिवृषभः पुरे विदितवीतशोके महीट्  
तपश्चिरमुपास्य घोरमभवत्सहस्रारके ।

ततः खगपुरे बलः क्षयितशत्रुपक्षोऽगमत्  
क्षमैकनिलयो विलीनविलयः सुखं क्षायिकम् ॥ ८७ ॥

तत्तीर्थस्यान्तरे चक्री तृतीयो मघवानभूत् । आतृतीयभवासास्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥ ८८ ॥  
वासुपूज्यजिनेशस्य तीर्थेऽभून्नृपतिर्महान् । नाम्ना नरपतिर्भुक्त्वा भोगान् भाग्यसमर्पितान् ॥ ८९ ॥  
वैराग्यकाष्ठामारुह्य कृतोत्कृष्टतपा १व्यसुः । प्रैवेयकेऽभवत्पुण्यादहमिन्द्रेषु मध्यमे ॥ ९० ॥  
सप्तविंशतिवार्ध्यायुर्दिव्यभोगान्मनोहरान् । अनुभूय ततश्च्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥  
कोशले विषये रम्ये साकेतनगरीपतेः । इक्ष्वाकोः स सुमित्रस्य भद्रायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ९२ ॥  
मघवानाम पुण्यात्मा भविष्यन् भरताधिपः । पञ्चलक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुषा ॥ ९३ ॥

॥ ८३ ॥ देखो, दोनों ही भाई शत्रुसेनाको नष्ट करने वाले थे, अभिमानी थे, शूर वीर थे, पुण्यके फलका उपभोग करनेवाले थे, और तीन खण्डके स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कर्मके द्वारा अलग-अलग कर दिये गये । मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ इसलिए पापोंकी अधीनताको धिक्कार है ॥ ८४ ॥ पुरुषसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमित्र नामका राजा था, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर इस खगपुर नगरमें पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ और उसके पश्चात् भयंकर सातवें नरकमें नारकी हुआ ॥ ८५ ॥ मधुक्रीड प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त हाथियोंको वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग-भ्रष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनमें भ्रमण करता रहा, तदनन्तर धर्ममार्गका अवलम्बन कर हस्तिनापुर नगरमें मधुक्रीड हुआ और उसके पश्चात् दुर्गतिको प्राप्त हुआ ॥ ८६ ॥ सुदर्शन बलभद्र, पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमें नरवृषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर खगपुर नगरमें शत्रुओंका पक्ष नष्ट करनेवाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमाका घर होता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको प्राप्त हुआ ॥ ८७ ॥

इन्हीं धर्मनाथ तीर्थकरके तीर्थमें तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर उनका पुराण कहता हूँ ॥ ८८ ॥ श्रीवासुपूज्य तीर्थकरके तीर्थमें नरपति नामका एक बड़ा राजा था वह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा । अन्तमें पुण्योदयसे मध्यम प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ ॥ ८९-९० ॥ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगोंको भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और धर्मनाथ तीर्थकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर

सार्द्धद्विचत्वारिंशत्पापोच्छ्रितः कनकद्युतिः । पट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं प्रतिपाल्य प्रतापवान् ॥ ९४ ॥  
 चतुर्दशमहारत्नभूषणो विधिनायकः । नृखेचरसुराधीशाञ्जमयन् क्रमयोर्युगम् ॥ ९५ ॥  
 स्वोक्तप्रमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम् । दशाङ्गभोगान् भूयिष्ठान् सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ॥  
 सुधीर्मनोहरोद्याने स कदाचिद्यदृच्छया । विलोक्याभयघोषाख्यं केवलावगमद्युतिम् ॥ ९७ ॥  
 त्रिःपरोत्याभिवन्द्यैर्न श्रुत्वा धर्मं तदन्तिके । विदित्वा तत्त्वसद्भावं विरज्य विपयेष्वलम् ॥ ९८ ॥  
 प्रियमित्राय पुत्राय दत्त्वा साम्राज्यसम्पदम् । स बाह्याभ्यन्तरग्रन्थास्त्यक्त्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥  
 शुद्धश्रद्धानचारित्रः श्रुतसम्पत्समन्वितः । द्वितीयशुक्लध्यानेन घातित्रयविघातकृत् ॥ १०० ॥  
 नवकेवललब्धीशो धर्मवद्धर्मदेशनात् । विनेयनायकास्तीत्वा निर्वाणपदवीं पराम् ॥ १०१ ॥  
 ध्यानद्वयसमुन्मूळिताघातिकचतुष्कः । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत् ॥ १०२ ॥

### मालिनी

नरपतिरिह नाम्ना वासुपूज्यस्य तीर्थे

सशमगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महर्षिः ।

अभवदखिलपुण्यश्रकवतीं तृतीय-

स्तदनु च मघवाख्यो मुख्यसौख्यं समापत् ॥ १०३ ॥

समनन्तरमेवास्य विनीतानगरेशिनः । नृपस्थानन्तवीर्यस्य सूर्यवंशशिखामणेः ॥ १०४ ॥

सहदेव्याश्च सम्भूतः कल्पादागत्य षोडशात् । सूनुः सनत्कुमाराख्यः प्रियश्रकक्राङ्गितश्रियः ॥ १०५ ॥

लक्षत्रयायुःपूर्वोक्तचक्रवर्तिसमुच्छ्रितः । चामीकरच्छविः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥

देशकी-अयोध्यापुरीके स्वामी इदवाकुवंशी राजा सुमित्रकी भद्रारानीसे मघवान् नामका पुण्यात्मा पुत्र हुआ । यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा । उसने पाँच लाख वर्षकी कल्याणकारी उच्छ्रष्ट आयु प्राप्त की थी । साढ़े चालीस धनुष ऊँचा उसका शरीर था, सुवर्णके समान शरीरकी कान्ति थी । वह प्रतापी छह खण्डोंसे सुशोभित पृथिवीका पालनकर चौदह महारत्नोंसे विभूषित एवं नौ निधियोंका नायक था । वह मनुष्य, विद्याधर और इन्द्रोको अपने चरण-युगलमें झुकाता था । चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणमें कही हुई—छयानवे हजार देवियोंके साथ इच्छानुसार दश प्रकारके भोगोंको भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था । किसी एक दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकस्मान् अभयघोष नामक केवली पधारे । उस बुद्धिमान्ने उनके दर्शन कर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंके सद्भावका ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंसे अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी विभूति प्रदान की और बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया ॥ ६१-६६ ॥ वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा निर्दोष चरित्रका धारक था, शास्त्रज्ञान रूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका विघात कर दिया था ॥ १०० ॥ अब वे नौ केवललब्धियोंके स्वामी हो गये तथा धर्मनाथ तीर्थ-करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भग्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्राप्त कराने लगे ॥ १०१ ॥ अन्तमें शुक्लध्यानके तृतीय और चतुर्थ भेदके द्वारा उन्होंने अघाति चतुष्कका क्षय कर दिया और पुण्य-पाप कर्मोंसे विनिमुक्त होकर अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥ १०२ ॥ तीसरा चक्रवर्ती मघवा पहले वासुपूज्य स्वामीके तीर्थमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे बड़ी ऋद्धिका धारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यसे युक्त मघवा नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात् मोक्षके श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥ १०३ ॥

अथानन्तर—मघवा चक्रवर्तीके बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य वंशके शिरोमणि राजा अनन्तवीर्यकी सहदेवी रानीके सोलहवें स्वर्गसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ । वह चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय वल्लभ था ॥ १०४-१०५ ॥ उसकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, और

दशाङ्गभोगसम्भोगयोगसन्तर्पितेन्द्रियः । <sup>१</sup>समर्थितार्थिसङ्कल्पाऽनल्पकल्पमहीरुहः ॥ १०७ ॥  
हिमवत्सागराघाटमहीमध्यमहीभुजाम् । आधिपत्यं समातन्वन्नन्वभूदधिकां श्रियम् ॥ १०८ ॥  
प्रपात्येवं सुखेनास्य काले सौधर्मसंसदि । सनत्कुमारदेवेन्द्ररूपस्यास्थत्र जित्वरः ॥ १०९ ॥  
कोऽपीति देवैः सम्पृष्टः सौधर्मेन्द्रोऽश्र्वीदिदम् । सनत्कुमारश्चक्रेशो वाढं सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ ११० ॥  
स्वप्नेऽपि केनचित्तादृग्दृष्टपूर्वः कदाचन । नास्तीति तद्वचः श्रुत्वा सद्यः सञ्जातकौतुकौ ॥ १११ ॥  
द्वौ देवौ भुवमागत्य तद्रूपालोकनेच्छया । दृष्ट्वा तं शक्रसम्प्रोक्तं सत्यमित्यारासम्मदौ ॥ ११२ ॥  
सनत्कुमारचक्रेशं निजागमनकारणम् । बोधयित्वा सुधीश्चक्रिन् शृणु चित्तं समादधन् ॥ ११३ ॥  
यदि रोगजरादुःखमृत्यवो न स्युरत्र ते । सौन्दर्येण <sup>२</sup>त्वमत्रैवमतिशेषे जिनानपि ॥ ११४ ॥  
इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं <sup>३</sup>स्वधाम सहसा गतौ । काललब्ध्येव तद्वाचा प्रबुद्धो भूभुजां पतिः ॥ ११५ ॥  
रूपयौवनसौन्दर्यसम्पत्सौख्यादयो नृणाम् । विद्युलतावितानाश्च मन्ये प्रागेव नश्वराः ॥ ११६ ॥  
इत्वरिः सम्पदस्त्यक्त्वा जित्वरोऽहमिहैनसाम् । सत्वरं तनुमुन्निहत्वा गत्वरोऽस्मीत्यकायताम् ॥ ११७ ॥  
स्मरन् देवकुमाराख्ये सुते राज्यं नियोज्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुभिराददे ॥ ११८ ॥  
पञ्चभिः सद्भृतैः पूज्यः पालितेर्यादिपञ्चकः । षडावश्यकवश्यात्मानिरुद्धेन्द्रियसन्ततिः ॥ ११९ ॥  
निश्चलः कृतभूवासो दन्तधावनवर्जितः । उत्थायैवैकदाभोजी स्फुरन्मूलगुणैरलम् ॥ १२० ॥

शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईके समान साढ़े व्यालीस धनुष थी । सुवर्णके समान कान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त पृथिवीको अपने अधीन कर लिया था ॥ १०६ ॥ दश प्रकारके भोगके समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियों सन्तुष्ट हुई थीं । वह याचकोंके संकल्पको पूर्ण करनेवाला मानो बड़ा भारी कल्पवृक्ष ही था ॥ १०७ ॥ हिमवान् पर्वतसे लेकर दक्षिण समुद्र तककी पृथिवीके बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ वह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था ॥ १०८ ॥

इस प्रकार इधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सौधर्म इन्द्रकी सभामें देवोंने सौधर्मेन्द्रसे पूछा कि क्या कोई इस लोकमें सनत्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधर्मेन्द्रने उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वाङ्ग सुन्दर है । उसके समान रूपवाला पुरुष कभी किसीने स्वप्नमें भी नहीं देखा है । सौधर्मेन्द्रके वचन सुनकर दो देवोंको कौतूहल उत्पन्न हुआ और वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे पृथिवीपर आये । जब उन्होंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको देखा तब 'सौधर्मेन्द्रका कहना ठीक है' ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्षित हुए ॥ १०९-११२ ॥ उन देवोंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको अपने आनेका कारण बतलाकर कहा कि हे बुद्धिमन् ! चक्रवर्तिन् ! चित्तको सावधानकर सुनिये—यदि इस संसारमें आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना न हो तो आप अपने सौन्दर्यसे तीर्थङ्करको भी जीत सकते हैं—११३-११४ ॥ ऐसा कहकर वे दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थानपर चले गये । राजा सनत्कुमार उन देवोंके वचनोंसे ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ मानो काललब्धिने ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥ ११५ ॥ वह चिन्तन करने लगा कि मनुष्योंके रूप, यौवन, सौन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि बिजलीरूप लताके विस्तारसे पहले ही नष्ट हो जानेवाले हैं ॥ ११६ ॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंका जीतनेवाला बनूँगा और शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होऊँगा ॥ ११७ ॥ ऐसा विचारकर उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रके समीप अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली ॥ ११८ ॥ वे अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंसे पूज्य थे, ईर्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, छह आवश्यकोंसे उन्होंने अपने आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्ततिको रोक लिया था, वस्त्रका त्यागकर रखा था, वे पृथिवीपर शयन करते थे, कभी दातौन नहीं करते थे; खड़े-खड़े एक बार भोजन करते थे । इस प्रकार अट्टाईस मूलगुणोंसे अत्यन्त शोभायमान थे ॥ ११९-१२० ॥

त्रिकालयोगवीरासनैकपार्श्वादिभाषितैः । उत्तरैश्च गुणैर्नित्यं यथायोग्यं समाचरन् ॥ १२१ ॥  
क्षमावान् क्षमाविभागो वा वारि वा श्रिततापनुत् । १ गिरीश इव निःकम्पो निःसङ्गः परमाणुवत् ॥ १२२ ॥  
निल्लेपोऽम्बुदमागो\* वा गम्भीरो वाऽऽपगापतिः । शशीव सर्वसंह्लादी भानुमानिव ३ भास्वरः ॥ १२३ ॥  
बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः सुधौतकलधौतवत् । आदर्शवत्समादर्शी सङ्कोची कूर्मसन्निभः ॥ १२४ ॥  
४ अहिर्वा स्वाकृतावासः करीवाशब्दयानकः । शृगालवत्पुरालोकी स शूरो राजसिंहवत् ॥ १२५ ॥  
सदा विनिद्रो मृगवत्सोढाशेषपरीषहः । उपसर्गसहो विक्रियाद्युक्तविविधद्विकः ॥ १२६ ॥  
क्षपकश्रेणिमारुह्य ध्यानद्वयसुसाधनः । घातिकर्माणि निवर्धूय कैवल्यमुदपादयन् ॥ १२७ ॥  
पुनर्विहृत्य सद्धर्मदेशनाद्विषयान् बहून् । विनेयान् मुक्तिसन्मार्गं दुर्गं दुर्मार्गवर्तिनाम् ॥ १२८ ॥  
पश्चादन्तर्मुहूर्तायुगौं रुदुध्वा त्रिभेदकम् । सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम् ॥ १२९ ॥

### वसन्ततिलका


जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्रसनत्कुमार-

माक्रम्य विक्रमबलेन दिशां च चक्रम् ।

चक्रेण धर्मविहितेन हताधचक्रो


दिश्यात्स वः श्रियमिहाशु सनत्कुमारः ॥ १३० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थकर-सुदर्शन-पुरुषसिंहमधु-  
क्रीडमधवत्सनत्कुमारपुराणं परिसमाप्तम् एकषष्टितमं पर्व ॥ ६१ ॥



तीन कालमें योगधारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना आदि शास्त्रोंमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे ॥ १२१ ॥ वे पृथिवीके समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्तापको दूर करते थे, पर्वतके समान अकम्प थे, परमाणुके समान निःसङ्ग थे, आकाशके समान निल्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, चन्द्रमाके समान सबको आह्लादित करते थे, सूर्यके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवर्णके समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दर्पणके समान समदर्शी थे, कछुवेके समान सङ्कोची थे, साँपके समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हार्थीके समान चुपचाप गमन करते थे, शृगालके समान सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शूरवीर थे और हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते थे । उन्होंने सब परिषद जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और विक्रिया आदि अनेक ऋद्धियां प्राप्त कर ली थीं ॥ १२२-१२६ ॥ उन्होंने क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ होकर दो शुक्लध्यानोके द्वारा घातिया कर्मोको नष्टकर केवलज्ञान उत्पन्न किया था ॥ १२७ ॥ तदनन्तर अनेक देशोंमें विहारकर अनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया और कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंके लिए दुर्गम मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया ॥ १२८ ॥ जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्तकी रह गई तब तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होनेवाला अविनाशी मोक्षपद प्राप्त किया ॥ १२९ ॥ जिन्होंने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने अपने पराक्रमके बलसे दिशाओंके समूह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पापोंका समूह नष्ट किया वे श्रीसनत्कुमार भगवान् तुम सबके लिए शीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें तीर्थकर, सुदर्शन बलभद्र, पुरुषसिंह नारायण, मधुक्लीड प्रतिनारायण, मधवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती के पुराणका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



१ गिरीन्द्र क०, घ० । २ आकाश इव । ३ भास्करः ल० । ४ अहिर्वा स्वकृता ल० ।

## द्विषष्टितमं पर्व

बुध्वा सपर्ययं सर्वं बोध्याभावाद्भवच्छिदः । यस्यावबोधो विश्रान्तः स शान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥ १ ॥  
 वक्नुश्रोतृकथाभेदान् वर्णयित्वा पुरा बुधः । पश्चाद्धर्मकथां ब्रूयाद् गम्भीरार्था यथार्थदृक् ॥ २ ॥  
 विद्वत्त्वं सच्चरित्रत्वं दयालुत्वं प्रगल्भता । वाक्सौभाग्येऽङ्गित्तत्त्वं प्रश्नक्षोदसहिष्णुता ॥ ३ ॥  
 सौमुख्यं लोकविज्ञानं ख्यातिपूजाद्यभीक्षणम् । मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेशरि ॥ ४ ॥  
 तत्त्वज्ञेऽप्यपचारित्रे वक्तव्ये तत्त्वथं स्वयम् । न चरोदिति तत्त्वोक्तं न गृह्णन्ति पृथग्जनाः ॥ ५ ॥  
 सञ्चारित्रेऽप्यशास्त्रज्ञे वक्तव्यल्पश्रुतोद्धता- । सहासयुक्तं सन्मार्गं विदधत्यवधारणाम् ॥ ६ ॥  
 विद्वत्त्वसच्चरित्रत्वे मुख्यं वक्त्रि लक्षणम् । अबाधितस्वरूपं वा जीवस्य ज्ञानदर्शने ॥ ७ ॥  
 युक्तमेतदयुक्तं चेत्युक्तं सम्यग्विचारयन् । स्थाने कुर्वन्नुपालम्भं भक्त्या सूक्तं समाददन् ॥ ८ ॥  
 असारप्राग्ग्रहीतार्थविशेषाविहितादरः । अहसन्स्खलितस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥  
 संसारभीरुराप्रोक्तवाग्धारणपरायणः । शुक्लमृद्धसंसर्गोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥  
 जीवाजीवादितत्त्वार्थो यत्र सम्यग्विरूप्यते । तनुसंसृतिभोगेषु निर्वेदश्च हितैषिणाम् ॥ ११ ॥  
 दानपूजातपःशीलविशेषाश्च विशेषतः । बन्धमोक्षौ तयोर्हेतुफले वाऽसुमृतां पृथक् ॥ १२ ॥  
 घटामटति युक्त्यैव सदसत्त्वादिकल्पना । ख्याता प्राणिदया यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥

संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवान्का ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्रव्योंको जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान् तुम सबकी शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान् पहले वक्ता, श्रोता तथा कथाके भेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर अर्थसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥ २ ॥ विद्वान् होना, श्रेष्ठ चारित्र्य धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान् होना, बालनेमें चतुर होना, दूसरोंके इशारेको समझ लेना, प्रश्नोंके उपद्रवको सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक-व्यवहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजासे युक्त होना और थोड़ा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश देने वालेके गुण हैं ॥ ३-४ ॥ यदि वक्ता तत्त्वोंका जानकार होकर भी चारित्र्यसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको ग्रहण नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ यदि वक्ता सम्यक् चारित्र्यसे युक्त होकर भी शास्त्रका ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़ेसे शास्त्र ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योंके हास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन मोक्षमार्गकी हँसी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीवका अबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्वत्ता और सच्चरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है ॥ ७ ॥ 'यह योग्य है ? अथवा अयोग्य है ?' इस प्रकार कही हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता हो, अबसर पर अयोग्य बातके दोष कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिसे ग्रहण करता हो, उपदेश-श्रवणके पहले ग्रहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल हो जाने पर जो हँसी नहीं करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान् हो, संसारसे डरनेवाला हो, कहे हुए वचनोंको धारण करनेमें तत्पर हो; तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो वह श्रोता कहलाता है ॥ ८-१० ॥ जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थोंका अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छु मनुष्योंको शरीर, संसार और भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और शीलकी विशेषताएँ विशेषताके साथ बतलाई जाती हों, जीवोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और फलोंका पृथक्-पृथक् वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत् और असत्की कल्पना युक्तिसे की जाती हो, जहाँ माताके समान हित करनेवाली दयाका खूब वर्णन हो और जिसके सुननेसे प्राणी सर्वपरि-

सर्वसङ्गपरित्यागाद्यत्र यान्यङ्गिनः शिवम् । तत्त्वधर्मकथा सा स्यान्नाम्ना धर्मकथापरा ॥ १४ ॥  
 एवं पृथग्विनिर्दिश्य वक्त्रादित्रयलक्षणम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्तांशचरितं महत् ॥ १५ ॥  
 अथास्य द्वीपनाथस्य जम्बूद्वीपमहापतेः । लवणाम्भोधिनीलाम्भो लसद्विपुलवाससः ॥ १६ ॥  
 वक्त्रलीलां दधद्रापटमभीष्टं भरताह्वयम् । षट्खण्डमण्डितं वाद्धिहिमवन्मध्यसंश्रितम् ॥ १७ ॥  
 भोगभूतभोगादिर्देशाङ्गश्रक्रिणामपि । तत्र तीर्थकृतां वैश्यं सिद्धिश्चाघातिसंक्षयात् ॥ १८ ॥  
 तस्मात्तन्नाकलोकाच्च वरिष्ठं वर्ण्यते बुधैः । ऐरावतसमं वृद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात् ॥ १९ ॥  
 मध्ये तस्य गिरिर्भाति भरतार्द्धविभागकृत् । पूर्वापरायतस्तुभो यशोराशिरिवोल्ज्वलः ॥ २० ॥  
 स्वर्गलोकजयाज्जाततोपाया वसुधास्त्रियः । पुञ्जीभूतः प्रहासो वा राजते राजताचलः ॥ २१ ॥  
 सफला सर्वदा वृष्टिर्ममोपरि न जातुचित् । युष्माकमिति शैलेन्द्रान् हसतीव स्वतेजसा ॥ २२ ॥  
 चलस्वभावे कुटिले जलाब्धे जलधिप्रिये । १ गुहास्यादिति नद्यौ योऽवमीदिति जुगुप्सया ॥ २३ ॥  
 देवविद्याधरैः सेव्यः सदा स्वाश्रयवर्तिभिः । सर्वेन्द्रियसुखस्थानमेव चक्रिणमन्वगात् ॥ २४ ॥  
 अपाच्यां चक्रबालान्तं पूःश्रेण्यां रथनूपुरम् । ३ सबलाकमिव व्योम कुर्वती तत्र केतुभिः ॥ २५ ॥  
 वेष्टिता रत्नशालेन या पयोधरचुम्बिना । रत्नवेदिकयेवेयं जम्बूद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥  
 वर्द्धन्ते यत्र धर्मार्थकामाः संहर्षणादिव । यस्यां दरिद्रशब्दस्य बहिरङ्गार्थनिष्कृतिः ॥ २७ ॥

ग्रहका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं वह तत्त्वधर्म कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी है ॥ ११-१४ ॥ इस प्रसार वक्ता, श्रोता और धर्मकथाके पृथक् पृथक् लक्षण कहे । अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवान्का विस्तृत चरित्र कहता हूँ ॥ १५ ॥

अथानन्तर—जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है और लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके बड़े शोभायमान वस्त्र हैं ऐसे जम्बूद्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाको धारण करनेवाला, छह खण्डों से सुशोभित, लवणसमुद्र तथा हिमवान् पर्वतके मध्यमें स्थित भरत नामका एक अभीष्ट क्षेत्र है ॥ १६-१७ ॥ वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न होने वाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भोग, तीर्थकरोंका ऐश्वर्य और अघातिया कर्मोंके भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-सुक्ति भी प्राप्त होती है इसलिए विद्वान् लोग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हैं । उस क्षेत्रमें ऐरावत क्षेत्रके समान वृद्धि और ह्रासके द्वारा परिवर्तन होता रहता है ॥ १८-१९ ॥ उसके ठीक बीचमें भरतक्षेत्रका आधा विभाग करनेवाला, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्थ पर्वत सुशोभित होता है जो कि उज्ज्वल यशके समूहके समान जान पड़ता है ॥ २० ॥ अथवा चौड़ीका बना हुआ वह विजयार्थ-पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है ऐसी पृथिवी रूपी स्त्रीका इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती है और तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार वह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पर्वतोंकी मानो हूँसी ही करता रहता है ॥ २२ ॥ ये नदियाँ चञ्चल स्वभाववाली हैं, कुटिल हैं, जलसे ( पक्षमें जड़-मुखोंसे ) आह्वय-सहित हैं, और जलधि-समुद्र ( पक्षमें जड़धि-मुख ) को प्रिय हैं इसलिए घृणासे ही मानो उसने गङ्गा-सिन्धु इन दो नदियोंको अपने गुहारूपी मुखसे वमन कर दिया था ॥ २३ ॥ वह पर्वत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंके द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने-अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंसे सदा सेवित था और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान था ॥ २४ ॥ उस विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो अपनी पताकाओंसे आकाशको मानो बलाकाओंसे सहित ही करती रहती है ॥ २५ ॥ वह मेघोंको चूमने वाले रत्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्नकी वेदिकासे घिरी हुई जम्बूद्वीपकी भूमि ही हो ॥ २६ ॥ वहाँ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्षसे बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं

प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुर्गमैः । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरैर्यावभासते ॥ २८ ॥  
 अशीलभूषणा यत्र न सन्ति कुलयोपितः । वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रदेशिकाः ॥ २९ ॥  
 ज्वलनादिजटी तस्याः पतिः खगपतिः कृती । मणीनामिव वाराशिर्गुणिनामाकरोऽभवत् ॥ ३० ॥  
 प्रतापाद्विद्विषो यस्य मस्तुर्वाकस्य पल्लवाः । वृष्याऽवर्द्धन्त वल्लर्यो वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥  
 तेन स्थाने यथाकालं शालयो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्राफलन् बहुभोगतः ॥ ३२ ॥  
 भतीतान् विश्वभूषेशान् सङ्घयभेदानिवोत्तरः । गुणस्थानकवृद्धिभ्यां विजित्य स महानभूत् ॥ ३३ ॥  
 उभयायत्सिद्धित्वाद् दैवपौरुषयोगतः । कोपद्वयव्यपेतत्वात्तन्त्रावापविमर्शनात् ॥ ३४ ॥  
 शक्तिसिद्धयनुगामित्वाद्योगक्षेमसमागमात् । षड्गुणानुगुणत्वाच्च तद्वाज्यमुदितोदितम् ॥ ३५ ॥  
 तिलकान्तदिवीत्यासीत्पुरं तत्र महीपतिः । चन्द्राभस्तल्पिया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥  
 वायुवेगाजिताशेषवेगिविद्याधराधिपा । स्ववेगविद्यया प्रोद्यद्विद्युदुद्योतजिद्युतिः ॥ ३७ ॥  
 तस्य त्रिवर्गनिष्पत्तौ सा विश्वगुणभूषणा । भूता पुरुषकारस्य सदैवस्येव शैमुषी ॥ ३८ ॥  
 प्रतिपन्नदरेखेव सा सर्वजनसंस्तुता । द्वितीयेव धरारक्ता भोग्या तेन स्वपौरुषात् ॥ ३९ ॥  
 लक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यधायि विविधद्विका । तत्प्रेमप्रेरणानेन वा लभ्ये न करोति किम् ॥ ४० ॥

दिखाई देता था—सदा छुपा रहता था ॥ २७ ॥ जिस प्रकार अन्य मतावलम्बियोंके लिए दुर्गम—  
 कठिन प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोंकी परीक्षा सुशोभित होती है  
 उसी प्रकार शत्रुओंके लिए दुर्गम—दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोंसे वह नगरी सुशोभित हो  
 रही थी ॥ २८ ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की विद्यामें अचारित्र—असंयमका उपदेश देनेवाले  
 वचन नहीं हैं उसी प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलवती स्त्रियाँ नहीं थीं ॥ २९ ॥  
 ज्वलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका  
 आकर—खान समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योंका आकर था ॥ ३० ॥ जिस प्रकार सूर्यके  
 प्रतापसे नये पत्ते मुरझा जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरझा जाते थे—कान्ति हीन हो  
 जाते थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उसकी नीतिसे प्रजा सफल  
 होकर बढ़ रही थी ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं  
 उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते  
 थे ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्याओंसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह राजा  
 पिछले समस्त राजाओंको अपने गुणों और स्थानोंसे जीतकर बढ़ा हुआ था ॥ ३३ ॥ उसकी  
 समस्त सिद्धियाँ देव और पुरुषार्थ दोनोंके आधीन थीं, वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा  
 आदि बाह्य प्रकृतिके क्रोधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त्र  
 शक्ति और प्रभुत्व शक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे  
 उसे सदा योग और क्षेमका समागम होता रहता था, साथ ही वह सन्धि विग्रह यान आदि छह  
 गुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही रहता था ॥ ३४—३५ ॥

उसी विजयार्थ पर द्युतिलक नामका दूसरा नगर था । राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता  
 था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके वायुवेगा नामकी पुत्री थी । उसने अपनी वेग  
 विद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंको जीत लिया था । उसकी कान्ति चमकती हुई  
 बिजलीके प्रकाशको जीतने वाली थी ॥ ३६—३७ ॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्यकी  
 बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह वायुवेगा  
 राजा ज्वलनजटीकी त्रिवर्गसिद्धिका कारण हुई थी ॥ ३८ ॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान  
 वह सब मनुष्योंके द्वारा स्तुत्य थी । तथा अनुरागसे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान वह अपने  
 ही पुरुषार्थसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी ॥ ३९ ॥ वायुवेगाके प्रेमकी प्रेरणासे ज्वलन-

कौलीन्यादनुरक्तत्वादभूत्सैकपतिः सती । भूपतेश्चैकभार्यत्वं प्रेमाधिक्याज्जगूर्जनाः ॥ ४१ ॥  
रूपादिगुणसम्पत्तिस्तस्याः किं कथ्यते पृथक् । तस्य चेच्छक्रवच्छच्यां तस्यां प्रीतिरमानुषी ॥ ४२ ॥  
दयावबोधयोर्मोक्ष इव सूनुस्तयोरभूत् । अर्ककीर्तिः स्वकीत्याभाप्रभासितजगत्त्रयः<sup>१</sup> ॥ ४३ ॥  
नीतिविक्रमयोर्लक्ष्मीरिव सर्वमनोहरा । स्वयम्प्रभाभिधानाऽऽसीत्यभेव विधुना सह ॥ ४४ ॥  
मुखेनाम्भोजमक्षिम्यामुत्पलं मणिदर्पणम् । त्विषा कान्त्या विधुं जित्वा बभौ सा भूपताकया ॥ ४५ ॥  
उत्पन्नं यौवनं तस्यां लतिकार्यां प्रसूनवत् । खगकामिषु पुष्पेयुज्वरश्रोत्थापितस्तया ॥ ४६ ॥  
आपाण्डुगण्डभाभासिवक्त्रलोलविलोचना । मध्याङ्गकादर्यसम्भूतसम्भ्रान्त्येव स्वयम्प्रभा ॥ ४७ ॥  
तन्त्या रोमावली तन्वी हरिनीलरुचिर्न्यभात् । आरुरुक्षुरिवोद्धत्या तुङ्गपीनघनस्तनौ ॥ ४८ ॥  
अनालीढमनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेव सा । सम्पन्नयौवनेनैव जनानामगमद्दृशम् ॥ ४९ ॥  
अथान्येद्युर्जगन्नन्दनाभिनन्दनचारणौ । स्थितौ मनोहरोद्याने ज्ञात्वा पतिनिवेदकात् ॥ ५० ॥  
चतुरङ्गबलोपेतः सपुत्रोऽन्तःपुरावृतः । गत्वाभिवन्द्य सद्धर्मश्रवणानन्तरं परम् ॥ ५१ ॥  
सम्यग्दर्शनमादाय दानशीलादि वादरात् । प्रणम्य चारणौ भक्त्या प्रयेत्य प्राविशत्पुरम् ॥ ५२ ॥  
स्वयम्प्रभापि सद्धर्मं तत्रादायैकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्लानतनुरभ्यर्च्यं वार्हतः ॥ ५३ ॥

जटीने अनेक ऋद्धियोंसे युक्त राजलक्ष्मीको उसका परिकर-दासी बना दिया था सो ठीक ही है क्योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥ ४० ॥ बड़े कुलमें उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पतिव्रताके एक पतिव्रत था और प्रेमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीव्रत था ऐसा लोग कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमें ज्वलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोंका पृथक् पृथक् क्या वर्णन किया जावे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार दया और सम्यग्ज्ञानके मोक्ष होता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिकी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार नीति और पराक्रमके लक्ष्मी होती है उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो अर्ककीर्तिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बढ़ती है ॥ ४४ ॥ वह मुखसे कमलको, नेत्रोंसे उत्पलको, आभासे मणिमय दर्पणको और कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भौंहरूप पताका ही फहरा रही हो ॥ ४५ ॥ लतामें फूलके समान ज्योंही उसके शरीरमें यौवन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी विद्याधरोमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया ॥ ४६ ॥ कुछ कुछ पीले और सफेद कपोलोंकी कान्तिसे सुशोभित मुखमण्डल पर उसके नेत्र बड़े चञ्चल हो रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके दूट जानेके भयसे ही नेत्रोंको चञ्चल कर रही हो ॥ ४७ ॥ उस दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील मणि के समान कान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उल्ललकर ऊँचे स्थूल और निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो ॥ ४८ ॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यौवनसे ही वह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर हो रही थी ॥ ४९ ॥

अथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन और नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनके आगमनकी खबर देनेवाले वनपालसे यह समाचार जानकर राजा चतुरङ्ग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनके समीप गया । वहाँ वन्दना कर उसने श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यग्दर्शन तथा दान शील आदि व्रत ग्रहण किये, तदनन्तर भक्तिपूर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंको प्रमाण कर वह नगरमें वापिस आ गया ॥ ५०-५२ ॥ स्वयंप्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया । एक दिन उसने पर्वके समय



तत्पादपङ्कजरलेषापवित्रां पापहां स्रजम् । चित्रां पित्रेऽदित द्वाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥ ५४ ॥  
 तामादाय महीनाथो भक्त्यापश्यत्स्वयम्प्रभाम् । उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसर्ज्य ताम् ॥ ५५ ॥  
 यौवनापूर्णसर्वाङ्गरमणीया प्रियात्मजा । कस्मै देयेयमित्येवमात्मन्येव चित्तकथयन् ॥ ५६ ॥  
 'मन्त्रिवर्गं समाहूय प्रस्तुतार्थं न्यवेदयत् । श्रुत्वा तत्सुश्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चितम् ॥ ५७ ॥  
 असुस्मिन्नुत्तरश्रेण्यामलकाख्यापुरेशितुः । मयूरप्रीवसंज्ञस्य प्रिया नीलाञ्जना तयोः ॥ ५८ ॥  
 अश्वप्रीवोऽग्रिमो नीलरथः कण्ठान्तनीलसु । वज्राख्यातास्त्रयः सर्वेऽप्यभूवन् पञ्च सूनवः ॥ ५९ ॥  
 अश्वप्रीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयोः । ते प्रीवाङ्गदचूडान्तरत्ना रत्नरथादिभिः ॥ ६० ॥  
 शतानि पञ्च मन्त्र्यस्य हरिश्मश्रुः श्रुताम्बुधिः । शतबिन्दुश्च नैमित्तिकोऽप्याङ्गनिपुणो महान् ॥ ६१ ॥  
 इति सम्पूर्णराज्याय खगश्रेणीद्वयेशिने । अश्वप्रीवाय दातव्या कन्येत्येतद्विचारयन् ॥ ६२ ॥  
 अस्त्येव सुश्रुताख्यातं सर्वमित्यवनीपतिम् । इदं बहुश्रुतोऽनोचदुत्तरं स्वमनोगतम् ॥ ६३ ॥  
 स्वाभिजात्यमरोगत्वं वयः शीलं श्रुतं वपुः । लक्ष्मीः पक्षः परीवारो वरं नव गुणाः स्मृताः ॥ ६४ ॥  
 अश्वप्रीवे त एतेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिकम् । तस्मात्कोऽपि वरोऽन्योऽस्तु सवयास्तद्गुणान्वितः ॥ ६५ ॥  
 राजा सिंहरथः ख्यातः पुरे गगनवल्लभे । परः पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिराट् ॥ ६६ ॥  
 अरिञ्जयाख्यछिपुरे खगेशो ललिताङ्गदः । कनकादिरथो विद्याकुशलोऽश्वपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥  
 महारत्नपुरे विश्वखगाधीशो धनञ्जयः । कन्यैष्वेकतमायेयं दातव्येति विनिश्चितम् ॥ ६८ ॥  
 अवधार्य वचस्तस्य विचार्य श्रुतसागरः । स्मृतिचक्षुरिमां वाचं व्याजहार मनोहराम् ॥ ६९ ॥

उपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ म्लान हो गया । उसने अर्हन्त भगवान्की पूजा की तथा उनके चरण-कमलोंके संपर्कसे पवित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयसे मुककर दोनों हाथोंसे पिताके लिए दी ॥ ५३-५४ ॥ राजाने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली और उपवाससे थकी हुई स्वयंप्रभाकी ओर देख, 'जाओ पारण करो' यह कर उसे विदा किया ॥ ५५ ॥ पुत्रीके चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवनसे परिपूर्ण समस्त अङ्गोंसे सुन्दर है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उसने उसी सयय मन्त्रिवर्गको बुलाकर प्रकृत बात कही, उसे मुनकर सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्चय कर बोला ॥ ५७ ॥ कि इसी विजयार्थकी उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीके राजा मयूरप्रीव हैं, उनकी स्त्रीका नाम नीलाञ्जना है, उन दोनोंके अश्वप्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुकण्ठ और वज्रकण्ठ नामके पाँच पुत्र हैं । इनमें अश्वप्रीव सबसे बड़ा है ॥ ५८-५९ ॥ अश्वप्रीवकी स्त्रीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोंके रत्न-प्रीव, रत्नाङ्गद, रत्नचूड तथा रत्नरथ आदि पाँच सौ पुत्र हैं । शास्त्रज्ञानका सागर हरिश्मश्रु इसका मंत्री है तथा शतबिन्दु निमित्तज्ञानी है—पुरोहित है जो कि अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानमें अतिशय निपुण है ॥ ६०-६१ ॥ इस प्रकार अश्वप्रीव सम्पूर्ण राज्यका अधिपति है और दोनों श्रेणियोंका स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिये ॥ ६२ ॥ इसके बाद सुश्रुत मंत्रीके द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजासे अपने हृदयकी बात कहने लगा । वह बोला कि सुश्रुत मंत्रीने जो कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाङ्कित बात विचारणीय है । कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रुत, शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार, वर के ये नौ गुण कहे गये हैं । अश्वप्रीवमें यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्याके समान हो और गुण अश्वप्रीवके समान हों, खोजना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ गगनवल्लभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है, चित्रपुरका स्वामी अरिञ्जय है । त्रिपुरनगरमें विद्याधरोंका राजा ललिताङ्गद रहता है, अश्व-पुरका राजा कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल है, और महारत्नपुरका राजा धनञ्जय समस्त विद्याधरोंका स्वामी है । इनमेंसे किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिये यह निश्चय है ॥ ६६-६८ ॥ बहुश्रुतके

कुलारोग्यवयोरूपाद्युपेताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किञ्चिदुच्यते श्रूयतां मनाक् ॥ ७० ॥  
 पुरं सुरेन्द्रकान्तारमुदक्श्रेण्यां तदीश्वरः । मेघवाहननामास्य प्रियाभूम्येधमालिनी ॥ ७१ ॥  
 तयोर्विद्युत्प्रभः सूनुर्योतिर्मालामला सुता । खगाधीशो ननन्दाभ्यासिवायेन धिया च सः ॥ ७२ ॥  
 सिद्धकूटमगास्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र इष्ट्वाऽर्वाधिज्ञानं वरधर्माख्यचारणम् ॥ ७३ ॥  
 वन्दित्वा धर्मभाकर्यं स्वसूनोः प्राक्तनं भवम् । पप्रच्छ शृणु त्रिद्याभूत्प्रणिधायेति सोऽब्रवीत् ॥ ७४ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । पुरी प्रभाकरो राजा नन्दनः सुन्दराकृतिः ॥ ७५ ॥  
 सूनुर्विजयभद्रोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फलितं चूतं वने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥  
 विफलं तत्समुद्भूतवैराग्यः पिहिताश्रवात् । गुरो सहस्रैर्भूर्पालैश्चतुर्भिः संयमं यथौ ॥ ७७ ॥  
 प्रान्ते माहेन्द्रकल्पेऽभूद्विमाने चक्रकाङ्क्षये । सप्ताब्धिजीवितो दिव्यभोगास्तत्रान्वभूच्चिरम् ॥ ७८ ॥  
 ततः प्रच्युत्य सूनुस्तेऽजायतायं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छ्रुतम् ॥ ७९ ॥  
 तस्मै वरगुणैः सर्वैः पूर्णायैयं प्रदीयताम् । ज्योतिर्मालां च गृह्णीम सपुण्यामर्ककीर्तये ॥ ८० ॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा सुमतिर्मतिवचनमः । कन्यां सम्प्रार्थयन्तेऽमी खगाधीशः पृथक् पृथक् ॥ ८१ ॥  
 तस्मान्नास्मै प्रदातव्या बहुवैरं भवेत्ततः । स्वयंवरविधिः श्रेयानित्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥  
 तदेवानुमत्तं सर्वैस्ततः सम्पूज्य मन्त्रिणः । विसर्ज्य खेचराधीशः सम्भिन्नश्रोतुसंश्रमम् ॥ ८३ ॥

वचन हृदयमें धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रुत नामका तीसरा मन्त्री निम्नाङ्कित मनोहर वचन कहने लगा ॥ ६६ ॥ यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदिसे सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो मैं कुछ कहता हूँ उसे थोड़ा सुनिये ॥ ७० ॥

इसी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका नाम मेघवाहन है । उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा है । उन दोनोंके विद्युत्प्रभ नामका पुत्र और ज्योतिर्माला नामकी निर्मल पुत्री है । खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा समृद्धिमान-सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धिसे होता है । अर्थात् पुत्र पुण्यके समान था और पुत्री बुद्धिके समान थी ॥ ७१-७२ ॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट गया था । वहाँ वरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणश्रद्धिधारी मुनिकी वन्दना कर उसने पहले तो धर्मका स्वरूप सुना और बादमें अपने पुत्रके पूर्व भव पूछे । मुनिने कहा कि हे विद्याधर ! चित्त-लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ ॥ ७३-७४ ॥

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है वहाँ सुन्दर आकार वाला नन्दन नामका राजा राज्य करता था ॥ ७५ ॥ जयसेना स्त्रीके उदरसे उत्पन्न हुआ विजयभद्र नामका इसका पुत्र था । उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान-में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्षको फलरहित देखा । यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहिताश्रव गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ७६-७७ ॥ आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वर्गके चक्रक नामक विमानमें सातसागर की आयु-बाला देव हुआ । वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभोग करता रहा ॥ ७८ ॥ वहाँसे च्युत-होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भवसे निर्वाणको प्राप्त होगा । श्रुतसागर मन्त्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहाँ यह सब मैंने सुना है ॥ ७९ ॥ इस प्रकार विद्युत्प्रभ वरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी वहिन ज्योतिर्मालाको हमलोग अर्ककीर्तिके लिए स्वीकृत करें ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रुतसागरके वचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमति नामका मन्त्री बोला कि इस कन्याको पृथक्-पृथक् अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युत्प्रभको कन्या नहीं देनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी समझसे तो स्वयंवर करना ठीक होगा । ऐसा कहकर वह चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब लोगोंने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सब मन्त्रियोंको विदा कर दिया और संभिन्नश्रोतु नामक

स्वयम्प्रभायाः कश्चेतोवल्लभो भवतेति तम् । अपृच्छत् स पुराणार्थवेदीर्थं प्रत्युवाच तम् ॥ ८४ ॥  
 गुरुः प्रथमचक्रेशं प्राक्पुराणनिरूपणे । आदिकेशवसम्बद्धमित्यवोचत्कथान्तरम् ॥ ८५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलावत्यां विषये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्यां मधुके वने ॥ ८६ ॥  
 पुरुरवा वनाधीशो मार्गभ्रष्टस्य दर्शनात् । मुनेः सागरसेनस्य पथः सञ्चितपुण्यकः ॥ ८७ ॥  
 मद्यमांसनिवृत्तेश्च कृतसौधर्मसम्भवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ८८ ॥  
 मरीचिरेष दुर्मागंदिशाननिरतश्चिरम् । भ्रान्त्वा संसारचक्रेऽस्मिन् सुरम्यविषये पुरम् ॥ ८९ ॥  
 पोदनाख्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानृपः । स तनूजो मृगावत्यां त्रिपृष्ठांस्तस्य भविष्यति ॥ ९० ॥  
 अग्रजोऽस्यैव भद्राया विजयो भविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्तीर्थे हत्वाऽश्वग्रीवद्विषम् ॥ ९१ ॥  
 त्रिखण्डराज्यभागोश्चौ प्रथमौ बलकेशवौ । त्रिपृष्ठः संसृतौ भ्रान्त्वा भावी तीर्थकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥  
 भवतोऽपि नमः कच्छसुतस्यान्वयसम्भवात् । वंशजे नास्ति सम्बन्धस्तेन बाहुबलीशितुः ॥ ९३ ॥  
 त्रिपृष्ठाय प्रदातव्या त्रिखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोहर्त्री कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥  
 तेनैव भवतो भावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चित्येत्तदनुष्ठेयमादितीर्थकरोदितम् ॥ ९५ ॥  
 इति तद्वचनं चित्तं विधाय तमसौ मुदा । नैमित्तिकं समापूज्य रथनूपुरमूपतिः ॥ ९६ ॥  
 सुदूतमिन्दुनामानं सुखेखोपायनान्वितम् । प्रजापतिमहाराजं प्रतिसम्प्राहिणेतदा ॥ ९७ ॥  
 स्वयम्प्रभापतिर्भावी त्रिपृष्ठ इति भूपतिः । नैमित्तिकाद्विदित्वैतज्जयगुसात्युरैव सः ॥ ९८ ॥  
 खचराधिपदूतं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिगृह्य ससन्मानं वने पुष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥

निमित्तज्ञानीसे पूजा कि स्वयंप्रभाका हृदयवल्लभ कौन होगा ? पुराणोंके अर्थको जाननेवाले निमित्तज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ८३-८४ ॥ वह कहने लगा कि भगवान् ऋषभदेवने पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्तीसे, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा कही थी । जो इस प्रकार है—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरुरवा नामका भीलोंका राजा रहता था । किसी एक दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें ही पुण्यका संचय किया तथा मद्य मांस मधुका त्याग कर दिया । इस पुण्यके प्रभावसे वह सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहांसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी स्त्रीके मरीचि नामका पुत्र हुआ है । यह मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी मृगावती रानीसे त्रिपृष्ठ नामका पुत्र होगा ॥ ८५-९० ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिपृष्ठका बड़ा भाई होगा । ये दोनों भाई श्रेयान्सनाथ तीर्थकरके तीर्थमें अश्वग्रीव नामक शत्रुको मार कर तीन खण्डके स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे । त्रिपृष्ठ संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तीर्थकर होगा ॥ ९१-९२ ॥ आपका भी जन्म राजा कच्छके पुत्र नमिके वंशमें हुआ है अतः बाहुबली स्वामीके वंशमें उत्पन्न होनेवाले उस त्रिपृष्ठके साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥ ९३ ॥ इसलिए तीन खण्डकी लक्ष्मी और सुखके स्वामी त्रिपृष्ठके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह कल्याण करने वाली कन्या उसका मन हरण करनेवाली हो ॥ ९४ ॥ त्रिपृष्ठको कन्या देनेसे आप भी समस्त विद्याधरोंके स्वामी हो जावेंगे इसलिए भगवान् आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर आपको यह अवश्य ही करना चाहिये ॥ ९५ ॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीके वचनों की हृदयमें धारण करण कर रथनूपुर नगरके राजाने बड़े हर्षसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजाकी ॥ ९६ ॥ और उसी समय उत्तम लेख और भेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजके पास भेजा ॥ ९७ ॥ यह त्रिपृष्ठ स्वयंप्रभाका पति होगा यह वंश प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे पहले ही जान ली थी इसलिये उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजके दूतका, पुष्पकरण्डक

स दूतो राजगेहं स्वं सम्प्रविश्य सभागृहे । निजासने समासीनः प्रभृतं सचिवापितम् ॥ १०० ॥  
 विलोक्य रागाद् भूपेन स्वानुरागः समर्पितः । प्राभृतेनैव तुष्टाः स्म इति दूतं प्रतोषयन् ॥ १०१ ॥  
 श्रीत्रिपृष्ठः कुमारानां वरिष्ठः कन्ययाऽनया । स्वयम्प्रभ्राख्यया लक्ष्म्येवाद्यालक्ष्मिक्रियतामिति ॥ १०२ ॥  
 श्रुत्वा यथार्थमस्याविभूतद्विगुणसम्मदः । वाचिकं च समाकर्ण्य भुजाप्राक्रान्तमस्तकः ॥ १०३ ॥  
 स्वयमेव खगाधीशः स्वजामातुर्महोदयम् । इमं विधातुमन्यञ्च<sup>१</sup> सचिन्तस्तत्र के वयम् ॥ १०४ ॥  
 इति दूतं तदायातं कार्यसिद्धया प्रसाधयन् । प्रपूज्य प्रतिदत्तं च प्रदात्याहु व्यसर्जयत् ॥ १०५ ॥  
 स दूतः सत्वरं गत्वा रथनूपुरनायकम् । प्राप्य प्रणम्य कल्याणकार्यसिद्धिं व्यजिज्ञपत् ॥ १०६ ॥  
 तच्छ्रुत्वा खेचराधीशः प्रसमोदप्रचोदितः । न कालहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वितः ॥ १०७ ॥  
 महाविभूत्या सम्प्राप्य नगरं पोदनाह्वयम् । उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छदमुत्सुकम् ॥ १०८ ॥  
 केतुमालाचलहोभिराह्वयद्वातिसम्भ्रमात् । प्रतिपातः स्वसम्पत्त्या महीशः प्राविशन्मुदा ॥ १०९ ॥  
 प्रविश्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । प्रासप्राघूर्णकाचारप्रसन्नहृदयाननः ॥ ११० ॥  
 विवाहोचितविन्यासैस्तपिताशेषभूतलः । स्वयम्भ्रमां प्रभां धान्यां त्रिपृष्ठाय प्रदाय ताम् ॥ १११ ॥  
 सिंहाहिविद्विद्विवाहिन्यौ विधे साधयितुं ददौ । ते तत्र सर्वे सम्भूय व्यगाहन्त सुखान्बुधिम् ॥ ११२ ॥  
 इतोऽश्वप्रीवचक्रेशो विनाशपिञ्जः पुरे । उत्पातस्त्रिविधः प्रोक्तः सद्यः सममुदुष्यथौ ॥ ११३ ॥  
 अभूतपूर्वं तं दृष्ट्वा सहसा भीतिमान् जनः । पल्योपमाष्टभागोवशेषे वा भोगभूयुवः ॥ ११४ ॥

नामके वनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥ ६८-६९ ॥ महाराज उस दूतके साथ अपने राजभवनमें प्रविष्ट होकर जब सभागृहमें राजसिंहासन पर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दूतके द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की । राजाने उस भेंटको बड़े प्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया और दूतको सन्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये ॥ १००-१०१ ॥ तदनन्तर दूतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान् त्रिपृष्ठ समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ है अतः इसे लक्ष्मीके समान स्वयम्भ्रमा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जावे । इस यथार्थ सन्देशको सुनकर प्रजापति महाराजका हर्ष दुगुना हो गया । वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित हैं तब हमलोग क्या चीज हैं ? ॥ १०२-१०४ ॥ इस प्रकार उस समय आये हुए दूतको महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया ॥ १०५ ॥ वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रथनूपुरनगरके राजाके पास पहुँचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी ॥ १०६ ॥ यह सुनकर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हर्षसे प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि 'इस कार्यमें विलम्ब करना योग्य नहीं है' यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े ठाट-बाटसे पोद्दनापुर पहुँचा । उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बाँधे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाओंकी पंक्ति रूप चञ्चल भुजाओंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिके अनुसार उसकी अगवानी की । इस प्रकार उसने बड़े हर्षसे नगरमें प्रवेश किया ॥ १०७-१०८ ॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहुनेके योग्य उसका सत्कार किया । इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये ॥ ११० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त पृथिवी तलकी सन्तुष्ट किया और दूसरी प्रभाके समान अपनी स्वयंभ्रमा नामकी पुत्री त्रिपृष्ठके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहाहिनी और गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ दीं । इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने लगे ॥ १११-११२ ॥ इधर अश्वप्रीव प्रतिनारायणके नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारके उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ होने लगे ॥ ११३ ॥ जिस प्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका

अश्वप्रीवश्च सन्भ्रान्तः समन्त्रं पृष्टवान् पृथक् । शतबिन्दुं निमित्तिज्ञं किमेतदिति तत्फलम् ॥ ११५ ॥  
 येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्रमः । अहारि प्राभृतं येन त्वां प्रति ग्रहितं हठात् ॥ ११६ ॥  
 रथनूपुरनाथेन भवद्योग्यं प्रदायि च । यस्मै स्त्रीरत्नमेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥  
 तत्सूचकमिदं सर्वं कुर्वेतस्य ? प्रतिक्रियाम् । इति नैमित्तिकेनोक्तं कृत्वा हृदि खगाधिपः ॥ ११८ ॥  
 अरेर्गदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्भावनिषेधनम् । विदधाति तदस्याभिविस्मृतं सस्मयैर्बृथा ॥ ११९ ॥  
 हृदानीमप्यसौ द्रुष्टो युष्माभिरविलम्बितम् । विपाङ्कुरवदुच्छेद्य इत्यवादीत्स्वमन्त्रिणः ॥ १२० ॥  
 तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य स्वगूढप्रहितैश्चरैः । नैमित्तिकोक्तं निश्चित्य तस्य सिंहवधादिकम् ॥ १२१ ॥  
 त्रिपृष्ठो नाम दपिष्ठः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमाद्विजिगीषते ॥ १२२ ॥  
 परीक्षितव्यः सोऽस्मासु कीदृश इति दक्षिणैः । दूतैरिति खगाधीशमवोचन्मन्त्रिणः पृथक् ॥ १२३ ॥  
 तदाकर्ण्य तदैवासौ चिन्तागतिमनोगती । दूतौ सम्प्रेषयामास त्रिपृष्ठं प्रति विद्वरौ ॥ १२४ ॥  
 गत्वा तौ स्वर्गातिं पूर्वं निवेद्यानुभूतौ नृपम् । इष्ट्वा यथोचितं दत्त्वा प्राभृतं विनयान्वितौ ॥ १२५ ॥  
 अश्वप्रीवेण देवेन त्वमद्याज्ञापितोऽस्यहम् । रथावर्त्ताद्रिमेष्यामि तमायात्तु भवानिति ॥ १२६ ॥  
 आवां त्वामागतौ नेतुमाज्ञामारोप्य मस्तकम् । आगन्तव्यं त्वयेत्युच्चैरुच्यतेः सोऽपि कोपवान् ॥ १२७ ॥  
 अश्वप्रीवाः खरप्रीवाः क्रौञ्चप्रीवास्तथापरे । दृष्ट्वा क्रमेलकप्रीवा नापूर्वो नः ? स पश्यताम् ॥ १२८ ॥  
 इत्याह तौ च किं युक्तमवमन्तुं खगेश्वरम् । विश्वरूपसमभ्यर्च्य तं भवत्पक्षपातिनम् ॥ १२९ ॥

आठवाँ भाग बाकी रहने पर नई नई बातोंको देखकर भोगभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातोंको देखकर वहाँके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥ ११४ ॥ अश्वप्रीव भी घबड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्तमें शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे 'यह क्या है ?' इन शब्दों द्वारा उनका फल पूछा ॥ ११५ ॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबर्दस्ती छीन ली और रथनूपुर नगरके राजा स्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य स्त्रीरत्न दे दिया है उससे आपको क्षोभहोगा ॥ ११६-११७ ॥ ये सब उत्पात उसीके सूचक हैं । तुम इसका प्रतिकार करो । इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातको हृदयमें रखकर अश्वप्रीव अपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी ११८-११९ ॥ अब भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा विषके अङ्कुरके समान शीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है ॥ १२० ॥ उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपसे भेजे हुए दूतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली और निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध आदिकी बातें कही थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस पृथिवी पर प्रजापतिका पुत्र त्रिपृष्ठ ही बड़ा अहंकारी है । वह अपने पराक्रमसे सब राजाओं पर आक्रमणकर उन्हें जीतना चाहता है ॥ १२१-१२२ ॥ वह हम लोगोंके विषयमें कैसा है ?—अनुकूल प्रतिकूल कैसे विचार रखता है इस प्रकार सरल चित्त—निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये मन्त्रियोंने ऐसा पृथक्-पृथक् राजासे कहा ॥ १२३ ॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागति और मनोगति नामके दो विद्वान् दूत त्रिपृष्ठके पास भेजे ॥ १२४ ॥ उन दूतोंने जाकर पहले अपने आनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी ॥ १२५ ॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्वप्रीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं रथावर्त नामके पर्वत पर जाता हूँ आप भी आइये ॥ १२६ ॥ हम दोनों तुम्हें लेनेके लिए आये हैं । आपको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिये । ऐसा उन दोनोंने जोरसे कहा । यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ और वहने लगा कि अश्वप्रीव (घोड़े जैसी गर्दनवाले) खरप्रीव, (गधे जैसी गर्दन वाले) क्रौञ्चप्रीव (क्रौञ्च पक्षी जैसी गर्दन वाले) और क्रमेलकप्रीव (ऊँट जैसी गर्दनवाले) ये सब मैंने देखे हैं । हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥ १२७-१२८ ॥ जब वह त्रिपृष्ठ कह चुका तब दूतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वप्रीव सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके

इत्याहतुः खगेशोऽस्तु पक्षपाती न वार्यते । नाहमेव्यामि तं द्रष्टुमिति प्रत्यब्रवीदसौ ॥ १३० ॥  
 दर्पादिदं न वक्तव्यमद्दृष्ट्वा चक्रवर्तिनम् । देहेऽपि न स्थितिभूमौ कः पुनः स्थातुमर्हति ॥ १३१ ॥  
 इति श्रुत्वा चक्रो राज्ञा तयोश्चक्रेण वर्तितुम् । शीलोऽसौ किं घटादीनां कारकः कारकाग्रणीः ॥ १३२ ॥  
 तस्य किं प्रेक्षामित्युक्तौ तौ सकोपावबोचताम् । कन्यारत्नमिदं चक्रिभोग्यं किं तेऽद्य नीर्यते ॥ १३३ ॥  
 रथनूपुरराजाऽसौ ज्वलनादिजटी कथम् । प्रजापतिश्च नामापि सन्धत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥  
 इति सद्यस्ततो दूतौ निर्पत्य<sup>१</sup> द्रुतगामिनौ । प्राप्याश्वग्रीवमानस्य प्रोचतुस्तद्विजृम्भणम् ॥ १३५ ॥  
 खगेश्वरोऽपि तल्लक्ष्णमक्षमो रूक्षवीक्षणः । भेरीमास्फालयामास रणप्रारम्भसूचिनीम् ॥ १३६ ॥  
 तदध्वनिर्व्याप दिक्प्रान्तात् हत्वा दिग्दन्तिनां मदम् । चक्रवर्तिनि संक्रुद्धे महान्तः के न विन्ध्यति ॥ १३७ ॥  
 चतुरङ्गबलेनासौ रथावर्तमगात् गिरिम् । पेतुरुल्काश्चचालैला दिक्षु दाहा जजृम्भरं ॥ १३८ ॥  
 प्रजापतिसुतौ चैतद्विदित्वा विततौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापान्निभस्मितारीन्धनोच्चयौ ॥ १३९ ॥  
 उभयोः सेनयोस्तत्र संग्रामः समभून्महान् । समक्षयात्तयोः प्रापदन्तकः समवर्तिताम् ॥ १४० ॥  
 युद्ध्वा चिरं पदातीनां वृथा किं क्रियते क्षयः । इति त्रिष्टुष्टो युद्धार्थमभ्यश्वग्रीवमेयिवान् ॥ १४१ ॥  
 ह्यग्रीवांऽपि जन्मान्तरानुबद्धोरुवैरतः । आच्छादयदतिक्रुद्धः शरवर्षैर्विरोधिनम् ॥ १४२ ॥  
 इन्द्रयुद्धेन तौ जेतुमक्षमाचितरेतरम् । मायायुद्धं समारब्धौ महाविद्याबलोद्धतौ ॥ १४३ ॥  
 युद्ध्वा चिरं ह्यग्रीवश्चक्रं न्यक्षिपदभ्यरिम् । तदैवादाय तद्ग्रीवामच्छिदत् केशवः क्रुधा ॥ १४४ ॥

द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है ॥१२६॥ यह सुनकर त्रिष्टुष्टने कहा कि वह खग अर्थात् पक्षियोंका ईश है—स्वामी है इसलिए पक्ष अर्थात् पंखोंसे चले इसके लिए मनाई नहीं है परन्तु मैं उसे देखनेके लिए नहीं जाऊंगा ॥ १३० ॥ यह सुनकर दूतोंने फिर कहा कि अहंकारसे ऐसा नहीं कहना चाहिये । चक्रवर्तीके देखे बिना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥ १३१ ॥ दूतोंके वचन सुनकर त्रिष्टुष्टने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह घट आदिको बनाने वाला ( कुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसका क्या देखना है ? यह सुनकर दूतोंको क्रोध आ गया । वे क्रुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि चक्रवर्तीके भोगने योग्य है क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? और चक्रवर्तीके क्रुपित होने पर रथनूपुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा । इतना कह वे दूत वहाँसे शीघ्र ही निकल कर अश्वग्रीवके पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिष्टुष्टके वैभवका समाचार कहने लगे ॥ १३२-१३५ ॥ अश्वग्रीव यह सब सुननेके लिए असमर्थ हो गया, उसकी आंखें रूखी हो गई और उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देने वाली भेरी बजवा दी ॥ १३६ ॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नष्टकर दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि चक्रवर्तीके क्रुपित होने पर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते हों ॥ १३७ ॥ वह अश्वग्रीव चतुरङ्ग सेनाके साथ रथावर्त पर्वत पर जा पहुँचा, वहाँ उल्काएँ गिरने लगीं, पृथिवी हिलने लगी और दिशाओंमें दाह दोष होने लगे ॥ १३८ ॥ जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है और जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे प्राजपतिके दोनों पुत्रोंको जब इस बातका पता चला तो इसके संमुख आये ॥ १३९ ॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान् संग्राम हुआ । दोनों सेनाओंका समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता—मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ॥ १४० ॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिष्टुष्टने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है । ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए अश्वग्रीवके सामने आया ॥ १४१ ॥ जन्मान्तरसे बंधे हुए भारी वैरके कारण अश्वग्रीव बहुत क्रुद्ध था अतः उसने बाण-वर्षाके द्वारा शत्रुको आच्छादित कर लिया ॥ १४२ ॥ जब वे दोनों इन्द्र युद्धसे एक दूसरेको जीतनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा-विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥ १४३ ॥ अश्वग्रीवने

तावर्कविधुसद्ग्राशौ त्रिपृष्ठविजयौ विभू । भरताब्दाधिपत्येन भातः स्म ध्वस्तविद्विषौ ॥ १४५ ॥  
 नृपेन्द्रैः खेचराधीशैर्व्यन्तरैर्मागधादिभिः । कृताभिषेकः सम्प्राप त्रिपृष्ठः पृष्ठतां क्षितेः ॥ १४६ ॥  
 आधिपत्यं द्वयोः श्रेण्योर्विततारादिकेशवः । हृष्टः स्वयम्प्रभापित्रे न स्यात्किं श्रीमदाश्रयात् ॥ १४७ ॥  
 असिः शङ्खो धनुश्चक्रं शक्तिर्दण्डो गदाभवन् । रत्नानि सप्त चक्रेशो रक्षितानि मरुद्गणैः ॥ १४८ ॥  
 रत्नमाला हर्षं भास्वद्रामस्य मुशर्लं गदा । महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भाविनिर्वृतैः ॥ १४९ ॥  
 देव्यः स्वयंप्रभामुख्याः सहस्राण्यस्य षोडश । बलस्थाष्टसहस्राणि कुलरूपगुणान्विताः ॥ १५० ॥  
 अर्ककीर्तिः कुमारस्य ज्योतिर्माळा खगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या सम्पदाग्रहीत् ॥ १५१ ॥  
 तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवत्सुता । प्रतिपञ्चन्द्रयोः शुक्लपक्षरेखेव चैन्दवी ॥ १५२ ॥  
 त्रिण्णोः स्वयम्प्रभायां च सुतः श्रीविजयोऽजनि । ततो विजयभद्राख्यः सुता ज्योतिःप्रभाङ्कया ॥ १५३ ॥  
 प्रजापतिमहाराजः <sup>१</sup>भूरिप्राप्तमहोदयः । कदाचिज्जातसंवेगः सम्प्राप्य पिहिताश्रवम् ॥ १५४ ॥  
 धादाञ्जनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽशेषपरिग्रहम् । जेन सम्प्राप्यते भावः सुखाल्मपरमात्मनः ॥ १५५ ॥  
 बाह्येतरद्विषद्भेदतपस्यविरतोद्यमः । चिरं तपस्यन् सञ्चितमायुरन्ते समादधत् ॥ १५६ ॥  
 मिथ्यात्वं संयमाभावं प्रमादं सकषायताम् । <sup>२</sup>कैवल्यं स सयोगत्वं त्यक्त्वाऽभूत्परमः क्रमात् ॥ १५७ ॥  
 खेचरेशोऽपि तच्छ्रुत्वा राज्यं त्यक्त्वाऽर्ककीर्तये । निर्ग्रन्थरूपमापन्नो जगन्नन्दनसञ्चिवौ ॥ १५८ ॥  
 भयाशितमनादानमार्जवं त्यागमस्यूहाहम् । ऋषादिहापनं ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोऽन्वयात् ॥ १५९ ॥

चिरकाल तक युद्धकर शत्रुके सन्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिपृष्ठने वही चक्र लेकर क्रोधसे उसकी गर्दन छेद डाली ॥ १४४ ॥ शत्रुओंके नष्ट करने वाले त्रिपृष्ठ और विजय आधे भरत क्षेत्रका आधिपत्य पाकर सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १४५ ॥ भूमिगोचरी राजाओं, विद्याधर राजाओं और मागधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था ऐसे त्रिपृष्ठ नारायण पृथिवीमें श्रेष्ठताको प्राप्त हुए ॥ १४६ ॥ प्रथम नारायण त्रिपृष्ठने हर्षित होकर स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं होता है ? ॥ १४७ ॥ असि, शङ्ख, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायणके रत्न थे । देवोंके समूह इनकी रक्षा करते थे ॥ १४८ ॥ रत्नमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करने वाले बलभद्रके महारत्न थे ॥ १४९ ॥ नारायणकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्त्रियों थीं और बलभद्रकी कुलरूप तथा गुणोंसे युक्त आठ हजार रानियाँ थीं ॥ १५० ॥ ज्वलनजटी विद्याधरने कुमार अर्ककीर्तिके लिए ज्योतिर्माला नामकी कन्या बड़ी विभूतिके साथ प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की ॥ १५१ ॥ अर्ककीर्ति और ज्योतिर्मालाके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई । ये दोनों भाई-बहिन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक्ल पक्षके पडिवाके चन्द्रमाकी रेखाएँ ही हों ॥ १५२ ॥ इधर त्रिपृष्ठ नारायणके स्वयंप्रभा रानीसे पहिले श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ फिर, ज्योतिप्रभा नामकी पुत्री हुई ॥ १५३ ॥ महान् अभ्युदयको प्राप्त हुए प्रजापति महाराजको कदाचित् वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहितास्त्रव गुरुके पास जाकर उन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया और श्रीजिनेन्द्र भगवान्का वह रूप धारण कर लिया जिससे सुख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है ॥ १५४-१५५ ॥ छह बाह्य और छह आभ्यन्तरकै भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापति मुनिने चिरकाल तक तपस्या की और आयुके अन्तमें चित्तको स्थिर कर क्रम से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकषायता तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था—मोक्ष पद प्राप्त किया ॥ १५६-१५७ ॥ विद्याधरोंके राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने अर्ककीर्तिके लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥ १५८ ॥ याचना नहीं करना, बिना दिये कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीजकी इच्छा नहीं रखना,

ततो निःशेषमंहांसि निहृत्य निरूपोपधिः । निराकारोऽपि साकारो निर्वाणमगमस्परम् ॥ १६० ॥  
 त्रिपृष्ठो निष्पुरारातिविजयो विजयानुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वभूत् ॥ १६१ ॥  
 स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽमिततेजसः । स्वयंवरविधानेन मालामासञ्जयद्वले ॥ १६२ ॥  
 भनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्वक्षस्थलनिवासिनी ॥ १६३ ॥  
 हृत्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धाः सर्वबान्धवाः । स्वच्छाम्भःपूर्णसम्कुलसरसः श्रियमभ्ययुः ॥ १६४ ॥  
 आयुरन्तेऽवधिस्थानप्राप्तेऽर्द्धभरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम् ॥ १६५ ॥  
 दत्त्वा विजयभद्राय यौवराज्यपदं च सः । चक्रिशोकसमाक्रान्तस्वान्तो हन्तुमघद्विषम् ॥ १६६ ॥  
 सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं राजभिः संयमं ययौ । सुवर्णकुम्भमभ्येत्य मुनिमभ्यर्णनिर्वृतिः ॥ १६७ ॥  
 घातिकर्माणि निर्मूल्यं कैवल्यं चोदपादयत् । अभूच्छिलिम्पसम्पूज्यो व्यपेतागारकेवली ॥ १६८ ॥  
 तदाकर्णार्ककीर्तिश्च निधायामिततेजसम् । राज्ये विपुलमत्याख्याचारणादगमत्तपः ॥ १६९ ॥  
 नष्टकर्माष्टकोऽभीष्टामसावापाष्टमीं महीम् । अनार्थ्यं नाम किं त्यक्तं व्यक्रमाशावधीरिणाम् ॥ १७० ॥  
 तयोरविकल्पप्रीत्या याति काले निराकुलम् । सुखेनामितशब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययोः ॥ १७१ ॥  
 ऋश्चिच्छ्रीविजयाधीशं साशीर्वादः कदाचन । उपेत्य राजश्चित्तं त्वं प्रणिधेहि भमोदिते ॥ १७२ ॥  
 पोदनाधिपतेर्मूर्ध्नि पतितेऽतोऽङ्घ्रि सप्तमे । महाशक्तिस्तत्रिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सत्वरम् ॥ १७३ ॥  
 हृत्पद्मव्रीचादाकर्ण्य युवराजोऽरुणेक्षणः । वद किं पतिता सर्वविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥  
 हृति नैमित्तिकं दृष्ट्वा प्राक्षीत्सोऽप्याह मूर्ध्नि मे । रत्नवृष्टिः पतेत्साकमभिषेकेण हीत्यदः ॥ १७५ ॥

क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना और ध्यान करना—इन सब गुणोंको वे प्राप्त हुए थे ॥ १५६ ॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निर्द्वन्द्व हुए । निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पदको प्राप्त हुए ॥ १६० ॥

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिपृष्ठ कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ तीन खण्डकी अखण्ड पृथिवीके भोगोंका इच्छानुसार उपभोग करता रहा ॥ १६१ ॥ किसी एक दिन त्रिपृष्ठने स्वयंवरकी विधिसे अपनी कन्या ज्योतिःप्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गलेमें वरमाला डलवाई ॥ १६२ ॥ अनुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्वयंवरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षःस्थल पर निवास करनेवाली हुई ॥ १६३ ॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंके सम्बन्ध किये हैं ऐसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुल्लित सरोवरकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥ १६४ ॥ आयुके अन्तमें अर्धचक्रवर्ती त्रिपृष्ठ तो सातवें नरक गया और विजय बलभद्र श्री-विजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए उद्यत हुए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था तथापि निकट समयमें मोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुवर्णकुम्भ नामक मुनिराजके पास जाकर सात हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १६५-१६७ ॥ घातिया कर्म नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया और देवोंके द्वारा पूज्य अनगरकेवली हुए ॥ १६८ ॥ यह सुनकर अर्ककीर्तिने अमित-तेजको राज्यपर बैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया ॥ १६९ ॥ कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोंको नष्ट कर अभिवाञ्छित अष्टम पृथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कौन-सी वस्तु अप्राप्य है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ १७० ॥ इधर अमिततेज और श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था, दोनोंका कल विना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ १७१ ॥ किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि हे राजन् ! मेरी बात पर चित्त लगाइये ॥ १७२ ॥ आज से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावज्र गिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतीकारका विचार कीजिये ॥ १७३ ॥ यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गईं । वह उस निमित्तज्ञानीसे बोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय मेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा ? ॥ १७४ ॥ निमित्तज्ञानीने भी कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अङ्घ्रि-



सावष्टम्भं वचः श्रुत्वा तस्य राजा सविस्मयः । भद्रं त्वयाऽऽस्यतामस्मिन्नासने किञ्चिदुच्यते ॥ १७६ ॥  
 किंगोत्रः किंगुरुर्ब्रूहे किशास्त्रः किनिमित्तकः । किनाम किनिमित्तोऽयमादेश इति पृष्टवान् ॥ १७७ ॥  
 कुण्डलाख्यपुरे राजा नाम्ना सिंहस्थो महान् । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥  
 तच्छिष्येण निमित्तानि प्रब्रज्य हलिना सह । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि च ॥ १७९ ॥  
 अष्टाङ्गानि निमित्तानि कानि किलक्षणानि चेत् । शृणु श्रीविजयायुष्मन् यथाप्रश्नं ब्रवीमि ते ॥ १८० ॥  
 अन्तरिक्षसभौमाङ्गस्वरव्यञ्जनलक्षणः । छिन्नस्वप्नभिभेदेन प्रोक्तान्यागमवेदिभिः ॥ १८१ ॥  
 तात्स्थ्यात्साहचर्याद्वा ज्योतिषामन्तरिक्षवाक् । चन्द्रादिपञ्चभेदानामुदयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥  
 जयः पराजयो हानिवृद्धिर्मन्युः सजीवितः । लाभालाभौ निरूप्यन्ते यत्रान्यानि च तत्स्वतः ॥ १८३ ॥  
 भूमिस्थानादिभेदेन हानिवृद्ध्यादिबोधनम् । भूम्यन्तः स्थितरत्नादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८४ ॥  
 अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पर्शदर्शनादिभिरङ्गिनाम् । अङ्गकालत्रयोत्पन्नशुभाशुभनिरूपणम् ॥ १८५ ॥  
 मृदङ्गादिगजेन्द्रादिवैतनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥  
 शैरोमुखसिद्धिदत्तजित्तिललक्ष्मणनादिभिः । ज्यञ्जनं स्थानमानैश्च लाभालाभादिभेदेनम् ॥ १८७ ॥  
 श्रीवृक्षस्वस्तिकाद्यष्टशताङ्गतलक्षणैः । भोगैश्वर्यादिसम्प्राप्तिकथनं लक्षणं मतम् ॥ १८८ ॥  
 देवमानुषरक्षोविभागैर्वैष्णवादिषु । मूषकादिकृतच्छन्दैः छिन्नं तत्फलभाषणम् ॥ १८९ ॥  
 शुभाशुभविभागोक्तस्वप्नसन्दर्शनान्त्यम् । स्वप्नो वृद्धिविनाशादियाथात्म्यकथनं मतः ॥ १९० ॥

षेकके साथ रत्नवृष्टि पड़ेगी ॥ १७५ ॥ उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ । उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसन पर बैठो, मैं कुछ कहता हूँ ॥ १७६ ॥ कहो तो सही, आपका गोत्र क्या है ? गुरु कौन है, क्या-क्या शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निमित्त आप जानते हैं, आपका क्या नाम है ? और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ॥ १७७ ॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहस्थ नामका एक बड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान् है ॥ १७८ ॥ किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्यके साथ अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है और उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है ॥ १७९ ॥ अष्टाङ्ग निमित्त कौन हैं और उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मन् विजय ! तुम सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहता हूँ ॥ १८० ॥ आगमके जानकार आचार्योंने अन्तरिक्ष, भौम, अङ्ग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हैं ॥ १८१ ॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशमें रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैं । इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शोक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है उसे अन्तरिक्षनिमित्त कहते हैं ॥ १८२-१८३ ॥ पृथिवीके जुदे-जुदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी हानि वृद्धि आदिका बतलाना तथा पृथिवीके भीतर रखे हुए रत्न आदिका कहना सो भौमनिमित्त है ॥ १८४ ॥ अङ्ग-उपाङ्गके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न होनेवाले शुभ-अशुभका निरूपण होता है वह अङ्ग-निमित्त कहलाता है ॥ १८५ ॥

मृदङ्ग आदि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थोंके सुस्वर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट-अनिष्ट पदार्थकी प्राप्तिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है ॥ १८६ ॥ शिर मुख आदिमें उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका लाभ अलाभ आदि बतलाना सो व्यञ्जन-निमित्त है ॥ १८७ ॥ शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक आदि एक सौ आठ लक्षणोंके द्वारा भोग ऐश्वर्य आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है ॥ १८८ ॥ वृक्ष तथा शास्त्र आदिमें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुष और राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं ॥ १८९ ॥ शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्न दो प्रकारके कहे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्यों की वृद्धि तथा हानि आदि का यथार्थ कथन करना

इत्युक्त्वा क्षुत्पिपासादिद्वाविंशतिपरीषद्वैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पद्मिनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥  
 तत्र तन्मातुलः सोमशर्मा चन्द्राननां सुताम् । हिरण्यलोमासम्भूतां प्रीत्या मर्द्धं प्रदत्तवान् ॥ १९२ ॥  
 ब्रह्मार्जनं परित्यज्य निमित्ताभ्यासतत्परम् । सा मां निरीक्ष्य निर्विण्णा पितृदत्तधनक्षयात् ॥ १९३ ॥  
 भोजनावसरेऽन्धेद्युर्धनमेतत्त्वदजितम् । इति पात्रेऽक्षिपद्रोषान्मद्वराटकसञ्चयम् ॥ १९४ ॥  
 रक्षितस्फटिके तत्र तपन्नाभीषुसन्निधिम् ( ? ) । कान्ताक्षिसकरक्षालनाम्बुधारां च पश्यता ॥ १९५ ॥  
 मयाऽर्थलाभं निश्चित्य तोषाभिषवपूर्वकम् । अमोघजिह्वनाम्नाऽऽपमावेशस्तेऽधुना कृतः ॥ १९६ ॥  
 इत्यन्वाख्यत् स तच्छ्रुत्वा सयुक्तिकमसौ नृपः । चिन्ताकुलो विसर्ज्यैनमुक्तवानिति मन्त्रिणः ॥ १९७ ॥  
 इदं प्रत्येयमस्योक्तं विचिन्त्येत्प्रतिक्रियाः । अभ्यर्णे मूलनाशे कः कुर्यात् कालविलम्बनम् ॥ १९८ ॥  
 तच्छ्रुत्वा सुमतिः प्राह त्वामम्भोजिजलान्तरे । लोहमञ्जूषिकान्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम् ॥ १९९ ॥  
 मकरादिभयं तत्र विजयार्द्धगुहान्तरे । निदधाम इति श्रुत्वा स सुबुद्धिरभाषत ॥ २०० ॥  
 तद्वचोऽवसितौ प्राज्ञः पुरावित्तकवित्तदा । अथाख्यानकमित्याख्यत्प्रसिद्धं बुद्धिसागरः ॥ २०१ ॥  
 दुःशास्त्रुतिर्दपिष्ठः सोमः सिंहपुरे वसन् । परिभ्राट् स विवादार्ये जिनदासेन निश्चितः ॥ २०२ ॥  
 मृत्वा तत्रैव कालान्ते सम्भूय महिषो महान् । वणिग्लवणदुर्भारचिरवाहवशीकृतः ॥ २०३ ॥  
 प्राक् पोषयन्निःशक्तिरिति पश्चादुपेक्षितः । जातिस्मरः पुरे बद्धवैरोऽप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥

स्वप्ननिमित्त कहलाता है ॥ १९० ॥ यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि जुधा प्यास आदि बाईस परिषदोंसे मैं पीडित हुआ, उन्हें सह नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नामके नगरमें आ गया ॥ १९१ ॥ वहाँ सोमशर्मा नामके मेरे मामा रहते थे। उनके हिरण्यलोमा नामकी स्त्रीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुख वाली एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी। वह उन्होंने मुझे दी ॥ १९२ ॥ मैं धन कमाना छोड़कर निरन्तर निमित्तशास्त्रके अध्ययनमें लगा रहता था अतः धीरे-धीरे चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया हुआ धन समाप्त हो गया। मुझे निर्धन देख वह बहुत विरक्त अथवा खिन्न हुई ॥ १९३ ॥ मैंने कुछ कौड़ियां इकट्ठी कर रखी थीं। सरे दिन भोजनके समय 'यह तुम्हारा दिया हुआ धन है' ऐसा कह कर उसने क्रोधवश वे सब कौड़ियां हमारे पात्रमें डाल दीं ॥ १९४ ॥ उनमेंसे एक अच्छी कौड़ी स्फटिक-मणिके बने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, उसपर जलाई हुई अग्निके फुलिङ्गे पड़ रहे थे (?) उसी समय मेरी स्त्री मेरे हाथ धुलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देख कर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे संतोष पूर्वक अवश्य ही धनका लाभ होगा। आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजिह्व नामक मुनिराजने किया है। इसप्रकार निमित्तज्ञानीने कहा। उसके युक्तिपूर्ण वचन सुन कर राजा चिन्तासे व्यग्र हो गया। उसने निमित्तज्ञानीको तो विदा किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा— कि इस निमित्तज्ञानीकी बात पर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योंकि मूलका नाश उपस्थित होने पर विलम्ब कौन करता है ? ॥ १९५-१९८ ॥ गृह सुनकर सुमति मन्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लोहेकी सन्दूकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठाये देते हैं ॥ १९९ ॥ यह सुनकर सुबुद्धि नामका मंत्री बोला कि नहीं, वहाँ तो मगरमच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयार्थ पर्वतकी गुफामें रख देते हैं ॥ २०० ॥ सुबुद्धिकी बात पूरी होते ही बुद्धिमान् तथा प्राचीन वृत्तान्तको जानने वाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा ॥ २०१ ॥

इस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास्त्रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका परिव्राजक रहता था। उसने जिनदासके साथ वादविवाद किया परन्तु वह हार गया ॥ २०२ ॥ आयुके अन्तमें मर कर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भैंसा हुआ। उसपर एक वैश्य चिरकाल तक नमकका बहुत भारी बोझ लादता रहा ॥ २०३ ॥ जब वह बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके

श्मशाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोपपद्यत । तत्पुराधीशिनौ कुम्भभोजौ कुम्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥  
 रसायनादिपाकाख्यस्तद्भोग्यपिहितेऽसति । शिशोर्व्यसोस्तदा मांसं स कुम्भस्य न्ययोजयत् ॥ २०६ ॥  
 तत्स्वादलोलुपः पापी तदाप्रभृति खादितुम् । मनुष्यमांसमारब्ध सम्प्रेप्सुनारकीं गतिम् ॥ २०७ ॥  
 प्रजानां पालको राजा तावत्तिष्ठतु पालने । खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्यः सचिवादिभिः २०८ ॥  
 तन्मांसजीवितः क्रूरः कदाचिन्नजपाचकम् । हत्वा साधिततद्विद्यः संक्रान्तप्रोकराक्षसः ॥ २०९ ॥  
 प्रजाः स भक्षायामस प्रत्यहं परितो भ्रमन् । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम् ॥ २१० ॥  
 नगरं प्राविशन् कारकटं नाम महाभिया । तत्राप्यांगत्य पापिष्ठः कुम्भाख्योऽभक्षयत्तराम् ॥ २११ ॥  
 १ततः प्रभृति तत्प्राहुः कुम्भकारकटं पुरम् । यथादृष्टन्मक्षित्वाद्भीलैकदाकटौदनम् ॥ २१२ ॥  
 खादैकमानुषं चेति प्रजास्तस्य स्थितिं व्यधुः । तत्रैव नगरे चण्डकौशिको नाम विप्रकः ॥ २१३ ॥  
 सोमश्रीस्तत्प्रिया भूतसमुपासनतश्चिरम् । मौण्डकौशिकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २१४ ॥  
 कुम्भाहाराय यातं तं कदाचिन्मुण्डकौशिकम् । शकटस्योपरि क्षिप्तं नीत्वा भूतैः प्रयायिभिः ॥ २१५ ॥  
 कुम्भेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तर्जितैः । भयाद्विले विनिक्षिप्तं जगाराजगरो द्विजम् ॥ २१६ ॥  
 विजयाद्धं गुहायां तन्निक्षेपणमयुक्तकम् । पथ्यं तद्वचनं श्रुत्वा सूक्ष्मधीर्मतिसागरः ॥ २१७ ॥  
 भूपतेरशनेः पातो नोक्तो नैमित्तिकेन तत् । पोदनाधिपतिः कश्चिदन्वयोऽवस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥

पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी—खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया । कारण वश उसे जाति-स्मरण हो गया और वह नगर भरके साथ घेर करने लगा । अन्तमें मर कर वहींके श्मशानमें पापी राक्षस हुआ । उस नगरके कुम्भ और भीम नामके दो अधिपति थे । कुम्भके रसोइयाका नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसोइयाने कुम्भको मरे हुए बच्चेका मांस खिला दिया ॥ २०४-२०६ ॥ वह पापी उसके स्वादसे लुभा गया इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तवमें नरक गति प्राप्त करनेका उत्सुक था ॥ २०७ ॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ है तभी तक राजा रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाको छोड़ दिया ॥ २०८ ॥ उसका रसोइया उसे नर-मांस देकर जीवित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसोइयाको ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्षसको वश कर लिया ॥ २०९ ॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमता हुआ प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोड़कर बहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु अत्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरमें भी आकर प्रजाको खाने लगा ॥ २१०-२११ ॥ उसी समयसे लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर कहने लगे । मनुष्योंने देखा कि यह नरभक्षी है इसलिए डर कर उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्यको खाया करो । उसी नगरमें एक चण्डकौशिक नामका ब्राह्मण रहता था । सोमश्री उसकी स्त्री थी, चिरकाल तक भूतोंकी उपासना करनेके बाद उन दोनोंने मौण्डकौशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २१२-२१४ ॥ किसी एक दिन कुम्भके आहारके लिए मौण्डकौशिककी बारी आई । लोग उसे गाड़ी पर डाल कर ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्भने हाथमें दण्ड लेकर उन भूतोंका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकौशिकको भयसे एक बिलमें डाल दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस ब्राह्मणको निगल लिया ॥ २१५-२१६ ॥ इसलिए महाराजको विजयार्थकी गुहामें रखना ठीक नहीं है । बुद्धिसागरके ये हितकारी वचन सुनकर सूक्ष्म बुद्धिका धारी मतिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्ताज्ञानीने यह तो कक्षा नहीं है कि महाराजके ऊपर ही वज्र गिरेगा । उसका तो कहना है कि जो पोदनपुरका राजा होगा उस पर वज्र गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना

जगाद भवता प्रोक्त' युक्तमित्यभ्युपेत्य ते । सम्भूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिबिम्बं नृपासने ॥ २१९ ॥  
 निवेशय पोदनाधीशस्त्वमित्येनमपूजयत् । महीशोऽपि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥  
 प्रारब्धपूजादानादिनिजप्रकृतिमण्डलः । जिनचैत्यालये शान्तिकर्म कुर्वन्नुपाविशत् ॥ २२१ ॥  
 ससमेऽहनि यक्षस्य प्रतिमायां महाध्वनिः । न्यपतत्त्रिष्टुरं मूर्ध्नि सहसा भीषणोऽशनिः ॥ २२२ ॥  
 तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिनः । वर्द्धमानानकध्वानैरकुर्वन्नुत्सवं परम् ॥ २२३ ॥  
 'नैमित्तिकं समाहूय राजा सम्पूज्य दत्तवान् । तस्मै ग्रामशतं पद्मिनीखेटेन सप्तममदः ॥ २२४ ॥  
 विधाय विधिवद्भक्त्या शान्तिपूजापुरस्सरम् । महाभिषेकं लोकेशामर्हतां सचिवोत्तमाः ॥ २२५ ॥  
 अष्टापदमयैः कुम्भैरभिषिच्य महीपतिम् । सिंहासनं समारोप्य सुराज्ये प्रत्यतिष्ठत् ॥ २२६ ॥  
 एवं सुखसुखेनैव काले गच्छति सोऽन्यदा । विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम् ॥ २२७ ॥  
 सुतारया सह ज्योतिर्वनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सलीलं कान्त्या स्थितः ॥ २२८ ॥  
 इतश्चमरचञ्चाल्यपुरेशोऽशनिघोषकः । आसुर्याश्च सुतो लक्ष्म्या महानिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥  
 विद्यां स भ्रामरीं नाम्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम् । सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातुं कृतोद्यमः ॥ २३० ॥  
 कृत्रिमैणच्छलाशस्मादपनीय महीपतिम् । तद्रूपेण निवृत्त्यैत्य सुतारां दुरिताशयः ॥ २३१ ॥  
 मृगोऽगाद् वायुवेगेन तं ग्रहीतुमवारयन् । आगतोऽहं प्रयात्यस्तमकों यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥  
 इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो विमानमगमत् १ शठः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यशालिना दक्षितं निजम् ॥ २३३ ॥  
 रूपमालोक्य तत्कोऽयमिति सा विह्वलाऽभवत् । इतस्तत्प्रोक्तवैतालीं सुतारारूपधारिणीम् ॥ २३४ ॥

चाहिये ॥ २१७-२१८ ॥ उसकी यह बात सवने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है । अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिबिम्ब रख दिया और 'तुम्हीं पोदनपुरके राजा हो' यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भोग उपभोग सब छोड़ दिये, पूजा दान आदि सत्कार्य प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभाव वाली मण्डलीको साथ लेकर जिन-चैत्यालयमें शान्ति कर्म करता हुआ बैठ गया ॥ २१९-२२१ ॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूर्ति पर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर वज्र अकस्मात् बड़ी कठोरतासे आ पड़ा ॥ २२२ ॥ उस उपद्रव-के शान्त होने पर नगरवासियोंने बड़े हर्षसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे बहुत भारी उत्सव किया ॥ २२३ ॥ राजाने बड़े हर्षके साथ उस निमित्तज्ञानीको बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्मिनी-खेटके साथ-साथ उसे सौ गाँव दिये ॥ २२४ ॥ श्रेष्ठ मंत्रियोंने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्-की विधि-पूर्वक मत्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया और राजाको सिंहासन पर बैठा कर सुवर्णमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६ ॥ इसके बाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन उसने अपनी मातासे आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिर्वनकी ओर गमन किया । वह वहाँ अपनी इच्छानुसार लीला-पूर्वक विहार करता हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपुरका राजा इन्द्राशनि, रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिघोष नामका विद्या-धरपुत्र भ्रामरी विद्याको सिद्ध कर अपने नगरको लौट रहा था । बीचमें सुताराको देख कर उसपर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिण-के छलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुतारा-के पास लौट कर वापिस आया ॥ २३१ ॥ कहने लगा कि हे प्रिये ! वह मृग तो वायुके समान वेग-से चला गया । मैं उसे पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लौट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों अपने नगरकी ओर चलें ॥ २३२ ॥ इतना कहकर उस धूर्त विद्याधरने सुताराको विमान पर बैठाया और वहाँसे चल दिया । बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देख कर 'यह कौन है' ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत ही विह्वल हुई । इधर उसी अशनिघोष विद्याधरके

स्थितां कुक्कुटसर्पेण दष्टाहमिति सम्भ्रमात् । त्रियमाणामिवालोक्ष्य विनिवृत्त्यागतः स्वयम् ॥ २३५ ॥  
 अहार्यं तद्विषं ज्ञात्वा मणिमन्त्रौषधादिभिः । सुक्लिग्धः पोदनाधीशो मर्तुं सह तयोस्त्युकः ॥ २३६ ॥  
 सूर्यकान्तसमुद्भूतदहनज्वलितेन्धनः । चितिकां कान्तया सार्द्धंमाहरोह शुचाकुलः ॥ २३७ ॥  
 तदैव खेचरौ कौचिद् तत्र सन्निहितौ तयोः । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्मृत्यैकेन महौजसा ॥ २३८ ॥  
 हताऽसौ भीतवैताली वामपादेन दर्शित- । स्वरूपास्य पुरः स्थातुमशक्ताऽगाददृश्यताम् ॥ २३९ ॥  
 तद्विलोक्य महौपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचत् खचरश्चाह तत्कथाम् ॥ २४० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणश्रेण्यां भरते खचराचले । ज्योतिःप्रभुधराधीशः सम्भिन्नोऽहं मम प्रिया ॥ २४१ ॥  
 संज्ञया सर्वकल्याणी सूनुर्द्वीपशिखाह्वयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनूपुरभूशुजा ॥ २४२ ॥  
 विहर्तुं विपुलोद्याने नलान्तशिखरश्रुते । ततो निवर्तमानः सन् स्वयानकविमानगाम् १ ॥ २४३ ॥  
 क मे श्रीविजयः स्वामी रथनूपुरभूपते । क मां पाहीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनम् ॥ २४४ ॥  
 श्रत्वाहं तत्र गत्वाऽऽख्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमूम् । इत्यसौ चाह सक्रोधं चञ्चान्तचमराधिपः ॥ २४५ ॥  
 खगेशोऽशनिघोषाल्यो हठादेनां नयाम्यहम् । भवतो यदि सामर्थ्यमस्त्येब्रह्मीति मोचय ॥ २४६ ॥  
 तच्छ्रुत्वा मत्प्रभोरेषा नीयते तेन सानुजा । सामान्यवल्कथं यामि हन्येनमिति निश्चयात् ॥ २४७ ॥  
 योद्धुं प्रक्रममाणं मां निवार्यानेन मा कृथाः । वृथेति युद्धं निर्बन्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥  
 ज्योतिर्वने वियोगेन मम शोकानलाहतः । वर्तते तत्र गत्वा तं मदवस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥

द्वारा प्रेरित हुई वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर बैठ गई ॥ २३३-२३४ ॥ जब श्रीविजय वापिस लौटकर आया तब उसने कहा कि मुझे कुक्कुटसाँपने डस लिया है । इतना कह कर उसने बड़े संभ्रमसे एंसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र तथा औषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता । अन्तमें निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस कृत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया । उसने एक चिता बनाई, सूर्यकान्तमणिले उत्पन्न अग्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्वलित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुताराके साथ चिता पर आरूढ़ हो गया ॥ २३५-२३७ ॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत वैतालीको बायें पैरसे ठोकर लगाई जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया । अब वह श्री-विजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समर्थ न हो सकी अतः अदृश्यताको प्राप्त हो गई ॥ २३८-२३९ ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आश्चर्यको प्राप्त हुए । उन्होंने कहा कि यह क्या है ? उत्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४० ॥

इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिःप्रभ नामका नगर है । मैं वहाँका राजा संभिन्न हूँ, यह सर्वकल्याणी नामकी मेरी स्त्री है और यह दीपशिख नामका मेरा पुत्र है । मैं अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखरनल नामसे प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें बिहार करनेके लिए गया था । वहाँसे लौटते समय मैंने मार्गमें सुना कि एक स्त्री अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि 'मेरे स्वामी श्रीविजय कहाँ हैं ? हे रथनूपुरके नाथ ! कहाँ हो ? मेरी रक्षा करो ।' इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं वहाँ गया और बोला कि तू कौन है ? तथा किसे हरण कर ले जा रहा है ? मेरी बात सुन कर वह बोला कि मैं चमरचन्द्र नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबर्दस्ती लिए जा रहा हूँ, यदि आप में शक्ति है तो आओ और इसे छुड़ाओ ॥ २४१-२४६ ॥ यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटी बहिनको ले जा रहा है । मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला जाऊँ ? इसे अभी मारता हूँ । ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही था कि उस स्त्रीने मुझे रोककर कहा कि आग्रह वश वृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा ज्योतिर्वनमें

इति स्वत्कान्तया राजन् प्रेषितोऽहमिहागतः । इयं स्वद्वैरिनिर्दिष्टदेवतेत्यादराद्धितः ॥ २५० ॥  
 श्रुत्वा तत्पोदनाधीशो सत्कृतं कथ्यतामिदम् । वृत्तान्तं सत्वरं गत्वा सन्मित्रेण त्वयाऽधुना ॥ २५१ ॥  
 मजनन्यनुजादीनामित्युक्तोऽसौ नभश्चरः । सुतं द्वीपशिखं सद्यः प्राहिणोत्पोदनं प्रति ॥ २५२ ॥  
 अभवत्पोदनाख्येऽपि बहूत्यातविजृम्भणम् । तद्दृष्ट्वाऽभोगजिह्वाख्यो जयगुप्तश्च सम्भ्रमात् ॥ २५३ ॥  
 उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद् भयं तदपि निर्गतम् । आगमिष्यति चाद्यैव कश्चित्कुशलवार्तया ॥ २५४ ॥  
 स्वस्थास्तिष्ठन्तु तत्तत्रभवन्तो मा गमन् भयम् । इति स्वयम्प्रभादींस्तानाश्वासं नयतः स्म तान् ॥ २५५ ॥  
 तथैव गगनाद्दीपशिखोऽप्यागम्य भूतलम् । स्वयम्प्रभां सुतं चास्याः प्रणम्य विविधवत्सुधीः ॥ २५६ ॥  
 क्षेमं श्रीविजयाधीशो भवद्भिस्स्यज्यतां भयम् । इति तद्दृष्ट्वा सर्वं यथावस्थं न्यवेदयत् ॥ २५७ ॥  
 तद्द्वार्ताकर्णनाद्वावपरिस्लानलतोपमा । निर्वाणाभ्यर्णदीपस्य शिखेव विगतप्रभा ॥ २५८ ॥  
 श्रुतप्राबुद्धधनध्वानकलहंसीव शोकिनी । स्याद्वाद्वादिविध्वस्तदुःश्रुतिर्वाकुलाकुला ॥ २५९ ॥  
 तदानीमेव निर्गत्य चतुरङ्गबलान्विता । स्वयम्प्रभाऽगात् सखगा ससुता तद्वनान्तरम् ॥ २६० ॥  
 आयान्तीं दूरतो दृष्ट्वा मातरं स्वानुजानुगाम् । प्रतिगत्यानमत्तस्याः पादयोः पोदनाधिपः ॥ २६१ ॥  
 स्वयम्प्रभा च तं दृष्ट्वा वाष्पाविलविलोचना । उत्तिष्ठ पुत्र इष्टोऽसि मत्पुण्याच्चिरजीवितः ॥ २६२ ॥  
 इति श्रीविजयं दोभ्यामुत्थाप्यास्पृश्य तोषिणी । सुखासीनमथापृच्छत्सुताराहरणादिकम् ॥ २६३ ॥  
 खगः सन्मिञ्चनामाऽयं सेवकोऽमिततेजसः । अनेनोपकृतितर्याऽद्य कृता साऽम्ब त्वयापि न ॥ २६४ ॥

मेरे वियोगके कारण शोकाग्निसे पीड़ित हो रहें हैं तुम यहाँ जाकर उनसे मेरी दशा कह दो । इस प्रकार हे राजन्, मैं तुम्हारी स्त्रीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी वैताली देवी है । ऐसा उस हितकारी विद्याधरने बड़े आदरसे कहा । इस प्रकार संभिन्न विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पोदनपुरके राजाने बड़े आदरसे सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया । आप मेरे सन्मित्र हैं अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई आदिसे कह दीजिये । ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख नामक पुत्रको शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया ॥ २४७-२५२ ॥ उधर पोदनपुरमें भी बहुत उत्पातोंका विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अभोगजिह्व और जयगुप्त नामके निमित्तज्ञानी बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीको कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब वह दूर हो गया है, उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आवेगा । इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, भयको प्राप्त न हों । इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा आदिको धीरज बँधा रहे थे ॥ २५३-२५५ ॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान् विद्याधर आकाशसे पृथिवी-तलपर आया और विधिपूर्वक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविजयकी सब प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय छोड़िये, इस प्रकार सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये ॥ २५६-२५७ ॥ उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुझनेवाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द सुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोक-युक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वान्के द्वारा विध्वस्त हुई दुःश्रुति ( सिध्या-शास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंप्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा अत्यन्त आलुल हो गई थी ॥ २५८-२५९ ॥ वह उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस वनके बीच पहुँच गई ॥ २६० ॥ पोदनाधिपतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा और सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥ २६१ ॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र हर्षाश्रुओंसे व्याप्त हो गये । वह कहने लगी कि हे पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, तू चिरंजीव रह' इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोषका अनुभव किया । अथानन्तर—जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये तब उसने सुताराके हरण आदिका समाचार पूछा ॥ २६२-२६३ ॥ श्री विजयने कहा कि यह संभिन्न

ममेति शेषमप्याह ततोऽसावप्यनूद्भवम्<sup>१</sup> । तनूजं पुररक्षायै निर्वर्त्याग्रजान्विता ॥ २६५ ॥  
 रथनूपुरमुद्दिश्य गता गगनवल्मंगा । स्वदेशचरचारोक्त्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥  
 महाविभूत्या प्रत्येत्य मामिका परितुष्यता । प्रवेशिता सकेतूच्चैः पुरमाबद्धतोरणम् ॥ २६७ ॥  
 प्राघूर्णकविधिं विश्वं विधाय विधिवचायोः । तदागमनकार्यं च ज्ञात्वा विद्याधराधिपः ॥ २६८ ॥  
 कूर्तं मरीचिनामानमिन्द्राशानिसुतं प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदित्वा दुस्सहं वचः ॥ २६९ ॥  
 आलोच्य मन्त्रिभिः सार्द्धंमुच्छेत्तुं तं मदोद्धतम् । मैथुनाय महेच्छाय निजायात्र समागतम् ॥ २७० ॥  
 युद्धवीर्यं प्रहरणावरणं बन्धमोचनम् । इति विद्यात्रयं शत्रुध्वंसार्थमदितादरात् ॥ २७१ ॥  
 रश्मिवेगसुवेगादिसहस्राद्धात्मजैः सह । पोदनेशं ब्रजेत्युक्त्वा शत्रोरूपरि दपिणः ॥ २७२ ॥  
 सहस्ररश्मिना सार्द्धं ज्यायसा स्वात्मजेन सः । महाज्वालाह्वयां<sup>२</sup> सर्वविद्याच्छेदनसंयुताम् ॥ २७३ ॥  
 सञ्जयन्तमहाचैत्यमूले साधयितुं गतः । ह्रीमन्तं पर्वतं विद्यां विद्यानां साधनास्पदम् ॥ २७४ ॥  
 रश्मिवेगादिभिः सार्द्धं श्रुत्वा श्रीविजयागमम् । युद्धायाशनिघोषेण प्रेषिताः स्वसुताः क्रुधा ॥ २७५ ॥  
 सुघोषः शतघोषाख्याः स सहस्रादिघोषकः । युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासार्द्धं सर्वे भङ्गमुपागमन् ॥ २७६ ॥  
 तद् बुद्ध्वा क्रोधसन्तप्तो योद्धुं स्वयमुपेयिवान् । स्वनाशपिच्छुनाशेषघोषणोऽशनिघोषकः ॥ २७७ ॥  
 युद्धे श्रीविजयोऽन्येन विधातुं प्राहरद् द्विधा । भामरी विद्यया सोऽपि द्विरूपः समजायत ॥ २७८ ॥  
 चतुर्गुणत्वमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डितौ । संग्रामोऽशनिघोषैकमायाऽभूदिति खण्डनात् ॥ २७९ ॥

नामक विद्याधर अमिततेजका सेवक है । हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुम्हने भी नहीं किया ॥ २६४ ॥ ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई । तदनन्तर स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए वापिस लौटा दिया और बड़े पुत्रको साथ लेकर वह आकाशमार्गसे रथनूपुर नगरको चली । अपने देशमें घूमनेवाले गुप्तचरोके कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े वैभवके साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और तोरण बाँधे गये हैं ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥ २६५-२६७ ॥ उस विद्याधरोके स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिके पुत्र अशनिघोषके पास मरीचि नामका दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कहे । दूतने वापिस आकर वे सब वचन अमिततेजसे कहे । उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिघोषको नष्ट करनेका हृद् निश्चय कर लिया । उच्च अभिप्राय वाले अपने बहनोईको उसने शत्रुओंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरम्परागत युद्धवीर्य, प्रहरणावरण और बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े आदरसे दीं ॥ २६८-२७१ ॥ तथा रश्मिवेग सुवेग आदि पाँचसौ पुत्रोंके साथ-साथ पोदनपुरके राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा ॥ २७२ ॥ और स्वयं सहस्ररश्मि नामक अपने बड़े पुत्रके साथ समस्त विद्याओंको छेदनेवाली महाज्वाला नामकी विद्याको सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी जगह ह्रीमन्त पर्वत पर श्री सञ्जयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया ॥ २७३-२७४ ॥ इधर जब अशनिघोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रश्मिवेग आदिके साथ आ रहा है तब उसने क्रोधसे सुघोष, शतघोष, सहस्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए । जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशको सूचित करनेवाली हैं ऐसे अशनिघोषने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ॥ २७५-२७७ ॥ इधर युद्धमें श्रीविजयने अशनिघोषके दो टुकड़े करनेके लिए प्रहार किया उधर भामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए उन दोनोंके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये । इस प्रकार वह सारी

तदा साधितविद्यः सन्न रथनूपुरनायकः । ए-(इ)-त्यादिशन्महाज्वालविद्यां तां सोढुमक्षमः ॥ २८० ॥  
 मासाद्भक्तसंप्रामो विजयाख्यजिनेशिनः । नाभेयसीमनामाद्रिगजध्वजसमीपगाम् ॥ २८१ ॥  
 सभां भीत्वा खगेशोऽगात्कोपात्तेष्यनुयायिनः । मानस्तम्भं निराक्षयासन्न प्रसीदञ्चितकृपायः ॥ २८२ ॥  
 जिनां प्रदक्षिणांकृत्य त्रिः प्रणम्य जगत्पतिम् । वान्तवैरविषाः सर्वे तत्रासिषत ते समम् ॥ २८३ ॥  
 तदागत्यासुरी देवी सती शीलवती स्वयम् । सुतारां द्रुतमानीय परिग्लानलतोपमाम् ॥ २८४ ॥  
 मत्पुत्रस्य युवां क्षन्तुमपराधनमर्हतः । इत्युदीर्यार्पयत्सा श्रीविजयामिततेजसोः ॥ २८५ ॥  
 तिरश्चामपि चेद्वैरमहार्यं जातिहेतुकम् । विनश्यति जिनाभ्याशो मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥  
 कर्माण्यनादिबद्धानि मुच्यन्ते यदि संस्मृतैः । जिनानां सन्निधौ तेषां नाश्रयं वैरमोचनम् ॥ २८७ ॥  
 भन्तको दुर्निवारोऽन्न वार्यते सोऽपि हेलया । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योऽन्यः स को रिपुः ॥ २८८ ॥  
 तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयो मनीषिभिः । जगत्त्रयैकनाथोऽहं नृ पुरेह च हितावहः ॥ २८९ ॥  
 अथ विद्याधराधीशः प्रणम्य प्राञ्जलिजिनम् । भक्त्या सद्धर्ममप्राक्षीत्स तत्त्वार्थबुधुत्सया ॥ २९० ॥  
 महादुःखोमिसङ्कीर्णदुःसंसारपयोनिधेः । स्फुरत्कषायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१ ॥  
 प्रच्छब्दो नापरः कोऽपि तीर्णसंसारसागरः । त्वमेवैको जगद्बन्धो विनेयाननुशाधि नः ॥ २९२ ॥  
 भवद्भाषाबुद्ब्रवावा रत्नत्रयमहाधनाः । स्वस्थानं जन्मवाराशोऽरवापन्सुखसाधनम् ॥ २९३ ॥

सेना अशनिघोषकी मायासे भर गई ॥ २७८-२७९ ॥ इतनेमें ही रथनूपरका राजा अमिततेज विद्या सिद्ध कर आ गया और आते ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याको आदेश दिया। अशनिघोष उस विद्याको सह नहीं सका ॥ २८० ॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और भयसे नाभेयसीम नामके पर्वत पर गजध्वजके समीपवर्ती विजय तीर्थकरके समवसरणमें जा घुसा। अमिततेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमें जा पहुँचे। वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त हो गईं। सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवान्की तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और बैररूपी विषको उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ बैठ गये ॥ २८१-२८३ ॥ उसी समय शीलवती आसुरीदेवी मुरझाई हुई लताके समान सुताराको शीघ्र हीलाई और श्रीविजय तथा अमिततेजको समर्पण कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका अपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं ॥ २८४-२८५ ॥ तिर्यञ्चोंका जो जन्मजात वैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनेन्द्र भगवान्के समीप आकर छूट जाता है तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना है ? ॥ २८६ ॥ जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरणसे अनादि कालके बँधे हुए कर्म छूट जाते हैं तब उनके समीप वैर छूट जावे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥ २८७ ॥ जो बड़े दुःखसे निवारण किया जाता है ऐसा यमराज भी जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोक न जा सके ? ॥ २८८ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंको यमराजका प्रतिकार करनेके लिए तीनों लोकोंके नाथ अर्हन्त भगवान्का ही स्मरण करना चाहिये। वही इस लोक तथा परलोकमें हितके करनेवाले हैं ॥ २८९ ॥

अथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवान्को नमस्कार किया और तत्त्वार्थको जाननेकी इच्छासे सद्धर्मका स्वरूप पूछा ॥ २९० ॥ जिसमें कषायरूपी मगरमच्छ तैर रहे हैं और जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है ऐसे संसाररूपी विकराल सागरका पार कौन पा सकता है ? यह बात जिनेन्द्र भगवान्से ही पूछी जा सकती है किसी दूसरे से नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है। हे भगवन् ! एक आप ही जगत्के बन्धु हैं अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धर्मका स्वरूप बतलाइये ॥ २९१-२९२ ॥ रत्नत्रय रूपी महाधनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसार-

१ जगत्त्रयैकनाथोऽहं नृ ग० । २-ननु शास्त्रि नः ग० ।-ननुसाधि नः ॥ ३ स्वस्थानं ॥ ४-रवापत् ॥



इति तं च ततो देवो वाचा प्रोवाच दिव्यया । सन्तर्प्यन्ते यया भव्याः प्राच्या वृष्योव चातकाः ॥ २९४ ॥  
 शृणु भव्य भवस्थास्य कारणं कर्म कर्मणः । हेतवो हे खगाधीश मिथ्यात्वास्यमादयः ॥ २९५ ॥  
 मिथ्यात्वोदयसम्भूतपरिणामो विपर्ययम् । ज्ञानस्य जनयन् विद्धि मिथ्यात्वं बन्धकारणम् ॥ २९६ ॥  
 अज्ञानसंशयैकान्तविपरीतविकल्पनम् । विनयैकान्तजं चेति तज्ज्ञस्तत्पञ्चधा मतम् ॥ २९७ ॥  
 पापघर्माभिधानावबोधदूरेषु जन्तुषु । मिथ्यात्वोदयपर्यायो मिथ्यात्वं स्यात्तदादिमम् ॥ २९८ ॥  
 \*आत्मागमादिनानात्वात्त्वे दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्वं तद्विद्धि बुधसत्तम\* ॥ २९९ ॥  
 द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे अङ्गे चाक्षयसाधने । तस्यादेकान्तमिथ्यात्वं येनैकान्तावधारणम् ॥ ३०० ॥  
 यो ज्ञानज्ञायकज्ञेयथात्स्ये निर्णयोऽन्यथा । स येनात्मनि तद्विद्धि मिथ्यात्वं विपरीतजम् ॥ ३०१ ॥  
 मनोवाङ्मयवृत्तेनप्रणतौ सर्ववस्तुषु । मुक्त्युपायमतिर्येन मिथ्यात्वं स्यात् तदन्तिमम् ॥ ३०२ ॥  
 अव्रतस्य मनःकायवचोवृत्तिरसंयमः । तज्ज्ञैः सोऽपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात् ॥ ३०३ ॥  
 अप्रत्याख्यानमोहानामुदयो यावदङ्गिनाम् । आ चतुर्थगुणस्थानात्तावत्स बन्धकारणम् ॥ ३०४ ॥  
 कायवाक्चेतसां वृत्तिर्त्रैतानां मलकारिणी । या सा षष्ठगुणस्थाने प्रमादो बन्धवृत्तये ॥ ३०५ ॥  
 प्रोक्ताः पञ्चदशैतस्य भेदाः संज्वलनोदयात् । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ३०६ ॥  
 यः संज्वलनसंज्ञस्य चतुष्कस्योदयाद्भवेत् । गुणस्थानचतुष्के स कषायो बन्धहेतुकः ॥ ३०७ ॥  
 स यः षोडशभेदेन कषायः कथितो जिनैः । उपशान्तादितो हेतुर्बन्धे स्थित्यनुभागयोः ॥ ३०८ ॥

रूपी समुद्रसे निकल कर मुख देने वाले अपने स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ २९३ ॥ ऐसा विद्याधरों-  
 के राजाने भगवान्से पूछा । तदनन्तर भगवान् दिव्यध्वनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि  
 जिस प्रकार पूर्व वृष्टिके द्वारा चातक पक्षी संतोषको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्वनि-  
 के द्वारा संतोषको प्राप्त होते हैं ॥ २९४ ॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं और  
 कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम आदि हैं ॥ २९५ ॥ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परि-  
 णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्व जानो । यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है  
 ॥ २९६ ॥ अज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत और विनयके भेदसे ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वको  
 पांच प्रकारका मानते हैं ॥ २९७ ॥ पाप और धर्मके नामसे दूर रहनेवाले जीवोंके मिथ्यात्व कर्मके उदय-  
 से जो परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यात्व है ॥ २९८ ॥ आप्त तथा आगम आदिके नाना होने  
 के कारण जिसके उदयसे तत्त्वके स्वरूपमें दोलायमानता—चञ्चलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ  
 विद्वान् ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥ २९९ ॥ द्रव्य पर्यायरूप पदार्थमें अथवा मोक्षका साधन  
 जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय  
 करना सो एकान्त मिथ्यादर्शन है ॥ ३०० ॥ आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक और  
 ज्ञेयके यथार्थ स्वरूपका विपरीत निर्णय होता है उसे विपरीत मिथ्यादर्शन जानो ॥ ३०१ ॥ मन,  
 वचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है और समस्त पदार्थोंको मोक्षका उपाय  
 माना जाता है उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं ॥ ३०२ ॥ व्रतरहित पुरुषकी जो मन वचन कायकी  
 क्रिया है उसे असंयम कहते हैं । इस विषयके जानकार मनुष्योंने प्राणी-असंयम और इन्द्रिय-  
 असंयमके भेदसे असंयमके दो भेद कहे हैं ॥ ३०३ ॥ जब तक जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण चारित्र  
 मोहका उदय रहता है तब तक अर्थात् चतुर्थगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया  
 है ॥ ३०४ ॥ छठवें गुणस्थानोंमें व्रतोंमें संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे  
 प्रमाद कहते हैं । यह प्रमाद छठवें गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है ॥ ३०५ ॥ प्रमादके पन्द्रह  
 भेद कहे गये हैं । ये संज्वलन कषायका उदय होनेसे होते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और  
 परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण बनते हैं ॥ ३०६ ॥ सातवेंसे  
 लेकर दशवें तक चार गुणस्थानों में संज्वलन क्रोध मान भाया लोभके उदयसे जो परिणाम होते हैं  
 उन्हें कषाय कहते हैं । इन चार गुणस्थानों यह कषाय ही बन्धका कारण है ॥ ३०७ ॥ जिनेन्द्र

आत्मप्रदेशसञ्चारो योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानत्रये ज्ञेयः सद्बन्धस्य स एककः ॥ ३०९ ॥  
मानसः स चतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं द्वयबन्धकृत् ॥ ३१० ॥  
पञ्चभिर्बन्धते मिथ्यावादिभिर्विण्णितैः सदा । स विंशतिशतेनार्यकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥  
जन्तुस्तैर्भ्रम्यते भूयो भूयो गत्यादिपर्ययः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवसमासकः ॥ ३१२ ॥  
न्यज्ञानदर्शनोपेतस्त्रिभावो वीतसंयमः । भव्योऽभव्यश्च संसारचक्रकावर्तगर्तकः ॥ ३१३ ॥  
जन्ममृत्युजरारोगसुखदुःखादिभेदभाक् । अतीतानादिकालेऽत्र कश्चित्कालादिलब्धितः ॥ ३१४ ॥  
करणत्रयसंज्ञान्तसप्तप्रकृतिसञ्चयः । प्राप्तविच्छिन्नसंसारः शमसम्भूतदर्शनः ॥ ३१५ ॥  
अप्रत्याख्यानामिश्राख्यभावासद्वादशव्रतः । प्रत्याख्यानाख्यमिश्राख्यभावावासमहाव्रतः ॥ ३१६ ॥  
सप्तप्रकृतिनिर्नाशलब्धक्षायिकदर्शनः । मोहारातिविधानोत्थक्षायिकाचारभूषितः ॥ ३१७ ॥  
द्वितीयशुक्लसद्ध्यानो घातित्रितयघातकः । नवकेवलभावाप्त्या स्नातकः सर्वैर्पूजितः ॥ ३१८ ॥  
तृतीयशुक्लसद्ध्याननिरुद्धाशेषयोगकः । समुच्छिन्नक्रियायोगाद्विच्छिन्नाशेषवन्धकः ॥ ३१९ ॥  
एवं त्रिरूपसन्मार्गात् क्रमासाद्भववारिधिम् । भव्यो भवादृशो भव्य समुत्तीर्यधते सदा ॥ ३२० ॥  
इति तां जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनभाषिताम् । श्रुत्वा पीतामृतो वाऽसौ विधविद्याधरेश्वरः ॥ ३२१ ॥

भगवान्ने इस कषायके सोलह भेद कहे हैं । यह कषाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी और स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्धका कारण माना गया है ॥ ३०८ ॥ आत्माके प्रदेशोंमें जो संचार होता है उसे योग कहते हैं । यह योग ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें सातावेदनीयके बन्धका कारण माना गया है । इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है ॥ ३०९ ॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है और काय-योग सात प्रकारका है । ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने संभव हो उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं । हे आर्य ! जिनका अभी वर्णन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचके द्वारा यह जीव अपने अपने योग्य स्थानोंमें एक सौ बीस कर्मप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है ॥ ३१०-३११ ॥ इन्हीं प्रकृतियोंके कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव समक्ष होते हैं, वहाँ यह जीव तीन अज्ञान और तीन अदर्शनोंसे सहित होता है, उसके औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है और कोई अभव्य होता है । इस प्रकार संसारचक्रके भँवरूपी गड्ढेमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंको प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है । इनमेंसे कोई जीव कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है । तदनन्तर अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमसे श्रावकके बारह व्रत ग्रहण करता है । कभी प्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमसे महाव्रत प्राप्त करता है । कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है । कभी मोहकर्मरूपी शत्रुके उच्छेदसे उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्रसे अलंकृत होता है । तदनन्तर द्वितीय शुक्लध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोंका क्षय करता है, उस समय नव केवल-लब्धियोंकी प्राप्तिसे अर्हन्त होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है । कुछ समय बाद तृतीय शुक्ल ध्यानके द्वारा समस्त योगोंको रोक देता है और समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके प्रभावसे समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है । इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-क्रमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्मार्गके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता है ॥ ३१२-३२० ॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी अमिततेज, श्रीजिनेन्द्र भगवान्के द्वारा

कालाद्युक्तचतुर्भेदप्रायोग्यप्रापणात् । सम्यक्श्रद्धानसंशुद्धः श्रावकव्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥  
 भगवन् किञ्चिदिच्छामि प्रष्टुमन्यच्च चेतसि । स्थितं मेऽशनिघोषोऽयं प्रभावं तन्वतोऽवयन् ॥ ३२३ ॥  
 सुतारं मेऽनुजामेव हृतवान् केन हेतुना । इत्यब्राक्षीजिनेन्द्रोऽपि हेतुं तस्यैवमब्रवीत् ॥ ३२४ ॥  
 जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मगधाह्वये । अचलग्रामवास्तव्यो ब्राह्मणो धरणीजटः<sup>१</sup> ॥ ३२५ ॥  
 अग्निला गृहिणी तोकौ भृत्यन्तेद्राभिसंज्ञकौ । कपिलस्तस्य दासेरस्तद्वेदाध्ययने स्वयम् ॥ ३२६ ॥  
 वेदान्स सूक्ष्मबुद्धित्वादज्ञासीद् ग्रन्थतोऽर्थतः । तं ज्ञात्वा ब्राह्मणः क्रुद्ध्वा त्वयाऽयोग्यमिदं कृतम् ॥ ३२७ ॥  
 इति दासीसुतं गेहात्तदैव निरजीगमत् । कपिलोऽपि विषण्णत्वात्तस्माद्रत्नं पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥  
 श्रुत्वाऽध्ययनसम्पन्नं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः । विप्रः स्वतनुजां जम्बूसमुत्पन्नां समर्पयत् ॥ ३२९ ॥  
 स राजपूजितस्तत्र सर्वशास्त्रार्थसारवित् । व्याख्यामखण्डितां कुर्वन्नयत्कतिचित्समाः ॥ ३३० ॥  
 तस्य विप्रकुलायोग्यदुश्चरित्रविमर्शनात् । तद्गार्या सत्यभामाऽयं<sup>२</sup> कस्येत्यायत्तसंशया ॥ ३३१ ॥  
 वातापरम्पराज्ञातस्वकीयप्राभवं<sup>३</sup> द्विजम् । स्वदारिद्र्यापनोदार्थं स्वान्तिकं समुपागतम् ॥ ३३२ ॥  
 दूरात् कपिलको दृष्ट्वा दुष्टात्मा धरिणीजटम्<sup>४</sup> । कुपितोऽपि मनस्यस्मै प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥ ३३३ ॥  
 समुच्चासनमारोग्य मातुर्भ्रात्रोश्च किं मम । कुशलं ब्रूत मद्भाग्याधूमत्रैवमागताः ॥ ३३४ ॥

कही हुई जन्मसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी प्रक्रियाको सुनकर ऐसा संतुष्ट हुआ मानो उसने अमृतका ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥ ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्तिसे उस समय उसने सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर अपने आपको श्रावकोंके व्रतसे विभूषित किया ॥ ३२२ ॥ उसने भगवान्से पूछा कि हे भगवन् ! मैं अपने चित्तमें स्थित एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ । बात यह है कि इस अशनिघोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान् भी उसका कारण इस प्रकार कहने लगे ॥ ३२३-३२४ ॥

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका ग्राम है । उसमें धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता था ॥ ३२५ ॥ उसकी स्त्रीका नाम अग्निला था और उन दोनोंके इन्द्रभूति तथा अग्निभूति नामके दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था । जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्ष्मबुद्धि था कि उसने अपने आप ही शब्द तथा अर्थ-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था । जब ब्राह्मणको इस बातका पता चला तब उसने कुपित होकर 'तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दासी-पुत्रको उसी समय घरसे निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हुआ वहाँसे रत्नपुर नामक नगरमें चला गया ॥ ३२६-३२८ ॥ रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था । उसने कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी ॥ ३२९ ॥ इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रोंके सारपूर्ण अर्थके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगरमें कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान् अवश्य था परन्तु उसका आचरण ब्राह्मण कुलके योग्य नहीं था अतः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुश्चरितका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है ? ॥ ३३१ ॥ इधर धरिणीजट दरिद्र हो गया । उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया । उसे आया देख कपिल मन ही मन बहुत कुपित हुआ परन्तु बाह्यमें उसने उठकर अभिवादन-प्रणाम किया । उच्च आसन पर बैठाया और कहा कि कहिये मेरी माता तथा भाइयोंकी कुशलता तो है न ? मेरे सौभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह

१ धरणीजटः ख०, ल० । २ कस्येत्यायत्तसंशयम् क०, घ० । कस्येत्यायत्तसंशयः ल० । ३ द्विजः ग० । ४ धरिणीजटं ल० ।

इति पृष्ठा प्रनोप्यैनं ज्ञानवस्त्रासनादिभिः । स्वजात्युद्भेदभीतत्वात् सम्यक् तस्य मनोऽग्रहीत् ॥ ३३५ ॥  
सोऽपि विप्रोऽतिदारिद्र्याभिद्रुतः पुत्रमेव तम् । प्रतिपद्याचरत्यायो नाथिनां स्थितिपालनम् ॥ ३३६ ॥  
दिनानि कानिचिद्वातान्येवं संवृतवृत्तयोः । तयोः कदाचित्तं विप्रं सत्यभामाधनाधितम् ॥ ३३७ ॥  
अप्राक्षीत्परोक्षेऽयं किं सत्यं व्रूत वः सुतः । एतच्छुत्सितचारित्राच्च प्रत्येमीति पुत्रताम् ॥ ३३८ ॥  
स सुवर्णवसुगोहं यियासुरचेतसा द्विषन्<sup>१</sup> । गदित्वाऽगाद्यथावृत्तं दुष्टानां नास्ति दुष्करम् ॥ ३३९ ॥  
अथ तन्नगराधीशः श्रीषेणः सिंहनन्दिताऽ- । निन्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्द्रेन्दुसन्निभौ ॥ ३४० ॥  
इन्द्रोपेन्द्रादिसेनान्तौ तनुजौ मनुजोत्तमौ । ताभ्यामतिविनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन् ॥ ३४१ ॥  
पापस्वपतिना सत्यभामा सान्त्वयमानिनी । सहवासमनिच्छन्ती भूपतिं शरणं गता ॥ ३४२ ॥  
ततः<sup>२</sup> कपिलकं शोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम् । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोषणं कृतकद्विजम् ॥ ३४३ ॥  
वीक्ष्य<sup>३</sup> विज्ञातवृत्तान्तं स श्रीषेणमहीपतिः । पापिष्ठानां विजातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४४ ॥  
एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् । आदिमध्यावसानेषु न ते यास्यन्ति विक्रियाम् ॥ ३४५ ॥  
स्वयंरक्तो विरकायां योऽनुरागं प्रयच्छति ।<sup>४</sup> हरिनीलमणौ वासौ तेजः कारुण्यमि लोहितम् ॥ ३४६ ॥  
इत्यादि चिन्तयन् सद्यस्तं दुराचारमात्मनः । देशाभिज्ञाकरोद्धर्म्यां न सहन्ते स्थितिक्षतिम् ॥ ३४७ ॥  
कदाचिच्च महीपालः चारणद्वन्द्वमागतम् । प्रतीक्ष्यादित्यगत्याख्यमरिञ्जयमपि स्वयम् ॥ ३४८ ॥

अच्छा क्रिया इस प्रकार पूजकर स्नान वस्त्र आसन आदिसे उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी जातिका रोद खुल न जावे इस भयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह ग्रहण कर लिया ॥ ३३२-३३५ ॥ दरिद्रतासे पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥ ३३६ ॥ इस प्रकार अपने समाचारोंको छिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये । एक दिन कपिलके परोक्षमें सत्यभामाने ब्राह्मणको बहुत-सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिये । क्या यह आपका ही पुत्र है ? इसके दुश्चरित्रसे मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है । धरिणी-जट हृदयमें तो कपिलके साथ द्वेष रखता ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए सुवर्ण तथा धनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है ॥ ३३७-३३८ ॥

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीषेण था । उसके सिंहनन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो रानियां थीं । उन दोनोंको इन्द्र और चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और उपेन्द्रसेन नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्र थे अतः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे ॥ ३४०-३४१ ॥ सत्यभामाको अपने वंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी पतिके साथ सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गई ॥ ३४२ ॥ उस समय अन्यायकी घोषणा करने वाला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रक्खा था, उसे देखकर और उसका सब हाल जानकर श्रीषेण राजाने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है । इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अन्तमें कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होते ॥ ३४३-३४५ ॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्रीमें अनुरागकी इच्छा करता है वह इन्द्रनील मणिमें लाल तेजकी इच्छा करता है ॥ ३४६ ॥ इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुराचारीको शीघ्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादाकी हानिको सहन नहीं करते ॥ ३४७ ॥ किसी एक दिन राजाने घर पर आये हुए आदित्यगति और अरिश्चय नामके दो चारण मुनियोंको पङ्गिगाह कर स्वयं आहार दान दिया, पञ्चाश्वर्य प्राप्त किये

दत्त्वान्नदानमेतद्भ्यामवाप्याश्चर्यपञ्चकम् । उदक्कुर्वायुरग्रन्थात्<sup>१</sup> दशाङ्गतहभोगदम् ॥ ३४९ ॥  
 देव्यौ दानानुमोदेन सत्यभामा च सक्किया । तदेवायुरवापुस्ताः किं न स्यात्साधुसङ्गमात् ॥ ३५० ॥  
 अथ कौशाग्यधीरास्य महाबलमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुता नात्रा श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥ ३५१ ॥  
 राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तथा सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥ ३५२ ॥  
 एतयोपेन्द्रसेनस्य साङ्गत्थं स्नेहनिर्भरम् । अभूदभूच्च तद्धेतोस्तयोर्ह्यानवर्तिनोः ॥ ३५३ ॥  
 युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य तौ निवारयितुं नृपः । गत्वा कामातुरौ क्रुद्धावसमर्थः प्रियात्मजः ॥ ३५४ ॥  
 सोढुं तनुजयोर्दुःखमाद्रांशयतया स्वयम् । अत्राक्रुवन् समाग्राय विषपुष्पं मृति ययौ ॥ ३५५ ॥  
 तदेव पुष्पमाग्राय समीयुर्विगतासुताम् । तद्देव्यौ सत्यभामा च विचित्रा विधिचोदना ॥ ३५६ ॥  
 धातकीखण्डपूर्वार्द्धकुर्वृषारनामसु । दम्पती नृपतिः सिंहनन्दिता च बभूवतुः ॥ ३५७ ॥  
 अभूदनिन्दिताऽऽर्यैः सत्यभामा च बल्लभा । तस्थुः सर्वेऽपि ते तत्र भोगभूभोगभागिनः ॥ ३५८ ॥  
 अथ कश्चित्त्वगो मध्ये प्रविश्य नृपपुत्रयोः । वृथा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम् ॥ ३५९ ॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा कुमारभ्यां सविस्मयम् । कथं तदिति सम्पृष्टः प्रत्याह गगनेचरः ॥ ३६० ॥  
 धातकीखण्डप्रागभाग<sup>३</sup>मन्दरप्राच्यपुष्कला- । वनी खगाद्रथपाक्श्रेणीगतादित्याभपुर्भुजः ॥ ३६१ ॥  
 तनूजो मित्रसेनायां सुकुण्डलिखगेशिनः । मणिकुण्डलनामाहं कदाचित्पुण्डरीकिणीम् ॥ ३६२ ॥  
 गतोऽमितप्रभाहृद्भ्यः श्रुत्वा धर्मं सनातनम् । मत्पूर्वं भवसम्बन्धमप्राक्षमवदंश्च ते ॥ ३६३ ॥

और दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भोग प्रदान करने वाली उत्तरकुरूकी आयु बांधी । राजाकी दोनों रानियोंने तथा उत्तम कार्य करनेवाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरूकी आयुका बन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि साधुओंके समागमसे क्या नहीं होता ? ॥ ३४८-३५० ॥

अथानन्तर कौशाम्बी नगरी में राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी । वह श्रीकान्ता मानो सुन्दरताकी सीमा ही थी ॥ ३५१ ॥ राजा महाबलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनके लिए दी थी । श्रीकान्ताके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण स्त्री भी गई थी । उसके साथ उपेन्द्रसेनका स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेवाले दोनों भाइयोंमें युद्ध होनेकी तैयारी हो गई । जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये परन्तु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे । राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे । साथ ही उनके परिणाम अत्यन्त आर्द्र-कोमल थे अतः वे पुत्रोंका दुःख सहनमें समर्थ नहीं हो सके । फल यह हुआ कि वे विष-पुष्प सूँघ कर मर गये ॥ ३५२-३५५ ॥ वही विष-पुष्प सूँघकर राजाकी दोनों स्त्रियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो गईं सो ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी प्रेरणा विचित्र होती है ॥ ३५६ ॥ धातकीखण्डके पूर्वार्ध भागमें जो उत्तरकुरू नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंह-नन्दिता दोनों दम्पती हुए और अनिन्दिता नामकी रानी आर्य तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई । इस प्रकार वे सब वहाँ भोगभूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥ ३५७-३५८ ॥

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाइयोंके बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो ? यह तो तुम्हारी छोटी बहिन है । उसके वचन सुनकर दोनों कुमारोंने आश्चर्यके साथ पूछा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कहा ॥ ३५९-३६० ॥ कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर एक पुष्कलावती नामका देश है । उसमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणी पर आदित्याम नामका नगर है । उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर राज्य करता है । सुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है । मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नामका पुत्र हूँ । मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्द्रसे सनातनधर्मका स्वरूप

१-ग्रन्थत् ग०-ग्रस्थान् ल० । २ समापुर्विगतासुताम् ख० । समीयुर्विगतासुकाम् ल० ।

३ प्रागभागे ख० ।

वृत्तये पुष्कराख्यातद्वीपेऽपरपुराचलात् । प्रतीच्यां वीतशोकाख्यं सरिद्विपयमध्यगम् ॥ ३६४ ॥  
 पुरं चक्रध्वजस्तस्य पतिः कनकमालिका । देवी कनकपद्मा, उल्लते जाते तयोः सुते ॥ ३६५ ॥  
 विद्युन्मत्याश्च तस्यैव देव्याः पद्मावती, सुता । यानि काले सुग्वं तेषां कदाचिकाललब्धितः ॥ ३६६ ॥  
 प्रपीतामितनेनाग्न्यागणिनीवाग्रसायना । सुते कनकमाला च कल्पेऽजनिपतादिमे ॥ ३६७ ॥  
 सुराः पद्मावती वीक्ष्य गणिकां कामुकद्वयम् । प्रसाध्यमानां तच्चित्ताऽभूरात्र सुरलज्जिका ॥ ३६८ ॥  
 ततः कनकमालैव त्वमभूर्मणिकुण्डली । सुताद्वयं च तद्रत्नपुरेऽभूतां नृपात्मजौ ॥ ३६९ ॥  
 स्वश्च्युत्वाऽनन्तमत्याख्या सुरवेश्याप्यजायत । तद्धेतोर्वतते युद्धमथ तद्राजपुत्रयोः ॥ ३७० ॥  
 इति जैनीमिमां वाणीमाकर्ण्यान्यायकारिणौ । युवामज्ञातधर्माणौ निषेद्धमहमागतः ॥ ३७१ ॥  
 इति तद्वचनाद्वीतकलहौ जातसंविदौ । सद्यः सम्भूतनिर्वेगौ सुधर्मगुरुसंनिधौ ॥ ३७२ ॥  
 दीक्षामादाय निर्वाणमार्गपर्यन्तगामिनौ । क्षायिकानन्तबोधादिगुणौ निर्द्विन्दिमापतुः ॥ ३७३ ॥  
 तदानन्तमतिश्रान्तः<sup>१</sup> सम्पूर्णश्रावकव्रता । नाकलोकमवापाप्यं न किं वा सदनुग्रहात् ॥ ३७४ ॥  
 सौधर्मकल्पे श्रीपेणो विमाने श्रीप्रभोऽभवत् । देवी श्रीनिलयेऽविद्युत्प्रभाऽभूत् सिंहनन्दिता ॥ ३७५ ॥  
 ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां विमाने विमलप्रभे । देवी शुक्लप्रभा नाम्ना देवोऽत्र विमलप्रभः ॥ ३७६ ॥  
 पञ्चपत्न्योपमप्रान्ते श्रीपेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककीर्तिः सुतः श्रीमानजनिष्टा<sup>३</sup>स्त्वमीदृशः ॥ ३७७ ॥  
 ४तव ज्योतिःप्रभा कान्ताऽजनि सा सिंहनन्दिता । आसीदनिन्दिता चायं देवी श्रीविजयाद्वयः ॥ ३७८ ॥

सुनकर मैंने अपने पूर्वभव पूछे । उत्तरमें वे कहने लगे—॥ ३६१-३६३ ॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें पश्चिम मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सरिद् नामका एक देश है । उसके मध्यमें वीतशोक नामका नगर है । उसके राजाका नाम चक्रध्वज था, चक्रध्वजकी स्त्रीका नाम कनकमालिका था । उन दोनोंके कनकलता और पद्मालता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं ॥ ३६४-३६५ ॥ उसी राजाकी एक विद्युन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सबका समय सुखसे बीत रहा था । किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कनकमाला और उसकी दोनों पुत्रियोंने अभितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्गमें देव हुए । इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेश्या दो कामियोंको प्रसन्न कर रही है उसे देख पद्मावतीने भी वैपे ही होनेकी इच्छा की । मरकर वह स्वर्गमें अप्सरा हुई ॥ ३६६-३६८ ॥ तदनन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चयकर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ है और दोनों पुत्रियोंके जीव रत्नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं । जिस आसराका उल्लेख ऊपर आ चुका है वह स्वर्गमें चय कर अनन्तमति हुई है । इसी अनन्तमतिको लेकर आज तुम दोनों राजपुत्रोंका युद्ध हो रहा है ॥ ३६९-३७० ॥ इस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी कही हुई वाणी सुनकर, अन्याय करने वाले और धर्मको न जाननेवाले तुम लोगोंको रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥ ३७१ ॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनोंने सुधर्मगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनों ही मोक्षमार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक हुए और दोनों ही अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥ ३७२-३७३ ॥ तथा अनन्तमतितने भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण व्रत धारण किये और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके अनुग्रहसे कौन सी वस्तु नहीं मिलती ? ॥ ३७४ ॥ राजा श्रीपेणका जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंहनन्दिताका जीव उसी स्वर्गके श्रीनिलय विमानमें विद्युत्प्रभा नामकी देवी हुई ॥ ३७५ ॥ सत्यभामा ब्राह्मणी और अनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रभ विमानमें शुक्लप्रभा नामकी देवी और विमलप्रभ नामके देव हुए ॥ ३७६ ॥ राजा श्रीपेणका जीव पांच पत्न्य प्रमाण आयुके अन्तमें वहाँसे चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अर्ककीर्तिका पुत्र हुआ है ॥ ३७७ ॥ सिंहनन्दिता तुम्हारी

१ तदानन्तमतिश्रावक ख०, ग० । २ श्रीप्रभेऽभवत् ख० । ३-नजनिष्ट-ख० । ४ तव ज्योतिः क०, घ०, । भवज्योतिः ख० ।

सत्यभामा सुताराऽभूत्प्राशनः कपिलः खलः । सुचिरं दुर्गात् भ्रात्वा संभूतरमणे वने ॥ ३७९ ॥  
 ऐरावतीनदीतीरे समभूत्तापसाश्रमे । सुतश्चपलवेगायां कौशिकान्मृगशृङ्गवाक् ॥ ३८० ॥  
 कृतापसव्रतं दीर्घमनुष्ठाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्य विलोक्य खचरेशिनः ॥ ३८१ ॥  
 निदानं मनसा भूढो विधाय बुधनिन्दितम् । जनित्वाऽशनिघोषोऽयं सुतारां स्नेहतोऽग्रहीत् ॥ ३८२ ॥  
 भवे भाष्यत्र नवमे पञ्चमश्चक्रवर्तिनाम् । तीर्थेशां षोडशः शान्तिर्भवान् शान्तिप्रदः सताम् ॥ ३८३ ॥  
 इति तज्जिनशीतांशुवान्म्योत्त्राप्रसरप्रभा । प्रसङ्गाद्व्यकसत्खेचरेन्द्रहृत्कुमुदाकरः ॥ ३८४ ॥  
 तदैवाशनिघोषाख्यो माता चास्य स्वयम्प्रभा । सुतारा च परे वापन्नविण्णाः संयमं परम् ॥ ३८५ ॥  
 अभिनन्द्य जिनं सर्वे त्रिःपरीत्य यथांचितम् । जग्मुश्चक्रितनूजाद्यास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥  
 अर्ककीर्तिसुतः कुर्वन्नभुक्तिं सर्वपर्वसु । स्थितिभेदे च तद्योग्यं प्रायश्चित्तं समाचरन् ॥ ३८७ ॥  
 महापूजां सदा कुर्वन् पात्रदानादि चादरात् । ददद्धर्मकथां शृण्वन् भव्यान् धर्मं प्रबोधयन् ॥ ३८८ ॥  
 निःशङ्काविगुणास्तन्वन्दष्टिभोहानपोहयन् । ३८९ ॥ इतो वाऽमिततेजाः सन् सुखम्रेक्ष्योऽमृतांशुवत् ॥ ३८९ ॥  
 संयमीव शमं यातः पालकः पितृवत्प्रजाः । लोकद्वयहितं धर्म्यं कर्म प्रावर्तयत्सदा ॥ ३९० ॥  
 प्रज्ञप्तिकामरूपिण्यावथाग्निस्तम्बिनी परा । उदकस्तम्बिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिनी ॥ ३९१ ॥  
 अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी श्रुता ॥ ३९२ ॥  
 आवेशिनी दशम्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी प्रहरणी संग्रामण्याख्ययोदिता ॥ ३९३ ॥  
 आवर्तनी संग्रहणी भङ्गनी च विपाटनी । प्रावर्तनी प्रमोदिन्या सहान्यापि प्रहापणी ॥ ३९४ ॥

ज्योतिःप्रभा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा हुई है और पहलेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंमें भ्रमण कर संभूतरमण नामके वनमें ऐरावती नदीके किनारे तापसियोंके आश्रममें कौशिक नामक तापसकी चपलवेगा स्त्रीसे मृगशृङ्ग नामका पुत्र हुआ है ॥ ३७८-३८० ॥ वहाँ पर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तापसियोंके व्रत पालन किये । किसी एक दिन चपलवेग विद्याधरकी लक्ष्मी देखकर उस मूर्खने मनमें, विद्वान् जिसकी निन्दा करते हैं ऐसा निदान बन्ध किया । उसीके फलसे यह अशनिघोष हुआ है और पूर्व स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है ॥ ३८१-३८२ ॥ तेरा जीव आगे होनेवाले नौवें भवमें सज्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती और शान्तिनाथ नामका सोलहवाँ तीर्थकर होगा ॥ ३८३ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फैली हुई वचनरूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंसे भरा सरोवर खिल उठा ॥ ३८४ ॥ उसी समय अशनिघोष, उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ही लोगोंने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया ॥ ३८५ ॥ चक्रवर्तीके पुत्रको आदि लेकर बाकीके सब लोग जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिततेजके साथ यथायोग्य स्थान पर चले गये ॥ ३८६ ॥ इधर अर्ककीर्तिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वोंमें उपवास करता था, यदि कदाचित् ग्रहण किये हुए व्रतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित्त लेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंको धर्मोपदेश देता था, निःशङ्कित आदि गुणोंका विस्तार करता था, दर्शनमोहको नष्ट करता था, सूर्यके समान अपरिमित तेजका धारक था और चन्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था ॥ ३८७-३८९ ॥ वह संयमीके समान शान्त था, पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रवृत्ति रखता था ॥ ३९० ॥ प्रज्ञप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तम्बिनी, उदकस्तम्बिनी, विश्वप्रवेशिनी, अप्रतीघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संग्रामणी, आवर्तनी, संग्रहणी, भङ्गनी, विपाटिनी, प्रावर्तकी, प्रमोदिनी,

प्रभावती प्रलापिन्या निक्षेपिन्या च या स्मृता । शर्वरी परा चाण्डाली मातङ्गीति च कीर्तिता ॥३९५॥  
 गौरी षडङ्गिका श्रीमत्कन्या च शतसंकुला । कुभाण्डीति च विख्याता तथा विरलवेगिका ॥३९६॥  
 रोहिण्यतो मनोवेगा महावेगाह्वयापि च । चण्डवेगा सचपलवेगा लघुकरीति च ॥ ३९७ ॥  
 पर्णलघुवेगा वेगावतीति प्रतिपादिता । शीतोष्णदे च वेताल्यौ महाज्वालाभिधानिका ॥३९८॥  
 छेदनी सर्वविद्यानां युद्धवीर्येति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता २प्रहारावरणी तथा ॥३९९॥  
 भ्रामर्या भोगिनीत्यादिकुलजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निर्बभौ ॥४००॥  
 श्रेणीद्वयाधिपत्येन विद्याधरधराधिपः । प्राप्य तच्चक्रवर्तित्वं चिरं भोगानमुद्धूक सः ॥ ४०१ ॥  
 कदाचित्त्वचराभीशश्चरणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्त्वाऽऽपाश्रयं पञ्चकम् ॥ ४०२ ॥  
 अन्यदाऽमिततेजःश्रीविजयौ विनताननौ । नत्वाऽमरगुरुं देवगुरुं च मुनिपुङ्गवम् ३ ॥ ४०३ ॥  
 दृष्ट्वा धर्मस्य याथात्म्यं ४ पीत्वा तद्वचनमृतम् । अजरामरतां प्राप्ताविव तोषमुपेतुः ॥ ४०४ ॥  
 पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षीद्भवसम्बन्धमात्मनः । पितुः स भगवान् प्राह प्रथमः ५ प्रास्तकल्मषः ॥४०५॥  
 साकल्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिभवादितः । समाकर्ण्य तदाख्यानं भोगे कृतनिदानकः ॥ ४०६ ॥  
 किञ्चित्कालं समासाद्य खभूचरसुखामृतम् । विपुलादिमतेः पार्श्वे विमलादिमतेश्च तौ ॥ ४०७ ॥  
 महीसुजौ निशम्यैकमासमात्रात्मजीवितम् । दत्त्वाऽर्कतेजसे राज्यं श्रीदत्ताय च सादरम् ॥ ४०८ ॥  
 कृताष्टाह्निकसत्पूजौ मुनीशश्चन्दने वने । समीपे नन्दनाख्यस्य त्यक्त्वा सङ्गं तयोः खगेत् ॥४०९॥  
 प्रायोपगमसंन्यासविधिनाराध्य शुद्धधीः । नन्द्यावर्तेऽभवत्कल्पे रविचूलस्त्रयोदशे ॥ ४१० ॥  
 अभूच्छ्रीविजयोऽप्यत्र स्वस्तिके मणिचूलकः । विशत्यब्ध्युपमायुष्यौ जीवितावसितौ ततः ॥ ४११ ॥

प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपणी, शर्वरी, चाण्डाली, मातङ्गी, गौरी, षडङ्गिका, श्रीमत्कन्या, शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चण्डवेगा, चपलवेगा, लघुकरी, पर्णलघु, वेगावती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सर्वविद्याछेदिनी, युद्धवीर्या, बन्धमोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल और जातिमें उत्पन्न हुई अनेक विद्याएँ सिद्ध कीं । उन सब विद्याओंका पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोभित हो रहा ॥ ३९१-४०० ॥ दोनों श्रेणियोंका अधिपति होनेसे वह सब विद्याधरोंका राजा था और इसप्रकार विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोग भोगता रहा ॥ ४०१ ॥ किसी एक दिन विद्याधरोंके अधिपति अमित-तेजने दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूर्वक आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४०२ ॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयने मस्तक फुकाकर अमरगुरु और देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनमृतका पान किया और ऐसा संतोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ४०३-४०४ ॥ तदनन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले पहले भगवान् अमरगुरु कहने लगे ॥ ४०५ ॥ उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भोगोंका निदानबन्ध किया ॥ ४०६ ॥ अमिततेज तथा श्रीविजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-गोचरियोंके सुखामृतका पान किया । तदनन्तर दोनोंने विपुलमति और विमलमति नामके मुनियोंके पास 'अपनी आयु एक मास मात्रकी रह गई है' ऐसा सुनकर अर्कतेज तथा श्रीदत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आष्टाह्निक पूजा की तथा नन्दन नामक मुनिराजके समीप चन्दनवनमें सब परिग्रहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया । अन्तमें समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरोंका राजा अमित-तेज तेरहवें स्वर्गके नन्द्यावर्त विमानमें रविचूल नामका देव हुआ और श्रीविजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ दोनोंकी आयु बीस सागरकी थी । आयु समाप्त होने पर वहाँसे च्युत हुए ॥ ४०७-४११ ॥



द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्थविलसद्वत्सकावती । देशे प्रभाकरीपुर्या पतिस्तिमितसागरः ॥ ४१२ ॥  
 देवी वसुन्धरा जातस्तथोरादित्यचूलवाक् । देवोऽपराजितः सूनुरनन्धावताद् दिवश्च्युतः ॥ ४१३ ॥  
 तस्यैवानुमतौ देव्यां मणिचूलोऽप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तवीर्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाच्युतः ॥ ४१४ ॥  
 कान्त्या कुवलयान्हादात्तृष्णातापापनोदनात् । कलाधरत्वाद्भातः स्म जम्बूद्वीपविधूपमौ ॥ ४१५ ॥  
 पद्मानन्दकरौ भास्वद्वपुषौ ध्वस्ततामसौ । नित्योदयौ जगन्नेत्रे तावाधौ वा दिवाकरौ ॥ ४१६ ॥  
 न वज्रकौ कलावन्तौ सप्रतापौ न दाहकौ । करद्वयव्यपेतौ तौ सत्करौ रेजतुस्तराम् ॥ ४१७ ॥  
 नोपमानस्तयोः कामो रूपेणानङ्गतां गतः । नीत्या नान्योन्यजेतारौ गुरुशुक्रौ च तत्समौ ॥ ४१८ ॥  
 हीयते वर्द्धते चापि भास्करेण विनिमिता । वर्द्धते तत्कृता छाया वर्द्धमानस्य वा तरोः ॥ ४१९ ॥  
 न तयोर्विग्रहो धानं तथाप्यरिमहीभुजः । तत्प्रतापभयात्ताभ्यां स्वयं सन्धातुमुत्सुकाः ॥ ४२० ॥

उनमेंसे रविचूल नामका देव नन्द्यावर्त विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी वसुन्धराके अपराजित नामका पुत्र हुआ ॥ मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तवीर्य नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ ॥ ४१२-४१४ ॥ वे दोनों ही भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुवलय-नील कमलोंको आह्लादित करता है उसी प्रकार वे भी कुवलय-पृथिवी-मण्डलको आह्लादित करते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्ण-तृषा और आतापको दूर करता है । उसी प्रकार वे भी तृष्णा रूपी आताप-दुःखको दूर करते थे और जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलाओंका धारक होता है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं-अनेक चतुराइयोंके धारक थे ॥ ४१५ ॥ अथवा वे दोनों भाई बालसूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक्ष्मीको आनन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य भास्वद्वपु-देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार बालसूर्य ध्वस्ततामस-अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य नित्योदय होते हैं-उनका उद्गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे-उनका ऐश्वर्य निरन्तर विद्यमान रहता था और जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नेत्र-जगच्चक्षु नामको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेत्र-जगत्के लिए नेत्रके समान थे ॥ ४१६ ॥ वे दोनों भाई कलावान् थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों-दोनों प्रकार के टैक्सोंसे ( आयात और निर्यात करोंसे ) रहित होनेपर भी सत्कार-उत्तम कार्य करनेवाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ४१७ ॥ रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे । भावार्थ-लोकमें सुन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योंकि वे दोनों शरीरसे सहित थे और कामदेव शरीरसे रहित था । इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु-बृहस्पति और शुक्र-शुक्राचार्यकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले थे परन्तु वे दोनों परस्परमें एकदूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥ ४१८ ॥ सूर्यके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है ॥ ४१९ ॥ वे न कभी युद्ध

अवद्विषातां तावेवं राज्यलक्ष्मीकटाक्षगौ । नवं वयः समासाद्य शुक्लाट्यमृतान्शुवत् ॥ ४२१ ॥  
 पर्यायो राज्यभोग्यस्य योग्ययोर्मसनूजयोः । इतीव रतिमच्छैस्सीद्धोगेव्वेतत्पिताऽन्यदा ॥ ४२२ ॥  
 तदैव तौ समाहूय कुमारवमरोपमौ । अभिषिच्यार्पयद्राज्यं यौवराज्यं च सांऽस्पृहः ॥ ४२३ ॥  
 स्वयं स्वयम्प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम् । संयमेन समासाद्य धरणेन्द्रद्विदर्शनात् ॥ ४२४ ॥  
 निदानदूपितो बालतपा लोलुतया सुखे । स्वकालान्तं विशुद्धात्मा जगाम धरणेशिताम् ॥ ४२५ ॥  
 १ तत्पदे तौ समासाद्य बीजमूलाङ्कराविव । नीतिवारीपरीपेकात्सुभूमौ वृद्धिर्मयितुः ॥ ४२६ ॥  
 अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं सप्रतापनयांशवः । आक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सर्वभूभृताम् ॥ ४२७ ॥  
 लक्ष्म्यौ नवे युवानौ यौ तत्प्रीतिः समसंगमात् । भोगासक्तिं व्यधाद्दार्ढं तयोरुन्नतपुण्ययोः ॥ ४२८ ॥  
 नर्तकी बर्बरीत्येका ख्यातान्या च त्रिलातिका । नृत्यविद्येव सामर्थ्याद् रूपद्वयमुपागता ॥ ४२९ ॥  
 भूपती तौ तयोर्नृत्यं कदाचिज्जातसम्मदौ । विलोकमानावासीनावागमभारदस्तदा ॥ ४३० ॥  
 सूर्याचन्द्रमसौ सैहिकेयो वा जनिताशुभः । नृत्तासङ्गात्कुमाराभ्यां क्रूरः सांऽविहितादरः ॥ ४३१ ॥  
 जाज्वल्यमानकोपाग्निशिखासंसमातसः । चण्डांशुरिव १ मध्याह्ने जज्वाल शुचिसङ्गमात् ॥ ४३२ ॥  
 स तदैव सभामध्याच्चिर्गत्य कलहप्रियः । द्राक्प्रापत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥

करते थे और न कभी शत्रुओं पर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोंके साथ सदा सन्धि करनेके लिए उत्सुक बने रहते थे ॥ ४२० ॥ इस तरह जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे वे दोनों भाई नवीन अवस्थाको पाकर शुक्रपक्षकी अष्टमीके चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे ॥ ४२१ ॥ 'अब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यका उपभोग करनेके योग्य हो गई, ऐसा विचार कर किसी एक दिन इनके पिताने भोगोंमें प्रीति करना छोड़ दिया ॥ ४२२ ॥ उसी समय इच्छा रहित राजाने देव तुल्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज बना दिया ॥ ४२३ ॥ तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्रके चरणोंके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया । उससे दूषित होकर बालतप करता रहा । वह सांसारिक सुख प्राप्त करनेका इच्छुक था । आयुके अन्तमें विशुद्ध परिणामोंमें मरा और धरणेन्द्र अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ ४२४-४२५ ॥

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलके सिंचनसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलके सिंचनसे वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४२६ ॥ जिस प्रकार सूर्यकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतोंके मस्तकों-शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्वप्रथम समस्त राजाओंके मस्तकों पर अपना स्थान जमाया था ॥ ४२७ ॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राजलक्ष्मियाँ नई थीं और स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सहस्र समागमके कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था ॥ ४२८ ॥ उनके बर्बरी और चिलातिका नामकी दो नृत्यकारिणी थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानों नृत्य-विद्याने ही अपनी सामर्थ्यसे दां रूप धारण कर लिये हों ॥ ४२९ ॥ किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्षके साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये ॥ ४३० ॥ दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके । वे क्रूर तो पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया । वे उन दोनों भाइयोंके समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य और चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो । अत्यन्त जलती हुई क्रोधाग्निकी शिखाओंसे उनका मन संतप्त हो गया । जिस प्रकार जेठके महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे—अत्यन्त कुपित हो रहे थे । कलहप्रेमी नारदजी उसी समय सभाके

दमितारिं १सभामध्ये सन्निविष्टं स्वविष्टरे । १अस्तमस्तकभास्वन्तमिव प्रपतनोन्मुखम् ॥ ४३४ ॥  
 सद्यो विलोक्य सोऽप्याशु प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । प्रतिगृह्य प्रणम्योच्चैर्विष्टरे सन्निवेश्य तम् ॥ ४३५ ॥  
 वचाशिषं किमुद्दिश्य भवन्तो मामुपागताः । सम्पदं किं ममादेष्टुं प्राप्ताः किं वा महापदम् ॥ ४३६ ॥  
 इत्यप्राक्षीदसौ वास्य विकासिवदनाम्बुजः । सम्पदं जनयन् वाचमवोचत्प्रीतिवर्द्धिनीम् ॥ ४३७ ॥  
 सारभूतानि वस्तूनि तवान्वेष्टुं परिभ्रमन् । नर्तकीद्वयमद्राक्षं प्रेक्षायोग्यं तवैव तत् ॥ ४३८ ॥  
 अस्थानस्थं समीक्ष्यैवमनिष्टं सोढुमक्षमः । आगतोऽहं कथं सर्वा पादे चूडामणिस्थितिः ॥ ४३९ ॥  
 सम्प्रत्यप्रतिमल्लौ वा नूतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीषुकौ ॥ ४४० ॥  
 सप्तव्यसनसंसक्तौ सुखोच्छेद्यौ प्रमादिनौ । तयोर्गृहे सुखप्राह्यं जगत्सारमवस्थितम् ॥ ४४१ ॥  
 तद्दूतप्रेषणादेव तवाद्यायाति हेलया । कालहानिर्न कर्तव्या हस्तासन्नेऽतिदुर्लभे ॥ ४४२ ॥  
 इत्येवं प्रेरितस्तेन सपापेन यमेन वा । दमितारिः समासन्नमरणः श्रवणं ददौ ॥ ४४३ ॥  
 तदैव नर्तकीवार्ताश्रुतिव्यामुग्धचेतनः । दूर्तं सोपायनं प्रस्तुतार्थसम्बन्धवेदिनम् ॥ ४४४ ॥  
 प्राहिणोद्वत्सकावत्याः महीशौ शौर्यशालिनौ । प्रति सोऽपि नृपादेशादन्तरेऽहान्यहापयन् ॥ ४४५ ॥  
 गत्वा जिनगृहे प्रोषधोपवाससमन्वितम् । अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम् ॥ ४४६ ॥  
 दृष्ट्वाऽमात्यमुखाद्दूतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधीः ॥ ४४७ ॥  
 ज्वलत्यस्य प्रतापान्निर्दिव्यायस्पिण्डभास्वरः । कृतदोषान् व्यलीकाभिमानिनो दहति द्रुतम् ॥ ४४८ ॥

बीचसे बाहर निकल आये और क्रोधजन्य वेगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥ ४३१-४३३ ॥  
 वहाँ सभाके बीचमें राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ता-  
 चलकी शिखरपर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो ॥ ४३४ ॥ उसने नारदजीको आता हुआ देख  
 लिया अतः शीघ्र ही उठकर उनका पङ्क्तिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठाया  
 ॥ ४३५ ॥ जब नारदजी आशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे  
 यहाँ पधारे हैं ? क्या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पधारे हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करनेके  
 लिए आपका समागम हुआ है ? यह सुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा । वे राजाको हर्ष  
 उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेवाले वचन कहने लगे ॥ ४३६-४३७ ॥ उन्होंने कहा कि हे राजन् ! मैं  
 तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएँ खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हूँ । मैंने आज दो नृत्यकारिणी  
 देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य हैं ॥ ४३८ ॥ वे इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित नहीं हैं । मैं  
 ऐसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूडामणिकी  
 स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ? ॥ ४३९ ॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाला  
 नहीं है, जो नवीन लक्ष्मीके मदसे उद्धत हो रहे हैं और जो भूठमूठके ही विजिगीषु बने हुए हैं ऐसे  
 प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तवीर्य हैं । वे सप्त-व्यसनोंमें आसक्त होकर  
 प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते हैं । संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियों-  
 का जोड़ा उन्हींके घरमें अवस्थित है । उसे आप मुखसे ग्रहण कर सकते हैं, दूत भेजनेसे वह आज  
 ही लीलामात्रमें तुम्हारे पास आ जावेगा इसलिए अत्यन्त दुर्लभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्य-  
 मान है तब समय बिताना अच्छा नहीं ॥ ४४०-४४२ ॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने  
 जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका मरण अत्यन्त निकट है ऐसा दमितारि नारदकी बातमें आ गया  
 ॥ ४४३ ॥ नृत्यकारिणीकी बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया । उसने उसी समय वत्सकावती  
 देशके पराक्रमी राजा अपराजित और अनन्तवीर्यके पास प्रकृत अर्थको निवेदन करनेवाला दूत भेंटके  
 साथ भेजा । वह दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिताता हुआ—शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी  
 पहुँचा । उस समय दोनों ही भाई प्रोषधोपवासका व्रत लेकर जिनमंदिरमें बैठे हुए थे । उन्हें देखकर  
 बुद्धिमान् दूतने मन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों  
 भाइयोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ॥ ४४४-४४७ ॥ वह कहने लगा कि दिव्य लोहेके पिण्डके

तस्य नाम्नैव निभिन्नहृदयाः प्राकृतद्विपः । वमन्ति वैरमखं वा विनम्रा भयविह्वलाः ॥ ४४९ ॥  
 न सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः शुद्धचेतसः । विभज्यान्वयजैर्विद्वैस्तद्राज्यं भुज्यते यतः ॥ ४५० ॥  
 कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूभुजः । मालेवाज्ञा हतावज्ञैरुच्यते यदि मूर्द्धभिः ॥ ४५१ ॥  
 विनम्रविश्वविधेशमुकुटाग्रमणित्विषा । स पादपीठपर्यन्ते विधत्ते धनुरामरम् ॥ ४५२ ॥  
 यशः कुन्देन्दुनिर्भासि तस्यारातिजयाजितम् । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपर्यन्तके कलम् ॥ ४५३ ॥  
 दुर्दमा विद्विपस्तेन <sup>१</sup>दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दमितारिति ख्यातिं सन्धत्तेऽन्वर्थपेशलम् ॥ ४५४ ॥  
 तस्य शौर्यान्लो भस्मिताखिलारातिरिन्धनः । जाज्वलीति तथाप्यग्निकुमारामरभीषणः ॥ ४५५ ॥  
 प्रेषितः श्रीमता तेन देवेनाहं युवां प्रति । प्रीतये याचितुं तस्माद्वातब्धं नर्तकीद्वयम् ॥ ४५६ ॥  
 युष्मदीयं भुवि ख्यातं योग्यं तस्यैव तद्यतः । युवयोः स हि तहानात्सुप्रसन्नः फलिष्यति ॥ ४५७ ॥  
 इत्यब्रवीद्दः श्रुत्वा तमावासं प्रहित्य तौ । किं कार्यमिति पृच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः ॥ ४५८ ॥  
 तयोः पुण्योद्यात्सद्यस्तृतीयभवदेवताः । सुनिरूप्य स्वरूपाणि <sup>२</sup>ताः स्वयं समुपाश्रयन् ॥ ४५९ ॥  
 वयं युवाभ्यां संयोज्या <sup>३</sup>निजाभिप्रेतकर्मणि । <sup>४</sup>अस्थाने माकुलीभूतामित्याहुश्चाहितादराः ॥ ४६० ॥  
 श्रुत्वैतद्राज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिषु । नर्तकीवेषमादाय राज्ञाऽऽवां प्रेषिते ततः ॥ ४६१ ॥

समान देदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधी तथा भूठमूठके अभिमानी मनुष्योंको शीघ्र ही जला डालती है ॥ ४४८ ॥ उसका नाम लेते ही स्वभावसे बैरी मनुष्योंका हृदय फट जाता है। वे भयसे इतने विह्वल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही वैर तथा अन्न दोनों ही छोड़ देते हैं ॥ ४४९ ॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल है, वह अपने वंशके सब लोगोंके साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारमें उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥ ४५० ॥ जब तिरस्कारको न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको मालाके समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं ? ॥ ४५१ ॥ वह अपने चरणपीठके समीप नम्रीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटके अग्रभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्रधनुष बनाया करता है ॥ ४५२ ॥ शत्रुओंको जीतनेसे उत्पन्न हुआ उसका यश कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निरन्तर गाती रहती हैं ॥ ४५३ ॥ जिस प्रकार महावतोंके द्वारा बड़े-बड़े दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े-बड़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका 'दमितारि' यह नाम सार्थक प्रसिद्धिको धारण करता है ॥ ४५४ ॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शत्रुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अग्निकुमारदेवके समान भयंकर दिखनेवाली उसकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है ॥ ४५५ ॥ उसी श्रीमान् दमितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियों माँगनेके लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए ॥ ४५६ ॥ आपकी नृत्यकारिणियाँ पृथिवीमें प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं। नृत्यकारिणियोंके देनेसे वह तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस दूतने कहा। राजाने उसे सुनकर दूतको तो विश्राम करनेके लिए भेजा और मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए ? ॥ ४५७-४५८ ॥ उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी विद्यादेवताएँ शीघ्र ही आ पहुँचीं और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग आपके द्वारा अपने इष्ट कार्यमें लगानेके योग्य हैं। आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों—ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कहा ॥ ४५९-४६० ॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपना राज्यका भार अपने मन्त्रियोंपर रखकर नर्तकियोंका वेष धारण किया और दूतसे कहा कि चलो चलें,

१ दाता यन्त्रेव (?) ल० । २ तौ ल० । ३ निजाभिप्रेत-ल० । ४ अस्थाने ल० ।

यामेति <sup>१</sup>दूतेनाल्प्य सम्प्राप्य शिवमन्दिरम् । समालोचितगूढार्थौ प्रविश्य नृपमन्दिरम् ॥ ४६२ ॥  
 इष्टवन्तौ खगाधीशं <sup>२</sup>यथौचित्यं प्रतुष्य सः । सम्भाष्य सामवाक्सारः पूजयित्वा दिने परे ॥ ४६३ ॥  
 अङ्गहारैः सकरणैः रसैर्भावेर्मनोहरैः । नृत्यं तयोर्विलोक्याससम्मदः परितोषितः ॥ ४६४ ॥  
 भवन्नृत्यकलां <sup>३</sup>कल्यां वासु <sup>४</sup>शिक्षयतां सुताम् । मदीयामित्यदात्कन्यामेताभ्यां कनकश्रियम् ॥ ४६५ ॥  
<sup>५</sup>आदाय तां यथायोग्यं <sup>६</sup>नर्तयन्तौ नृपालमजाम् । पठतुर्गुणसंहृद्य <sup>७</sup>मिति ते भाविचक्रिणः ॥ ४६६ ॥

### पृथ्वीच्छन्दः

गणैः कुलबलादिभिर्भुवि विजित्य विश्वान् नृपान्—

मनोजमपि लज्जयन् भववरो वपुःसम्पदा ।

विदग्धवनिताविलासललितावलोकालयः

क्षितेः पतिरनन्तवीर्यं इति विश्रुतः पातु वः ॥ ४६७ ॥

### अनुष्टुप्

तदा तच्छ्रुतिमात्रेण मदनाविष्टविग्रहा । स्तूयते यः स को ब्रूतमित्यप्राक्षीन्नृपालमजा ॥ ४६८ ॥  
 प्रभाकरीपुराधीशोऽजनिस्तिमितसागरात् । महामणिरिव क्षमाभृन्मौलिचूडामर्णायितः ॥ ४६९ ॥  
 कान्ताकल्पलतारोहरम्यकल्पमहीरुहः । कामिनीभ्रमरीभोग्यमुखाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥  
 इति 'तद्द्वयतद्रूपलावण्याद्यनुवर्णनात् । द्विगुणीभूतसम्प्रीतिरित्युवाच खगात्मजा ॥ ४७१ ॥  
 किमसौ लभ्यते द्रष्टुं कन्यके सुष्ठु लभ्यते । त्वयेत्यनन्तवीर्यस्य रूपं साक्षात्प्रदर्शितम् ॥ ४७२ ॥

राजाने हम दोनोंको भेजा है। इस प्रकार दूतके साथ वार्तालाप कर वे दोनों शिवमन्दिरनगर पहुँचे और किसी गूढ़ अर्थकी आलोचना करते हुए राजभवनमें प्रविष्ट हुए ॥ ४६१-४६२ ॥ वहाँ उन्होंने विद्याधरके राजा दमितारिके यथायोग्य दर्शन किये। राजा दमितारिने संतुष्ट होकर उनके साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें संभाषण किया, उनका आदर-सत्कार किया, दूसरे दिन मनको हरण करनेवाले अङ्गहार, करण, रस और भावोंसे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा संतोषका अनुभव किया ॥ ४६३-४६४ ॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहा कि 'हे सुन्दरियो! आप अपनी सुन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीको सिखला दीजिये' यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री उन दोनोंके लिए सौंप दी ॥ ४६५ ॥ वे दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे। एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्तीके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ॥ ४६६ ॥ 'जिसने अपने कुल बल आदि गुणोंके द्वारा पृथिवी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीरकी सम्पत्तिसे कामदेवको भी लज्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्दर स्त्रियोंके विलास तथा मनोहर चितवनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीर्य इस नामसे प्रसिद्ध पृथिवीका स्वामी तुम सबकी रक्षा करें' ॥ ४६७ ॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेश किया है ऐसी राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसकी स्तुति की जा रही है वह कौन है?' यह कहिये ॥ ४६८ ॥ उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'वह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिमितसागरसे उत्पन्न हुआ है, महामणिके समान राजाओंके मस्तक पर स्थित चूडामणिके समान जान पड़ता है, स्त्रीरूपी कल्पलताके चढ़नेके लिए मानो कल्पवृक्ष ही है, और स्त्रीरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य मुखकमलसे सुशोभित है' ॥ ४६९-४७० ॥ इस प्रकार उन दोनोंके द्वारा अत्यन्तवीर्यके रूप तथा लावण्य आदिका वर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गई है ऐसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्री बोली 'क्या वह देखनेको मिल सकता है?' उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'हे कन्ये! तुम्हें अच्छी तरह मिल सकता है'। ऐसी

१ दूतमालप्य ख०, ग०, ल० । २ यथोचितं ल० । ३ कल्यामाशु शिष्ययतां सुताम् ख०, म०, घ०, म० । कुलाकल्यामाशु क० । ४ हे सुन्दर्यौ ! ५ आदीय ल० । ६ नृत्यन्तौ ल० । ७ संदग्ध ख० । संदोह ल० । ८ तयोर्द्वयं तद्द्वयं तेन तस्य रूपलावण्याद्यनुवर्णनात् ।

तदङ्गनसमुद्भूतमदनज्वरविह्वलाम् । नर्तक्यौ तां समादाय जग्मनुर्मरुतः पथा ॥ ४७३ ॥  
 तद्गातां खेचराधीशः श्रुत्वाऽन्तर्वशिकोदितात् । स्वभटान्प्रेपयामास तद्द्वयानयनं प्रति ॥ ४७४ ॥  
 तदागमनमालोक्य स निवर्त्य हली बली । न्ययुव्यतानुजं दूरे स्थापयित्वा सकन्यकम् ॥ ४७५ ॥  
 ते तेन सुचिरं युद्ध्वा कृतान्तोपान्तमाश्रिताः । दमितारिः पुनः क्रुद्ध्वा युद्धशौण्डान् समादिशत् ॥ ४७६ ॥  
 तेऽपि तत्खड्गधारोस्वारिराशाधिवाद्रयः । निमज्जन्ति स्म तच्छ्रुत्वा खगाधीशः सविस्मयः ॥ ४७७ ॥  
 नर्तक्योर्न प्रभावोऽयं किमेतद् द्यूत मन्त्रिणः । इत्याह ते च तत्तत्त्वं स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयत् ॥ ४७८ ॥  
 तदा लब्धेन्धनो वाग्निः क्रुद्धो वा गजविद्विपः । दमितारिः स्वयं योद्धुं चचाल स्वबलान्वितः ॥ ४७९ ॥  
 एककोऽपि हली सर्वान् विद्याविक्रमसाधनः । दमितारिं विमुच्यैतान् देहशेषांश्चकार सः ॥ ४८० ॥  
 दमितारिं यमं वैकं हन्तुमायान्तमग्रजम् । अनन्तवीर्यस्त्वं दृष्ट्वा केसरीव मर्दाद्विपम् ॥ ४८१ ॥  
 अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा विद्याबलमदोद्धतम् । विमदीकृत्य निस्पन्दं व्यधादधिकविक्रमः ॥ ४८२ ॥  
 खगेशश्चक्रमादाय क्षिपति स्माभिभूशुजम् । दक्षिणाग्रकराभ्यर्णे तस्थिवत्तत्परीत्या तम् ॥ ४८३ ॥  
 मृत्युं वा धर्मचक्रेण योगी तं खेचराधिपम् । अहंस्तेनैव चक्रेण विक्रमी भाविकेशवः ॥ ४८४ ॥  
 इति युद्धान्तमासाद्य गगने गच्छतोस्तयोः । पृथ्वातिक्रमभीत्येव विमाने सहसा स्थिते ॥ ४८५ ॥  
 केनचिद् कीलितो वेतो न यातः केन हेतुना । इति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं व्यलोक्यत ॥ ४८६ ॥

कहकर उन्होंने अनन्तवीर्यका साक्षान् रूप दिखा दिया ॥ ४७१-४७२ ॥ उसे देखकर कनकश्री कामधरसे विह्वल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गई ॥ ४७३ ॥ विद्याधरोंके स्वामी दमितारिने यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन दोनोंको वापिस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे ॥ ४७४ ॥ बलवान् बलभद्रने योद्धाओंका आगमन देख, कन्या सहित छोटे भाईको दूर रक्खा और स्वयं लौटकर युद्ध किया ॥ ४७५ ॥ जब बलभद्रने चिर-काल तक युद्ध कर उन योद्धाओंको यमराजके पास भेज दिया तब दमितारिने क्रुपित होकर युद्ध करनेमें समर्थ दूसरे योद्धाओंको आज्ञा दी ॥ ४७६ ॥ वे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें पहाड़ डूब जाते हैं उसी प्रकार बलभद्रकी खड्गधाराके विशाल पानीमें डूब गये । यह सुनकर दमितारिको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४७७ ॥ उसने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि यह प्रभाव नृत्यकारिणियोंका नहीं हो सकता, ठीक बात क्या है ? आप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात ठीक-ठीक जानकर राजासे कहीं ॥ ४७८ ॥ उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध मड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी क्रुपित हो स्वयं युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ लेकर चला ॥ ४७९ ॥ परन्तु विद्या और पराक्रमसे युक्त एक बलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिर्फ दमितारिको ही बाकी छोड़ा ॥ ४८० ॥ इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीके ऊपर सिंह आ टूटता है उसी प्रकार बड़े भाईको मारनेके लिए आते हुए यमराजके समान दमितारिको देखकर अनन्तवीर्य उस पर टूट पड़ा ॥ ४८१ ॥ अधिक पराक्रमी अनन्तवीर्यने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या और बलके मदसे उद्धत उस दमितारिको मद रहित कर निश्चेष्ट बना दिया था ॥ ४८२ ॥ अबकी बार विद्याधरोंके राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीर्यके सामने फेंका परन्तु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिने कन्धेके समीप ठहर गया ॥ ४८३ ॥ जिस प्रकार योगिराज धर्मचक्रके द्वारा मृत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा दमितारिको नष्ट कर दिया—मार डाला ॥ ४८४ ॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाशमें जा रहे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जावे इस भयसे ही मानो उनका विमान सहसा रुक गया ॥ ४८५ ॥ यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे । देखते ही उन्हें समवसरण

मानस्तम्भा सरांस्येतान्येतद्वनचतुष्टयम् । मध्येगन्धकुटी नूनं जिनेन्द्रः कोऽपि तिष्ठति ॥ ४८७ ॥  
 इति तत्रावतीर्थेप शिवमन्दिरनाथकः । सुतः कनकपुङ्खस्य जयदेव्याश्च निश्चितः ॥ ४८८ ॥  
 दमितारेः पिता कीर्तिधरो नाम्ना विरक्तवान् । प्राप्य शान्तिकराभ्यासे प्रव्रज्यां पारमेश्वरीम् ॥ ४८९ ॥  
 १संवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागमन् । केवलावगमं भक्त्या सुनासीरादिपूजितः ॥ ४९० ॥  
 इत्युक्तवैव परीत्य त्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्वरम् । श्रुतधर्मकथौ तत्र तस्थतुर्ध्वस्तकल्मषौ ॥ ४९१ ॥  
 कनकश्रीः सहाभ्येत्य ताम्यां भक्त्या पितामहम् । वन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वभवान्तरम् ॥ ४९२ ॥  
 इति पृष्टो जिनाधीशो निजवागमृताम्बुभिः । तां तर्पयितुमित्याह परार्थैकफले हितः ॥ ४९३ ॥  
 अत्र जम्बूद्वुमालक्ष्यद्वीपेऽस्यां भरतावनौ । शङ्खाख्यनगरे वैश्यो देविलस्तस्युताभवः ॥ ४९४ ॥  
 बन्धुश्रियां २त्वमेवैका श्रीदत्ता ज्यायसी सती । सुताः पराः कनीयस्यः कुटी पङ्क कुणी<sup>३</sup> तथा ॥ ४९५ ॥  
 वधिरा कुब्जका काणा खब्जा पोषिका स्वयम् । त्वं कदाचिन्मुनिं सर्वयशसं सर्वशैलगम् ॥ ४९६ ॥  
 अभिवन्द्य शमं याता हिंसाविरमणव्रतम् । गृहीत्वा धर्मचक्राख्यमुपवासं च शुद्धधीः ॥ ४९७ ॥  
 अन्यदा सुव्रताख्यायै गणिन्वै विधिपूर्वकम् । दत्त्वाऽन्नदानमेतस्या वमने सत्युपोषितात् ॥ ४९८ ॥  
 सम्यक्त्वाभावतस्तत्र विचिकित्सागगततः । सौधर्मे जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥ ४९९ ॥  
 ततो मन्दरमालिन्यां दमितारः सुताभवः । पुण्याद् व्रतोपवासान्ताद्विचिकित्साफलं त्विदम् ॥ ५०० ॥  
 सबलं पितरं हत्वा धत्वा नीतासि दुःखिनी । विचिकित्सां न कुर्वन्ति तस्मात्साधौ सुधीधनाः ॥ ५०१ ॥

दिखाई दिया ॥ ४८६ ॥ 'ये मानस्तम्भ हैं, ये सरोवर हैं, ये चार वन हैं और ये गन्धकुटीके बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं' ऐसा कहते हुए अनन्तवीर्य और उनके भाई बलदेव वहाँ उतरे । उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हैं, राजा कनकपुङ्ख और रानी जयदेवीके पुत्र हैं, दमितारिके पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है । इन्होंने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी । एक वर्षका प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देवोंने बड़ी भक्तिसे इनकी पूजा की थी । ऐसा कह कर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बार बार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनीं और अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँ पर बैठ गये ॥ ४८७-४८९ ॥ कनकश्री भी उनके साथ गई थी । उसने अपने पितामहको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पूछे ॥ ४८२ ॥ ऐसा पूछने पर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका फल है ऐसे जिनेन्द्रदेव अपने वचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको संतुष्ट करनेके लिए इस प्रकार कहने लगे ॥ ४८३ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रकी भूमि पर एक शङ्ख नामका नगर था । उसमें देविल नामका वैश्य रहता था । उसकी बन्धुश्री नामकी स्त्रीसे तू श्रीदत्ता नामकी बड़ी और सती पुत्री हुई थी । तेरी और भी छोटी बहिनें थीं जो कुष्ठी, लँगड़ी, टोंटी, बहरी, कुबड़ी, कानी और खंजी थीं । तू इन सबका पालन स्वयं करती थी । तूने किसी समय सर्वशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वयश मुनिराजकी यन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया, और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नामका उपवास किया ॥ ४९४-४९७ ॥ किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नामकी आर्थिकाके लिए विधिपूर्वक आहार दिया, उन आर्थिकाने पहले उपवास किया था इसलिए आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दर्शन न होनेसे तूने उन आर्थिकासे घृणा की । तूने जो अहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मर कर सौधर्म स्वर्गमें सामानिक जातिकी देवी हुई और वहाँसे चय कर राजा दमितारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई है । तूने आर्थिकासे जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान् पिताको मारकर तुझे जबर्दस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया । यही कारण है कि बुद्धिमान् लोग कभी

१ संवत्सरं घ० । २ त्वमेवैक क०, घ०, ग० । त्वमेवैक-ख० । ३ कुणिस्तथा क०, ख०, घ० । कुणीस्तथा ग० ।

१श्रुत्वैतदतिशोकार्ता वन्दित्वा जिनपुङ्गवम् । प्रभाकरीमगात्ताभ्यां सह सा खेचरात्मजा ॥ ५०२ ॥  
 सुघोपविद्युद्दंष्ट्राख्यौ धातरौ कनकश्रियः । तत्पुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ बलोद्धतौ ॥ ५०३ ॥  
 विलोक्य विहितक्रोधौ बध्नतुर्बलकेशवौ । तन्निशम्य खगाधीशतनूजा सोढुमक्षमा ॥ ५०४ ॥  
 प्रबुद्धतेजसा यूना भानुनेव हतद्युतिः । २युताऽसाविन्दुरेखेव क्षाणा पक्षयलाद्विना ॥ ५०५ ॥  
 शोकदावानलम्लाना दूनेव वनवल्लरी । व्युच्छिन्नकामभोगेच्छा विच्छिन्नपुद्गुःखसन्ततिम् ॥ ५०६ ॥  
 मोचयित्वा सुबुध्यैतौ सम्प्रार्थ्य बलकेशवौ । स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेशात्पीतधर्मरसायना ॥ ५०७ ॥  
 सुप्रभागणिनीपार्श्वे दीक्षित्वा जीवितावधौ । सौधर्मकल्पे देवोऽभूच्चित्रं विलसितं विधेः ॥ ५०८ ॥

### हरिणी

सुविहितमहोपायौ विद्याबलाद्बहुपुण्यकौ  
 बुधजननुतौ सुप्रारम्भौ परस्परसङ्गतौ ॥  
 हतपृथुरिपुशान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ  
 सममविशतां सिद्धार्थौ तौ पुरीं परमोत्सवाम् ॥ ५०९ ॥

### वसन्ततिलका

जित्वा प्रसिद्धखचरान् खचराधिभर्तुं—  
 रध्यास्य तद्वलधरत्वमलङ्घ्यशक्तिः ।  
 व्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्वं  
 भावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥  
 चक्रेण तस्य युधि तं दमितारिशक्तिं  
 हत्वा त्रिखण्डपतितां ३समवाप्य तस्मात् ।

साधुओंमें घृणा नहीं करते हैं ॥ ४९८-५०१ ॥

यह सुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई । अनन्तर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर नारायण और बलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गई ॥ इधर सुघोष और विद्युद्दंष्ट्र कनकश्रीके भाई थे । वे बलसे उद्धत थे और शिवमन्दिरनगरमें ही नारायण तथा बलभद्रके द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे । यह देख कर बलभद्र तथा नारायणको बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंको बाँध लिया । यह सुनकर कनकश्री उनके दुःखको सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूर्यसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार वह भी पक्षबलके बिना कान्तिहीन तथा क्षीण हो गई ॥ ५०२-५०५ ॥ शोकरूपी दावानलसे मुरझाकर वह वनलताके समान दुःखी हो गई । उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड़ दी, वह केवल भाइयों का दुःख दूर करना चाहती थी । उसने दोनों भाइयोंको समझाया तथा बलभद्र और नारायणको प्रार्थना कर उन्हें बन्धनसे छुड़वाया । स्वयंप्रभनामक तीर्थकरसे धर्मरूपी रसायन का पान किया और सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें आयु समाप्त होने पर सौधर्मस्वर्गमें देव पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि कर्मका उदय बढ़ा विचित्र है ॥ ५०६-५०८ ॥ जिन्होंने विद्याके बलसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान् हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े शत्रुओंको मारकर जिनकी आत्माएं शान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंने कृतकृत्य हो कर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥ ५०९ ॥ अलंघ्य शान्तिको धारण करने वाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंके स्वामीका पद तथा बलभद्रका पद प्राप्त किया और इस तरह केवल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥ ५१० ॥ शत्रुओंकी शक्ति



वीर्येण सूर्यविजयीत्यमनन्तवीर्यो  
धुर्योऽभवद् भुवि स शौर्यपरेषु शूरः ॥ ५११ ॥


### शार्दूलविक्रीडितम्

नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगतः स्फूर्जत्प्रतापानल-  
ज्वालाभस्मितवैरिवंशगहनस्त्वं चक्रिणामग्रणीः ।  
यस्त्वां कोपयति क्षणादरिरसौ कालज्वलज्ज्वालिना  
लीढो लिङ्घत एव लक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा<sup>१</sup> वन्दिभिः ॥ ५१२ ॥

### मालिनीच्छन्दः

गतघनरिपुरोधः स्वाग्रजोद्दिष्टमार्गः  
समुपगतविशुद्धिः काललब्ध्या स चक्री ।  
रविरिव निजदीप्त्या व्यासदिकृचक्रवालः  
शरदमिव पुरीं स्वामध्युवासोप्रतेजाः ॥ ५१३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अपराजितानन्तवीर्याभ्युदयवर्णनं  
नाम द्विषष्टितमं पर्व ॥ ६२ ॥



को दमन करने वाले दमितारिको जिसने युद्धमें उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीर्यसे सूर्यको जीतता था तथा शूरवीरोंमें अत्यन्त शूर था ऐसा अनन्तवीर्य पृथिवी में सर्व श्रेष्ठ था ॥ ५११ ॥ वन्दी जन उस अनन्तवीर्य नारायणकी उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान प्रतापाम्नीकी ज्वालाओंसे तूने शत्रुओंके वंश रूपी वांसोंके वनको भस्म कर डाला है, तू सब नारायणोंमें श्रेष्ठ नारायण है, जो शत्रु तुम्हे क्रुपित करता है वह क्षणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्वालाओंसे आलीढ—व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥ ५१२ ॥ जिसके शत्रु रूपी बादलोंका उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, काललब्धिसे जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्तिसे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यन्त उग्र है ऐसा वह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरद्ऋतु में निवास करता है ॥ ५१३ ॥

इस प्रकार आर्षेणामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अपराजित बलभद्र और अनन्तवीर्य नारायणके अभ्युदयका वर्णन करने वाला बासठवां पर्व समाप्त हुआ ।



## त्रिषष्टितमं पर्व

सिंहासने समासीनो <sup>१</sup>वीज्यमानप्रकीर्णकः । अर्द्धचक्री व्यराजिष्ट यथा गट्खण्डमण्डितः ॥ १ ॥  
 अथापराजितोप्यात्मयोग्यरत्नाद्यधीश्वरः । बलदेवपदं प्राप्य प्रत्यहं वृद्धिमातनोत् ॥ २ ॥  
 पूर्वं भवान्तराबद्धविवृद्धस्नेहयोस्तथोः । काले गच्छत्यविच्छिन्नस्वच्छन्दसुखसारयोः ॥ ३ ॥  
 विजयायां हलेनास्य बभूव सुमतिः सुता । ज्योत्स्नेव प्रीणितागेषा शुक्लपञ्चनदुरेखयोः ॥ ४ ॥  
 सान्त्वहं कुर्वती वृद्धिं स्वस्याः पित्रोरपि स्वयम् । गुणैराह्लादनैः प्रीतिं व्यधात्कुवलयेप्सिताम् ॥ ५ ॥  
 दानाद्दमवराख्याय चारणाय यथोचितम् । साश्चर्यपञ्चकं प्राप तत्र दृष्ट्वा निजात्मजाम् ॥ ६ ॥  
 रूपेण केवलेनेयं भूपिता यौवनेन च । वरं प्रार्थयते बाला संश्रिता कालदेवताम् ॥ ७ ॥  
 इति सञ्चिन्त्य तौ श्रावितस्वयंवरघोषणौ । कृत्वा स्वयंवृतेः शालां प्रवेश्यात्र वरोत्तमान् ॥ ८ ॥  
 सुतां च स्वन्दनारूढां सुप्रीतौ तस्थतुस्तदा । काचिद्विमानमारूढ <sup>२</sup>खागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥  
 अभिजानासि किं देवलोकेऽहं त्वं च कन्यके । <sup>३</sup>वत्स्यावस्तत्र संज्ञानात्समभूत् स्थितिरावयोः ॥ १० ॥  
 या प्रागवतरद्धान्त्रीं तामन्या बोधयत्विति । ब्रुवे नौ भवसम्बन्धं सन्निधाय मनः शृणु ॥ ११ ॥  
 पुष्करद्वीपपूर्वार्द्धभरते नन्दने पुरे । नयविक्रमसम्पन्नो महीशोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥  
 प्तस्यानन्दमत्याश्र धनानन्तश्रियौ सुते । भूत्वा वां सिद्धकूटस्थनन्दनाख्ययतीश्वरात् ॥ १३ ॥

जिसपर चमर दुर रहे हैं ऐसा सिंहासनपर बैठा हुआ अर्द्धचक्री-नारायण अनन्तवीर्य इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह खण्डोंसे सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्रका पद प्राप्तकर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ २ ॥ जिनका स्नेह दूसरे भवोंसे सम्बद्ध होनेके कारण निरन्तर बढ़ता रहता है और जो स्वच्छन्द रीतिसे अखण्ड श्रेष्ठ सुखका अनुभव करते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंका काल क्रमसे व्यतीत हो रहा था ॥ ३ ॥ कि बलभद्रकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । वह शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी रेखाओंसे उत्पन्न चांदनीके समान सबको प्रसन्न करती थी ॥ ४ ॥ वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणोंके द्वारा माता-पिताके भी कुवलये-प्सित—पृथिवीमण्डलमें इष्ट अथवा कुमुदोंको इष्ट प्रेमको बढ़ाती थी ॥ ५ ॥ किसी एक दिन राजा अपराजितने दमवरनामक चारणवृद्धिधारी मुनिको आहार दान दे कर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये । उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूपसे ही विभूषित है किन्तु यौवनसे भी विभूषित हो गई है । इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर वरकी प्रार्थना कर रही है अर्थात् विवाहके योग्य हो गई है ॥ ६-७ ॥ ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्वयंवरकी घोषणा सबको सुनवाई और स्वयंवरशाला बनवा कर उसमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया ॥ ८ ॥ पुत्रीको रथपर बैठा कर स्वयंवरशालामें भेजा और आप दोनों भाई भी वहीं बैठ गये । कुछ समय बाद एक देवी विमानमें बैठ कर आकाशमार्गसे आई और सुमति कन्यासे कहने लगी ॥ ९ ॥ क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्गमें रहा करती थीं । उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथिवीपर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समभावगी । मैं दोनोंके भवोंका सम्बन्ध कहती हूँ सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥ १०-११ ॥

पुष्कर द्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमें वय और पराक्रमसे सुशोभित एक अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी आनन्दमती नामकी रानीसे हम दोनों धनश्री

श्रुत्वा धर्मं व्रतैः सार्द्धमुपवासांश्च संबिदा । समग्रहीष्टानौ दृष्ट्वा कदाचित् त्रिपुराधिपः ॥ १४ ॥  
मनोहरवनेऽगच्छत् सहवज्राङ्गदः खगः । कान्तया वज्रमालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १५ ॥  
पुरीं प्रापय्य कान्तानां स्वां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वाऽऽवां व्रजन्नाशु निजाभिप्रायवेदिनीम् ॥ १६ ॥  
आगतामन्तरे दृष्ट्वा दूरात्तां वज्रमालिनीम् । त्यक्त्वा वेणुवने भीत्या तस्याः स्वपुरमीशिवान् ॥ १७ ॥  
आवां संन्यस्य तन्नैव सौधर्मेन्द्रस्य शुद्धधीः । व्रतोपवासपुण्येन देवी नवमिकाभवम् ॥ १८ ॥  
त्वं च देवी कुबेरस्य रत्याख्या समजायथाः । अन्योन्यमवगत्यैत्य नन्दीश्वरमहामहम् ॥ १९ ॥  
अथ मन्दरपर्यन्तवने निर्जन्तुके स्थितम् । चारणं धृतिषेणाख्यं समाश्रित्य प्रणम्य १तम् ॥ २० ॥  
आवामप्रभयावेदं कदा स्यान्मुक्तिरावयोः । इत्यथो मुनिरप्याह जन्मनीतश्रुत्युत्थे ॥ २१ ॥  
अवश्यं युवयोर्मुक्तिरिति तस्मान्महामते । सुमते नाकिनां लोकात्त्वां बोधयितुमागता ॥ २२ ॥  
इत्यवोचत्तदाकर्ण्य सुमतिर्नाम सार्थकम् । कुर्वती पितृनिर्मुक्ता १प्रवाजीत्सुव्रतान्तिके ॥ २३ ॥  
३कन्यकाभिः शतैः सार्द्धं सप्तभिः सा महातपाः । त्यक्तप्राणानते कल्पे देवोऽभवदनुदिशे ॥ २४ ॥  
आधिपत्यं त्रिखण्डस्य विधाय विविधैः सुखैः । प्राविशत्केशवः पापात् प्रान्ते रत्नप्रभां क्षितिम् ॥ २५ ॥  
तच्छोकात्सीरपाणिश्च राज्यलक्ष्मीं प्रबुद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोधरमुनीश्वरात् ॥ २६ ॥  
आदाय संयमं प्राप्य तृतीयावगमं शमी । त्रिंशद्दिवससंन्यासादच्युताधीश्वरोऽभवत् ॥ २७ ॥  
धरणेन्द्रात् पितुः४बुध्वा प्राप्तसम्यक्त्वरत्नकः । संख्यातवर्षैः प्रच्युत्य नरकाद् दुरितच्युतेः ॥ २८ ॥

तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं । किसी एक दिन हम दोनोंने सिद्धकूटमें विराजमान नन्दन नामके मुनिराजसे धर्मका स्वरूप सुना, व्रत ग्रहण किये तथा सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये । किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वज्राङ्गद विद्याधर अपनी वज्रमालिनी स्त्रीके साथ मनोहर नामक वनमें जा रहा था कि वह हम दोनोंको देखकर आसक्त हो गया । वह उसी समय लौटा और अपनी स्त्रीको अपनी नगरीमें भेजकर शीघ्र ही वापिस आ गया । इधर वह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली वज्रमालिनी आ धमकी । उसे दूरसे ही आती देख वज्राङ्गद डर गया अतः वह हम दोनोंको वंश-वनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया ॥ १२-१७ ॥ हम दोनोंने उसी वनमें संन्यासमरण किया । जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करने वाली मैं तो व्रत और उपवासके पुण्यसे सौधर्मेन्द्रकी नवमिका नामकी देवी हुई और तू कुबेरकी रति नामकी देवी हुई । एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्दीश्वर द्वीपमें महामह यज्ञ देखनेके लिए गई थीं वहाँ से लौटकर मेरुपर्वतके निकटवर्ती जन्तुरहित वनमें विराजमान धृतिषेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थीं और उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था कि हे भगवन् ! हम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद मुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी । हे बुद्धिमती सुमते ! मैं इस कारण ही तुम्हें समझानेके लिए स्वर्गलोके यहाँ आई हूँ ॥ १८-२२ ॥ इस प्रकार उस देवीने कहा । उसे सुन कर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर सुव्रता नामकी आर्यिकाके पास सात सौ कन्याओंके साथ दीक्षित हो गई । दीक्षित हो कर उसने बड़ा कठिन तप किया और आयुके अन्तमें मर कर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमान में देव हुई ॥ २३-२४ ॥

इधर अनन्तवीर्य नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा और अन्तमें पापोदयसे रत्नप्रभा नामकी पहिली पृथिवीमें गया ॥ २५ ॥ उसके शोकसे बलभद्र अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया । वे तीसरा अवधिज्ञान प्राप्तकर अत्यन्त शान्त हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए ॥ २६-२७ ॥ अपराजित और

द्वीपेऽस्मिन्भारते खेचराद्रयुद्धक्षेत्रेणिविश्रुते । मेघवाहनविद्याधरेशो गगनवह्निः ॥ २९ ॥  
 देव्यां तुग्मेघमालिन्यां मेघनादः खगाधिपः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन भोगांश्चिरमशुक्ल सः ॥ ३० ॥  
 कदाचिन्मन्दरे विद्यां प्रज्ञप्तिं नन्दने वने । साधयन्मेघनादोऽयमच्युतेन्द्रेण बोधितः ॥ ३१ ॥  
 लब्धबोधिः समाश्रित्य <sup>१</sup>सुरामरगुरुं धमम् । <sup>२</sup>सुगुप्तिसमितीः सम्यगादाय चिरमाचरन् ॥ ३२ ॥  
 अन्येद्युर्नन्दाना<sup>३</sup>ख्याद्रौ प्रतिमायोगमागमत् । अश्वघ्रीवानुजो भान्वा सुकण्ठाख्यो भवार्णवे ॥ ३३ ॥  
 असुरत्वं समासाद्य हृद्वैनं मुनिसत्तमम् । विधाय बहुधा क्रोधादुपसर्गानवारयन् ॥ ३४ ॥  
 महायोगात्प्रतिज्ञातात्<sup>४</sup> स्थिरं चालयितुं खलः । “लज्जातिरस्करिष्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥ ३५ ॥  
 मुनिः संन्यस्य कालान्ते सोऽच्युतेऽगात्प्रतीन्द्रताम् । इन्द्रेण सह सम्प्रीत्या सप्रवीचारभोगभाक् ॥ ३६ ॥  
 प्राक्प्रच्युत्याच्युतापीशो द्वीपेऽस्मिन् प्रातिवेदेहके । विषये मङ्गलावत्यां स्थानीये रत्नसञ्चये ॥ ३७ ॥  
 राज्ञः क्षेमकराख्यस्य कृतपुण्योऽभवत्सुतः । श्रीमान् कनकचित्रायां भासो वा मेघविद्युतोः ॥ ३८ ॥  
 आधानप्रीतिसुप्रीतिधृतिमोदप्रियोद्भव । प्रभृत्युक्तक्रियोपेतो धीमान् वज्रायुधाङ्गवः ॥ ३९ ॥  
 तन्मातरौ तज्जन्मतोषः सर्वेष्वभूद् बहुः । भवेच्छचीशदिव्येव किं प्रकाशोऽशुमालिनः ॥ ४० ॥  
 अवधिष्ट वपुस्तस्य सार्द्धं रूपादिसम्पदा । भूषितोऽ<sup>५</sup>निमिषो वासौ भूषणैः सहजैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

अनन्तवीर्यका जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था । उसने नरकमें जाकर अनन्तवीर्यको समझाया जिससे प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यग्दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया । संख्यात वर्षकी आयु पूरी कर पापका उदय कम होनेके कारण वह वहाँ से च्युत हुआ और जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगनवह्नि नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ । वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकालतक भोगोंको भोगता रहा ॥ २९-३० ॥ किसी समय यह मेघनाद मेरु पर्वतके नन्दन वनमें प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रे ने उसे समझाया ॥ ३१ ॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया । उसने सुरामरगुरु नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुणियों और समितियोंको लेकर चिर कालतक उनका आचरण करता रहा ॥ ३२ ॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्दन नामक पर्वतपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे । अश्वघ्रीव का छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्रमें चिर काल तक भ्रमणकर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ था । वह वहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ॥ ३३-३४ ॥ परन्तु वह दृष्ट उन हृदप्रतिज्ञा मुनिराजको ग्रहण किये हुए व्रतसे रंच मात्र भी विचलित करनेमें जब समर्थ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया—छिप गया ॥ ३५ ॥ वे मुनिराज संन्यासमरणकर आयुके अन्तमें अच्युतस्वर्गके प्रतीन्द्र हुए और इन्द्रके साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥ ३६ ॥ अपराजित का जीव जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेहक्षेत्रके रत्नसंचय नामक नगरमें राजा क्षेमकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी विजलीसे प्रकाशके समान पुण्यात्मा श्रीमान् तथा बुद्धिमान् वज्रायुध नामका पुत्र हुआ । जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति सुप्रीति धृति-मोह प्रियोद्भव आदि क्रियाएं की गई थीं ॥ ३७-३८ ॥ उसके जन्मसे उसकी माताके ही समान सबको बहुत भारी संतोष हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशा में ही होता है ? भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका प्रकाश सब दिशाओंमें फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके ही हुई थी परन्तु उससे हर्ष सभीको हुआ था ॥ ४० ॥ रूप आदि सम्पदाके साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक

१ सुरामरगुरुपमात् क०, ख०, घ० । सुरामरगुरुं पुमान् ग० । २ सुगुप्तिसमिति म० । सुगुप्ति समिति ख० ।  
 ३ नन्दनाख्येऽद्रौ ल०, म० । ४ प्रतिज्ञानात् ख०, म०, घ० । ५ त्रपानेपथ्येन । ६ देव इव ।

जनानुरागः प्रागेव तस्मिस्तस्योदयादभूत् । सन्ध्याराग इवार्कस्य महाभ्युदयसूचनः ॥ ४२ ॥  
 विश्वाशा ध्यानशो तस्य यशो विशादयद् ऋशम् । काशप्रसवसङ्काशमाश्रासितजनश्रुति ॥ ४३ ॥  
 राज्यलक्ष्म्या व्यभालक्ष्मीमत्याचाप्यनवं वयः । असौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्स्नयावाप्य वा विदुः ॥ ४४ ॥  
 सुनुस्तयोः प्रतीन्द्रोऽभूत्सहस्रायुधनामभाक् । वासरादेः प्रतीच्यां वा घर्मदीप्तिः कनद्द्युतिः ॥ ४५ ॥  
 श्रीपेणायां सुतस्तस्य शान्तान्तकनकोऽजनि । एवं क्षेमङ्करः पुत्रपौत्रादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥  
 अप्रतीपप्रतापोऽर्थानतभूपकदम्बकः । कदाचिर्द्वाज्यमानोऽस्थाञ्चामरैः सिंहविष्टरे ॥ ४७ ॥  
 तदामरसदस्यासीदीशानस्तुतिगोचरः । वज्रायुधो महासम्यग्दर्शनाधिक्यतः कृती ॥ ४८ ॥  
 देवो विचित्रचूलाख्यस्तत् स्तवं सोढुमक्षमः । अभिवज्रायुधं प्रापत्खलो ह्यन्यस्तवासहः ॥ ४९ ॥  
 दृष्ट्वा रूपपरावृत्या महीनाथं यथोचितम् । बादकण्डूययाऽवोचत्सौत्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥  
 त्वं जीवादिपदार्थानां विद्वान् किल विचारणे । वद पर्यायिणो भिन्नः पर्यायः किं विपर्ययः ॥ ५१ ॥  
 भिन्नत्रचेच्छून्यताप्राप्तिस्तयोरधारहानितः । तथा चान्यपदेशत्वाच्चार्थं पक्षो घटामटेव ॥ ५२ ॥  
 पृक्त्वसङ्गरेऽप्येतन्न युक्तिपदवीं व्रजेत् । अन्योन्यगोचरैकत्वनानात्वाद्यन्तसङ्करात् ॥ ५३ ॥  
 अस्ति चेद् द्रव्यमेकं तै पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमपीत्येव सङ्गरो भङ्गमाप्नुयात् ॥ ५४ ॥  
 नित्यत्वेऽपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्युतेः । तद्धेतुबन्धनाभावान्मोक्षाभावो न वार्यते ॥ ५५ ॥

गुणोंसे वह सुशोभित होने लगा ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार सूर्यके महाभ्युदयको सूचित करने वाली उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युदयको सूचित करने वाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था ॥ ४२ ॥ सब लोगोंके कानोंको आश्वासन देने वाला और काशके फूलके समान फैला हुआ उसका उज्ज्वल यश समस्त दिशाओंमें फैल गया था ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्लपक्ष को पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह वज्रायुध भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राज्यलक्ष्मी तथा लक्ष्मी-मती नामक स्त्रीसे सुशोभित हो रहा था ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशासे देदीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों—वज्रायुध और लक्ष्मीमतीके अनन्तवीर्य अथवा प्रतीन्द्रका जीव सहस्रायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४५ ॥ सहस्रायुधके श्रीपेणा स्त्रीसे कनकशान्त नामका पुत्र हुआ । इस प्रकार राजा क्षेमकर पुत्र पौत्र आदि परिवारसे परिवृत हो कर राज्य करते थे । उनका प्रताप प्रतिद्वन्द्वीसे रहित था, और अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार करते थे । किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थे ॥ ४६-४७ ॥ ठीक उसी समय देवोंकी सभामें ऐशान स्वर्गके इन्द्रने वज्रायुधकी इस प्रकार स्तुति की—इस समय वज्रायुध महासम्यग्दर्शनीकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान् है ॥ ४८ ॥ विचित्रचूल नामका देव इस स्तुति को नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वज्रायुधकी ओर चला सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता ॥ ४९ ॥ उसने रूप बदल कर राजाके यथायोग्य दर्शन किये और शास्त्रार्थ करनेकी खोजलीसे सौत्रान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा ॥ ५० ॥ हे राजन् ! आप जीव आदि पदार्थोंके विचार करनेमें विद्वान् हैं इसलिए कहिये कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि अभिन्न ? ॥ ५१ ॥ यदि पर्यायीसे पर्याय भिन्न है तो शून्यताकी प्राप्ति होती है क्योंकि दोनोंका अलग-अलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय है इस प्रकारका व्यवहार भी नहीं बन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ॥ ५२ ॥ यदि पर्यायी और पर्यायको एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि परस्पर एकपना और अनेकपना दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है ॥ ५३ ॥ 'यदि द्रव्य एक है और पर्यायें बहुत हैं' ऐसा आपका मत है तो 'दोनों एक स्वरूप भी हैं' इस प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जावेगा ॥ ५४ ॥ यदि द्रव्य और पर्याय दोनोंकी नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोंका उदय नहीं हो सकेगा, कर्मोंके उदयके बिना बन्धके कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभावमें कर्मोंका

१ 'वासरादेरिव प्राच्यां' इति षष्ठः सुष्ठु प्रतिभाति ।

अगत्या क्षणिकत्वं चैतयोरभ्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्च मे भवेत् ॥ ५६ ॥  
 ततो भवन्मत्तं भद्रं बौद्धकैः परिकल्पितम् । १कल्पनामात्रमत्रस्थं मा कृथास्त्वं वृथा श्रमम् ॥ ५७ ॥  
 इत्याकर्ण्य तदोक्तं तद्बुधो वज्रायुधोऽभजत् । शृणु चित्तं निघायोक्षैर्माध्यस्थं प्राप्य सौगतम् ॥ ५८ ॥  
 जिनेन्द्रवदनेन्दूथस्याद्वादाऽमृतपायिनाम् । स्वकर्मफलभोगादिव्यवहारविरोधिनम् ॥ ५९ ॥  
 क्षणिकैकान्तदुर्वादमवलम्ब्य प्ररूपितः । त्वया दोषो न बाधायै कल्पते धर्मधर्मिणोः ॥ ६० ॥  
 संज्ञाप्रज्ञास्वच्छिन्नादिभेदैर्भिन्नत्वमेतयोः । एकत्वं चापृथक्त्वार्षणनयैकावलम्बनात् ॥ ६१ ॥  
 कार्यकारणभावेन कालत्रितयवर्तिनाम् । स्कन्धानामव्यवच्छेदसन्तानोऽभ्युपगम्यते ॥ ६२ ॥  
 स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि ३सद्भावात्कृतकर्मणः । युक्तः फलोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥  
 एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम् । वातारितरुबन्धेन रोधो वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥  
 सन्तानिभ्यः ससन्तानः पृथक् किंवाऽपृथग्मतः । पृथक्त्वे किं न पश्यामः सन्तानिभ्यः पृथक् न तत् ॥ ६५ ॥  
 अथेष्टोऽभ्यतिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वकल्पितः । सन्तानः शून्यतां तस्य सुगतोऽपि न वारयेत् ॥ ६६ ॥

बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावको कौन रोक सकेगा ? ॥ ५५ ॥  
 यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके गृहीत पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ॥ ५६ ॥ इसलिए हे भद्र ! आपका मत नीच बौद्धोंके द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ ही परिश्रम न करें ॥ ५७ ॥

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान् वज्रायुध कहने लगा कि हे सौगत ! चित्तको ऊंचा रखकर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राप्त होकर सुन ॥ ५८ ॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फलको भोगना आदि व्यवहारसे विरोध रखने वाले क्षणिकैकान्तरूपी मिथ्यामतको लेकर तूने जो दोष बतलाया है वह जिनेन्द्र भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याद्वाद रूपी अमृतका पान करने वाले जैनियोंको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता । क्योंकि धर्म और धर्मोंमें—गुण और गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि आदि चिह्नोंका भेद होनेसे भिन्नता है और 'गुण गुणी कभी अलग नहीं हो सकते' इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता है—एकता है । भावार्थ—द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथवा पर्याय और पर्यायीमें अभेद है—एकता है परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमें भेद है । अनेकता है ॥ ५९-६१ ॥ भूत भविष्यत् वर्तमान रूप तीनों कालोंमें रहने वाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य भाव रहता है अर्थात् भूत कालके स्कन्धोंसे वर्तमान कालके स्कन्धोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हुए और वर्तमान कालके स्कन्ध कार्य हुए । इसी प्रकार वर्तमान कालके स्कन्धोंसे भविष्यत् काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत् कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य हुए । इस प्रकार कार्य-कारण भाव होनेसे इनमें एक अखण्ड सन्तान मानी जाती है । स्कन्धोंमें यद्यपि क्षणिकता है तो भी सन्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है । जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है । ऐसा यदि आपका मत है तो इस परिहारसे आपको अपने पक्षकी रक्षा करना एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथीके बांधनेके समान है । भावार्थ—जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बांधा जा सकता उसी प्रकार इस परिहारसे आपके पक्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥ ६२-६४ ॥ हम पूछते हैं कि जो संतान स्कन्धोंसे उत्पन्न हुई है वह संतान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे पृथक् क्यों नहीं देखते हैं ? चूंकि वह हमें पृथक् नहीं दिखाई देती है इसलिए संतानीसे भिन्न नहीं है ॥ ६५ ॥ यदि आप अपनी कल्पित संतानको संतानीसे अभिन्न मानने हैं तो फिर उसकी शून्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते; क्योंकि संतानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी क्षणिक ही

प्रध्वंसात्सास्यतिक्रान्तः क्षणो भाव्यप्यनुद्भवात् । भवत्क्षणस्वरूपासिध्याप्तो नाम्नोति सन्ततिम् ॥ ६७ ॥  
 यदि कश्चिच्चतुर्थोऽस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः । ततः सन्तानवादोऽर्थं भवव्यसनसन्ततिः ॥ ६८ ॥  
 इति देवोऽप्यसौ तस्य वाग्वज्रेण विचूणितम् । वचो विचिन्त्य स्वं भग्नमानः कालादिलब्धितः ॥ ६९ ॥  
 सद्यः सम्यक्त्वमादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम् । निजागमनवृत्तान्तमभिधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥  
 अथ क्षेमङ्करः पृथ्व्याः क्षेमं योगं च सन्दधत् । लब्धबोधिमतिज्ञानक्षयोपशमनावृतः ॥ ७१ ॥  
 वज्रायुधकुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् । प्रासलौकान्तिकस्तोत्रः परिनिष्कम्य गेहृतः ॥ ७२ ॥  
 अनावरणमस्थानमप्रमादमनुत्कमम् । असङ्गमकृताहारम<sup>१</sup>नाहार्यमनेकधा ॥ ७३ ॥  
 अकषायमनारम्भमनवधमखण्डितम् । अनारतश्रुताभ्यासं प्रकुर्वन् स तर्पाश्वरम् ॥ ७४ ॥  
 निर्ममं निरहङ्कारं निःशास्त्र्यं निर्जितेन्द्रियाम् । निःक्रोधं निश्चलं चित्तं निर्वृत्यै निर्मलं व्यधात् ॥ ७५ ॥  
 क्रमात्कैवल्यमप्याप्य व्याहृतपुरुहूतकम् । गणान् द्वादश वाऽऽस्मीयान् वाग्विसर्गादतीतृपत् ॥ ७६ ॥  
 वज्रायुधेऽथ भूनाथे सुपुण्यफलितं महीम् । पात्यागमन्मधुर्मांसो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥  
 कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽलिनाम् । अहरत्काममन्त्रो<sup>२</sup> वा प्राणान् प्रोषितयोषिताम् ॥ ७८ ॥

रहेगी । इस तरह अभेदवाद्मं सन्तानकी शून्यता बलात् सिद्ध होती है । जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है और जो वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों क्षणोंसे सन्तानकी उत्पत्ति संभव नहीं है । यदि इनके सिधाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे संतानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु चौथा क्षण आप मानते नहीं हैं क्योंकि चौथा क्षण माननेसे तीन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जावेगा । इस प्रकार आपका यह सन्तानवाद संसारके दुःखोंकी सन्तति मालूम होती है ॥ ६६-६८ ॥

इस प्रकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुधके वचनरूपी वज्रसे खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त कहा और फिर वह स्वर्ग चला गया ॥ ६९-७० ॥ अथानन्तर क्षेमङ्कर महाराज योग और क्षेमका समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे । तदनन्तर किसी दिन उन्होंने मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ ७१ ॥ वज्रायुधकुमारका राज्याभिषेक किया, लौकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की और घरसे निकल कर दीक्षा धारण कर ली ॥ ७२ ॥ उन्होंने निरन्तर शास्त्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्चरण किया । वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्रविहित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहिन्ते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और गृहीत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करनेके लिए अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चञ्चलतारहित, और निर्मल बना लिया था ॥ ७३-७५ ॥ क्रम-क्रम से उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके उत्सवमें आये और दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी बारहों सभाओंको संतुष्ट कर दिया ॥ ७६ ॥

इधर राजा वज्रायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई पृथिवीका पालन करने लगे । धीरे-धीरे कामके उन्मादको बढ़ाने वाला चैतका महीना आया । कोयलौका मनोहर आलाप और अमरोंका मधुर शब्द कामदेवके मंत्रके समान विरहिणी स्त्रियोंके प्राण हरण करने लगा । समस्त प्रकारके फूल

वनान्यपि मनोजाय त्रिजगद्विजिगीषवे । यस्मिन् पुष्पकरे स्वैरं ददुः सर्वस्वमात्मनः ॥७९॥  
 तस्मिन् काले वने रन्तुं <sup>१</sup>स्वदेवरमणे मतिम् । ज्ञात्वा सुदर्शनावक्त्राद्धारिण्याद्यात्मयोषिताम् ॥८०॥  
 भौत्सुक्यात्तद्वनं गत्वा सुदर्शनसरोवरे । जलक्रीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयति भूभुजि<sup>२</sup> ॥ ८१ ॥  
 अपिधाय सरः सद्यः कश्चिद्विद्याधरः खलुः । शिलया नागपाशेन तमबन्धान्नुपोऽन्यसौ ॥ ८२ ॥  
 शिलां हस्ततलेनाहस्ता गता शतखण्डिताम् । विद्याधरोऽपि दुष्टात्मा तदानीं प्रपलायितः ॥८३॥  
 एष पूर्वभवे शत्रुविद्युद्दंष्ट्राभिधानकः । वज्रायुधोऽपि देवीभिः सह स्वपुरमागमत् ॥ ८४ ॥  
 एवं सुखेन भूभर्तुः काले गच्छत्ययोदयात्<sup>३</sup> । निधयो नव रत्नानि चतुर्दश तदाऽभवत् ॥८५॥  
 चक्रवर्तिश्रियं<sup>४</sup> प्राप्य निविष्टं सिंहविष्टरे । कश्चिद्विद्याधरो भीतः शरणं तमुपागतः ॥ ८६ ॥  
 तस्यैवानुपदं काचिदुल्खातासिलता खगी । क्रोधानलशिखेवागात् द्योतयन्ती <sup>५</sup>सभावनीम् ॥८७॥  
 तस्याश्चानुपदं कश्चिस्थविरः स गदाधरः । समागत्य महाराज दुरात्मैष खगाधमः ॥ ८८ ॥  
 त्वं दुष्टनिग्रहे शिष्टपालने च निरन्तरम् । <sup>६</sup>जागर्ति निग्रहः कार्यस्त्वयास्यान्यायकारिणः ॥ ८९ ॥  
 कोऽसावन्याय इत्येतत् ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत् । वदामि देव सम्यक् त्वं प्रणिधाय मनः श्रणु ॥९०॥  
<sup>७</sup>जम्बूद्वीपसुकच्छाख्यविषये <sup>८</sup>खचराचले । श्रेण्यामुत्तरदिग्जायां शुक्रग्रभपुराधिपः ॥ ९१ ॥  
 खगाधीन्द्रदत्ताख्यः प्रिया तस्य यशोधरा । तथोरहं सुतो वायुवेगो विद्याधरैर्मतः ॥ ९२ ॥  
 तत्र किन्नरगीताख्यनगराधिपतिः खगः । <sup>९</sup>चित्रचूलः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाऽभवत्<sup>१०</sup> ॥९३॥

उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगद्विजयी कामदेवके लिए अपना सर्वस्व ही दे रहे हों ॥ ७७-७८ ॥ उस समय उसने सुदर्शना रानीके मुखरो तथा धारिणी आदि अपनी स्त्रियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देव-रमण नामक वनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस वनमें जाकर सुदर्शन नामक सरोवरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ॥ ८०-८१ ॥ उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरने आकर उस सरोवरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया और राजाको नागपाशसे बाँध लिया । राजा वज्रायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिला पर ऐसा आघात किया कि उसके सौ टुकड़े हो गये । दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्याधर और कोई नहीं था—पूर्वभवका शत्रु विद्यु-द्वंद्व था । वज्रायुध अपनी रानियोंके साथ अपने नगरमें वापिस आ गया । इस प्रकार पुण्योदयसे राजाका काल सुखसे बीत रहा था । कुछ समय बाद नौ निधियाँ और चौदह रत्न प्रकट हुए ॥ ८२-८५ ॥ वह चक्रवर्तीकी विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी शरणमें आया ॥ ८६ ॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार लिये क्रोधाग्निकी शिखाके समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आई ॥ ८७ ॥ उस विद्याधरीके पीछे ही हाथमें गदा लिये एक वृद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट नीच है, आप दुष्ट मनुष्योंके निग्रह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हैं इसलिए आपको इस अन्याय करने वालेका निग्रह अवश्य करना चाहिये ॥ ८८-८९ ॥ इसने कौन-सा अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको अच्छी तरह स्थिर कर सुनो ॥ ९० ॥

जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रग्रभ नामका नगर है । वहाँ विद्याधरोके राजा इन्द्रदत्ता राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम यशोधरा था । मैं उन दोनोंका पुत्र हूँ, वायुवेग मेरा नाम है और सब विद्याधर मुझे मानते हैं ॥ ९१-९२ ॥ उसी देश में किन्नरगीत नामका एक नगर है । उसके राजाका नाम चित्रचूल है । चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता

१ स्वे देव-क०, ख०, ग०, घ०, म०, । २ भूभुजे ख० । ३ पुण्योदयात् । ४ चक्रवर्तिश्रियः म०, ख० । ५ सभावनिम् ग० । सभापतिम् ख० । ६ जागर्ति ख० । ७ जम्बूद्वीपे क०, ख०, ग०, घ०, म० । ८ खेचराचले ख०, ग०, म० । खेचरालये ख० । ९ चित्रसेनः म०, ख० । १० भवेत् क०, ग०, घ० ।



सुता मम सुकान्तायाश्चैषा शान्तिमतिः सती । विद्याः साधयितुं याता मुनिसागरपर्वतम् ॥१४॥  
 विद्यासाधनविद्यार्थं पापोऽयं समुपस्थितः । पुण्योदयात्तदैवास्या विद्या सिद्धिसुपागता ॥१५॥  
 तद्गयात्त्वामयं पापकर्मकृत्समुपाश्रयत् । १विद्यापूजां समादाय तदैवाहं समागमम् ॥ १६ ॥  
 भद्रद्व्या मत्सुतां तत्र तन्मार्गं क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्वं श्रुत्वाऽवधिविलोचनः ॥ १७ ॥  
 जानाम्यहं महत्त्वास्य विद्याया विघ्नकारणम् । इति वज्रायुधो व्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम् ॥ १८ ॥  
 अस्मिन्मैरावतोऽख्याते गान्धारविषये नृपः । विन्ध्यसेनः पतिविन्ध्यपुरस्य विलसन् गुणैः ॥१९॥  
 सुलक्षणयायां तस्याभूत्सुतुर्नलिनकेतुकः । तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो वणिक् ॥ १०० ॥  
 सुदत्तो नाम तस्यासीन्नार्यां प्रीतिकृराह्वयात् । दृष्ट्वा नलिनकेतुस्तां कचिद्वनविहारिणीम् ॥१०१॥  
 मदनानलसन्तप्तदाहं<sup>१</sup> सोढुमक्षमः । न्यायवृत्तिं समुल्लङ्घ्य बलादहत दुर्मतिः ॥१०२॥  
 सुदत्तस्तेन निर्विण्णः सुव्रताख्यजिनान्तिके । प्रवर्ज्य सुचिरं घोरं तपः कृत्वाऽऽयुषोऽवधौ ॥१०३॥  
 संन्यस्येशानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । तत्र भोगींश्चिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥१०४॥  
 जम्बूद्वीपसुकच्छाख्यविजयाद्धाञ्चलोत्तर- । श्रेण्यां पुरेऽभवत्काञ्चनायन्ततिलकाह्वये ॥ १०५ ॥  
 महेन्द्रविक्रमस्येष्टतनूजोऽजितसेनवाक् । ३अमवक्षीलवेगायां विद्याविक्रमदुर्गतः ॥ १०६ ॥  
 इतो नलिनकेतुश्च वीक्ष्योल्कापातमात्मवान् । निर्विद्य प्राक्कनाल्मीयं दुश्चरित्रं विनिन्दयन् ॥१०७॥  
 सीमङ्करमुनिं श्रित्वा दीक्षामादाय शुद्धधीः । क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य सम्प्रापक्षितिमष्टमीम् ॥१०८॥

मेरी स्त्री है ॥ ६३ ॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है । यह विद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक पर्वतपर गई थी ॥ ६४ ॥ उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करनेमें विघ्न करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उदयसे इसकी विद्या सिद्ध हो गई ॥ ६५ ॥ यह पापी विद्याके भयसे ही आपके शरण आया है । मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री ले कर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी मार्गसे इनके पीछे आया हूँ । इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कहा । यह सब सुनकर अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले राजा वज्रायुध कहने लगे । कि 'इसकी विद्यामें विघ्न होनेका जो बड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूँ' ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥ ६६-६८ ॥

उन्होंने कहा कि 'इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें एक गान्धार नामका देश है उसके विन्ध्यपुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था । उसकी सुलक्षणा रानीसे नलिनकेतु नामका पुत्र हुआ था । उसी नगरमें एक धनमित्र नामका वणिक् रहता था । उसकी श्रीदत्ता स्त्रीसे सुदत्त नामका पुत्र हुआ था । सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था । एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें विहार कर रही थी । उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उसे देखा और देखते ही कामाग्निसे ऐसा संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया । उस दुर्बुद्धिने न्यायवृत्तिका उल्लङ्घन कर बलपूर्वक प्रीतिकराका हरण कर लिया ॥ ६६-१०२ ॥ सुदत्त इस घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ । उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और चिर काल तक घोर तपश्चरण कर आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ । वह पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोग कर वहाँसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विजयायार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर काञ्चनतिलक नामक नगरमें राजा महेन्द्रविक्रम और नीलवेगा नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ । यह विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है ॥१०३-१०६॥

इधर नलिनकेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया । उसने विरक्त हो कर अपने पिछले दुश्चरित्रकी निन्दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिको निर्मल बनाया, क्रम क्रमसे कैवल्यज्ञान उत्पन्न किया और अन्तमें अष्टम भूमि—मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०८॥

प्रीतिकरापि <sup>१</sup>निर्वैगात्संश्रिता सुप्रतान्तिकम् । गृहसङ्गपरित्यागात्कृत्वा चान्द्रायणं परम् ॥१०९॥  
 प्राप्ते संन्यस्य सा प्रायात्कल्पमीशाननामकम् । तत्र स्वायुःस्थितिं नीत्वा दिव्यैर्भोगैस्ततश्च्युता ॥११०॥  
<sup>२</sup>तवाजनि तन्ज्येयमयं विद्याविघातकृत् । तत्सम्बन्धादिति प्रोक्तं सर्वमाकर्ण्य भूभुजा ॥१११॥  
 निविद्य संसृतेः शान्तिमती क्षेमङ्कराह्वयात् । तीर्थेशाद्धर्ममासाद्य सद्यः प्राप्य सुलक्षणाम् ॥११२॥  
 गणिनीं संयमं श्रित्वा संन्यस्येशानसंज्ञके । नाके निलिम्पो भूत्वा स्वकायपूजार्थमागमत् ॥११३॥  
 तदानीमेव कैवल्यं प्रापत् पवनवेगवाक् । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तथोरयात् ॥ ११४ ॥  
 तथा चक्रधरे राज्यलक्ष्म्यालिङ्गितविग्रहे । दशाङ्गभोगसाद्भूते पाति षट्खण्डमण्डलम् ॥११५॥  
 विद्याधराद्रथपागभागे शिवमन्दिरभूपतिः । मेघवाहननामास्य विमलाख्या प्रिया तयोः ॥११६॥  
 सुता कनकमालेति कल्याणविधिपूर्वकम् । जाता कनकशान्तेः सा क्षपकेतुं सुखावहा ॥ ११७ ॥  
 तथा <sup>३</sup>वस्त्वोकसारारख्यपुराधीशखगेशिनः । सुता समुद्रसेनस्य जयसेनोद्रोदिता ॥११८॥  
 प्रिया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निर्वृतिमापासौ इष्टिचर्याद्वयेन वा ॥११९॥  
<sup>४</sup>कोकिलाप्रथमालापैराहूत इव कौतुकात् । अयाद्वनविहारय कदाचित्स सहप्रियः ॥ १२० ॥  
 कन्दमूलफलान्वेषी निधिं वा सुकृतोदयात् । कुमारो मुनिमद्राक्षीद्विपिने विमलप्रभम् ॥१२१॥  
 तं त्रिः परीत्य वन्दित्वा ततस्तत्त्वं प्रबुद्धवान् । मनोरजः समुद्धयं श्रुद्धिं बुद्धेरुपासदत् ॥१२२॥  
 तदानीमेव तं दीक्षालक्ष्मीश्च स्ववशं व्यधात् । शम्फलीव वसन्तश्रीरजायत तपःश्रियः<sup>५</sup> ॥१२३॥

प्रीतिकरा भी विरक्त हो कर सुत्रना आर्थिकाके पास गई और घर तथा परिग्रहका त्याग कर चान्द्रायण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी । अन्तमें संन्यासमरण कर ऐशान स्वर्गमें देवी हुई । वहाँ दिव्य भोगोंके द्वारा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे च्युत हुई और अब तुम्हारी पुत्री हुई है । पूर्व पर्यायके सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें विन्न किया था<sup>१</sup> । इस प्रकार राजा वज्रायुधके द्वारा कही हुई सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गई । उसने क्षेमकर नामक तीर्थकरसे धर्म श्रवण किया और शीघ्र ही सुलक्षणा नामकी आर्थिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया । अन्तमें संन्यास मरण कर वह ऐशान स्वर्गमें देव हुई । वह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी समय पवनवेग और अजितसेन मुनिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई ॥ १०९-११४ ॥ इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलक्ष्मीसे आलिङ्गित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती वज्रायुध दश प्रकारके भोगोंके आधीन होकर जब छहो खण्ड पृथिवी का पालन करते थे ॥ ११५ ॥ तब विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम विमला था । उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी । उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे । तरुणी होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने वाली हुई थी अर्थात् उसके साथ विवाही गई थी ॥ ११६-११७ ॥ इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी स्त्री थी । जिसप्रकार दृष्टि और चर्या—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे निर्वृति—निर्वाण—मोक्ष प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दोनों स्त्रियोंसे राजा कनकशान्ति निर्वृति—सुख प्राप्त कर रहा था ॥ ११८-११९ ॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुएके समान कौतुक वश अपनी स्त्रियोंके साथ वनविहारके लिए गया था ॥ १२० ॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल ढूँढने वालेको पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनमें विमलप्रभ नामके मुनिराज दीख पड़े ॥ १२१ ॥ उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और अपने मनकी धृति उड़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया ॥ १२२ ॥ उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने उसे अपने वश कर लिया अर्थात् उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि वसन्त-लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मीकी दूती ही थी । भावार्थ—जिसप्रकार दूती, पुरुषका स्त्रीके साथ समागम

१ प्रीतिकरातिनिर्वैगात् ख० । प्रीतिकरापि संवेगात् म०, ल० । २ तदाजनि म० । ३ वास्त्वोकसारख्य—क०, ग०, घ०, वस्तुवैक-म० । ४ कोकिलप्रथमा—क०, ख०, घ० । ५ तपःश्रियम् क०, घ० ।

देव्यौ विमलमत्याख्यगणिनीं ते समाश्रिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं तत्कुलयोषिताम् ॥१२४॥  
 सिद्धाचले कदाचित् प्रतिमायोगधारिणम् । खगो वसन्तसेनाया बद्धवैरेण मैथुनः ॥१२५॥  
 विलोक्य चित्रचूलाख्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिप्सुरूपसर्गाय तर्जितः<sup>१</sup> खचरेश्वरैः<sup>२</sup> ॥१२६॥  
 अन्यदा रत्नसेनाख्यो नृपो रत्नपुराधिपः । दत्त्वाऽऽप पञ्चकाश्रयं भिक्षां कनकशान्तये ॥१२७॥  
<sup>३</sup>चित्रचूलः पुनश्चाख्य प्रतिमायोगधारिणः । वने सुरनिपाताख्ये विघातं कर्तुमुद्यतः ॥१२८॥  
 तस्मिन् कोपं परित्यज्य घातिघाता यतीश्वरः । केवलावगमं प्रापत्काऽपि कोपो न धीमताम् ॥१२९॥  
 देवागमनमालोक्य भीत्वा स खगपापकः । तमेव शरणं यातो नीचायां वृत्तिरीदृशी ॥१३०॥  
 अथ वज्रायुधावीशो<sup>४</sup> नप्तृकैवल्यदर्शनात् । लब्धबोधिः सहस्रायुधाय राज्यं प्रदाय तत् ॥१३१॥  
 दीक्षां क्षेमङ्कराख्याना<sup>५</sup> तीर्थकर्तुरुपान्तगः । प्राप्य सिद्धिगिरौ वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥१३२॥  
 तस्य पादौ समालम्ब्य वाल्मीकिं बद्धवर्तत । चर्द्धयन्ति महात्मानः पादलभानपि द्विवः ॥१३३॥  
 अतिनं तं व्रतत्योऽपि मादर्वं वा समीप्सवः । गार्ढं रूढाः समासेदुराकण्ठमभितस्तनुम् ॥१३४॥  
 अश्वग्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । भ्रान्त्वा<sup>६</sup> जन्मन्यतिबलमहाबलसमाख्यया ॥१३५॥  
 भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य तद्विघातं चिकीर्षुकौ । रम्भातिलोत्तमे इष्ट्वा तर्जयित्वाऽतिभक्तितः ॥१३६॥

करा देती है उसी प्रकार वसन्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा दिया था ॥ १२३ ॥ इसीके साथ इसकी दोनों स्त्रियोंने भी विमलमती आर्यिकाके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि कुलीन स्त्रियोंको ऐसा करना उचित ही है ॥ १२४ ॥ किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहीं पर उनकी स्त्री वसन्तसेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया । पूर्वजन्मके बंधे हुए बैरके कारण उसकी आँखे क्रोधसे लाल हो गईं । वह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके अधिपतिने ललकार कर उसे भगा दिया ॥ १२४-१२६ ॥ किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेनने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पञ्चकाश्रय प्राप्त किये ॥ १२७ ॥ किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे । वह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ ॥ १२८ ॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर रंभमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि घातिया कर्माका नाशकर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है ॥ १२९ ॥ केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ । उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केवली भगवान्की शरणमें पहुँचा सो ठीक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है ॥ १३० ॥

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वज्रायुध महाराजको भी आत्मज्ञान हो गया जिससे उन्होंने सहस्रायुधके लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीर्थंकरके पास पहुँचकर दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्वतपर एक वर्षके लिए प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥ १३१-१३२ ॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुतसे बमीठे तैयार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुष चरणोंमें लगे शत्रुओंको भी बढ़ाते हैं ॥ १३३ ॥ उनके शरीरके चारों ओर सघन रूपसे जमी हुई लताएँ भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके लिए ही उन मुनिराजके पास तक जा पहुँची थीं ॥ १३४ ॥ अश्वग्रीवके रत्नकण्ठ और रत्नायुध नामके जो दो पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल और महाबल नामके असुर हुए । वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विघात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामकी देवियोंने देख लिया अतः डाँटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाके बाद वे देवियां स्वर्ग चली गईं । देखो कहाँ दो स्त्रियाँ और

१ तर्जितं ख० । २ खचरेश्वरैः ल० । ३ रत्नचूलः ख० । ४ नप्तृकैवल-ल० । ५-ख्यात-ल० । ६ जन्मानि ल० ।

गन्धादिभिर्यतिं दिव्यैरभ्यर्च्य दिवसीयतुः । क्व वा ते काऽसुरौ पुण्ये सति किं न घटामटेत् ॥१३७॥  
 किञ्चित्कारणमुद्दिश्य वज्रायुधसुतोऽपि तत् । राज्यं शतबलिन्युच्चैर्निधाय निहतस्यूहः ॥१३८॥  
 संयमं सम्भगादाय मुनीन्द्रात् पिहिताश्रवात् । योगावसाने स प्रापद्द्वज्रायुधमुनीश्वरम् ॥१३९॥  
 तावुभौ सुचिरं कृत्वा प्रज्जयां सह दुःस्सहाम् । बैभारपर्वतस्याग्रे विग्रहेऽप्यकृताग्रहौ ॥१४०॥  
 ऊर्ध्वप्रैवेयकस्याधोऽभूतां सौमनसाङ्गये । एकाङ्गत्रिंशदब्ध्यायुषौ विमाने महद्विकौ ॥१४१॥  
 ततोऽवज्रायुधश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहगे । विषये पुष्कलावल्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥  
 पतिर्घनरथस्तस्य देवी कान्ता मनोहरा । तयोर्मेघरथाख्योऽभूदाधानाघाससत्क्रियः ॥१४३॥  
 तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि सुतो दृढरथाङ्गयः । जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरौ ॥१४४॥  
 तयोः पराक्रमप्रज्ञाप्रश्रयप्राभवक्षमाः । सत्यत्यागादयोऽन्ये च प्रादुरासन् गुणाः स्थिराः ॥१४५॥  
 सुतौ तौ यौवनापूर्णौ प्राप्तैश्वर्याविव द्विपौ । विलोक्य तद्विवाहार्थं महीनां विहितस्मृतिः ॥१४६॥  
 ज्येष्ठसूनोर्विवाहेन प्रियमित्रामनोरमे । कर्नाथसोऽपि सुमतिं विदधे चित्तबल्लभम् ॥१४७॥  
 अभवत्प्रियमित्रायां तनूजो नन्दिवर्द्धनः । सुमत्यां वरसेनाख्यः सुतो दृढरथस्य च ॥१४८॥  
 इति स्वपुत्रपौत्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिंहविष्टरमध्यास्य शक्रलीलां समावहन् ॥१४९॥  
 तदात्र प्रियमित्रायाः सुषेणा नाम चेटिका । कृकवाकुं समानीय घनतुण्डाभिधानकम् ॥१५०॥  
 दर्शयित्वाऽऽह यद्येनं जयेयुः कृकवाकुकाः । परेषां प्रददे तेभ्यां दीनारणां सहस्रकम् ॥१५१॥  
 इति देव्या कनीयस्याः श्रुत्वा तद्गणिकाऽऽनयत् । काञ्चना वज्रतुण्डाख्यं कुनकुटं योधने तयोः ॥१५२॥

कहाँ दो असुर फिर भी उन स्त्रियोंने असुरोंको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौनसा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? ॥ १३५-१३७ ॥

इधर वज्रायुधके पुत्र सहस्रायुधको भी किसी कारणसे वैराग्य हो गया, उन्होंने अपना राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छाएं छोड़ दीं और पिहितारुव नामके मुनिराजसे उत्तम संयम प्राप्त कर लिया । जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-वज्रायुध मुनिराजके समीप जा पहुँचे ॥ १३८-१३९ ॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें वे वैभार पर्वतके अग्रभागपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने शरीरमें भी अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात् शरीरसे स्नेहरहित हो कर संन्यासमरण किया और ऊर्ध्वप्रैवेयकके नीचेके सौमनस नामक विमान में बड़ी ऋद्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनकीस सागरकी उनकी आयु थी ॥ १४०-१४१ ॥

इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे । उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी । वज्रायुधका जीव प्रैवेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ । उसके जन्मके पहले गर्भाधान आदि क्रियाएं हुई थीं ॥ १४२-१४३ ॥ उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी । दूसरा अहमिन्द्र (सहस्रायुध का जीव) उसीके गर्भसे दृढरथ नामका पुत्र हुआ । ये दोनों ही पुत्र चन्द्र और सूर्यके समान जान पड़ते थे ॥ १४४ ॥ उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥ १४५ ॥ दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गये और ऐश्वर्य प्राप्त गजराजके समान सुशोभित होने लगे । उन्हें देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी ओर गया ॥ १४६ ॥ उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और मनोरमाके साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृदय-बल्लभा बनाया था ॥ १४७ ॥ कुमार मेघरथकी प्रियमित्रा स्त्रीसे नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुआ और दृढरथकी सुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ ॥ १४८ ॥ इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि सुखके समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर बैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था ॥ १४९ ॥ उसी समय प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गे इसे जीत लें तो मैं एक हजार दीनार दूँगी । यह सुनकर छोटी स्त्रीकी काञ्चना नामकी दासी एक वज्रतुण्ड नामका मुर्गा ले आई । दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध

भन्योन्यदुःखहेतुत्वादेतयोः पश्यतामपि । हिंसानन्दादिकं द्रष्टुमयोग्यं धर्मवेदिनाम् ॥१५३॥  
 इति स्मरंश्च भव्यानां बहूनामुपशान्तये । स्वकीयपुत्रमाहात्म्यप्रकाशनधिया च तत् ॥ १५४ ॥  
 युद्धं घनरथाधीशोः लोकमानो दृढक्रुधोः । स मेघरथमप्राङ्गीत् बलमेतत्कुतोऽनयोः ॥१५५॥  
 इति तेन स पृष्ठः सन् विशुद्धावधिलोचनः । तयोस्तादृशयुद्धस्य हेतुमेवमुदाहरत् ॥१५६॥  
 अस्मिन्नैरावते रत्नपुरे शाकटिकौ क्रुधा । सोदर्यौ भद्रधन्याख्यौ बलीवर्दनिमित्ततः ॥१५७॥  
 पापिष्ठौ श्रीनदीतीरे हत्वा मृत्वा परस्परम् । काञ्चनाख्यसरिरीरे श्वेतताम्रादिकर्णकौ ॥१५८॥  
 स्वपूर्वजन्मपापेन जायेतां वनवारणौ । तत्रापि भवसम्बद्धक्रोधाद्युध्वा मृतिं गतौ ॥१५९॥  
 अयोध्यापुरवास्तव्यो नन्दिमित्रोऽस्ति बल्लवः । महिषीमण्डले तस्य जज्ञाते गवलोत्तमौ ॥१६०॥  
 इत्सौ तत्रापि संरम्भसम्मृतौ तौ परस्परम् । बभूवतुश्चिरं युद्ध्वा शृङ्गाप्राकृष्टजीवितौ ॥१६१॥  
 तस्मिन्नेव पुरे शक्तिवरशब्दादिसेनयोः । मेघावभूतां तौ राजपुत्रयोर्वंश्रमस्तकौ ॥१६२॥  
 युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सञ्जातौ कुक्कुटाविमौ । स्वविद्याभ्यासितावेतौ गूढौ योधयतः खगौ ॥१६३॥  
 कारणं किं तयोः कौ च तौ चेच्छृणु महीपते । जम्बूपलक्षिते द्वीपे भरते खचराचले ॥१६४॥  
 पुरेऽभूदुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुडवेगाख्यो धृतिषेणास्य वल्लभा ॥ १६५॥  
 तिलकान्तदिविश्वन्द्रतिलकश्च सुतौ तयोः । सिद्धकूटे समासीनं चारणद्वन्द्वमाश्रितौ ॥१६६॥  
 स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं सप्रश्रयमपृच्छताम् । ज्येष्ठो मुनिस्तयोरेवं तत्प्रपञ्चमभाषत ॥१६७॥

दोनों मुर्गोंके लिए दुःखका कारण था तथा देखने वालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रौद्रध्यान करने वाला था अतः धर्मात्माओंके देखने योग्य नहीं है ॥ १५०-१५३ ॥ ऐसा विचार कर बहुतसे भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा घनरथ उन दोनों क्रोधी मुर्गोंका युद्ध देखते हुए मेघरथसे पूछने लगे कि इनमें यह बल कहाँसे आया ? ॥ १५४-१५५ ॥ इस प्रकार घनरथके पूछने पर विशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करने वाला मेघरथ, उन दोनों मुर्गोंके वैसे युद्धका कारण कहने लगा ॥ १५६ ॥ उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर है उसमें भद्र और धन्य नामके दो सगे भाई थे । दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करते थे । एक दिन वे दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे बैलके निमित्तले लड़ पड़े और परस्पर एक दूसरेको मार कर मर गये । अपने पूर्व जन्मके पापसे मर कर वे दोनों काञ्चन नदीके किनारे श्वेतकर्ण और ताम्रकर्ण नामके जंगली हाथी हुए । वहाँपर भी वे दोनों पूर्व भवके दुर्बे हुए क्रोधसे लड़कर मर गये ॥ १५७-१५९ ॥ मर कर अयोध्या नगरमें रहने वाले नन्दिमित्र नामक गोपालकी भैंसोंके झुण्डमें दो उत्तम भैंसे हुए ॥ १६० ॥ दोनों ही अहंकारी थे अतः परस्परमें बहुत ही क्रुपित हुए और चिरकाल तक युद्धकर सींगोंके अग्रभाग की चोटसे दोनोंके प्राण निकल गये ॥ १६१ ॥ अबकी बार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमें शक्तिवरसेन और शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए । उनके मस्तक वज्रके समान मजबूत थे । मेढे भी परस्परमें लड़े और मर कर ये मुर्गे हुए हैं । अपनी अपनी विद्याओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिप कर इन्हें लड़ा रहे हैं ॥ १६२ - १६३ ॥ उन विद्याधरोंके लड़नेका कारण क्या है ? और वे कौन हैं ? हे राजन्, यदि यह आप जानना चाहते हैं तो सुनें । इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है । उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था । धृतिषेणा उसकी स्त्रीका नाम था । उन दोनोंके दिवितिलक और चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे । एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारणयुगलके पास पहुँचे ॥ १६४-१६६ ॥ और स्तुति कर बड़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्ध पूछने लगे । उनमें जो बड़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥

धातकीखण्डप्राग्भागे पुरमैरावते भुवि । तिलकाख्यं पतिस्तस्य त्रभूवाभयघोषवाक् ॥१६८॥  
 सुवर्णतिलका तस्य देवी जातौ सुतौ तयोः । विजयोऽन्यो जयन्तश्च सम्पन्नयविक्रमौ ॥१६९॥  
 खगाद्रिदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेशिनः । शङ्खस्य जयदेव्याश्च पृथिवीतिलका सुता ॥१७०॥  
 तस्य त्वभयघोषस्य साऽभवत्प्राणवल्लभा । १एकं संवत्सरं तस्यामेवासक्तेऽन्यदा विभौ ॥१७१॥  
 सुवर्णतिलका साङ्गं विहर्तुं भवता वनम् । २वष्टीति नृपतिं चञ्चत्कान्त्यादितिलकोऽवदत् ॥१७२॥  
 तच्चेदिकावचः श्रुत्वा तदेषुमभिधाय तम् ३ । पृथिवीतिलका रम्यं वनमत्रैव दर्शये ॥१७३॥  
 इति तत्कालजं सर्वं वनवस्तु प्रदर्शय सा । तेन शकनुवती रोद्धुं मानभङ्गेन पीडिता ॥१७४॥  
 सुमतिं गणिनीं प्राप्य प्रब्रज्यामाददे सती । हेतुरासन्नभव्यानां मानश्च हितसिद्धये ॥१७५॥  
 भक्त्या दमवराख्याय दत्त्वा दानं महीपतिः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप्य कदाचिदभयाह्वयः ॥१७६॥  
 भवाप्य सह सुनुभ्यामनन्तगुरुसन्निधिम् । लब्धवोधिः समादत्त दुस्सहं स महाव्रतम् ॥१७७॥  
 कारणं तीर्थकृन्मान्नो भावयित्वाऽऽयुषोऽवधौ । सम्यगाराध्य पुत्रान्यामच्युतं कल्पमात्मवान् ॥१७८॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुर्भुक्त्वा भोगांश्च तौ ततः । जीवितान्ते भवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारकौ ॥१७९॥  
 इति तत्सम्यगाकर्ण्य भगवन्नावयोः पिता । क्वेति पृष्ट्यो मुनिस्ताभ्यामब्रवीदिति तत्कथाम् ॥ १८० ॥  
 ततः प्रच्युत्य ४कल्पान्ताद् हेमाङ्गदमहीपतेः । सुतोऽभून्मेघमालिन्यां देव्यां घनरथाह्वयः ॥ १८१ ॥  
 इदानीं पुण्डरीकिण्यां युद्धं कुक्कुटयोरसौ । ५प्रेक्षमाणः स्थितः श्रीमान् देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐरावत क्षेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका नगर है । उसके स्वामीका नाम अभयघोष था और उनकी स्त्रीका नाम सुवर्णतिलक था । उन दोनोंके विजय और जयन्त नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इसी क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शङ्ख और उनकी रानी जयदेवीके पृथिवीतिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ वह राजा अभयघोषकी प्राणवल्लभा हुई थी । राजा अभयघोष उसमें आसक्त होनेसे एक वर्ष तक उसीके यहाँ रहे आये ॥ १७१ ॥ एकदिन चञ्चत्कान्ति-तिलका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी सुवर्णतिलका आपके साथ वनमें विहार करना चाहती हैं ॥ १७२ ॥ चेटीके वचन सुनकर राजा वहाँ जाना चाहता था परन्तु पृथिवीतिलका राजासे मनोहर वचन बोली और कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हूँ ॥ १७३ ॥ ऐसा कह कर उसने उससमयमें होनेवाली वनकी सब वस्तुएँ दिखला दीं और इस कारण वह राजाको रोकनेमें समर्थ हो सकी । रानी सुवर्णतिलका इस मानभङ्गसे बहुत दुःखी हुई । अन्तमें उस सतीने सुमति नामक आर्थिकाके पास दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीवोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है ॥ १७४-१७५ ॥ अभयघोष राजाने किसी दिन दमवर नामक मुनिराजके लिए भक्तिपूर्वक दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ १७६ ॥ वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिये ॥ १७७ ॥ तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्वर्गमें देव हुआ ॥ १७८ ॥ बाईस सागरकी आयु पाकर वे तीनों वहाँ मनोवाञ्छित भोग भोगते रहे । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर दोनों ही विजय और जयन्त राजकुमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७९ ॥ यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे—कि हे भगवन् ! हमारे पिता कहाँ हैं ? ऐसा पूछे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे— ॥ १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताका जीव अच्युतस्वर्गसे च्युत होकर हेमाङ्गद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ नामका पुत्र हुआ है वह श्रीमान् इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें मुर्गोंका युद्ध

१ एक म०, ल० । २ वशू कान्तौ कामयते इच्छतीत्यर्थः । ३ ताम् क०, ख०, ग०, घ०, म०, ङ० ।  
 ४ कल्पान्ते ल० । ५ प्रेक्षमाणः ख० ।

तदाकर्णं भवत्प्रीत्या खगौ तावागताविमौ । इति मेघरथात्सर्वमाकर्ण्यत्मीयविग्रहम् ॥ १८३ ॥  
 प्रकटीकृत्यः तौ भूपं कुमारं चाभिपूज्य तम् । गत्वा गोवर्द्धनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम् ॥ १८४ ॥  
 स्वपूर्वभवसम्बन्धं विदित्वा कुक्कुटौ च तौ । मुक्त्वा परस्परबाद्धवैरं संन्यस्य साहसात् ॥ १८५ ॥  
 अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनद्वये । ताम्रादिचूलचूलान्तकनकौ भूतजातिजौ ॥ १८६ ॥  
 तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या मेघरथाङ्गयम् । सम्पूज्याख्याय सम्बन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फुटम् ॥ १८७ ॥  
 मानुषोत्तरमुद्गान्तर्वीत्ति विश्वं विलोक्य । एष एव तवावाभ्यामुपकारो विधीयताम्<sup>१</sup> ॥ १८८ ॥  
 इत्युदीर्य कुमारं तं स्यात्तथेति प्रतिश्रुतम् । सार्द्धं स्वार्हैः समारोप्य विमानं विविधद्विकम् ॥ १८९ ॥  
 सम्प्राप्य गगनाभोगं मेघमालाविभूषितम् । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान् देशान्यथाक्रमम् ॥ १९० ॥  
 भरतः प्रथमो देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्षो विदेहश्च रम्यकः पञ्चमो मतः ॥ १९१ ॥  
 हैरण्यवतसंज्ञश्च परश्रैरावताङ्गयः । पश्यैते सप्त भूभृन्निर्विभक्ताः सप्तभिर्विभो ॥ १९२ ॥  
 हिमवान् महाहिमवान् निषधो मन्दरो महान् । नीलो रुक्मी शिखर्याख्यो विख्याताः कुलपर्वताः ॥ १९३ ॥  
 इमा रम्या महानद्यश्चतुर्दशसमुद्रगाः । पद्मादिहृदसम्भूता नानास्रोतस्विनीयुताः ॥ १९४ ॥  
 गङ्गा सिन्धुश्च रोहिच्च रोहितास्या<sup>३</sup> हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोदा चाष्टमी नदी ॥ १९५ ॥  
 नारी च नरकान्ता च कूलान्ता<sup>४</sup> स्वर्णसंज्ञिका । ततोऽन्या रूप्यकूलाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६ ॥  
 हृदाः षोडशसङ्ख्याः स्युः कुशेशयविभूषिताः । पश्य पद्मो महापद्मस्तिगण्डः केसरी महा- ॥ १९७ ॥  
 पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निषधनामकः । परो देवकुरुः सूर्यः<sup>५</sup> सुलसो दशमः स्मृतः ॥ १९८ ॥  
 विद्युत्प्रभाङ्गयः ख्यातो नीलवान् कुरुक्षत्रः । चन्द्रश्रैरावतो माल्यवांश्च विख्यातसंज्ञकः ॥ १९९ ॥  
 तेषामाद्येषु षट्सु स्युस्ताः श्रीह्रीष्टतिकीर्तयः । बुद्धिलक्ष्मीश्च शक्रस्य व्यन्तर्यो बल्लभाङ्गनाः ॥ २०० ॥

देखता हुआ बैठा है ॥ १८१-१८२ ॥ उन मुनिराजसे ये सब बातें सुनकर ये दोनों ही विद्याधर आपके प्रेमसे यहाँ आये हैं । इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंने अपना स्वरूप प्रकट किया, राजा घनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली ॥ १८३-१८४ ॥ उन दोनों मुर्गोंने भी अपना पूर्वभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर का बंधा हुआ बैर छोड़ दिया और अन्तमें साहसके साथ संन्यास धारण कर लिया । और भूतरमण तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल और कनकचूल नामके भूतजातीय व्यन्तर हुए ॥ १८५-१८६ ॥ उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमें आये और बड़े प्रेमसे मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥ १८७ ॥ अन्तमें उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वतके भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये । हमलोगोंके द्वारा आपका कमसे कम यही उपकार हो जावे ॥ १८८ ॥ देवोंके ऐसा कहनेपर कुमारने जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली तब देवोंने कुमारको उसके आप्तजनोंके साथ अनेक ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और मेघमालासे विभूषित आकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, सुन्दर देश दिखलाये ॥ १८९-१९० ॥ वे बतलाते जाते थे कि यह पहला भरतक्षेत्र है, यह उसके आगे हैमवत क्षेत्र है, यह हरिवर्ष क्षेत्र है, यह विदेह क्षेत्र है, यह पाँचवाँ रम्यक क्षेत्र है, यह हैरण्यवत क्षेत्र है और यह ऐरावत क्षेत्र है । इस प्रकार हे स्वामिन् ! सातः कुलाचलोसे विभाजित ये सात क्षेत्र हैं ॥ १९१-१९२ ॥ हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, महामेरु, नील, रुक्मी और शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं १९३ ॥ ये पद्मआदि सरोवरोंसे निकलने वाली, समुद्रकी ओर जानेवाली, अनेक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौदह महानदियाँ हैं, ॥ १९४ ॥ गङ्गा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं ॥ १९५-१९६ ॥ देखो, कमलोंसे सुरोभित ये सोलह हृद-सरोवर हैं । पद्म, महापद्म, तिगण्ड, केसरी, महा-पुण्डरीक, पुण्डरीक, निषध, देवकुरु, सूर्य, दशवाँ सुलस, विद्युत्प्रभ, नीलवान्, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत और माल्यवान् ये उन सोलह हृदोंके नाम हैं ॥ १९७-१९८ ॥ इनमेंसे आदिके छह हृदोंमें क्रमसे श्री,

१ विधीयते ल० । २ विभुक्ताः ल० । ३ रोहिताख्या ल० । ४ सुवर्ण ल० । ५ सुलसोः ल० ।

नागाः शेषेषु तन्नामधेयाः सन्ततवासिनः । पश्यामी च महाभाग प्रेक्ष्या वक्षारपर्वताः ॥ २०१ ॥  
 चित्रपद्मादिकूटाख्यौ कूटान्तनलिनः परः । एकशैलत्रिकूटश्च कूटो वैश्रवणादिक<sup>१</sup> ॥ २०२ ॥  
 अञ्जनात्माञ्जनौ श्रद्धावांश्च विजया<sup>२</sup>वती । आशीविषाभिधानश्च सुखावहसमाङ्गयः ॥ २०३ ॥  
 चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो नागादिमालवाक् । देवमालः परो गन्धमादनो माल्यवानपि ॥ २०४ ॥  
 विद्युत्प्रभः सौमनसः प्रलयोत्पत्तिदूरगाः । विभङ्गनद्यो ह्येताश्च स्वच्छाम्बुपरिपुरिताः ॥ २०५ ॥  
 हृदाहृदवर्तासंज्ञे परा पङ्कवतीति च । तप्तमत्तजलाभ्याञ्च सहोन्मत्तजलाह्वया ॥ २०६ ॥  
 क्षीरोदा च सशीतोदा स्रोतोऽन्तर्वाहिनी परा । <sup>३</sup>गन्धादिमालिनी फेनमालिन्यूर्ध्व्यादिमालिनी ॥ २०७ ॥  
 अमी च विषयाः कच्छसुकच्छपरिभाषितौ । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावर्तलाङ्गलाः ॥ २०८ ॥  
 पुष्कला पुष्कलावत्यो वत्सा नाम्ना च कीर्तिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता वत्सकावती ॥ २०९ ॥  
 रम्या च रम्यकाख्या रमणीया मङ्गलावती । पद्मा सुपद्मा महापद्मा <sup>४</sup>पद्मावत्यभिख्यया ॥ २१० ॥  
 शङ्खा च नलिना<sup>५</sup> च कुमुदा सरिता परा । वप्रा सुवप्रा च महावप्रा वप्रकावती ॥ २११ ॥  
 गन्धा सुगन्धा <sup>६</sup>गन्धावत् सुगन्धा गन्धमालिनी । एताश्च राजधान्योऽत्र कुमारालोक्यस्फुटम् ॥ २१२ ॥  
 क्षेमा क्षेमपुरी चान्याऽरिष्टाऽरिष्टपुरी परा । खङ्गाख्यया च मञ्जूषा <sup>७</sup>चौषधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥  
 सुसीमा कुण्डला सार्द्धमपराजितसंज्ञया । प्रभङ्गराङ्गवत्याख्या पद्मावत्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥  
 शुभा<sup>८</sup> शब्दाभिधाना च नगरी रत्नसञ्चया । अश्वसिंहमहापुर्यो विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥  
 अरजा विरजाश्चैवमशोका वीतशोकवाक् । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥  
 अथ चक्रपुरी खङ्गपुर्ययोष्या च वर्णिता । अवध्येत्यथ सीतोत्तराभागान्मेरुसन्निधेः ॥ २१७ ॥  
 प्रादक्षिण्येन वक्षारारद्रादींश्च प्रतिपादितान् । समुद्रादिवनादीनि भूतोद्दिष्टानि शुभुजा ॥ २१८ ॥

ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये इन्द्रकी वल्लभा व्यन्तर देवियाँ रहती हैं ॥ २०० ॥ बाकीके दश हृदोंमें उसी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं । हे महाभाग ! इधर देखो, ये देखने योग्य वक्षार पर्वत हैं ॥ २०१ ॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रवणकूट, अञ्जनात्म, अञ्जन, श्रद्धावान्, विजयावती, आशीविष, सुखावह, चन्द्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं । इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान्, विद्युत्प्रभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं । ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते हैं—अनादिनिघन हैं । इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभङ्ग नदियाँ हैं ॥ २०२-२०५ ॥ हृदा, हृदवती, पङ्कवती, तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी और ऊर्मिमालिनी ये वारह इनके नाम हैं ॥ २०६-२०७ ॥ हे कुमार ! स्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लाङ्गला, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मङ्गलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शङ्खा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धावत्सुगन्धा और गन्धमालिनी ये बत्तीस विदेहक्षेत्रके देश हैं । तथा क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खङ्ग, मञ्जूषा, औषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभङ्करा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसञ्चया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खङ्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं । ये वक्षार पर्वत, विभङ्ग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पर्वतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वर्णन किये हैं । इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंने समुद्र, वन आदि जो जो दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे । इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा और उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे । अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी

१ वैश्रवणादिमः ल० । २ विकटावती ग० । विजयावता ल० । ३ गम्भीरमालिनी ग०, ल०, म० ।

४ पद्मकावत्यभिख्यया ल० । पद्मावत्यभिधोदिताम् ग० । ५ नलिनाख्या च ल० । ६ गन्धवती शब्दा ल० ।

७ औषधी ल० ।—न्यौषधी घ० । औषाधि म० । ८ शुभशब्दाभिधाना च ल०, ग० ।



पश्यतान्यानि च स्वैरं मानुषोत्तरभृशतः । मध्यवर्तीनि सर्वाणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥  
 अकृत्रिमजिनागाराण्यभ्यर्च्य स्तुतिभिश्चिरम् । <sup>१</sup>स्तुत्वाऽर्थाभिर्निवृत्त्यापि स्वपुरं परमोत्सवम् ॥ २२० ॥  
 दिव्याभरणदानेन परिपूज्य महीपतिम् । सामोक्तिभिश्च तौ व्यन्तरेणैवास्वावासमीयतुः ॥ २२१ ॥  
 यः कर्मव्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत् । स जीवन्नपि निर्जीवो <sup>२</sup>निर्गन्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥  
 कृकवाकू च चेदेवमुपकारविदौ कथम् । मनुष्यो जरयत्यङ्गे न चेदुपकृतं खलः ॥ २२३ ॥  
 कदाचित्काललाभेन नृपो घनरथाह्वयः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देहाद्यचिन्तयत् ॥ २२४ ॥  
 धिक्कष्टमित्येतत् शरीरं जन्तुरावसेत् । <sup>३</sup>अवस्करगृहाच्चैनं नापैत्यतिजुगुप्सितम् ॥ २२५ ॥  
 तर्पकाणि सुखान्याहुः कानि तान्यत्र देहिनाम् । मोहः कोऽप्यतिदुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२६ ॥  
 जन्माद्यन्तमुहूर्तं जैजीवितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कुतो जन्मी जायेत न हिते रतः ॥ २२७ ॥  
 बन्धवो बन्धनान्येते सम्पदो विपदोऽङ्गिनाम् <sup>४</sup> । न चेदेवं कुतः सन्तो वनान्तं <sup>५</sup> प्राक्तनाः गताः ॥ २२८ ॥  
 वितर्कयन्तमित्येनं प्राप्य लौकान्तिकामराः । विज्ञायावधिविज्ञानादनुवक्तुं तदीप्सितम् ॥ २२९ ॥  
 देव देवस्य को वक्ता देव एवावगच्छति । साधु हेयमुपादेयं चार्थमित्यादिसंस्तवैः ॥ २३० ॥  
 स्तुत्वा सतामभिष्टुत्यमभ्यर्च्य प्रसवैर्निजैः । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वं धामैतुं नभोऽगमन् ॥ २३१ ॥  
 ततो मेघ <sup>६</sup>रथो राज्यमभिषेकपुरस्सरम् । नियोज्याभिषवं देवैः स्वयं चाप्याप संयमम् ॥ २३२ ॥

प्रीतिते अकृत्रिम जिन-मन्दिरोंकी पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियोंसे स्तुति की और तदनन्तर बड़े उत्सवों-से युक्त अपने नगरमें वापिस आ गये ॥ २०८-२२० ॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आभरण देकर तथा शान्तिपूर्ण शब्द कहकर राजाकी पूजा की और उसके बाद वे निवासस्थान पर चले गये ॥ २२१ ॥ जो मनुष्य बदलेके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है अर्थात् उपकारी मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करता है वह गन्ध रहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान है ॥ २२२ ॥ जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें जीर्ण क्यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है ॥ २२३ ॥

किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान् राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादिका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २२४ ॥ इस जीवको धिक्कार है । बड़े दुःखकी बात है कि यह जीव शरीरको इष्ट समझकर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस शरीरको विष्टाके घरसे भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता ॥ २२५ ॥ जो संतोष उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख कहते हैं । परन्तु ऐसे सुख इस संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं ? यह कोई मोहका ही उदय समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समझने लगता है ॥ २२६ ॥ जन्मसे लेकर अन्तमुहूर्त पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी ठीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है तब यह जीव आत्महित करनेमें तत्पर क्यों नहीं होता ? ॥ २२७ ॥ ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन हैं और सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए विपत्ति रूप हैं । यदि ऐसा न होता तो पहलेके सज्जन पुरुष जङ्गलके मध्य क्यों जाते ? ॥ २२८ ॥ इधर महाराज घनरथ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट पदार्थका समर्थन करनेके लिए आ पहुँचे ॥ २२९ ॥ वे कहने लगे कि हे देव ! आपके लिए हितका उपदेश कौन दे सकता है ? आप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थको जानते हैं । इस प्रकार सज्जनोंके द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान् घनरथकी लौकान्तिक देवोंने स्तुति की । स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए आकाशमें जा पहुँचे ॥ २३०-२३१ ॥ तदनन्तर भगवान् घनरथने अभिषेक-पूर्वक मेघरथके लिए राज्य दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया

१ स्तुत्वाऽर्थाभिर्निवृत्त्याविशालपुरं ल० । २ निर्गन्धकुसुमोपमः ल० । ३ अवास्करगृहाच्चैतन्नानेत्यति-ल० ।  
 ४ विपदाङ्गिनाम् ल० । ५ वनान्ते ल०, ग० । ६ मेघरथे ल० ।

मनोवाक्कायसंशुद्धिं विदधद्विजितेन्द्रियः । कपायविपम<sup>१</sup>स्वन्तमव<sup>२</sup>मोहं वमन् सुधीः ॥ २३३ ॥  
<sup>३</sup>भाद्यश्रेणीं समाह्वय क्रमात्कर्माणि निर्ममः । निर्मूल्य निर्मलं भावमवापावगमस्य सः ॥ २३४ ॥  
 तदा कैवल्यसम्प्राप्तिं<sup>४</sup>प्रभावात्कम्पितासनाः । निलिम्पाः सर्वसम्पत्त्या पत्युः पूजामकुर्वत ॥ २३५ ॥  
 स देवरमणोद्याने समं मेघरथोऽन्यदा । स्वदेवीभिविहत्यास्थाच्चन्द्रकान्तशिलातले ॥ २३६ ॥  
 निविष्टं तं समाक्रम्य गच्छन्कश्चिन्नभश्चरः । गण्डोपल इव ज्योत्स्नि सरुद्धसुविमानकः ॥ २३७ ॥  
 शिलां दृष्ट्वा<sup>५</sup> नृपारूढामुत्थापयितुमुद्यतः । नृपाङ्गुष्ठाग्रनिर्भुञ्जशिलाभारप्रपीडितः ॥ २३८ ॥  
 तत्सोढुमक्षमो गाढमाक्रन्दारुणस्वनम्<sup>६</sup> । तदा तत्खचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मि<sup>७</sup>नाथ्यसे ॥ २३९ ॥  
 पतिभिक्षां ददस्वेति<sup>८</sup>प्राह प्रोत्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संसृष्टः प्रियमित्रया ॥ २४० ॥  
 विजयाद्धालकात्येशो विद्युद्दंष्ट्रखगाधिपः । प्राणेशाऽनिलवेगाऽस्य सुतः सिंहस्थस्तयोः ॥ २४१ ॥  
 अभिवन्द्य जिनाधीशमायन्नमितवाहनः<sup>९</sup> । ममोपरि विमाने स्वे रुद्धे नायाति केनचित् ॥ २४२ ॥  
<sup>१०</sup>दिशो विलोक्य मां दृष्ट्वा स्वदर्पात् कोपवेपितः । <sup>११</sup>अस्मान् शिलातलेनामा<sup>१२</sup> प्रोत्थापयितुमुद्यमी ॥  
 पीडितोऽयं मदङ्गुष्ठेनैपायस्य<sup>१३</sup> मनोरमा । इत्यन्नवीत्तदाकर्ण्य किं कोपस्यास्य कारणम् ॥ २४४ ॥

॥ २३२ ॥ उन्होंने मन-वचन कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका फल भ्रच्छ्रा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाले कपाय रूपी विपको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढ़कर क्रम-क्रमसे सब कर्मोंको उखाड़ कर दूर कर दिया था और केवलज्ञान प्राप्त करनेके योग्य निर्मल भाव प्राप्त किये थे ॥ २३३-२३४ ॥ उस समय भगवान्-को केवलज्ञान प्राप्त होनेसे देवोंके आसन कम्पित हो गये । उन्होंने आकर सर्व वैभवके साथ उनकी पूजा की ॥ २३५ ॥

किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विहारकर देवरमण नामक उद्यानमें चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया ॥ २३६ ॥ उसी समय उसके ऊपरसे कोई विद्याधर जा रहा था । उसका विमान आकाशमें ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्टानमें अटक गया हो ॥ २३७ ॥ विमान रुक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मेघरथ जिस शिलापर बैठे थे वह उसे उठानेके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके अँगूठासे उस शिलाको दबा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ ॥ २३८ ॥ जब वह शिलाका भार सहन करनेमें असमर्थ हो गया तब करुण शब्द करता हुआ चिल्लाने लगा । यह देख, उसकी स्त्री विद्याधरी आई और कहने लगी कि हे नाथ ! मैं अन्याय हुई जाती हूँ, मैं याचना करती हूँ, मुझे पति-भिन्ना दीजिये । ऐसी प्रार्थना की जानेपर मेघरथने अपना पैर ऊपर उठा लिया । यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह सब क्या है ? ॥ २३९-२४० ॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयाधर्पवर्तपर अलका नगरीका राजा विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर है । अनिलवेगा उसकी स्त्रीका नाम है । यह उन दोनोंका सिंहस्थ नामका पुत्र है । यह जिनेन्द्र भगवान्की वन्दनाकर अमित नामक विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका । जब उसने सब दिशाओंकी ओर देखा तो मैं दिख पड़ा । मुझे देख अहंकारके कारण उनका शरीर क्रोधसे काँपने लगा । वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको उठानेके लिए उद्यम करने लगा । मैंने पैरका अँगूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा । यह उसकी मनोरमा नामकी स्त्री है । राजा मेघरथने यह कहा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्रोधका

१ न विद्यते सुष्ठु अन्तो यस्य तत् अस्वन्तम् । २ नीचैरिति निगाद्यमानम् । ३ क्षपकश्रेणीम् । ४ प्राभवात् क०, घ० । ५ दृष्ट्वा ल० । ६ करुणस्वरम् ल० । ७ नाथसे घ० । नाथ्यसे ल० । ८ प्राहायोत्थापित-ल० । ९ वाहनम् ल० । १० दिशां ल० । ११ अस्मिन् क०, ख०, घ० । १२ शिलातलेन अमा सह इति पदच्छेदः । १३ नैषोऽप्यस्य ल० ।

इदमेव किमस्त्यन्यदन्नान्यत्रापि १नेत्यसौ । तयोक्तो नान्यदित्यस्य प्राग्जन्मेत्युपदिष्टवान् ॥२४५॥  
 द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मिन्नैरावतसमाह्वये । देशे शङ्खपुरे राजा २राजगुप्तोऽस्य शङ्खिका ॥२४६॥  
 भार्या तौ शङ्खशैलस्थात्सर्वगुप्तमुनीश्वरात् । आसौ जिनगुणख्यातिमुपोषितविधिं समम् ॥२४७॥  
 भिक्षाचरमथान्येद्युर्धृतिषेणयतीश्वरम् । निरीक्ष्य भिक्षां दत्त्वाऽस्मै वसुधाराद्यवापताम् ॥२४८॥  
 समाधिगुप्तमासाद्य संन्यस्याभूत्स भूपतिः । ब्रह्मेन्द्रः स्वयुषोक्कृष्टः तस्मात् सिंहरथोऽजनि ॥२४९॥  
 शङ्खिका च परिभ्रम्य संसारे तपसाऽगमत् । देवलोकं ततश्च्युत्वा खगभूमृदपाकृतटे ॥२५०॥  
 वस्वालयपुरे सेन्द्रकेतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्छ्रुतेः ॥२५१॥  
 परितुष्य नृपं श्रित्वा पूजयित्वा यथोचितम् । सुवर्णतिलके राज्यं नियोज्य बहुभिः सह ॥२५२॥  
 दीक्षां घनरथाभ्यर्णं जैनीं सिंहरथोऽग्रहीत् । प्रियमित्राभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसन्निधिम् ॥२५३॥  
 सुधीर्मदनवेगा च कृच्छ्रमुच्चाचरत्तपः । कोपोऽपि काऽपि कोपोपलेपनापनुदे मतः ॥२५४॥  
 अथ स्वपुण्यकर्माप्तप्राज्यराज्यमहोदयात् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥  
 शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं ३ व्रतशीलगुणान्वितम् ॥सप्रश्रयं श्रुताभिर्ज्ञं प्रगल्भं वल्भभाषिणम् ४ ॥२५६॥  
 सुसप्तपरमस्थानभागिनं भव्यभास्करम् । नृपं मेघरथं दारदारकादिनिषेवितम् ॥२५७॥  
 कृत्वा नान्दीश्वरीं पूजां जैनधर्मोपदेशिनम् ५ । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥

कारण क्या है ॥ २४१-२४४ ॥ यही है कि और कुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है । अन्य नहीं है, इतना कहकर वह उसके पूर्वभव कहने लगा ॥ २४५ ॥

दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्वार्धभागमें जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शङ्खपुर नगरमें राजा राजगुप्त राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम शङ्खिका था । एक दिन इन दोनों ही पति-पत्नियोंने शङ्खशैल नामक पर्वतपर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ ग्रहण किया । किसी दूसरे दिन धृतिषेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए घूम रहे थे । उन्हें देख दोनों दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देकर रत्नवृष्टि आदि पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ २४६-२४८ ॥ तदनन्तर राजा राजगुप्तने समाधिगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिससे उत्कृष्ट आयुका धारक ब्रह्मेन्द्र हुआ । वहाँसे च्यकर सिंहरथ हुआ है । शङ्खिका भी संसारमें भ्रमणकर तपके द्वारा स्वर्ग गई । वहाँसे च्युत होकर विजयार्थपर्वतके दक्षिण तटपर वस्वालय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु और उसकी सुप्रभा नामकी स्त्रीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई है ॥ २४९-२५१ ॥ यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुवर्ण-तिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया और बहुतसे राजाओंके साथ घनरथ तीर्थकरके समीप जैनी, दीक्षा ग्रहण कर ली । इधर बुद्धिमती मदनवेगा भी गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी आर्थिकाके पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी । सो ठीक ही है क्योंकि कहींपर क्रोध भी क्रोधका उपलेप दूर करनेवाला माना गया है ॥ २५२-२५४ ॥

अथानन्तर—अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिवर्गके फलकी प्राप्ति पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है, व्रतशील आदि गुणोंसे युक्त है, विनय सहित है, शास्त्रको जाननेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेवाला है, सात परम स्थानोंको प्राप्त है, भव्य जीवोंमें देदीप्यमान है तथा स्त्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं, ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासका नियम लेकर बैठा था कि इतनेमें काँपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे चलनेवाला एक गीध आया । वह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! मैं बहुत भारी भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूँ इसलिए आप, आपकी शरणमें आया हुआ यह मेरा भक्त्य

तस्यानुपदमेवान्यो गृध्रो बद्धजवः पुरः । स्थित्वा नृपस्य <sup>१</sup>देवाहं महाशुद्धेदनातुरः ॥२५९॥  
 ततः कपोतमेतं मे भयं त्वच्छरणागतम् । ददस्व दानशूर त्वं न चेद्विद्धयन्न मां मृतम् ॥२६०॥  
 इत्यवादीत्तदाकर्ण्य युवा दृढरथोऽब्रवीत् । पूज्य ब्रूहि वदत्येपे गृध्रः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥  
 इति स्वानुजसम्भ्रादित्यवोचन्महीपतिः । <sup>२</sup>इह जम्बूद्वीपे क्षेत्रे मेरोरुवगते ॥२६२॥  
 नगरे पद्मिनीखेटे वणिक् सागरसेनवाक् । तस्यामितमतिः प्रीता तयोर्लघुतरौ सुतौ ॥२६३॥  
 धनमित्रोऽभवन्नन्दिपेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्परं मृत्वा खगावेतौ बभूवुः ॥२६४॥  
 देवः सन्निहितः कश्चित् गृध्रस्योपरि कः स चेत् । त्वया हेमरथो नाम्ना दमितारिरणे हतः ॥२६५॥  
 परिभ्रम्य भवे भूयः कैलासाद्रितटेऽभवत् । <sup>३</sup>पर्णकान्तानदीतीरे धीमांश्चन्द्रामिधानकः ॥२६६॥  
 श्रीदत्तायां कुशास्त्रस्तनूजः सोमतापसात् । <sup>४</sup>तपः पञ्चाग्नि सन्तप्य <sup>५</sup>ज्योतिर्लोकैः समरोऽजनि ॥२६७॥  
 स कदाचिद्विधं गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदैः । दाता मेघरथान्त्रयः क्षितावस्तीति संस्तुतम् ॥२६८॥  
 श्रुत्वा प्रोद्यद्मर्षेण मां परीक्षितुमागतः । शृणु चेतः समाधाय भ्रातर्दानदिलक्षणम् ॥२६९॥  
 अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं चिदोऽवदन् । अनुग्रहोऽपि स्वान्योपकारित्वमभिधीयते ॥२७०॥  
 दाता च शक्तिविज्ञानश्रद्धादिगुणलक्षितः । देयं वस्त्वप्यपीडाभाक् तद्द्रव्योर्गुणवर्द्धनम् ॥२७१॥  
 साधनं क्रमशो मुक्तेराहारो भेषजं श्रुतम् । सर्वप्राणिदया शुद्धं देयं सर्वज्ञभाषितम् ॥२७२॥  
 मोक्षमार्गो स्थितः पाता स्वस्यान्येषां च संसृतेः । पात्रं दानस्य सोऽभीष्टो निष्ठितार्थैर्निरक्षरैः ॥२७३॥  
 कृतार्थः <sup>६</sup>सन् जगत्प्रातुं निरवधं वचोऽवदत् । भव्येभ्यः स हि दाता तद्देयं तत्पात्रमुत्तमम् ॥२७४॥

कबूतर मुझे दे दीजिये । हे दानवीर ! यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देते हैं तो बरा, मुझे मरा ही समझिये ॥ २५५-२६० ॥ गीधके यह वचन सुनकर युवराज दृढरथ कहने लगा कि हे पूज्य ! कहिये तो, यह गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतके उत्तरकी ओर स्थित ऐरावत क्षेत्रके पद्मिनीखेट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य रहता था । उसकी स्त्रीका नाम अमितमति था । उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नन्दिपेण थे । अपने धनके निमित्तसे दोनों लड़ पड़े और एक दूसरेको मारकर ये कबूतर तथा गीध नामक पक्षी हुये हैं ॥ २६१-२६४ ॥ गीधके ऊपर कोई एक देव स्थित है । वह कौन है ? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था वह संसारमें भ्रमणकर कैलाश पर्वतके तटपर पर्णकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस हुआ । उसकी श्रीदत्ता नामकी स्त्रीके मिथ्याशास्त्रोंको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुआ । वह पञ्चाग्नि तप तपकर ज्योतिर्लोकमें देव उत्पन्न हुआ ॥ २६५-२६७ ॥ वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था वहाँ ऐशानेन्द्रके सभासदोंने स्तुति की कि इस समय पृथिवीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है । मेरी इस स्तुतिको सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया । यह उसी क्रोधवशा मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया है । हे भाई ! चित्तको स्थिरकर दान आदिका लक्षण सुनो ॥ २६८-२६९ ॥ अनुग्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है और अनुग्रह शब्दका अर्थ भी अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ॥ २७० ॥ जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त होता है वह दाता कहलाता है और जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके गुणोंको बढ़ानेवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ॥ २७१ ॥ सर्वज्ञ देवने यह देय चार प्रकारका बतलाया है आहार, औषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना । ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं ॥ २७२ ॥ जो मोक्षमार्गमें स्थित है और अपने आपकी तथा दूसरोंकी संसार भ्रमणसे रक्षा करता है वह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य जिनेन्द्र देवने कहा है ॥ २७३ ॥ अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए भव्य जीवोंको

१ देवाह ल० । २ अत्र जम्बूमति द्वीपे ल० । ३ पर्णकान्तानदी ल०, ग०, म० । ४ ततः ल० । ५ ज्योतिर्लोकैः समरो म०, ल० । ६ स ल० ।

न तु मांसादिकं देयं पात्रं नास्य प्रतीच्छकः । तद्वातापि न दातेमौ ज्ञेयौ नरकनायकौ ॥ २७५ ॥  
 ततो गृध्रो न तत्पात्रं नायं १देयः कपोतकः । तथा मेघरथीं वाणीमाकर्ण्य ज्योतिषामरः २ ॥ २७६ ॥  
 असि दानविभागज्ञो दानशूरश्च पाथिव । इति स्तुत्वा प्रदर्श्य स्वं तं ३प्रपूज्य जगाम सः ॥ २७७ ॥  
 द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा तदुक्तं त्यक्तदेहकम् । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥  
 देवौ मेघरथं पश्चात्स्वप्नसादात्कुयोनिनः । निरगाव नृपेल्युक्त्वा पूज्यं सम्पूज्य जग्मतुः ॥ २७९ ॥  
 कदाचित्स नृपो दानं दत्त्वा दमवरोशिने ४ । चारणाय परिप्राप्तपञ्चादचर्यविधिः सुधीः ॥ २८० ॥  
 नन्दीश्वरे ५ महापूजां विधायोपोषितं श्रितः । निशायां प्रतिमायोगे ध्यायन्नस्थादिवाद्रिराट् ॥ २८१ ॥  
 ईशानेन्द्रो ६ विदित्वैतन्मरुत्सदसि शुद्धदक् । धैर्यसारस्वमेवाद्य चित्रमित्यब्रवीन्मुदा ॥ २८२ ॥  
 स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा देवैः कस्य स्तुतिः सतः । त्वयाऽकारीत्यसौ पृष्टः प्रत्याहेति सुरान् प्रति ॥ २८३ ॥  
 धीरो मेघरथो नाम शुद्धदक् पार्थिवाग्रणीः । प्रतिमायोगधायं च तस्य भक्त्या स्तुतिः कृता ॥ २८४ ॥  
 तदुदीरितमाकर्ण्य तत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देव्यावागत्य भूपतिम् ॥ २८५ ॥  
 विलासैर्विभ्रमैर्हावैर्भावेर्गोतैः प्रजल्पितैः । अन्यैश्च मदनोन्मादहेतुभिस्तन्मनोबलम् ॥ २८६ ॥  
 विद्युल्लतेव देवादिं ते चालित्यमक्षमे । सत्यमीशानसम्प्रोक्तमिति स्तुत्वा ७स्वरीयतुः ॥ २८७ ॥

निर्दोष वचन कहते हैं वही उत्तम दाता है, वही उत्तम देय है और वही उत्तम पात्र है ॥ २७४ ॥  
 मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, और इनका देनेवाला दाता नहीं है । ये दोनों तो नरकके अधिकारी हैं ॥ २७५ ॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी सुनकर वह ज्योतिषी देव अपना असली रूप प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे राजन् ! तुम अवश्य ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके शूर हो । इस तरह पूजाकर चला गया ॥ २७६-२७७ ॥ उन गीध और कबूतर दोनों पक्षियोंने भी मेघरथकी कही सब बातें समझीं और अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवरमण नामक वनमें सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर देव हुए ॥ २७८ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन् ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयोनिसे निकल सके हैं । ऐसा कहकर तथा पूज्य मेघरथकी पूजाकर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥ २७९ ॥

किसी समय उस बुद्धिमान् राजाने चारण ऋद्धिधारी दमवर स्वामीके लिए दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ २८० ॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नन्दीश्वर पर्वमें महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वतके समान विराजमान था ॥ २८१ ॥ उसी समय देवोंकी सभामें ईशानेन्द्रने यह सब जानकर बड़े हर्षसे कहा कि अहा ! आश्चर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और तू ही धीर-वीर है ॥ २८२ ॥ इस तरह अपने आप की हुई स्तुतिको सुनकर देवोंने ईशानेन्द्रसे पूछा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति की है ? उत्तरमें इन्द्र देवोंसे इस प्रकार कहने लगा कि राजाओंमें अग्रणी मेघरथ अत्यन्त धीरवीर है, शुद्ध सम्यग्दृष्टि है, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैंने उसीकी भक्तिसे स्तुति की है ॥ २८३-२८४ ॥ ईशानेन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा और सुरूपा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आईं और विलास, विभ्रम, हाव-भाव, गीत, बातचीत तथा कामके उन्मादको बढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका प्रयत्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी लता सुमेरु पर्वतको विचलित नहीं कर सकती उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकीं । अन्तमें वे ईशानेन्द्रके द्वारा कहा हुआ सच है इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गईं ॥ २८५-२८७ ॥

१ देयं कपोतकम् घ० । देयं कपोतकः ल० । २ ज्योतिषोऽमरः म०, ल० । ३ संपूज्य क०, ल०, घ० । ४ दमवरोशिनः ल० । ५ नन्दीश्वर ल०, ल० । ६ विदित्वैनं ग० । ७ सः स्वर्ग ईयतुः जग्मतुः ।

१ अन्यदेशानकल्पेषो मरुन्मध्ये यहच्छया । समस्तौत्प्रियमित्राया रूपमाकर्ण्य तत्त्वम् ॥२८८॥  
 रतिषेणा रतिश्चैत्य देव्यौ तद्रूपमीक्षितम् । पेटां मजनवेलायां गन्धतैलाक्तदेहिकाम् ॥२८९॥  
 निरूप्येन्द्रवचः सम्यक् श्रद्धायाप्यभिभाषितम् । तथा सहैत्य कन्याकृती धृत्वा तां समूचतुः ॥२९०॥  
 त्वामिध्यकन्यके ३ द्रष्टुमैतामिति सखीमुखात् । तान्यामुक्तं समाकर्ण्य प्रमदादस्तु तिष्ठताम् ॥२९१॥  
 तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वाऽऽहूयाभ्यदर्शयत् । तां निशम्याहतुस्ते च प्राग्बल्कान्तिर्न चाधुना ॥२९२॥  
 इति सा तद्रचः श्रुत्वा प्रियमित्रा महीपतेः । वक्त्रं व्यलोकयत् प्राह सोऽपि कान्ते तथेति ताम् ॥२९३॥  
 देव्यौ ३स्वं रूपमादाय निजागमनवृत्तकम् । निवेद्य रूपमस्याश्च धिग्विलक्षणभङ्गुरम् ॥२९४॥  
 अत्र नाभङ्गुरं किञ्चिदिति निर्विद्य चेतसा । तां शम्पूज्येयतुः स्वर्गं स्वदीप्तित्यासदिकृते ॥२९५॥  
 ४ देवीं तद्धेतुना ५ खिन्नां नित्यानित्यात्मकं जगत् । सर्वमन्तः शुचं मा गा इत्याश्वास्य महीपतिः ॥२९६॥  
 राज्यभोगैः स्वकान्ताभिर्निन्तान्तं निर्द्वैतिं ब्रजन् । गत्वा मनोहरोद्यानमन्येधुः स्वगुरुं जिनम् ॥२९७॥  
 सिंहासने समासीनं सुरासुरपरिष्कृतम् । समस्तपरिवारेण त्रिःपरीत्याभिवन्द्य च ॥२९८॥  
 सर्वभन्व्यहितं वान्च्छन् पप्रच्छोपासकक्रियाम् ६ । ७ प्रायः कल्पद्रमस्येव परार्थं चेष्टितं सताम् ॥२९९॥  
 प्रागुक्तैकादशोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकक्रियाबद्धोपासकाध्ययनाह्वयम् ॥३००॥  
 ८ अङ्गं सप्तममाख्येयं श्रावकाणां हितैषिणाम् । इति व्यावर्णयामास तीर्थं कृतप्रार्थितार्थकृत् ॥३०१॥  
 गर्भान्वयक्रियाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयक्रियाः । कर्मान्वयक्रियाश्चान्या स्तत्सङ्ख्याश्रानु ९ तत्त्वतः ॥३०२॥

किसी दूसरे दिन ऐशानेन्द्रने देवोंकी सभामें अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी प्रियमित्रा-  
 के रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिषेणा और रति नामकी दो देवियाँ उसका रूप देखनेके लिए  
 आईं । वह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राके शरीरमें सुगन्धित तेलका मर्दन हो रहा था । उस  
 समय प्रियमित्राको देखकर देवियोंने इन्द्रके वचन सत्य समझे । अनन्तर उसके साथ बातचीत  
 करनेकी इच्छासे उन देवियोंने कन्याका रूप धारण कर सखीके द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक  
 कन्याएँ—सेठकी पुत्रियाँ आपके दर्शन करना चाहती हैं । उनका कहा सुनकर प्रियमित्राने हर्षसे  
 कहा कि 'बहुत अच्छा, ठहरे' इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्राने अपनी सजावट की । फिर  
 उन कन्याओंको बुलाकर अपने आपको दिखलाया—उनसे भेंट की । रानीको देखकर दोनों देवियाँ  
 कहने लगी कि 'जैसी कान्ति! पहले थी अब वैसी नहीं है' । कन्याओंके वचन सुनकर प्रियमित्रा  
 राजाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजाने भी कहा कि हे प्रिये ! बात ऐसी ही है ॥ २९६-२९३ ॥  
 तदनन्तर देवियोंने अपना असली रूप धारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण  
 किन्तु नश्वर रूपको धिक्कार हो । इस संसारमें कोई भी वस्तु अमङ्गुर नहीं है इस प्रकार हृदय  
 से विरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर वे देवियाँ अपनी दीप्तिसे दिशाओंके तटको व्याप्त करती  
 हुई स्वर्गको चली गईं ॥ २९४-२९५ ॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त  
 संसार ही नित्यानित्यात्मक है अतः हृदयमें कुछ भी शोक मत करो' इस प्रकार राजाने उसे समझा  
 दिया ॥ २९६ ॥ इस तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही  
 आनन्दको प्राप्त हो रहे थे । किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने सिंहासन  
 पर विराजमान तथा देव और धरयेन्द्रोंसे परिवृत अपने पिता घनरथ तीर्थकरके दर्शन किये ।  
 समस्त परिवारके साथ उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की और समस्त भव्य जीवोंके हितकी  
 इच्छा करते हुए श्रावकोंकी क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी चेष्टा कल्पवृक्षके समान  
 प्रायः परोपकारके लिए ही होती है ॥ २९७-२९६ ॥ हे देव ! जिन श्रावकोंके ग्यारह स्थान पहले  
 विभाग कर बतलाये हैं उन्हीं श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नामका  
 सातवाँ अङ्ग, हितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कहिए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूछने पर  
 मनोरथको पूर्ण करनेवाले घनरथ तीर्थकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे ॥ ३००-३०१ ॥ उन्होंने कहा

१ अन्यदेशान—ख०, ग०, म० । २ वनाढ्यकन्यके । ३ स्वरूप-ख० । ४ देवी ख० । ५ खिन्ना ख० ।

६ क्रियाः म०, ख० । ७ प्राप्य ख० । ८ अङ्गसप्तम ख० । ९ तत्सङ्ख्यास्य तु ख० ।

गर्भाधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः प्रथमक्रियाः । प्रोक्ताः १प्राक्तास्त्रिपञ्चाशत्सम्यग्दर्शनशुद्धिषु ॥ ३०३ ॥  
दीक्षान्वयक्रियाश्चाष्टचत्वारिंशत् प्रकीर्तिता । अवतारादिक २निर्वृत्यन्ता निर्वाणसाधिकाः ॥ ३०४ ॥  
सद्गृहि ३त्वादिसिद्धयन्ताः सप्त कर्त्रन्वयक्रियाः । सम्यक् स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यदः ॥ ३०५ ॥  
तमुपासकसद्धर्मं श्रुत्वा घनरथोदितम् । नत्वा मेघरथो भक्त्या मुक्त्यै शान्तान्तरङ्गकः ॥ ३०६ ॥  
शरीरभोगसंसारदौःस्थित्यं चिन्तयन्मुहुः । संयमाभिमुखो राज्ये तिष्ठेत्य ५नुजमादिशत् ॥ ३०७ ॥  
त्वया राज्यस्य यो दोषो ह्यष्टोऽदर्शित मयाऽप्यसौ । त्याज्यं तच्चेद् गृहीत्वाऽपि प्रागेवाग्रहणं वरम् ॥ ३०८ ॥  
प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं ६वरम् । इति तस्मिंस्तदादानविमुखत्वमुपागते ॥ ३०९ ॥  
सुताय मेघसेनाय दत्त्वा राज्यं यथाविधि । सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं सातुजो जगतीपतिः ॥ ३१० ॥  
नृपैः दीक्षां समादाय क्रमादेकादशाङ्गवित् । प्रत्ययास्तीर्थकृन्नाम्नः षोडशैतान ७भावयत् ॥ ३११ ॥  
जिनोपदिष्टनिर्ग्रन्थमोक्षमार्गं हचिर्मता । निःशङ्कतादिकाष्टाङ्गा विशुद्धिर्दर्शनस्य सा ॥ ३१२ ॥  
मार्गोऽस्मिन्वर्तमानस्य यदुक्तं तन्नवेन्न वा । इति शङ्कापरित्यागं ९ शङ्कारहिततां विदुः ॥ ३१३ ॥  
द्विलोकभोगमिथ्यादृक्काङ्क्षाव्यावृत्तिरागमे । द्वितीयमङ्गमाख्यातं वि ८शुद्धिर्दर्शनाश्रिता ॥ ३१४ ॥  
देहाद्यशुचिसद्भावमवगम्य शुचीति यः । सङ्कल्पस्तस्य सन्त्यागः सा स्यान्निरिधिचिकित्सता ॥ ३१५ ॥

कि 'श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वयकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या इस प्रकार है ॥ ३०२ ॥ पहली गर्भान्वय क्रियाएँ गर्भाधानको आदि लेकर निर्वाण पर्यन्त होती हैं इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको धारण करनेवाले जीवोंके होती हैं तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ ३०३ ॥ अवतारसे लेकर निर्वाण पर्यन्त होनेवाली दीक्षान्वय क्रियाएँ अड़तालीस कही गई हैं । ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं ॥ ३०४ ॥ और सद्गृहित्वको आदि लेकर सिद्धि पर्यन्त सात कर्त्रन्वय क्रियाएँ हैं । इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि यह है तथा फल यह है । इस प्रकार घनरथ तीर्थकरने विस्तारसे इन सब क्रियाओंका वर्णन किया । इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीर्थकरके द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्मका वर्णन सुन कर उन्हें भक्ति-पूर्वक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया ॥ ३०५-३०६ ॥ शरीर, भोग और संसारकी दुर्दशाका बार-बार विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए । उन्होंने छोटे भाई दृढरथसे कहा कि तुम राज्य पर बैठो । परन्तु दृढरथने उत्तर दिया कि आपने राज्यमें जो दोष देखा है वही दोष मैं भी तो देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण कर बादमें छोड़नेके ही योग्य है तब उसका पहलेसे ही ग्रहण नहीं करना अच्छा है । लोकमें कहावत है कि कीचड़को धोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है । ऐसा कह कर जब दृढरथ राज्य ग्रहण करनेसे विमुख हो गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वक राज्य दे दिया और छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । वे क्रम-क्रमसे ग्यारह अङ्गके जानकार हो गये । उसी समय उन्होंने तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत निम्नांकित सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया ॥ ३०७-३११ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गमें रुचि होना सो दर्शनविशुद्धि है । उसके निःशङ्कता आदि आठ अङ्ग हैं ॥ ३१२ ॥ मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है वह होता है या नहीं इस प्रकारकी शंकाका त्याग निःशङ्कता कहलाती है ॥ ३१३ ॥ मिथ्यादृष्टि जीव इस लोक और पर-लोक सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकांचित नामका दूसरा अङ्ग बतलाया है । इससे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता होती है ॥ ३१४ ॥ शरीर आदिमें अशुचि-अपवित्र पदार्थोंका सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'मैं पवित्र हूँ' ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग

१ प्रोक्ताः सत्यत्रिपञ्चाशत् म०, ल० । २ अवतारादिका निर्वृत्यन्ता क०, ल०, घ०, म०, । ३ सद्गृहीत्वादि । ४ तिष्ठत्वनुज-ल० । ५ यथा ल०, क०, ग०, घ० । ६-नभाषयत् ल० । ७ परित्यागः ल० । ८ विशुद्धिर्दर्शनश्रियः म० ।

अथवाऽहंन्मते नेदं चेत्सर्वं युक्तमित्यसत्<sup>१</sup> । आग्रहः क्वापि तत्यागः सा स्यान्निरिर्विचिकित्सा ॥ ३१६ ॥  
 तत्त्ववद्भासमानेषु बहुदुर्णयवर्त्मसु । युक्ति<sup>२</sup>भावाद्विमोहत्वमाहुर्दंष्टरमूढताम् ॥ ३१७ ॥  
 वृद्धिक्रियात्मधर्मस्य भावनाभिः क्षमादिभिः । अभीष्टं दर्शनस्याङ्गं सुदृग्भिरुपबृंहणम् ॥ ३१८ ॥  
 धर्मध्वंसनिमित्तेषु या<sup>३</sup> कषायोदयादिषु । धर्मव्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥ ३१९ ॥  
 जिनप्रणीतसद्धर्मांमृतनित्यानुरागता । वात्सल्यं मार्गमाहात्म्यभावना<sup>४</sup> स्यात्प्रभावना ॥ ३२० ॥  
 ज्ञानादिषु च तद्वत्सु चादरो निःकषायता । तद्व्यं विनयस्याहुः सन्तः सम्पन्नतां स्फुटम् ॥ ३२१ ॥  
 व्रतशील<sup>५</sup> निविष्टेषु भेदेषु निरवद्यता । शीलव्रतानतीचारः<sup>६</sup> प्रोक्तः सूक्तविदां वरैः ॥ ३२२ ॥  
 ज्ञानोपयोगाऽभीक्ष्णोऽसौ या नित्यश्रुतभावना । संवेगः संसृतेर्दुःखाद् दुस्सहास्त्रित्यभीहता ॥ ३२३ ॥  
 आहारादित्रयोत्सर्गः पात्रेभ्यस्त्याग इष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायक्लेशस्तपो भवेत् ॥ ३२४ ॥  
 कदाचिन्मुनिसङ्घस्य बाह्याभ्यन्तरहेतुभिः । सन्धारणं समाधिः स्यात्प्रत्यूहे तपसः सति ॥ ३२५ ॥  
 गुणिनां निरवद्येन विधिना दुःखनिवृत्तिम् । वैयावृत्य क्रिया प्रायः साधनं तपसः परम् ॥ ३२६ ॥  
 जिनेषु गणनाथेषु बहुशास्त्रेषु चागमे । भाव<sup>७</sup>शुद्धयानुरागः स्यात्प्रोक्तः कायादिगोचरा ॥ ३२७ ॥  
 सामायिकादिषट्कस्य यथाकालं प्रवर्तनम् । भवेदावश्यकानिर्धयोक्तविधिना मुनेः ॥ ३२८ ॥  
<sup>८</sup>ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाऽन्येन चापि वा । धर्मप्रकाशनं प्राज्ञाः प्राहुर्मार्गप्रभावनाम् ॥ ३२९ ॥

करना निर्विचिकित्सा नामका अङ्ग है ॥३१५॥ यदि यह बात अहन्तक मनमें न होती तो सब ठीक होता इस प्रकारका आग्रह मिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अङ्ग है ॥३१६॥ जो वास्तवमें तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुतसे मिथ्यानयके मार्गोंमें 'यह ठीक है' इस प्रकार मोहका नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अङ्ग कहलाता है ॥ ३१७ ॥ ज्ञाना आदिकी भावनाओंसे आत्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यग्दृष्टियोंको प्रिय सम्यग्दर्शनका उपबृंहण नामका अङ्ग है ॥ ३१८ ॥ कषायका उदय आदि होना धर्मनाशका कारण है । उसके उपस्थित होनेपर अपनी या दूसरेकी रक्षा करना अर्थात् दोनोंको धर्मसे च्युत नहीं होने देना सो स्थितिकरण अङ्ग है ॥ ३१९ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्मरूपी अमृतमे निरन्तर अनुराग रखना सो वात्सल्य अङ्ग है और मार्गके माहात्म्यकी भावना धरना—जिन-मार्गका प्रभाव फैलाना सो प्रभावना अङ्ग है ॥ ३२० ॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कषाय रहित परिणाम रखना इन दोनोंको सज्जन पुरुष विनयसम्पन्नता कहते हैं ॥ ३२१ ॥ व्रत तथा शीलसे युक्त चारित्रके भेदोंमें निर्दोषता रखना—अतिचार नहीं लगाना, शास्त्रके उत्तमज्ञाता पुरुषोंके द्वारा शीलव्रतानतीचार नामकी भावना कही गई है ॥ ३२२ ॥ निरन्तर शास्त्रकी भावना रखना सो अभीक्षण ज्ञानोपयोग है । संसारके दुःसह दुःखसे निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है ॥ ३२३ ॥ पात्रोंके लिए आहार, अभय और शास्त्रका देना त्याग कहलाता है । आगमके अनुकूल अपनी शक्तिके अनुसार कायक्लेश करना तप कहलाता है ॥ ३२४ ॥ किसी समय बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे मुनिसंघके तपश्चरणमें विघ्न उपस्थित होनेपर मुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि है ॥ ३२५ ॥ निर्दोष विधिसे गुणियोंके दुःख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वैयावृत्य है ॥ ३२६ ॥ अरहन्त देव, आचार्य, बहुश्रुत तथा आगममें मन वचन कायसे भावोंकी शुद्धतापूर्वक अनुराग रखना क्रमसे अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति भावना है ॥ ३२७ ॥ मुनिके जो सामायिक आदि छह आवश्यक बतलाये हैं उनमें यथा समय आगमके कहे अनुसार प्रवृत्ता होना सो आवश्यकपरिहाणि नामक भावना है ॥ ३२८ ॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजासे, अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेको विद्वान् लोग मार्गप्रभावना कहते हैं ॥ ३२९ ॥

१-मित्ययम् ख०, ग० । २ युक्तिर्भवे- म० । ३ कषायोपपादिषु ल० । ४ भावनं क०, घ०, म० । ५ निबद्धेषु ल० । ६ प्राहुः ल० । ७ भावः शुद्धयानु-ल० । ८ दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः । आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषार्थसिद्धयुपायेऽमृतचन्द्रसूरेः ।



वत्से वेगोरिव स्नेहो यः सधर्मण्यकृत्रिमः । तद्वात्सल्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिताः ॥ ३३० ॥  
 इत्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणान्यामनन्त्यन्त्यनाम्नः षोडश बन्धने ॥ ३३१ ॥  
 पतन्नावनया बद्ध्वा तीर्थकृत्नाम निर्मलम् । येन त्रैलोक्यसङ्क्षोभस्तत् स मेघरथो मुनिः ॥ ३३२ ॥  
 क्रमेण विहरन्देशान् प्राप्तवान् श्रीपुराङ्गयम् । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै दत्त्वा भिक्षां यथोचितम्<sup>१</sup> ॥ ३३३ ॥  
 पश्चात्<sup>२</sup> नन्दपुरे नन्दनाभिधानश्च भक्तिमान् । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिंहसेनश्च शुद्धदक् ॥ ३३४ ॥  
 ज्ञानदर्शनचारित्रतपसां पर्यायान् बहून् । सम्यग्वर्द्धयते प्रापुः<sup>३</sup> पञ्चाश्रयाणि पार्थिवाः ॥ ३३५ ॥  
 संयमस्य परां कोटिमारुह्य स मुनीश्वरः । दृढो दृढरथेनामा<sup>४</sup> नभस्तिलकपर्वते ॥ ३३६ ॥  
 मासमात्रं परित्यज्य शरीरं शान्तकल्मषः । प्रायोपगमनेनासः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम् ॥ ३३७ ॥  
 एतौ तत्र त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमजीवितौ । विधूज्ज्वलतराररिनशरीरौ शुक्लेशयकौ ॥ ३३८ ॥  
 मासैः षोडशभिः सार्द्धमा<sup>५</sup> सैनैःश्वासमीयुषौ । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दैराहृतामृतभोजनौ ॥ ३३९ ॥  
 निःप्रवीचारसौख्याढ्यौ लोकनाड्यन्तराश्रित- । स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणवाधिलोचनौ ॥ ३४० ॥  
 तत्क्षेत्रमितवीर्याभातिक्रियौ सुषिरं स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य मोक्षलक्ष्मीसमागमौ ॥ ३४१ ॥  
 अथास्मिन् भारते वर्षे<sup>६</sup> विषयः कुरुजाङ्गलः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सर्वधान्याकरो महान् ॥ ३४२ ॥  
 तत्र ताम्बूलवल्गन्ताः सफलाः क्रमुकद्रुमाः । पुन्दारदारकादलेषसुखं प्रख्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥  
 महाफलप्रदास्तुङ्गा बद्धमूला मनोहराः । सुराजवद्विराजन्ते सत्पत्राश्रोचभूरुहाः ॥ ३४४ ॥

और वल्लुङ्गेमें गायके समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष वात्सल्य भावना कहते हैं ॥ ३३० ॥ श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनाओंको सब मिलकर अथवा अलग अलग रूपसे तीर्थकर नामकर्मके बन्धका कारण मानते हैं ॥ ३३१ ॥ मेघरथ मुनिराजने इन भावनाओंसे उस निर्मल तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोंमें क्षोभ हो जाता है ॥ ३३२ ॥ वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगरमें गये । वहाँके राजा श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिसे आहार दिया । इसके पश्चात् नन्दपुर नगरमें नन्दन नामके भक्तिवान् राजाने आहार दिया और तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यगृष्टि सिंहसेन राजाने आहार कराया । वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपकी अनेक पर्यायोंको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे । उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओंने पञ्चाश्रयं प्राप्त किये ॥ ३३३-३३५ ॥ अत्यन्त धीर वीर मेघरथने दृढरथके साथ-साथ नभस्तिलक नामक पर्वतपर श्रेष्ठ संयम धारणकर एक महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और अन्तमें शान्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥ ३३६-३३७ ॥ वहाँ इन दोनोंकी तैतीस सागरकी आयु थी । चन्द्रमाके समान उज्ज्वल एक हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वे साढ़े सोलह माहमें एक बार श्वास लेते थे, तैतीस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमय आहार ग्रहण करते थे, प्रवीचाररहित सुखसे युक्त थे, उनके अवधिज्ञान रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवर्ती योग्य पदार्थोंको देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका क्षेत्र भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर था । इस प्रकार वे वहाँ चिरकालतक स्थित रहे । वहाँसे च्युत हो एक जन्म धारणकर वे नियमसे मोक्षलक्ष्मीका समागम प्राप्त करेंगे ॥ ३३८-३४१ ॥

अथानन्तर-भरत क्षेत्रमें एक कुरुजाङ्गल नामका देश है, जो आर्य क्षेत्रके ठीक मध्यमें स्थित है, सब प्रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बड़ा है ॥ ३४२ ॥ वहाँ पर पानकी बेलोंसे लिपटे एवं फलोंसे युक्त सुपारीके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष और बालकोंके आलिंगनका सुख ही प्रकट कर रहे हों ॥ ३४३ ॥

वहाँ चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान सुशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल-भोगोपभोगके उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष महा

१ यथोचिताम् ल०, ख०, म० । २-दत्तापुरे म०, ल० । ३ प्रापन् क०, ख०, घ० । ४ दृढरथेनाम ।  
 -दृढरथेन अमा सह । दृढरथो नामा ल० । ५ सार्द्धमासनिःश्वास ल० । ६ क्षेत्रे ख०, ग० ।

सद्दृष्टया सौकुमार्येण छायाया रसवत्तया । कदल्यः सर्वसौन्दर्याः सम्प्रीत्यै रमणीसमाः ॥ ३४५ ॥  
 आम्नाः कम्नाः फलैर्नम्नाः पल्लवप्रसवोज्ज्वलाः । फोकिलालापवाचाला लोलालिकुलसङ्कुलाः ॥ ३४६ ॥  
 स्थूलपक्कफलाः प्रोद्यद् गन्धान्धीकृतपट्पदाः । पनसाः प्रचुरा रेखुरामूलत्फलायिनः ॥ ३४७ ॥  
 गुल्मवल्लीद्रमाः सर्वे प्रसूनभरभङ्गुराः । क्रीडागारनिभाः भान्ति कामनाममहाभुजः ॥ ३४८ ॥  
 निर्भूमिच्छिद्रमच्छिद्रं निःपापाणं निरुसरम् । निरुष्टाष्टभयं भूरिभूतलं सफलं सदा ॥ ३४९ ॥  
 अप्रमादोरुचारित्राः प्रायश्चित्तमिव द्विजाः । न दण्डभयमृच्छन्ति प्रजाः स्वस्थितिपालनात् ॥ ३५० ॥  
 महाजलाशया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसम्भृताः । नानाप्रसवसंछन्ना जहुज्योतिर्जगच्छ्रियम् ॥ ३५१ ॥  
 पुष्पनेत्राः समुत्तुङ्गा विटपायतवाहवः । भूरुहा भूमिपायन्ते सदा चारुफलावहाः<sup>१</sup> ॥ ३५२ ॥  
 पल्लवोष्ठाः प्रसुनाढ्यास्तन्वङ्गयोऽलिकुलालकाः । सत्पत्राश्चित्रवल्लर्यो रमण्य इव रंजिरे ॥ ३५३ ॥

फल—बड़े-बड़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुङ्ग—उदारचित्त होता है उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष तुङ्ग—ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा वद्धमूल—पक्की जड़ वाले होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी वद्धमूल—पक्की जड़ वाले थे । जिस प्रकार उत्तम राजा मनोहर—अत्यन्त सुन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी मनोहर—अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार उत्तम राजा सत्पत्र—अच्छी अच्छी सवारियोंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी सत्पत्र—अच्छे अच्छे पत्तोंसे युक्त थे ॥ ३४४ ॥ वहाँके केलेके वृक्ष स्त्रियोंके समान उत्तमप्रीति करनेवाले थे क्योंकि जिस प्रकार केलेके वृक्ष सद्दृष्टि—देखने में अच्छे लगते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी सद्दृष्टि—अच्छी आँखों वाली थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्ष सुकुमार होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्ष छाया—अनातपसे युक्त होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी छाया—कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्ष रसीले होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी रसीली—शृङ्गारसे युक्त थीं, और केलेके वृक्ष जिस प्रकार सबसे अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥ ३४५ ॥ वहाँके सुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे भुक् रहे थे, नई नई कोंपलों तथा तथा फूलोंसे उज्ज्वल थे, कोकिलाओंके वार्तालापसे मुखरित थे, और चञ्चल भ्रमरोंके समूहसे व्यग्र थे ॥ ३४६ ॥ जिनमें बड़े-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अंधे हो रहे थे, और जो मूलसे ही लेकर फल देनेवाले थे ऐसे कटहलके वृक्ष वहाँ अधिक सुशोभित होते थे ॥ ३४७ ॥ फूलोंके भारसे झुकी हुई वहाँकी झाड़ियाँ, लताएँ और वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीडाभवन ही हों ॥ ३४८ ॥ वहाँकी भूमिमें गड्ढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे, पत्थर नहीं थे, ऊषर जमीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा फल देती रहती थी ॥ ३४९ ॥ जिस प्रकार प्रमादरहित श्रेष्ठ चारित्रको पालन करनेवाले द्विज कभी प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय नहीं प्राप्त करती थी ॥ ३५० ॥ जिनमें निरन्तर मच्छ—जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जलसे भरे हुए हैं, और अनेक प्रकारके फूलोंसे आच्छादित हैं ऐसे वहाँके सरोवर ज्योतिर्लोककी शोभा हरण करते हैं ॥ ३५१ ॥ वहाँके वृक्ष ठीक राजाओंके समान आचरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्पनेत्र—कमलपुष्पके समान नेत्रोंवाले होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी पुष्पनेत्र—पुष्प रूपी नेत्रोंसे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तुङ्ग—उदाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी समुत्तुङ्ग—बहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं—शाखाओंके समान लम्बी भुजाओंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी विटपायतबाहुवः—शाखाएँ ही जिनकी लम्बी भुजाएँ हैं ऐसे थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी सदा सुन्दर फलोंको धारण करनेवाले थे ॥ ३५२ ॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ स्त्रियोंके समान सुशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंके लाल लाल ओठ होते हैं उसी प्रकार वहाँकी

आमर्धं रसिकामूलात्पर्यन्ते विरसास्ततः । पीड्यन्ते सुतरां यन्त्रैरिक्षवो जितदुर्जनाः ॥ ३५४ ॥  
 शब्दनिष्पादने लोपः प्रध्वंसः पापवृत्तिषु । दाहो विरहिवर्गेषु वेधः<sup>१</sup> श्रवणयोर्द्वये ॥ ३५५ ॥  
 दण्डो दारुषु शस्त्रेषु निश्चिंशोक्तिस्तपस्विषु । निर्धनत्वं विदानत्वं महापाथे न दन्तिषु ॥ ३५६ ॥  
 सुरतेषु विलज्जत्वं कान्तकन्यासु याचनम् । तापोऽनलोपजीवेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३५७ ॥  
 नाकाण्डमृत्यवः सन्ति नापि दुर्मागंगामिनः । मुक्त्वा विग्रहिणो मुक्तमारणान्तिकविग्रहात् ॥ ३५८ ॥  
 प्राच्यवृत्तिविपर्यासः संयमग्राहिणोऽ<sup>२</sup>भवत् । न षट्कर्मसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्वेषाम् ॥ ३५९ ॥  
 शालथो लीलया वृद्धिमुपेताः सर्वतर्पिणः । विनम्राः फलसम्प्राप्तौ भेषुः सद्भूमिपोपमाम् ॥ ३६० ॥  
 क्षरन्ति वारिदाः काले दुहते धेनवः सदा । फलन्ति भूरुहाः सर्वे पुष्पन्ति च लतास्तताः ॥ ३६१ ॥  
 नित्योत्सवाः निरातङ्गा निर्बन्धा धनिकाः प्रजाः । निर्मला<sup>३</sup> नित्यकर्माणो नियुक्ताः स्वासु वृत्तिषु ॥ ३६२ ॥

लताओंमें लाल पल्लव थे, जिस प्रकार स्त्रियाँ मन्द मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ फूलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ तन्वङ्गी-पतली होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी तन्वङ्गी-पतली थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ काले काले केशोंसे युक्त होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी काले काले भ्रमरोंसे युक्त थीं, और जिस प्रकार स्त्रियाँ सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र-रचनाओंसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त थीं ॥ ३५३ ॥ जो मूलसे लेकर मध्यभाग तक रसिक हैं और अन्तमें नीरस हैं ऐसे दुर्जनोको जीतनेवाले ईख ही वहाँपर यन्त्रों द्वारा अच्छी तरह पीडे जाते थे ॥ ३५४ ॥ वहाँपर लोप-अनुबन्ध आदिका अदर्शन शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं होता था, नाश पापरूप प्रवृत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुष्योंमें होता था और वेध अर्थात् छेदना दोनों कानोंमें होता था, दूसरी जगह नहीं ॥ ३५५ ॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमें था । वहाँके प्रजामें दण्ड अर्थात् जुर्माना नहीं था, निश्चिंशता अर्थात् तीक्ष्णता केवल शस्त्रोंमें थी वहाँकी प्रजामें निश्चिंशता अर्थात् दुष्टता नहीं थी, निर्धनता अर्थात् निष्परिग्रहता तपस्वियोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें निर्धनता अर्थात् गरीबी नहीं थी और विदानत्व अर्थात् मदका अभाव, मद सूख जानेपर केवल हाथियोंमें ही था वहाँकी प्रजामें विदानत्व अर्थात् दान देनेका अभाव नहीं था ॥ ३५६ ॥ निर्लज्जपना केवल संभोग क्रियाओंमें था, याचना केवल सुन्दर कन्याओंकी होती थी, ताप केवल अग्निसे आजीविका करनेवालों में था और मारण केवल रसवादियोंमें था—रसायन आदि बनानेवालोंमें था ॥ ३५७ ॥ वहाँ कोई असमयमें नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंको छोड़कर अन्य कोई विग्रही-शरीर रहित तथा मोड़ासे रहित नहीं थे ॥ ३५८ ॥ मिथ्या नयसे द्वेष रखनेवाले चारों ही वर्णवाले जीवोंके देवपूजा आदि छह कर्मोंमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उल्लंघन नहीं था अर्थात् देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योंकी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली आई थी उसीके अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे । यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उल्लंघन था तो संयम ग्रहण करनेवालेके ही था अर्थात् संयमी मनुष्य ही पहलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उल्लंघनकर संयमकी नई प्रवृत्ति स्वीकृत करता था ॥ ३५९ ॥ लीलापूर्वक वृद्धिको प्राप्त हुए एवं सबको सन्तुष्ट करनेवाले धान्यके पौधे, फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे—नीचेको झुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी उपमाको धारण कर रहे थे ॥ ३६० ॥ वहाँ भेष समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दूध देती थीं, सब वृक्ष फलते थे और फैली हुई लताएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं ॥ ३६१ ॥ वहाँकी प्रजा नित्योत्सव थी अर्थात् उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातङ्ग थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी नहीं होती थी, निर्बन्ध थी हठ रहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी और अपने अपने कर्मोंमें लगी रहती थी ॥ ३६२ ॥

हास्तिनाख्या पुरी तस्य शुभा नाभिरिवाबभौ । शृशं देशस्य देहस्य महती मध्यवर्तिनी ॥ ३६३ ॥  
भूरिनीरभवानेकप्रसूनोदितभूतिभिः । तिसृभिः परिखाभिस्तन्नगरं परिवेष्टितम् ॥ ३६४ ॥  
विभाति गोपुरोपेतद्वाराट्टालकपङ्क्तिभिः । वप्रप्राकारदुर्लङ्घ्यं सुरजैः कपिशीर्षकैः ॥ ३६५ ॥  
इन्द्रकोशैर्वृहच्चन्द्रैर्युक्तं देवपथादिभिः । महाक्षुद्राग्रिमद्वारैर्वीथिभिर्बहुभिश्च तत् ॥ ३६६ ॥  
राजमार्गां विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वर्गापवर्गमार्गाभाः सञ्चरन्चारुवृषयः ॥ ३६७ ॥  
न नेपथ्यादिभिर्भेदस्तद्भुवां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचोबोधादिभिर्भेदा ॥ ३६८ ॥  
तत्पुर्यां सौधकूटाप्रवद्धध्वजनिरोधनात् । नातपस्य प्रवेशोऽस्ति विघनार्कदिनेष्वपि ॥ ३६९ ॥  
पुष्पाङ्गरागधूपदिसौगन्ध्यान्धीकृतालिभिः । भमस्त्रिस्तत्र खे प्राचूटशङ्का गृहशिखण्डिनाम् ॥ ३७० ॥  
रूपलावण्यकान्त्यादिगुणैर्युवतिभिर्युताः । युवानस्तैश्च तास्तत्र तदन्वोन्यसुखावहाः ॥ ३७१ ॥  
मदनोद्दीपनद्रव्यैर्निसर्गप्रेमतो गुणैः । कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिस्तत्र निरन्तरम् ॥ ३७२ ॥  
अर्हिसालक्षणो धर्मो यतथो विगतस्पृहाः । देवोऽर्हन्नैव निर्दोषस्तत्सर्वेऽप्यत्र धार्मिकाः ॥ ३७३ ॥  
यत्किञ्चित् सञ्चितं पापं पञ्चसूनादिवृत्तिभिः । पात्रदानादिभिः सद्यस्तद्विलम्बन्युपासकाः ॥ ३७४ ॥  
न्याय्यो नृपः प्रजा धर्म्यां निर्जन्तु क्षेत्रमन्वहम् । स्वाध्यायस्तत्पुरं तस्मान्न त्यजन्ति यतीश्वराः ॥ ३७५ ॥  
नानापुष्पफलानम्रमहीजैर्नन्दनैर्वनैः । नन्दनं च विजियेत तत्पुरोपान्तवर्तिभिः ॥ ३७६ ॥

जिस प्रकार शरीरके मध्यमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजाङ्गल देशके मध्यमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है ॥ ३६३ ॥ अगाध जलमें उत्पन्न हुए अनेक पुष्पों-द्वारा जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसी तीन परिखाओंसे वह नगर घिरा हुआ था ॥ २६४ ॥ धलिके ढेर और कोटकी दीवारोंसे दुर्लङ्घ्य वह नगर गोपुरोंसे युक्त दरवाजों, अट्टालिकाओंकी पंक्तियों तथा बन्दरोके शिर जैसे आकारवाले बुरजोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ ३६५ ॥ वह नगर, राज-मार्गमें ही मिलने वाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े आदिके चित्रों तथा बहुत छोटे दरवाजों वाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था ॥ ३६६ ॥ जो सार वस्तुओंसे सहित हैं तथा जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरसे उधर टहला करते हैं ऐसे वहाँके राजमार्ग स्वर्ग और मोक्षके मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७ ॥ वहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें श्रेष्ठ वस्तुओंसे उत्पन्न हुए नेपथ्य—वस्त्राभूषणादि से कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवस्था, वर्ण, वचन और ज्ञानकी अपेक्षा भेद था ॥ ३६८ ॥ उस नगरमें राजभवनोंके शिखरोंके अग्रभाग पर जो ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जब सूर्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोंमें भी धूपका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥ ३६९ ॥ पुष्प, अङ्गराग तथा धूप आदिकी सुगन्धिसे अन्धे होकर जो भ्रमर आकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे उनसे घरके मयूरोंको वर्षाऋतुकी शङ्का हो रही थी ॥ ३७० ॥ वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि गुणोंसे युक्त युवक युवतियोंके साथ और युवतियाँ युवकोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक दूसरेको सुख पहुँचाती थीं ॥ ३७१ ॥ वहाँ कामको उद्दीपित करनेवाले पदार्थ, स्वाभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे स्त्री-पुरुषोंमें निरन्तर प्रीति बनी रहती थी ॥ ३७२ ॥ वहाँ धर्म अर्हिसा रूप माना जाता था, मुनि इच्छारहित थे, और देव रागादि दोषोंसे रहित अर्हन्त ही माने जाते थे इसलिए वहाँके सभी मनुष्य धर्मात्मा थे ॥ ३७३ ॥ वहाँके श्रावक, चक्की चूला आदि पाँच कार्योंसे जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥ ३७४ ॥ वहाँका राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जीवरहित—प्रासुक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नहीं छोड़ते थे ॥ ३७५ ॥ जिनके वृक्ष अनेक पुष्प और फलोंसे नम्र हो रहे हैं तथा जो सबको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्ती

१ महाक्षुद्राणि सद्द्वारैः ख० । महाक्षुद्राणि मद्द्वारैः म०, ग० । महाक्षुद्रादिसद्द्वारैः क०, घ० । २ विघ्नार्कदिनेष्वपि (?) ख० । ३ तत्तेऽन्योन्यसुखावहाः क०, घ०, म० । धत्तेऽन्योन्यसुखावहाः ग० । सुखावहं ख० । ४ निर्जन्तुः ख० । ५ क्षतानम्र-ख० ।

निष्पन्नसारवस्तूनां निःशेषाणां निजोद्भव-। स्थानेष्वनुपभोग्यत्वात्तदेवायान्ति सर्वतः ॥ ३७७ ॥  
 तत्रस्थैरेव भुज्यन्ते तानि दानेन चेद्बहिः । निर्यान्ति यान्तु तत्तादृक् त्यागिभोगिजनैश्चितम् ॥ ३७८ ॥  
 तत्र तादात्मिकाः सर्वे तत्र दोषाय कल्पते । तत्पण्यात् सर्ववस्तूनि वर्द्धन्ते प्रत्यहं यतः ॥ ३७९ ॥  
 ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे भुवोऽभूद्राजमन्दिरम् । महामेरुनिभं भास्वद्ब्रह्मशालादिभूषितम् ॥ ३८० ॥  
 यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरम् । उद्धृतिं वो ज्वलद्ब्रह्महर्म्याण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८१ ॥  
 तद्राजधानीनाथस्य काश्यपाण्यभस्वतः । भूपस्याजितसेनस्य चित्तनेत्रप्रियप्रदा ॥ ३८२ ॥  
 १बालचन्द्रादिलुस्वप्नदर्शिनी प्रियदर्शना । ब्रह्मकल्पच्युतं स्रुं विश्वसेनमजीजनत् ॥ ३८३ ॥  
 गन्धारविषयस्थ्यात् २गान्धारनगरेशिनः । अजितञ्जयभूर्भर्तुरजितायां सुता गता ॥ ३८४ ॥  
 सनत्कुमारतदैराख्या विश्वसेनप्रियाऽभवत् । श्रीह्रीधृत्यादिसंसेव्या नभस्ये कृष्ण<sup>३</sup>सप्तमी ॥ ३८५ ॥  
 दिने भरणिनक्षत्रे यामिनीतुर्धभागगा । स्वमान् षोडश साऽऽक्षीत्साक्षात्पुत्र<sup>४</sup>फलप्रदान् ॥ ३८६ ॥  
 दरनिद्रासमुद्भूतबोधा शुद्धसुवासना । तदनन्तरमैक्षिष्ट प्रविष्टं वदनं<sup>५</sup> गजम् ॥ ३८७ ॥  
 तदैवासौ दिवो देवस्ततो मेघरथाभिधः । तस्यामवतरद् गर्भं शुक्रौ<sup>६</sup> मुक्तोदबिन्दुवत् ॥ ३८८ ॥  
 तदैव यामभेरी च तत्त्वमश्रुभसूचिनी । जजम्भे मधुरं सुप्तं बोधयन्तीव सुन्दरीम् ॥ ३८९ ॥  
 पद्मिनीव तदाकर्ण्य विकसन्मुखपङ्कजा । शय्यागृहात्समुत्थाय कृतमङ्गलमज्जना ॥ ३९० ॥

वनोसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था ॥ ३७६ ॥ संसारमें जितनी श्रेष्ठ वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उन सबका अपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सब जगहकी श्रेष्ठ वस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं और वहाँके रहनेवाले ही उनका उपभोग करते थे । यदि कोई पदार्थ वहाँसे बाहर जाते थे तो दानसे ही बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी जनोसे व्याप्त था ॥ ३७७-३७८ ॥ उस नगरके सब लोग तादात्मिक थे—सिर्फ वर्तमानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खर्च कर देते थे । उनकी यह प्रवृत्ति दांषाधायक नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ॥ ३७९ ॥ उस नगरमें ब्रह्मस्थानके उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल—उत्तमकोट आदिसे विभूषित था और भद्रशाल आदि वनोसे सुशोभित महामेरुके समान जान पड़ता था ॥ ३८० ॥ उस राजमन्दिरके चारों ओर यथा-योग्य स्थानों पर जो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए थे वे मेरुके चारों ओर स्थित नक्षत्रोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ३८१ ॥ उस हस्तिनापुर राजधानीमें काश्यपगोत्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे । उनके चित्त तथा नेत्रोंको आनन्द देनेवाली प्रियदर्शना नामकी स्त्री थी । उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्मस्वर्गसे च्युत हुए विश्वसेन नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ ३८२-३८३ ॥ गन्धार देशके गान्धार नगरके राजा अजितञ्जयके उनकी अजिता रानीसे सनत्कुमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई थी । श्री ह्री धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं । भादों बदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें रात्रिके चतुर्थ भागमें उसने साक्षात् पुत्र रूप फलको देनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ ३८४-३८६ ॥ अल्पनिद्राके बीच जिसे कुल्ल-कुल्ल ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्धि प्रकट हो रही है ऐसी रानी ऐराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ ३८७ ॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमें आकर उस तरह अवतीर्ण हो गया जिस तरह कि शुक्तिमें मोती रूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अवतीर्ण होती है ॥ ३८८ ॥ उसी समय सोती हुई सुन्दरीको जगानेके लिए ही मानो उसके शुभ स्वप्नोंको सूचित करनेवाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी ॥ ३८९ ॥ उस भेरीको सुनकर रानी ऐराका मुख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा । उसने शय्यागृहसे उठकर मङ्गल-ज्ञान किया,

१ बाला चन्द्रादि-ल० । २ गन्धार क०, ग०, म०, ल० । ३ सप्तमे ल० । ४ साक्षात्सत्य-ल०, ल०, ग०, म० । ५ वदने ल० । ६ स्वातौ ल० ।

तत्कालोचितनेपथ्या कल्पवल्लीव जङ्गमा । सितातपत्रवित्रासिताकंबालांशुमालिका ॥ ३९१ ॥  
 प्रकीर्णकपरिक्षेपप्रपञ्चितमहोदया । जनैः कतिपयैरेव प्रत्यासन्नैः परिष्कृता ॥ ३९२ ॥  
 साऽविशच्चन्द्ररेखाभा सभामिव विभावरीम् । कृतोपचारविनयां<sup>१</sup> तामाह्वांसनमापयत् ॥ ३९३ ॥  
 नृपं साभिनिवेद्यात्मदृष्टं<sup>२</sup> स्वप्नावलीं क्रमात् । तत्फलान्यप्यबोधितं राज्ञः सावधिलोचनात् ॥ ३९४ ॥  
 स्वर्गात्तदैव देवेन्द्राः सह देवैश्चतुर्विधैः । स्वर्गावतारकल्याणं सम्प्राप्य समुपादयन् ॥ ३९५ ॥  
 त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे बद्धमाने<sup>३</sup> महोदयैः । अभ्येत्य नवमं मासं माता त्रिजगदीशितुः ॥ ३९६ ॥  
 मासान् पञ्चदश प्राप्तं रत्नवृष्ट्याऽभरार्चना । शुचौ कृष्णचतुर्दश्यां याम्ययोगे निशात्यये ॥ ३९७ ॥  
 नन्दनं जगदानन्दसन्दोहमिव सुन्दरम् । अमृतामलसद्वांधत्रितयोज्ज्वललोचनम् ॥ ३९८ ॥  
 शङ्खभेरीगजारातिघण्टारावावबोधिताः । जैनं<sup>४</sup> जन्मोत्सवं देवाः सम्भूय समवर्द्धयन् ॥ ३९९ ॥  
 तदा शची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तरा । गर्भगहं प्रविश्योच्चैर्मायानिद्रावशीकृताम् ॥ ४०० ॥  
 जिनेन्द्रजननीमैरां कुमारसहितं<sup>५</sup> सतीम् । परीत्य प्रणम्याच्यां मायाविष्कृतबालका ॥ ४०१ ॥  
 त्रिलोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम् । कुमारवरमादाय विश्वामरनमस्कृतम् ॥ ४०२ ॥  
 मृदुबाहुयुगाश्रीत्वा स्वपतेरकरोत्करे । ऐरावतगजस्कन्धमारोप्य महतां पतिः ॥ ४०३ ॥  
 पुरेव पुरुदेवं तं सुराद्रेर्मस्तकपितम् । अभिषिच्याम्बुभिः क्षीरमहाम्भोनिधिसम्भवैः ॥ ४०४ ॥

उस समयके योग्य वस्त्राभूषण पहने और चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान किया। उस समय वह अपने ऊपर लगाये हुए सफेद छत्रसे बालसूर्यकी किरणोंके समूहको भयभीत कर रही थी, दुरते हुए चमरोसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, और पासमें रहनेवाले कुछ लोगोसे सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने राजसभामें प्रवेश किया। औपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन दिया ॥ ३९०-३९३ ॥ उसने अपने द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-क्रमसे राजाको सुनाई और अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे उनका फल मालूम किया ॥ ३९४ ॥ उसी समय चतुर्णिकायके देवोंके साथ स्वर्गसे इन्द्र आये और आकर गर्भावतारकल्याणक करने लगे ॥ ३९५ ॥ उधर रानीके गर्भमें इन्द्र बड़े अभ्युदयके साथ बढ़ने लगा और इधर त्रिलोकीनाथकी माता रानी पन्द्रह माह तक देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही। जब नवौं माह आया तब उसने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन याम्ययोगमें प्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समूह ही हो। साथ ही अत्यन्त निर्मल मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था ॥ ३९६-३९८ ॥ शङ्खनाद, भेरीनाद, सिंहनाद और घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्मकी सूचना दी गई है ऐसे चारों निकायोंके देवोंने मिल कर जिनेन्द्र भगवान्का जन्मोत्सव बढ़ाया ॥ ३९९ ॥ उस समय दिशाओंके मध्यको प्रकाशित करने-वाली महादेवी इन्द्राणीने गर्भ-गृहमें प्रवेश किया और कुमारसहित पतिव्रता जिनमाता ऐराको मायामयी निद्राने वशीभूत कर दिया। उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया और एक मायामयी बालक उसके सामने रख कर जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ठ कुमार जिन-बालकको उठा लिया तथा अपनी दोनों कोमल भुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमें सौंप दिया। इन्द्रने उन्हें ऐरावत हाथीके कन्धे पर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान् आदिनाथको सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका अभिषेक

१ वामार्धासन-ल० । २ दृष्टां स्वप्नावलीं ग०, ख०, म०, ल० । ३ वर्धमानमहोदयैः क०, घ० ।  
 ४ जैनजन्मोत्सवं क०, घ०, ख० । जिनजन्मोत्सवं ग० । ५ शची ल०, म०, क०, घ० । ६ परीत्य त्रिः प्रणम्यान्वं  
 मायाविष्कृतबालकम् ल० ।

प्रसाधनविशेषाणामपि चैकं प्रसाधनम् । आचारपालनायैव भूषयित्वा विभूषणैः ॥ ४०५ ॥  
 १सर्वशान्तिप्रदो देवः शान्तिरित्यस्तु नामभाक् । इति तस्याभिषेकान्ते नामासौ निरवर्तयत् ॥ ४०६ ॥  
 प्रीत्या सुरवरैः सार्द्धं मन्दरादित्य मन्दिरम् । जनन्याः सर्वमावेद्य जगदीशं समर्पयत् ॥ ४०७ ॥  
 भृत्यच्चोदितानन्दो २ बहुभावरसोदयः । सम्मदत्रचेदमर्यादः सरार्गं कं न नर्तयेत् ॥ ४०८ ॥  
 लोकपालांश्लोकानां पालकस्य महात्मनः । बालकस्यास्य कल्पेशः पालकान्पर्यंकल्पयत् ॥ ४०९ ॥  
 इति द्वितीयकल्याणसाकल्यसमनन्तरम् । सशक्राः सर्वगीर्वाणाः स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४१० ॥  
 चतुर्विभक्तपत्न्योपमश्र्यशोनत्रिसागरे । धर्मतीर्थस्य सन्ताने पत्युतुर्याशशेषिते ॥ ४११ ॥  
 व्युच्छिन्ने युक्तिसन्मार्गे तदभ्यन्तरजीवितः । शान्तिः समुद्रपाथानमन्तरामरनायकः ॥ ४१२ ॥  
 लक्षासमायुश्चत्वारिंशत्पापङ्गः सुवर्णरुक् । ध्वजतोरणसूर्येन्दुशङ्खचक्रादिलक्षणः ॥ ४१३ ॥  
 पुण्याद् दृढरथो दीर्घमनुभूयाहमिन्द्रताम् । विश्वसेनाद्यशस्वत्यां सुतश्चक्रायुधोऽभवत् ॥ ४१४ ॥  
 महामणिरिवाम्भोधौ गुणानां वा गणो मुनी । तत्र शान्तिरगाद् वृद्धिं ३ प्रमदो बोदितोदिते ॥ ४१५ ॥  
 वर्द्धन्ते स्म गुणास्तस्मिन् स्पर्द्धेनावयवैः क्रमात् । ४ तथा विधाय सौन्दर्यं कीर्तिर्लक्ष्मीः सरस्वती ॥ ४१६ ॥  
 अभात्तस्यात्तसौन्दर्यं रूपमापूर्णयौवने । विधोर्विधूतवैकल्यमिव पर्वणि मण्डलम् ॥ ४१७ ॥  
 मृदवस्तनवः स्निग्धाः कृष्णाः केशाः ५ सुकुञ्चिताः । प्राञ्जिताश्चञ्चरीकाभाः शुभास्तन्मस्तकस्थिताः ॥ ४१८ ॥  
 शिरो विराजते तस्य शिखरं वा मरुन्मरोः । ललाटात्पट्टभाजोऽस्माद्दहमेवोपरीति वा ॥ ४१९ ॥

किया ॥ ३६६-४०४ ॥ यद्यपि भगवान् स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंसे एक आभूषण थे तथापि इन्द्रने केवल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूषणोंसे विभूषित किया था ॥ ४०५ ॥ 'ये भगवान् सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्ति' इस नामको प्राप्त हों' ऐसा सोच कर इन्द्रने अभिषेकके बाद उनका शान्तिनाथ नाम रक्खा ॥ ४०६ ॥ तदनन्तर धर्मेन्द्र सब देवोंके साथ बड़े प्रेमसे सुमेरु पर्वतसे राजमन्दिर आया और मातासे सब समाचार कह कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताको सौंप दिये ॥ ४०७ ॥ जिसे आनन्द प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भावों और रसोंका उदय हुआ है ऐसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही है क्योंकि जब हर्ष मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यको नहीं नचा देता ? ॥ ४०८ ॥ यद्यपि भगवान् तीन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनेके लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था ॥ ४०९ ॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ४१० ॥

धर्मनाथ तीर्थकरके बाद पौन पत्यु कर्म तीन सागर बीत जाने तथा पाव पत्यु तक धर्मका विच्छेद हो लेनेपर जिन्हें मनुष्य और इन्द्र नमस्कार करते हैं ऐसे शान्तिनाथ भगवान् उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी ॥ ४११-४१२ ॥ उनकी एक लाख वर्षकी आयु थी, चालीस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी, ध्वजा, तोरण, सूर्य, चन्द्र, शङ्ख और चक्र आदिके चिह्न उनके शरीरमें थे ॥ ४१३ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे दृढरथ भी दीर्घकाल तक अहमिन्द्र-पनेका अनुभवकर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ ४१४ ॥ जिस प्रकार समुद्रमें महामणि बढ़ता है, मुनिमें गुणोंका समूह बढ़ता है और प्रकट हुए अभ्युदयमें हर्ष बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे ॥ ४१५ ॥ उनमें अनेक गुण, अवयवोंके साथ स्पर्धा करके ही मानो क्रम-क्रमसे बढ़ रहे थे और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानो सगी बहिन ही हों ॥ ४१६ ॥ जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता-खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होनेपर उनका रूप सौन्दर्य प्राप्तकर अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ ४१७ ॥ उनके मस्तकपर इकट्ठे हुए भ्रमरोंके समान, कोमल पतले, चिकने, काले और घूँघरवाले शुभ बाल बढ़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ४१८ ॥ उनका शिर

१ अथ शान्ति म०, ल० । २ चोदितानन्दो ल० । ३ प्रमदो ल० । ४ यथा विधाय क०, ल०, ग०, घ०, म०, । ५ सुकुञ्चिताः ग०, म०, ल०, ।

शुद्धमीललाटपट्टेऽस्मिस्तस्य पट्टद्वयाचिता । राजतामिति वा तुङ्गं विस्तीर्णं च व्यधाद्विधिः ॥ ४२० ॥  
 सुरूपे कुटिले चास्य भ्रुवौ वेश्येव रेजतुः । कुटिलेति न रेखा किं पीयूषांशोविराजते ॥ ४२१ ॥  
 आधिक्यं चक्षुषोः प्राहुः शुभावयवचिन्तका । वीक्ष्य तच्चक्षुषी व्यक्तमितीयमनयोः स्तुतिः ॥ ४२२ ॥  
 कर्णौ तस्य न वर्ण्येते निःशेषश्रुतपात्रताम् । यातौ चेद् दुर्लभं तत्तु शोभान्यत्रापि विद्यते ॥ ४२३ ॥  
 अयं विनिजिताशेषं मोहमल्लं विजेष्यते । भात्वन्नैवेति वा तुङ्गा सङ्गता नासिका कृता ॥ ४२४ ॥  
 कपोलफलकौ श्लक्ष्णौ धात्रा वा विपुलौ कृतौ । नद्वन्नजसरस्वत्या विनादेन विलेखितुम् ॥ ४२५ ॥  
 स्मितभेदाः सरस्वत्याः किं किं शुद्धाक्षरावलिः । शङ्कामिति सिताः स्निग्धाः घनास्तेनुद्विजाः समाः ४२६ ॥  
 वटबिम्बप्रवालादि परेषां भवत्पमा । नास्याधरस्य तेनायं स्मर्यते नाधरोऽधरः ॥ ४२७ ॥  
 भवेच्चिबुकमन्येषां भाविशमश्रुः किमप्यदः । सदा दृश्यमिदं भावादित्यकारीव शोभनम् ॥ ४२८ ॥  
 क्षयी कलङ्की पङ्कोत्थं रजसा दूषितं ततः । नैतद्वन्नस्य साधर्म्यं धराः स्मेन्दुसरोरुहे ॥ ४२९ ॥  
 ध्वनिश्चेन्निरगतस्तस्माद्दिव्यो विश्वार्थदर्पणः । पृथक् सुकण्ठता तस्य कण्ठस्य किमु वर्ण्यते ॥ ४३० ॥  
 स्पन्दमानभुजाग्रभ्यां तौङ्म्येन शिरसा समम् । त्रिकूटहाटकाद्रिर्वा सोऽभात्रिसुवनप्रभुः ॥ ४३१ ॥  
 बाहू बहुतरं तस्य भातः स्माजानुलम्बिनौ<sup>१</sup> । धार्त्री सन्धर्तुकामौ वा केयूरादिविभूषणौ ॥ ४३२ ॥  
 व्यधाधि वेधसा तस्य विस्तीर्णं वक्षसः स्थलम् । असम्बाधं वसन्त्वस्मिन्निति वा बहवः श्रियः ॥ ४३३ ॥

मेरुपर्वतके शिखरके समान सुशोभित होता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट्टको प्राप्त होगा परन्तु उससे ऊँचा तो मैं ही हूँ ॥ ४१६ ॥ उनके इस ललाटपट्टपर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनोंसे पूजित लक्ष्मी सुशोभित होगी इस विचारसे ही मानो विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था ॥ ४२० ॥ उनकी सुन्दर तथा कुटिल भौहें वेश्याके समान सुशोभित हो रही थीं । 'कुटिल है' इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित नहीं होती अर्थात् अवश्य होती है ॥ ४२१ ॥ शुभ अवयवोंका विचार करनेवाले लोग नेत्रोंकी दीर्घताको अच्छा कहते हैं सो मालूम पड़ता है कि भगवान्के नेत्र देखकर ही उन्होंने ऐसा विचार स्थिर किया होगा । यही उनके नेत्रोंकी स्तुति है ॥ ४२२ ॥ यदि उनके कान समस्त शास्त्रोंकी पात्रताको प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक बात दुर्लभ है । शोभा तो दूसरी जगह भी हो सकती है ॥ ४२३ ॥ 'ये भगवान्, सबको जीतनेवाले मोहरूपी मल्लको जीतेंगे इसलिए ऊँची नाक इन्हींमें शोभा दे सकेगी' ऐसा विचारकर ही मानो विधाताने उनकी नाक कुछ ऊँची बनाई थी ॥ ४२४ ॥ उनके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती यिनोदसे कुछ लिखेगी यह विचार कर ही मानो विधाताने उनके कपोलरूपी पट्टिये चिकने और चौड़े बनाये थे ॥ ४२५ ॥ उनके सफेद चिकने सघन और एक बराबर दांत यही शङ्का उत्पन्न करते थे कि क्या ये सरस्वतीके मन्द हास्यके भेद हैं अथवा क्या शुद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैं ॥ ४२६ ॥ बरगदका पका फल, विम्बफल और मूंगा आदि दूसरोंके ओठोंकी उपमा भले ही हो जावें परन्तु उनके ओठकी उपमा नहीं हो सकते इसीलिए इनका अधर—ओठ अधर—नीच नहीं कहलाता था ॥ ४२७ ॥ अन्य लोगोंका चिबुक तो आगे होने वाली ढाड़ीसे ढक जाता है परन्तु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था इससे जान पड़ता है कि वह केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था ॥ ४२८ ॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलङ्कसे युक्त है और कमल कीचड़से उत्पन्न है तथा रजसे दूषित है इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सदृशता नहीं धारण कर सकते ॥ ४२९ ॥ यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थोंको प्रकट करने वाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥ ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ ऊँचाईके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कर्णोंसे ऐसे सुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंवाला सुवर्णगिरि ही हो ॥ ४३१ ॥ घुटनों तक लम्बी एवं केयूर आदि आभूषणोंसे विभूषित उनकी दोनों भुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो पृथिवीको उठाना ही चाहती हों ॥ ४३२ ॥ बहुत-सी लक्ष्मियों



व्यासमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधात्तराम् । मध्वीकृतार्कसन्ध्याभ्रहेमाद्रितटसन्निभम् ॥ ४३४ ॥  
 तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि विभर्त्युर्ध्वतनोर्भरम् । गुरुं निराकुलं तस्य तानवं तेन शोभते ॥ ४३५ ॥  
 गम्भीरा दक्षिणावर्ता तस्याभ्युदयसुचिनी । नाभिः सपद्मा मध्यस्था स्यात्पदं न स्तुतेः कुतः ॥ ४३६ ॥  
 कटीतटी कटीसूत्रधारिणी हारिणी भृशम् । सवेदिकास्थली वास्य जम्बूद्वीपस्य भासते ॥ ४३७ ॥  
 घृते श्लक्ष्णे सुखस्पर्शे स्तां रम्भास्तम्भसन्निभे । किन्त्वस्योरु सदादत्तफले गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥  
 मर्यादाकारि यत्समात्तदेतस्योरुजङ्घयोः । शस्यं जानुद्वयं सद्भिः सक्तियं किञ्च शस्यते ॥ ४३९ ॥  
 नमिताशेषदेवेन्द्रौ पादपद्मौ श्रिया श्रितौ । तयोरुपरि चेज्जङ्घे तस्य का वर्णना परा ॥ ४४० ॥  
 गुल्फयोरिव मन्त्रस्य गूढतेव गुणोऽभवत् । फलदा सा ततः सर्वं फलकृत्वाद् गुणि स्मृतम् ॥ ४४१ ॥  
 कूर्मपृष्ठौ क्रमौ तस्य श्रित्वा तौ सुस्थिता धरा । घृता कूर्मेण धात्रीति ध्रुवं रुढिस्ततोऽभवत् ॥ ४४२ ॥  
 पीनावप्रोन्नतौ सुस्यौ तस्यांगुष्ठौ सुखाकरौ । रेजतुर्दर्शयन्तौ वा मार्गं स्वर्गापवर्गयोः ॥ ४४३ ॥  
 अष्टावंगुलयस्तस्य वभुः श्लिष्टाः परस्परम् । कर्माण्यष्टावपह्लोतुं निर्गता एव शक्तयः ॥ ४४४ ॥  
 दशधर्माः पुरेवैनं तद्दव्याजेनेव सेवितुम् । क्रमौ समाश्रितास्तस्य व्यराजन्त नखाः सुखाः ॥ ४४५ ॥  
 अस्यावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ । इतीव रागिणौ तस्य पादौ पल्लवसन्निभौ ॥ ४४६ ॥

एक दूसरेकी बाधाके बिना ही इसमें निवास कर सकें यह सोचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षःस्थल बहुत चौड़ा बनाया था ॥ ४३३ ॥ जिसके मध्यमें मणियोंकी कान्तिसे सुशोभित हार पड़ा हुआ है ऐसा उनका वक्षःस्थल, जिसके मध्यमें संध्याके लाल लाल बादल पड़ रहे हैं ऐसे हिमाचलके तटके समान जान पड़ता था ॥ ४३४ ॥ मुट्टीमें समानेके योग्य उनका मध्यभाग चूंकि उपरिवर्ती शरीरके बहुत भारी बोझको बिना किसी आकुलताके धारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक ही शोभा देता था ॥ ४३५ ॥ उनकी नाभि चूंकि गम्भीर थी, दक्षिणावर्तसे सहित थी। अभ्युदय, को सूचित करने वाली थी, पद्मचिह्नसे सहित थी और मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान—प्रशंसाका पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥ ४३६ ॥ करधनीको धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी और जम्बूद्वीपकी वेदीसहित जगतीके समान जान पड़ती थी ॥ ४३७ ॥ उनके ऊरु केलेके स्तम्भके समान गोल, चिकने तथा स्पर्श करने पर सुख देने वाले थे अन्तर केवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक बार फल देते हैं परन्तु वे बारबार फल देते थे और केलेके स्तम्भ बोझ धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं परन्तु वे बहुत भारी बोझ धारण करनेमें समर्थ थे ॥ ४३८ ॥ चूंकि उनके घुटनोंने ऊरु और जंघा दोनोंके बीच मर्यादा कर दी थी—दोनोंकी सीमा बांध दी थी इसलिए वे सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे ? अवश्य की जावे ॥ ४३९ ॥ उनके चरणकमल समस्त इन्द्रोंको नमस्कार फराते थे तथा लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी। जब उनके चरणकमलोंका यह हाल था तब जङ्घाएँ तो उनके ऊपर थीं इसलिए उनका और वर्णन क्या किया जाय ? ॥ ४४० ॥ जिस प्रकार मन्त्रमें गूढ़ता गुण रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों—एड़ीके ऊपरकी गांठोंमें गूढ़ता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणता फल देने वाली थी सो ठीक ही है क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होनेसे ही गुणी कहलाते हैं ॥ ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोंका पृष्ठभाग कञ्चुएके समान था और यह पृथिवी उन्हींका आश्रय पा कर निराकुल थी। जान पड़ता है कि 'पृथिवी कञ्चुएके द्वारा धारण की गई है, यह रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥ ४४२ ॥ उनके दोनों अंगुठे स्थूल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग ही दिखला रहे हों ॥ ४४३ ॥ परस्परमें एक दूसरेसे सटी हुई उनकी आठों अँगुलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो आठों कर्मोंका अपह्नव करनेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों ॥ ४४४ ॥ उनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख ऐसे सुशोभित होते थे मानो उन नखोंके बहाने उत्तम क्षमा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों ॥ ४४५ ॥ हम भगवान्के शरीरके अवयव हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव हम दोनोंको नमस्कार

नामृतांशोर्निशासङ्गदुष्णत्वाद्भास्करस्य च । तेजस्तस्योपमानं स्याद् १ भूषणक्षमाजतेजसः ॥ ४४७ ॥  
 कान्तेः का वर्णना तस्य यदि शक्रः सहस्रदक् । शचीवदनपङ्केजविमुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥  
 भूषणानां कुलं लेभे शोभां तस्याङ्गसङ्गमात् । महामणिनिबद्धेऽसुधौतकलधौतवत् ॥ ४४९ ॥  
 स्वनामश्रुतिसंश्रुष्यन्मदारिकरिसंहतेः । रवोऽराजत राजेशो राजकण्ठारवस्य वा ॥ ४५० ॥  
 कीर्तिवल्लीं जगत्प्रान्तं प्राप्य प्रागेव जन्मनः । तदीयालम्बनाभावादिव तावति सुस्थिता ॥ ४५१ ॥  
 कुरुरूपवयःशीलकलाकान्त्यादिभूषणाः । कन्यकास्तत्पिता तेनाथोजयद्रतिदायिनीः ॥ ४५२ ॥  
 कामिनीनीलर्नरैजदलोऽज्वलविलोचनैः । प्रेमामृताम्बुसंसिक्तैर्मुहुंरुहाह्लादिताशयः ॥ ४५३ ॥  
 वल्लभावलितालोलालालसविलोकनैः । स्वमनोधनलुण्टाकैरखण्डं श शमेयिवान् २ ॥ ४५४ ॥  
 ३ पञ्चवर्गसहस्राब्दकाले गतवतींशितुः । कौमारेण सुखैरेव दिव्यमानुपगोचरैः ॥ ४५५ ॥  
 ततोऽनु तत्प्रमाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्छिन्नभोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥  
 साम्राज्यसन्धनान्यस्य चक्रादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभूवन्नव चाविष्कृतौजसः ॥ ४५७ ॥  
 तेषु चक्रात्पत्रासिदण्डाः शङ्खगृहेऽभवन् । काकिणीं चर्मचूलादिमणिश्च श्रीनिकेतने ॥ ४५८ ॥  
 पुरोधः स्थपतिः सेनापतिर्गृहपतिश्च ते । हास्तिनाख्यपुरे कन्यागजाश्वाः खगभूधरे ॥ ४५९ ॥  
 नवापि निधयः पूज्या नदीसागरसङ्गमे । तदानीमेव देवेशैरानीताः पुण्यचोदितैः ॥ ४६० ॥  
 इत्याधिपत्यमासाद्य दशभोगाङ्गसङ्गतः । तावत्येव गते काले स्वालङ्कारालयान्तरे ॥ ४६१ ॥

करते हैं यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तोंके समान उनके दोनों पैर रागी—रागसहित अथवा लालरंगके हो रहे थे ॥ ४४६ ॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है और सूर्य उष्ण है अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं हो सकते। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूषणांग जातिके कल्पवृक्षके तेजके समान था ॥ ४४७ ॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके मुखकमलसे विमुख होकर उनकी ओर देखता रहता है तब उनकी कान्तिका क्या वर्णन किया जावे ? ॥ ४४८ ॥ जिस प्रकार महामणियोंसे निबद्ध देदीप्यमान उज्वल सुवर्ण सुशोभित होता है उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे आभूषणोंका समूह सुशोभित होता था ॥ ४४९ ॥ अपने नामके सुनने मात्रसे ही जिन्होंने शत्रुरूपी हाथियोंके समूहका मद सुखा दिया है ऐसे राजाधिराज भगवान् शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दके समान सुशोभित होता था ॥ ४५० ॥ उनकी कीर्तिरूपी लता जन्मसे पहले ही लोकके अन्त तक पहुँच चुकी थी परन्तु उसके आगे आलम्बन न मिलने से वह वहीं पर स्थित रह गई ॥ ४५१ ॥ उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था—अनेक कन्याओंके साथ उनका विवाह कराया था ॥ ४५२ ॥ प्रेमामृतरूपी जलसे सींचे हुए स्त्रियोंके नीलकमलदलके समान नेत्रोंसे वे अपना हृदय बार-बार प्रसन्न करते थे ॥ ४५३ ॥ अपने मनरूपी धनको लूटनेवाली स्त्रियोंकी तिरछी चञ्चल लीलापूर्वक और आलसभरी चितवनोंसे वे पूर्ण सुखको प्राप्त होते थे ॥ ४५४ ॥ इस तरह देव और मनुष्योंके सुख भोगते हुए भगवान्के जब कुमारकालके पच्चीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया। क्रम-क्रमसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पच्चीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकट करनेवाले भगवान्के साम्राज्यके साधन चक्र आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई ॥ ४५५—४५७ ॥ उन चौदह रत्नोंमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दण्ड, ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे, काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृहमें प्रकट हुए थे, पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति हस्तिनापुरमें मिले थे और कन्या गज तथा अश्व विजयार्थ पर्वत पर प्राप्त हुए थे ॥ ४५८—४५९ ॥ पूजनीय नौ निधियाँ भी पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंके द्वारा नदी और सागरके समागम पर लाकर दी गई थीं ॥ ४६० ॥ इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब

१ भूषणाङ्गकल्पवृक्षतेजसः । २ शम् सुखम् पयिवान् प्राप्तवान् । ३ पञ्चविंशत् ।

अलङ्कृतविभक्तिञ्छायाद्वयमालोक्य दर्पणे । साश्चर्यं चिन्तयन्नेतत्किमित्यन्तर्गतं कृती ॥ ४६२ ॥  
 लब्धवोधिर्मतिज्ञानक्षयोपशमसम्पदा । स्वजन्मान्तर<sup>१</sup>सन्तानं स्मृत्वा निर्वेदमाप्तवान् ॥ ४६३ ॥  
 घनच्छायासमाः<sup>२</sup>सर्वसम्पदः सशराहति- । विद्युदुद्द्युतिवच्छमीः कायो मायामथोऽपि वा ॥ ४६४ ॥  
 प्रातःछायायुरात्मीयाः परकीया वियोगवत् । संयोगो हानिवद्बुद्धिर्जन्मेदं पूर्वजन्मवत् ॥ ४६५ ॥  
 इति चेतसि सम्पश्यन् सर्वमेतन्महीपतिः । निर्गन्तुमुद्ययौ गोहाद् दूरीकृतदुराशयः ॥ ४६६ ॥  
 तदा लौकान्तिकाः प्राप्य धर्मतीर्थस्य वर्द्धने । कालोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिन्नसन्ततेः ॥ ४६७ ॥  
 इत्यवोचन्वचस्तेषामनुमत्य महामतिः । नारायणाय तद्राज्यं सूनवेऽश्राणयन्मुदा ॥ ४६८ ॥  
 ततः सुरगणाधीशविहिताभिषवोत्सवः । युक्तिमद्वचनैर्बन्धून् मोचयित्वाप्रणीः सताम् ॥ ४६९ ॥  
 सर्वार्थसिद्धिं शिविकामारूढ स मरुद्धताम् । सहस्राभ्रवनं प्राप्य कमनीयशिलातले ॥ ४७० ॥  
 कुबेरदिङ्मुखो बद्धपल्यङ्कासनसुस्थितः । ज्येष्ठ्ये मास्यसिते पक्षे चतुर्दश्यपराह्वके ॥ ४७१ ॥  
 ऋक्षे षष्ठोपवासेन भरण्यां प्रणिधानवान्<sup>३</sup> । कृतसिद्धनमस्कारस्त्यक्तवस्त्राद्युपच्छदः ॥ ४७२ ॥  
 पञ्चमुष्टिभिरल्लुब्ध केशान् क्लेशानिवायतान् । जातरूपं हसन् दीप्या जातरूपमवाप्य सः ॥ ४७३ ॥  
 सद्यः सामयिकीं ह्युद्धिं समनःपर्ययामगात् । केशास्तदैव देवेशो ज्वलत्पटलिकाश्रितान् ॥ ४७४ ॥  
 यथा बहुगुणीभूतानामोदमिलितालेभिः । पञ्चमाब्धितरङ्गाणां परभागे व्यधात्तराम् ॥ ४७५ ॥  
 चक्रायुधादि तद्राज्ञां सहस्रं सह संयमम् । शान्तिनाथेन सम्प्रापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥

उनके पच्चीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब एक दिन वे अपने अलंकार-गृहके भीतर अलंकार धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दर्पणमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिखे । वे बुद्धिमान् भगवान् आश्चर्यके साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ? ॥ ४६१-४६२ ॥ उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूर्व जन्मकी सब बातें जान कर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥ ४६३ ॥ वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ मेघोंकी छायाके समान हैं, लक्ष्मी इन्द्रधनुष और बिजलीकी चमकके समान हैं, शरीर मायामय है, आयु प्रातःकालकी छायाके समान है—उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोग परके समान हैं, संयोग वियोगके समान है, वृद्धि हानिके समान है और यह जन्मपूर्व जन्मके समान है ॥ ४६४-४६५ ॥ ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥ ४६६ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर कहा कि हे देव ! जिसकी चिरकालसे सन्तति टूटी हुई है ऐसे इस धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनका आपका यह समय है ॥ ४६७ ॥ महाबुद्धिमान् शान्तिनाथ चक्रवर्तीने लौकान्तिक देवोंकी वाणीका अनुमोदन कर अपना राज्य बड़े हर्षसे नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ४६८ ॥ तदनन्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिषेक किया । इस प्रकार सज्जनोंमें अग्रेसर भगवान् युक्तिपूर्ण वचनोंके द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर देवताओंके द्वारा उठाई हुई सर्वार्थसिद्धि नामकी पालकीमें आरूढ़ हुए और सहस्राभ्रवनमें जाकर सुन्दर शिलातल पर उत्तरकी ओर मुख कर पर्यकासनसे विराजमान हो गये । उसी समय ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दशीके दिन शामके वक्त भरणी नक्षत्रमें बेलाका नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया, सिद्ध भगवान्को नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पञ्चमुष्टियोंके द्वारा लम्बे क्लेशोंके समान केशोंको उखाड़ डाला । अपनी दीप्तिसे जातरूप—सुवर्णकी हँसी करते हुए उन्होंने जातरूप—दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, और शीघ्र ही सामायिक चारित्र सम्बन्धी विशुद्धता तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया । इन्द्रने उनके केशोंको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रख लिया । सुगन्धिके कारण उन केशों पर आकर बहुतसे भ्रमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कई गुणित हो गये हों । इन्द्रने उन केशोंको क्षीरसागरकी तरङ्गोंके उस ओर झेप दिया ॥ ४६९-४७५ ॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हजार राजाओंने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री

१ संजातं म० । २ चतुर्दश्यां पराह्वके म०, । चतुर्थ्यामपराह्वके ल० । ३ प्रणिप्रणिधानवत् ल० । ४ परं भार्गव० ।

भूयादस्माकमप्येवमित्याशासनतत्पराः । १पुण्यपण्यं समादाय २भक्तिमौल्येन भक्तिकाः ॥ ४७७ ॥  
 पाकशासनमुख्याश्च नाकलोकोन्मुखा<sup>३</sup> ययुः । ४स्वाशनाद् विश्वलोकेषु पवित्रं मन्दरं पुरम् ॥ ४७८ ॥  
 प्रविष्टाय प्रदायान्नं प्राप्तुं परमोत्सवात् । सुमित्राख्यमहरीपालः प्रापदाक्षर्यपञ्चकम् ॥ ४७९ ॥  
 क्रमादेवं तपः कुर्वन्नुर्वीं सर्वा पवित्रयन् । तनूकृतकषायः सन् मोहारातिजिगीषया ॥ ४८० ॥  
 बहुभिर्मुनिभिः सार्द्धं श्रीमान् चक्रायुधादिभिः । सहस्राभ्रवर्नं प्राप्य नन्द्यावर्ततरोरधः ॥ ४८१ ॥  
 श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन धवले दशमीदिने । पौषे मासि दिनस्यान्ते पत्यङ्कासनमास्थितः ॥ ४८२ ॥  
 प्राङ्मुखो बाह्यसामग्रीं नैर्ग्रन्थ्यादिमवाप्तवान् । कारणत्रयसम्प्राप्तं क्षपकश्रेणिमप्यगः ॥ ४८३ ॥  
 आरूढतुर्थचारित्ररथो धर्म्याभिधानभाक् । ध्यानासिंहतमोहारिर्वीतरागोऽन्त्यसंयमः ॥ ४८४ ॥  
 द्वितीयशुक्लसद्धानचक्रविच्छिन्नघातिकः । एवं षोडशवर्षाणि छाद्यस्थं भावमाश्रितः ॥ ४८५ ॥  
 निर्ग्रन्थो नीरजा वीतविघ्नो विश्वैकबान्धवः । केवलज्ञानसाम्राज्यश्रियं शान्तामशिश्रियत् ॥ ४८६ ॥  
 तदा तीर्थकराख्योरुपुण्यकर्ममहामरुत् । संक्षोभितचतुर्भेदसुरान्भोधिर्विजम्भितः ॥ ४८७ ॥  
 स्वसमुद्भूतसद्भक्तितरङ्गानीतपूजनः । रत्नावलीभिरित्येतं प्रार्थयत्प्राणमृत्युतिम् ॥ ४८८ ॥  
 चक्रायुधाद्यश्चास्य षट्त्रिंशद्गणनायकाः । शतान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाणां पारदर्शिनः ॥ ४८९ ॥  
 शून्यद्वितयवस्वैकचतुर्निर्मितशिक्षकाः । त्रिसहस्रावधिज्ञानसमुज्ज्वलविलोचनाः ॥ ४९० ॥

शान्तिनाथ भगवान्के साथ संयम धारण किया था ॥ ४७६ ॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर स्वर्गलोकके सन्मुख चले गये ॥ ४७७ ॥

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान् मन्दिरपुर नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें प्राप्तुकर आहार देकर पञ्चाक्षर्य प्राप्त किये ॥ ४७८-४७९ ॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथिवीको पवित्र किया और मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कृश किया ॥ ४८० ॥ चक्रायुध आदि अनेक मुनियोंके साथ श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथने सहस्राभ्रवर्नमें प्रवेश किया और नन्द्यावर्त वृक्षके नीचे तेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये । अत्यन्त श्रेष्ठ भगवान् पौष शुक्ल दशमीके दिन सार्यकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे । पूर्वकी ओर मुख था, निर्ग्रन्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई क्षपक श्रेणीके मध्यमें वे अवस्थित थे, सूक्ष्मसाम्पराय नामक चतुर्थ चारित्ररूपी रथ पर आरूढ़ थे, प्रथम शुक्लध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये । अन्तर्मुहूर्त बाद उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थाको प्राप्त रहे । मोहनीय कर्मका क्षय होनेसे वे निर्ग्रन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दर्शनावरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे वीतविघ्न हो गये और समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्त केवलज्ञानरूपी साम्राज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥ ४८१-४८६ ॥ उसी समय तीर्थकर नामका बड़ा भारी पुण्यकर्मरूपी महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको क्षुभित करता हुआ बड़े वेगसे बढ़ रहा था ॥ ४८७ ॥ अपने आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्ति रूपी तरङ्गोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं ऐसे सब लोग रत्नावली आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्की पूजा करने लगे ॥ ४८८ ॥

उनके समवसरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणधर थे, आठ सौ पूर्वोंके पारदर्शी थे, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, और तीन हजार अवधिज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे

१ पुण्यं पण्यं ल० । २ भक्तिमूल्येन ग० । ३ लोकोत्सुका म०, ल० । ४ स्वाश्रमान् विश्वलोकेशः ल० ।  
 ५ सम्प्राप्ति म०, ल० । ६ श्रेण्यां धर्म्याभिधानं न भवति, अतः 'शुक्लाभिधानभाग' इति पाठः शुद्ध प्रतिभाति ।

चतुःसहस्रसङ्ख्योक्तकेवलावगमेश्वराः । षट्सहस्राणि सम्प्रोक्तविक्रियाद्वावेभूषिताः ॥ ४९१ ॥  
 मनःपर्ययसद्बोधसहस्राणां चतुष्टयम् । शून्यद्वयचतुःपक्षलक्षिताः पूष्यवादिनः ॥ ४९२ ॥  
 ते द्विपष्टिसहस्राणि शर्वेषुपि मुनयो मताः । आर्यिका हरिषेणाद्याः खद्वयत्रिलषड्मिताः ॥ ४९३ ॥  
 श्रावकाः सुरकीर्त्याद्या लक्षद्वयनिरूपिताः । अर्हद्वास्यादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणास्ततः ॥ ४९४ ॥  
 देवा देव्योऽप्यसङ्ख्यातास्तिर्यक्जाः<sup>१</sup> सङ्ख्ययामिताः । इति द्वादशभिः सार्द्धं गणैः सद्धर्ममादिशत् ४९५  
 विहरन्मासमात्रायुः सम्मेदाचलमागतः । व्यपेतध्याहृतिर्योगमास्थायाचलितं विभुः ॥ ४९६ ॥  
 ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वरात्रेः कृतक्रियः । तृतीयशुक्लध्यानेन रुद्धयोगो विबन्धनः ॥ ४९७ ॥  
<sup>१</sup>भकारपञ्चकोच्चारमात्रकाले वियोगकः । चतुर्थशुक्लध्यानेन निराकृततनुत्रयः ॥ ४९८ ॥  
 भगान्भरगिनक्षत्रे लोकाग्रं गुणविग्रहः । अतीतकाले ताः सिद्धा यन्नानन्ता निरञ्जनाः ॥ ४९९ ॥  
 चतुर्विधामराः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रुद्धभक्तयः । कृत्वान्त्येष्टि तवागत्य स्वं स्वमावासमाश्रयन् ॥ ५०० ॥  
 चक्रायुधादयोन्वेवमाध्याथान्त्यतनुत्रयम् । हित्वा नव सहस्राणि निवृत्तिं यतथोऽगमन् ॥ ५०१ ॥

### मालिनी

इति परममवाप्य ज्ञानदृक्सौख्यवीर्यं—

स्फुरिततनुनिवासव्याहृतिस्थानमुच्चैः ।

सुरपतिदृढपूज्यः शान्तिभट्टारको वो

दिशत् परमसप्तस्थानसम्प्राप्तिमाप्तः ॥ ५०२ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कर्माण्यष्ट सकारणानि<sup>१</sup> सकलान्युन्मूल्य नैर्मल्यवान्

सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं निजमजः स्वीकृत्य कृत्वान्तगतः ।

॥ ४८८-४९० ॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह हजार विक्रियात्रद्विके धारकों-से सुशोभित थे ॥ ४९१ ॥ चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सौ पूज्यवादी उनके साथ थे ॥ ४९२ ॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सौ हरिषेणा आदि आर्यिकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अर्हद्वासीको आदि लेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार बारह गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे ॥ ४९३-४९५ ॥ विहार करते-करते जब एक माहकी आयु शेष रह गई तब वे भगवान् सम्मेदशिखर पर आये और विहार बन्द कर वहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये ॥ ४९६ ॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके पूर्व भागमें उन कृतकृत्य भगवान् शान्तिनाथने तृतीय शुक्लध्यानके द्वारा समस्त योगोंका निरोध कर दिया, बन्धका अभाव कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतने समय तक अयोगकेवली अवस्था प्राप्त की । वहाँ चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोकके अग्रभाग पर जा विराजे । उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था । अतीत कालमें गये हुए कर्ममलरहित अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहाँ जाकर वे विराजमान हो गये ॥ ४९७-४९९ ॥ उसी समय इन्द्र सहित, आलस्यरहित और बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार प्रकारके देव आये और अन्तिम संस्कार-निर्वाणकल्याणककी पूजा कर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ५०० ॥ चक्रायुधको आदि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंको छोड़ कर निर्वाणको प्राप्त हो गये ॥ ५०१ ॥

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख और वीर्यसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें निवास तथा परमोत्कृष्ट विहारके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें ॥ ५०२ ॥ जो

१ तिर्यक्काः ल० । २ इकार ख०, म०, ल० । ३ सफसान्यु-ख०, ग०, म०, ल० ।

स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्टं समाप्य स्फुटं  
 शान्तीशस्त्रिजगच्छिखामणिरभूदाविर्भवव्याभवः ॥ ५०३ ॥  
 श्रीषेणः कुरुजः सुरः खगपतिर्देवो हलेशोऽमरो  
 यो वज्रायुधचक्रभृत्सुरपतिः १प्राप्याहामिन्द्रं पदम् ।  
 पश्चान्मेघरथो मुनीन्द्रमहितः सर्वार्थसिद्धिं श्रितः  
 शान्तीशो जगदेकशान्तिरतुलां दिश्याच्छिथं वश्रिरम् ॥ ५०४ ॥  
 आदावनिन्दिताभोगभूमिजो विमलप्रभः । ततः श्रीविजयो देवोऽनन्तवीर्योऽनु नारकः ॥ ५०५ ॥  
 मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभूत्सहस्रायुधोऽजनि । ततोऽहमिन्द्रकल्पेशोऽनल्पद्विरभवत्ततः ॥ ५०६ ॥  
 ध्युतो इदरथो जज्ञे प्राज्ञो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरजश्चक्रायुधो गणधरोऽक्षरः ॥ ५०७ ॥

### मालिनी

इति हितकृतवेदी बद्धसौहार्दभावः  
 सकलजगदधीशा शान्तिनाथेन सार्द्धम् ।  
 परमसुखपदं सम्प्राप चक्रायुधाह्णो<sup>२</sup>  
 भवति किमिह नेष्टं सम्प्रयोगान्महद्भिः ॥ ५०८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अन्ये तावदिहासतां भगवतां मध्येऽपि तीर्थेशिनां  
 कोऽसौ द्वादशजन्मसु प्रतिभवं प्रापव्यवृद्धिं पराम् ।

कारणोंसे सहित समस्त आठों कर्मोंको उखाड़ कर अत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके अष्ट महाप्राति-हार्यरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान् अनादि भूतकालमें जो कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वस्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे ॥ ५०३ ॥ जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वज्रायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा पूजित होकर सर्वार्थसिद्धि गये, और फिर वहाँसे आकर जगत्को एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवान् हुए वे सोलहवें तीर्थकर तुम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहें ॥ ५०४ ॥ जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्रायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान् दृढरथ हुआ, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षर—अविनाशी-सिद्ध हुआ ॥ ५०५-५०७ ॥ इस प्रकार अपने हित और किये हुए उपकारको जाननेवाले चक्रायुधने अपने भाईके साथ सौहार्द धारण कर समस्त जगत्के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्के साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ? ॥ ५०८ ॥ इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिये श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवान् तीर्थकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें से प्रत्येक भवमें बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की हो ? इसलिए हे विद्वान् लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो

मुक्त्वा शान्तिजिनं ततो बुधजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं<sup>१</sup>

<sup>२</sup>सर्वं शान्तिजिनेन्द्रमेव सततं शान्तिं स्वयं प्रेप्सवः ॥५०९॥

ध्वस्तो मुक्तिपथः पुरुप्रभृतिभिर्देवैः पुनर्दक्षितः


किन्स्वन्तं प्रथितावधेर्गमयितुं कोऽपि प्रभुर्नाभवत् ।

देवेनाभिहितस्त्वनेन समगादव्याहृतः स्वावधिं

तच्छान्तिं समुपेत तन्नभवतामार्थं गुरुं धीधनाः ॥५१०॥


इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शान्तिचक्रधरतीर्थकरपुराणं

परिसमाप्तं त्रिषष्टितमं पर्व ॥ ६३ ॥



तो सबसे उच्चम और सबका भला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । ॥ ५०९ ॥ भोगभूमि आदिके कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका । तदनन्तर भगवान् शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधाके अपनी अवधिकी प्राप्त हुआ । इसलिए हे बुद्धिमान् लोगो ! तुम लोग भी आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान्की शरण लो । भावार्थ—शान्तिनाथ भगवान्ने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था वही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान् ही हैं । उनके पहले पन्द्रह तीर्थकरोंने जो मोक्षमार्ग चलाया था वह बीच-बीचमें विनष्ट होता जाता था ॥ ५१० ॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें शान्तिनाथ तीर्थकर तथा चक्रवर्तीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



## चतुःषष्टितमं पर्व

ग्रन्थान् कन्थामिव त्यक्त्वा सद्ग्रन्थान् मोक्षगामिनः ।

रक्षन् सूक्ष्मांश्च कुन्थुभ्यः कुन्थुः पान्थान् स पातु वः ॥ १ ॥

द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य सीतादक्षिणकूलगे । वत्साख्यविषये<sup>१</sup> राजा सुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥  
 अभूत् सिंहरथो नाम श्रीमान् सिंहपराक्रमः । संहतानपि विद्विष्टान् महिम्नैव वशं नयन् ॥ ३ ॥  
 भयादिव तमंहांऽरिर्द्वृष्टितन्यायवृत्ताकम् ।<sup>२</sup> दण्डिताखिलभूषकं नाढौकिष्टातिदूरतः ॥ ४ ॥  
 भोगानुभव एवास्यै शास्त्रमार्गानुसारिणे ।<sup>३</sup> अदितासुत्रिकीं सिद्धिमैहिकीं चास्तविद्विषे ॥ ५ ॥  
 स कदाचिद् दिवोल्कायाः पातमालोक्य कल्पयन् । इयं मोहमहारातिं विवातायेति चेतसा ॥ ६ ॥  
 तदैवापेत्य<sup>४</sup> नत्वापिबृपमं यतिपूर्वकम् । श्रुत्वा तदुदितं भक्त्या<sup>५</sup> धर्मवत्त्वस्य विस्तरम् ॥ ७ ॥  
 स्यां समाहितमोहोऽहं यद्युल्कासूचितापदः<sup>६</sup> । ममैवेति विचिन्त्याशु सुधीर्मोहजिहासया ॥ ८ ॥  
 राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीसुजैः (?) । बहुभिः संयमं प्राप्य विबुद्धैकाङ्गदशाङ्गकः ॥ ९ ॥  
 बद्ध्वा तत्कारणैस्तीर्थकरनामादिकं शुभम् । स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुचरम् ॥ १० ॥  
 अन्वभूदग्रवीचारं सुखं<sup>७</sup> तत्रात्कौतुकम् । मानसं माननीयं यन्मुनीनां चापरागजम् ॥ ११ ॥  
 इह जम्बूमति द्वीपे भरते कुरुजाङ्गले ।<sup>८</sup> हस्तिनाख्यपुराधीशः कौरवः काश्यपान्वयः ॥ १२ ॥

जिन्होंने कन्थाके समान सब परिग्रहोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करनेवाले सद्ग्रन्थोंकी तथा कुन्थुसे अधिक सूक्ष्म जीवोंकी रक्षा की वे कुन्थुनाथ भगवान् मोक्ष नगर तक जानेवाले तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है । उसके सुसीमानगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था । वह श्रीमान् था, सिंहके समान पराक्रमी था और बहुतसे मिले हुए शत्रुओंको अपनी महिमासे ही वश कर लेता था ॥ २-३ ॥ न्यायपूर्ण आचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त पृथिवीमण्डलको दण्डित करनेवाले उस राजाके सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते थे—दूर-दूर ही बने रहते थे ॥ ४ ॥ शास्त्रमार्गके अनुसार चलनेवाले और शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो भोगानुभव प्राप्त था वही उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था ॥ ५ ॥ वह राजा किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चिन्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोहरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है ॥ ६ ॥ उसने उसी समय यतिवृषभ नामक मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए धर्मवत्त्वके विस्तारको बड़ी भक्तिसे सुना ॥ ७ ॥ वह बुद्धिमान् विचार करने लगा कि मैं मोहसे जकड़ा हुआ था, इस उल्काने ही मुझे आपत्ति की सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सौंप दिया और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया । आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वह अन्तिम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥ ८-१० ॥ वहाँ उसने बड़े कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय था तथा वीतरागतासे उत्पन्न हुआ था ॥ ११ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें

१ वत्साख्यविजये (?) ग०, । वत्साख्यनगरे (?) ख० । २ दण्डिताखिल—क०, ख०, घ० ।  
 काङ्क्षिताखिल—म० । ३ आदिताक०, घ० । ४ नत्वापि ख०, ग० । नन्वपि ख० । ५ धर्मतीर्थस्य ख० ।  
 ६ सूचितापदः ख० । ७ तत्रास्तकौतुकम् ख० । ८ हस्तिनाख्य ख०, ग०, ल० ।



सूरसेनो महाराजः श्रीकान्ताऽस्याग्रवल्लभा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामास्रवती सती ॥ १३ ॥  
 १भागे मनोहरे यामे दशम्यां निशि पश्चिमे । श्रावणे बहुले पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाह्वये ॥ १४ ॥  
 सर्वार्थसिद्धिदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टबोद्धशसुस्वप्ना गर्जं वक्त्रप्रवेशिनम् ॥ १५ ॥  
 निशम्य यामभेर्यादिमङ्गलध्वनिबोधिता । कृतनित्यक्रिया ज्ञात्वा धृतमङ्गलमण्डना ॥ १६ ॥  
 आसैः कतिपयैरेव वृत्ता विद्युद्विलासिनी । द्योतयन्ती सदोब्योम साक्षालक्ष्मीरिवापरा ॥ १७ ॥  
 कृतानुरूपविनया भर्तुरर्द्धासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेद्यास्माद्विदित्वावधिवीक्षणात् ॥ १८ ॥  
 फलान्यनुक्रमाचेषां विकसद्ददनाम्बुजा । नलिनीवाञ्छुसंस्पर्शादुष्णांशोरतुषचराम् ॥ १९ ॥  
 तदैवानिमपाधीशाः कल्याणाभिषवं तयोः । विधाय बहुधाभ्यर्च्यं तोषयित्वा ययुदिवम् ॥ २० ॥  
 शुक्तिमुक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गर्भिणी । क्रोडीकृता मृताभीषुमेघरेखेव चावभौ ॥ २१ ॥  
 नवमे मासि वैशाखशुक्लपक्षादिमे दिने । साऽसूतान्नेययोगे वा १ विधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥  
 तुरासहं पुरोधाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरूमर्भकं नीत्वा क्षीरसैन्धववारिभिः ॥ २३ ॥  
 अभिषिच्य विभूष्यैर्न कुन्थुमाहूय संज्ञया । समानीय समर्प्यायन् पित्रोश्चावासमात्मनः ॥ २४ ॥  
 शान्तीशतीर्थसन्तानकालेऽजनि जिनेश्वरः । पत्न्योपमाद्धै पुण्याग्निस्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २५ ॥  
 समाः पञ्चसहस्रोत्तलक्षाः संवत्सरस्थितिः । पञ्चत्रिंशच्चतुः कायो निष्प्राप्यापदद्युतिः ॥ २६ ॥  
 खपञ्चमुनिवद्विद्विप्रमसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काले च राजताम् ॥ २७ ॥

कौरववंशी काश्यपगोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे । उनकी पट्टरानीका नाम श्रीकान्ता था । उस पतिव्रताने देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी ॥ १२-१३ ॥ श्रावण कृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नक्षत्रमें जब सर्वार्थसिद्धिके उस अहमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेको आई तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ १४-१५ ॥ प्रातःकाल भेरी आदिके माङ्गलिक शब्द सुनकर जगी, नित्य कार्यकर स्नान किया, माङ्गलिक आभूषण पहिने और कुछ ग्रामाणिक लोगोंसे परिवृत होकर बिजलीके समान सभारूपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दूसरी लक्ष्मीके समान राजसभामें पहुँची । वहाँ वह अपनी योग्यताके अनुसार विनयकर पतिके अर्धासनपर विराजमान हुई । अविज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पतिको सब स्वप्न सुनाये और उनसे उनका फल मालूम किया । अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमलिनी खिल उठती है ॥ १६-१९ ॥ उसी समय देवोंने महाराज शूरसेन और महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की और सन्तुष्ट होकर स्वर्गकी ओर प्रयाण किया ॥ २० ॥ जिस प्रकार मुक्ताविशेषसे सीप गर्भिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी और जिस प्रकार चन्द्रमाको गोदीमें धारण करनेवाली मेघोंकी रेखा सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भमें धारण करती हुई रानी श्रीकान्ता सुशोभित हो रही थी ॥ २१ ॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाको उदित करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यतीत होने पर वैशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन आग्नेय योगमें उस पुत्रको उदित किया—जन्म दिया ॥ २२ ॥ उसी समय इन्द्रको आगे कर समस्त देव और धरणेन्द्र आये, उस बालकको सुमेरु पर्वत पर ले गये, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंकृत किया, कुन्थु नाम रखा, वापिस लाये, माता-पिताको समर्पण किया और अन्तमें सब अपने स्थान पर चले गये ॥ २३-२४ ॥ श्रीशान्तिनाथ तीर्थकरके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पत्य बीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्थुनाथ भगवान् उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥ २५ ॥ पञ्चानवे हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पैंतीस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी ॥ २६ ॥ तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था

निजजन्मदिने <sup>१</sup>चक्रिलक्ष्मीं सम्प्राप्य सम्मदात् । दशाङ्गभोगाच्चिविद्वय निःप्रतीपं<sup>२</sup> निरन्तरम् ॥२८॥  
 षडङ्गबलसंयुक्तः कदाचिच्छ्रीडितुं वनम् । गत्वा रंत्वा चिरं स्वैरं निवृत्त्यायन्पुनः पुरम् ॥ २९ ॥  
 मुनिमातपयोगेन स्थितं कञ्चिच्छिरूपयन् । मन्त्रिणं प्रति तजिन्या पश्य पश्येति चक्रभृत् ॥ ३० ॥  
 स तं निरीक्ष्य तत्रैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैवं दुष्करं कुर्वस्तपः किं फलमाप्स्यति ॥ ३१ ॥  
 इत्यप्राक्षान्नुपोऽप्यस्य भूयः स्मेरमुखोऽवदन् । भवेऽस्मिन्नैव निर्मूल्य कर्माण्याप्नोति निर्घृतिम् ॥३२॥  
 न चेदेवं सुरेन्द्रत्वचक्रवर्तित्वगोचरम् । सुखमभ्युदयं भुक्त्वा क्रमाच्छाश्रतमेप्यति ॥ ३३ ॥  
 अपरित्यक्तसङ्गस्य भवे पर्यटनं भवेत् । इत्युच्चैर्मुक्तिसंसारकारणं<sup>३</sup> परमार्थवित् ॥ ३४ ॥  
 कालो माण्डलिकत्वेन यावाञ्जीतः सुखायुषा । तावत्येव समानीय महेश्चक्रवर्तिताम् ॥ ३५ ॥  
 विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखलिप्सया । स्वातीतभवबोधेन लब्धबोधिर्बुधोत्तमः ॥ ३६ ॥  
 सारस्वतादिसंस्तोत्रमपि सम्भाष्य सादरम् । स्वजे नियोज्य राज्यस्य भारं निष्कमणोत्सवम् ॥३७॥  
 स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रैः शिबिकां विजयाभिधाम् । आरुह्यामरसंवाह्यां सहेतुकवर्णं प्रति ॥ ३८ ॥  
 गत्वा षष्ठोपवासेन संयमं प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपक्षदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥ ३९ ॥  
 सहस्रेणाप तुर्यावबोधं च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येषुस्तस्मै गतवतेऽदित ॥ ४० ॥  
 आहारं धर्ममित्राल्यः प्राप चाश्चर्यपञ्चकम् । कुर्वन्नेवं तपो घोरं नीत्वा षोडशवत्सरान् ॥ ४१ ॥  
<sup>४</sup>निजदीक्षावने षष्ठेनोपवासेन शुद्धिभाक् । तिलकद्रुममूलस्थश्चैत्रज्योत्स्नापराह्णके ॥ ४२ ॥

और इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिके दिन चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिली थी । इसप्रकार वे बड़े हर्षसे वाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे ॥ २७-२८ ॥ किसी समय वे षडङ्ग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए वनमें गये थे वहाँ चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीडाकर वे नगरको वापिस लौट रहे थे ॥ २९ ॥ कि मार्गमें उन्होंने किसी मुनिको आतप योगसे स्थित देखा और देखते ही मन्त्रीके प्रति तर्जनी अंगुलीसे इशारा किया कि देखो, देखो । मन्त्री उन मुनिराजको देखकर वहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे देव ! इस तरहका कठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ॥ ३०-३१ ॥ चक्रवर्ती कुन्थुनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोंको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करेंगे । यदि निर्वाण न प्राप्तकर सकेंगे तो इन्द्र और चक्रवर्तीके सुख तथा ऐश्वर्यका उपभोगकर क्रमसे शाश्वतपद-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ३२-३३ ॥ जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिभ्रमण होता है । इस प्रकार परमार्थको जाननेवाले भगवान् कुन्थुनाथने मोक्ष तथा संसारके कारणोंका निरूपण किया ॥ ३४ ॥ उन महानुभावने सुखपूर्वक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्तकर व्यतीत किया था ॥ ३५ ॥ तदनन्तर, अपने पूर्वभवंका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ भगवान् कुन्थुनाथ निर्वाण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे राज्यभोगोंमें विरक्त हो गये ॥ ३६ ॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने आकर बड़े आदरसे उनका स्तवन किया । उन्होंने अपने पुत्रको राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया । तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य विजया नामकी पालकीपर सवार होकर वे सहेतुक वनमें गये । वहाँ तैलाका नियम लेकर जन्मके ही मास पक्ष और दिनमें अर्थात् वैशाखशुक्ल प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण करली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ धर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये । इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये ॥ ३७-४१ ॥ किसी एक दिन

१ चक्रिलक्ष्मीं इति पाठः शुद्धो भाति । २ निःप्रतीपं इति पाठो भवेत् । ३ कारणं ल० ।

कृत्तिकायां तृतीयायां कैवल्यमुदपादयत्<sup>१</sup> । मुदा तत्कालसम्प्राप्तसर्वाभरसमर्थितम्<sup>२</sup> ॥ ४३ ॥  
 प्रार्थ्यं चतुर्थकल्याणपूजाविधिमवाप सः । तस्य स्वयम्भूनामाद्याः पञ्चत्रिंशद्गणेशिनः ॥ ४४ ॥  
 शतानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमाः । खपञ्चैकत्रिवाद्ध्युक्ताः शिक्षकाः लक्षिताशयाः ॥ ४५ ॥  
 खद्वयेन्द्रियपक्षोक्तास्तृतीयावगमामलाः । शून्यद्वयद्विवह्वयुक्ताः केवलज्ञानभास्वराः<sup>३</sup> ॥ ४६ ॥  
 खद्वयैकेन्द्रियज्ञातविक्रियद्विविभूषणाः । त्रिंशत्त्रिसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥ ४७ ॥  
 पञ्चाशद्द्विसहस्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः । सर्वे ते पिण्डिताः षष्टिसहस्राणि यमेश्वराः ॥ ४८ ॥  
 भाविताद्यार्थिकाः शून्यपञ्चवह्निखणमिताः । त्रिलक्षाः श्राविका लक्षद्वयं सर्वेऽप्युपासकाः ॥ ४९ ॥  
 ४देवदेव्यस्त्वसङ्ख्यातास्तिर्यञ्चः<sup>४</sup> सङ्ख्यया मिताः । दिव्यध्वनिनामीषां कुर्वन्धर्मोपदेशानाम् ॥ ५० ॥  
 देशान् विद्वत्स्य मासायुः सम्मेदाचलमास्थितः । प्रतिमायोगमादाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ ५१ ॥  
 वैशाखज्यैष्ठ्यपक्षादिदिने रात्रेः पुरातने । भागे कर्माणि निर्मूल्य कृत्तिकायां निरञ्जनः ॥ ५२ ॥  
 प्राप्तगीर्वाणनिर्वाणपूजः प्रापत्परं पदम् । संशुद्धज्ञानवैराग्यसाबाधमविनश्वरम् ॥ ५३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

आसीत् सिंहरथो नृपः पृथुतपाः सर्वार्थसिद्धीश्वरः

कल्याणद्वयभाक् षडङ्गशिविरस्त्रैलोक्यमुख्याचितः ।

प्राप्तात्माष्टगुणस्त्रिविष्टपशिखाप्रोङ्गासिचूडामणि-

दिग्वाद्दः श्रियमप्रतीपमहिमा कुन्धुजिनः शास्वतीम् ॥ ५४ ॥


विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान् तैलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके वनमें तिलकवृत्तके नीचे विराजमान हुए । वहीं चैत्रशुक्ला तृतीयाके दिन सार्थकालके समय कृत्तिका नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हर्षके साथ सब देव आये । सबने प्रार्थनाकर चतुर्थकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयंभूको आदि लेकर पैंतीस गणधर थे, सात सौ मुनिराज पूर्वके जानकार थे, तैतालीस हजार एक सौ पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सौ निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार एक सौ विक्रियान्त्रद्विके धारक थे, तीन हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी थे, दो हजार पचास प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४२-४८ ॥ भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सौ पचास आर्थिकाएँ थीं, तीनलाख श्राविकाएँ थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । भगवान्, दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे ॥ ४९-५० ॥ इस प्रकार अनेक देशोंमें विहारकर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदशिखरपर पहुंचे । वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोंको उखाड़कर परमपद प्राप्त कर लिया । अब वे निरञ्जन-कर्मकलङ्केसे रहित हो गये । देवोंने उनके निर्वाण-कल्याणक की पूजा की । उनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण तथा अविनाशी था ॥ ५१-५३ ॥

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरणकर सर्वार्थसिद्धिके स्वामी हुए, फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ती इसप्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंके स्वामी थे, तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो तीन लोकके शिखरपर चूडामणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधासे रहित थी ऐसे

१-मुपपादयत् ल० । २ समर्थितः ख० । ३ भास्कराः ल० । ४ देव्यस्त्वसंख्याता म०, घ०, देवा-  
 देव्योऽप्यसंख्या-ल० । ५ तिर्यग्जाः ग०, ख०, म०, तिर्यक्काः ल० ।


देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेऽपि मग्नाः सुरा  
 ज्ञानज्योतिषि पञ्चतत्त्वसहितं लभं नभश्चाखिलम् ।  
 लक्ष्मीधामदधद्विधूतविततध्वान्तः स धामद्वय-  
 पन्थानं कथयत्वन्तगुणभृत्कुन्धुर्भवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते कुन्धुचक्रधरतीर्थकरपुराणं  
 परिसमाप्तं चतुःषष्टितमं पर्व ॥ ६४ ॥



श्रीकुन्धुनाथ भगवान् तुम सबके लिए अविनाशी-मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें ॥ ५४ ॥ जिनके शरीरकी कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पञ्चतत्त्व सहित समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान हैं, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया, और जो अनन्तगुणोंके धारक हैं ऐसे श्रीकुन्धुनाथ भगवान् तुम सबके लिए मोक्षका निश्चय और व्यवहार मार्ग प्रदर्शित करें ॥ ५५ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें कुन्धुनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला चौंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥



## पञ्चषष्टितमं पर्व

सरतारं परं सारं <sup>१</sup>नरनाथकृतानतिम् । अगाधासारसंसारसागरोत्सारकारणम् ॥ १ ॥  
 द्वीपे जम्बूद्वीपमख्याते सीतोत्तरतटाश्रिते । कच्छाख्यविषये क्षेमपुराधीशो महीपतिः ॥ २ ॥  
 नाम्ना धनपतिः पाता प्रजानां जनताप्रियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे स्म प्रस्तुतानिशम् ॥ ३ ॥  
 विनार्थिभिरपि त्यागी विनाप्यरिभिरुद्यमी । तर्पितार्थिनि धृतारौ तस्मिंस्तौ सहजौ गुणौ ॥ ४ ॥  
<sup>२</sup>स्ववृत्त्यनुगमेनैव वर्गत्रयनिषेविणः । राजा प्रजाश्च राज्येऽस्मिंस्तत्र धर्मव्यतिक्रमः ॥ ५ ॥  
 कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वार्हन्नन्दतीर्थकृद् । दिव्यध्वनिसमुद्भूत<sup>३</sup> धर्मसाररसायनम् ॥ ६ ॥  
 विरज्य राज्यभोगात्तरसाद्राज्यं निजात्मजे । नियोज्य मंक्षु प्रब्रज्यां जैनीं जन्मान्तकारिणीम् ॥ ७ ॥  
 आसाद्यैकादशाङ्गोरुपारावारस्य पारगः । द्व्यष्टकारणसम्बद्धतीर्थकृन्नामपुण्यकृत् ॥ ८ ॥  
<sup>४</sup>प्रायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहमिन्द्रताम् । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्ततनुप्रमः ॥ ९ ॥  
 शुक्लेत्रयाद्वयः साद्वैर्मासैः षोडशभिः श्वसन् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्तवर्षैर्मानसमाहरन् ॥ १० ॥  
 अमृतं निःप्रवीचारमुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननिर्णीतलोकनाड्यर्थविस्तृतिः ॥ ११ ॥  
 स्वावधिषेत्रनिर्णीतप्रकाशबलविक्रियः । अतिप्रशान्तरागादिरासन्नीकृतनिर्वृतिः ॥ १२ ॥  
 सद्बेद्योदयसम्भूतमन्वभूत् भोगमुत्तमम् । उदितोदितपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरनाथ तीर्थकरकी तुम सब लोग सेवा करो—उनकी शरणमें जाओ ॥ १ ॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है। उसके क्षेमपुर नगरमें धनपति नामका राजा राज्य करता था। वह प्रजाका रक्षक था और लोगोंको अत्यन्त प्यारा था। पृथिवीरूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण किया करती थी ॥ २-३ ॥ याचकोंको संतुष्ट करनेवाले और शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकोंके विना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओंके न रहने पर भी उद्यम किया करता था ॥४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार त्रिवर्गका सेवन करते थे इसलिए धर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥ ५ ॥ किसी एक दिन उस राजाने अर्हन्नन्दन तीर्थकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रेष्ठधर्मरूपी रसायनका पान किया जिससे राज्यसम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्रके लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्ममरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ली ॥ ६-७ ॥ ग्यारह अङ्गरूपी महासागरके पारगामी होकर उसने सोलह कारणभावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया। अन्तमें प्रायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहाँ तैंतीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्त लेश्याएँ थीं, वह साढ़े सोलह माहमें एक बार श्वास लेता था, और तैंतीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतमय आहार ग्रहण करता था। प्रवीचाररहित मुखरूपी सागरका पारगामी था, अपने अवधिज्ञानके द्वारा वह लोकनाडीके भीतर रहने वाले पदार्थोंके विस्तारको जानता था। ॥ ८-११ ॥ उसके अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विक्रिया ऋद्धि थी। उसके राग-द्वेष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोक्ष उसके निकट आ चुका था ॥ १२ ॥ वह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करता था।

१ नरनाथकृतानतिम् घ० । २ स्ववृत्त्यानु-ल० । ३ समुद्भूत-ल० । ४ प्रायोपगमनादापत्, म०, ल० ।

द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कुरुजाङ्गलः । <sup>१</sup>हस्तिनाख्यं पुरं तस्य पतिगोत्रेण काश्यपः ॥ १४ ॥  
सोमवंशसमुद्भूतः <sup>२</sup>सुदर्शनसमाह्वयः । मित्रसेना महादेवी प्राणेभ्योऽप्यस्य बल्लभा ॥ १५ ॥  
वसुधारादिकां पूजां प्राप्य <sup>३</sup>प्रीतानुफलुने । मासेऽसिततृतीयायां रेवत्यां निशि पश्चिमे ॥ १६ ॥  
भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टपोडशसुस्वभा फलं तेषु निजाधिपम् ॥ १७ ॥  
अनुयुज्यावधिज्ञानतदुक्तफलसंश्रुतेः । प्राप्तत्रैलोक्यराज्येव <sup>४</sup>प्रासीदत्परमोदया ॥ १८ ॥  
<sup>५</sup>तदा गतामराधीशकृतकल्याणसम्मदा । निर्धृता निर्मदा नित्यरम्या सौम्यानना शुचिः ॥ १९ ॥  
संवाह्यमाना देवीभिस्तत्कालोचितं <sup>६</sup>वस्तुभिः । मेघमालेव सद्गर्भमुद्बहन्ती जगद्धितम् ॥ २० ॥  
मार्गशीर्षे सिंते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिविधसद्बोधं तनूजमुदपीपदत् <sup>७</sup> ॥ २१ ॥  
तस्य जन्मोत्सवस्यालं वर्णनाय मरुद्वराः । यदि स्वर्गं समुद्रात् <sup>८</sup>सर्वेऽप्यत्र सजानयः ॥ २२ ॥  
अत्यल्पं तृसिमापन्ना दीनानाथवनीपकाः । इतीदमिह सम्प्राप्तं यदि तृसिं जगत्त्रयम् ॥ २३ ॥  
कुन्धुतीर्थेशसन्ताने पत्ये तुर्याशसम्मिमे । सहस्रकोटिवर्षाने तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २४ ॥  
अरो जिनोऽ<sup>९</sup>जनि श्रीमानशीतिं चतुरत्तराम् । वत्सराणां सहस्राणि परमायुः समुद्बहन् ॥ २५ ॥  
त्रिंशच्चापतनूत्सेधः चारुचामीकरच्छविः । लावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यस्याकरः परः ॥ २६ ॥  
सौन्दर्यस्य समुद्रोऽयमालयो रूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन् सम्भूताः किं गुणेष्वस्य सम्भवः ॥ २७ ॥

इस तरह प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागका प्राप्त हुआ—वहाँसे च्युत होनेके सम्मुख हुआ ॥ १३ ॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें कुरुजांगल नामका देश है । उसके हस्तिनापुर नगरमें सोमवंशमें उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था । उसकी प्राणोंसे भी अधिक प्यारी मित्रसेना नामकी रानी थी ॥ १४-१५ ॥ जब धनपतिके जीव जयन्त विमानके अहमिन्द्रका स्वर्गसे अवतार लेनेका समय आया तब रानी मित्रसेनाने रत्नवृष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नतासे फाल्गुन कृष्ण तृतीयाके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पिछले प्रहर सोलह स्वप्न देखे । सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल पूछा । तदनन्तर परम वैभवको धारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्नका फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६-१८ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने जिसके गर्भकल्याणकका उत्सव किया है, जो अत्यन्त संतुष्ट है, मद रहित है, निरन्तर रमणीक है, सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंके द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया करती हैं, और जो मेघमालाके समान जगत्का हित करनेवाला उत्तम गर्भ धारण करती है ऐसी रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्ल चतुर्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीनः ज्ञानोंसे सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १९-२१ ॥ उनके जन्मके समय जो उत्सव हुआ था उसका वर्णन करनेके लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खालीकर यहाँ आये थे ॥ २२ ॥ उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग सन्तोषको प्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए थे ॥ २३ ॥ श्रीकुन्धुनाथ तीर्थकरके तीर्थके बाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्यका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवान्का जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । भगवान् अरनाथकी उत्कृष्टश्रेष्ठतम आयु चौरासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था, सुवर्णके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकी श्रेष्ठ खान थे, भगवान्को देखकर शङ्का होती थी कि ये सौन्दर्यके सागर हैं या सौन्दर्य सम्पत्तिके घर हैं, गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्वयं गुणमय हैं—गुणरूप

१ हास्तिनाख्यं ख०, ग० । २ समुद्भूतसु-ख० । ३ प्रीत्यानु-घ०, ख० । ४ प्रासीदत् ख० । ५ ततो गता ख० । ६ संस्तुभिः ख० । ७-मुदपीपयत् ख० । ८ समुद्रात्स्य क०, ख०, ग०, घ० । ९-जिनश्री-ख० ।

अभूद्गुणमयः किं वेत्याशङ्कां<sup>१</sup>संनयन् जनान् । अवर्द्धत समं लक्ष्म्या बालकल्पद्रुमोपमः ॥ ३८ ॥  
 तस्य शून्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवत्सरैः । गते कुमारकालेऽभूद्वाज्यं माण्डलिकोचितम् ॥ २९ ॥  
 तावत्येव गते काले तस्मिन् सकलचक्रिता । भोगान्समन्वभूद्वागे तृतीये स निजायुषः ॥ ३० ॥  
 कदाचिच्छारदान्भोदविलय<sup>२</sup>प्रतिलोकनात् । समुद्भूतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोत्तमैः ॥ ३१ ॥  
 प्रबोधितोऽनुवादेन दत्त्वा राज्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढामधिष्ठितः ॥ ३२ ॥  
 शिविकां वैजयन्त्याख्यां सहेतुकवर्नं गतः । दीक्षां षष्ठोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥  
 शुक्लेऽगान्मार्गशीर्षस्य सायाह्ने भूभुजां<sup>३</sup>सह । सहस्रेण चतुर्ज्ञानधारी च समजायत ॥ ३४ ॥  
 सम्यगेवं तपः कुर्वन् कदाचित्पारणादिने । प्रायाश्चक्रपुरं तस्मै दत्त्वाश्रमपराजितः ॥ ३५ ॥  
 महीपतिः सुवर्णाभः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । छाद्यस्थ्येनागमंस्तस्य मुनेर्वर्षाणि षोडश ॥ ३६ ॥  
 ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां शुक्लपक्षेऽपराह्णे चूततरोरधः ॥ ३७ ॥  
 षष्ठोपवासेनाहृत्य घातीन्यार्हन्त्यमासदत् । सुराश्चतुर्थकल्याणे सम्भूयैनमपूजयन्<sup>४</sup> ॥ ३८ ॥  
 कुम्भार्याद्या गणेशोऽस्य त्रिंशत्पूर्वाङ्गवेदिनः । शून्यैकषट्मिताः ज्ञेया शिक्षकाः सूक्ष्मबुद्धयः ॥ ३९ ॥  
 पञ्चवङ्ग्यष्टपञ्चाभिमितास्त्रिज्ञानधारिणः । शून्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवलज्ञानलोचनाः ॥ ४० ॥  
 तावन्तः खट्वान्यब्धिनिमिता<sup>५</sup> विक्रियार्द्धिकाः । करणेन्द्रियखट्वयुक्ता मनःपर्ययबोधनाः ॥ ४१ ॥  
 शतानि षट्सहस्रं च तत्रानुसरवादिनः । सर्वे ते सन्चिताः पञ्चाशत् सहस्राणि संयताः ॥ ४२ ॥  
 ज्ञेयाः षष्टिसहस्राणि यक्षिलाप्रमुखायिकाः । लक्षाः षष्टिसहस्राणि श्रावका श्राविकाश्च ताः ॥ ४३ ॥

ही हैं । इस प्रकार लोगोंको शङ्का उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवान् लक्ष्मीके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ २४-२८ ॥ इस प्रकार कुमार अवस्थाके इक्कीस हजार वर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरके योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ था । इस तरह भोग भोगते हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरदृतुके मेघोंका अकस्मात् विलय हो जाना देखकर अपने जन्मको सार्थक करनेवाला आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय लौकान्तिक देवोंने उनके विचारोंका समर्थनकर उन्हें प्रबोधित किया और वे अरविन्दकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर देवोंके द्वारा उठाई हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार हो सहेतुक वनमें चले गये । वहाँ तैलाका नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ला दशमीके दिन रेवती नक्षत्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा धारण करते ही वे चार ज्ञानके धारी हो गये ॥ २९-३४ ॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणाके दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा अपराजितने उन्हें आहार देकर पञ्चाश्वर्य प्राप्त किये । इस तरह मुनिराज अरनाथके जब छद्मस्थ अवस्थाके सोलह वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ३५-३६ ॥ तब वे दीक्षावनमें कार्तिक शुक्ल द्वादशीके दिन रेवती नक्षत्रमें सायंकालके समय आश्रमवृक्षके नीचे तैलाका नियम लेकर विराजमान हुए । उसी समय घातिया कर्म नष्टकर उन्होंने अर्हन्तपद प्राप्त कर लिया । देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकर्म उनकी पूजा की ॥ ३७-३८ ॥ कुम्भार्यको आदि लेकर उनके तीस गणधर थे, छहसौ दश ग्यारह अंग चौदह पूर्वके जानकार थे, पैंतीस हजार आठ सौ पैंतीस सूक्ष्म बुद्धिको धारण करनेवाले शिक्तक थे ॥ ३९ ॥ अट्टाईस सौ श्रवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, तैतालीस सौ विक्रिया-श्रद्धिको धारण करनेवाले थे, बीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे ॥ ४०-४१ ॥ और सोलह सौ श्रेष्ठ-बादी थे । इस तरह सब मिलकर पचासहजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४२ ॥ यक्षिलाको आदि लेकर साठ हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख साठ हजार श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव थे और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान् भगवान्

१ जनयन् ७० । मानयत् ख० । २ विलायप्रतिलोकनात् ग० । विलासप्रविलोनात् म० । ३ भूभुजैः ७० । ४-मपुपुञ्जत् ७०, ग० । ५ प्रमिता म० ।

लक्षं त्रयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । तिर्यग्भेदाश्च सङ्ख्याता १वृत्तो द्वादशभिर्गणैः ॥ ४४ ॥  
 एभिर्धर्मोपदेशार्थं व्यहरद्विपयान् २सुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्भेदगिरिमस्तके ॥ ४५ ॥  
 सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमास्थितः । चैत्रकृष्णान्तरेवत्यां पूर्वरात्रेऽगमच्छिवम् ॥ ४६ ॥  
 तदाऽऽगत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुतिशतैर्भक्त्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४७ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव तच्चक्रं धराचक्रचित्,  
 श्रीश्चासौ घटदासिकेव परमश्रीधर्मचक्रेप्सया ।  
 शुष्मान्भक्तिभरानतान्स दुरितारातेरवध्वंसकृत्,  
 पायाद्भ्रान्तजनानरो जिनपतिः संसारभीरुन् सदा ॥ ४८ ॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

क्षुत्तृभयादिगुरुकर्मकृतोरुदोषा-  
 नष्टादशापि सनिमित्तमपास्य शुद्धिम् ।  
 यो लब्धवांस्त्रिभुवनैकगुरुगंरीया-  
 नष्टादशो दिशतु शीघ्रमरः शिवं वः ॥ ४९ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

प्राप्तयोऽभून्नृपतिर्महान् धनपतिः पश्चाद्भ्रतानां पतिः,  
 स्वर्गाग्रे विलसज्जयन्तजपतिः प्रोद्यत्सुखानां पतिः ।  
 षट्खण्डाधिपतिश्चतुर्दशलसद्रजैर्निधीनां पतिः,  
 त्रैलोक्याधिपतिः पुनात्वरपतिः सन् स श्रितान् वशिरम् ॥ ५० ॥  
 अथास्मिन्नेव तीर्थेऽभूत्सुभौसो नाम चक्रभृत् । १वृत्तीये जन्मन्यत्रैव भरतेऽसौ भुवः पतिः ॥ ५१ ॥ १

अरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए अनेक देशोंमें विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी वाकी रह गई तब उन्होंने सम्भेदाचलकी शिखरपर एकहजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पूर्वभागमें सांक्ष प्राप्त कर लिया ॥४३-४६ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर निर्वाणकल्याणककी पूजा की । भक्तिपूर्वक सैकड़ों स्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥ ४७ ॥

जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्मचक्रको प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथिवीमण्डलको सञ्चित करने-वाला अपना सुदर्शनचक्र बुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्ष्मीको घटदासी (पनहारिन) के समान त्याग दिया । तथा जो पापरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाले हैं ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नश्रीभूत एवं संसारसे भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥४८॥ लुधा, वृषा, भय आदि बड़े-बड़े कर्मोंके द्वारा किये हुए लुधा वृषा आदि अठारहों दोषोंको उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्टकर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहवें तीर्थकर अरनाथ तुम लोगोंको शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ॥ ४९ ॥ जो पहले धनपति नामके बड़े राजा हुए, फिर ब्रतोंके स्वामी मुनिराज हुए, तदनन्तर स्वर्गके अग्र-भागमें सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी अहमिन्द्र हुए, फिर छहों खण्डके स्वामी होकर चौदह रत्नों और नौ निधियोंके अधिपति—चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तीनों लोकोंके स्वामी अरनाथ तीर्थकर हुए वे अतिशय श्रेष्ठ अठारहवें तीर्थकर अपने आश्रित रहनेवाले तुम सबको चिर-कालतक पवित्र करते रहें ॥ ५० ॥

अथानन्तर—इन्हीं अरनाथ भगवान्के तीर्थमें सुभौम नामका चक्रवर्ती हुआ था । वह तीसरे



भूपालो नाम संग्रामे वलिभिर्विजिगीषुभिः । <sup>१</sup>प्राप्ताभिमानभङ्गः सन् भृशं निर्विद्य संसृतेः ॥ ५२ ॥  
 दीक्षां जैनेश्वरीमादात्सं<sup>२</sup> भूतगुरुसन्निधौ । कदाचित्स तपः कुर्वन्निदानमकरोत्कुधीः<sup>३</sup> ॥ ५३ ॥  
 भूयान्मे चक्रवर्तित्वमिति भोगानुपक्षणात् । क्षीरं विषेण वा तेन मनसा दूषितं तपः ॥ ५४ ॥  
 स तथैवाचरन् घोरं तपः स्वास्यायुषः क्षये । समाधाय महाशुक्रे संन्यासेनोदपद्यत ॥ ५५ ॥  
 तत्र षोडशवाराशिमानायुः सुखमास्त <sup>४</sup> सः । द्वीपेऽस्मिन् भारते कौशलाख्ये<sup>५</sup> राष्ट्रे गुणान्विते ॥ ५६ ॥  
 सहस्रबाहुरिक्ष्वाकुः साकेतनगराधिपः । राज्ञी तस्याभवच्चित्रमत्याख्या हृदयप्रिया ॥ ५७ ॥  
<sup>६</sup>कन्याकुञ्जमहेशस्य <sup>७</sup>पारताख्यस्य सात्मजा । तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपोऽभवत् ॥ ५८ ॥  
 तत्र प्रवर्द्धमानेऽस्मिन्निदमन्यदुदीर्यते । सहस्रभुजभूभर्तुः पितृव्याच्छतबिन्दुतः ॥ ५९ ॥  
 पारताख्य महेशस्य श्रीमत्स्यस्तनयः स्वसुः । जमदग्निः सरामान्तः कौमारे मातृमृत्युतः ॥ ६० ॥  
<sup>८</sup>निर्वेगात्तापसो भूत्वा पञ्चाभितपसि स्थितः । दृढग्राहिमहेशस्य विप्रेण हरिशर्मणा ॥ ६१ ॥  
 अभूदखण्डितं सख्यमेवं काले प्रयात्यसौ । दृढग्राही तपो जैनमग्रहीद् ब्राह्मणोऽपि च ॥ ६२ ॥  
 तापसव्रतमन्तेऽभूज्ज्योतिर्लोकं द्विजोत्तमः । दृढग्राही च सौधर्मं सोऽवधिज्ञानचक्षुषा ॥ ६३ ॥  
 मिथ्यात्वाज्ज्योतिषां<sup>९</sup> लोके समुत्पन्नं द्विजोत्तमम् । विज्ञाय जैनसद्धर्मं तं ग्राहयितुमागमत् ॥ ६४ ॥  
 दृष्ट्वा तं तत्र मिथ्यात्वात्त्वमेवं कुत्सितोऽभवः । <sup>१०</sup>उत्कृष्टं शुद्धसम्यक्त्वाद्देवभूयमहं गतः ॥ ६५ ॥

जन्ममें इसी भरतक्षेत्रमें भूपाल नामका राजा था ॥ ५१ ॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले विजिगीषु राजाओंके द्वारा हार गया। मान भंग होनेके कारण वह संसारसे इतना विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस दुर्बुद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हो। उसने यह सब निदान भोगोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था। इस निदानसे उसने अपने तपको हृदयसे ऐसा दूषित बना लिया जैसा कि कोई विषसे दूधको दूषित बना लेता है ॥ ५२-५४ ॥ वह उसी तरह घोर तपश्चरण करता रहा। आयुके अन्तमें चित्तको स्थिरकर संन्याससे मरा जिससे महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥ ५५ ॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण आयुको धारण करनेवाला वह देव सुखसे निवास करने लगा। इधर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें अनेक गुणोंसे सहित एक कोशल नामका देश है। उसके अयोध्या नगरमें इक्ष्वाकुवंशी राजा सहस्रबाहु राज्य करता था। हृदयको प्रिय लगनेवाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुञ्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी। उत्तम पुण्यके उदयसे उसके कृतवीराधिप नामका पुत्र हुआ ॥ ५६-५८ ॥ जो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कही जाती है जो इस प्रकार है—राजा सहस्रबाहुके काका शतबिन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी स्त्रीके जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारतकी बहिन थी। कुमार अवस्थामें ही जमदग्निकी माँ मर गई थी इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया और पञ्चाभितप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और है। एक दृढग्राही नामका राजा था। उसकी हरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ अखण्ड मित्रता थी। इस प्रकार उन दोनोंका समय बीतता रहा। किसी एक दिन दृढग्राही राजाने जैन तप धारण कर लिया और हरिशर्मा ब्राह्मणने भी तापसके व्रत ले लिये। हरिशर्मा ब्राह्मण आयुके अन्तमें मरकर ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुआ—ज्योतिषी देव हुआ और दृढग्राही सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशर्मा ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिष लोकमें उत्पन्न हुआ है अतः वह उसे समीचीन जैनधर्म धारण करानेके लिए आया ॥ ५९-६४ ॥ हरिशर्माके जीवको देखकर दृढग्राहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वके कारण इस तरह निन्द्यपर्यायमें उत्पन्न हुए हो और

१. प्राप्ताऽ-ल० । २ स भूत-ल० । ३ सुधी ल० । ४ सुखमाप सः ल० । ५ कौशलाख्ये क०, घ० ।  
 ६ कान्यकुञ्ज ल० । ७ परताख्यस्य क०, घ० । ८ निर्वेदात्तापसो म०, ल० । ९ ज्योतिषां क०, घ०,  
 ज्योतिषे ल० । १० उत्कृष्टं ल० ।

तस्माद्गुणेहि मोक्षस्य मार्गमित्यब्रवीत्ततः । तापसानां तपः कस्माद्बुद्धिमिति संशयात् ॥ ६६ ॥  
 अन्वयुङ्क्त स तं सोऽपि दर्शयाम्येहि भूतलम् । इत्यन्योन्यं समालोच्य कीचकद्रुन्द्वन्द्वागतौ ॥ ६७ ॥  
 जमदग्निमुनेर्दीर्घं १ श्रमश्चाश्रयमुपाश्रितौ । काञ्चित् कालकलां स्थित्वा सदृष्टिः सुरकीचकः ॥ ६८ ॥  
 समभापत मायाज्ञो ज्योतिष्कामरकीचकीम् । एतद्भवान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यहं प्रिये ॥ ६९ ॥  
 प्रतीक्षस्वात्र मां स्थित्वेत्यसौ चाहागमं तव । न श्रद्धामि मे देहि शपथं यदि यास्यसि ॥ ७० ॥  
 इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रूहि पातकेषु किमिच्छसि । पञ्चसु त्वमहं तस्मिन् दास्यामि तदिति स्फुटम् ॥ ७१ ॥  
 साप्याह तेषु मे वाञ्छा कस्मिंश्चिन्नैव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गतिं नैष्याम्यहं यदि ॥ ७२ ॥  
 इतीमं शपथं गन्तुं मुञ्चामि त्वां प्रियेति १ ताम् । तच्छ्रुत्वा कीचकः प्राह मुक्त्वैनं किञ्चिदीप्सितम् ॥ ७३ ॥  
 ब्रूह्यन्थमिति तद्द्रुन्दविसंवादं स तापसः । श्रुत्वा क्रोधेन सन्तप्तो विभूणितविलोचनः ॥ ७४ ॥  
 हस्ताभ्यां हन्तुमु १ क्लौर्याद् गृहीत्वा निश्चलं द्विजौ । मवदुद्धरतपः प्राप्य भाविलोकोऽनभीप्सितः ॥ ७५ ॥  
 युवाभ्यां केन तद्वाच्यमि १ त्याहातः खगोऽब्रवीत् । मागमः कोपमेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥ ७६ ॥  
 १ यदातञ्जनतक्रेण पयोऽल्पेन न किं क्षतिम् । शृणुते दुर्गतिर्हेतुं चिरं घोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥  
 कौमारब्रह्मचारित्वं तव सन्तन्तिविच्छिदे । सन्तानघातिनः पुंसः का गतिर्नरकाद्रिना ॥ ७८ ॥  
 अपुत्रस्य गतिर्नास्तीत्यार्षं किं न त्वया श्रुतम् । कुतोऽविचारयन्नेवं क्लिश्नासि जडधीरिति ॥ ७९ ॥

मैं सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देवपर्यायको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ६५ ॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दर्शन है उसे धारण करो। जब दृढ़प्राहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है? उसने भी कहा कि तुम पृथिवी तलपर चलो मैं सब दिखाता हूँ। इस प्रकार सलाहकर दोनोंने चिड़ा और चिड़ियाका रूप बना लिया ॥ ६६-६७ ॥ पृथिवीपर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनिकी बड़ी-बड़ी दाँडी और मूँछमें रहने लगे। वहाँ कुछ समयतक ठहरनेके बाद मायाको जाननेवाला सम्यग्दृष्टि चिड़ाका जीव, चिड़ियाका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवसे बोला कि हे प्रिये! मैं इस दूसरे वनमें जाकर अभी वापिस आता हूँ मैं जब तक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना। इसके उत्तरमें चिड़ियाने कहा कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है यदि तू जाता ही है तो सौगन्ध दे जा ॥ ६८-७० ॥ तब वह चिड़ा कहने लगा कि बोल तू पाँच पापोंमेंसे किसे चाहती है मैं तुम्हें उसीकी सौगन्ध दे जाऊँगा ॥ ७१ ॥ उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमेंसे किसीमें मेरी इच्छा नहीं है। तू यह सौगन्ध दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊँ ॥ ७२ ॥ हे प्रिये! यदि तू मुझे यह सौगन्ध देगा तो मैं तुम्हें अन्यत्र जानेके लिए छोड़ूँगी अन्यथा नहीं। चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगन्ध दूँगा। इस प्रकार चिड़ा और चिड़ियाका वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोधसे संतप्त हो गया, उसकी आँखें घूमने लगीं, उसने क्रूरता वशा दोनों पक्षियोंको मारनेके लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, वह कहने लगा कि मेरे कठिन तपसे जो भाषी लोक होने वाला है उसे तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं किया? यह कहा जाय। तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है ॥ ७३-७६ ॥ क्या थोड़ी सी जामिनकी छाँसे दूध नष्ट नहीं हो जाता? यद्यपि आप चिरकालसे घोर तपश्चरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण क्या है? सो सुनिये ॥ ७७ ॥ आप जो कुमार कालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे हैं वह संतानका नाश करनेके लिए है। संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती है? ॥ ७८ ॥ अरे 'पुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती' यह आर्षवाक्य—वेदवाक्य क्या आपने नहीं सुना? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्लेश

१ द्रुन्दमागतौ ल० । २ दीर्घश्रमश्चाश्रा-क०, ख०, घ० । दीर्घं स्मृत्वाश्रय ख० । ३ तम् म०, ल० ।

४-मुक्तोपाद् ल० । ५-मित्यहोतः खगोऽ-ल० । ६ (आतञ्जनतक्रेण अमृततक्रेण दुग्धस्य दधिकरणहेतुभूत-तक्रण, इति 'क्' पुस्तके टिप्पणी)

श्रुत्वा तद्वचनं मन्दमिति निश्चित्य ततथा । बधूजनेषु सक्तानाममज्ञानतपसः क्षितिः ॥ ८० ॥  
 ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा द्विजद्वयम् । वक्षितोऽगात्कुधीस्ताभ्यां कन्या<sup>१</sup>कुब्जाधिपं प्रति ॥ ८१ ॥  
 स्थास्तु नाज्ञानवैराग्यमित्यत्राघोषयन्निव । दृष्ट्वा पारतभूपालमात्ममातुलमत्रपः ॥ ८२ ॥  
 आकारेणैव कन्यार्थागमनं स<sup>२</sup> निवेदयन् । आसनद्वयमालोक्य सरागासनमास्थितः ॥ ८३ ॥  
 निजागमनवृत्तान्तं महीपतिमजीगमत् । तदाकर्ण्य नृपः खेदाद्विगूधिगज्ञानमित्यमुम् ॥ ८४ ॥  
 कन्याशतं ममास्त्यत्र या त्वामिच्छति साऽस्तु ते । इत्यबोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥ ८५ ॥  
 अर्द्धदग्धशवं मत्वा तपोदग्धशरीरकम् । जुगुप्सयाऽपलायन्त काश्चित्काश्चिन्नयाहिताः ॥ ८६ ॥  
 व्रीडया पीडितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा बालिकां सुताम् । तस्यैवालोक्य मृदात्मा पांसुक्रीडापरायणाम् ॥ ८७ ॥  
 कदलीफलमादर्श्य ब्राह्म मामिच्छतीति ताम् । वाञ्छामीत्यश्रुवत्सा च मामिथं वाञ्छतीति ताम्<sup>३</sup> ॥ ८८ ॥  
<sup>१</sup>नृपं निवेद्य संगृह्य समायासीद्वनं प्रति । पदं प्रति जनैर्निन्द्यमानो दीनतमो जडः ॥ ८९ ॥  
<sup>२</sup>रेणुकीत्यभिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिर्धर्म इत्येषा तदा प्रवृत्ति वागभूत् ॥ ९० ॥  
<sup>३</sup>बोधो श्रद्धा विशेषस्य भेदो वा तपसो यतेः । बाह्याभ्यन्तरनामानौ तावभूतां सुतौ स्तुतौ ॥ ९१ ॥  
 इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तौ<sup>४</sup> चन्द्रादित्यसमत्वियौ । कामार्थौ वा जनाभीष्टौ युक्तौ वा नयविक्रमौ ॥ ९२ ॥  
<sup>५</sup>प्रयात्येवं तयोः काले मुनिरन्येष्टुरागतः<sup>५</sup> । अरिश्चयोऽग्रजो गेहं रेणुष्यास्तद्विद्वक्षया ॥ ९३ ॥

उठा रहे हैं ? ॥ ७६ ॥ उसके मन्द वचन सुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रीजनोंमें आसक्त रहनेवाले मनुष्योंके अज्ञान तपकी यही भूमिका है ॥ ८० ॥ 'ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं' ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियोंको छोड़ दिया । इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्याकुब्ज नगरके राजा पारतकी ओर चला । वह मानो इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञानपूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता । वहाँ अपने मामा पारतको देखकर उस निर्लज्जने अपने आकार मात्रसे ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ । राजा पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो आसन रखे—एक रागरहित और दूसरा रागसहित । दोनों आसनोंको देखकर वह रागसहित आसन पर बैठ गया ॥ ८१-८३ ॥ उसने अपने आनेका वृत्तान्त राजाके लिए बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बड़े खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिक्कार हो, धिक्कार हो ॥ ८४ ॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सौ पुत्रियाँ हैं इनमेंसे जो तुम्हे चाहेगी वह तेरी हो जायगी । राजाके ऐसा कहनेपर जमदग्नि कन्याओंके पास गया । उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका शरीर तपसे जल रहा है ऐसे जमदग्निको अधजला मुर्दा मानकर ग्लानिसे भाग गई और कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गई ॥ ८५-८६ ॥ लज्जासे पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस उन सब कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केलाका फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ? लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ । तापसने जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुझे चाहती है । इस प्रकार वह लड़कीको लेकर वनकी ओर चला गया । पद-पद पर लोग उसकी निन्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूर्ख था ॥ ८७-८८ ॥ जमदग्निने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया । उसी समयसे ऐसी प्रवृत्ति—स्त्रियोंके साथ तपश्चरण करना ही धर्म है यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥ ८९ ॥ जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजके तपके बाह्यतप और आभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमदग्निके इन्द्र और श्वेतराम नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगोंको प्रिय काम और अर्थ ही हों अथवा मिले हुए नय और पराक्रम ही हों ॥ ९१-९२ ॥ इस प्रकार उन दोनोंका

१ कन्यकुब्जा-सं० । २ सन्निवेदयन् क०, ख०, म० । ३ तम् ल० । ४ नृप्यावेद्य ल० । ५ रेणुकात्यभि-  
 ल० । ६ बोधो श्रद्धा विशेषस्य भेदो वा तपसःपते ल० । ७ इन्द्रादित्य ल० । ८ प्रयात्येवं ल० । ९-ययौ ल० ।

१ दृष्ट्वा यथोपचारेण मुनिं भर्तृग्रचोदिता । पूज्य ! महानकाले मे दत्तं किं भवता धनम् ॥ ९४ ॥  
 वदेत्याह ततस्तेन मया दत्तं न किञ्चन । इदानीं वीथते भद्रे त्रिजगत्स्वपि दुर्लभम् ॥ ९५ ॥  
 गृहाण येन प्राप्नोषि त्वं सुखानां परम्पराम् । सम्यक्त्वं व्रतसंयुक्तं शीलमालासमुज्ज्वलम् ॥ ९६ ॥  
 इत्युक्त्वा काललब्धयेव तद्वाचा चोदिता सती । सम्यग्गृहीतमित्याख्यन्मुनीशश्चातितुष्टवान् ॥ ९७ ॥  
 कामधेन्वभिधां विद्यामीप्सितार्थप्रदायिनीम् । तस्यै विश्राणयाञ्चक्रे समन्त्रं परशुं च सः ॥ ९८ ॥  
 अथान्यदा ययौ साङ्गं कृतवीरेण तरिपता । तपोवनं सनाभित्वाद् भुक्त्वा गन्तव्यमित्यमुम् ॥ ९९ ॥  
 सहस्रबाहुं सम्भाष्य जमदग्निर्भोजयत् । महाराजकुलेऽप्येषा सामग्री नास्ति भोजने ॥ १०० ॥  
 तपोवननिविष्टानामागता भवतां कुतः । इति स्वमातुरनुजामप्राक्षीद्रेणुकीं ३मियः ॥ १०१ ॥  
 कृतवीरोऽप्रवीत्साऽपि तद्विद्यालम्भनादिकम् । सोऽपि मोहोदयाविष्टस्तां धेनुमकृतशुकः ॥ १०२ ॥  
 होमधेनुरिर्यं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैषा न युक्तेति तनुक्त्या कोपवेगतः ॥ १०३ ॥  
 पराङ्गं यद्धनं लोके तद्योग्यं पृथिवीसुजाम् । न धेनुरीदृशी भोग्या कन्दमूलफलादिभिः ॥ १०४ ॥  
 ३ इत्यस्या धेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । ४ अवस्थितं पुरस्तात्तं जमदग्निं महीपतिः ॥ १०५ ॥  
 हत्वा स्वमार्गमुल्लङ्घ्य कुमार्गोऽभूत्पुरोन्मुखः ५ । रुदन्तीं ६ रेणुकीं भर्तृमरणात् प्रहतोदरीम् ॥ १०६ ॥  
 अथ पुत्रौ वनात्पुष्पकन्दमूलफलादिकम् । आदायालोक्य सम्प्राप्तौ किमेतदिति विस्मयात् ॥ १०७ ॥

काल सुखसे बीत रहा था । एक दिन अरिश्चय नामके मुनि जो रेणुकीके बड़े भाई थे उसे देखनेकी इच्छासे उसके घर आये ॥ ९३ ॥ रेणुकीने विनयपूर्वक मुनिके दर्शन किये । तदनन्तर पतिसे प्रेरणा पाकर उसने मुनिसे पूछा कि हे पूज्य ! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था ? ॥ ९४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहने पर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था । हे भद्रे ! अब ऐसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुर्लभ है । तू उसे ग्रहण कर । उस धनके द्वारा तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने व्रतसे संयुक्त तथा शीलकी माला उज्ज्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया और काललब्धिके समान उनके वचनोंसे प्रेरित हुई रेणुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यग्दर्शन रूपी धन ग्रहण किया । मुनिराज इस बातसे बहुत ही संतुष्ट हुए । उन्होंने मनोवाञ्छित पदार्थ देनेवाली कामधेनु नामकी विद्या और मन्त्र सहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान किया ॥ ९५-९६ ॥ किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्रबाहु उस तपोवनमें आया । भाई होनेके कारण जमदग्निने सहस्रबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना चाहिये । यह कह जमदग्निने उसे भोजन कराया । कृतवीरने अपनी माँकी छोटी बहिन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें ऐसी सामग्री तो राजाओंके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप लोगोंके लिए यह सामग्री कैसे प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया । मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतवीरने रेणुकीसे वह कामधेनु विद्या माँगी । रेणुकीने कहा कि हे तात ! यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदग्निकी होमधेनु है अतः तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है । रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया । वह क्रोधके वेगसे कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजाओंके योग्य होता है । कन्द मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती ॥ ९६-१०४ ॥ ऐसा कह कर वह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके सामने खड़े हो गये । कुमार्गगामी राजा कृतवीर जमदग्निको भारकर तथा अपना मार्ग उल्लंघनकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोदरी रेणुकी पतिकी मृत्युसे रोने लगी । तदनन्तर उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर वनसे लौटे तो यह सब देख आश्चर्यसे पूछने लगे कि यह क्या है ? ॥ १०५-१०६ ॥ सब बातको ठीक-ठीक समझ कर उन्हें क्रोध आ गया । स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको

१ यद्वा क०, घ० । २ रेणुकाम ल०, क०, घ० । ३ इत्युक्त्वा म०, ल० । ४ अङ्कस्थितं ल० ।

५ परोन्मुखः क०, घ० । ६ रेणुकां ख० ।

१पृष्ट्वा विज्ञाय तत्सर्वं सकोपौ शोकनिर्भराम् । निर्वाप्य युक्तिमद्वारिभस्तौ नैसर्गिकविक्रमौ ॥ १०८ ॥  
 ध्वजीकृतनिशातोप्रपरशू यमसन्निभौ । गोग्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥  
 श्रूयते तत्तथैवास्तां कः सहेत पितुर्वधम् । इत्युक्त्वानुगताशेषस्त्रिद्वन्द्वमुनिकुमारकौ ॥ ११० ॥  
 तद्गतं मार्गमन्वेत्य साकेतनगरान्तिकम् । सम्प्राप्य कृतसंग्रामौ कृतवीरेण भूपतिम् ॥ १११ ॥  
 सहस्रबाहुमाहृत्य सायाह्वेऽविक्षतां पुरम् २ । हालाह्लोपमान्याशु ३घोराहःस्फूर्जितान्यलम् ॥ ११२ ॥  
 फलन्त्यकार्यचर्याणां दुःसहां दुःखसन्ततिम् । सहस्रबाहुसन्ताननिःशेषीकरणोत्सुकम् ॥ ११३ ॥  
 ज्ञात्वा परशुरामीयमभिप्रायं महीपतिः । भूपालचरदेवेन निदानविपदूषितात् ॥ ११४ ॥  
 समुद्भूतेन तपसो महाशुक्रेऽत्र जन्मिना । राज्ञीं सगर्भां चित्रमतीं ४ तां शाण्डिल्यतापसः ॥ ११५ ॥  
 तद्ग्रजः समादाय गत्वा विज्ञातचर्यथा । स सुबन्ध्वाख्यनिर्ग्रन्थमुनेरावेद्यवृत्तकम् ॥ ११६ ॥  
 तत्समीपे निधायार्थं मठे मे नास्ति कश्चन । ५तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याम्येषाऽत्र तिष्ठतु ॥ ११७ ॥  
 देवीति गतवांस्तस्मात्तदैवासुत सा सुतम् । तदानीमेव तं तत्र भविष्यद्भरताधिपः ॥ ११८ ॥  
 बालकोऽयमिति ज्ञानास्स्वीचक्रुर्वनदेवताः । ताभिः प्रपाद्यमानोऽथमनाबाधमवर्द्धत ॥ ११९ ॥  
 दिनानि कानिचिन्नीत्वा महीमाश्लिष्य जातवान् । बालकोऽयं कथम्भावी भट्टारक, शुभाशुभम् ॥ १२० ॥  
 अनुगृह्णास्य व्रक्तव्यमिति देव्योदितो मुनिः । एष चक्री भवेदम्ब वत्सरे षोडशे ध्रुवम् ॥ १२१ ॥  
 साम्निशुद्धीगतस्थूल ६ किलासघृतमध्यगान् । ७उष्णापूपानुपादाय भक्षयिष्यति बालकः ॥ १२२ ॥

युक्तिपूर्ण वचनोंसे संतुष्ट किया फिर तीक्ष्ण फरशाको ध्वजा बनानेवाले, यमतुल्य दोनों भाइयोंने परस्पर कहा कि गायके ग्रहणमें यदि मरण भी हो जाय तो वह पुण्यका कारण है ऐसा शास्त्रोंमें सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों ही भाई चल पड़े । स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये ॥ १०७—११० ॥ राजा सहस्रबाहु और कृतवीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप पहुँच गये । वहाँ कृतवीरके साथ संग्रामकर उन्होंने राजा सहस्रबाहुको मार डाला और सायंकालके समय नगरमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जो अकार्यमें प्रवृत्ति करते हैं उनके लिए हलाहल विषके समान भयंकर पापोंके परिपाक असह्य दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं । इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परशुराम, सहस्रबाहुकी समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी चित्रमती, निदानरूपी विषसे दूषित तपके कारण महाशुक्रे स्वर्गमें उत्पन्न हुए राजा भूपालके जीव स्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात् उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया है । ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों ही वह बहिन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पड़ा और सुबन्धु नामक निर्ग्रन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये । हे आर्य ! मेरे मठमें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर वापिस आऊँगा । जब तक मैं वापिस आऊँ तब तक यह देवी यहाँ रहेगी? यह कहकर वह चित्रमतीको सुबन्धु मुनिके पास छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥ १११—११७ ॥

इधर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया । यह बालक भरतक्षेत्रका भावी चक्रवर्ती है यह विचारकर वन-देवताओंने उसे शीघ्र ही उठा लिया । इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती हैं ऐसा वह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा ॥ ११८—११९ ॥ जब कुछ दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन रानीने मुनिसे पूछा कि हे स्वामिन् ! यह बालक पृथिवीका आश्लेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ था अतः अनुग्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिये । इस प्रकार रानीके कहने पर मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहवें वर्षमें अवश्य ही चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती होनेका यह चिह्न होगा कि यह बालक अभिसे जलते हुए चूल्हेके ऊपर रखी कढ़ाईके घीके मध्यमें

१ दृष्ट्वा ल० । २ पुरीम् ल० । ३ घोराहःस्फूर्जितान्यलम् ल० । ४ चित्रमतीम् ल० । ५ तत्र गत्वा समागमिष्याम्येषा तत्र तिष्ठतु ल० । ६ स्थाल ल० । ७ उष्णान् पूपान् समादाय, क०, ग० । उष्णान् पूपानादाय ल० । उष्णान् पूपानुपादाय ल०, म० ।

अभिज्ञानमिदं भावि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम् । तस्मान्मा स्म भयं यास्यारिति तामिति दुःखिताम् १२३  
 सुबन्ध्वाख्यो भृशं स्वास्थ्यमनैपीत्करुणान्मकः । ततस्तदग्रजोऽभेत्य तां नीत्वा १ गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥  
 समुद्भूतोऽयमाश्लिष्य मेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सम्प्रीत्या चक्रे नाम कृतोत्सवः ॥१२५॥  
 तत्र शास्त्राणि सर्वाणि सप्रयोगाणि सन्ततम् । सोपदेशं समभ्यस्यन् वर्द्धते स्म स गोपितः ॥ १२६ ॥  
 अथ तौ रेणुकीपुत्रौ प्रवृद्धोऽग्रपराक्रमौ । त्रिः सप्तकृत्वो निर्मूलमापाद्य २ क्षत्रियान्वयम् ॥ १२७ ॥  
 स्वहस्ताखिलभूपालशिरांसि स्थापनेच्छया । शिलास्तम्भेषु सङ्गृह्य वद्धवैरौ गुरोर्वधात् ॥ १२८ ॥  
 सार्वभौमीं श्रियं सम्यक् सम्भूयानुबभूवतः । निमित्तकुशलो नाम्ना कदाचित्स निमित्तवित् ॥ १२९ ॥  
 भवतः शत्रुरूपश्चः प्रयत्नोऽत्र विधीयताम् । कः प्रत्ययोऽस्य चेद्वच्चि ३ विध्वस्ताखिलभूशुजात् ॥१३०॥  
 दन्ता यस्याशनं भूत्वा परिणस्यत्यसौ रिपुः । इतीन्द्ररामं राजानं परदवीशमब्रूवुधत् ॥ १३१ ॥  
 श्रुत्वा यथावच्चैमितिकोक्तं चेतसि धारयन् । कृत्वा परशुरामोऽपि दानशालां सुभोजनाम् ॥ १३२ ॥  
 तत्परीक्षार्थमायान्तु येऽत्र ४ विश्वणार्थिनः । इत्याघोषयति स्मैतत् श्रुत्वा तेऽपि समागमन् ॥ १३३ ॥  
 तेषां पात्रस्थतदन्तान् सम्प्रददर्श परीक्षितुम् । तान् भोजयति भूपाले प्रत्यहं स्वन्वियोगिभिः ॥१३४ ॥  
 पितुर्मरणवृत्तान्तं स्वमातुरवब्रूववान् । स्वचक्रेशित्वसम्प्राप्तिकालायानं च तत्त्वतः ॥ १३५ ॥  
 ५ सुसिद्धमुनिनिर्दिष्टसंघृत्तात्मस्वरूपकः । परिव्राजकवेषेण स्वरहस्याथर्वेदिना ॥ १३६ ॥  
 राजपुत्रसमूहेन सुभौमोऽध्यागमपुरम् । सभाग्यांश्चोदयत्येव काले कल्याणकृद्भिः ॥ १३७ ॥

स्थित गरम गरम पुत्रोको निकालकर खा लेगा । इसलिए तू किसी प्रकारका भय मत कर । इस-  
 प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुखी किया ।

तदनन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया ।  
 यह बालक पृथिवीको छूकर उत्पन्न हुआ था इसलिये शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेमके साथ  
 उसका सुभौम नाम रक्खा ॥ १२०-१२५ ॥ वहाँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग  
 सहित समस्त शास्त्रोंका अभ्यास करता हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥ १२६ ॥ इधर जिनका उग्र  
 पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दोनों पुत्रोंने इक्कीस वार क्षत्रिय वंशको निर्मूल नष्ट किया  
 ॥ १२७ ॥ पिताके मारे जानेसे जिन्होंने वैर बाँध लिया है ऐसे उन दोनों भाइयोंने अपने हाथसे  
 मारे हुए समस्त राजाओंके शिरोंको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भोंमें संगृहीतकर रक्खा  
 था ॥ १२८ ॥ इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त पृथिवीकी राज्यलक्ष्मीका अच्छी तरह उपभोग  
 करते थे । किसी एक दिन निमित्तकुशल नामके निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे  
 कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिये । इसका विश्वास कैसे हो ? यदि  
 आप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ । मारे हुए राजाओंके जो दांत आपने इकट्ठे किये हैं वे  
 जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु होगा ॥ १२९-१३१ ॥ निमित्त-  
 ज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचार किया और उत्तम भोजन करानेवाली  
 दानशाला खुलवाई ॥ १३२ ॥ साथमें यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलाषी यहाँ आवें उन्हें  
 पात्रमें रखे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे । इस प्रकार शत्रुकी परीक्षाके लिए वह  
 प्रतिदिन अपने नियोगियों—नौकरोंके द्वारा अनेक पुरुषोंको भोजन कराने लगा ॥ १३३-१३४ ॥  
 इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्र-  
 वर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु मुनिके कहे अनुसार उसे  
 अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार विदित हो गया अतः वह परिव्राजकका वेष रखकर अपने  
 रहस्यको समझनेवाले राजपुत्रोंके समूहके साथ अयोध्या नगरकी ओर चल पड़ा सो ठीक ही है  
 क्योंकि कल्याणकारी दैव भाग्यशाली पुरुषोंको समय पर प्रेरणा दे ही देता है ॥ १३५-१३७ ॥ उस

१ गृहमात्मनः म०, ल० । २ क्षत्रियान्वहम् ल० । ३ त्वद्व्यस्ताखिल-ख०, ग० । त्वद्व्यस्ताखिल-  
 ल० । ४ भोजनार्थिनः । ५ सुबन्धुमुनि ग० ।

तदा साकेतवास्तव्यदेवताक्रन्दनं महत् । महीकम्पो दिवा तारादृष्यादिरभवत्पुरे ॥ १३८ ॥  
 १ तथागत्य कुमारोऽसौ शालां भोक्तुमुपागतः । २ तमाहूय निवेद्योच्चैरासने हतभूभुजात् ॥ १३९ ॥  
 नियोक्ता दर्शयन्ति स्म दन्तांस्तस्यानुभावतः । ३ कलभाञ्जं तदासंस्ते तद्दृष्ट्वा परिचारिणः ॥ १४० ॥  
 व्यजिज्ञपन्नृपं सोऽपि स धृत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद् भृत्यांस्तेऽपि तं प्राप्य निष्कुराः ॥ १४१ ॥  
 आहूतोऽसि महीशेन त्वमेद्वाश्लित्युदाहरन् । नाहं यूयमिवास्यादां जीविकां तत्तदन्तिकीम् ॥ १४२ ॥  
 किमित्येष्यामि यातेति तज्जितास्तत्प्रभावतः । भटा भयज्वरप्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम् ॥ १४३ ॥  
 श्रुत्वा परशुरामस्तत्कुदृष्ट्वा सन्नद्धसाधनः । ४ समागतस्तदालोक्य सुभौमोऽभिमुखं ययौ ॥ १४४ ॥  
 बलं परशुरामः ५ स्वं तेन योद्धुं ६ सहादिशत् । जन्मप्रभृति तत्पाता भरतव्यन्तराधिपः ॥ १४५ ॥  
 रक्षित्वाऽस्थात्कुमारं तं तस्मात्तस्याप्रतो बलम् । स्थातुमक्षममालोक्य स्वयं गजमचोदयत् ॥ १४६ ॥  
 सहसैव सुभौमस्याप्यभवद् गन्धवारणः । चक्रं च सश्विधौ दिव्यं सार्वभौमत्वसाधनम् ॥ १४७ ॥  
 सहस्रदेवतारक्ष्यं किञ्च स्यात् सम्मुखे विधौ । वारणेन्द्रं समारुह्य पूर्वोद्दिमिव ७ भास्करः ॥ १४८ ॥  
 सहस्रारं करे कृत्वा कुमारश्चक्रमाबभौ । तं दृष्ट्वा रुष्टवान् हन्तुं जामदग्न्योऽभ्युपागमत् ॥ १४९ ॥  
 चक्रेण तं कुमारोऽपि लोकान्तरमजीगमत् । अकरोच्चान्यसैन्यस्य तदैवाभयघोषणाम् ८ ॥ १५० ॥  
 अरेशतीर्थसन्तानकाके द्विशतकोटिषु । स द्वात्रिंशत्सु जातेऽभूत्सुभौमो वत्सरेष्वयम् ॥ १५१ ॥

समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता बड़े जोरसे रोने लगे, पृथिवी काँप उठी और दिनमें तारे आदि दिखने लगे ॥ १३८ ॥ सुभौम कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दानशालामें पहुँचे तो वहाँके कर्मचारियोंने बुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया और मारे हुए राजाओंके संचित दाँत दिखलाये परन्तु सुभौमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चावलोंके भातरूपी हो गये । यह सब देखकर वहाँके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी । राजाने भी 'उसे पकड़कर लाया जावे' यह कहकर मजबूत नौकरोँको भेजा । अत्यन्त क्रूर प्रकृतिवाले भृत्योंने सुभौमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभौमने उत्तर दिया कि मैं तुम लोगोंके समान इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊँ ? तुम लोग जाओ' ऐसा कहकर उसने उनकी तर्जना की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भयरूपी ज्वरसे ग्रस्त हो गये और सब यथास्थान चले गये ॥ १३९-१४३ ॥ यह सुनकर परशुराम बहुत क्रुपित हुआ । वह युद्धके सब साधन तैयार कर आ गया । उसे आया देख सुभौम भी उसके सामने गया ॥ १४४ ॥ परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी । परन्तु भरतक्षेत्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभौमकुमारकी रक्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामने नहीं ठहर सकी । यह देखकर परशुरामने सुभौमकी ओर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभौमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत्ता हाथी प्रकट हो गया । यही नहीं, एक हजार देव जिसकी रक्षा करते हैं और जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवोपनीत चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सन्मुख रहते हुए क्या नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वोचल पर सूर्य्य आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ़ होकर सुभौमकुमार निकला । वह हजार आरे-वाले चक्ररत्नको हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था । उसे देखकर परशुराम बहुत ही क्रुपित हुआ और सुभौमको मारनेके लिए सामने आया ॥ १४५-१४६ ॥ सुभौम कुमारने भी चक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया—मार डाला तथा वाकी बची हुई सेनाके लिए उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥ १५० ॥

श्री अरनाथ तीर्थकरके बाद दो सौ करोड़ बत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवर्ती

१ तदागत्य म०, ख० । २ समाहूय क०, घ० । ३ शालिभोजनम् । ४ समागतं तदालोक्य म० । समागतं तदालोक्य ख० । ५ परशुरामस्तत्तेन ख० । ६ समादिशत् ख०, ग०, म० । ७ पूर्वोद्दिमिव ख० । ८ घोषणम् क०, ख०, ग० ।

अभिभूताखिलारतिरष्टमश्चक्रवर्तिषु । समा षष्टिसहस्रायुरष्टाविंशतिचापमः ॥ १५२ ॥  
जातरूपच्छविः श्रीमानिङ्वाकुलकुलकेसरी । विराजमानो विस्पष्टचक्रादिशुभलक्षणैः ॥ १५३ ॥  
ततो रत्नानि शेषाणि निधयोऽपि नवाभवन् । पट्खण्डस्याधिपत्येन प्रादुरासीत्स चक्रभृत् ॥ १५४ ॥  
चक्रवर्तित्वसम्प्राप्यान् भोगान् दशविधांश्चिरम् । अन्वभूदिव देवेन्द्रो दिवि दिव्याननारतम् ॥ १५५ ॥  
अन्येषुः सूपकारोऽस्य नाम्नाऽमृतरसायनः । रसायनाङ्किकामस्यै मुदाऽदादम्बिकां हितः ॥ १५६ ॥  
तन्नामश्रुतिमात्रेण तद्गुणस्याविचारकः । तद्वैरिचोदितः<sup>१</sup> कोपाद् भूपतिस्तमदण्डयत् ॥ १५७ ॥  
सोऽपि तेनैव दण्डेन म्रियमाणोऽतितीव्रहृत् । वध्यासं नृपमित्याचनिदानः पुण्यलेहतः ॥ १५८ ॥  
ज्योतिर्लोकैऽमरो भूत्वा विभङ्गज्ञानवीक्षणः । अनुस्मृत्य रूपा वैरं जिघांसुः स महीपतिम् ॥ १५९ ॥  
जिह्वालोलुपमालक्ष्य सन्धृत्य वणिगाकृतिम् । सुस्वादुफलदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥ १६० ॥  
निष्ठिता विफलानीति कदाचित्तेन भाषितः<sup>२</sup> । आनेतव्यानि तान्येव गत्वत्याख्यञ्चूपोऽपि तम् ॥ १६१ ॥  
आनेतुं तान्यशक्त्यानि प्राङ्मयायास्य देवताम् । तद्वनस्वामिनीं दीर्घं लब्धान्येतानि कानिचित् ॥ १६२ ॥  
आसक्तिषु चेदस्ति देवस्य<sup>४</sup> तद्वनं मया । सह तन्न त्वमायाहि यथेष्टं तानि भक्षय ॥ १६३ ॥  
इति प्रलम्भनं तस्य विश्वास्य<sup>५</sup> प्रतिपन्नवान् । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनश्यति विचारणम्<sup>६</sup> ॥ १६४ ॥  
एतद्राज्यं परित्यज्य रसनेन्द्रियलोलुपः । मत्स्यवर्त्किं विनष्टेति मन्त्रिभिर्वारितोऽप्यसौ ॥ १६५ ॥

उत्पन्न हुआ था ॥ १५१ ॥ यह सुभौम समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला था और चक्रवर्तियोंमें आठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वर्षकी आयु थी, अट्टाईस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान् था, इक्ष्वाकु वंशका सिंह था—शिरोमणि था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनेवाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोभित था ॥ १५२-१५३ ॥ तदनन्तर बाकीके रत्न तथा नौ निधियाँ भी प्रकट हो गईं इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ ॥ १५४ ॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग करता रहता है उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ १५५ ॥ सुभौमका एक अमृतरसायन नामका हितैषी रसोइया था उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कढ़ी परोसी ॥ १५६ ॥ सुभौमने उस कढ़ीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्रसे वह कुपित हो गया । इसीके बीच उस रसोइयाके शत्रुने राजाको उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश उसने उस रसोइयाको दण्डित किया । इतना अधिक दण्डित किया कि वह रसोइया उस दण्डसे म्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाको अवश्य मारूँगा । थोड़ेसे पुण्यके कारण वह मरकर ज्योतिर्लोकमें विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला देव हुआ । पूर्व वैरका स्मरण कर वह क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा ॥ १५७-१५८ ॥ उसने देखा कि यह राजा जिह्वाका लोभी है अतः वह एक व्यापारीका वेष रख मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥ १६० ॥ किसी एक दिन उस देवने कहा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्त हो गये । राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आओ ॥ १६१ ॥ उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा सकते । पहले तो मैंने उस वनकी स्वामिनी देवीकी आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे ॥ १६२ ॥ यदि आपकी उन फलोंमें आसक्ति है—आप उन्हें अधिक पसन्द करते हैं तो आप मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिये और इच्छानुसार उन फलोंको खाइये ॥ १६३ ॥ राजाने उसके मायापूर्ण वचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ १६४ ॥ यद्यपि मन्त्रियोंने उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़-

१ रसायनाङ्किकामस्यै म० । रसायनाङ्किकामस्यै ग० । रसायनाभिधामस्यै ल० । २ चोदितस्तस्मात् क०, घ० । ३ भाषिते म०, ल० । ४ भवतः । ५ विश्वस्य ल० । ६ विचारणा ल० ।



तदुक्तमति लङ्घ्याज्ञः पोतेनागाहताम्बुधिम् । तदा रजानि तद्गेहात् न्यपेतान्यखिलान्यपि ॥ १६६ ॥  
 सहस्रयक्षरक्षाणि प्रत्येकं निधिभिः समम् । तद्विदित्वा वणिग्वैरी नीत्वा मध्येऽम्बुधिं <sup>१</sup>द्विषम् ॥ १६७ ॥  
 स्वप्राग्जन्माकृतिं तस्य प्रकटीकृत्य दुर्वचः । उक्त्वा वैरानुबन्धं च क्रूरश्चित्रवर्धं व्यधात् ॥ १६८ ॥  
 सुभौमोऽपि विपद्यान्ते रौद्रध्यानपरायणः । श्वाभीं गतिं समापन्नो दौर्मत्याक्लिन्न जायते ॥ १६९ ॥  
 लोभात्सहस्रबाहुश्च प्राप तिर्यग्गतिं सतुक् । जमदग्निस्तौ हिंसापरतन्त्रौ गतावधः ॥ १७० ॥  
 तत एव त्यजन्त्येतौ रागद्वेषौ मनीषिणः । तस्यागादामुबन्ध्यापन्नाप्यन्ति च परं पदम् ॥ १७१ ॥

### वसन्ततिलका

एकोऽपि सिंहसदृशः सकलावनीशो

इत्वा पितुर्वधकृतौ जमदग्निसूनु ।

कीर्त्या स्वया धवलिताऽखिलदिक् सुभौम—

श्रक्री सुदुर्नयव<sup>३</sup>शास्त्ररकेऽष्टमोऽभूत् ॥ १७२ ॥

भूपालभूपतिरसह्यतपोविधायी

शुद्धेऽभवन्महति षोडशसागरायुः ।

च्युत्वा ततः सकलचक्रधरः सुभौमो

रामान्तकृष्णरकनायकतां जगाम ॥ १७३ ॥

नन्दिषेणो बलः पुण्डरीकोऽर्द्धभरताधिपः । राजपुत्राविमौ जातौ तृतीयेऽन्न भवान्तरे ॥ १७४ ॥

सुकेत्वाश्रयशाल्येन तपः कृत्वायुपोऽवधौ । भाद्ये कल्पे समुत्पद्य ततः प्रच्युत्य चक्रिणः ॥ १७५ ॥

पश्चात्षड्छतकोट्यब्दातीतौ तत्रैव भारते । राजश्चक्रपुराधीशादिक्वाकांर्वरसेनतः ॥ १७६ ॥

कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूर्खने एक न मानी । वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्रमें जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एक-एक हजार यत्न रक्षा करते थे ऐसे समस्त रत्न निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये । यह जानकर वैश्यका वेष रखनेवाला शत्रु भूतदेव अपने शत्रु राजाको समुद्रके बीचमें ले गया ॥ १६५-१६७ ॥ वहाँ ले जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कह कर पूर्ववद्ध वैरके संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८ ॥ सुभौम चक्रवर्ती भी अन्तिम समय रौद्रध्यानसे मर कर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धिसे क्या नहीं होता है ? ॥ १६९ ॥ सहस्रबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तिर्यञ्च गतिमें गया और हिंसामें तत्पर रहनेवाले जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति—नरकगतिमें उत्पन्न हुए ॥ १७० ॥ इसीलिए बुद्धिमान् लोग इन राग-द्वेष दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे ही विद्वान् पुरुष वर्तमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे और आगामी कालमें प्राप्त करेंगे ॥ १७१ ॥ देखो, आठवाँ चक्रवर्ती सुभौम यद्यपि सिंहके समान एक था—अकेला ही था तथापि वह समस्त पृथिवीका स्वामी हुआ । उसने अपने पिताका वध करनेवाले जमदग्निके दोनों पुत्रोंको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्वल कर दी थीं किन्तु स्वयं दुर्नीतिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥ १७२ ॥ सुभौम चक्रवर्तीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेवाला सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ और अन्तमें नरकका अधिपति हुआ ॥ १७३ ॥

अथानन्तर इन्हींके समय नन्दिषेण बलभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए हैं । इनमें से पुण्डरीकका जीव तीसरे भवमें सुकेतुके आश्रयसे शल्य सहित तप कर आयुके अन्तमें पहले स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभौम चक्रवर्तीके बाद छह सौ करोड़ वर्ष कीत-जन्मे

वैजयन्त्यां बलो देवो लक्ष्मीमत्यामजायत । पुण्डरीकस्तथोरायुः खन्नयत्वेन्द्रियाब्दवत् ॥ १७७ ॥  
 षड्विंशतितनूत्सेधौ धनुष्यां नियतायुषोः । स्वतपःसञ्चितात्पुण्यात्काले यात्यायुषोः सुखम् ॥ १७८ ॥  
 अन्यदोपेन्द्रसेनाख्यमह्रीडिन्द्रपुराधिपः । पद्मावतीं सुतां स्वस्य पुण्डरीकाय दशवान् ॥ १७९ ॥  
 अथ दर्पीं दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनो रिपुः । निजोपाजितकर्मानुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥  
 भान्त्वा क्रमेण सञ्चित्य शुभं तदनुरोधतः । भूत्वा चक्रपुराधीशो वशीकृतवसुन्धरः ॥ १८१ ॥  
 श्रीभार्कमण्डलाभत्वादसोढा परतेजसाम् । तद्विवाहश्रुतेः क्रुद्धः सच्चन्द्राशेषसाधनः ॥ १८२ ॥  
 निशुम्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्दयः । १ प्रास्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीकं जिघांसुकः ॥ १८३ ॥  
 युद्ध्वा बहुविधेनामा तेनोद्यतेजसा चिरम् । तच्चक्राशनिघातेन घातितासुरयादधः ३ ॥ १८४ ॥  
 तासुभाविव चन्द्राकौ संयुक्तौ लोकपालकौ । स्वप्रभाक्रान्तदिक्चक्रौ पालयित्वा चिरं धराम् ॥ १८५ ॥  
 अविभक्तश्रियौ प्रीतिं परमां प्रापतुः पृथक् । व्यासचक्षुर्विशेषौ वा रथैकविषयेऽज्ञौ ॥ १८६ ॥  
 तयोर्भवत्रयायातपरस्परसमुद्भवात् । प्रेम्णस्तृप्तेरयाज्ञांशमपि तृप्तिर्नृपत्वजा ४ ॥ १८७ ॥  
 पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्वा भोगास्तत्रातिसक्तितः । बध्वायुर्नारकं घोरं बह्मारम्भपरिग्रहः ॥ १८८ ॥  
 प्रान्ते रौद्राभिसन्धानाद्ब्रह्मिथ्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां ५ भृत्वा प्राविशत्पापपाकवान् ॥ १८९ ॥

पर इसी भरत क्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा वरसेनकी लक्ष्मीमती रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वैजयन्तीसे नन्दिषेण नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था । उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छत्वीस धनुषः ऊँचा था, दोनों की आयु नियत थी और अपने तपसे सञ्चित हुए पुण्यके कारण उन दोनोंकी आयुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ १७४-१७८ ॥ किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥ १७९ ॥ अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेतु नामका राजा था वह अत्यन्त अहङ्कारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था । वह अपने द्वारा उपाजित कर्मोंके अनुसार अनेक भवोंमें घूमता रहा । अन्तमें उसने क्रम-क्रमसे कुछ पुण्यका सञ्चय किया था उसके अनुरोधसे वह पृथिवीको वश करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ नामका अधिपति हुआ । उसकी आभा ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके मण्डलके समान थी । वह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल ही सद्द नहीं करता था । जब उसने पुण्डरीक और पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही क्रुपित हुआ । उसने सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुओं को मारने वाला था, नारकियों से भी कहीं अधिक निर्दय था, और अखण्ड पराक्रमी था । पुण्डरीकको मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा । जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत प्रकारका युद्ध किया और अन्तमें उसके चक्ररूपी वज्रके घातसे निष्पाण होकर वह अधोगतिमें गया—नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ ॥ १८०-१८४ ॥ सूर्य चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिङ्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे ॥ १८५ ॥ वे दोनों ही भाई बिना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-अलग रहनेवाले दो नेत्र ही हों ॥ १८६ ॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी । भावार्थ—उन दोनोंका पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था ॥ १८७ ॥ पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे और उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया । वह बहुत आरम्भ और परिग्रहका धारक था, अन्तमें रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्व रूप भावना भी जागृत हो उठी जिससे मर कर वह पापोदयसे तमःप्रभा नामक छठवें नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १८८-१८९ ॥

१ प्रस्थिताखण्डविक्रान्तः म०, ल० । २ बहुविधेनासौ तेनोद्यतेजसा ल० । ३ घातितासुः + अयात् + अथ इतिच्छेदः । ४ नृपत्वजाम् ल०, म० । ५ क्रीत्वा ल०, म० । कृत्वा क०, घ० ।

हलभृत्तद्वियोगेन जातनिर्वेग<sup>१</sup>सारथिः । शिवघोषयति प्राप्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥ १९० ॥  
स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं तपः कृत्वा निराकुलः । मूलोत्तराणि कर्माणि निर्मूल्यावाप निर्द्वैतिम् ॥ १९१ ॥

### वसन्ततिलका


जातौ तृतीयजनने धरणीशपुत्रौ

पश्चात्सुरौ प्रथमकल्पगतावभूताम् ।

श्रीनन्दिषेणहलभृत्सुनिशुम्भशत्रुः


षष्ठिखण्डधरणीदसु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥

इत्यार्षे त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतेऽरतीर्थकरचक्रधर-सुभौमचक्रवर्तिनन्दि-  
षेणवलदेव-पुण्डरीकाङ्कचक्रवर्तिनिशुम्भनामप्रतिशत्रुपुराणं परिसमाप्तं पञ्चषष्ठितनं पर्व ॥ ६५ ॥



उसके वियोगसे नन्दिषेण बलभद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसने शिवघोष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥ १९० ॥ उसने निर्द्वन्द्व होकर बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कर्मोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १९१ ॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्गमें देव हुए, तदनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्र हुआ और दूसरा निशुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु पुण्डरीक हुआ । यह तीन खण्डके राजाओं—नारायणोंमें छठवाँ नारायण था ॥ १९२ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें अरनाथ तीर्थकर चक्रवर्ती, सुभौम चक्रवर्ती, नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला पैंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥



## षट्षष्टितमं पर्व

मोहमल्लममल्लं यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम् । करीन्द्रं वा हरिः सोऽयं मल्लिः शल्यहरोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
जम्बूपलक्षितं द्वीपमेरोः प्राक् कच्छकावती । विपये वीतशोकाख्यपुरे <sup>१</sup>वैश्रवणाह्वयः ॥ २ ॥  
महावंशो मही तस्य महागुणमहीयसः । कुम्भकारकरालमृत्स्त्रेव वशवर्तिनी ॥ ३ ॥  
योगस्ताभ्यो महान्तस्य प्रजानां प्रेमकारिणः । ता यस्मादुपयुज्यन्ते कोशदुर्गावलाविभिः ॥ ४ ॥  
महाभयेषु सन्धर्तुं सञ्चिनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च सन्मार्गं सम्प्रवर्तयितुं स ताः ॥ ५ ॥  
इति प्रबृद्धपुण्यथानुभावसम्पादितान् श्रियम् । प्रियामिव नवोढां तामुत्पीत्यानुभवश्चिरम् ॥ ६ ॥  
कदाचित्प्रावृडास्मि जृम्भमाणां वनावलीम् । विलोकितुं पुरस्यायादुपशाल्यमुदात्तधीः ॥ ७ ॥  
तत्र शाखोपशाखाः स्वाः प्रसार्येव नृपो महान् । अवगाह्य महीं तस्थौ न्यग्रोधः सेवितो द्विजैः ॥ ८ ॥  
तं विलोक्य महीपालः पश्य पश्यास्य विस्तृतिम् । तुङ्गत्वं बद्धमूलत्वं वहन्नवेति मामयम् ॥ ९ ॥  
दर्शयन्निति <sup>२</sup>साश्चर्यं प्रियाणां पार्श्ववर्तिनाम् । गत्वा वनान्तरे भ्रान्त्वा तेनैवायात् <sup>३</sup>पुनः पथा ॥ १० ॥  
भामूलाद् भस्मितं वीक्ष्य वज्रपातेन तं वटम् । कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥ ११ ॥  
कस्य का तुङ्गता नाम यद्यस्यापीदृशी गतिः । इति चिन्तां <sup>४</sup>समापन्नः सन्त्रस्तः संसृतिस्थितेः ॥ १२ ॥

जिस प्रकार सिंह किसी हाथीको जीतता है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेवाले मोहरूपी मल्लको अमल्लकी तरह जीत लिया वे मल्लिनाथ भगवान् हम सबके शल्यको हरण करनेवाले हों ॥ १ ॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक वीतशोक नामका नगर है उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था । जिस प्रकार कुम्भकारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी समस्त पृथिवी उसके वश रहती थी ॥ २-३ ॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका उपभोग करता था ॥ ४ ॥ वह किसी महाभयके समय प्रजाकी रक्षा करनेके लिए धनका संचय करता था और उस प्रजाको सन्मार्गमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था ॥ ५ ॥ इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्ष्मीका वह नव विवाहिता स्त्रीके समान बड़े हर्षसे चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ ६ ॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमें बढ़ती हुई वनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया ॥ ७ ॥ वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर रहता है और अनेक द्विज—ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक वटका वृक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर खड़ा था एवं अनेक द्विज—पक्षीगण उसकी सेवा करते थे ॥ ८ ॥ उस वटवृक्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई और बद्धमूलताको धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥ ९ ॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंको आश्चर्यके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वनमें चला गया और घूमकर फिरसे उसी मार्गसे वापिस आया ॥ १० ॥ लौट कर उसने देखा कि वह वटवृक्ष वज्र गिरनेके कारण जड़ तक भस्म हो गया है । उसे देख कर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी है ? विस्तार किसका है ? और ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत वट वृक्षकी ऐसी दशा हो गई तब दूसरेका क्या विचार हो सकता है ? ऐसा विचार करता हुआ वह संसारकी स्थितिसे भयभीत हो गया । उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत

१ विश्रवणाह्वयः ग० । २ चाश्चर्यं ल० । ३ तेनैवायात् पुरः पथा ल० । ४ चिन्तासमापन्नः ल० ।

प्रदाय राज्यं पुत्राय श्रीनागनगवर्तिनम् । श्रीनागपतिमासाद्य पीतधर्मरसायनः ॥ १३ ॥  
 राजभिर्बहुभिः सार्द्धंमवाप्यात्युन्नतं तपः । अङ्गान्येकादशाङ्गानि विधाय विधिना धिया ॥ १४ ॥  
 सम्पाद्य तीर्थं कृत्वा गोत्रं क्षीपात्तभावनः । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिग्रहः ॥ १५ ॥  
 सोऽनुत्तरविमानेषु सम्बभूवापराजिते । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्तोच्छ्रितः कृती ॥ १६ ॥  
 मासान् षोडश मासान् चातिवाह्यं मनाक् सकृत् । श्वसित्याहारमादत्ते मनसा योग्यपुद्गलान् ॥ १७ ॥  
 त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्तवत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोऽस्य निःप्रवीचारो लोकनाल्यन्तरावधेः ॥ १८ ॥  
 तत्क्षेत्रमितभाशक्तिविक्रियस्यामरेशितुः । तस्मिन् पण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भूतलम् ॥ १९ ॥  
 अत्रैव भरते बह्विषये मिथिलाधिपः । इक्ष्वाकुर्भूपतिः कुम्भनामा काश्यपगोत्रजः ॥ २० ॥  
 प्रजावती महादेवी तस्य लक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिकृताचिन्त्यवसुधारादिवैभवा ॥ २१ ॥  
 चैत्रमासे<sup>१</sup> सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपदिने । अश्विन्यां षोडश स्वप्नान् व्यलोकित्पेष्टसूचिनः ॥ २२ ॥  
 तदैव मङ्गलान्युच्चैः पेटुर्मङ्गलपाठकाः । हता प्रभातभेरी च दरनिद्राविघातिनी ॥ २३ ॥  
 प्रबुध्याधिकसन्तोषात्सनात्वा मङ्गलवेषधृक् । पतिं प्रति गता रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥  
 संसत्कुमुद्वती<sup>३</sup> सा विकासयन्ती स्वतेजसा । आनन्दयद्विलोक्यैनामधीशोऽप्यासनादिभिः ॥ २५ ॥  
 सुस्थिताऽर्द्धासने सापि स्वर्मास्तांस्तमवेदयत् । फलान्यमीषां शुश्रूषुः परितोषकराप्यतः ॥ २६ ॥  
 यथाक्रमं नृपोऽप्युक्त्वा फलं तेषां पृथक् पृथक् । गजवक्त्रप्रवेशावलोकनाद्गर्भमाश्रितः ॥ २७ ॥  
 तवाहमिन्द्र<sup>४</sup> इत्येनामानयत्प्रमदं परम् । कुर्वन्तस्तद्वचः सत्यं समन्तादमरेभराः ॥ २८ ॥

पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके धर्मरूपी रसायनका पान किया ॥ ११-१३ ॥ अनेक राजाओंके साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूर्वक ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या की और अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अनुत्तर विमानोंमेंसे अपराजित नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । वहाँ उस कुशल अहमिन्द्रकी तैतीस सागरकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, साढ़े सोलह माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी-सी श्वास ग्रहण करता था, तैतीस हजार वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारसे रहित था, लोकनाडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति, तथा विक्रिया ऋद्धि थी । इस प्रकार भोगोपभोग करते हुए उस अहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी शेष रह गई और वह पृथिवी पर आनेके लिए सन्मुख हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके वङ्ग देशमें मिथिला नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुर्वशी, काश्यपगोत्री, कुम्भ नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०॥ उसकी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । देवोंने उसका रत्न-वृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकट किया था ॥ २१ ॥ उसने चैत्रशुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय अश्विनी नक्षत्रमें इष्ट फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ २२ ॥ उसी समय मङ्गल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वरसे मङ्गल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विघात करनेवाली प्रातःकालकी भेरी बज उठी ॥ २३ ॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोषसे स्नान किया, मङ्गलवेष धारण किया, और चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अपने पतिके पास पहुँची ॥ २४ ॥ वह अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनीको विकसित कर रही थी । राजाने उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥ २५ ॥ तदनन्तर अर्धासन पर बैठी हुई रानीने वे सब स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये—कह मुनाये क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नोंका सुखदायी फल सुनना चाहती थी ॥ २६ ॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन स्वप्नोंका पृथक्-पृथक् फल कहकर बतलाया कि चूँकि तूने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अहमिन्द्र तेरे गर्भमें

१ श्वसनाहारक०, ष० । २ चैत्रे मासे क०, ष० । ३ संसत् कुमुदिनी क०, ष० । कुमुद्वती ल० ।

४ इत्येता क०, ष० ।

समागत्य तयोः कृत्वा स्वर्गावतरणोत्सवम् । कल्याणभागिनोः<sup>१</sup> पित्रोर्धनुस्तोषात्स्वमाश्रयम् ॥ २९ ॥  
 तमादायोदरं तस्या निर्बाधं भासने स्म तत् । संक्रान्तपूर्णशीतांशुसम्भु<sup>२</sup>खीनतलोपमम् ॥ ३० ॥  
 सुखेन नयमे मासि पूर्णे पूर्णन्दुभास्वरम् । विभक्तसर्वावयवं सर्वलक्षणलक्षितम् ॥ ३१ ॥  
<sup>३</sup>मार्गशीर्षसितैकादशीदिनेऽश्विनीसङ्गमे । त्रिज्ञानलोचनं देवं तं प्राप्त प्रजावती ॥ ३२ ॥  
 तदाशुताशिनः सर्वे सम्प्राप्य प्राप्तसम्भदाः । तेजःपिण्डं समादाय बालं बालार्कसन्निभम् ॥ ३३ ॥  
 गत्वाऽचलेनो संस्थाप्य पञ्चमाब्धिपथोजलैः । अभिपिच्य विभूष्योच्चैर्मल्लिनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥  
<sup>४</sup>ते पुनस्त्वं समानीय नामश्रावणपूर्वकम् । मातुरङ्गे<sup>५</sup> व्यवस्थाप्य स्वस्त्रिवासान् प्रपदिरे ॥ ३५ ॥  
 भरेशतीर्थसन्तानकालस्यान्ते स पुण्यभाक् । सहस्रकोटिवर्षस्य तदभ्यन्तरजीव्यभूत् ॥ ३६ ॥  
 समानां पञ्चपञ्चाशत् सहस्राण्यस्य जीवितम् । पञ्चविंशतिवाणासनोच्छ्रितेः<sup>६</sup> कनक<sup>७</sup>श्रुतेः ॥ ३७ ॥  
 शतसंवत्सरे याते कुमारसमये पुरम् । चर्लत्सितपताकाभिः सर्वत्रोद्बद्धतोरणैः ॥ ३८ ॥  
 विचित्ररङ्गवल्लीभिर्विकीर्णकुसुमोत्करैः । निजिताम्भोनिधिध्वानैः प्रध्वनत्पटहादिभिः ॥ ३९ ॥  
 मल्लिनिजविवाहार्थं भूयो वीक्ष्य विभूषितम् । स्पृत्वापराजितं रम्यं विमानं पूर्वजन्मनः ॥ ४० ॥  
 सा वीतरागता प्रीतिरुजिता महिमा च सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां लज्जाविधायकः ॥ ४१ ॥

आया है। इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्षित कर रहा था उधर उसके वचनोंको सत्य करते हुए इन्द्र सब ओरसे आकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण—गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे। भगवान्के माता-पिता अनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े सन्तोषसे अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ २७-२९ ॥ माताका उदर जिन-बालकको धारण कर बिना किसी बाधाके ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पूर्ण प्रतिविम्ब पड़ रहा है ऐसा दर्पणका तल ही हो ॥ ३० ॥ सुखसे नौ मास व्यतीत होने पर रानी प्रजावतीने मगसिर सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें उस देवको जन्म दिया जो कि पूर्ण चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे युक्त था और तीन ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला था ॥ ३१-३२ ॥ उसी समय हर्षसे भरे हुए समस्त देव आ पहुँचे और प्रातःकाल के सूर्यके समान तेजके पिण्ड स्वरूप उस बालकको लेकर पर्वतराज सुमेरु पर्वत पर गये। वहाँ उन्होंने जिन-बालकको विराजमान कर क्षीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहिनाये और मल्लिनाथ नाम रखकर जोरसे स्तवन किया ॥ ३३-३४ ॥

वे देवलोग जिन-बालकको वहाँसे वापिस लाये और इनका 'मल्लिनाथ नाम है' ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ ३५ ॥

अरनाथ तीर्थकरके बाद एक हजार करोड़ वर्ष बीत जानेपर पुण्यवान् मल्लिनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ॥ ३६ ॥ पचपन हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पञ्चीस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी ॥ ३७ ॥ कुमारकालके सौ वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान् मल्लिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चञ्चल सफेद पताकाएँ फहराई गई हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रङ्गावलियाँ निकाली गई हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखरे गये हैं और सब जगह समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूर्वजन्मके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण आ गया। वे सोचने लगे कि कहीं तो वीतरागतासे उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा और कहीं सज्जनोंको लज्जा उत्पन्न करनेवाला यह विवाह ? यह एक विडम्बना है,

१- भागिनः ल० । २ संमुखे भवं संमुखीनं दर्पणस्तस्य तल्लस्योपमा यस्य तत् । ३ मार्गशीर्षे ल० ।  
 ४ तैः म०, ल० । ५ मातुरङ्गे ल० । ६-नोच्छ्रितः ल० । ७ कनकश्रुतिः ल० । ८ प्रीतिरुजिता महिमा च सः  
 ९० । प्रीतिरुजिता महिमा च सा ल०, ग० । प्रीतिरुजितो महिमा च सः क०, म० । प्रीतिस्तज्जाता महिमे  
 च सा ल० ।

विडम्बनमिदं सर्वं प्रकृतं प्राकृतैर्जनैः । निन्दयन्निति निर्विद्य सोऽभून्निक्रमणोद्यतः ॥ ४२ ॥  
 तदा धुमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तराः<sup>१</sup> । अनुमत्य मत्तं तस्य ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥  
 तीर्थकृत्वपि केषाञ्चिदेवासीदीदृशी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारो महतामपि ॥ ४४ ॥  
 इति भक्त्या कृतालापा नभोभागे परस्परम् । परनिःक्रान्तकल्याणमहाभिषवणोत्सवम् ॥ ४५ ॥  
 सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म कुमारममरेक्षराः । कुमारोऽपि जयन्ताभिधानं यानमधिष्ठितः ॥ ४६ ॥  
 गत्वा श्वेतवनोद्यानमुपवासद्वयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाश्रितः ॥ ४७ ॥  
 कृतसिद्धनमस्कारः परित्यक्तोपधिद्वयः । सायाह्ने त्रिशतैर्भूपैः सह सम्प्राप्य संयमम् ॥ ४८ ॥  
 संयमप्रत्ययोत्पन्नचतुर्थज्ञानभास्वरः<sup>२</sup> । मार्गोऽयमिति सञ्चिन्त्य सम्यग्ज्ञानप्रचोदितः<sup>३</sup> ॥ ४९ ॥  
 मिथिलां प्राविशत्तस्मै नन्दिषेणनराधिपः<sup>४</sup> । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप धुन्नद्युतिः शुभम् ॥ ५० ॥  
<sup>५</sup>दिनषट्के गते तस्य छाद्यस्थे प्राक्ने वने । अधस्तरोरशोकस्य त्यक्त्वाहद्वितयाद् गतेः ॥ ५१ ॥  
 पूर्वाह्ने जन्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातिन्नितयनिर्णाशात्केवलवागमोऽभवत् ॥ ५२ ॥  
 बोधिता इव देवेन्द्राः सर्वे ज्ञानेन तेन ते । सम्भूयागत्य तत्पूजामकुर्वन् सर्ववेदिनः ॥ ५३ ॥  
 अष्टाविंशतिरस्यासन् विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपञ्चेन्द्रियमानोक्ता मुनयः पूर्वधारिणः ॥ ५४ ॥  
 शून्यप्रितयरन्ध्रद्विप्रोक्तसङ्ख्यानशिक्षकाः । द्विशतद्विसहस्रोक्ततृतीयावगमस्तुताः ॥ ५५ ॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञानाः खट्वाप्यथ्येकवादिनः । शून्यद्वयनवद्वथुक्विक्रियद्विद्विभूषिताः ॥ ५६ ॥

साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं बुद्धिमान नहीं । इस प्रकार विवाहकी निन्दा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके लिए उद्यत हो गये ॥ ३८-४२ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीक्षा लेनेके विचारका अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश-मार्गसे अदृश्य हो गये ॥ ४३ ॥ अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तीर्थकरोंमें भी किन्हीं तीर्थकरोंकी ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्योंकि कुमारावस्थामें विषयोंका त्याग करना महापुरुषोंके लिए भी कठिन कार्य है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाश में वार्तालाप करते एवं उत्सवसे भरे इन्द्रोंने मल्लिनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक-महोत्सव प्राप्त कराया—उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मल्लिनाथ कुमार भी जयन्त नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेतवनके उद्यानमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास नक्षत्र दिन और पक्षका आश्रय ग्रहण कर अर्थात् अगहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सार्यकालके समय सिद्ध भगवान्को नमस्कार किया, बाह्याभ्यन्तर—दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर दिया और तीन सौ राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ४५-४८ ॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हो उठे । 'यह सनातन मार्ग है' ऐसा विचार कर सम्यग्ज्ञानसे प्रेरित हुए महामुनि मल्लिनाथ भगवान् पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्दिषेण नामके राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४९-५० ॥ छद्मस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त वनमें अशोक वृक्षके नीचे दो दिनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया—दो दिनके उपवासका नियम ले लिया । वहाँ पर जन्मके समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र आदिमें उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१-५२ ॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर उन सर्वज्ञ भगवान्की पूजा की ॥ ५३ ॥

उनके समवसरणमें विशाखको आदि लेकर अट्ठाईस गणधर थे, पाँच सौ पचास पूर्वधारी थे, उनतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सौ पूज्य अवभिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, एक हजार चार सौ वादी थे, दो हजार नौ सौ विक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे और एक हजार सात सौ

२ विस्तारः ख०, ग०, फ० । १ भास्वरः ख० । २ सम्यग्ज्ञाने प्रचोदितः ख० । ३ नन्दिषेणो नराधिपः ख० । ४ दिने षट्के ख० ।

शून्यपञ्चमुनी<sup>१</sup>न्द्रैकमनःपर्ययबोधनाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि सर्वे सङ्कलनां श्रिताः ॥ ५७ ॥  
 खभयेन्द्रियपञ्चोक्ता बन्धुपेणादिकार्यिकाः । श्रावकाः लक्षमाः प्रोक्ताः श्राविकास्त्रिगुणास्ततः<sup>२</sup> ॥ ५८ ॥  
 देवा देव्यस्त्वसङ्ख्याताः<sup>३</sup>गण्या कण्ठीरवादयः । एवं द्वादशभिर्देवां गणैरभिः परिष्कृतः ॥ ५९ ॥  
 मुक्तिमार्गं नयन् भव्यपथिकान् प्रथितध्वनिः । विजहार महादेशान् भव्यसत्त्वानुरोधतः ॥ ६० ॥  
 ततो मासावशेषायुःसम्मदाचलमाश्रितः । प्रतिमायोगमादाय मुनिभिः सह पञ्चभिः ॥ ६१ ॥  
 सहस्रैर्भ्यांनमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः । फाल्गुनोज्ज्वलपञ्चम्यां तनुवातं समाश्रयत् ॥ ६२ ॥  
 कल्पाभिर्वाणकल्याण<sup>४</sup>मन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समभ्यर्च्य तत्क्षेत्रमपविश्रयन् ॥ ६३ ॥

### मालिनी

जननमृत्तितरङ्गाद् दुःखदुर्वारिपूर्णा—  
 दुपचितगुणरत्नो दुःस्पृहावर्तगर्तात् ।  
 स कुमतविधुवृद्धाद् भ्याति नावा भवाब्धे—  
 रभजत सुवनाग्रं<sup>५</sup> विग्रहग्राहमुक्तः ॥ ६४ ॥

### स्वागता

येन शिष्टमुत्सवर्त्म<sup>१</sup>विमुक्ते—  
 यं नमन्ति नमिताखिललोकाः ।  
 यो गुणैः स्वयमधारि समग्रैः  
 स श्रियं दिशतु मल्लिरशल्यः ॥ ६५ ॥  
 द्रुतविलम्बितवृत्तम्  
 अजनि वैश्रवणो धरणीश्वरः  
 पुनरनुत्तरनाम्न्यपराजिते ।

पचास मनःपर्ययज्ञानी थे । इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ५४-५७ ॥ बन्धुपेणाको आदि लेकर पचपन हजार आर्यिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे और श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, और सिंह आदि तिर्यञ्च संख्यात थे । इस प्रकार मल्लिनाथ भगवान् इन बारह समाग्रोंसे सदा मुशोभित रहते थे ॥ ५८-५९ ॥ जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे भगवान् मल्लिनाथने भव्य जीवरूपी पथिकोंको मुक्तिमार्गमें लगाते हुए, भव्य जीवोंके अनुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें विहार किया था ॥ ६० ॥ जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब वे सम्मदाचल पर पहुँचे । वहाँ पाँच हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया और फाल्गुन शुक्ला सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें सन्ध्याके समय तनुवात वलय—मोक्षस्थान प्राप्त कर लिया ॥ ६१-६२ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने स्वर्गसे आकर निर्वाण-कल्याणकका उत्सव किया और गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस क्षेत्रको पवित्र बना दिया ॥ ६३ ॥ जिसमें जन्म-मरणरूपी तरङ्गे उठ रही हैं, जो दुःखरूपी खारे पानीसे लवालव भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँ रूपी भँवर पड़नेके गड्ढे हैं और जो मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले मल्लिनाथ भगवान् शरीररूपी मगर-मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अग्रभाग पर पहुँचे थे ॥ ६४ ॥ जिन्होंने मोक्षका श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, और जो समग्रगुणोंसे परिपूर्ण थे वे शल्य रहित मल्लिनाथ भगवान् तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६५ ॥ जो पहले वैश्रवण नामके राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अतिशय

१ मुनीन्द्रक म०, ल० । २ स्मृताः ख०, ग० । ३ संख्याताः गुण्याः म० । ४-मन्वेत्यामर-ज्ञ० ।

५ सुवनाग्रे ल० ।



जितखलाखिलमोहमहारिपु-<sup>१</sup>

दिशतुमल्लिरसावतुलं सुखम् ॥ ६६ ॥

मल्लेजिनस्य सन्तानेऽभूपद्यो नाम चक्रभृत् । द्वीपेऽस्मिन् प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छविषये नृपः ॥ ६७ ॥  
 श्रीपुरेशः प्रजापालस्तृतीयेऽजनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसम्प्रोक्तगुणानामुत्तमाश्रयः ॥ ६८ ॥  
 सुराज्ञस्तस्य नाभूवन्राज्येऽस्यायुक्तिका<sup>२</sup>दिभिः । प्रजानां पञ्चभिर्बाधास्तदव<sup>३</sup>र्द्धन्त ताः सुखम् ॥ ६९ ॥  
 शक्तिप्रितयसम्पत्त्या शत्रून्निजित्य जित्वरः । विश्रान्तविग्रहो भोगान् धर्मेणार्थेन चान्वभूत् ॥ ७० ॥  
 स कदाचिद् विलोक्योल्कापातं जातावबोधनः । आपातरमणीयत्वमाकलय्येष्टसम्प<sup>४</sup>दम् ॥ ७१ ॥  
 स्थास्तुबुद्ध्या विमुग्धत्वादन्वभूवमिमांश्विरम् । न चेदुल्काप्रपातोऽयं भूयो भ्रान्तिर्भवाणवे ॥ ७२ ॥  
 इत्यारोप्य सुते राज्यं शिवगुप्तजिनेश्वरम् । प्रपद्य परमं पित्सु<sup>५</sup>रयासीत्संयमद्वयम् ॥ ७३ ॥  
 समुत्कृष्टाष्टशुद्धीदता<sup>६</sup> रुद्राशुभाश्रवः । क्रमात्कालान्तमासाद्य सुसमाहितमानसः ॥ ७४ ॥  
 निजराज्येन संक्रीतं स्वहस्तप्राप्तमच्युतम् । तुतोष कल्पमालोक्य जितक्रोधो हि तुष्यति ॥ ७५ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमेथायुः प्रान्तेऽसावच्युताधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्यां महीभुजः ॥ ७६ ॥  
 इक्ष्वाकोः पद्मनाभस्य रामायाश्चाभवत्सुतः । पद्माभिधानः पद्मादिप्रशस्ताशेषलक्षणः ॥ ७७ ॥  
 त्रिंशद्दर्षसहस्रायुर्द्वाविंशतिघ्नस्तनुः । सुरसम्प्रार्थ्यकान्त्यादिः कार्तस्वरविभास्वरः ॥ ७८ ॥

दुष्ट मोहरूपी महारिपुको जीतनेवाले तीर्थकर, हुण्ड वे मल्लिनाथ भगवान् तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें ॥ ६६ ॥

अथानन्तर-मल्लिनाथ जिनेन्द्रके तीर्थमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे पहले तीसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजापाल नामका राजा था। राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं वह उन सबका उत्तम आश्रय था ॥ ६७-६८ ॥ अच्छे राजाके राज्यमें प्रजाको अयुक्ति आदि पाँच तरहकी बाधाओंमेंसे कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी ॥ ६९ ॥ उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुओंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे और धर्म तथा अर्थके द्वारा समस्त भोगोंका उपभोग किया था ॥ ७० ॥ किसी समय उल्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वह इष्ट सम्पत्तियोंको आपात रमणीय—प्रारम्भमें ही मनोहर समझने लगा ॥ ७१ ॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगोंको स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया। यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो संसार-सागरमें मेरा भ्रमण होता ही रहता ॥ ७२ ॥ ऐसा विचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास जाकर परमपद पानेकी इच्छासे निश्चय और व्यवहारके भेदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर लिया ॥ ७३ ॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी शुद्धियोंसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने अशुभ कर्मका आलस्य रोक दिया था और क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंको समाधियुक्त किया था ॥ ७४ ॥ वह अपने राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे—पुरुषार्थसे प्राप्त हुए अच्युत स्वर्गको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्तुष्ट होता ही है ॥ ७५ ॥ वहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु थी। वह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर कहीं उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं— इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक काशी नामक देश है। उसकी वाराणसी नामकी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशीय पद्मनाभ नामका राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रीके पद्म आदि समस्त वृक्षोंसे सहिष्णु पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार वर्षकी उसकी आयु थी, बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, वह सुवर्णके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे

१ मोहरिपुर्विर्तु—ख०, म०, ग०। २ मुक्तिवादिभिः म०। ३ तदवर्तन्त म०, ख०। ४ शत्रुं निजित्य क०, घ०। ५ संपदाम् म०, ख०। ६ पत्तुमिच्छुः। ७ तपोरुद्रा क०, घ०।

पुण्योदयात्क्रमेणाप्य चक्रित्वं विक्रमाजितम् । दशाङ्गभोगान्निःसङ्गमभङ्गानन्वभूषिरम् ॥ ७९ ॥  
 पृथिवीसुन्दरीमुख्यास्तस्याष्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतुखचराधीश<sup>१</sup>पुत्रेभ्योऽदाप्रसन्नवान् ॥ ८० ॥  
 एवं सुखेन <sup>२</sup>कालेऽस्य याति सत्यम्बुदोऽम्बरे । प्रेक्ष्यः प्रमोदमुत्पाद्य सद्योऽसौ विकृतिं ययौ ॥ ८१ ॥  
 तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य तयाप्येषोऽगमल्लयम् । सम्पत्सु सर्वविद्विद्सु का स्थैर्यास्था विवेकिनः ॥ ८२ ॥  
 इति चक्री समालोच्य संयमेऽभूद्रतस्तदा । सुकेतुः कुलवृद्धोऽस्य नाम्ना दुश्चरितोऽब्रवीत् ॥ ८३ ॥  
 राज्यसम्प्राप्तिकालस्ते कनीयान् नवयौवनः । भांगान् भुङ्क्व न कालोऽयं तपसः किं विधीर्भवेः ॥ ८४ ॥  
 केनापि तपसा कार्यं किं वृथाऽऽयासमात्रकम् । नात्र किञ्चित्फलं नैव परलोकश्च कश्चन ॥ ८५ ॥  
 कथञ्च परलोकश्चेदभावात्परलोकिनः । पञ्चभूतात्मके काये चेतना मदशक्तिवत् ॥ ८६ ॥  
 पिष्टकिण्वादिसंयोगे तदात्मोक्तिः खपुष्पवत् । ततः प्रेत्योपभोगादिकाङ्क्षा स्वकृतकर्मणः ॥ ८७ ॥  
 वन्ध्यास्तनन्धयस्येव खपुष्पापीडलिप्सनम् । आग्रहोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुरु निराकुलम् ॥ ८८ ॥  
 सत्यप्यात्मनि कौमारे सुकुमारः कथं तपः । सहसे निष्कुरं देव <sup>३</sup>पुष्करैरपि तुष्करम् ॥ ८९ ॥  
 इत्युक्तं तदमात्यस्य स श्रुत्वा शून्यवदिनः । रूपादिरूप एवात्र भूतसङ्घोऽभिलक्ष्यते ॥ ९० ॥  
 सुखदुःखादिसंवेद्यं चैतन्यं तद्विलक्षणम् । तद्वान् देहादिहान्योऽयं स्वसंबित्यानुभूयते ॥ ९१ ॥

॥७६-७८॥ पुण्यके उदयसे उसने क्रमपूर्वक अपने पराक्रमके द्वारा अजित किया हुआ चक्रवर्तीपना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित दश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना ही उपभोग किया था ॥ ७६ ॥ उसके पृथिवीसुन्दरीको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था ॥ ८० ॥ इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाशमें एक सुन्दर बादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको हर्ष उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥ ८१ ॥ उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शत्रु हैं ऐसी सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ? ॥ ८२ ॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हो, नवयौवनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं है, व्यर्थ ही निर्बुद्धि क्यों हो रहे हो ? ॥ ८३-८४ ॥ किसी भी तपसे क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है। व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है ॥ ८५ ॥ परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो, जब परलोकमें रहनेवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार आदा और किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पञ्चभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ है ऐसा कहना आकाश-पुष्पके समान है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी आकांक्षा करना वन्ध्यापुत्रके आकाश-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है। इसलिए यह तप करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो ॥ ८६-८८ ॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी लिया जाय तो इस कुमारावस्थामें जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं जिसे प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ॥ ८९ ॥ इस प्रकार शून्यवादी मन्त्रीका कड़ा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमें जो पञ्चभूतोंका समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है—स्पर्श रस गन्ध और वर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है। मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ इत्यादिके द्वारा जिसका वेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है—पृथक् है। हमारे इस शरीरमें शरीरसे पृथक् चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और

१ खचराधीशः पुत्रेभ्यो ग०, म०, ल० । २ कालस्य लः० । ३ अति प्रौढे: 'पुष्कलस्तु पूर्णश्रेष्ठे' क०, म०, टिप्पण्याम् । दुष्करैः ल० ।

बुद्धिपूर्वक्रियालिङ्गादम्यप्राप्यनुमीयते । अस्त्यात्मा भाविलोकश्च सत्त्वाच्चातीतसंस्तुते ॥ ९२ ॥  
 इहलोकदिपर्यन्तविक्षणैर्जन्मिनां सताम् । बुद्धिकारणकार्यै स्तां चैतन्यान्मद्यधीरिव ॥ ९३ ॥  
 इत्यादि युक्तिवादेन चक्री तं शून्यवादिनम् । श्रद्धाप्यात्मास्तितां 'सम्यक् कृतबन्धुविसर्जनः ॥ ९४ ॥  
 नियोज्य स्वात्मजे राज्यं सुकेत्वादिमहीशुजैः । जिनात्समाधिगुप्ताख्यात्समं संयममाददौ ॥ ९५ ॥  
 विशुद्धिपरिणामानामुत्तरोररभाविनाम् । प्राप्य क्रमेण पर्यन्तं पर्यन्तं प्राप घातिनाम् ॥ ९६ ॥  
 नवकेवललक्ष्मीद्विविशुद्धव्याहृतीश्वरः । काले कायत्रयं हित्वा पदेऽभूत्पारमेश्वरः ॥ ९७ ॥  
 उदयाद्भोदयादस्य धरणीधरणीमुदः । तानवं तानवं किञ्चित्सम्पदं सम्पदं श्रितः ॥ ९८ ॥  
 नापन्नपन्नभोगेन मामतो मामतोदयाः । सपन्नाख्यः सपन्नाख्यः सङ्गमः सङ्गमः सताम् ॥ ९९ ॥  
 मन्दराग इवांतुङ्गो मन्दरागोऽरिधारिणाम् । राजते राजतेजोभिर्नवमोऽनवमो मुदा ॥ १०० ॥

बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती है इस हेतुसे अन्य पुरुषोंके शरीरमें भी आत्मा है—जीव है, यह अनुमानसे जाना जाता है । इसलिए आत्मा नामका पृथक् पदार्थ है यह मानना पड़ता है साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि अतीत जन्मका स्मरण देखा जाता है ॥ ९०-९२ ॥ जिस प्रकार मदिरापान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँसे आता है ? पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोंके जो कारण और कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँसे आती है ? पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होती है इसलिए जीवोंका यद्यपि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादि सिद्ध है । इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीने उस शून्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारको विदा किया, अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आदि राजाओंके साथ संयम ग्रहण कर लिया—जिन-दीक्षा ले ली ॥ ९३-९५ ॥ उन्होंने अनुक्रमसे आगे-आगे होनेवाले विशुद्धि रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाको पाकर घातिया कर्मोंका अन्त प्राप्त किया—घातिया कर्मोंका क्षय किया ॥ ९६ ॥ अब वे नव केवल-लब्धियोंसे देदीप्यमान हो उठा और विशुद्ध दिव्यध्वनिके स्वामी हो गये । जब अन्तिम समय आया तब औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंको छोड़कर परमेश्वर सम्बन्धी पदमें—सिद्ध क्षेत्रमें अधिष्ठित हो गये ॥ ९७ ॥

अनेक मुकुटबद्ध राजाओंसे हर्षित होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय सम्पत्तिको प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी कुछ भी कृशता उत्पन्न नहीं हुई थी ॥ ९८ ॥ 'जिन्हें अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु कीर्तिके साथ-साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हुए थे । इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनोंके लिए सत् पदार्थोंका समागम प्राप्त करानेवाले हैं ॥ ९९ ॥ 'जो मन्दराचलके समान उन्नत थे—उदार थे,

१ सम्यक्कृतविसर्जनः म० । २ परमेश्वरः म०, ख० । परमेश्वरः ल० । ३ उदयाद्भुदयास्तस्य क०, घ० ।  
 ४ धरणीधरा राजानः तान् नयन्ति, इति धरणीधरण्यः श्रेष्ठराजा मुकुटबद्ध इति यावत्, तैर्मोदते इति धरणीधरणी-  
 मुदः, तस्य । संसदं समीचीनपदवीम्, संपदं सम्पत्तिम्, श्रितः-श्रयतीति श्रित् तस्य प्राप्तवतः, अस्य पन्नचक्रवर्तिनः,  
 उदयात्, उत्कृष्टः अयः उदयः श्रेष्ठपुण्यं तस्मात्, तानवं तनोरिदं तानवं शरीरसम्बन्धि, तानवं कार्यं, न उदयात्  
 न उदितं न प्राप्तमिति यावत् । ५ आपन्नभोगेन प्राप्तभोगेन सह, या लक्ष्मीः, केवलम्, न आपत् न प्राप्ता किन्तु  
 मा लक्ष्मीस्तया मता आहता उदया अभ्युदया अपि आपन् प्राप्ताः, यमिति शेषः । पन्ना च आख्या च इति  
 पन्नाख्ये ताभ्यां सहितः सपन्नाख्यः लक्ष्मीप्रसिद्धिसहितः, मतः पूजितः, संगमयतीति संगमः समीचीनवस्तुप्रापकः,  
 पन्न इति आख्या यस्य स पन्नाख्यः पन्ननामधेयः, सः चक्रवर्ती, सतां सज्जनानां, संगमः संगमनशीलः, भवत्विति  
 शेषः । ६ मन्दरश्चासावगश्चेति मन्दरागः सुमेरुश्च, उत्तुङ्गः उन्नतः उदाराशयः, मन्दो रागोयस्य मन्दरागः,  
 अह्यरागयुक्तः, अनासक्त इति यावत्, अरिधारिणाम् श्वराः सन्ति यस्मिन् स श्वरी चक्रं तद् धस्तीति शीला  
 अरिधारिणस्तेषां चक्रवर्तिनाम्, नवमः नवमसंख्याकः, राजतेजोभिः-राजप्रतापैः, अनवमः नान्यः अनवमः श्रेष्ठ  
 इति यावत्, एवम्भूतः पन्नचक्रवर्ती, मुद्रा हर्षेण, राजते शोभते ॥

## मालिनी

प्रथममजनि राजा यः प्रजापालनामा

शमितकरणवृत्त्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभूत् ।

सबलभरतनाथः शर्मणः सद्यः पद्मः

परमपद्मवापत्सोऽमलं शं क्रियात्तः ॥ १०१ ॥

तीर्थेऽस्मिन्नेव <sup>१</sup>सम्भूतौ सप्तमौ रामकेशवौ । तृतीये तौ भवेऽभूतां साकेते राजपुत्रकौ ॥ १०२ ॥

अप्रियन्वात्पिता त्यक्त्वा तौ ज्ञेहेन कनीयसे । आत्रे स्वस्मै वृद्धौ यौवराज्यं पद्मकल्पितम् ॥ १०३ ॥

मन्त्रिणैव कृतं सर्वमिदमित्यतिकोपिनौ । अमात्ये बद्धवैरौ तौ धर्मतीर्थान्वयाणुगौ ॥ १०४ ॥

शिवगुप्तमुनेरन्तेवासितामेत्य संयमम् । विधाय सुविशालाख्ये सौधर्मैःसरतां गतौ ॥ १०५ ॥

ततः प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बभूवतुः । इक्ष्वाकुतिलकस्याग्निशिखस्य तनयौ प्रियौ ॥ १०६ ॥

माताऽपराजिता केशवती च क्रमशस्तयोः । नन्दिमित्राह्वयो ज्येष्ठः कनिष्ठो दशसंज्ञकः ॥ १०७ ॥

द्वात्रिंशल्लभ्ययाब्दानौ द्वाविंशतिधनुस्तनू । चन्द्रेन्द्रनीलसङ्काशाववर्द्धतामनुत्तरौ ॥ १०८ ॥

ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो भ्रान्त्वा संसारसागरे । क्रमेण विजयार्द्धाद्रिमन्दराख्यपुराधिपः ॥ १०९ ॥

<sup>२</sup>बलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः । सोऽन्येद्युर्वयोर्भद्रक्षीरोदाख्योऽस्ति विश्रुतः ॥ ११० ॥

महान्ममैव योग्योऽस्तौ दीयतां गन्धवारणः । इति दर्पात्पतिष्टम्भी प्राहिणोत्प्रति तौ वचः ॥ १११ ॥

श्रुत्वा तद्वचनं तौ च तेनावाभ्यां सुते स्वयम् । देये चेद्दीयते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥ ११२ ॥

मन्दरागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे श्रेष्ठ थे, और चक्रवर्तियोंमें नौवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्य बड़े हर्षसे सुशोभित होते थे ॥ १०० ॥

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, तदनन्तर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका धर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर परमपदको प्राप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे ॥ १०१ ॥

अथानन्तर—इन्हीं मल्लिनाथ तीर्थकरके तीर्थमें सातवें बलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥ १०२ ॥ वे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। यद्यपि छोटे भाईके लिए युवराज पद देनेका निश्चय नहीं था फिर भी राजाने उसे युवराज पद दे दिया ॥ १०३ ॥ दोनों भाइयोंने समझा कि यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर बहुत क्रुपित हुए और उसपर वैर बाँध कर धर्मतीर्थके अनुगामी बन गये। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया। जिससे आयुके अन्तमें भरकर सौधर्म, स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें देव पदको प्राप्त हो गये ॥ १०४-१०५ ॥ वहाँसे च्युत होकर बनारसके राजा इक्ष्वाकुवंशके शिरोमणि राजा अग्निशिखके प्रिय पुत्र हुए ॥ १०६ ॥ क्रमशः अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं। नन्दिमित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था ॥ १०७ ॥ बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु थी। बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, क्रमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्ण था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे ॥ १०८ ॥

तदनन्तर—जिसका वर्णन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर क्रमसे विजयार्थ पर्वत पर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्रने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंके पास जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज है वह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए ही दिया जावे ॥ १०९-१११ ॥ दूतके वचन सुनकर उन दोनोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम

१ सम्भूताम् ल०। २ म पुस्तके एवं पाठः 'सोऽन्येद्युर्वयोर्भद्र क्षीरोदाख्योऽतिविश्रुतिः। बलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः' ॥ ११० ॥

इति प्रत्याहतुः कर्णकटुकं तदुदीरितम् । समाकर्ण्य बलीन्द्राख्यो विश्रक्तालानुकारिताम् ॥ ११३ ॥  
 योद्धुमाभ्यां समं भीमकोपः सन्नद्धवस्तिदा । खगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां<sup>१</sup> सुरकान्तारपूःपतिः ॥ ११४ ॥  
 केशवत्या महाभता सम्मेदाद्रौ सुसाधिते । सिंहपक्षीन्द्रवाहिन्यौ<sup>२</sup> महाविद्ये यथाविधि ॥ ११५ ॥  
 दत्त्वा ताभ्यां कुमारभ्यां नाम्ना केसरविक्रमः । तदीयकार्यसाहाय्यं बन्धुत्वेनावमन्यत ॥ ११६ ॥  
 तयोस्तुमुल्लयुद्धेन<sup>३</sup> बलयोर्बलिनोरभूत् । संग्रामः क्षयकालो वा संहरन् सकलाः प्रजाः ॥ ११७ ॥  
 तत्र मायामये युद्धे बलीन्द्रतनयं क्रुधा ।<sup>४</sup>मुखं शतबलिं मृत्योः सीरपाणिरनीनयत् ॥ ११८ ॥  
 बलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा समुत्पन्नरुषात्मनः । प्रहितं चक्रमु<sup>५</sup>द्विश्य केशवं कौशिकोपमम् ॥ ११९ ॥  
 तसं प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणं, बाहुमाश्रितम् । तदेवादाय दत्तोऽपि हत्वा तं तच्छिरोऽग्रहीत् ॥ १२० ॥  
 युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रदत्ताभयघोषणौ । त्रिखण्डधरणीचक्रं सचक्रं चक्रतुः स्वकम् ॥ १२१ ॥  
 चिरं राज्यमुखं श्रुत्वा स्वायुरन्ते स चक्रभृत् । वदध्वायुर्नारकं घोरम<sup>६</sup>वधिस्थानमेयिवान् ॥ १२२ ॥  
 तन्निर्वेदेन रामोऽपि सम्भूतजिनसन्निधौ । दीक्षित्वा बहुभिर्भूपैरभूद्<sup>७</sup>गृहकेवली ॥ १२३ ॥

### स्रग्धरा

जातौ साकेतपुर्यां प्रथितनृपसुतौ तौ समादाय दीक्षां

प्रान्ते सौधर्मकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयातौ ।

वाराणस्यामभूतां पुरुकुलतिलकौ नन्दमित्रश्च दत्तो

दत्तोऽसौ सप्तमीं क्षमां समगमदपरोऽप्याप कैवल्यलक्ष्मीम् ॥ १२४ ॥

दोनोंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा सकता ॥ ११२ ॥ इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगानेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र अत्यन्त क्रुपित हुआ। वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया। उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरविक्रम नामक विद्याधरोंके राजाने जो कि दत्तकी माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्मेदशिखर पर विधिपूर्वक सिंहवाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों कुमारोंके लिए दे दीं और भाईपना मानकर उनके कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥ ११३-११६ ॥ तदनन्तर उन दोनोंकी बलवान् सेनाओंका प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयङ्कर संग्राम हुआ ॥ ११७ ॥ बलीन्द्रके पुत्र शतबलि और बलभद्रमें खूब ही मायामयी युद्ध हुआ। उसमें बलभद्रने शतबलिको क्रोधवश यमराजके मुखमें पहुंचा दिया ॥ ११८ ॥ यह देख, बलीन्द्रको क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भुजा पर आ गया। दत्तनारायणने उसी चक्रको लेकर उसे मार दिया और उसका शिर हाथमें ले लिया ॥ ११९-१२० ॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरोंने अभय घोषणा की और चक्र सहित तीनों खण्डोंके पृथिवी-चक्रको अपने आधीन कर लिया ॥ १२१ ॥ चिरकाल तक राज्य सुख भोगनेके बाद चक्रवर्ती—नारायणदत्त, नरकगति सम्बन्धी भयङ्कर आयुका बन्ध कर सातवें नरक गया ॥ १२२ ॥ भाईके वियोगसे बलभद्रको बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनन्द्रके पास अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १२३ ॥

जो पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तमें सौधर्म-स्वर्गमें देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इक्ष्वाकु वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमेंसे दत्त तो मर कर सातवीं भूमिमें गया और नन्दिषेण

१ दक्षिणश्रेण्यां क०, ५०। २ महाविद्यौ ल०। ३ बलिनोर्बलिनोरभूत् ल०। ४ मुखे म०। ५-मुद्यम्य ल०। ६-मनविस्थान-ल०। ७-रभूद्ग्रह-ल०।

वसन्ततिलका

मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ भ्रमित्वा

पश्चाद् बलीन्द्र इति नामधरः खगेशः ।

दत्तादवासभरणो नरकं दुरन्तं

प्रापत्तः परिहरन्त्वनुबद्धचैरम् ॥ १२५ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे मल्लितीर्थकर-पद्मचक्रि-नन्दिमित्र-बलदेव-दत्तनामवासुदेव-बलीन्द्राख्यप्रतिवासुदेवपुराणं परिसमाप्तम् ॥ ६६ ॥

—:ॐ०ॐ:—

कैवल्य-लक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥ १२४ ॥ मन्त्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ और दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिए सज्जन पुरुषोंको वैरका संस्कार छोड़ देना चाहिये ॥ १२५ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें मल्लिनाथतीर्थकर, पद्मचक्रवर्ती, नन्दिमित्र बलदेव, दत्त नारायण और बलीन्द्र प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करने वाला छयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—\*~\*~\*~\*

## सप्तषष्ठितमं पर्व

निवृत्तौ व्रतशब्दार्थो यस्याभूत् सर्ववस्तुषु । देयाङ्गः स व्रतं स्वस्य सुव्रतो मुनिसुव्रतः ॥ १ ॥  
 तृतीये जन्मनीहासीज्जिनेन्द्रो मुनिसुव्रतः । भारतेऽङ्गाख्यविषये नृपश्चम्पापुराधिपः ॥ २ ॥  
 हरिवर्माभिधोऽन्येधुरयोद्याने जिनेश्वरम् । <sup>१</sup>अनन्तवीर्यनाम्नासावनगारं विवन्दिषुः ॥ ३ ॥  
 गत्वात्मपरिवारेण ससपर्यः परीत्य तम् । त्रिः समभ्यर्च्य वन्दित्वा प्राक्षीद्धर्मं सनातनम् ॥ ४ ॥  
 संसारी मुक्त इत्यात्मा <sup>२</sup>द्विधा कर्मभिरष्टभिः । बद्धं संसारिणं प्राहुस्तैर्मुक्तो मुक्त इष्यते ॥ ५ ॥  
 मूलभेदेन तान्यष्टौ ज्ञानावृत्त्यादिनामभिः । ज्ञेयान्युत्तरभेदेन वस्व<sup>३</sup>ब्ध्येकोक्तसङ्ख्यया ॥ ६ ॥  
 बन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्प्रकृत्यादिविकल्पितः । प्रत्ययांऽपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिजिनोदितः ॥ ७ ॥  
 उदयादिविकल्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो द्रव्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥  
 रोधो गुप्त्यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिर्जरे । तुरीयशुक्लध्यानेन मोक्षः सिद्धस्ततो भवेत् ॥ ९ ॥  
 कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । <sup>४</sup>मुक्तस्यातुलमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम् ॥ १० ॥  
 इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं भगवांस्तमश्नुधत् । स्वबचोरधिमजालेन भव्याब्जानां प्रबोधकः ॥ ११ ॥  
 सोऽपि तरात्त्वसद्भावमवगम्य यथादितम् । निर्विद्य संसृतेर्ज्येष्ठपुत्रे राज्यं नियोज्य तत् ॥ १२ ॥  
 ग्रन्थद्वयपरित्यागे पटुश्चटुलमाययौ । संयमं बहुभिः सार्द्धं मूर्धन्यैरुर्ध्वगामिभिः ॥ १३ ॥  
 अवादीधरदेकादशाङ्गानि गुरुसङ्गमात् । अबध्नारार्थिर्कृद्गोत्रं श्रद्धाशुद्ध्यदिभावनः ॥ १४ ॥

जिनके नामके व्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थोंका त्याग था और जो उत्तम व्रतके धारी थे ऐसे श्री मुनिसुव्रत भगवान् हम सबके लिए अपना व्रत प्रदान करें ॥ १ ॥ भगवान् मुनिसुव्रतनाथ इस भवसे पूर्व तीसरे भवमें इसी भरतक्षेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिवर्मा नामके राजा थे । किसी एक दिन वहाँके उद्यानमें अनन्तवीर्य नामके निर्धन्ध मुनिराज पधारे । उनकी चन्दना करने की इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनके पास गये । वहाँ उन्होंने उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, तीन वार पूजाकी, तीनवार बन्दना की और तदनन्तर सनातन धर्मका स्वरूप पूजा ॥ २-४ ॥ मुनिराजने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्तके भेदसे दो प्रकारका है । जो आठ कर्मोंसे बद्ध है उसे संसारी कहते हैं और जो आठ कर्मोंसे मुक्त है—रहित है उसे मुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ उन कर्मोंके ज्ञानावरणादि नामवाले आठ मूल भेद हैं और उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं ॥ ६ ॥ प्रकृति आदिके भेदसे बन्धके चार भेद हैं और मिथ्यात्व अविरति कषाय तथा योगके भेदसे प्रत्यय-कर्मबन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है ॥ ७ ॥ उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके भेदसे कर्मोंकी अवस्था चार प्रकारकी होती है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है ॥ ८ ॥ गुप्ति आदिके द्वारा उन कर्मोंका संवर होता है तथा तपके द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं । चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोक्ष होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है और एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है ! मुक्त जीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रहित एवं आत्यन्तिक-अन्तातीत होता है ॥ १० ॥ इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंकी जालसे भव्यजीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवान् अनन्तवीर्य मुनिराजने राजा हरिवर्माको तत्त्वका उपदेश दिया ॥ ११ ॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा कहे हुए तत्त्वके सद्भावको ठीक-ठीक समझकर संसारसे विरक्त हो गये । उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर दिया और शीघ्र ही

चिरमेवं तपः कृत्वा प्रान्ते स्वाराधनाविधिः । भविष्यत्पञ्चकल्याणः प्राणतेन्द्रोऽभवद्विभुः ॥ १५ ॥  
 सागरोपमविंशत्यामितायुः शुक्ललेत्रयकः । सार्द्धरत्नित्रयोत्सेधो मासैर्दशमिरुच्छ्वसन् ॥ १६ ॥  
 संवत्सरसहस्राणां विंशत्यामाहिताह्वतिः । मनाग्मनःप्रवाचारभोगोऽष्टद्विसमन्वितः ॥ १७ ॥  
 आपञ्चमावनेरात्मगोचरव्यावृतावधिः । तत्क्षेत्रमितशक्त्यादिश्चिरं तत्रान्वभूत् सुखम् ॥ १८ ॥  
 तस्मिन् षण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भूतलम् । जन्मगोहाङ्गणं तस्य रत्नवृष्ट्याचितं सुरैः ॥ १९ ॥  
 अत्रैव भरते राजा पुरे राजगृहाह्वये । सुमित्रो मगधाधीशो हरिवंशशिखामणिः ॥ २० ॥  
 गोत्रेण काश्यपस्तस्य देवी सोमाह्वया सुरैः । पूजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने ॥ २१ ॥  
 स्वमान् कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोन्मुखे । प्राणताधीश्वरेऽपश्यन् षोडशेष्टार्थसूचकान् ॥ २२ ॥  
 गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविशन्तं प्रभाविनम् । तेनैव परितोषेण प्रबुद्धा शुद्धवेषधत् ॥ २३ ॥  
 नृपमावेदयत्स्वभ्रांस्तत्फलश्रवणेच्छया । सावधिः सोऽप्यभाषिष्ट सम्भूतिं त्रिजगत्पतेः ॥ २४ ॥  
 तद्वाक्श्रवणसम्फुल्लमनोवदनपङ्कजा । तदैवायातदेवेन्द्रकृताभिवषणोत्सवा ॥ २५ ॥  
 सुरोपनीतभोगोपभोगैः स्वर्गसुखावहैः । नवमं मासमासाद्य सुखेनासूत सुप्रजाम् ॥ २६ ॥  
 संवत्सरचतुःपञ्चाशच्छ्रममितं ब्रजन् । मञ्जीशतीर्थसन्तानकालान्तर्गतजीवितम् ॥ २७ ॥  
 तज्जन्मसमयायातैः स्वदीप्तिव्याप्तदिङ्मुखैः । मेरौ सुरेन्द्रैः सम्प्राप मुनिसुव्रतसुश्रुतिम् ॥ २८ ॥

स्वर्ग अथवा मोक्ष जानेवाले राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२-१३ ॥ उन्होंने गुरुके समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर गोत्रका बन्ध किया ॥ १४ ॥ इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक होनेवाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ ॥ १५ ॥ वहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्ल लेश्या थी, साढे तीन हाथ ऊँचा शरीर था, वह दश माहमें एक बार श्वास लेता था, बीस हजार वर्षमें एक बार आहार ग्रहण करता था, मन-सम्बन्धी थोड़ासा कामभोग करता था, और आठ ऋद्धियोंसे सहित था ॥ १६-१७ ॥ पाँचवीं पृथ्वी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदिका संचार था । इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक सुखका उपभोग करता रहा । जब उसकी आयु छह-माहकी बाकी रह गई और वह वहाँ पृथिवी तलपर आने वाला हुआ तब उसके जन्मगृहके आंगनकी देवोंने रत्नवृष्टिके द्वारा पूजा की ॥ १८-१९ ॥

इसी भरतक्षेत्रके मगधदेशमें एक राजगृह नामका नगर है । उसमें हरिवंशका शिरोमणि सुमित्र नामका राजा राज्य करता था ॥ २० ॥ यह काश्यपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सोमा था, देवोंने उसकी पूजा की थी । तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रमें जब पूर्वोक्त प्राण-तेन्द्र स्वर्गसे अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थको सूचित करने वाले सोलह स्वप्न देखे और उनके बाद ही अपने मुहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान् हाथी देखा । इसी हृषसे वह जाग उठी और शुद्ध वेषको धारणकर राजाके पास गई । वहाँ फल सुननेकी इच्छासे उसने राजाको सब स्वप्न सुनाये ॥ २१-२३ ॥ अवधिज्ञानी राजाने-बतलाया कि तुम्हारे तीन जगत्के स्वामी जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होगा ॥ २४ ॥ राजाके वचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवोंने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया ॥ २५ ॥ स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्दसे वीतने लगा । अनुक्रमसे नवमा माह पाकर उसने सुखसे उत्तम बालक उत्पन्न किया ॥ २६ ॥ श्रीमल्लिनाथ तीर्थकरके बाद जब चौवन लाख वर्ष बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ॥ २७ ॥ जन्म-समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त करने वाले इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतपर



त्रिंशत्सहस्रवर्षायुश्चापविंशतिसम्मितः । १ सर्पाशनगलच्छायः सम्पन्नाखिललक्षणः ॥ २९ ॥  
 खट्वेन्द्रियसप्तारुवर्षैः कौमारनिर्गमे । राज्याभिषेकं सम्प्राप्य प्रासानन्दपरम्परः ॥ ३० ॥  
 शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्तसंवत्सरपरिक्षये । गर्जद्घनघटाटोपसमये यागहस्तिनः ॥ ३१ ॥  
 वनस्मरणसन्त्यक्तकृत्वप्रहणं नृपः । निरीक्ष्यावधिनेत्रेण विशातैतन्मनोगतः ॥ ३२ ॥  
 सत्पूर्वभवसंबद्धं कौतूहलवतां नृणाम् । अवोचद् वृत्तिमित्युच्चैः स मनोहरया गिरा ॥ ३३ ॥  
 पूर्वं तालपुराधीशो नाम्ना नरपतिर्नृपः । महाकुलाभिमानादिदुर्लेश्याविष्टचित्तकः ॥ ३४ ॥  
 पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः कुञ्जानमोहितः । दत्त्वा किमिच्छकं दानं तत्फलात्समभूदिभः ॥ ३५ ॥  
 नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं न राज्यं पूज्यसम्पदम् । कुदानस्य च नैःफल्यं वनं स्मरति दुर्मतिः ॥ ३६ ॥  
 तद्वचःश्रवणोत्पन्नस्वपूर्वभवसंस्तृतेः । संयमासंयमं सद्यो जग्राह गजसत्तमः ॥ ३७ ॥  
 तत्प्रत्ययसमुत्पन्नबोधिस्थ्यागोन्मुखो नृपः । लौकान्तिकैस्तदैवैव्य प्रस्तुतोक्त्या प्रतिश्रुतः ॥ ३८ ॥  
 स्वराज्यं युवराजाय १ विजयाय वितीर्य सः । सुरैः सम्प्राप्तनिःक्रान्तिकल्याणद्रुमधीगुणः ( ? ) ॥ ३९ ॥  
 अपराजितनामोऽशिविकामधिरूढवान् । रूढकीर्तिः क्षरन्मूढिरूढो नरखगा २ मरैः ॥ ४० ॥  
 प्राप्य षष्ठोपवासेन वनं नीलाभिधानकम् । वैशाखे बहुले पक्षे श्रवणे दशमीदिने ॥ ४१ ॥  
 सहस्रभूपैः सायाह्ने सह ४ संयममग्रहीत् । कैश्यमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वश्रवणः ॥ ४२ ॥

ले जाकर उनकी जन्माभिषेक किया और मुनिसुव्रतनाथ यह नाम रक्खा ॥ २९ ॥ उनकी आयु तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी ऊंचाई बीस धनुषकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, और स्वयं वे समस्त लक्षणोंसे सम्पन्न थे ॥ ३० ॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सौ वर्ष बीत जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे ॥ ३० ॥ इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वर्ष बीत गये तब किसी दिन गर्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने वनका स्मरण कर प्रास उठाना छोड़ दिया—खाना पीना बन्द कर दिया । महाराज मुनिसुव्रतनाथ, अपने अविद्वान् रूपी नेत्रके द्वारा देख कर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये । वे कुतूहलसे भरे हुए मनुष्योंके सामने हाथीके पूर्वभवसे सम्बन्ध रखने वाला वृत्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३१-३३ ॥ पूर्व भवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, वहाँ अपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओंसे इसका चित्त सदा घिरा रहता था, वह पात्र और अपात्रकी विशेषतासे अनभिज्ञ था, मिथ्या ज्ञानसे सदा मोहित रहता था । वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ॥ ३४-३५ ॥ यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर रहा है और न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥ ३६ ॥ भगवान्के वचन सुननेसे उस उत्तम हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीघ्र ही संयमासंयम धारण कर लिया ॥ ३७ ॥ इसी कारणसे भगवान् मल्लिनाथको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त परिग्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुख हो गये । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया ॥ ३८ ॥ उन्होंने युवराज विजयके लिए अपना राज्य देकर देवोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥ ३९ ॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, जिनका मोहकर्म दूर हो रहा है, और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं ऐसे वे भगवान् अपराजित नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥ ४० ॥ नील नामक वनमें जाकर उन्होंने वेलाके उपवासका नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमीके दिन श्रवण नक्षत्रमें सार्यकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । शाश्वतपद-मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करने वाले सौधर्म इन्द्रने सर्वदर्शी भगवान् मल्लिनाथके बालोंका समूह पञ्चम-

१ सहस्रान ल०, म० । सर्पाशनः सहस्रानक्ष, उभयोर्मयूरोऽर्थः । २ युवराज्याय ल० । ३ खगाधिपैः क०, व० । ४ समं म०, ल० ।

शाश्वतं पदमन्विच्छन् प्रापयत्पञ्चमाशुधिम् । चतुर्धावगमः शुद्धमनाप्सीत् सोऽप्यलं तपः ॥ ४३ ॥  
समभावनया तृप्यन् तृप्तोऽपि तनुसंस्थितः । कदाचित्पारणाकाले प्रायाद्वाजगृहं पुरम् ॥ ४४ ॥  
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मै चामीकरच्छविः । नृपो वृषभसेनाख्यः पञ्चाश्रयंमवापिवान् ॥ ४५ ॥  
मासोनवत्सरे याते छात्रस्थये स्वतपोवने । चम्पकद्रुममूलस्थो विहितोपोपितद्वयः ॥ ४६ ॥  
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाह्ने केवलज्ञानं सद्भ्यानेनोद्पादयन् ॥ ४७ ॥  
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तकल्याणं व्यधुर्मुदा । मानस्तम्भादिविन्यासविविधद्विभूषितम् ॥ ४८ ॥  
मल्लिप्रभृतयोऽभूवन्नष्टादशगणेशिनः । द्वादशाङ्गधराः पञ्चशतानि परमेष्ठिनः ॥ ४९ ॥  
शिक्षकास्तस्य सद्वन्द्याः सहस्राण्येकविंशतिः । भर्तुरष्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणाः ॥ ५० ॥  
तावन्तः केवलज्ञानाः विक्रियद्विसमृद्धयः । द्विशतद्विसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥ ५१ ॥  
<sup>१</sup>सहस्राद् सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम् । <sup>२</sup>सहस्रं पिण्डितास्त्रिंशत्सहस्राणि मुनीश्वराः ॥ ५२ ॥  
<sup>३</sup>पुष्पदन्तादयः पञ्चाशत्सहस्राणि चार्थिकाः । एककाः श्रावकाः लक्ष्याः त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ५३ ॥  
असङ्ख्यातो मरुत्सङ्घः सङ्ख्यातो द्वादशो गणः । पुषां धर्मं ब्रुवन्नायंक्षेत्राणि व्यहरञ्चिरम् ॥ ५४ ॥  
विहृत्य मासमात्रायुः सम्मेदाचलमूर्द्धनि । प्रतिमायोगधारी सन् ससहस्रमुनीश्वराः ॥ ५५ ॥  
फाल्गुने श्रवणे कृष्णद्वादश्यां निशि पश्चिमे । भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुव्रतः ॥ ५६ ॥  
कृत्वा पञ्चमकल्याणसपर्यामूर्जितोदयम्<sup>४</sup> । वन्दित्वा सुरवन्दारुवृन्दं यातं यथायथम्<sup>५</sup> ॥ ५७ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

न्यासं त्वत्प्रभया सदो विजयते नीलोत्पलानां वनं

ध्वान्तं वाक् च मनोगतं ध्रुतवतीमां भानुजां भासुराम् ।

सागर-क्षीरसागर भेज दिया । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और इस तरह उन्होंने दीर्घकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ॥ ४१-४३ ॥ यद्यपि वे समभावसे ही तृप्त रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजगृह नगरमें गये ॥ ४४ ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले वृषभसेन नामक राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर पञ्चाश्रयं प्राप्त किये ॥ ४५ ॥ इस प्रकार तश्चपरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा लेनेके वनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षके नीचे स्थित हो कर दो दिनके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके मास पक्ष नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात् वैशाख कृष्ण नवमीके दिन श्रवण नक्षत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥ ४६-४७ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्षसे ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्धियों—सम्पदा-ओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की ॥ ४८ ॥ उन परमेष्ठीके मल्लिको आदि ले कर अठारह गणधर थे, पांच सौ द्वादशांगके जानने वाले थे, सज्जनोंके द्वारा बन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिक्तक थे, एक हजार आठसौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांचसौ मनःपर्ययज्ञानी थे, और एक हजार दो सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४९-५२ ॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, संख्यात तिर्यञ्च और असंख्यात देव देवियोंका समूह था । इस तरह उनकी बारह सभाएँ थीं । इन सबके लिए धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकालतक आर्य क्षेत्रमें विहार किया । विहार करते-करते जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब सम्मेदाशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५६ ॥ उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पञ्चमकल्याणककी पूजा की, बड़े वैभवके साथ बन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥ ५७ ॥

१ सहास्रैः सहस्रं तु क०, १० । २ पिण्डिताः पण्डितास्त्रिंशत् ल० । ३ पुष्पदन्तादयः ल० ।  
४-मूर्जितोदयाम् ल० । ५ यथायथम् ल० ।

बोधश्चाखिलजं तमो व्यपहरद् ब्रह्मं जगद्वन्दितं,  
 वन्दे तन्मुनिसुव्रतस्य भगवन्सार्द्धं तवेन्द्रादिभिः ॥ ५८ ॥  
 कार्यं कारणतो गुणं च <sup>१</sup>गुणिनो भेदं च सामान्यतो  
 वक्त्येकः पृथगेव कोऽप्यपृथगित्येकान्ततो न द्वयम् ।  
 तत्सर्वं घटते तवैव नयसंयोगात्तत्स्वं सता-  
 मातोऽभूर्मुनिसुव्रताय भगवंस्तुभ्यं नमः कुर्महे ॥ ५९ ॥  
 प्रागासीद्धरिवर्मनामनृपतिर्लंघ्वा तपो बद्धवान्  
 नामान्त्यं बहुभावनः शुचिमतिर्यः प्राणतेन्द्रोऽभवत् ।  
 च्युत्वाऽस्मान्मुनिसुव्रतो हरिकुलन्योमामलेन्दुर्जिनो  
 भूत्वा भव्यकुमुद्वतीं व्यकचयल्लक्ष्मीं प्रदिश्यात्मनः ॥ ६० ॥  
 तत्तीर्थं एव चक्रेशो हरिषेणसमाह्वयः । स <sup>२</sup>तृतीयभवेऽनन्तजिनतीर्थं नृपो महान् ॥ ६१ ॥  
 कृत्वा तपः समुत्कण्ठं कोऽपि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकल्पेऽभूत्सुविशालविमानके<sup>३</sup> ॥ ६२ ॥  
 पट्सागरोपमात्मायुर्भुक्त्वा भोगाननारतम् । ततः प्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन् राज्ये भोगपुरेशितुः ॥ ६३ ॥  
 प्रभोरिक्ष्वाकुवंशस्य पद्मनाभस्य भामिनी । <sup>४</sup>ऐराऽनयोः सुतो जातो हरिषेणः सुरोत्तमः ॥ ६४ ॥  
 समायुतमितात्मायुः <sup>५</sup>कनकच्छूरसच्छविः । धनुर्विंशतिमानाङ्गः <sup>६</sup>क्रमेणापूर्णयौवनः ॥ ६५ ॥  
 कदाचित्तेन गत्वाऽमा पद्मनाभमहीपतिः<sup>७</sup> । जिर्णं मनोहरोद्यानेऽनन्तवीर्याभिधानकम् ॥ ६६ ॥  
 अभिवन्द्य ततः श्रुत्वा <sup>८</sup>तत्त्वं संसारमोक्षयोः । सन्त्यज्य <sup>९</sup>राजसीं वृत्तिं शमे स्थातुं समुत्सुकः ॥ ६७ ॥

हे प्रभो ! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलोंका वन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्यसे उत्पन्न दीप्तिको पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थोंसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्धकारको नष्ट करता है इसलिए हे भगवन् मुनिसुव्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ संव संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूर्यको सदा नमस्कार करता हूँ ॥ ५८ ॥ कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको और सामान्यसे विशेषको पृथक् बतलाते हैं और कोई एक—अपृथक् बतलाते हैं ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे हैं अतः घटित नहीं होते परन्तु आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन् ! सज्जनपुरुष आपको आप्त कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५९ ॥ जो पहले हरिवर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए और वहाँ से आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीर्थकर होकर भव्यजीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित किया वे श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६० ॥

इन्हीं मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें हरिषेण नामका चक्रवर्ती हुआ । वह अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अनन्तनाथ तीर्थकरके तीर्थमें एक बड़ा भारी राजा था । वह किसी कारणसे उत्कृष्ट तप कर सनत्कुमार स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ । वहाँ निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुव्रत नाथ तीर्थकरके तीर्थमें भोग पुर नगरके स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ ॥ ६१-६४ ॥ दशहजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, चौबीस धनुष ऊंचा शरीर था और क्रम-क्रमसे उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था ॥ ६५ ॥ किसी एक दिन राजा पद्मनाभ हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तवीर्य नामक जिनेन्द्र

१ गुणितो ल० । २ तृतीया ल० । ३ सुविशालविमानकः ल० । ४ ऐरा तयोः ल० । ५ कनकच्छूरस ल० । ६ क्रमेण ल० । ७ महामति ल० । ८ तत्त्वे क०, घ०, म० । ९ राजसां ल० ।

१राज्यभारं समारोप्य सुते भूपतिभिः समम् । बहुभिः संयमं प्रापत्प्रपित्सुः परमं पदम् ॥ ६८ ॥  
हरिपेणोऽप्युपादाय श्रावकव्रतमुत्तमम् । मुक्तेर्द्वितीयसोपानमिति मत्वाऽविशत्पुरम् ॥ ६९ ॥  
तपस्यतश्चिरं घोरं पद्मनाभमहासुनेः । दीक्षावनेऽभूत्कैवल्यं प्रतिभायोगधारिणः ॥ ७० ॥  
आसंश्रक्रातपत्रासिदण्डरत्नानि तद्दिने । हरिपेणमहीशस्य तदैवायुधवेश्मनि ॥ ७१ ॥  
श्रीगृहे काकिणीचर्ममणिरत्नानि चाभवन् । युगपत्तुष्टचित्तोऽसौ नत्वा तद्द्वयशंसिने ॥ ७२ ॥  
दत्त्वा तुष्टिधनं प्रायाज्जिनपूजाविधित्सया । पूजयित्वाभिवन्द्यै नं जिनं प्रति निवर्त्य सः ॥ ७३ ॥  
पुरं प्रविश्य चक्रस्य कृतपूजाविधिदिशः । जेतुं समुद्यतस्तस्य तदानीमभवत्पुरे ॥ ७४ ॥  
पुरोहितं गृहपतिः स्थपतिश्च चमूपतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगाद्रेरानयन्खगाः ॥ ७५ ॥  
नदीमुखेषु सम्भूताघ्नवापि महतो निर्धेन् । आनिन्यिरे 'स्वयं भक्त्या गणबद्धाभिधाः सुराः ॥ ७६ ॥  
स तैः श्लाघ्यपङ्कजेन बलेन प्रस्थितो दिशः । जित्वा तत्साररत्नानि स्वीकृत्य विजिताखिलः ॥ ७७ ॥  
स्वराजधान्यां संसेव्यः सुरभूपखगाधिपैः । दशाङ्गभोगास्त्रिभ्रं निविशन् मुचिरं स्थितः ॥ ७८ ॥  
कदाचित्कार्तिके मासे नन्दीश्वरदिनेष्वयम् । कृत्वाऽष्टसु महापूजां सोपवासोऽन्तिमे दिने ॥ ७९ ॥  
हर्म्यपृष्ठे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाम्बरे । भासमानः समालोक्य राहुप्रासीकृतं विभुम् ॥ ८० ॥  
धिगस्तु संसृतेर्भावं ज्योतिर्लोकैकनायकः । प्रस्तस्तारापतिः कष्टं पूर्णः स्वैर्वेष्टितोऽप्ययम् ॥ ८१ ॥

की वन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और मोक्षका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़ कर शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये ॥ ६६-६७ ॥ परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सौंपा और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ६८ ॥ 'यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी है' ऐसा मानकर हरिपेणने भी श्रावकके उत्तम व्रत धारण कर नगरमें प्रवेश किया ॥ ६९ ॥ इधर चिर कालतक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीक्षावनमें ही प्रतिभायोग धारण किया और वहीं उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ७० ॥ उसी दिन राजा हरिपेणकी आयुशालामें चक्र, छत्र, खड्ग, और दण्ड ये चार रत्न प्रकट हुए तथा श्रीगृह में काकिणी, चर्म, और मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार देने वालोंने दोनों समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिपेणका चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ । वह समाचार सुनानेवालोंके लिए बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला और जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना कर वहाँसे वापिस लौट नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ चक्ररत्नकी पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमें पुरोहित, गृहपति स्थपति, और सेनापति ये चार रत्न प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयार्थ पर्वतसे हाथी घोड़ा और कन्या रत्न ले आये ॥ ७१-७५ ॥ गणबद्धनामके देव नदीमुखों-नदियोंके गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नौ बड़ी बड़ी निधियाँ भक्ति पूर्वक स्वयं ले आये ॥ ७६ ॥ उसने छह प्रकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओं को जीतकर उनके सारभूत रत्न ग्रहण किये, सब पर विजय प्राप्त की और अन्तमें देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओंके द्वारा सेवित होते हुए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया । वहाँ वह दश प्रकारके भोगों का निराकुलतासे उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा ॥ ७६-७८ ॥

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीश्वर पर्व सम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महा पूजा की और अन्तिम दिन उपवासका नियम ले कर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाशमें शरद ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो । वहीं बैठे-बैठे उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने ग्रस लिया है ॥ ७९-८० ॥ यह देख वह विचार करने लगा कि संसार की इस अवस्थाको धिक्कार हो । देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिर्लोकिका मुख्य नायक है, पूर्ण है और अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे ग्रस लिया । जब इसकी यह दशा है तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्या दशा होती होगी । इस

अन्न का गतिरन्येषां प्राप्ते कालेऽविलङ्घिनि । विधौ विलसतीत्याचनिर्वेदो भरताधिपः ॥ ८२ ॥  
 अनुप्रेक्षास्वरूपाख्या मुखेन स्वसभास्थितान् । धर्मसारं निरूप्याद्यु कृत्वा तत्त्वार्थवेदिनः ॥ ८३ ॥  
 दत्त्वा राज्यं सतां पुज्यो महासेनाय सूनवे । तत्प्रार्थितेन सन्तर्प्य दीनानाथवनीपकान् ॥ ८४ ॥  
 श्रीनागजिनमासाद्य सीमन्ताचलसुस्थितम् । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा सङ्गं व्यङ्गमनङ्गजित् ॥ ८५ ॥  
 १ बहुभिः सह सम्प्राप्य संयमं शमसाधनम् । क्रमेण १ प्रासबह्मद्विरायुरन्ते चतुर्विधाम् ॥ ८६ ॥  
 आराधनां समाराध्य प्रायोपगमनं श्रितः । क्षीणपापः कृपामूर्तिरापान्तिममनुत्तरम् ॥ ८७ ॥

भूपः कोऽपि पुरा श्रिया श्रितवपुः पापोपलेशाद् मृशं

बिभ्यत्प्राप्य तपो भवस्य शरणं मत्वा तृतीयेऽभवत् ।

कल्पेऽन्ते भुवमेत्य चक्रिपदवीं सम्प्राप्य भुक्त्वा सुखं

स श्रीमान् हरिषेणराजवृषभः सर्वार्थसिद्धिं ययौ ॥ ८८ ॥

तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेशवौ । रामलक्ष्मणनामानौ तत्पुराणं निगद्यते ॥ ८९ ॥

इहैव भारते क्षेत्रे राष्ट्रे मलयनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रत्नपुराधिपः ॥ ९० ॥

१ तुक् तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचूलसमाह्वयः । विजयाख्येन तस्यासीत्सम्प्रीतिर्मन्त्रिसूनुना ॥ ९१ ॥

पितृसल्लालितौ बालौ कुलादिमदचोदितौ । अभूतां दुष्टचारित्रौ दन्तिनौ वा निवर्तितौ ॥ ९२ ॥

अन्येषुस्तत्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव । श्रीदत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजां सतीम् ॥ ९३ ॥

दीयमानां समालोक्य पाण्यम्भःसेकपूर्वकम् । कुबेरदत्तां केनाऽपि महापापविधायिना ॥ ९४ ॥

प्रकार चन्द्रग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिषेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने अनुप्रेक्षाओंके स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंको श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप बतलाया और शीघ्र ही उन्हें तत्त्वार्थका ज्ञाता बना दिया ॥ ८१-८३ ॥ सत्पुरुषोंके द्वारा पूजनीय हरिषेणने अपने महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवाञ्छित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया । तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्वतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर विविध प्रकारके परिग्रहका विधिपूर्वक त्याग कर दिया । उसने अनेक राजाओंके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त कीं और आयुके अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएं आराध कर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण कर लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्ति स्वरूप हैं ऐसा वह चक्रवर्ती अन्तिम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥ ८४-८७ ॥ श्रीमान् हरिषेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिंगित था ऐसा कोई राजा था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिया जिससे तृतीय स्वर्गमें देव हुआ, फिर आयुके अन्तमें वहाँसे पृथिवीपर आकर हरिषेण चक्रवर्ती हुआ और सुख भोगकर सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ ॥ ८८ ॥

अथानन्तर—इन्हीं मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें राम और लक्ष्मण नामके आठवें बल-भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है ॥ ८९ ॥ उसी भरतक्षेत्रके मलय नामक राष्ट्रमें रत्नपुर नामका एक नगर है । उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे ॥ ९० ॥ उनकी गुणकान्ता नामकी स्त्रीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था । उन्हीं प्रजापति महाराजके मंत्रीका एक विजय नामका पुत्र था । चन्द्रचूल और विजयमें बहुत भारी खेद था । ये दोनों ही पुत्र अपने-अपने पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाड़से उनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमंड सदा उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्त हाथियोंके समान दुराचारी हो गये थे ॥ ९१-९२ ॥ किसी एक दिन उसी नगरमें रहनेवाला कुबेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्रवण सेठकी गोतमा स्त्रीसे उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदत्ता नामकी

तस्याः स्वानुचरेणोक्तं श्रुत्वा रूपादिसम्पदम् । कुमारे तां स्वसाल्कतुं सह मित्रे समुद्यते ॥ ९५ ॥  
वणिक्सङ्घसमाक्रोशध्वनिमाकर्ण्य भूपतिः । स्वतनूजदुराचारदारुढ्यत्कांपपावकः ॥ ९६ ॥  
पुररक्षकमाहूय दुरात्मानं कुमारकम् । लोकान्तरातिथिं सद्यो विधेहीति समादिशन् ॥ ९७ ॥  
तदैव सोऽपि राजाज्ञाचोदितस्तुमुलाह्वये । जीवग्राहं गृहीत्वैनमानयञ्चिकटं विभोः ॥ ९८ ॥  
तदालोक्य किमित्येष पापीहानीयते द्रुतम् । निशातशूलमारोप्य श्मशाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥  
राशोक्ते प्रस्थितो हन्तुं कुमारं पुररक्षकः । न्यायानुवर्तिनां युक्तं न हि स्नेहानुवर्तनम्<sup>१</sup> ॥ १०० ॥  
तदामात्योत्तमः पौरान्पुरस्कृत्य महीपतिम् । व्यजिज्ञपदिति व्यक्तमुक्त्वासकरकुड्मलः ॥ १०१ ॥  
कृत्याकृत्यविवेकोऽस्य<sup>२</sup> न बाल्यादेव विद्यते । प्रमादोऽस्माकमेवार्थं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥ १०२ ॥  
न दान्तोऽयं नृभिर्दन्ती शैशवे चेद् यथोचितम् । प्राज्ञैश्वर्यो न किं कुर्यादसौ दर्पग्रहाहितः ॥ १०३ ॥  
न बुद्धिमान् न दुर्बुद्धिर्न वधं दण्डमर्हति । आहार्यबुद्धिरेषोऽतः शिक्षणीयोऽधुनाप्यलम् ॥ १०४ ॥  
न कोपोऽस्मिस्तवास्वयेव<sup>३</sup> न्यायमार्गं निनीपया । निगृह्णास्येक एवार्थं राज्यसन्ततिसंबृतौ<sup>४</sup> ॥ १०५ ॥  
अन्यत्संधित्सतोऽप्राप्त्यन्त्यच्युतं तदिति श्रुतिः । सा तवाद्य समायाति सन्तानोच्छेदकारिणः ॥ १०६ ॥  
एतत्पूत्कारतो ज्येष्ठं तनूजमवधीन्नुपः । इत्यवाच्यभयप्रस्ताः पौराश्रितैः पुरःस्थिताः ॥ १०७ ॥  
तत्क्षमस्वापराधं मे महीशप्राथितोऽस्यमुम् । एतन्मन्त्रिवचः श्रुत्वा विरूपकमुदीरितम् ॥ १०८ ॥

पुत्री दे रहा था। उसी समय महापापके करने वाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुवेर-  
दत्तके रूप आदिकी प्रशंसा की। उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक  
अपने आधीन करनेके लिए तत्पर हो गया ॥ ९३-९५ ॥ यह देख, वैश्योंका समूह चिह्लाता हुआ  
महाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते ही महाराजकी क्रोधाग्नि अपने पुत्रके  
दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी। उन्होंने नगरके रक्षकको बुलाकर आज्ञा दी कि इस  
दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो—मार डालो ॥ ९६-९७ ॥ उसी समय  
राजाज्ञासे प्रेरित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़मेंसे इस राजकुमारको जीवित पकड़कर महाराजके  
समीप ले आया ॥ ९८ ॥ यह देख राजाने विचार किया कि इस पापीको शीघ्र ही किसप्रकार मारा  
जाय ? कुछ देर तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षकको आदेश दिया कि इसे श्मशानमें ले  
जाकर पेनी शूलीपर चढ़ा दो ॥ ९९ ॥ राजाके कहते ही नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल  
दिया। सो ठीक ही है क्योंकि न्यायके अनुसार चलने वाले पुरुषोंको स्नेहका अनुसरण करना उचित  
नहीं है ॥ १०० ॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया  
और हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥ १०१ ॥ हे देव ! इसे कार्य  
और अकार्यका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नहीं है, यह हमलोगोंका ही प्रमाद है क्योंकि माता-  
पिताके द्वारा ही बालक सुशिक्षित और सदाचारी बनाये जाते हैं ॥ १०२ ॥ यदि हाथीको बाल्या-  
वस्थामें यथायोग्य रीतिसे वशमें नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्योंके द्वारा वशमें नहीं किया  
जा सकता; यही हाल बालकोंका है। यदि ये बाल्यावस्थामें वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर  
ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी ग्रहसे आक्रान्त हो क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं  
॥ १०३ ॥ यह कुमार न तो बुद्धिमान् है और न दुर्बुद्धि ही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं  
है। अभी यह आहार्य बुद्धि है—इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह  
शिक्षा देना चाहिये ॥ १०४ ॥ कुमार पर आपका कोप तो है नहीं, आप तो न्यायमार्गपर ले  
जानेके लिए ही इसे दण्ड देना चाहते हैं परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि  
राज्यकी संतति धारण करनेके लिए यह एक ही है—आपका यही एक मात्र पुत्र है ॥ १०५ ॥ यदि  
आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देंगे तो कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया। यह लोकोक्ति  
आज ही आपक शिर आ पड़ेगी ॥ १०६ ॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके रोने-चिल्लानेसे  
महाराजने अपने बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्दाके भयसे प्रस्त हूए ये अभी नगरवासी आपके

भविन्निरिव शास्त्रार्थं भवद्भिः श्रुतपारणैः । दुष्टानां निग्रहः शिष्टपालनं भूभुजां मतम् ॥ १०९ ॥  
 नीतिशास्त्रेषु तत्त्वेहमोहासक्तिभयादिभिः । अस्माभिर्लङ्घिते न्याये भवन्तस्तस्य वर्तकाः ॥११०॥  
 तस्माद्युक्तं युष्माकं मां योजयितुमुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महीभुजा ॥१११॥  
 कृत्याकृत्यविवेकातिदूरो मूढो महीभुजः । स साङ्ख्यपुरुषस्तेन कृत्यं <sup>१</sup>नात्रापरत्र च ॥११२॥  
 तस्मान्न प्रतिषेधोऽहमिति राज्ञाभिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेत्ययुर्भयात् ॥११३॥  
 सुते निःस्निग्धतां भर्तुर्जानन् देवाहमेव तम् । दण्डयिष्यामि मत्वेति निर्गम्य <sup>२</sup> तदनुज्ञया ॥ ११४ ॥  
 प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनगिर्यद्रिमश्रवीत् । हे कुमार तवावश्यं मरणं समुपस्थितम् ॥ ११५ ॥  
 विभीः शक्नोपि किं <sup>३</sup>मर्तुमित्यवादीत्स चेदृशम् । बिभेमि चेदहं मृत्योः किमित्येतदनुष्ठितम् ॥११६॥  
 सलिलं वा तृषार्त्तस्य शीतलं मरणं मम । तत्र का भीरिति व्यक्तं तदुक्तमवबुध्य सः ॥ ११७ ॥  
 नागरेभ्यो महीभ्रंरं कुमारयात्मनेऽपि च । लोकद्वयहितं कार्यं निश्चित्य सचिवाग्रणीः ॥ ११८ ॥  
 तदद्रिमस्तर्कं गत्वा महाबलगणेशिनम् । अभिवन्द्य <sup>४</sup>निजायातकार्यं चास्मै न्यवेदयत् ॥ ११९॥  
 मनःपर्ययसंज्ञानचक्षुः स गणनायकः । मा भैषीद्विभौ रामकेशवाविह भाविनौ ॥ १२० ॥  
 तृतीयजन्मनीत्याह तच्छ्रुत्वा सचिवो मुदा । तौ तन्नानीय संश्राव्य धर्मं संयममापयत् <sup>५</sup> ॥१२१॥  
 ततो भूपतिमासाद्य मन्त्रीतीदमबोधयत् । वारणारेरिवाभीरोरेककस्य गुहाश्रितः ॥ १२२ ॥

सामने खड़े हुए हैं ॥ १०७ ॥ इसलिए हे महाराज ! हम प्रार्थना करते हैं कि हमलोगोंका यह अपराध क्षमा कर दिया जाय । मंत्रीके यह वचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि आपलोग शास्त्रके पारगामी हो कर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं । दुष्टोंका निग्रह करना और सज्जनोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, नीतिशास्त्रोंमें बतलाया गया है । खंह, मोद्द, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जावेंगे । इसलिए आप लोगोंका मुझे उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं है । यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोषपूर्ण हो जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिये । जो मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्योंके विवेकसे दूर रहता है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान है । उससे इस लोक और परलोक सम्बन्धी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १०८-११२ ॥ इसलिए इस कार्यमें मुझे रोकना ठीक नहीं है । महाराजके इस प्रकार कहने पर लोगोंने समझा कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं ऐसा समझ सब लोग भयसे अपने-अपने घर चले गये ॥ ११३ ॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है ऐसा जानते हुए मंत्रीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं इसे दण्ड स्वयं दूंगा । इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मंत्री भी चला गया ॥ ११४ ॥ वह अपने पुत्र और राजपुत्रको साथ लेकर वनगिरि नामके पर्वत पर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्या आप निर्भय हो मरनेके लिए तैयार हैं ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है इसमें भयकी कौनसी बात है ? इस तरह कुमारकी बात सुनकर मुख्य मंत्रीने महाराज, राजकुमार और स्वयं अपने दोनों लोकोंका हित करने वाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥ ११५-११८ ॥ तदनन्तर मंत्रीने उसी पर्वतकी शिखापर जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की और उन्हें अपने आनेका सब कार्य भी निवेदन किया ॥११९॥ मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले उन गणधर महाराजने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भवमें इस भरतक्षेत्रके नारायण और बलभद्र होने वाले हैं ॥ १२० ॥ यह सुनकर मंत्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन दोनोंको संयम धारण करा दिया ॥ १२१ ॥ तदनन्तर वह मन्त्री राजाके समीप आया और यह

१ चात्रापरत्र च ल० । २ निर्गम्य ल० । ३-मिवावादीत् ल० । ४ निजायान-क०, घ० । ५-मापयत् क०, घ०, ।

अनाहतस्वसौख्यस्य कस्यचिद्बनवासिनः । स्वकार्येष्वतितीव्रस्य जनस्यात्युग्रचेष्टितुः ॥ १२३ ॥  
 तावर्षितौ मया सोऽपि १ तवाह कृतदोषयोः । भवतोर्न सुखं स्मार्यं दुःखं भोग्यं सुदुष्करम् ॥ १२४ ॥  
 स्मरन्त्या देवता चित्ते परलोकनिमित्ततः । इत्येतत्तौ च भद्रं त्वं मा कृथाः कष्टदण्डनम् ॥ १२५ ॥  
 भावाभ्यामावयोः कार्यमित्यात्मकरभाविताम् । वेदनां तीव्रमापाद्य परलोकोन्मुखावुभौ ॥ १२६ ॥  
 अभूतां तद्विलोक्याहमभिप्रेतार्थनिष्ठितम् २ । ३ सुविधाययागतो देव सिद्धं भवदुदीरितम् ॥ १२७ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं राजा महादुःखाकुलो मनाक् । निवातस्तिमितक्षमाजसमानो निश्चलं स्थितः ॥ १२८ ॥  
 आत्मना मन्त्रिभिर्बन्धुजनैश्चालोक्य निश्चितम् । कार्यं हितमनुष्ठेयं तत्प्राप्तानुष्ठितं स्वया ॥ १२९ ॥  
 करजालमतिक्रान्तमिव सर्पिमहीरुहे । प्रसूनमिव संशुष्कं कार्यं कालातिपातितम् ॥ १३० ॥  
 तत्र शोको न कर्तव्यो द्यूयेति सचिवादिताम् । श्रुत्वा तद्वचनं ब्रूहि तर्कं तद्दृष्टार्कं कथम् ॥ १३१ ॥  
 इत्यप्राक्षीचतोऽस्याभिप्रायवित्सचिवोऽवदत् । यतयो वनगिर्यद्विगुहागहनवासिनः ॥ १३२ ॥  
 धैर्यासिधारानिर्भ्रकपायविषयद्विषः । स्थूलसूक्ष्मासुष्ट्रक्षानितान्तोद्यतवृत्तयः ॥ १३३ ॥  
 भिया भियेव कोपेन कोपेनेवानिताशयाः । असंयतेषु भोगोपभोगेष्विव निरादराः ॥ १३४ ॥  
 तेभ्यस्तौ धर्मसद्भावं श्रुत्वा निविद्य दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्परितुष्टो महीपतिः ॥ १३५ ॥  
 लोकद्वयहितो नान्यस्त्वमेवेत्यभिनन्द्य तम् । दुष्पुत्र इव भोगोऽयं ४ पापापलापकारणम् ॥ १३६ ॥

कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहता था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने सुखोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्योंमें अत्यन्त तीव्र था और उग्र चेष्टाका धारक था । मैंने वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये । उस गुहावासीने भी उनसे कहा कि आप दोनोंने बहुत भारी दोष किया है अतः अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, अब तो आपको कठिन दुःख भोगना पड़ेगा । परलोकके निमित्त हृदयमें इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिये । यह सुनकर उन दोनोंने मुझसे कहा कि 'हे भद्र ! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं अर्थात् स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं । यह कह वे दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हो गये । यह देख मैं इष्ट अर्थकी पूर्ति कर वापिस चला आया हूँ । हे राजन् ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया ॥ १२२-१२७ ॥ मन्त्रीके वचन सुनकर राजा महादुःखसे व्यग्र हो गया और कुछ देर तक हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़े हुए वृक्षके समान निश्चल बैठा रहा ॥ १२८ ॥ तदनन्तर राजाने अपने आप, मंत्रियों तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया और तत्पश्चात् मंत्रीसे कहा कि तुम्हें सदा हितकारी कार्य करना चाहिये, आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया ॥ १२९ ॥ मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीत हो चुकता है और जो फूल सांप वाले घृत्नपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमें शोक करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती—अतीत हो चुका है अतः अब आपको इसके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये । मंत्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथार्थ वात क्या है ? तदनन्तर राजाका अभिप्राय जानने वाला मन्त्री बोला कि वनगिरि पर्वतकी गुफाओं और सघन वनोंमें बहुतसे यति-मुनि रहते हैं उन्होंने अपने धैर्य रूपी तलवारकी धारासे कषाय और विषयरूपी शत्रुओंको जीत लिया है, क्या स्थूल क्या सूक्ष्म—सभी जीवोंकी रक्षा करनेमें वे निरन्तर तत्पर रहते हैं । उनके हृदयसे भय मानो भयसे ही भाग गया है और क्रोध मानो क्रोधके कारण ही उनके पास नहीं आता है । वे भोग-उपभोगके पदार्थोंमें असंयमितियोंके समान सदा निरादर करते रहते हैं । वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं । इस प्रकार मंत्रीके स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ ॥ १३०-१३५ ॥ 'दोनों लोकोंका हित करने वाला तू ही है' इस प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप और निन्दके



इति स्वकुलयोग्याय दत्तराज्यमहाभरः । गत्वा गणेशमभ्यर्च्य वनादौ नवसंयतौ ॥ १३७ ॥  
 मया कृतं महान् दोषः तं क्षमेथां युवामिति । निगदन्नावयोर्लो कद्वितीथैकगुरुर्भवान् ॥ १३८ ॥  
 संयमोऽयं स्वयैवापि ताभ्यां सम्प्राप्य संस्तवम् । बहुभिर्भुञ्जैः<sup>१</sup> सार्द्धं त्यक्तसन्नः स संयमम् ॥ १३९ ॥  
 प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिधातिकर्मविघातकृत् । केवलावगमज्योतिर्लोकाम्रे व्यद्युत्तराम् ॥ १४० ॥  
 तौ समुत्कृष्टचारित्रौ द्वौ खड्गपुरबाह्यगौ । आतापयोगमादाय तस्थतुस्त्यक्तविग्रहौ ॥ १४१ ॥  
 तत्पुराधिपसोमप्रभाह्वयस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तत्सूनुः सुप्रभः सुप्रभाङ्गधत् ॥ १४२ ॥  
 पुरुषोत्तमनामा च गुणैश्च पुरुषोत्तमः । मधुसूदनमुच्छिद्य कृतदिग्जयपूर्वकम् ॥ १४३ ॥  
 नृखेचरसुराधीशप्रवर्द्धितमहोदयम् । प्रविशन्तं प्रभावन्तं नगरं पुरुषोत्तमम् ॥ १४४ ॥  
 चन्द्रचूलमुनिर्हृष्टा निदानमकृताज्ञकः । जीवनावसितौ सम्यगाराध्योभौ चतुर्विधम्<sup>२</sup> ॥ १४५ ॥  
 सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । विजयः स्वर्णचूलेऽन्यो मणिचूलो मणिप्रभे ॥ १४६ ॥  
 जातवन्तौ तदुत्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततश्च्युत्वेह भारते ॥ १४७ ॥  
 वाराणसीपुरार्धाशो राज्ञो दशरथश्रुतेः । सुतः सुबालासंज्ञायां शुभस्वप्नपुरस्सरम् ॥ १४८ ॥  
 कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यजायत । मघायां हलन्तःश्रावी चूलान्तकनकामरः ॥ १४९ ॥  
 त्रयोदशसहस्राब्दो रामनामानताखिलः । तत एव महीभर्तुः कैकेय्यामभवत्पुरः ॥ १५० ॥  
 सरःसूर्येन्दुकलमक्षेत्रसिंहान् महाफलान् । स्वमान् संदश्यं माघस्य शुक्लपक्षादिमे दिने ॥ १५१ ॥

कारण हैं । ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके योग्य किसी पुत्रको राज्य का महान् भार सौंप दिया और वनगिरि नामक पर्वत पर जाकर गणधर भगवान्को पूजा की । वहींपर नवदीक्षित राजकुमार तथा मंत्रि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा कीजिये । राजाके वचन सुनकर नवदीक्षित मुनियोंने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोकोंके गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोंसे प्रशंसा पाकर राजाने सब परि-ग्रहका त्याग कर अनेक राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १३६-१३९ ॥ क्रम-क्रमसे मोह कर्मका विध्वंसकर अवशिष्ट घातिया कर्मका नाश किया और केवलज्ञान रूपी ज्योतिको प्राप्त कर वे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान होने लगे ॥ १४० ॥

इधर उत्कृष्ट चारित्रिका पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा शरीरसे ममत्व छोड़ कर खड्गपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे ॥ १४१ ॥ उस समय खड्गपुर नगरके राजाका नाम सोमप्रभ था । उसके सुदर्शना और सीता नामकी दो स्त्रियाँ थीं । उन दोनोंके उत्तम कान्तिवाले शरीरको धारण करने वाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम इस प्रकार दो पुत्र थे । इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह दिग्बिजयके द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था । मनुष्य विद्याधर और देवेन्द्र उसके ऐश्वर्यको बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था ॥ १४१-१४४ ॥ नगरमें प्रवेश करते देख अज्ञानी चन्द्रचूल मुनि ( राजकुमारका जीव ) निदान कर बैठा । अन्तमें जीवन समाप्त होनेपर दोनों मुनियोंने चार प्रकारकी आराधना की । उनमेंसे एक तो सनत्कुमार स्वर्गके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी । चिर कालतक वहाँके सुख भोग कर वे वहाँसे च्युत हुए ॥ १४५-१४७ ॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उनकी सुबाला नामकी रानी थी । उसने शुभ स्वप्न देखे और उसीके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन मघा नक्षत्र में सुवर्णचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हुआ । उसकी तेरह हजार वर्षकी आयु थी, राम नाम था, और उसने सब लोगोंको नम्रीभूत कर रक्खा था । उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी कैकेयी थी । उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खेत और

विशाखर्क्षे स चक्राङ्को मणिचूलोऽमृताशनः । पङ्गुणद्विसहस्राब्दजीवितो लक्ष्मणाङ्गयः ॥ १५२ ॥  
 तौ पञ्चदशचापोच्चैः<sup>१</sup> द्वात्रिंशलक्षणांस्त्वितौ । आदिसंहननौ संस्थानं चाभूदादिमं तयोः ॥ १५३ ॥  
 अमेयवीर्यौ हंसांशनीलोत्पलसमत्वियौ । तयोः सपञ्चपञ्चाशत्-पञ्चाशद्वर्षसंमिते ॥ १५४ ॥  
 कुमारकाले निःक्रान्ते<sup>२</sup> नितान्तपरमोदये । भारतेऽस्मिन्नयोध्यायां<sup>३</sup> भरतादिमहीशतुः ॥ १५५ ॥  
 गतेष्विद्वान्कुमुदेषु सङ्ख्यातीतेष्वनन्तरम् । हरिषेणमहाराजे दशमे चक्रवर्तिनि ॥ १५६ ॥  
 सर्वार्थसिद्धावुत्पन्ने संवत्सरसहस्रके । काले गतवति प्राभूत् सगराख्यो महीपतिः ॥ १५७ ॥  
 निःखण्डमण्डलश्चण्डः सुलसायाः स्वयंवरे । मधुपिङ्गलनामानं कुमारवरमागतम् ॥ १५८ ॥  
 दूष्यलक्ष्मायमित्युक्त्वा निरास्थ<sup>४</sup>भूपमध्यगम् । सगरे बद्धवैरः सन् निःक्रम्य मधुपिङ्गलः ॥ १५९ ॥  
 सलज्जः संयमी भूत्वा महाकालासुरोऽभवत् । सोऽसुरः सगराधीशवंशनिर्मूलनोद्यतः ॥ १६० ॥  
 द्विजवेषं समादाय सम्प्राप्य सगराङ्गयम् । अथर्ववेदविहितं प्राणिहिंसापरायणम् ॥ १६१ ॥  
 कुरु यागं श्रियो वृद्धयै शत्रुविच्छेदनेच्छया । इति तं दुर्मतिं भूपं<sup>५</sup> पापाभीरुर्व्यमोहयत् ॥ १६२ ॥  
 अनुष्ठाय तथा सोऽपि प्राविशत्पापिनां क्षितिम् । निर्मूलं कुलमप्यस्य नष्टं दुर्मागवर्तनात् ॥ १६३ ॥  
 श्रुत्वा तत्सात्मजो रामपितास्माकं क्रमागतम् । साकेतपुरमित्येत्य तदध्यास्यान्वपालयत् ॥ १६४ ॥  
 तत्रास्य देव्यां कस्यास्त्रिदभवद्भरताङ्गयः । शत्रुघ्नश्चान्यदप्येकं दशाननवधाद्यसः ॥ १६५ ॥

सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देखे और उसके गर्भसे माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन विशाखा नक्षत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुआ । उसके शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी आयु, थी और लक्ष्मण उसका नाम था ॥ १४८-१५२ ॥ वे दोनों ही भाई पन्द्रह धनुष ऊंचे थे, बत्तीस लक्ष्णोंसे सहित थे, वज्रवृषभनाराचसंहननके धारक थे और उन दोनोंके समचतुरस्रसंस्थान नामका पहला संस्थान था ॥ १५३ ॥ वे दोनों ही अपरिमित शक्तिवाले थे, उनमेंसे रामका शरीर हंसके अंश अर्थात् पंखके समान सफ़ेद था और लक्ष्मण का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था ! जब रामका पचपन और लक्ष्मणका पचास वर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे भरा हुआ कुमारकाल व्यतीत हो गया तब इसी भरतक्षेत्र की अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था । वह सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इक्ष्वाकुवंशके शिरोमणि असंख्यात राजा हो चुके थे और उनके बाद जब हरिषेण महाराज नामक दशवां चक्रवर्ती मरकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर सगर राजा हुआ था । वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था । एकबार उसने सुलसाके स्वयंवरमें आये हुए एवं राजाओंके बीचमें बैठे हुए मधुपिङ्गल नामके श्रेष्ठ राजकुमारको 'यह दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है' ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा मधुपिङ्गल सगर राजाके साथ वैर बांधकर लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा । अन्तमें संयम धारणकर वह महाकाल नामका असुर हुआ । वह असुर राजा सगरके वंशको निर्मूल करनेमें तत्पर था ॥ १५४-१६० ॥ वह ब्राह्मणका वेष रखकर राजा सगरके पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मीकी वृद्धिके लिए, शत्रुओंका उच्छेद करनेके लिए अथर्ववेदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करने वाला यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरने वाले उस महाकाल नामक व्यन्तरने उस दुर्बुद्धि राजाको मोहित कर दिया ॥ १६१-१६२ ॥ वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात् नरकमें प्रविष्ट हुआ । इस प्रकार कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो गया । इधर राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो हमारी वंशपरम्परासे चला आया है । ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंके साथ अयोध्या नगरमें गये और वहीं रह कर उसका पालन करने लगे ॥ १६३-१६४ ॥ वहीं इनकी किसी अन्य रानीसे भरत

१ चापाङ्गो क०, घ० । २ नितान्तपरमोदयो ल० । नितान्तपरमोदयम् ल० । ३ भरतादिमहीशुजि ल० । भारतादिमहीशितुः ल० । ४ अपूर्व म०, ल० । ५ भूतं ल० ।

कारणं प्रकृतं भावि रामलक्ष्मणयोरिदम् । मिथिलानगराधीशो जनकस्तस्य वल्लभा ॥ १६६ ॥  
 सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्यभूत्तस्याः सम्प्राप्तनवयौवना ॥ १६७ ॥  
 तां वरीतुं समायातवृषदत्तान् महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकूल्यं यस्येति सोऽमुचत् ॥ १६८ ॥  
 नृपः कदाचिदास्थानीं विद्वज्जनविराजिनीम् । आस्थाय कार्यकुशलं कुशलादिमतिं हितम् ॥ १६९ ॥  
 सेनापतिं समप्राक्षीत् प्राक्प्रवृत्तं कथान्तरम् । पुरा किलान्न सगरः सुलसा चाहुतीकृता ॥ १७० ॥  
 परे चाश्वादयः प्रापन् सशरीराः सुरालयम् । इतीदं श्रूयतेऽद्यापि यागेन यदि गम्यते ॥ १७१ ॥  
 स्वलोकं क्रियतेऽस्माभिरपि याज्ञो यथोचितम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा स सेनापतिरब्रवीत् ॥ १७२ ॥  
 नागासुरैः सदा ऋद्धैर्मात्सर्येण परस्परम् । अन्योन्यारब्धकार्याणां प्रतिघातो विधीयते ॥ १७३ ॥  
 अयं चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञो विनिर्मितस्तस्य विघातः शङ्कयतेऽरिभिः ॥ १७४ ॥  
 नागराहुपकर्त्ताऽभून्नमेश्च विनमेरपि । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तल्पक्षपातिनः ॥ १७५ ॥  
 यागः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । यद्यप्येतन्न बुध्येरन् रूप्यशैलनिवासिनः ॥ १७६ ॥  
 निश्चितो<sup>१</sup> रावणः शौर्यशाली मानग्रहाहितः । तस्मात्प्रागपि शङ्कास्ति स कदाचित् विघातकृत् ॥ १७७ ॥  
 स्यात्तद्रामाय शक्त्या दास्यामः कन्यकामिमाम् । इति तद्वचनं सर्वे तुष्टुवुस्तस्तभासिनः ॥ १७८ ॥  
 निरचिन्वंशं भूपेन साकं तत्कार्यमेव ते । तदैव जनको दूतं प्राहिणोद्रामलक्ष्मणौ ॥ १७९ ॥  
 मदीययागरक्षार्थं प्रहेतव्यौ कृतत्वरम् । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम् ॥ १८० ॥

तथा शत्रुघ्न नामके दो पुत्र और हुए थे । रावणको मारनेसे राम और लक्ष्मणका जो यश होने वाला था उसका एक कारण था—वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे । उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणोंसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी । राजा जनक की वसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । जब वह नवयौवनको प्राप्त हुई तब उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंने अपने-अपने दूत भेजे । परन्तु राजाने यह कह कर कि मैं यह पुत्री उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकूल होगा, उन आये हुए दूतोंको विदा कर दिया ॥१६५-१६८॥

अथानन्तर—किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे सुशोभित सभामें बैठे हुए थे । वहीं पर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापति बैठा था । राजा जनकने उससे एक प्राचीन कथा पृच्छी । वह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा आदि अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थे । वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे' यह बात सुनी जाती है । यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हो तो हमलोग भी यथा योग्य रीतिसे यज्ञ करें' । राजाके इस प्रकार बचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा क्रोधित हुए नागकुमार और असुरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए कार्योंमें विघ्न करते हैं ॥१६९-१७३॥ चूंकि यज्ञ की यह नई रीति महाकाल नामक असुरने चलाई है अतः प्रतिपक्षियोंके द्वारा इसमें विघ्न किये जानेकी आशंका है ॥ १७४ ॥ इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धरणेन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपात करने वाले विद्याधर अवश्य ही यज्ञका विघात करेंगे ॥ १७५ ॥ यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विघ्न दूर करनेमें समर्थ होते हैं । यद्यपि विजयार्थ पर्वतपर रहने वाले विद्याधरोंको इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है तथापि यह निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी प्रहसे अधिष्ठित है उससे इस बातका भय पहलेसे ही है कि कदाचित् वह यज्ञमें विघ्न उपस्थित करे ॥ १७६-१७७ ॥ हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम यह कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विघ्न दूर कर देंगे । इसप्रकार सेनापतिके बचनोंकी सभामें बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥ १७८ ॥ राजा जनकके साथ ही साथ सब लोगोंने इस कार्यका निश्चय कर लिया और राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा भेंटके साथ

सलेखोपायनं सन्तं नृपं दशरथं प्रति । तथान्यांश्च महीट्सूनूद्र दूतानानेतुमादिशत् ॥ १८१ ॥  
 अयोध्येशोऽपि लेखार्थं दूतोक्तं चावधारयन् । तन्प्रयोजननिश्चित्यै मन्त्रिणां वृच्छति स्म सः ॥ १८२ ॥  
 जनकोक्तं निवेद्यात्र किं कार्यं क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्थ्यबोचद्वचोऽ<sup>१</sup>शुभम् ॥ १८३ ॥  
 निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्योभयलोकजम् । हितं कृतं भवेत्तस्माद्गतिरस्त्वनयोरिति ॥ १८४ ॥  
 वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधार्य सः । प्रजल्पति स्मातिशयमत्याख्यो मन्त्रिणां मतः १८५ ॥  
 धर्मो यागोऽयमित्येतत्प्रमाणपदवीं वचः । न प्रामोत्यत एवात्र न वर्तन्ते मनीषिणः ॥ १८६ ॥  
 प्रमाणभूयं वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो भवेत् । सर्वप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायिनः ॥ १८७ ॥  
 कथमुन्मत्तकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । विरुद्धालपितासिद्धानेति चेद्वेदवादिनः ॥ १८८ ॥  
 सिद्धे वैकत्र घातोक्तेरन्यत्रैतन्निषेधनात् । स्वयंभूत्वाददांयोऽस्य विरोधे सत्यपीत्यसत् ॥ १८९ ॥  
 प्रष्टव्योऽसि स्वयंभूत्वं कीदृशं तु तदुच्यताम् । बुद्धिमत्कारणस्पन्दसम्बन्धनिरपेक्षणम् ॥ १९० ॥  
 स्वयंभूत्वं भवेन्मेघभेकादीनां च सा गतिः । ततः सर्वज्ञनिर्दिष्टं सर्वप्राणिहितत्वकम् ॥ १९१ ॥  
 ज्ञेयमागमशब्दाख्यं सर्वदोषविवर्जितम् । वर्तते यज्ञशब्दश्च दानदेवषिपूजयोः ॥ १९२ ॥  
 यागो यज्ञः क्रतुः पूजा सपर्येज्याध्वरो मखः । मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्चनाविधेः ॥ १९३ ॥  
 यज्ञशब्दाभिधेयोरुदानपूजास्वरूपकात् । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्यं तत्पाकाद्विविजेश्वराः ॥ १९४ ॥

एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया । आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम तथा लक्ष्मणको भेजिये । यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावेगी । राम-लक्ष्मणके सिवाय अन्य राज्यपुत्रोंकी बुलानेके लिए भी अन्य अन्य दूत भेजे ॥ १७६-१८१ ॥ अयोध्याके स्वामी राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अर्थ समझा, दूतका कहा समाचार सुना और इस सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पूछा ॥ १८२ ॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्त्रियोंको सुनाया और पूछा कि क्या कार्य करना चाहिये ? इसके उत्तरमें आगमसार मन्त्री निम्नाङ्कित अशुभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विघ्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाला हित होगा और उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी ॥ १८३-१८४ ॥ आगमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहे हुएका निश्चयकर अतिशयमति नामका श्रेष्ठ मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह वचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं है इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष इस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ १८५-१८६ ॥ वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे होती है । जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है ऐसे यज्ञप्रवर्तक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी मनुष्यके वचन पागल पुरुषके वचनके समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं । यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका विधान और दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारके वाक्य क्यों मिलते ? कदाचित् यह कहो कि वेद स्वयंभू है, अपने आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है । तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयंभूपना कैसा है—इसका क्या अर्थ है ? यह तो कहिये । यदि बुद्धिमान् मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना अर्थात् किसी भी बुद्धिमान् मनुष्यके हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है । स्वयंभूपनका उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं तो मेघोंकी गर्जना और मँढकोंकी टर्टर इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी तो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए आगम वही है—शास्त्र वही है जो सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ हो, समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो और सब दोषोंसे रहित हो । यज्ञ शब्द, दान देना तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अर्थमें आता है ॥ १८७-१८९ ॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, और मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १९३ ॥ यज्ञ शब्दका वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग पुण्यका सञ्चय

शतक्रतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुताः<sup>१</sup> । प्रादुर्भूताः प्रसिद्धास्ते लोकेषु समयेषु च ॥ १९५ ॥  
 हिंसार्थो यज्ञशब्दश्चेत्कर्तुर्नारकी गतिः । प्रयाति सोऽपि चेत्स्वर्गं विहिंसानामधोगतिः ॥ १९६ ॥  
 तव स्यादित्यभिप्रायो हिंस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां पूज्यत्वाद्यज्ञ इत्ययम् ॥ १९७ ॥  
 वर्तते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । एतत्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिन्नेष<sup>२</sup> इत्यपि ॥ १९८ ॥  
 हिंसायामिति धात्वर्थपाठे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थो यदि प्राणवधात्मकम् ॥ १९९ ॥  
 यज्ञं कथं चरन्त्यार्या इत्यशिक्षितलक्षणम् । भार्यानार्षविकल्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥  
<sup>३</sup>तीर्थेशा जगदाद्येन परमब्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषड्रव्यभेदे यथात्म्यदेशने ॥ २०१ ॥  
 त्रयोऽप्रथः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराप्रथः । तेषु क्षमाविरागत्वानशानाहुतिभिर्वने ॥ २०२ ॥  
 स्थित्व<sup>४</sup>पियतिमुन्यस्त<sup>५</sup>शरणाः परमद्विजाः । इत्यात्मयज्ञमिष्टार्थामष्टमीमवनीं ययुः ॥ २०३ ॥  
 तथा तीर्थगणाधीशशेषकेवलसद्गुणः । संस्कारमहिताग्नीन्द्रमुकुटोत्थाग्निषु त्रिषु ॥ २०४ ॥  
 परमात्मपदं प्रासास्त्रिजान् पितृपितामहान् । उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफलादिभिः ॥ २०५ ॥  
 आपोपासकवेदोक्तमन्त्रोच्चारणपूर्वकम् । दानादिसक्क्रियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥  
 नित्यमिष्टेन्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिताः । लौकान्तिकाश्च भूत्वामरद्विजा ध्वस्तकल्मषाः ॥ २०७ ॥

करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं । इसलिए ही लोक और शास्त्रोंमें इन्द्रके शतक्रतु, शतमख और शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं ॥ १९४-१९५ ॥ यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये । यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधोगति होना चाहिये—उन्हें नरक जाना चाहिये ॥ १९६ ॥ कदाचित् आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें जिसकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात् सबको वितरण किया जाता है और उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान देना और पूजा करना है उसकी सार्थकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो अर्थ आपने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं । यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा ही है तो फिर धातुपाठमें जहाँ धातुओंके अर्थ बतलाये हैं वहाँ यजधातुका अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र 'यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु' अर्थात् यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण और दान देना इतने अर्थोंमें आती है । यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता । कदाचित् आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है तो आर्य पुरुष प्राणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? तो आपका यह कहना अशिक्षित अथवा मूर्खका लक्षण है—बिह्व है । क्योंकि आर्य और अनार्यके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥ १९७-२०० ॥ इस कर्मभूमि रूपी जगत्के आदिमें होनेवाले परमब्रह्म श्रीवृषभदेव तीर्थकरके द्वारा कहे हुए वेदमें जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधाग्नि, कामाग्नि और उदराग्नि ये तीन अग्नियाँ बतलाई गई हैं । इनमें क्षमा वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ देनेवाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रेष्ठ द्विज वनमें निवास करते हैं वे आत्मयज्ञकर इष्ट अर्थको देनेवाली अष्टम पृथिवी—मोक्ष स्थानको प्राप्त होते हैं ॥ २०१-२०३ ॥ इसके सिवाय तीर्थकर गणधर तथा अन्य केवलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अभिष्णुमार इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उरामोत्तम क्रियाओंको करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको उद्देशकर ऋषिप्रणीत वेदमें कहे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा आहुति दी जाती है वह दूसरा आर्ष यज्ञ कहलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि

१ श्रुतिः ल० । २ इष्यते म०, ल० । ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोः क्रमपरिवर्तो विद्यते ।  
 ४ स्थित्वार्ष ल० । ५ अनगाराः ।

द्वितीय<sup>१</sup> ज्ञानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन कर्तृणां तीर्थदेशिनाम् ॥ २०८ ॥  
 पञ्चकल्याणभेदेषु<sup>२</sup> देवयज्ञविधानतः । चित्तपुण्यफलं मुक्त्वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धनाम् ॥ २०९ ॥  
 यागोऽयमृषिभिः प्रोक्तो यत्यगारिद्वयाश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्वात्स्यात्परम्परया परः ॥ २१० ॥  
 एवं परम्परायातदेव<sup>३</sup> यज्ञविधिष्विह । द्विलोकहितकृत्येषु वर्तमानेषु सन्ततम् ॥ २११ ॥  
 मुनिसुव्रततीर्थेशसन्ताने सगरद्विषः । महाकालासुरो हिंसायज्ञमज्ञोऽन्वशादमुम् ॥ २१२ ॥  
 कथं तदिति चेदस्मिन् भारते चारणादिके । युगले नगरे राजाऽजनि नाम्ना सुयोधनः ॥ २१३ ॥  
 देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुलसाऽनयोः । तस्याः स्वयंवरार्थेन दूतोक्त्या पुरमागते ॥ २१४ ॥  
 महीशमण्डले साकेतेशिनं सगराह्वयम् । तत्रागन्तुं समुद्युक्तमन्यदा<sup>४</sup> स्वशिरोरुहाम् ॥ २१५ ॥  
 कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैलोपलेपिना । निविद्य विमुखं याते विलोक्य कुशला तदा ॥ २१६ ॥  
 धात्री मन्दोदरी नाम तमिवा पलितं नवम् । पवित्रं द्रव्यलाभं ते वदतीत्यत्यबुद्धधत् ॥ २१७ ॥  
 तत्रैव सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्यभूत्ताम् । पराङ्मुखी सा त्वामेव सुलसामिषलप्यलम् ॥ २१८ ॥  
 यथा तथाहं कर्तास्मि कौशलेनेत्यभाषत । तद्वचःश्रवणात्प्रीतः साकेतनगराधिपः ॥ २१९ ॥  
 चतुरङ्गलेनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केषुचित्तत्र<sup>५</sup> यातेषु सुलसाऽन्तिके ॥ २२० ॥  
 मन्दोदर्याः कुलं रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयो विभवो बन्धुः सम्पदन्ये च ये स्तुताः ॥ २२१ ॥  
 गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीत्तस्मिन्नासंजिताशया ॥ २२२ ॥

माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त पापोंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०४-२०७ ॥ दूसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्र आदिके भेदसे अथवा तीर्थकरोंके पञ्च कल्याणकोंके भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ अर्थात् पूजन करते हैं वे पुण्यका सञ्चय करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम क्रमसे सिद्ध अवस्था—मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०८-२०९ ॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थके आश्रमसे दो प्रकारका निरूपण किया है इनमेंसे पहला मोक्षका साक्षात् कारण है और दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है ॥ २१० ॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आई है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरन्तर विद्यमान रहती है ॥ २११ ॥ किन्तु श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें सगर राजासे द्वेष रखनेवाला एक महाकाल नामका असुर हुआ। उसी अज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है ॥ २१२ ॥ महाकालने ऐसा क्यों किया। यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये। इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें सुयोधन नामका राजा राज्य करता था ॥ २१३ ॥ उसकी पहरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नामकी पुत्री थी। उसके स्वयंवरके लिए दूतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमें आया था। अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानेके लिए उद्यत था परन्तु उसके बालोंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे, उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंवरमें जानेसे विमुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ। राजा सगरकी एक मन्दोदरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है और तुम्हें किसी पवित्र वस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी वहाँ आ गया और कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओंसे विमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेगी उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दूँगा। मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २१४-२१६ ॥ वह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और कुछ दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आई थी। उसने सुलसाके पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य

शतक्रतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुताः<sup>१</sup> । प्रादुर्भूताः प्रसिद्धास्ते लोकेषु समयेषु च ॥ १९५ ॥  
 हिंसार्थो यज्ञशब्दश्चेत्कर्तुर्नारकी गतिः । प्रयाति सोऽपि चेत्स्वर्गं विहिंसानामधोगतिः ॥ १९६ ॥  
 तव स्यादित्यभिप्रायो हिंस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां पूज्यत्वाद्यज्ञ इत्ययम् ॥ १९७ ॥  
 वर्तते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । पृतस्त्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिन्नेष इत्यपि ॥ १९८ ॥  
 हिंसायामिति धात्वर्थपाठे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थो यदि प्राणवधात्मकम् ॥ १९९ ॥  
 यज्ञं कथं चरन्त्यार्या इत्यशिक्षितलक्षणम् । आर्षानार्षविकल्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥  
<sup>३</sup>तीर्थेशा जगदाद्येन परमब्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषड्व्यभेदे याथात्म्यदेशने ॥ २०१ ॥  
 त्रयोऽग्नयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराग्नयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिर्वने ॥ २०२ ॥  
 स्थित्व<sup>४</sup>पियतिमुन्यस्त<sup>५</sup>शरणाः परमद्विजाः । इत्यात्मयज्ञमिष्टार्थामष्टमीमवनीं ययुः ॥ २०३ ॥  
 तथा तीर्थगणाधीशशेषकेवलसिद्धयुः । संस्कारमहिताग्नीन्द्रमुकुटोत्थामिषु त्रिषु ॥ २०४ ॥  
 परमात्मपदं प्रासाञ्जिजान् पितृपितामहान् । उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफलादिभिः ॥ २०५ ॥  
 आपोपासकवेदोक्तमन्त्रोच्चारणपूर्वकम् । दानादिसक्क्रियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥  
 नित्यमिष्टेन्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिताः । लौकान्तिकाश्च भूत्वामरद्विजा ध्वस्तकल्मषाः ॥ २०७ ॥

करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं । इसलिए ही लोक और शास्त्रोंमें इन्द्रके शतक्रतु शतमख और शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं ॥ १९४-१९५ ॥ यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये । यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधोगति होना चाहिये—उन्हें नरक जाना चाहिये ॥ १९६ ॥ कदाचित् आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें जिसकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात् सबको वितरण किया जाता है और उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान देना और पूजा करना है उसकी सार्थकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो अर्थ आपने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं । यदि यज्ञ शब्दक अर्थ हिंसा ही है तो फिर धातुपाठमें जहाँ धातुओंके अर्थ बतलाये हैं वहाँ यजधातुका अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र 'यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु' अर्थात् यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण और दान देना इतने अर्थोंमें आती है । यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता । कदाचित् आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है तो आर्य पुरुष प्राणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? तो आपका यह कहना अशिक्षित अथवा मूर्खका लक्षण है—चिह्न है । क्योंकि आर्य और अनार्यके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥ १९७-२०० ॥ इस कर्मभूमि रूपी जगत्के आदिमें होनेवाले परमब्रह्म श्रीवृषभदेव तीर्थकरके द्वारा कहे हुए वेदमें जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधाग्नि, कामाग्नि और उद्राग्नि ये तीन अग्नियाँ बतलाई गई हैं । इनमें क्षमा वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ देनेवाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रेष्ठ द्विज वनमें निवास करते हैं वे आत्मयज्ञकर इष्ट अर्थको देनेवाली अष्टम पृथिवी—मोक्ष स्थानको प्राप्त होते हैं ॥ २०१-२०३ ॥ इसके सिवाय तीर्थकर गणधर तथा अन्य केवलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निकुमार इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाओंको करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको उद्देशकर ऋषिप्रणीत वेदमें कहे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा आहुति दी जाती है वह दूसरा आर्ष यज्ञ कहलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि

१ श्रुतिः ल० । २ इष्यते म०, ल० । ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोः क्रमपरिवर्तो विद्यते ।

४ स्थित्वार्ष ल० । ५ अनगाराः ।

द्वितीय<sup>१</sup> ज्ञानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन कर्तृणां तीर्थदेशिनाम् ॥ २०८ ॥  
 पञ्चकल्याणभेदेपु<sup>२</sup> देवयज्ञविधानतः । चित्तपुण्यफलं मुक्त्वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम् ॥ २०९ ॥  
 यागोऽयमृषिभिः प्रोक्तो यत्नगारिद्वयाश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्यात्स्यात्परम्परया परः ॥ २१० ॥  
 एवं परम्परयातदेव<sup>३</sup> यज्ञविधिष्विह । द्विलोकहितकृत्येषु वर्तमानेषु सन्ततम् ॥ २११ ॥  
 मुनिसुव्रततीर्थेशसन्ताने सगरद्विषः । महाकालासुरो हिंसायज्ञमज्ञोऽन्वशादमुम् ॥ २१२ ॥  
 कथं तदिति चेदस्मिन् भारते चारणादिके । युगले नगरे राजाऽजनि नाम्ना सुयोधनः ॥ २१३ ॥  
 देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुलसाऽनयोः । तस्याः स्वयंवरार्थेन दूतोक्त्या पुरमागते ॥ २१४ ॥  
 महीशमण्डले साकेतेशिनं सगराङ्गयम् । तत्रागन्तुं ससुद्युक्तमन्यदा<sup>४</sup> स्वशिरोरुहाम् ॥ २१५ ॥  
 कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैलोपलेपिना । निविद्य विमुखं याते विलोक्य कुशला तदा ॥ २१६ ॥  
 धात्री मन्दोदरी नाम तमित्वा पलितं नवम् । पवित्रं द्रव्यलाभं ते वदतीत्यत्यवृद्धयत् ॥ २१७ ॥  
 तत्रैव सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्यभूभृताम् । पराङ्मुखी सा त्वामेव सुलसामिलपत्यलम् ॥ २१८ ॥  
 यथा तथाहं कर्तास्मि कौशलेनेत्यभाषत । तद्वचःश्रवणात्प्रीतः साकेतनगराधिपः ॥ २१९ ॥  
 चतुरङ्गवलेनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केषुचित्तत्र<sup>५</sup> यातेषु सुलसाऽन्तिके ॥ २२० ॥  
 मन्दोदर्याः कुलं रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयो विभवो बन्धुः सम्पदन्ये च ये स्तुताः ॥ २२१ ॥  
 गुणा वरस्य तेऽयांभ्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीत्तस्मिन्नासंजिताशया ॥ २२२ ॥

माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त पापोंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०४-२०७ ॥ दूसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्र आदिके भेदसे अथवा तीर्थकरोंके पञ्च कल्याणकोंके भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ अर्थात् पूजन करते हैं वे पुण्यका सञ्चय करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम क्रमसे सिद्ध अवस्था—मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०८-२०९ ॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थके आश्रमसे दो प्रकारका निरूपण किया है इनमेंसे पहला मोक्षका साक्षात् कारण है और दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है ॥ २१० ॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आई है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरन्तर विद्यमान रहती है ॥ २११ ॥ किन्तु श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें सगर राजासे द्वेष रखनेवाला एक महाकाल नामका असुर हुआ। उसी अज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है ॥ २१२ ॥ महाकालने ऐसा क्यों किया। यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये। इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें सुयोधन नामका राजा राज्य करता था ॥ २१३ ॥ उसकी पट्टरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नामकी पुत्री थी। उसके स्वयं-चरके लिए दूतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमें आया था। अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानेके लिए उद्यत था परन्तु उसके बालोंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे, उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंवरमें जानेसे विमुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ। राजा सगरकी एक मन्दोदरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है और तुम्हें किसी पवित्र वस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी वहाँ आ गया और कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओंसे विमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेगी उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दूँगा। मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २१४-२१६ ॥ वह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और कुछ दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आई थी। उसने सुलसाके पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य



तद्विदित्वाऽतिथिर्युक्तिमद्ब्रह्मोभिः प्रदृष्य तम् । सुरम्यविषये पोदनाधीद् बाहुबलीशिनः ॥ २२३ ॥  
 कुले महीशुजां ज्येष्ठो मद्भ्राता, तृणपिङ्गलः । तस्य सर्वयशा देवी तयोस्तुग्मधुपिङ्गलः ॥ २२४ ॥  
 सर्वैर्वरगुणैर्गण्यो नवे वयसि वर्तते । स त्वया मालया माननीयोऽद्य मदपेक्षया ॥ २२५ ॥  
 साकेतपतिना किं ते सपत्निदुःखदायिना । इत्याहैतद्ब्रह्मः सापि <sup>१</sup>सोपरोधाऽभ्युपागमत् ॥ २२६ ॥  
 तदा प्रभृति कन्यायाः समीप<sup>२</sup>गमनादिकम् । उपायेनातिथिर्देवी मन्दोदर्या न्यवारयत् ॥ २२७ ॥  
 धात्री च प्रस्तुतार्थस्य विधातमवदद्विभोः । नृपोऽपि मन्त्रिणं प्राह यदस्माभिरभीप्सितम् ॥ २२८ ॥  
 तत्त्वया सर्वथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेत्य तत् । वरस्य लक्षणं शस्तमप्रशस्तं च वर्णयते ॥ २२९ ॥  
 येन तादृशवधं ग्रन्थं समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरविधानार्थं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥  
<sup>३</sup>मञ्जूषायां विनिश्चिष्य तदुद्यानवनान्तरे । धरातिरोहितं कृत्वा न्यधादविदितं परैः ॥ २३१ ॥  
 दिनेषु केषुचिद्यतेषुद्यानावनिशोधने । हलाप्रेणोद्धृतं मन्त्री मया द्रष्टं यदृच्छया ॥ २३२ ॥  
 पुरातनमिदं शास्त्रमित्यजानन्निव स्वयम् । विस्मितो राजपुत्राणां समाजे तदवाचयत् ॥ २३३ ॥  
 सन्भावयतु पिङ्गाक्षं कन्यावरकदम्बके । न मालया मृतिस्तस्याः सा तं चेत्समवीभवत् ॥ २३४ ॥  
 तेनापि न प्रवेष्टव्या सभांहोभीन्नपावता । प्रविष्टोप्यन्न यः पापी ततो निर्घाल्यतामिति ॥ २३५ ॥  
 तदासौ सर्वमाकर्ण्य लज्जया मधुपिङ्गलः । तद्गुणत्वात्ततो गत्वा हरिषेणगुरोस्तपः ॥ २३६ ॥

वरमें जो अन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं उन सबका व्याख्यान किया । यह सब जानकर राजकुमारी सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गई ॥ २२०-२२२ ॥ जब सुलसाकी माता अतिथिको इस बातका पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण वचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की और कहा कि सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशमें होनेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ तृणपिङ्गल नामका मेरा भाई है । उसकी रानीका नाम सर्वयशा है, उन दोनोंके मधुपिङ्गल नामका पुत्र है जो वरके योग्य समस्त गुणोंसे गणनीय हैं—प्रशंसनीय हैं और नई अवस्थामें विद्यमान हैं । आज तुम्हें मेरी अपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सन्मानित करना चाहिये ॥ २२३-२२५ ॥ सौतका दुःख देनेवाले अयोध्या पति—राजा सगरसे तुम्हें क्या प्रयोजन है ? माता अतिथिने यह वचन कहे जिन्हें सुलसाने भी उसके आग्रहवश स्वीकृत कर लिया ॥ २२५ ॥ उसी समयसे अतिथि देवीने किसी उपायसे कन्याके समीप मन्दोदरीका आना जाना आदि बिलकुल रोक दिया ॥ २२६ ॥ मन्दोदरीने अपने प्रकृत कार्यकी रूकावट राजा सगरसे कही और राजा सगरने अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिये । बुद्धिमान् मन्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक ऐसा ग्रन्थ बनवाया कि जिसमें वरके अच्छे और बुरे लक्षण बताये गये थे । उसने वह ग्रन्थ पुस्तकके रूपमें निबद्धकर एक सन्दूककीमें रक्खा और वह सन्दूककी उसी नगर सम्बन्धी उद्यानके किसी वनमें जमीनमें छिपाकर रख दी । यह कार्य इतनी सावधानीसे किया कि किसीको इसका पता भी नहीं चला ॥ २२७-२३१ ॥ कितने ही दिन बीत जानेपर वनकी पृथिवी खोदते समय उसने हलके अग्रभागसे वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छानुसार खोदते हुए मुझे यह सन्दूककी मिली है । यह कोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ वह आश्चर्य प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता ही नहीं हो । उसने वह पुस्तक राजकुमारोंके समूहमें बचवाई । उसमें लिखा था कि कन्या और वरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद और पीली हो, मालाके द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहिये । अन्यथा कन्याकी मृत्यु हो जाती है या वर मर जाता है । इसलिए पाप हर और लज्जावाले पुरुषको सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिये । यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाय तो उसे निकाल देना चाहिये ॥ २३२-२३५ ॥ मधुपिङ्गलमें यह सब गुण विद्यमान थे अतः वह यह सब सुन लज्जावश वहाँसे बाहर चला गया और हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया ।

१ सामराषा ख० । २ समीपे गमनादिकम् म०, ल० । ३ मञ्जूषायां कुधीः शास्त्रं विनिश्चिष्य वनान्तरे ख०, म० ।

प्रपञ्चस्तद्विदित्वा<sup>१</sup> गुमुदं सगरभूपतिः । विश्वभूश्चेष्टसंसिद्धावन्ये च कुटिलागयाः ॥ २३७ ॥  
 सन्तस्तद्बान्धवाश्चान्ये विपादमगमस्तदा । न पश्यन्त्यर्थिनः पापं वज्रनासञ्चितं महत् ॥ २३८ ॥  
 अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यष्टौ जिनेशिनाम् । तदन्तेऽभिपवं चैनां सुलसां कन्यकां चामाम् ॥ २३९ ॥  
 ज्ञातामलंकृतां शुद्धतिथिवारादिसञ्चिधौ । पुरोधाराथमारोप्य नीत्वा चारुभटावृताम् ॥ २४० ॥  
 नृपान् भद्रासनारूढान् स स्वयंवरमण्डपे । यथाक्रमं विनिर्दिश्य कुलजात्यादिभिः पृथक् ॥ २४१ ॥  
 व्यरमन् सा समासका साकेतपुरनायकम् । अकरोत्कण्ठदेशे तं मालालंकृतविग्रहम् ॥ २४२ ॥  
 अनयोरनुरूपोऽयं सङ्गमो वेधसा कृतः । इत्युक्त्वा मत्सरपेतमनुप्यनूपमण्डलम् ॥ २४३ ॥  
 कल्याणविधिपर्याप्तौ<sup>२</sup> स्थित्वा तत्रैव कानिचिन् । दिनानि सागरः श्रीमान् सुखेन सुलसान्वितः ॥ २४४ ॥  
 साकेतनगरं गत्वा भोगाननुभवन् स्थितः । मधुपिङ्गलसाधोश्च वर्तमानस्य संयमे ॥ २४५ ॥  
 पुरमेकं तनुस्थित्यै<sup>३</sup> विशतो वीक्ष्य लक्षणम् । कश्चिन्नैमित्तिको यूनः पृथ्वीराज्यार्हदेहेजैः<sup>४</sup> ॥ २४६ ॥  
 लक्षणैरेष भिक्षाशी किल किं लक्षणगमैः<sup>५</sup> । इत्यनिन्दत्तदाकर्ण्य परोऽप्येवमभापत ॥ २४७ ॥  
 एष राज्यश्रियं<sup>६</sup> भुञ्जन् मृषा सगरमन्त्रिणा । कृत्रिमागममा<sup>७</sup> दूर्य दूषितः सन् हिया तपः ॥ २४८ ॥  
 प्रपञ्चवान् गते चास्मिन् सुलसां सगरोऽग्रहीत् । इति तद्वचनं श्रुत्वा मुनिः क्रोधाग्निर्दीपितः ॥ २४९ ॥  
 जन्मान्तरे फलेनास्य तपसः सगरान्वयम् । सर्वं निर्मूलयामीति विधीः कृतनिदानकः ॥ २५० ॥  
 मृत्वासावसुरेन्द्रस्य महिषानीक आविमे । कक्षाभेदे चतुःपष्टिसहस्रासुरनायकः ॥ २५१ ॥

यह जानकर अपनी इष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायवाले अन्य मनुष्य हर्षको प्राप्त हुए ॥ २३६-२३७ ॥ मधुपिङ्गलके भाई-बन्धुओंको तथा अन्य सज्जन मनुष्योंको उस समय दुःख हुआ । देखो श्वार्थी मनुष्य दूसरोंको ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी पापको नहीं देखते हैं ॥ २३८ ॥ इधर राजा सुयोधनने आठ दिनतक जिनेन्द्र भगवान्की महापूजा की, और उसके अन्तमें अभिषेक किया । तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाको स्नान कराया, आभूषण पहिनाये, और शुद्ध तिथि वार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओंसे धिरी हुई उस कन्याको पुरोहित रथमें बैठाकर स्वयंवर-मण्डपमें ले गया ॥ २३९-२४० ॥ वहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम आसनोंपर समा-रूढ़ थे । पुरोहित उनके कुल जाति आदिका पृथक् पृथक् क्रम पूर्वक निर्देश करने लगा परन्तु सुलसा अयोध्याके राजा सगरमें आसक्त थी अतः उन सब राजाओंको छोड़ती हुई आगे बढ़ती गई और सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर मालासे अलंकृत किया ॥ २४१-२४२ ॥ 'इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया है' यह कहकर वहाँ जो राजा ईर्ष्या रहित थे वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए ॥ २४३ ॥ विवाहकी विधि समाप्त होनेपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर सुलसाके साथ वहींपर कुछ दिनतक सुखसे रहा ॥ २४४ ॥ तदनन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा । इधर मधुपिङ्गल साधु-संयम धारण कर रहे थे । एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमें गये थे । वहाँ कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि 'इस युवाके चिह्न तो पृथिवीका राज्य करनेके योग्य हैं परन्तु यह भिक्षा भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यर्थ हैं' । इस प्रकार उस निमित्तज्ञानीने लक्ष्णशास्त्र—सामुद्रिक शास्त्रकी निन्दा की । उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था वह कहने लगा कि 'यह तो राज्यलक्ष्मीका ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने भूठ भूठ ही कृतिमशास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लज्जावश तप धारण कर लिया । इसके चले जानेपर सगरने सुलसाको स्वीकृत कर लिया' । उस निमित्तज्ञानीके वचन सुनकर मधुपिङ्गल मुनि क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो गये ॥ २४५-२४६ ॥ मैं इस तपके फलसे दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशको निर्मूल करूँगा' ऐसा उन बुद्धिहीन मधुपिङ्गल मुनिने

१ विदित्वागात् ख०, म० । विदित्वापु-ल० । २ पर्याप्तो ल० । ३ देहेजः ब० । ४-गमे ख० । ५ श्रियो ग० । ६-माकर्ण्य ल० ।-माकर्ण्य म० ।

महाकालोऽभवत्तत्र देवैरावेष्टितो निजैः । देवलोकमिमं केन प्राप्तोऽहमिति संस्मरन् ॥ २५२ ॥  
 ज्ञात्वा विभङ्गज्ञानोपयोगेन प्राक्ने भवे । प्रवृत्तमखिलं पापी कोपाविष्कृतचेतसा ॥ २५३ ॥  
 तस्मिन् मन्त्रिणि भूपे च रूढवैरोऽपि तौ तदा । अनिच्छन् हन्तुमत्युग्रं सुचिकीर्षुरहं तयोः ॥ २५४ ॥  
 तदुपायसहायांश्च सञ्चिन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्त्यन् महत्पापमाल्मनो धिग्बिभूढताम् ॥ २५५ ॥  
 इदं प्रकृतमत्रान्यत्तदभिप्रायसाधनम् । द्वीपेऽत्र भरते देशे धवले स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥  
 पुरं विश्वावसुस्तस्य पालको हरिवंशजः । देव्यस्य श्रीमती नाम्ना वसुरासीत्सुतोऽनयोः ॥ २५७ ॥  
 तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः सर्वशास्त्रविशारदः । अभूत्क्षीरकदम्बाख्यो विख्यातोऽध्यापकोत्तमः ॥ २५८ ॥  
 'समीपे तस्य तत्सूनुः पर्वतोऽन्यश्च नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुग्वसुश्च महीपतेः ॥ २५९ ॥  
 एते त्रयोऽपि विद्यानां पारमात्स्य पर्वतः । तेष्वधीविपरीतार्थग्राहीमोहविपाकतः ॥ २६० ॥  
 शेषौ यथोपदिष्टार्थाहिणौ ते त्रयोऽप्यगुः । वनं दर्भादिकं चेतुं सोपाध्यायाः कदाचन ॥ २६१ ॥  
 गुरुः श्रुतधरो नाम तत्राचलशिलातले । स्थितो मुनित्रयं तस्मात्कृत्वाष्टाङ्गनिमित्तकम् ॥ २६२ ॥  
 तत्समाप्तौ स्तुतिं कृत्वा सुस्थितं तन्निरीक्ष्य सः । तन्नैःपुण्यपरीक्षार्थं समगृच्छन्मुनीश्वरः ॥ २६३ ॥  
 पठच्छात्रत्रयस्यास्य नाम किं कस्य किं कुलम् । को भावः का गतिः प्रान्ते भवद्भिः कथ्यतामिति ॥ २६४ ॥  
 तेष्वेकोऽभाषतात्मज्ञः शृण्वित्यस्मत्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूनुः तीव्ररागादिदूषितः ॥ २६५ ॥

निदान कर लिया । अन्तमे मरकर वे असुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहिली कक्षामें चौंसठ हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ । वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय देवोंने घेर लिया । मैं इस देव लोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ । जब वह इस बातका स्मरण करने लगा तो उसे विभङ्गावधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्वभवका सब समाचार याद आ गया । याद आते ही उस पापीका चित्त क्रोधसे भर गया । मन्त्री और राजाके ऊपर उसका वैर जम गया । यद्यपि उन दोनोंपर उसका वैर जमा हुआ था तथापि वह उन्हें जानसे नहीं मारना चाहता था, उसके बदले वह उनसे कोई भयङ्कर पाप करवाना चाहता था ॥ २५०-२५४ ॥ वह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहायकोंका विचार करता हुआ पृथिवीपर आया परन्तु उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पापका सञ्चय होता है । आचार्य कहते हैं कि ऐसी मूढ़ताके लिए धिक्कार हो ॥ २५५ ॥ उधर वह अपने कार्यके योग्य उपाय और सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायको सिद्ध करनेवाली दूसरी घटना घटित हुई जो इस प्रकार है । इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके धवल देशमें एक स्वस्तिकावती नामका नगर है । हरिवंशमें उत्पन्न हुआ राजा विश्वावसु उसका पालन करता था । इसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था । उन दोनोंके वसु नामका पुत्र था ॥ २५६-२५७ ॥ उसी नगरमें एक क्षीरकदम्ब नामका पूज्य ब्राह्मण रहता था । वह समस्त शास्त्रोंका विद्वान् था और प्रसिद्ध श्रेष्ठ अध्यापक था ॥ २५८ ॥ उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देशसे आया हुआ नारद और राजाका पुत्र वसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥ २५९ ॥ ये तीनों ही छात्र विद्याओंके पारको प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पर्वत निर्बुद्धि था, वह मोहके उदयसे सदा विपरीत अर्थ ग्रहण करता था । बाकी दो छात्र, पदार्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही ग्रहण करते थे । किसी एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए वनमें गये थे ॥ २६०-२६१ ॥ वहाँ एक पर्वतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थे । अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरुसे अष्टाङ्गनिमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे । जब अष्टाङ्गनिमित्तज्ञानका अध्ययन पूर्ण हो गया तब वे तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बैठ गये । उन्हें बैठा देखकर श्रुतधर मुनिराजने उनकी चतुराईकी परीक्षा करनेके लिए पूछा कि 'जो ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्या नाम है ? क्या कुल है ? क्या अभिप्राय है ? और अन्तमें किसकी क्या गति होगी ? यह आप लोग कहें ॥ २६२-२६४ ॥ उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे । वे कहने लगे कि सुनिये, यह जो राजाका पुत्र वसु

हिंसाधर्मं विनिश्चित्य <sup>१</sup>नरकावासमेव्यनि । <sup>२</sup>पुरोऽन्नवीदयं मध्यस्थितो ब्राह्मणपुत्रकः ॥२६६॥  
 पर्वताख्यो विधीः क्रूरो महाकालोपदेशानात् । पठित्वाथर्वणं पापशास्त्रं दुर्मागदेशकः ॥२६७॥  
 हिंसैव धर्मं इत्यज्ञो रौद्रध्यानपरायणः । बहूँस्त्र प्रवत्यास्मिन् नरकं यास्यतीत्यतः ॥२६८॥  
 वृतीयोऽपि ततोऽवादीदेव पश्चादवस्थितः । नारदाख्यो द्विजो धीमान् धर्मध्यानपरायणः ॥२६९॥  
 अहिंसालक्षणं धर्ममाश्रितानामुदाहरन् । पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भूत्वा परिग्रहम् ॥२७०॥  
 परित्यज्य तपः प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेव्यति । इत्येवं तैस्त्रिभिः प्रोक्तं श्रुत्वा सम्यग्मयोदितम् ॥२७१॥  
 सोपदेशं धृतं सर्वैरित्यस्तावीन्सुनिश्च तान् । सर्वमेतदुपाध्यायः प्रत्यासन्नद्रुमाश्रयः ॥२७२॥  
 प्रणिधानादाकर्ण्य तदेतद्विधिचेष्टितम् । एतयोरशुभं धिगिधक् किं मयात्र विधीयते ॥२७३॥  
 विचिन्त्येति यतीन् भक्त्या तत्स्य एवाभिवन्द्य तान् । वैमनस्येन तैश्च्छात्रैर्नगरं प्राविशत् समम् ॥२७४॥  
 शास्त्रबालत्वयोरेकवत्सरे परिपूरणे । वसोः पिता स्वयं पट्टं बध्वा प्रायात्तपोवनम् ॥२७५॥  
 वसुः निष्कण्टकं पृथ्वीं पालयन् हेलयान्यदा । वनं विहर्तुमभ्येत्य पयोधरपथाद् द्विजान् ॥२७६॥  
 प्रस्रख्य पतितान् वीक्ष्य विस्मयार्पादिति खाद् द्रुतम् । पततां हेतुनावश्यं भवितव्यमिति स्फुटम् ॥२७७॥  
 मत्वाकृष्यधनुर्बाणममुच्चरत्प्रदेशविन् । स्वलिन्वा <sup>३</sup>पतितं तस्मात्तं समीक्ष्य महोपतिः ॥२७८॥  
 तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा रथिकेन सहास्पृशत् । आकाशस्फटिकस्तम्भं विज्ञायाविदिनं परेः ॥२७९॥

हमारे पास बैठा हुआ है वह तीव्र रागादिदूषित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चयकर नरक जावेगा । तदनन्तर वीचमें बैठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ब्राह्मणका लड़का है इसका पर्वत नाम है, यह निर्बुद्धि है, क्रूर है, यह महाकालके उपदेशसे अथर्ववेद नामक पापप्रवर्तक शास्त्रका अध्ययन-कर खोटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिंसाको ही धर्म समझता है, निरन्तर रौद्रध्यानमें तत्पर रहता है और बहुत लोगोंको उसी मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः नरक जावेगा ॥ २६५-२६६ ॥ तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बैठा है इसका नारद नाम है, यह जातिका ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंको अहिंसारूप धर्मका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा और अन्तमें परिग्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अन्तिम अनुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा । इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लोगोंने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक ग्रहण किया है ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोंकी स्तुति की । इधर एक वृक्षके आश्रयमें बैठा हुआ क्षीरकदम्ब उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था । सुनकर वह विचारने लगा कि विधिकी लीला बड़ी ही विचित्र है, देखो, इन दोनोंकी—पर्वत और वसुकी अशुभगति होनेवाली है, इनके अशुभ कर्मको धिक्कार हो, धिक्कार हो, मैं इस विषयमें कर ही क्या सकता हूँ ? ॥ २६६-२७३ ॥ ऐसा विचारकर उसने उन मुनियोंको वहीं वृक्षके नीचे बैठे बैठे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने नगरमें आ गया ॥ २७४ ॥ एक वर्षके बाद शास्त्राध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण होनेपर वसुके पिता विश्वावसु, वसुको राज्यपट्ट 'वाँधकर स्वयं तपोवनके लिए चले गये ॥ २७५ ॥ इधर वसु पृथिवीका अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा । किसी एक दिन वह विहार करनेके लिए वनमें गया था । वहीं क्या देखता है कि बहुतसे पक्षी आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं । यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । वह विचार करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्षी नीचे गिर रहे हैं इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिये ॥ २७६-२७७ ॥ यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुष खींचकर एक वाण छोड़ा वह वाण भी वहाँ टकराकर नीचे गिर पड़ा । यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया और सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पर्श किया । स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकाशस्फटिकका स्तम्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रङ्गसे इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरेको

आनाय्य तेन निर्माप्य पृथुपादचतुष्टयम् । तस्मिन्हासनमारुह्य सेव्यमानो नृपादिभिः ॥२८०॥  
 वसुः सत्यस्य माहात्म्यास्थितः खे सिंहविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनावोषितोन्नतिः ॥२८१॥  
 तस्यावेवं प्रयात्यस्य काले पर्वतनारदौ । समित्पुष्पार्थमभ्येत्य वनं नद्याः प्रवाहजम् ॥२८२॥  
 जलं पीत्वा मयूराणां गतानां मार्गदर्शनात् । बभाषे नारदस्तत्र हे पर्वत शिखावलः ॥२८३॥  
 तेष्वेकोऽस्ति स्त्रियः ससैवेति तच्छ्रवणादसौ । मृषेत्यसोढा चित्तोव व्यधात् पणितबन्धनम् ॥२८४॥  
 १ गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित् सद्भूतं नारदोदितम् । विदित्वा विस्मयं सोऽगान्मनागस्मात्पुरोगतः ॥२८५॥  
 १ करेणुमार्गमालोक्य सस्मितं नारदोऽवदत् । अन्धवामेक्षणा हस्तिवशैकात्राधुना गता ॥२८६॥  
 अन्धसर्पविलायानमिव ते पूर्वभाषितम् । आसीद्यादृच्छिकं सत्यमिदं तु परिहास्यताम् ॥२८७॥  
 प्रयाति तव विज्ञानं मया विदितमस्ति किम् । इति स्मितं स सासूर्यं चित्ते विस्मयमाप्तवान् ॥२८८॥  
 तमसत्यं पुनः कर्तुं करिणीगमनानुगः । १ पुरोऽन्तर्नारदोद्दिष्टमुपलभ्य तथैव तत् ॥२८९॥  
 सशोको गृहमागत्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥  
 नावोचच्छास्त्रयाथात्म्यमस्ति मय्यस्य नादरः ॥ इति पुत्रवचस्तस्या हृदयं निशितास्त्रवत् ॥२९१॥  
 विदार्य प्राविशत्यायाद्विपरीतावमर्शनात् । ब्राह्मणी तद्वचश्चित्तेनावधार्यं श्रुचं गता ॥२९२॥  
 कृत्वा स्नानाग्निहोत्रादि भुक्त्वा स्वब्राह्मणे स्थिते । अभवीत् पर्वतप्रोक्तं तन्निशम्य विदां वरः ॥२९३॥  
 निर्विशेषोपदेशोऽहं सर्वेषां पुरुषं प्रति । विभिन्ना बुद्ध्यस्तस्माद्धारदः कुशलोऽभवत् ॥२९४॥

आजतक उसका बोध नहीं हुआ था ॥ २७८-२७९ ॥ राजा वसुने उस स्तम्भको घर लाकर उसके चार बड़े बड़े पायों, बनवाये और उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर आरूढ़ हुआ । उस समय अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे । लोग बड़े आश्चर्यसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कहते थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्म्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें बैठता है ॥२८०-२८१॥ इस प्रकार अधर राजा वसुका समय बीत रहा था उधर एक दिन पर्वत और नारद, समिधा तथा पुष्प लानेके लिए वनमें गये थे । वहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदीके प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । उनका मार्ग देखकर नारदने पर्वतसे कहा कि हे पर्वत ! ये जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और बाकी सात स्त्रियाँ हैं । नारदकी बात सुनकर पर्वतने कहा कि तुम्हारा कहना भूठ है, उसे मनमें यह बात सख्त नहीं हुई अतः उसने कोई शर्त बाँध ली ॥ २८२-२८४ ॥ तदनन्तर कुछ आगे जाकर जब उसे इस बातका पता चला कि नारदका कहा सच है तो वह आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वे दोनों वहाँसे कुछ और आगे बढ़े तो नारद हाथियोंका मार्ग देखकर मुसकराता हुआ बोला कि यहाँसे जो अभी हस्तिनी गई है उसका बाँया नेत्र अन्धा है ॥ २८५-२८६ ॥ पर्वतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अन्धे साँपका बिलमें पहुँच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान हँसीको प्राप्त होता है । मैं क्या समझूँ ? इस तरह हँसते हुए ईर्ष्याके साथ उसने कहा और चित्तमें आश्चर्य प्राप्त किया ॥ २८७-२८८ ॥ तदनन्तर नारदको भूठा सिद्ध करनेके लिए वह हस्तिनीके मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगरतक पहुँचनेके पहले ही उसे इस बातका पता चल गया कि नारदने जो कहा था वह सच है ॥ २८९ ॥ अब तो पर्वतके शोकका पार नहीं रहा । वह शोक करता हुआ बड़े आश्चर्यसे घर आया और नारदकी कही हुई सब बात मातासे कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदको शास्त्रकी यथार्थ बात बतलाते हैं उस प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं । ये सदा मेरा अनादर करते हैं । इसतरह पापोदयसे विपरीत विचार करनेके कारण पुत्रके वचन, तीर्णशास्त्रके समान उसके हृदयको चीरकर भीतर घुल गये । ब्राह्मणी पुत्रके वचनोंका विचारकर हृदयसे शोक करने लगी ॥ २९०-२९२ ॥ जब ब्राह्मण क्षीरकदम्ब स्नान, अग्नि होत्र तथा भोजन करके बैठा तब ब्राह्मणीने पर्वतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनाई । उसे

१ इति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठः । ल० पुस्तके तु भ्रष्टो विपर्यस्तो वा । २ पुरा तन्नारदोद्दिष्ट ल०, ग० । पुरोऽन्तर्नारदोद्दिष्ट म० । पुरोन्तर्नारदादिष्ट ल० ।

प्रकृत्या स्वस्तुतो मन्दो नासूयास्मिन् विधीयताम्<sup>१</sup> । इति तत्प्रत्ययं कर्तुं नारदं सुतसन्निधौ ॥२९५॥  
 वद वेन वने भ्राम्यन्पर्वतस्योदयादयः । विस्मयं बह्विति प्राह सोऽपि सप्रश्रयोऽभ्यघात् ॥२९६॥  
 वनेऽहं पर्वतेनामा गच्छन्नर्मकथारतः<sup>२</sup> । शिखिनां पीतवारीणां सद्यो नद्या निवर्तने ॥२९७॥  
 स्वचन्द्रककलापास्भोमध्यमज्जनगौरवात् । भीत्वा ज्यावृत्य विमुखं कृतपश्चात्पदस्थितिः ॥२९८॥  
 कलापी गतवानेकः शेषाश्च तज्जलादिताः<sup>३</sup> । पत्रभागं विधूयागुस्तं दृष्ट्वा समभापिपि ॥२९९॥  
 पुमानेकः स्त्रियश्चान्या इति मन्वानुमानतः । ततो वनान्तरान्किञ्चिदागत्य पुरसन्निधौ ॥३००॥  
 तथा करिष्याः पादान्यां पश्चिमाभ्यां प्रयाणके । स्वमूत्रघट्टनाज्ञागे दक्षिणे तरुवीरुघाम् ॥३०१॥  
 भङ्गेन मार्गात्प्रच्युत्य श्रमादारूढयोषितः । शीतच्छायाभिलापेण सुसायाः पुलिनस्थले ॥३०२॥  
 उदरस्पर्शमार्गेण दशया गुल्मशक्तया । करिणीश्रितगेहाप्रसितोद्यत्केतनेन च ॥३०३॥  
 मया तदुक्तमित्येतद्ब्रचनाद् द्विजसत्तमः । निजापराधभावस्याभावमाविरभावयत् ॥३०४॥  
 तदा पर्वतमातापि प्रसन्नाभूत्पुनश्च सः । तस्यास्तन्मुनिवाक्यार्थसम्प्रत्ययविधित्सुकः ॥३०५॥  
 स्वपुत्रछात्रयोर्भावंपरीक्षायै द्विजाप्रणीः । स्थित्वा सजानिरेकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥३०६॥  
 देशेऽर्चिता परादृश्ये गन्धमाल्यादिमङ्गलैः । कर्णच्छेदं<sup>४</sup> विधायैतावद्यैवानयतं युवाम् ॥३०७॥  
 इत्यवादीरातः पापी पर्वतोऽस्ति न कश्चन । वनेऽस्मिन्निति विच्छिद्य कर्णौ पितरमागतः ॥३०८॥

सुनकर ज्ञानियोमे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं ता सबका एकसा-उपदेश देता हूँ परन्तु प्रत्येक पुरुषकी बुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद झुराल हो गया है। तुम्हारा पुत्र स्वभावसे ही मन्द है, इसलिए नारदपर व्यर्थ ही ईर्ष्या न करो। यह कहकर उसने विश्वास दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कहा कि कहो, आज वनमें घूमते हुए तुमने पर्वतका क्या उपद्रव किया था? गुरुकी बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्चर्य है? यह कहते हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मैं पर्वतके साथ विनोद-वार्ता करता हुआ वनमें जा रहा था। वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं ॥ २६३-२६७ ॥ उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके भयसे अपने पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लौटा था और बाकी जलसे भीगे हुए अपने पङ्क फटकारकर जा रहे थे। यह देख मैंने अनुमान द्वारा पर्वतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी स्त्रियाँ हैं। इसके बाद वनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी है। उसके दाहिनी ओरके वृक्ष और लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी बाँई आँखसे कानी है। उसपर बैठी हुई स्त्री मार्गकी थकावटसे उतरकर शीतल छायाकी इच्छासे नदीके किनारे सोई थी वहाँ उसके उदरके स्पर्शसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने जानता था कि यह स्त्री गर्भिणी है। उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी झाड़ीमें उलझकर लग गया था इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहने थी। जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरके अग्रभागपर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इसप्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी सब बातें कही थीं। नारदकी ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने ब्राह्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है—मैंने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ॥ २६८-३०४ ॥ उस समय पर्वतकी माता भी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी। तदनन्तर उस ब्राह्मणने पर्वतकी माताको उन मुनियोंके वचनोंका विश्वास दिलानेकी इच्छा की। वह अपने पुत्र पर्वत और विद्यार्थी नारदके भावोंकी परीक्षा करनेके लिए स्त्रीसहित एकान्तमें बैठा। उसने आटेके दो बकरे बनाकर पर्वत और नारदको सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि माङ्गलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ ॥ ३०५-३०७ ॥ तदनन्तर पापी पर्वतने सोचा कि इस वनमें कोई नहीं है इसलिए वह एक

१ विधीयते म०, ल० । २ कर्मकथारतः क०, घ० । नर्मकथान्तरम् ल० । ३ तज्जलादितं ख०, म० ।

४ विधायैना-ल० ।

त्वया पूज्य १ यथोद्दिष्टं तत्तथैव मया कृतम् । इति वीतघृणो हर्षात्स्वप्रेषणमबुधुधत् ॥३०९॥  
 नारदोऽपि वनं यातोऽदृश्यदेशोऽस्य कर्णयोः । कर्तव्यश्छेद इत्युक्तं गुरुणा चन्द्रभास्करौ ॥३१०॥  
 नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्च पश्यन्ति देवताः । सदा सन्निहिता सन्ति पक्षिणो मृगजातयः ॥३११॥  
 नैते शक्त्या निराकर्तुमित्येत्य गुरुसन्निधिम् ३ । भव्यात्माऽदृष्टदेशस्य वने केनाप्यसम्भवात् ॥३१२॥  
 नामादिचतुरर्थेषु पापापख्यातिकारण- । क्रियायामविधेयत्वाच्चाहमानीतवानिमम् ॥३१३॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा स्वसुतस्य जडात्मताम् । विचिन्त्यैकान्तवाद्युक्तं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥  
 कार्यमित्येतदेकान्तमन्तं कुमतमेव तत् । कारणानुमतं कार्यं क्वचित्क्वचिदन्यथा ॥३१५॥  
 इति स्याद्वादसन्द्दष्टं सत्यमित्यभितुष्टवान् । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निधाय बुधसत्तमः ॥३१६॥  
 हे नारद त्वमेवात्र सूक्ष्मप्रज्ञो यथार्थवित् । इतः प्रभृत्युपाध्यापपदे त्वं स्थापितो मया ॥३१७॥  
 व्याख्येयानि त्वया सर्वशास्त्राणीति प्रपूज्य तम् । प्रावर्द्धयद् गुणैरेव प्रीतिः सर्वत्र धीमताम् ॥३१८॥  
 निजाभिमुखमासीनं तनूजं चैवमब्रवीत् । विनाङ्गत्वं विवेकेन १ व्यघ्राद्धेतद्विरूपकम् ॥३१९॥  
 कार्याकार्यविवेकस्ते न श्रुतादपि विद्यते । कथं जीवसि मन्धश्चुःपरोक्षे गतधीरिति ॥३२०॥  
 एवं पित्रा सशोकेन कृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारदे बद्धवैरोऽभूत्कुधियामीदृशी गतिः ॥३२१॥  
 स कदाचिदुपाध्यायः सर्वसङ्गान् परित्यजन् । पर्वतस्तस्य माता च मन्दबुद्धी तथापि तौ ॥३२२॥

बकरेके दोनों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया और कहने लगा कि हे पूज्य ! आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है । इसप्रकार दयाहीन पर्वतने बड़े हर्षसे अपना कार्य पूर्ण करनेकी सूचना पिताको दी ॥३०८-३०९॥ नारद भी वनमें गया और सोचने लगा कि 'अदृश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना है' ऐसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य स्थान है ही कहाँ ? देखो न, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे आदि देवता सब ओरसे देख रहे हैं । पक्षी तथा हरिण आदि अनेक जङ्गली जीव सदा पास ही रह रहे हैं । ये किसी भी तरह यहाँसे दूर नहीं किये जा सकते । ऐसा विचारकर वह भव्यात्मा गुरुके पास वापिस आ गया और कहने लगा कि वनमें ऐसा स्थान मिलना असम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा हो । इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चारों पदार्थोंमें पाप तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं है इसलिए मैं इस बकराको ऐसा ही लेता आया हूँ ॥ ३१०-३१३ ॥ नारदके वचन सुनकर उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूर्खताका विचार किया और कहा कि जो एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य मानते हैं वह एकान्तवाद है और मिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत भी होता है । ऐसा जो स्याद्वादका कहना है वही सत्य है । देखो मेरे परिणाम सदा दयासे आर्द्र रहते हैं परन्तु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्दय हैं । यहाँ कारणके अनुसार कार्य कहाँ हुआ ? इस प्रकार वह श्रेष्ठ विद्वान् बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और शिष्यकी योग्यता का हृदयमें विचार कर कहने लगा कि हे नारद ! तू ही सूक्ष्मबुद्धिवाला और पदार्थको यथार्थ जाननेवाला है इसलिए आजसे लेकर मैं तुम्हे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता हूँ । आजसे तू ही समस्त शास्त्रोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह विद्वानोंकी प्रीति गुणोंसे ही होती है ॥ ३१४-३१८ ॥ नारदसे इतना कहनेके बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कहा—हे पुत्र ! तूने विवेकके बिना ही यह विरुद्ध कार्य किया है । देख, शास्त्र पढ़ने पर भी तुम्हे कार्य और अकार्यका विवेक नहीं हुआ । तू निर्बुद्धि है अतः मेरी आँखोंके ओभल होने पर कैसे जीवित रह सकेगा ? इस प्रकार शोकसे भरे हुए पिताने पर्वतको शिक्षा दी परन्तु उस मूर्ख पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ । वह उसके विपरीत नारदसे वैर रखने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्योंकी ऐसी ही दशा होती है ॥ ३१९-३२१ ॥ किसी

१ यथादिष्टं ल०, म० । २ तथा म० । ३ सन्निधौ म०, ल० । ४ विधायैतद्विरूपकम् क०, घ०, ल०, म० । विधा ह्येतद्विरूपकम् ल० ।

पालनीयौ त्वया भद्र मत्परोक्षेऽपि सर्वथा । इत्यवोचत्वसुं सोऽपि प्रीताऽस्मि त्वदनुग्रहात् ॥३२३॥  
 अनुक्तसिद्धमेतत्तु वक्तव्यं किमिदं मम । १ विधेयः संशयो नात्र पूज्यपाद यथोचितम् ॥३२४॥  
 परलोकमनुष्ठानमर्हसीति द्विजोचमम् । मनोहरकथाम्लानमालयाभ्यर्चयन्नुपः ॥३२५॥  
 उतः क्षीरकदम्बे च सम्यक् सम्प्राप्य संयमम् । प्रान्ते संन्यस्य सम्प्राप्ते<sup>२</sup> नाकिनां लोकमुत्तमम् ॥३२६॥  
 पर्वतोऽपि पितृस्थानमध्यास्याशेषशास्त्रविन् । शिक्षाणां विश्वदिक्कानां व्याख्यातुं रतिमातनोत् ॥३२७॥  
 तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि विद्वज्जनान्वितः । सूक्ष्मधीर्विहितस्थानो बभार व्याख्यया यशः ॥३२८॥  
 गच्छत्येवं तयोः काले कदाचित्साधुसंसदि । अजैर्होतव्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थप्ररूपणे ॥३२९॥  
 विवादोऽभून्महांस्तत्र विगताङ्कुरशक्तिक्म । यवबीजं त्रिवर्षस्थमजमित्यभिधीयते ॥३३०॥  
 तद्विकारेण ससाचिर्मुखे देवाचनं विदः । वदन्ति यज्ञमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ॥३३१॥  
 पर्वतोप्यजशब्देन<sup>३</sup> पशुभेदः ४ प्रकीर्तितः । यज्ञोऽग्नौ तद्विकारेण होत्रमित्यवदद्विधीः ॥३३२॥  
 ५ त्रयोर्वचनमाकर्ण्य द्विजप्रमुखसाधवः । मात्सर्यान्धारदेनैष धर्मः प्राणवधादिति ॥३३३॥  
 प्रतिष्ठापयितुं धार्यां दुरात्मा पर्वतोऽब्रवीत् । ६ पतितोऽयमयोग्योऽतः सह सम्भाषणादिभिः ॥३३४॥  
 इति हस्ततलास्फालनेन निर्मत्स्यं तं क्रुधा<sup>७</sup> । घोपयामासुरत्रैव दुर्बुद्धेरीदृशं फलम् ॥३३५॥  
 एवं बहिः कृतः सर्वैर्मानभङ्गादगाद्वनम् । तत्र ब्राह्मणवेपेण वयसा परिणामिना ॥३३६॥

एक दिन क्षीरकदम्बकने समस्त परिग्रहोंके त्याग करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा वसुसे कहा कि यह पर्वत और उसकी माता यद्यपि मन्दबुद्धि हैं तथापि हे भद्र ! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारसे पालन करना चाहिये । उत्तरमें राजा वसुने कहा कि मैं आपके अनुग्रहसे प्रसन्न हूँ । यह कार्य तो बिना कहे ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते हैं ? हे पूज्यपाद ! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिये । इस प्रकार मनोहर कथा रूपी अम्लान मालाके द्वारा राजा वसुने उस उत्तम ब्राह्मणका खूब ही सत्कार किया ॥ ३२२-३२५ ॥ तदनन्तर क्षीरकदम्बकने उत्तम संयम धारण कर लिया और अन्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्ग लोकमें जन्म प्राप्त किया ॥ ३२६ ॥

इधर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला पर्वत भी पिताके स्थान पर बैठकर सब प्रकारकी शिक्षाओंकी व्याख्या करनेमें प्रेम करने लगा ॥ ३२७ ॥ उसी नगरमें सूक्ष्म बुद्धिवाला नारद भी अनेक विद्वानोंके साथ निवास करता था और शास्त्रोंकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥ ३२८ ॥ इस प्रकार उन दोनोंका समय बीत रहा था । किसी एक दिन साधुओंकी सभामें 'अजैर्होतव्यम्' इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमें बड़ा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता था कि जिसमें अङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा तीन वर्षका पुराना जौ अज कहलाता है और उससे वनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निमें मुखमें देवताकी पूजा करना—आहुति देना यज्ञ कहलाता है । नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरुरूपद्वितिके अनुसार था परन्तु निर्बुद्धि पर्वत कहता था कि अज शब्द एक पशु विशेषका वाचक है अतः उससे वनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥ ३२९-३३२ ॥ उन दोनोंके वचन सुनकर उत्तम प्रकृति वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वतकी नारदके साथ ईर्ष्या है इसीलिए यह प्राणवधसे धर्म होता है यह बात पृथिवी पर प्रतिष्ठापित करनेके लिए कह रहा है । यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है अतः हम सब लोगोंके साथ वार्तालाप आदि करनेमें अयोग्य है ॥ ३३३-३३४ ॥ इस प्रकार सबने क्रोधवश हाथकी हथेलियोंके ताड़नसे उस पर्वतका तिरस्कार किया और घोपणा की कि दुर्बुद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है ॥ ३३५ ॥ इसप्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पर्वत मान-भङ्ग होनेसे वनमें चला गया । वहाँ महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेष रखकर भ्रमण कर रहा था । उस समय वह वृद्ध

१ विधेये ल०, म० । २ सम्प्राप्तो क०, घ० । ३ पदेन ल० । ४ प्रकीर्तिते ल० । ५ तयोर्वचन-म०, ल० । ६ पतितोऽयमयोग्यो नः क०, घ० । ७ क्रुधा क०, घ०, म० । क्रुधात् ल० ।



१ कृतान्तारोहणासन्नसोपानपदवीरिव १ । वलीरुद्रहता भूयः स्वलतेवान्धचक्षुषा ॥३३७॥  
 विरलेन शिरोजेन सितेन दधता ततम् । राजतं वा शिरस्त्राणमन्तिकान्तकजाग्रयात् ॥३३८॥  
 जराङ्गनासमासङ्ग ३ सुखाद्गामीलचक्षुषा । चलच्छिन्नकरेणैव करिणा कुपिताहिना ॥३३९॥  
 इवोर्ध्वश्वासिना राजवल्लभेनेव नाग्रतः । प्रस्फुटं पश्यता भग्नपृष्ठेनापटुभाषिणा ॥३४०॥  
 राज्ञेव योग्यदण्डेन शमेनेव तनूभृता । विश्वभूतृपकन्यासु ४ बद्धक्रोधमिवात्मनः ॥३४१॥  
 वक्तुं धारयता यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकृतम् । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३४२॥  
 महाकालेन दृष्टः सन् पर्वतः पर्वते भ्रमन् । प्रतिगम्य तमानम्य सोऽभ्यधादभिवादनम् ॥३४३॥  
 महाकालः समाश्रास्य स्वस्ति तेऽस्त्विति सादरम् । तमविज्ञातपूर्वत्वात्कुतस्त्यस्त्वं वनान्तरे ॥३४४॥  
 परिभ्रमणमेतत् ब्रूहि मे केन हेतुना । इत्यपृच्छदसौ चाह निजवृत्तान्तमादितः ॥३४५॥  
 तं निशम्य महाकालः सगरं मम वैरिणम् । निर्वशीकर्तुमेव स्यात्समर्थो मे प्रतिष्कसः ॥३४६॥  
 इति निश्चिन्त्य पापात्मा १ विप्रलम्भनपण्डितः । त्वत्पिता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥  
 १ भौमोपाध्यायसाक्षिभ्ये शास्त्राभ्यासमकुर्वहि । त्वत्पिता मे ततो विद्धि धर्मभाता तमीक्षितुम् ॥३४८॥  
 ममागमनमेतच्च वैफल्यं समपद्यत । मा भैषीः शत्रुविध्वंसे सहायस्ते भवाम्यहम् ॥३४९॥  
 इति क्षीरकदम्बकल्मेष्ठाथुनागताः स्वयम् । ७ अथर्वणगताषष्टिसहस्रप्रमिताः पृथक् ॥३५०॥

अवस्थाके रूपमें था, वह बहुत-सी बलि अर्थात् शरीरकी सिकुड़नोंको धारण कर रहा था वे सिकुड़नें  
 ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढ़ियोंका मार्ग ही हो । अन्धेकी तरह वह बार-  
 बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर विरले विरले सफेद बाल थे, वह एक सफेद रङ्गकी  
 पगड़ी धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराजके भयसे उसने चाँदीका टोप  
 ही लगा रक्खा हो, उसके नेत्र कुल्ल-कुल्ल बन्द थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वृद्धावस्था रूपी  
 स्त्रीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे ही उसके नेत्र बन्द हो रहे थे, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हाथीके  
 समान थी, वह कुल्ल साँपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रहा था, राजाके प्यारे मनुष्यके समान  
 वह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ टूटी हुई थी । वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस  
 प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता है अर्थात् सबके लिए योग्य दण्ड-सजा देता है उसी प्रकार  
 वह भी योग्य दण्डसे सहित था—अर्थात् अपने अनुकूल दण्ड-लाठी लिये हुए था, ऊपरसे इतना  
 शान्त दिखता था मानो शरीरधारी शम-शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सगर राजा और सुलसा  
 कन्याके ऊपर हमारा बैर बँधा हुआ है यह कहनेके लिए ही मानो वह तीन लड़का यज्ञोपवीत धारण  
 कर रहा था, वह अपना अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था । ऐसे महाकालने  
 पर्वत पर घूमते हुए क्षीरकदम्बकके पुत्र पर्वतको देखा । ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्वतके सम्मुख  
 जाकर उसे नमस्कार किया और पर्वतने भी उसका अभिवादन किया ॥ ३३६-३४३ ॥ महाकालने  
 आश्रासन देते हुए आदरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो । तदनन्तर अजान बनकर महाकालने  
 पर्वतसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो और इस वनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा  
 है ? पर्वतने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया । उसे सुनकर महाकालने सोचा कि  
 यह मेरे बैरी राजाको निर्वेश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साधर्मी है । ऐसा विचार कर ठगनेमें  
 चतुर पापी महाकाल पर्वतसे कहने लगा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपमन्यु  
 ने और मैंने भौम नामक उपाध्यायके पास शास्त्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म-  
 भाई हैं । उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था परन्तु खेद है कि वह निष्फल हो  
 गया । तुम डरो मत—शत्रुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ॥ ३४४-३४६ ॥ इस प्रकार उस  
 महाकालने क्षीरकदम्बकके पुत्र पर्वतके इष्ट अर्थका अनुसरण करनेवाली अथर्ववेद सम्बन्धी साठ

१ कृतान्त ल० । २ पदवीमिव ल० । ३ समास ल०, म० । ४ कान्तासु ग०, ल० । ५ प्रविलम्भन  
 म०, ल० । ६ भीमोपाध्याय ल० । ७ अथर्वण ग०, म० ।

ऋचो वेदरहस्यानीत्युत्पाद्याध्याप्य पर्वतम् । शान्तिपुण्ड्र्यभिचारात्मक्रियाः पूर्वोक्तमन्त्रणैः ॥३५१॥  
 निशिताः पवनोपेतवद्विज्वालासमाः फलम् । इष्टेरुत्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पशुहिंसनान् ॥३५२॥  
 ततः साकेतमध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदम् । हिंसायागं समारभ्य प्रभावं विदधामहे ॥३५३॥  
 इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थमात्मीयान् दितिपुत्रकान् । ताम्रान् सगरराष्ट्रस्य बाधां तीव्रज्वरादिभिः ॥३५४॥  
 कुरुध्वमिति सन्नेप्य सद्भिजस्तत्पुरं गतः । सगरं मन्त्रगर्भाशीर्वादेनालोक्य पर्वतः ॥३५५॥  
 स्वप्रभावं प्रकाशयत्य त्वद्देशविपमाशिवम् । १शममिष्यामि यज्ञेन २समन्त्रेणाविलम्बितम् ॥३५६॥  
 यज्ञाय वेधसा सृष्ट्या पशवस्तद्विहिंसनात् । न पापं पुण्यमेव ३स्यात्स्वर्गोरुसुखसाधनम् ॥३५७॥  
 इति ४प्रत्याप्य तं पापः पुनरप्येवमब्रवीत् । त्वं पशूनां सहस्राणि पण्डितं यागस्य सिद्धये ॥३५८॥  
 कुरु संग्रहमन्यच्च द्रव्यं तद्योग्यमित्यसौ । राजापि सर्ववस्तूनि तथैवास्मै समर्पयत् ॥३५९॥  
 प्रारभ्य पर्वतो यागं प्राणिनांसमन्त्रयत्तदा । महाकालः शरीरेण सह स्वर्गमुपागतः ॥३६०॥  
 इत्याकाशे विमानैस्तास्त्रीयमानानदर्शयत् । देशाशिवोपसर्गं च तदैवासौ निरस्तवान् ॥३६१॥  
 तद्दृष्ट्वा देहिनो मुग्धास्तत्प्रलम्बेन मोहिताः । तां गतिं प्रेप्तवो यागकृतिमाकाक्षयञ्चलम् ॥३६२॥  
 तद्यज्ञावसितौ जात्यं ह्यमेकं विधानतः । इयाज सुलसां देवीमपि राजाज्ञया खलः ॥३६३॥  
 प्रियकान्तावियोगोत्थशोकदावानलक्षिपा । परिप्लुप्यतन् राजा राजधानीं प्रविष्टवान् ॥३६४॥  
 शय्यातले विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिहिंसनम् । वृत्तं महदिदं धर्मः किमधर्मोऽयमित्यसौ ॥३६५॥  
 संशयामस्तथान्येद्युर्मुनिं यतिवराभिधम् । अभिवन्द्य मयारब्धं भट्टारक यथास्थितम् ॥३६६॥

हजार ऋचाएँ पृथक्-पृथक् स्वयं वनाईं । ये ऋचाएँ वेदका रहस्य बतलानेवाली थीं, उसने पर्वतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्त्रोंसे वायुके द्वारा बड़ी हुई अग्निकी ज्वालामें शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएँ की जावें तो पशुओंकी हिंसासे इष्ट फलकी प्राप्ति हो जाती है । तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर रहें और शान्ति आदि फल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें ॥ ३५०-३५३ ॥ ऐसा कहकर महाकालने वैरियोंका नाश करनेके लिए अपने क्रूर असुरोंको बुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरके देशमें तीव्र ज्वर आदिके द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो । यह कहकर असुरोंको भेजा और स्वयं पर्वतको साथ लेकर राजा सगरके नगरमें गया । वहाँ मन्त्र मिश्रित आशीर्वादके द्वारा सगरके दर्शन कर पर्वतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल हो रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा ॥ ३५४-३५६ ॥ विधाताने पशुओंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होता है ॥ ३५७ ॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार पशुओंका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थोंका संग्रह करो । राजा सगरने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएँ उसके लिए सौंप दीं ॥ ३५८-३५९ ॥ इधर पर्वतने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंको मन्त्रित करना शुरू किया—मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोंको विमानोंमें बैठाकर शरीर सहित आकाशमें जाते हुए दिखलाया और लोगोंको विश्वास दिला दिया कि ये सब पशु स्वर्ग गये हैं । उसी समय उसने देशके सब अमङ्गल और उपसर्ग दूर कर दिये ॥ ३६०-३६१ ॥ यह देख बहुतेसे भोले प्राणी उसकी प्रतारणा—मायासे मोहित हो गये और स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे ॥ ३६२ ॥ यज्ञके समाप्त होने पर उस दुष्ट पर्वतने विधि-पूर्वक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी आज्ञासे उसकी सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया ॥ ३६३ ॥ प्रिय स्त्रीके वियोगसे उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानलकी ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥ ३६४ ॥ वहाँ शय्यातल पर अपना शरीर डाल कर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियोंकी हिंसा हुई है सो यह धर्म है या अधर्म ? ॥ ३६५ ॥ ऐसा संशय करता हुआ

ब्रूहि किं कर्म पुण्यं मे पापं चेदं विचार्य तत् । इत्यवोचदसौ चाह धर्मशास्त्रबहिःकृतम् ॥३६७॥  
 एतदेव विधातारं सप्तमं प्रापयेद्विभक्तिम् । तस्याभिज्ञानमप्यस्ति दिनेऽस्मिन् सप्तमे शनिः ॥३६८॥  
 पतिष्यति ततो विद्धि सप्तमी धरणीति ते । तदुक्तं भूपतिर्मत्वा ब्राह्मणं तं न्यवेदयत् ॥३६९॥  
 तन्मृषा किमसौ वेचि नमः क्षपणकस्ततः । शङ्कास्ति चेत्तवैतस्या शान्तिरत्र विधीयते ॥३७०॥  
 इत्युक्तिभिर्मनस्तस्य सन्धार्य शिथिलीकृतम् । यज्ञं पुनस्तमारब्धं स ततः सप्तमे दिने ॥३७१॥  
 माययाऽसुरपापस्य सुलसा नभसि स्थिता । देवभावं गता प्राच्यपशुभेदपरिष्कृता ॥३७२॥  
 यागमृत्युफलेनैषा लब्धा देवगतिर्मया । तं प्रमोदं तवाख्यातुं विमानेऽहमिहागता ॥३७३॥  
 यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितरश्चेत्यभाषत । तद्वचःश्रवणाद् इष्टं प्रत्यक्षं यागमृत्युजम् ॥३७४॥  
 फलं जैनमुनेर्वाक्यमसत्यमिति भूपतिः । तीव्रहिंसानुरागेण सद्धर्मद्वेषिणोदयात् ॥३७५॥  
 सम्भूतपरिणामेन मूलोत्तरविकल्पितात् । तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टसंज्ञेशसाधनात् ॥३७६॥  
 नरकायुःप्रभृत्यष्टकर्मणां स्वोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥३७७॥  
 विभीषणशान्तिवने तत्काले पतिते रिपौ । तत्कर्मणि प्रसक्ताखिलाङ्गिभिः सगरः सह ॥३७८॥  
 रौरवेऽजनि दुष्टात्मा महाकालोऽपि तत्क्षणे । स्ववैरपवनापूरणेन गत्वा रसातलम् ॥३७९॥  
 तं दण्डयितुमुत्क्रोधस्तृतीयनरकावधौ । अन्विष्यानवलोक्यैनं विश्वभूप्रभृतिद्विषम् ॥३८०॥  
 मृत्तिप्रयोगसम्पादी ततो निर्गत्य निर्घृणः । पर्वतस्य प्रसादेन सुलसासहितः सुखम् ॥३८१॥  
 प्राप्तोऽहमिति शंसन्तं विमानेऽरिमदर्शयत् । तं दृष्ट्वा तत्परोक्षेऽत्र विश्वभूः सचिवः स्वयम् ॥३८२॥

वह यतिवर नामक मुनिके पास गया और नमस्कार कर पूछने लगा कि हे स्वामिन! मैंने जो कार्य प्रारम्भ किया है वह आपको ठीक-ठीक विदित है। विचार कर आप यह कहिये कि मेरा यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप? उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्रसे बहिष्कृत है, यह कार्य ही अपने करनेवालेको सप्तम नरक भेजेगा। उसकी पहिचान यह है कि आजसे सातवें दिन ब्रह्म गिरेगा उससे जान लेना कि तुम्हें सातवीं पृथिवी प्राप्त हुई है। मुनिराजका कहा ठीक मान कर राजाने उस ब्राह्मण-पर्वतसे यह सब बात कही ॥ ३६६-३६८ ॥ राजाकी यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह झूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है? फिर भी तुम्हें यदि शंका है तो इसकी भी शांति कर डालते हैं ॥ ३७० ॥ इस तरहके वचनोंसे राजाका मन स्थिर किया और जो यज्ञ शिथिल कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया। तदनन्तर सातवें दिन उस पापी असुरने दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें खड़ी है, पहले जो पशु होमे गये थे वे भी उसके साथ हैं। वह राजा सगरसे कह रही है कि यज्ञमें मरनेके फलसे ही मैंने यह देवगति पाई है, मैं यह सब हर्षकी बात आपको कहनेके लिए ही विमानमें बैठ कर यहाँ आई हूँ। यज्ञसे सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर उत्पन्न हुए हैं। उसके यह वचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनेका फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अतः जैन मुनिके वचन असत्य हैं। उसी समय अनुराग रखनेसे एवं सद्धर्मके साथ द्वेष करने वाले कर्मकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे उत्पन्न हुए परिणामोंसे, नरकायुको आदि लेकर आठों कर्मोंका अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एवं उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पढ़ गया। उसी समय भयङ्कर वज्रपात हुआ, वह उन सब शत्रुओं पर पड़ा और उस कार्यमें लगे हुए सब जीवोंके साथ राजा सगर मर कर रौरव नरक—सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ। अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने वैररूपी वायुके मँकोरेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानेकी अवधि तीसरे नरक तक ही थी। वहाँ तक उसने उसे खोजा परन्तु जब पता नहीं चला तब वह निर्दय वहाँसे निकला और विश्वभू मंत्री आदि शत्रुओंको मारनेका उपाय करने लगा। उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमें बैठा हुआ कह रहा है कि मैं पर्वतके

१ शङ्काचेत्तवैतस्या ल० । २ समारब्धः ल० । ३ पुरस्कृत म०, ल० । ४ फलेनैव ल० । ५ पतितौ  
 ६ तत्कर्मणि तत्कर्मप्रसक्ता ल० ।

विपयाधिपतिर्भूत्वा महामेधे कृतोद्यमः । विमानान्तर्गता देवा पितरश्च नभोऽङ्गणे ॥३८३॥  
 सर्वेषां दशिता व्यक्तं महाकालस्य मायया । महामेधस्त्वया यागो मन्त्रिन् पुण्यवना कृतः ॥३८४॥  
 इति विश्वभुवं भूपः सम्भूयास्ताविपुस्तदा । नारदस्तापसाश्चैतदाकर्ण्यैव दुरात्मना ॥३८५॥  
 १दुर्भागो द्विपतानेन धिक् लोकस्य प्रकाशितः । निवार्योयमुपायेन केनचित्यापपण्डितः ॥३८६॥  
 इति सर्वेपि सङ्गत्य साकेतपुरमागताः । यथाविधि समालोक्य सचिवं पापिनो नराः ॥३८७॥  
 नितान्तमर्थकामार्थं कुर्वन्ति प्राणिनां वधम् । न केऽपि ह्यपि धर्मार्थं प्राणिनां सन्ति घातकाः ॥३८८॥  
 वेदविद्भिरहिंसोक्ता ३वेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवल्लीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥  
 इति ४पूर्वापवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेतद्ब्रह्मप्रायं कर्म कर्मनिवन्धनम् ॥३९०॥  
 तापसैरभ्यधायीति सर्वप्राणिहितैषिभिः । विश्वभूरिदमाकर्ण्य तापसा भोः कथं मया ॥३९१॥  
 इष्टं शक्यमपह्नोतु साक्षात्स्वर्गस्य साधनम् । इति भुवन् पुनर्नारदेनोक्तः पापभीरुणा ॥३९२॥  
 अमात्योत्तम चिद्वांस्त्वं किमिति स्वर्गसाधनम् । सगरं सपरीवारं निर्मूलयितुमिच्छता ॥३९३॥  
 उपायोऽयं व्यधाव्येवं प्रत्यक्षफलदर्शनात् । केनचित्कुहुकज्ञेन सुग्धानां मोहकारणम् ॥३९४॥  
 ततः शीलोपवासादिविधिमार्पागमोदितम् । आचरेति स तं प्राह पर्वतं नारदोदितम् ॥३९५॥  
 श्रुतं त्वयैत्यसौ शास्त्रेणासुरोक्तेन दुर्मतिः । मोहितो नारदेनापि प्रागिदं किं न वा श्रुतम् ॥३९६॥  
 ममास्य च गुरुर्नान्यो १मत्पितैवातिगवितः । समत्सरतयाप्येष मय्यद्य किमिवाच्यते ॥३९७॥

प्रसादसे ही सुखको प्राप्त हुआ हूँ । यह देख, विश्वभू मन्त्री जो कि सगर राजाके पीछे स्वयं उसके देशका स्वामी बन गया था महामेध यज्ञमें उद्यम करने लगा । महाकालकी मायासे सब लोगोंको साफ साफ दिखाया गया था कि आकाशाङ्गणमें बहुतसे देव तथा पितर लोग अपने अपने विमानोंमें बैठे हुए हैं । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति कर रहे हैं कि मन्त्रिन् ! तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत अच्छा कार्य किया । इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा तपस्वियोंने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रुने लोगोंके लिए यह मिथ्या मार्ग बतलाया है अतः इसे धिक्कार है । पाप करनेमें अत्यन्त चतुर इस पर्वतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिये । ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये । वहाँ उन्होंने पाप करते हुए विश्वभू मन्त्रीको देखा और देखा कि बहुतसे पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए बहुतसे प्राणियोंका वध कर रहे हैं । तपस्वियोंने विश्वभू मन्त्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए तो प्राणियोंका विधात करते हैं परन्तु धर्मके लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियोंका घात नहीं करते । वेदके जानने वालोंने ब्रह्मनिरूपित वेदमें अहिंसाको कल्प लताके समान, अथवा सखीके समान जगत्का हित करनेवाली बतलाया है । हे मन्त्रिन् ! यदि तुम पूर्व ऋषियोंके इस वाक्यको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कर्मबन्धका कारण है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए ॥ ३७१-३९० ॥ सब प्राणियोंका हित चाहने वाले तपस्वियोंने इस प्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियो ! जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वर्गका साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्तर इस प्रकार कहने वाले विश्वभू मन्त्रीसे पापभीरु नारदने कहा कि हे उत्तम मन्त्रिन् ! तू तो विद्वान् है, क्या यह सब स्वर्गका साधन है ? अरे, राजा सगरको परिवार सहित निर्मूल नष्ट करनेकी इच्छा करने वाले किसी मायावीने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्योंको ही मोहित करनेका कारण है ॥३९१-३९४॥ इसलिये तू ऋषि प्रणीत आगममें कही हुई शील तथा उपवास आदि की विधिका आचरण कर । इस प्रकार नारदके वचन सुनकर विश्वभूने पर्वतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा कहे शास्त्रसे मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा कि

१ दुर्भागोऽधिकृतोऽनेन म० ल० । २ कोऽपि ल० । ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म० । वेदो ब्रह्मनिरूपितः ल० । ४ पूर्वापवाक्यस्य ल० । ५ मत्पितैवाति ल० (?)

सश्रुतो मद्गुरोर्धर्मभाता जगति विश्रुतः । स्थविरस्तेन च श्रौतं रहस्यं प्रतिपादितम् ॥३९८॥  
 यागश्रुत्युत्तुफलं साक्षान्मयापि प्रकटीकृतम् । न चेत्ते प्रत्ययो विश्ववेदाग्भोनिधिपारगम् ॥३९९॥  
 वसुं प्रसिद्धं सत्येन, पृच्छेरित्यन्वभाषत । तच्छ्रुत्वा नारदोऽवादीको दोषः पृच्छयतामसौ ॥४००॥  
 इदं तावद्विचाराहं वधश्चेद्धर्मसाधनम् । अहिंसादानशीलादि भवेत्पापप्रसाधनम् ॥४०१॥  
 अस्तु चेन्मत्स्यबन्धादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधर्मतपोब्रह्मचारिणो यान्त्वधोगतिम् ॥ ४०२ ॥  
 यज्ञे पशुवधाद्धर्मो नेतरत्रेति चेन्न तत् । वधस्य दुःखहेतुत्वे सादृश्यादुभयत्र वा ॥४०३॥  
 फलेनापि समानेन भाव्यं कस्तन्निषेधकः । अथ त्वमेवं मन्येथाः १पशुसृष्टेः स्वयम्भुवः ॥४०४॥  
 २यज्ञार्थत्वाच्च ३तस्यातिविनियोकतुरघागमः । ४इत्येवं चातिमुग्धाभिलाषः साधुविगर्हितः ॥४०५॥  
 तत्सर्गस्यैव साधुत्वादस्यन्यच्चात्र ५दुर्घटम् । यदर्थं यद्धि तस्यान्यथोपयोगेऽर्थकृत् तत् ॥४०६॥  
 यथान्यथोपयुक्तं स श्लेष्मादिशमनौषधम् । यज्ञार्थपशुसर्गेण क्रयविक्रयणादिकम् ॥४०७॥  
 तथान्यथा प्रयुक्तं ६तन्महादोषाय कल्पते । दुर्बलं वादिनं दृष्ट्वा ब्रूमः त्वामभ्युपेत्य च ॥४०८॥  
 यथा शस्त्रादिभिः प्राणिव्यापादी वध्यतेऽहसा । मन्त्रैरपि पशून् हन्ता वध्यते निर्विशेषतः ॥४०९॥  
 पश्चादिलक्षणः सर्गो न्यज्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्त्वपुष्पादि चासन्न ७ क्रियते कुतः ॥४१०॥

यह शास्त्र क्या नारदने भी पहले कभी नहीं सुना । इसके और मेरे गुरु पृथक् नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनोंके गुरु थे फिर भी यह अधिक गर्व करता है । मुझ पर ईर्ष्या रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता है । विद्वान् स्थविर मेरे गुरुके धर्म भाई तथा जगत्में प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुझे यह श्रुतियोंका रहस्य बतलाया है । यज्ञमें मरनेसे जो फल होता है उसे मैंने भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेदरूपी समुद्रके पारगामी राजा वसुसे जो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो । यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोष है वसुसे पूछ लिया जावे ॥३९५-४००॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मका साधन मानी जायगी तो अहिंसा दान शील आदि पापके कारण हो जावेंगे ॥ ४०१ ॥ हो जावें यदि यह आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नेवाले आदि पापी जीवोंकी शुभ गति होनी चाहिये और सत्य, धर्म, तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको अधोगतिमें जाना चाहिए ॥ ४०२ ॥ कदाचित् आप यह कहें कि यज्ञमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः उसका फल समान ही होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित् आप यह मानते हों कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु हिंसा करनेवालेके लिए पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यह मूर्ख जनकी अभिलाषा है तथा साधुजनोंके द्वारा निन्दित है ॥४०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही ब्रह्माने पशुओंकी सृष्टि की है यदि यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जो वस्तु जिस कार्यके लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता । जैसे कि श्लेष्म आदिको शमन करनेवाली औषधिका यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीतफलदायी होता है । ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पशुओंसे यदि क्रय-विक्रय आदि कार्य किया जाता है तो वह महान् दोष उत्पन्न करनेवाला होना चाहिए । तू बाद करना चाहता है परन्तु दुर्बल है—युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस प्रकार शस्त्र आदिके द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार मन्त्रोंके द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है ॥ ४०६-४०९ ॥ दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता है अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फूल आदि असत् पदार्थ

१ पशुसृष्टिः म०, ल० । २ यज्ञार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ० । ३ तस्याति ल० । ४ इत्यर्थं ल० ।  
 ५ दुर्घटं ल० । ६ प्रयुक्तं तु म०, ल० । ७ चासन्नः ल० ।

अथाभिव्यज्यते तस्य वाच्यं प्राक्प्रतिबन्धकम्<sup>१</sup> । प्रदीपज्वलनात्पूर्वं घटादेरन्वकारवत् ॥४११॥  
 भस्तु वा नाहत्यक्सिस्त्विवादो विधीयते । इति श्रुत्वा वचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तुवन् ॥४१२॥  
 वसुना चेद् द्वयोर्वादे विच्छेदः सोऽभिगम्यताम्<sup>२</sup> । इति ताभ्यां समं संसदगच्छस्त्वस्तिकावतीम् ॥४१३॥  
 तत्सर्वं पर्वतेनोक्तं श्लावा तज्जननी<sup>३</sup> तदा । सह तेन वसुं दृष्ट्वा पर्वतस्त्वपरिग्रहः ॥४१४॥  
 तपोवनोन्मुखेनायं गुरुणापि तवार्पितः । नारदेन सहास्येह तवाध्यक्षे भविष्यति ॥४१५॥  
 ४ विवादो यदि भङ्गोऽत्र भार्वा भावियमाननम् । विद्ध्यस्य शरणं नान्यदित्याख्यस्तोऽपि सादरम् ४१६  
 विधित्सुर्गुरुश्रुषामन्व मास्तात्र शङ्कथाः । अयमस्य विधास्यामीत्यस्या भयमपाकरोत् ॥४१७॥  
 अन्येषुर्वसुमाकाशस्फटिकांश्च युद्धतासनम् । सिंहाङ्कितं समारूढ स्थितं वसुपगम्यते ॥४१८॥  
 समृच्छन्ति स्म सर्वेऽपि विश्वभूसचिवादयः । त्वत्तः प्रागप्यर्हिसादिधर्मरक्षणतत्परः ॥ ४१९ ॥  
 चत्वारोऽत्र महीपाला भूता हिममहासम । वस्वादिगिरिपर्यन्तचामानो हरिवंशजाः<sup>४</sup> ॥ ४२० ॥  
 पुरा चैवु भ्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीद् । अभूत्ततो भवांश्चासीदर्हिसाधर्मरक्षकः ॥ ४२१ ॥  
 त्वमेव सत्यवादीति प्रधोयो भुवनत्रये । विषवद्विजुलादेरयो वस्तुसन्देहसन्निधौ ॥ ४२२ ॥  
 त्वमेव प्रत्ययोत्पादी छिन्दि नः संशयं विभो । अर्हिसालक्षणं धर्मं नारदः प्रत्यपद्यत ॥ ४२३ ॥  
 पर्वतस्तद्विपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम् । याहक् ताहक् त्वया<sup>५</sup> वाच्यमित्यसौ धार्थितः पुरा ॥ ४२४ ॥

क्यों नहीं बना देता ? ॥ ४१० ॥ यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे रोकनेवाला कौन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेवाला है उसी प्रकार प्रकट होनेके पहले पशु आदिको रोकनेवाला भी कोई होना चाहिए ॥ ४११ ॥ इस प्रकार आपके सृष्टिवादमें यह व्यक्तिवाद आदर करनेके योग्य नहीं है । इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४१२ ॥ सब कहने लगे कि यदि राजा वसुके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला जावे । ऐसा कह सभाके सब लोग नारद और पर्वतके साथ स्वस्तिकावती नगर गये ॥ ४१३ ॥ पर्वतके द्वारा कही हुई यह सब जब उसकी माताने जानी तब वह पर्वतको साथ लेकर राजा वसुके पास गई और राजा वसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपोवनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सौंपा था । आज तुम्हारी अध्यक्षतामें यहाँ नारदके साथ विवाद होगा । यदि कदाचित् उस वादमें इसकी पराजय हो गई तो फिर यमराजका मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह तुम निश्चित समझ लो, इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा वसुसे कहा । राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला कि हे माँ ! इस विषयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पर्वतकी ही विजय कराऊँगा । इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माका भय दूर कर दिया । ॥ ४१४-४१७ ॥ दूसरे दिन राजा वसु आकाश-स्फटिकके पायोंसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी समय वे सब विश्वभू मन्त्री आदि राजसभामें पहुँच कर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अर्हिसा आदि धर्मकी रक्षा करनेमें तत्पर रहने वाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नामके चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥४१८-४१९॥ इन सबके अतीत होने पर महाराज विश्वा-वसु हुए और उनके बाद अर्हिसा धर्मकी रक्षा करनेवाले आप हुए हैं । आप ही सत्यवादी हैं इस प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । किसी भी दशामें संदेह होने पर आप विष अग्नि और तुलाके समान हैं । हे स्वामिन् ! आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं अतः हम लोगोका संशय दूर कीजिये । नारदने अर्हिसालक्षण धर्म<sup>६</sup> बतलाया है और पर्वत इसमें विपरीत कहता है अर्थात् अर्हिसाको धर्म बतलाता है । अब उपाध्याय—गुरुमहाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिये ।

१ प्रतिबन्धनम् ल० । २ सोऽभिगम्यते ल०, म० । ३ तज्जनो ल० । ४ विवादे यदि भङ्गोऽत्र भार्वा भावि यमाननम् । विद्ध्यस्य शरणं ( विद्धि अस्य इति पदच्छेदः ) म० । ५ वंशजा इरेः म० । ६ वाच्य—ल० ।

गुरुपत्न्यासनिर्दिष्टं बुध्यमानोऽपि भूपतिः । महाकालमहामोहेनाहितो दुःषमावधेः ॥ ४२५ ॥  
 सामीप्याद्रक्षणानन्दरौद्रध्यानपरायणः । पर्वताभिहितं तत्त्वं दृष्टे काऽनुपपन्नता ॥ ४२६ ॥  
 स्वर्गमस्यैव यागेन सजानिः सगरोऽप्यगात् । ज्वलत्प्रदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत् ॥ ४२७ ॥  
 पर्वतोक्तं भयं हित्वा कुरुध्वं स्वर्गसाधनम् । इति हिंसानृतानन्दाद् वध्वायुर्नारकं प्रति ॥ ४२८ ॥  
 मिथ्यापापापवादाभ्यामभीरुरभणीदिदम् । अहो महीपतेर्वक्त्रादपूर्वं घोरमीदृशम् ॥ ४२९ ॥  
 निर्यातमिति वैषम्यादुक्ते नारदतापसैः ५ । आक्रोशादम्बरं नद्यः प्रतिकूलजलजवाः ॥ ४३० ॥  
 सद्यः सरांसि बुष्काणि रक्तदृष्टिरनारता । तीव्रांशोरंशवो मन्दा विश्वाशाश्च मलीमसाः ॥ ४३१ ॥  
 बभूवुः प्राणिनः कम्पमादधुर्भयविह्वलाः । तदा महाध्वनिघांत्री द्विधाभेदमुपागता ॥ ४३२ ॥  
 वसोस्तस्मिन् महारन्ध्रे न्यमज्जित्सिंहविष्टरम् । तद्दृष्ट्वा देवविद्याधरेशा घनपथे स्थिताः ॥ ४३३ ॥  
 अतिक्रम्यादिर्मर्गं वसुराजमहामते ६ । धर्मविध्वंसनं मार्गं माभिधा इत्यबोधयन् ॥ ४३४ ॥  
 पर्वतं वसुराजं च सिंहासननिमज्जनात् । परिग्लानमुखौ दृष्ट्वा महाकालस्य किङ्कराः ॥ ४३५ ॥  
 तापसाकारमादाय भयं माऽत्र स्म गच्छतम् । इत्यात्मोत्थापितं चास्या दर्शयन् हरिविष्टरम् ॥ ४३६ ॥  
 नृपोऽप्यहं कथं तत्त्वविद्विभेद्यसृपं वचः । पर्वतस्यैव निश्चिन्वन्नित्याकण्ठं निमज्जवान् ॥ ४३७ ॥  
 अनेनेयमवस्थाभूमिमिथ्यावादेन भूपते । त्यजेममिति सम्प्रार्थितोऽपि यत्नेन साधुभिः ॥ ४३८ ॥

इस प्रकार सब लोगोंने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यद्यपि आप्त भगवान्के द्वारा कहे हुए धर्मतत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहेसे युक्त था, दुःषमा नामक पञ्चम कालकी सीमा निकट थी, और वह स्वयं परिग्रहानन्द रूप रौद्र ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वतने कहा है वही ठीक है । जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सकती है ॥ ४२०-४२६ ॥ इस पर्वतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया है । जो दीपक स्वयं जल रहा है—स्वयं प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दीपकके द्वारा कौन प्रकाशित करेगा ? ॥ ४२७ ॥ इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करो, वही स्वर्गका साधन है इस प्रकार हिंसानन्दी और मृषानन्दी रौद्र ध्यानके द्वारा राजा वसुने नरकायुका बन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप और लोकनिन्दासे नहीं डरने वाले राजा वसुने उक्त वचन कहे । राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद और तपस्वी कहने लगे कि आश्चर्य है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका कोई विषम कारण अवश्य है । उसी समय आकाश गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह उलटा बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणें फीकी पड़ गईं, समस्त दिशाएँ मलिन हो गईं, प्राणी भयसे विह्वल होकर काँपने लगे, बड़े जोरका शब्द करती हुई पृथिवी फटकर दो टुक हो गई और राजा वसुका सिंहासन उस महागर्तमें निमज्ज हो गया । यह देख आकाशमार्गमें खड़े हुए देव और विद्याधर कहने लगे कि हे बुद्धिमान् राजा वसु ! सनातन मार्गका उल्लंघन कर धर्मका विध्वंस करने वाले मार्गका निरूपण मत करो ॥ ४२८-४३४ ॥ पृथिवीमें सिंहासन घुसनेसे पर्वत और राजा वसुका मुख फीका पड़ गया । यह देख महाकालके किंकर तापसियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप लोग भयको प्राप्त न हों । यह कहकर उन्होंने वसुका सिंहासन अपने आपके द्वारा उठाकर लोगोंको दिखला दिया । राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धँस गया था तथापि जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे कैसे डर सकता हूँ ? मैं फिर भी कहता हूँ कि पर्वतके वचन ही सत्य हैं । इतना कहते ही वह कण्ठ पर्यन्त पृथिवीमें धँस गया । उस समय साधुओंने—तापसियोंने बड़े यत्नसे यद्यपि प्रार्थना की थी कि हे राजन् ! तेरी यह अवस्था असत्य भाषणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यज्ञ-

१ योगेन ल० । २ हिंसानृतानन्दो क०, ख० । ३ नरकं ल० । ४ तापसाः ल० । ५ भक्ति-म०, ल० । ६ महापते ल० । ७ इत्यात्मोत्थापितं क०, ख०, ल० ।

तथापि वज्रमेवाज्ञः सन्मार्गं प्रतिपादयन् । अथा कुपित एवासौ निर्गणोऽन्त्यामगात्क्षितिम् ॥ ४३९ ॥  
 अथासुरो जगत्प्रत्ययायादाय नरेन्द्रयोः । दिव्यं रूपमवापावावां यागश्रद्धया दिवम् ॥ ४४० ॥  
 नारदोक्तमपाकर्ण्यमिन्त्युक्त्वापददृश्यन्नाम् । शोकाश्चर्यवनागात्स्वर्वसुर्नहि महीमिति ॥ ४४१ ॥  
 संविसंबदमानेन जनेन महता सह । प्रयागे विश्वभूर्गत्वा राजन्मूयविधिं व्यधात् ॥ ४४२ ॥  
 महापुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमूढताम् । परमब्रह्मनिदिष्टमार्गंरक्ता मनाक् स्थिताः ॥ ४४३ ॥  
 नारदेनैव धर्मस्य मयादित्यभिनन्द्य तम् । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितटाभिधम् ॥ ४४४ ॥  
 तापसाश्च दयाधर्मविध्वंसविधुराशयाः । कलयन्तः कलं कालं विचेलुः स्वं स्वमाश्रमम् ॥ ४४५ ॥  
 ततोऽन्येद्युः खलो नाम्ना देवो दिनकरादिमः । पर्वतस्याखिलप्राणिविरुद्धाचरितं त्वया ॥ ४४६ ॥  
 निरुध्यतामिति प्रीत्या निर्दिष्टो नारदेन सः । करिष्यामि तथेतीत्वा नागान्<sup>१</sup> गंधारपन्नगान् ॥ ४४७ ॥  
 स विद्यया समाहूतांस्तत्प्रपञ्चं यथास्थितम् । अवोचत्तेऽपि संग्रामे भंक्त्वा दैत्यमकुर्वत ॥ ४४८ ॥  
 यज्ञविघ्नं समालोक्य विश्वभूपर्वताङ्गयौ । शरणान्वेषणोद्युक्तौ महाकालं यदृच्छया ॥ ४४९ ॥  
 पुरः सन्निहितं दृष्ट्वा यागविघ्नं तमूचतुः । बागैर्द्वेषिभिरस्माकं विहितोऽयमुपद्रवः ॥ ४५० ॥  
 नागविद्याश्च विद्यानुप्रवादे परिभाषिताः । निषिद्धं जिनविम्बानामुपयांसां विजृम्भणम् ॥ ४५१ ॥  
 ततो युवां जिनाकारान् सुरुपान् दिक्चतुष्टये । निवेशयाम्यर्च्यं यज्ञस्य प्रक्रमेथांमिमं विधिम् ॥ ४५२ ॥  
 इत्युपायमसावाह तौ च तच्चक्रतुस्तथा । पुनः खगाधिपोऽभ्येत्य यज्ञविघ्नविधित्सया ॥ ४५३ ॥

को ही सन्मार्गं बतलाता रहा । अन्तमें पृथिवीने उसे कुपित होकर ही मानो निगल लिया और वह मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४३६॥ तदनन्तर वह असुर जगत्को विश्वास दिलानेके लिए राजा सगर और बसुका सुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर यज्ञकी श्रद्धासे ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया । इस घटनासे लोगोंको बहुत शोक और आश्चर्य हुआ । उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई कहता था कि नहीं, नरक गया है । इस तरह विवाद करते हुए विश्वभू मन्त्री अपने घर चला गया । तदनन्तर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया । इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा मनुष्योंकी मूढताकी निन्दा करने लगे और परम ब्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाये मार्गमें तल्लीन होते हुए थोड़े दिन तक यों ही ठहरे रहे ॥ ४४०-४४३ ॥ इस समय नारदके द्वारा ही धर्मकी मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान किया ॥४४४॥ तापसी लोग भी दया धर्मका विध्वंस देख बहुत दुखी हुए और कलिकालकी महिमा समझते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये ॥४४५॥

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदने उससे बड़े प्रेमसे कहा कि इस समय पर्वत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना चाहिये । उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवश्य रोकूँगा । ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गंधारपन्नग नामक नागकुमार देवोंको बुलाया और विघ्न करनेका सब प्रपञ्च उन्हें यथा योग्य बतला दिया । नागकुमार देवोंने भी संग्राममें दैत्योंको मार भगाया और यज्ञमें विघ्न मचा दिया । विश्वभू मन्त्री और पर्वत यज्ञमें होनेवाला विघ्न देखकर शरणकी खोज करने लगे । अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा । दिखते ही उन्होंने उससे यज्ञमें विघ्न आनेका सब समाचार कह सुनाया, उसे सुनते ही महाकालने कहा कि हम लोगोंके साथ द्वेष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव किया है । नागविद्याओंका निरूपण विद्यानुवादमें हुआ है । जिनविम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है अर्थात् जहाँ जिनविम्ब होते हैं वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ॥ ४४६-४५१ ॥ इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और तदनन्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो ॥ ४५२ ॥ इस प्रकार महाकालने यह उपाय कहा और उन



दृष्ट्वा जैनेन्द्रबिम्बानि विद्याः क्रामन्ति नात्र मे । नारदाय निवेद्येति स्वस्वधामसमाश्रयन् ॥ ४५४ ॥  
 निर्विघ्नं यज्ञनिर्वृत्तौ विश्वभूः पर्वतश्च तौ । जीवितान्ते चिरं दुःखं नरकेऽनुबभूवतुः ॥ ४५५ ॥  
 महाकालोऽप्यभिप्रेतं साधयित्वा स्वरूपधत् । प्राग्भवे पौदनाधीशो नृपोऽहं मधुपिङ्गलः ॥ ४५६ ॥  
 मयैवं सुलसाहेतोर्महत्पापमनुष्ठितम् । अहिंसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैरभिभाषितः ॥ ४५७ ॥  
 अनुष्ठेयः स धर्मिष्ठैरित्युक्त्वासौ तिरोदधत् । स्वयं चादात्स्वदुश्चेष्टाप्रायश्चित्तं दयार्द्रधीः ॥ ४५८ ॥  
 १ निवृत्तिमेव सम्मोहाद्विहितात्पापकर्मणः । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिंसाधर्मप्रवृत्तकाः ॥ ४५९ ॥  
 प्रययुस्ते गतिं पापाभारकीमिति केचन । दिव्यबोधैः समाकर्ण्य मुनिभिः समुदाहृतम् ॥ ४६० ॥  
 पर्वतोद्दिष्टदुर्भागं नोपेयुः पापभीरवः । केचित्तु दीर्घसंसारास्तस्मिन्नेव व्यवस्थिताः ॥ ४६१ ॥  
 इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममार्हतम् । समासीनाश्च सर्वेऽपि मन्त्रिणं तुष्टुवुस्तराम् ॥ ४६२ ॥  
 तदा सेनापतिर्नाम्ना महीशस्य महाबलः । पुण्यं भवतु पापं वा यागे नस्तेन किं फलम् ॥ ४६३ ॥  
 प्रभावदर्शनं श्रेयो भूभृन्मध्ये कुमारयोः । इत्युक्त्वास्ततो राजा पुनश्चैतत् विचारवत् ॥ ४६४ ॥  
 इति मत्वा विस्मयैतान् मन्त्रिसेनापतीन् पुनः । हितोपदेशिनं प्रवचनं तमपृच्छत्पुरोहितम् ॥ ४६५ ॥  
 गतयोर्जनकागारं स्यान्न वेष्टं कुमारयोः । इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च लक्षितम् ॥ ४६६ ॥  
 २ अस्मत्कुमारयोस्त्र यगो भावी महोदयः । संशयोऽत्र न कर्तव्यस्त्वयान्यत्त्वेदमुच्यते ॥ ४६७ ॥  
 अथास्मिन् भारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्त्रिविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥ ४६८ ॥

दोनोंने उसे यथाविधि किया । तदनन्तर विद्याधरोका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विघ्न करनेकी इच्छासे आया और जिनप्रतिमाएँ देखकर नारदसे कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल सकतीं ऐसा कहकर वह अपने स्थान पर चला गया ॥ ४५३-४५४ ॥ इस तरह वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ और विश्वभू मन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए नरकमें दुःख भोगने लगे ॥ ४५५ ॥

अन्तमें महाकाल असुर अपना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं पूर्व भवमें पौदनपुरका राजा मधुपिङ्गल था । मैंने ही इस तरह सुलसाके निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है । जिनेन्द्र भगवान्ने जिस अहिंसालक्षण धर्मका निरूपण किया है धर्मात्माओंको उसीका पालन करना चाहिये इतना कह वह अन्तर्हित हो गया और दयासे आर्द्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्चित्त स्वयं ग्रहण किया ॥ ४५६-४५८ ॥ मोह वश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है । हिंसा धर्ममें प्रवृत्त रहने वाले विश्वभू आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये और पापसे डरनेवाले कितनेही लोगोंने सम्यग्ज्ञानके धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सुनकर पर्वतके द्वारा कहा मिथ्यामार्ग स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था ऐसे कितने ही लोग उसी मिथ्यामार्गमें स्थित रहे आये ॥ ४५९-४६१ ॥ इस प्रकार अतिशयमति मंत्रीके द्वारा कहा हुआ आगम सुनकर प्रथम मंत्री, राजा तथा अन्य सभासद लोगोंने उस द्वितीय मंत्रीकी बहुत भारी स्तुति की ॥ ४६२ ॥ उस समय राजा दशरथका महाबल नामका सेनापति बोला कि यज्ञमें पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या प्रयोजन है ? हम लोगोंको तो राजाओंके बीच दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है । सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशरथने कहा कि अभी इस बात पर विचार करना है । यह कह कर उन्होंने मंत्री और सेनापतिको तो विदा किया और तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रश्न पूछा कि राजा जनकके घर जाने पर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें पुरोहित भी पुराणों और मिमिक्षाशास्त्रोंके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस यज्ञमें महान् ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिये । इसके सिवाय एक बात और कहता हूँ ॥ ४६३-४६७ ॥ वह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थकर,

इध्याख्याताः पुराणशैर्मुनीनांशैः प्राग्मया श्रुताः । 'तेष्वष्टमाविमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥  
भाविनौ रावणं हत्वेल्यवादीन्द्राविविद्विरः । तदादुक्तं तदाकर्ण्यं परितोपमगाञ्चपः ॥ ४७० ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कृत्वा पापमदः क्रुधा पशुवधस्योन्मूत्रमाभूतलं,

हिंसायज्ञमवर्तयत् कपटर्षाः क्रूरा महाकालकः ।

तेनागात्सवसुः सपर्वतखलो घोरं घरां नारकीं

दुर्मांगान् दुरितावहान्विदधतां नैतन्महत्पापिनाम् ॥ ४७१ ॥

व्यामोहात्सुलसाप्रियत्ससुलसः सार्द्धं स्वयं मन्त्रिणा

शत्रुच्छन्नविवेकशून्यहृदयः सम्पाद्य हिंसाक्रियाम् ।

नष्टो गन्तुमधः क्षितिं दुरितिनामक्रूरनाशं सुधा

दुःकर्माभिरतस्य किं हि न भवेदन्यस्य चेदग्विधम् ॥ ४७२ ॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

स्वाचार्यवर्यमनुसृत्य हितानुशासी

वादे समेत्य बुधसंसदि साधुवादम् ।

श्रीनारदो विहितभूरितपाः कृतार्थः


सर्वार्थसिद्धिमगमन्सुधियामधीशः ॥ ४७३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुर्मांगप्रवर्तनप्रपञ्चव्यावर्णनं  
नाम सप्तपष्टं पर्व ॥ ६७ ॥

—ॐ०ःॐ॥—

तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायण ) और महा प्रतापी बलभद्र होते हैं  
ऐसा पुराणोंके जाननेवाले मुनियोंने कहा है तथा मैंने भी पहले सुना है । हमारे ये दोनों कुमार उन  
महापुरुषोंमें आठवें बलभद्र और नारायण होंगे ॥४६८-४६९ ॥ तथा रावणको मारेंगे । इस प्रकार  
भविष्यको जाननेवाले पुरोहितके वचन सुनकर राजा सन्तोषको प्राप्त हुए ॥ ४७० ॥ कपट रूप  
बुद्धिको धारण करनेवाले क्रूरपरिणामी महाकालने क्रोधवश समस्त संसारमें शास्त्रोंके विरुद्ध और  
अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई इसी कारणसे वह राजा वसु,  
दुष्ट पर्वतके साथ घोर नरकमें गया सो ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग  
चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है ॥ ४७१ ॥ मोहनीय कर्मके उदयसे  
जिसका हृदय शत्रुओंका छल समझनेवाले विवेकसे शून्य था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा और विश्वभू  
मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रियाएँ कर अधोगतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह  
दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य अपने क्रूर परिणामोंको नष्ट न कर व्यर्थ ही दुष्कर्ममें तल्लीन  
रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥ ४७२ ॥ जिसने अपने श्रेष्ठ आचार्य-  
गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शास्त्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम  
प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोंमें श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान् नारद कृतकृत्य  
होकर सर्वार्थसिद्धि गया ॥ ४७३ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें मिथ्या-  
मार्गकी प्रवृत्तिके विस्तारका वर्णन करनेवाला सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



## अष्टपष्ठं पर्व

पुराहितः पुनश्चासौ तत्कथां श्रोतुमर्हसि<sup>१</sup> । इति सम्बोध्य भूपालं ततो वक्तुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥  
 क्रमेण श्रव्यशब्दार्थसारवाणिर्नवावलीम्<sup>२</sup> । दशास्यस्य दशाशास्यप्रकाशिस्वयशःश्रियः ॥ २ ॥  
 अथास्ति<sup>३</sup> नाकलोकाभो धातकीखण्डपूर्वभाग् । भारते भूगुणैर्युक्तो देशः सारसमुच्चयः ॥ ३ ॥  
 तस्मिन्नागपुरे<sup>४</sup> ख्यातो नरदेवो महीपतिः । स कदाचिदनन्ताख्यगणेशात्कृतवन्दनः ॥ ४ ॥  
 श्रुतधर्मकथो जातनिर्वेदो ज्येष्ठसूनुवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥ ५ ॥  
 चरंस्तपः समुत्कृष्टं दृष्ट्वा विद्याधराधिपम् । सद्यश्चपलवेगाख्यं निदानमकरोद्धधीः ॥ ६ ॥  
 प्रान्ते संन्यस्य सौधर्मकल्पेऽभूदमृताशनः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयार्द्धमहाचले ॥ ७ ॥  
 खगेशो दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटपुराधिपः । विनम्यन्वयसम्भूतः सहस्रग्रीवखेचरः ॥ ८ ॥  
 क्रुधात्मन्नातुपुत्रोरुबलेनोत्सादितस्ततः । गत्वा लङ्कापुरं<sup>५</sup> त्रिंशत्सहस्राब्दान्यपालयत् ॥ ९ ॥  
 तस्य पुत्रः शतग्रीवस्तत्त्वडंशोनवत्सरान् । पाति स्म तत्सुतः पञ्चाशद्ग्रीवोप्यन्वपालयत् ॥ १० ॥  
 वत्सराणां सहस्राणि विंशतिं तस्य चाल्मजः । पुलस्त्यस्त्रिक<sup>६</sup>मेर्वेकवर्षायुस्तस्य वल्लभा ॥ ११ ॥  
 मेघश्रीरनयोः सूनुः स देवोऽभूद्दशाननः । चतुर्दशसहस्राब्दपरमायुर्महीतलम् ॥ १२ ॥  
 पालयन्नयदा कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेचराचलस्थालकेशितुः<sup>७</sup> ॥ १३ ॥

तदनन्तर जिसके शब्द और अर्थ सुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण है ऐसा पुरोहित, 'महाराज आप यह कथा श्रवण करनेके योग्य हैं' इस प्रकार महाराज दशरथको सम्बोधित कर अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दशों दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले रावणके भवान्तर कहने लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतक्षेत्रमें स्वर्गलोकके समान आभावाला एवं पृथिवीके गुणोंसे युक्त सारसमुच्चय नामका देश है ॥ ३ ॥ उसके नागपुर नगरमें नरदेव नामका राजा राज्य करता था । वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हें वन्दना कर उसने उनसे धर्म-कथा सुनी और विरक्त होकर भोगदेव नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया । तपश्चरण करते समय उस मूर्खने कदाचित् चपलवेग नामक विद्याधरोंके राजाको देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया । जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

अथानन्तर-इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें जो विजयार्ध नामका महान् पर्वत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर है । उसमें राजा विनमिके वंशमें उत्पन्न हुआ सहस्रग्रीव नामका विद्याधर राज्य करता था । उसके भाईका पुत्र बहुत बलवान् था इसलिए उसने क्रोधित होकर सहस्रग्रीवको बाहर निकाल दिया था । वह सहस्रग्रीव वहाँसे निकल कर लङ्का नगरी गया और वहाँ तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा ॥ ४-६ ॥ उसके पुत्रका नाम शतग्रीव था । सहस्रग्रीवके बाद उसने वहाँ पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था । उसका पुत्र पञ्चाशत्ग्रीव था उसने भी शतग्रीवके बाद बीस हजार वर्ष तक पृथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पञ्चाशद्ग्रीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक राज्य किया । उसकी स्त्रीका नाम मेघश्री था । उन दोनोंके वह देव रावण नामका पुत्र हुआ । चौदह हजार वर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद वह भी पृथिवीका पालन करने लगा । एक दिन लङ्काका ईश्वर रावण अपनी स्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेके

१-मर्हति क०, ल० । २ भवावलिम् ल० । ३ अथास्मिन् क०, ल०, ग०, घ० । ४ नागपुरे ल०, ग० । ५ लङ्कापुरीम् क०, घ० । ६ त्रिलमेवैक ( १५००० ) क०, ल०, ग०, घ०, म० । त्रिलमेवैक ल० ( १ ) । ७ खेचराचलकेशितुः ल० ।

सुतामभिनवेगस्य विद्यासाधनतत्पराम् । लोलो मणिमतिं वीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥ १४ ॥  
 तां दुरान्माऽऽत्मसाक्तुं तद्विद्यासिद्धिमभ्यहन्<sup>१</sup> । सापि द्वादशवर्षोपवासकृशकृशीकृता ॥ १५ ॥  
 तत्सिद्धिविग्रहेतुत्वात् कुपित्वा खेचरोशिने । पुत्रिकास्यैव भूत्वेमं वध्यासमिति दुर्मतिम् ॥ १६ ॥  
 कृत्वा भवान्ते मन्दोदरीगर्भं समधिष्ठिता । भूकम्पादिमहोत्पातैस्तज्जन्मसमयोद्भवैः ॥ १७ ॥  
 विनाशो रावणस्येति नैमित्तिकवचःश्रुतेः । दशाननोऽतिभीतः सन्यन्न क्वचन पापिनीम् ॥ १८ ॥  
 त्यजेमामिति मारीचमाज्ञापयदसावभीः<sup>२</sup> । सोऽपि मन्दोदरीगेहं गत्वा देवस्य देवि मे ॥ १९ ॥  
 कर्मैवं निर्घृणस्थ्यासीदिति तस्यै न्यवेदयत् । सापि देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ॥  
 इति प्रभूतद्रव्येण मञ्जूषायां<sup>३</sup> निधाय ताम् । तत्सन्निधानपत्रेण<sup>४</sup> सहोक्त्वेदं च तं मुहुः ॥ २१ ॥  
 मारीच<sup>५</sup>मानसे स्निग्धः प्रकृत्या बालिकामिमाम् । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गलज्जले ॥ २२ ॥  
 विस्तृज्य लोचने तस्मै स्वतनूजां समर्पयत्<sup>६</sup> । स नीत्वा मिथिलोद्याननिकटप्रकटे क्वचित् ॥ २३ ॥  
 धरान्तःकृतमञ्जूषो विपण्णो न्यवृत्तच्छुचा । तस्मिन्नेव दिने दृष्ट्वा गेहनिर्माणं प्रति ॥ २४ ॥  
 भूमिसंशोधने लाङ्गलाम्रलघ्नां नियोगिनः । मञ्जूषामेतदाश्चर्यमिनि भूपमबोधयन् ॥ २५ ॥  
 सुरूपां बालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवर्तिनीम् । नृपस्तदवतारार्थं विलेखादवबुध्य सः ॥ २६ ॥  
 तत्पूर्वापरसम्बन्धमेवा सीताभिधानिका । सुता भवेत्तवत्येतां वसुधायै ददौ मुदा ॥ २७ ॥

लिए किसी वनमें गया था । वहाँ विजयार्थ पर्वतके स्थालक नगरके राजा अभितवेगकी पुत्री मणि-  
 मती विद्या सिद्ध करनेमें तत्पर थी उसे देखकर चञ्चल रावण काम और मोहके वश हो गया ।  
 उस कन्याको अपने आधीन करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली । वह कन्या  
 उस विद्याकी सिद्धिके लिए बारह वर्षसे उपवासका क्लेश उठाती अत्यन्त दुर्बल हो गई थी । विद्याकी  
 सिद्धिमें विघ्न होता देख-वह विद्याधरोके राजा पर बहुत क्रुपित हुई । क्रुपित होकर उसने निदान  
 किया कि मैं इस राजाकी पुत्री होकर इस दुर्बुद्धिका वध अवश्य करूँगी ॥ १०-१६ ॥ ऐसा निदान  
 कर वह आयुके अन्तमें मन्दोदरीके गर्भमें उत्पन्न हुई । जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि  
 बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा ।  
 यद्यपि रावण निर्भय था तो भी निमित्तज्ञानियोंके वचन सुनकर अत्यन्त भयभीत हो गया । उसने  
 उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो ।  
 मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया और कहने लगा कि हे देवि, मैं बहुत ही  
 निर्दय हूँ अतः महाराजने मुझे ऐसा काम सौंपा है यह कह उसने मन्दोदरीके लिए रावणकी आज्ञा  
 निवेदित की—सूचित की । मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं  
 करती हूँ ॥ १७-२० ॥ यह कह कर उसने एक सन्दूककीमें बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुत्रीको रक्खा,  
 और मारीचसे बार-बार यह शब्द कहे कि हे मारीच ! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेह पूर्ण है अतः  
 इस बालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी बाधा न हो । ऐसा कह उसने जिनसे  
 अश्रु भर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए वह पुत्री सौंप दी । मारीचने ले जाकर वह  
 सन्दूककी मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी और स्वयं  
 शोकसे विपाद करता हुआ वह लौट गया । उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख  
 रहे थे, वे हल चलाकर उसकी नोकसे वहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे । उसी समय वह सन्दूककी हलके  
 अग्रभागमें आ लगी । वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समझ राजा जनकके  
 लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५ ॥ राजा जनकने उस सन्दूककी भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या  
 देखी और पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया । तदनन्तर उसका  
 सीता नाम रखकर 'यह तुम्हारी पुत्री होगी' यह कहते हुए उन्होंने बड़े हर्षसे वह पुत्री वसुधा रानीके

१-मभ्यहन् ल० । २-दथान्धधीः ख० । ३-विधाय ताम् ल० । ४-पात्रेण क०, घ० । ५-मन्य मे  
 रिन्गधः ख०, ग० । मान्य मे स्निग्ध म० । मान्यसे स्निग्ध ल० । ६-समर्पयत् ल० ।

वसुधा वसुधा<sup>१</sup>गेहे गुणयन्ती कलागुणान् । अवर्द्धयदिमां गूढां<sup>२</sup> लङ्केशोऽपि न वेत्स्यमूम् ॥ २८ ॥  
 वार्ता जनकयागस्य तस्मान्नात्रागमिष्यति । दास्यत्यवश्यं रामाय तां कन्यां मिथिलेश्वरः ॥ २९ ॥  
 तत्कुमारौ प्रहेतव्याविति नैमित्तिकोक्तितः । राज्ञाखिलबलेनामा प्रहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३० ॥  
 प्रत्युद्यातौ महीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसञ्चितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥  
 रूपादिगुणसम्पत्त्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरैः प्रशंसन्निः प्रेक्ष्यमाणौ<sup>३</sup> समं ततः ॥ ३२ ॥  
 पुरं प्रविश्य भूपोके स्थाने न्यवसतां सुखम् । दिनैः कतिपयैरेव नृपमण्डलसन्निधौ ॥ ३३ ॥  
 निर्गत्याभिमत्तं यज्ञविधानं तदनन्तरम् । महाविभूतिभिः सीतां वदौ रामाय भूपतिः ॥ ३४ ॥  
 दिनानि कानिचित्तत्र सीतयेव श्रिया समम् । नवप्रेमसमुद्भूतं सुखं रामोऽन्वभूद् भृशम् ॥ ३५ ॥  
 तदा दशरथाभ्यर्णदायातसचिवोक्तिभिः । जनकानुमतः शुद्धतिथौ परिजनान्वितः ॥ ३६ ॥  
 अभ्ययोध्यां<sup>४</sup> पुरीं सीतासमेतो जातसम्मदः । लक्ष्मणेन च गत्वाञ्च स्वानुजाभ्यां स्वबन्धुभिः ॥ ३७ ॥  
 परिवारैश्च स प्रत्यगम्यमानो निजां पुरीम् । विभूत्या दिविजेन्द्रो वा विनीतां प्राविशज्जयी ॥ ३८ ॥  
 दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या पितरौ प्रीतचेतसौ । तस्थौ प्रवर्द्धमानश्रीः सप्रियः सानुजः सुखम् ॥ ३९ ॥  
 तदा तदुत्सवं भूयो वर्द्धयन्नात्मना मधुः । कोकिलालिकु<sup>५</sup>लालापङ्क्तिमो मण्डयन् दिशः ॥ ४० ॥  
 सन्धि तपोधनैः सार्द्धं विप्रहं शिथिलव्रतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां बहन् ॥ ४१ ॥

लिए दे दी ॥ २६-२७ ॥ रानी वसुधाने भूमिगृहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रखी गई है कि लङ्केश्वर रावणको इसका पता भी नहीं है। इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावणको नहीं है अतः वह इस उत्सवमें नहीं आवेगा। ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम और लक्ष्मण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य ही भेजे जानेके योग्य हैं। इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ राम और लक्ष्मणको भेज दिया ॥ २८-३० ॥ अनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी अगवानी की। 'पूर्व जन्ममें संचित अपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्हीं रूप आदि गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच ही अनुपम हैं—उपमा रहित हैं' इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे दोनों भाई साथ ही साथ नगरमें प्रवेश कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हुए स्थान पर सुखके ठहर गये। कुछ दिनोंके बाद जब अनेक राजाओंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञकी विधि पूरी की और बड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ॥ ३१-३४ ॥ रामचन्द्रजीने कुछ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए सातिशय सुखका उपभोग किया ॥ ३५ ॥ तदनन्तर राजा दशरथके पाससे आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लक्ष्मणके साथ बड़े हर्षसे अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचने पर दोनों छोटे भाई भरत और शत्रुघ्ने, बन्धुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अगवानी की। जिस प्रकार इन्द्र बड़े वैभवके साथ अपनी नगरी अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी रामचन्द्रजीने बड़े वैभवके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ ३६-३८ ॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये। तदनन्तर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ रही है ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ ३९ ॥

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ वसन्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और भ्रमरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, वह समस्त दिशाओंको सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन—साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिथिल व्रतों-

१ च सुधागेहे ल० । २ गूढं म०, ल० । ३ प्रेक्षमाणौ ल० (?) । ४ अभ्ययोध्यां पुरं ग० ।

५ कोकिलालिकुलालाप-म० ।

१ कामिनां खण्डयन्मानं वियुक्तान् दण्डयन् भृशम् । संयुक्तान् पिण्डितान् कुर्वन् प्रचण्डः प्राविशजगत् ॥ ४२ ॥  
 तदागमनमात्रेण सद्गनस्पतिजातयः । काश्चिदङ्कुरिनाः काश्चिन्सानुरागाः २ सपल्लवैः ॥ ४३ ॥  
 काश्चिक्कोरकिनाः काश्चिन्सहासाः कुसुमोत्करैः । स्वावध्यायातचित्तेशाः कान्ता इव निरन्तरम् ॥ ४४ ॥  
 हिमानीपटलोन्मुक्तं सुव्यक्तं चन्द्रमण्डलम् । ज्योत्स्नां प्रसारयामास दिक्षु लक्ष्मीविधायिनीम् ॥ ४५ ॥  
 सारमामोदमादाय विकिरन्पुष्पजं रजः । सरोवारिकणैः सार्द्धमपाच्य<sup>३</sup> पवनो ववौ ॥ ४६ ॥  
 तदान्याभिश्च रामस्य रामाभिः सप्तभिर्नृपः । प्रेक्ष्याभिलक्ष्मणस्यापि पृथिवीदेविकादिभिः ॥ ४७ ॥  
 प्रीत्या पोडशमानाभिर्जिनपूजापुरस्सरम् । तनूजाभिर्नरेन्द्राणां विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८ ॥  
 ततः सर्वतुंगु प्रेम्णा ताभिस्तौ सुवर्मायतुः । ताश्च नाभ्यामयो यस्माद्वाह्यहेतोः सुखप्रदः ॥ ४९ ॥  
 एवं स्वपुण्यपाका<sup>४</sup> प्रसुखानुभवतत्परौ । तौ लब्ध्वावसरावित्थं कदाचिप्रोचतुर्नृपम् ॥ ५० ॥  
 काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरवरं पुरा । वाराणसी तदद्याभूदनधिष्ठितनायकम् ॥ ५१ ॥  
 आज्ञा यद्यस्ति देवस्य तदावामुदितोदितम् । विधास्याव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितम् ॥ ५२ ॥  
 ५ वियोगमेतयोः सोढुमक्षमा भरतादयः । अम्मर्द्दंश्या महीनाथाः स्थित्वात्रैव पुरे पुरा ॥ ५३ ॥  
 पदखण्डमण्डितां पृथ्वीं बहवोऽपालयंश्चिरम् । एकदेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥ ५४ ॥  
 विभासि भवतोस्तेजो व्याप्नोति महिमण्डलम् । ततः किं तन्प्रयाणेन मा यातमिति<sup>५</sup> सोऽब्रवीत् ॥ ५५ ॥

शिथिलाचारियोंके साथ विग्रह रखता है उस कामदेवके साथ वह वसन्त ऋतु अपना खास सम्बन्ध रखता था । वह वसन्त कामी मनुष्योंका मान खण्डित करना था, गिरही मनुष्योंका अत्यन्त दण्ड देता था, और संयुक्त मनुष्योंको परस्परमें सम्बद्ध करना था । इस प्रचण्ड शक्तिकाले वसन्त ऋतुने संसारमें प्रवेश किया ॥ ४०-४२ ॥ वसन्त ऋतुके आते ही वनमें जो उत्तम वनस्पतियोंकी जातियाँ थीं उनमेंसे कितनी ही अङ्कुरित हो उठीं और कितनी ही अपने पल्लवोंसे सानुराग हो गईं, कितनी ही वनस्पतियों पर कलियाँ आ गई थीं, और कितनी ही वनस्पतियाँ, जिनके प्राणवल्लभ अपनी अवधिके भीतर आ गये हैं ऐसी स्त्रियोंके समान फूलोंके समूहसे निरन्तर हँसने लगीं ॥ ४३-४४ ॥ उस समय चन्द्रमाका मण्डल बर्फके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था और सब दिशाओंमें शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फैला रहा था ॥ ४५ ॥ दक्षिण दिशाका वायु श्रेष्ठ सुगन्धिको लेकर फूलोंसे उपन्न हुई परागको बिखेरता हुआ सरोवरके जलके कर्णोंके साथ बह रहा था ॥ ४६ ॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजापूर्वक अन्य सात सुन्दर कन्याओंके साथ रामचन्द्रका तथा पृथिवी देवी आदि सोलह राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था ॥ ४७-४८ ॥ तदनन्तर राम और लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुओंमें उन स्त्रियोंके साथ प्रेमपूर्वक सुख प्राप्त करने लगे और वे स्त्रियाँ उन दोनोंके साथ प्रेमपूर्वक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठीक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही सुखका देनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तत्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय अबसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ५० ॥ कि काशीदेशमें वाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे पूर्वजोंकी परम्परासे ही हमारे आधीन चल रहा है परन्तु वह इस समय स्वामि रहित हो रहा है । यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों उसे बढ़ते हुए वैभवसे युक्त कर दें । उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं । पूर्वकालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे हैं । जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होने पर भी समस्त पृथिवी-मण्डलमें

१ कामितां ल० । २ रदपल्लवैः ख० । ३-मपाच्यः पवनो क०, ख० । ४ स्वपुण्यपाकात्-ख०, ग० । स्वपुण्यपाकां त-क० । ५ वियोगमक्षमः सोढुमेतयोर्भरतादयः म०, ल० । ६ मागतामिति ख० । मायातामिति क०, घ० ।

निपिद्धावपि तौ तेन पुनश्चैवमवोचताम् । आवयोरेव देवस्य स्नेहो याननिषेधनम् ॥ ५६ ॥  
 शौर्यस्य सम्भवो यावद्यावत्पुण्यस्य च स्थितिः । तावदुत्साहसद्भाहं न मुञ्चन्त्युदयार्थिनः ॥ ५७ ॥  
 बुद्धिं शक्तिमुपायं च जयं गुणविकल्पनम् । सम्यक्प्रकृतिभेदांश्च विदित्वा राजसूनुना ॥ ५८ ॥  
 महोद्योगो विधातव्यो विरुद्धान्विजिगीषुणा । स्वभावविनयोद्भूता द्विधा बुद्धिर्निगद्यते ॥ ५९ ॥  
 मन्त्रोत्साहप्रभूता च त्रिधा शक्तिरुदाहृता । <sup>१</sup>पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीतिर्मन्त्रशक्तिर्मतागमे ॥ ६० ॥  
 शौर्योर्जितत्वादुत्साहशक्तिः शक्तिश्चसम्भता । प्रभुशक्तिर्महीभर्तुराधिक्यं क्रोशदण्डयोः ॥ ६१ ॥  
<sup>२</sup>सामायोपप्रदां भेदं दण्डं च नयकोविदाः । वदन्त्युपायांश्चतुरो यैरर्थः साध्यते नृपैः ॥ ६२ ॥  
 प्रियं हितं वचः कायपरिष्वङ्गादि साम तत् । हस्त्यश्वदेशरत्नादि दत्ते सोपप्रदा मता ॥ ६३ ॥  
 कृत्यानामुपजापेन स्वीकृतिं भेदमादिशेत् । शष्पमुष्टिवधं दाहलोपविध्वंसनादिकम् ॥ ६४ ॥  
 शत्रुक्षयकरं कर्म <sup>३</sup>पण्डितैर्दण्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रवृत्तिरविरोधिनी ॥ ६५ ॥  
 कामादिशत्रुविनासो ऽवा जयो जयशालिनः । सन्धिः सविग्रहो नेतुरासनं यानसंश्रयौ ॥ ६६ ॥  
 द्वैधीभावश्च पट् प्रोक्ता गुणाः प्रणयिनः श्रियः । कृतविग्रहयोः पश्चात्केनचिद्धेतुना तयोः ॥ ६७ ॥  
 मैत्रीभावः स सन्धिः स्यात्सावधिगतावधिः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्वोः स विग्रहः ॥ ६८ ॥

व्याप्त हो रहा है इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ? मत जानो ? यद्यपि महाराज दशरथने उन्हें बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दोनों पर जो महान् प्रेम है वही हम दोनोंके जानेमें बाधा कर रहा है ॥ ५९-५६ ॥ जब तक शूरवीरताका होना सम्भव है और जब तक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तब तक अभ्युदयके इच्छुक पुरुष उत्साहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥ ५७ ॥ जो राजपुत्र विरुद्ध-शत्रुओंको जीतना चाहते हैं उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकल्प और प्रजा अथवा मन्त्री आदि प्रकृतिके भेदोंको अच्छी तरह जानकर महान् उद्योग करना चाहिये । उनमेंसे बुद्धि दो प्रकारकी कही जाती है एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और दूसरी विनयसे उत्पन्न हुई ॥ ५८-५९ ॥ शक्ति तीन प्रकारकी कही गई है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति और तीसरी प्रभुत्व-शक्ति । सहायक, साधनके उपाय, देश-विभाग, काल-विभाग और बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पाँच अङ्गोंके द्वारा मन्त्रका निर्णय करना आगममें मन्त्रशक्ति बतलाई गई है ॥ ६० ॥ शक्तिके जाननेवाले शूर-वीरतासे उत्पन्न हुए उत्साहको उत्साह-शक्ति मानते हैं । राजाके पास क्रोश ( खजाना ) अरु दण्ड ( सेना ) की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥ ६१ ॥ नीतिशास्त्रके विद्वान् साम, दान, भेद और दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं । इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं ॥ ६२ ॥ प्रिय तथा हितकारी वचन बोलना और शरीरसे आलिङ्गन आदि करना साम कहलाता है । हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा—दान कहलाता है । उपजाप अर्थात् परस्पर फूट डालनेके द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना—सिद्ध करना भेद कहलाता है । शत्रुके घास आदि आवश्यक सामग्री की चोरी करा लेना, उनका वध करा देना, आग लगा देना, किसी वस्तुको छिपा देना अथवा सर्वथा नष्ट कर देना इत्यादि शत्रुओंका क्षय करनेवाले जितने कार्य हैं उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं । इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयोंमें विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्रुओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्यकी जय कहलाती है ॥ ६३-६५ ॥ सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधीभाव ये राजाके छह गुण कहे गये हैं । ये छहों गुण लक्ष्मीके स्नेही हैं । युद्ध करनेवाले दो राजाओंका पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं । यह सन्धि दो प्रकारकी है अवधि सहित—कुछ समयके लिए और अवधि रहित—सदाके लिए । शत्रु तथा उसे जीतनेवाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विग्रह कहते हैं

१ 'सहायः साधनोपायौ विभागो देशकालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धेः पञ्चाङ्गमिष्यते' । २ साम, आयुष्य उपप्रदा दानमिति यावत्, भेदं, दण्डश्च, चतुर उपायान् वदन्ति । ३ दण्डितैः ल० । ४ विजयो क०, ष० ।

मामिहान्योऽहमप्यन्यमगच्छो हन्तुमिन्यसां । नृणांभावो भवेत्तेतुरासनं वृद्धिकारणम् ॥ ६९ ॥  
 स्वबृद्धौ शत्रुहानौ वा द्वयोर्वाभ्युद्यमं स्मृतम् । अरिं प्रति विभोग्यां तांयन्मात्रफलप्रदम् ॥ ७० ॥  
 अनन्यशरणस्याहुः संश्रयं सन्धिसंश्रयम् । सन्धिविग्रहयोर्बृत्तिर्द्वैधीभावो द्विपां प्रति ॥ ७१ ॥  
 स्वाम्यमान्यौ<sup>१</sup> जनस्थानं काशो दण्डः सगुप्तिकः । मित्रं<sup>२</sup> च भूमिपालस्य मत्स प्रकृतयः स्मृताः ॥ ७२ ॥  
 इमे राज्यस्थितः प्राज्ञैः पदार्था हेतवो मताः । तेषूपायवती शक्तिः प्रधानव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥  
 पानीयं खननाद्बहिर्मथनादुपलभ्यते । अदृश्यमपि सम्प्राप्यं सत्फलं व्यवसायनः ॥ ७४ ॥  
 फलप्रसवर्हानं वा सहकारं विहङ्गमाः । विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कुत्सितागमम् ॥ ७५ ॥  
 राजपुत्रमनुत्साहं त्यजन्ति विपुलाः श्रियः । स्वकीययांधसामन्तमहामात्यादयोऽपि च ॥ ७६ ॥  
 पुत्रं पिताप्यनुद्यां गं मत्वायोग्यं विपीदति । इति विज्ञापनं श्रुत्वा तयोर्नरपतिस्तदा ॥ ७७ ॥  
 युवाभ्यामुक्तमेवेदं प्रत्यपादि कुलांचिनम् । इत्याविष्कृतहर्षासिर्भाविसीरमृतः स्वयम् ॥ ७८ ॥  
<sup>३</sup>विन्यस्य राज्ययोग्योरुमुकुटं लक्ष्मणस्य च । प्रबध्य यौवराज्याधिपत्यपट्टं महौजसः ॥ ७९ ॥  
 महाभ्युद्यसम्पादिसत्यार्शाभिः प्रवर्द्धयन् । पुत्रौ प्रस्थापयामास पुरीं वाराणसीं प्रति ॥ ८० ॥  
 गत्वा प्रविश्य तामुच्चैः पौरान् जानपदानपि । दानमानादिभिः सम्यक् सदा तांषयनोस्तयोः ॥ ८१ ॥  
 दुष्टनिग्रहशिष्टानुपालनप्रविधानयोः । अविलङ्घ्यतोः पूर्वमर्यादां नीतिवेदिनोः ॥ ८२ ॥  
 प्रजापालनकार्यैकनिष्ठयानिष्ठितार्थयोः । काले गच्छन्ति कल्याणैः कल्पैः निःशल्य सौम्यदैः ॥ ८३ ॥

॥ ६६-६८ ॥ इस समय मुझे कोई दूसरा और मैं किसी दूसरेको नष्ट करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उसे आसन कहते हैं । यह आसन नामका गुण राजाओंकी वृद्धिका कारण है ॥ ६६ ॥ अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि होने पर दोनोंका शत्रुके प्रति जो उद्यम है—शत्रु पर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं । यह यान अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है ॥ ७० ॥ जिसका कोई शरण नहीं है उसे अपनी शरणमें रखना संश्रय नामका गुण है और शत्रुओंमें सन्धि तथा विग्रह करा देना द्वैधीभाव नामका गुण है ॥ ७१ ॥ स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गढ़ और मित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ कहलाती हैं ॥ ७२ ॥ विद्वान् लोगोंने ऊपर कहे हुए ये सब पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण माने हैं । यद्यपि ये सब कारण हैं तो भी साम आदि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना प्रधान कारण है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार खोदनेसे पानी और परस्परकी रगड़से अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है—दिखाई नहीं देता वह भी प्राप्त करनेके योग्य हो जाता है ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार फल और फूलोंसे रहित आमके वृक्षको पत्ती छोड़ देते हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रको विशाल लक्ष्मी छोड़ देती है । यही नहीं, अपने योद्धा सामन्त और महामन्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं ॥ ७५-७६ ॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समझकर दुखी होता है । राम और लक्ष्मणकी ऐसी प्रार्थना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह अपने कुलके योग्य ही कहा है । इस प्रकार हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने भार्वा बलभद्र-रामचन्द्रके शिर पर स्वयं अपने हाथोंसे राज्यके योग्य विशाल मुकुट बाँधा और महाप्रतापी लक्ष्मणके लिए यौवराजका आधिपत्य पट्ट प्रदान किया । तदनन्तर महान् वैभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीर्वादके द्वारा बढ़ाते हुए राजा दशरथने उन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरके प्रति भेज दिया ॥ ७७-८० ॥ दोनों भाइयोंने जाकर उस उत्कृष्ट नगरमें प्रवेश किया और वहाँके रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियों को दोनों भाई सदा दान मान आदिके द्वारा सन्तुष्ट करने लगे । वे सदा दुष्टोंका निग्रह और सज्जनोंका पालन करते थे, नीतिके जानकार थे तथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे । उनका प्रजा पालन करना ही मुख्य कार्य था । वे कृतकृत्य हो चुके थे—सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी भी कार्यको प्रारम्भ कर उसे पूरा कर ही छोड़ते थे । इस प्रकार शल्यरहित उत्तम सुख प्रदान करने-



इतो लङ्कामधिष्ठाय त्रिखण्डभरतावनेः । अधीश्वरोऽहमेवेति गर्वपर्वतभास्करम् ॥ ८४ ॥  
 सम्भावयन्तमात्मानं रावणं शत्रुरावणम् । निजतेजःप्रतापापहसितोष्णांशुमण्डलम् ॥ ८५ ॥  
 दण्डोपनतसामन्तविनम्रमुकुटाग्रम्—। स्फुरन्मणिमयूखाम्बुविकसच्चरणांशुजम् ॥ ८६ ॥  
 निजासने समासीनं कीर्यमाणप्रकीर्णकम् । अवतीर्णं धराभागमिव नीलनवाम्बुदम् ॥ ८७ ॥  
 आभाषमाणमाक्षिप्य<sup>१</sup> सभ्रूभङ्गं भयङ्करम् । अनुजैरात्मजैर्मौलैर्भटैश्च परिवारितम् ॥ ८८ ॥  
 पिङ्गोत्तुङ्गजटाजूटप्रभापिञ्जरिताम्बरः । इन्द्रनीलाक्षसूत्रोरुवलयालङ्कृतान्गुलिः ॥ ८९ ॥  
 तीर्थाम्बुसम्भृतोऽसिपद्मरागकमण्डलुः । सुवर्णसूत्रयज्ञोपवीतपूतनिजाकृतिः<sup>२</sup> ॥ ९० ॥  
 खादेत्य नारदोऽन्येद्युः सोपद्वारं<sup>३</sup> समैक्षत । तदालोक्य चिरान्द्र दृष्टोऽसीति त्वयास्थिताम् ॥ ९१ ॥  
 कौतरकृतः किमर्थं वा तवागमनमित्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन् कुधीरिदमभाषत ॥ ९२ ॥  
 दसदुर्जयभूपोअकरिकण्ठीरवायित । पृतन्मनः समाधाय दशास्य श्रोतुमर्हसि ॥ ९३ ॥  
 वाराणसीपुरादद्य ममागमनं विभो । तत्पुरीपतिरिक्ष्वाकुवंशाम्बरदिवाकरः ॥ ९४ ॥  
 सुतो दशरथाख्यस्य रामनामातिविश्रुतः । कुलरूपवयोज्ञानशौर्यसत्यादिभिर्गुणैः ॥ ९५ ॥  
<sup>१</sup>अनणीयान् स्वपुण्येन स सम्प्रत्युदयोन्मुखः । तस्यै यज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम् ॥ ९६ ॥  
 स्वनामश्रवणादेयगविकामुकचेतसम्<sup>४</sup> । पर्याप्तस्त्रीगुणैकध्यवृत्तिसम्पत्कृताकृतिम् ॥ ९७ ॥

वाले श्रेष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥ ८१-८३ ॥ इधर रावण, त्रिखण्ड भरतक्षेत्र-  
 का मै ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने आपको गर्वरूपी पर्वत पर विद्यमान सूर्यके समान समझने  
 लगा। वह शत्रुओंको रूलाता था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था। अपने तेज और प्रतापके  
 द्वारा उसने सूर्य मण्डलको तिरस्कृत कर दिया था। दण्ड लेनेके लिए पास आये हुए सामन्तोंके  
 नम्रीभूत मुकुटोंके अभ्रमागमें जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी जलके भीतर उस  
 रावणके चरणकमल विकसित हो रहे थे। वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस पर चमर  
 दुराये जा रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथिवी पर अवतीर्ण हुआ नीलमेघ ही हो।  
 वह भौंह टेढ़ी कर लोगोंसे वार्तालाप कर रहा था जिससे बहुत ही भयङ्कर जान पड़ता था। छोटे  
 भाई, पुत्र, मूलवर्ग तथा बहुतसे योद्धा उसे घेरे हुए थे ॥ ८४-८८ ॥ ऐसे रावणके पास किसी एक  
 दिन नारदजी आ पहुँचे। वे नारदजी अपनी पीली तथा ऊँची उठी हुई जटाओंके समूहकी प्रभासे  
 आकाशको पीतवर्ण कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके बने हुए अक्षसूत्र-जयमालाको उन्होंने अपने हाथमें  
 किसी बड़ी चूड़ीके आकार लपेट रक्खा था जिससे उनकी अङ्गुलियाँ बहुत ही सुशोभित हो रही  
 थीं, तीर्थोदकसे गरा हुआ उनका पद्मराग निर्मित कमण्डलु बड़ा भला मालूम होता था और सुवर्ण-  
 सूत्र निर्मित यज्ञोपवीतसे उनका शरीर पवित्र था। आकाशसे उतरते ही नारदजीने द्वारके समीप  
 रावणको देखा। यह देख रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बैठिये, कहाँसे  
 आ रहे हैं? और आपका आगमन किसलिए हुआ है? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर  
 दुर्बुद्धि नारद यह कहने लगा ॥ ८९-९२ ॥ अहङ्कारी तथा दुर्जय राजारूपी क्रुद्ध हस्तियोंको नष्ट  
 करनेमें सिंहके समान हे दशानन! जो मैं कह रहा हूँ उसे तू चित्त स्थिर कर सुन ॥ ९३ ॥ हे राजन्!  
 आज मेरा बनारससे यहाँ आना हुआ है। उस नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुवंशरूपी आकाशका सूर्य  
 राजा दशरथका अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है। वह कुल, रूप, वय, ज्ञान, शूरवीरता तथा सत्य  
 आदि गुणोंसे महान् है और अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युदय-पेश्वर्यके सन्मुख है। मिथिलाके  
 राजा जनकने यज्ञके बहाने उसे स्वयं बुलाकर साक्षात् लक्ष्मीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री  
 प्रदान की है। वह इतनी सुन्दरी है कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहङ्कारी कामियोंके  
 चित्तको ग्रहण कर लेती है—वश कर लेती है, संसारकी सब स्त्रियोंके गुणोंको इकट्ठा करके उनकी

१-माभाष्य ल०, म०, । २-वीतपूजानिजाकृतिः ल० । ३ सोपचारं ल० । ४ अनणीयः ल० ।

नेत्रगोचरमात्राखिलानङ्गसुखदायिनीम् । जेतुं सम्भोगरत्यन्ते शक्तां मुक्तिवधूमपि ॥ १८ ॥  
 स्वात्मनाहत्य योग्यां<sup>१</sup> तं त्रिल्लण्डाखण्डसम्पदम् । स्त्रीरत्नं स्वात्मजां लक्ष्मीमिवादान्मिथिलाधिपः ॥ १९ ॥  
 तस्य भोगोपभोगैकनिष्ठस्य विपुलश्रियः । पादर्वे स्थित्वा सहिष्णुत्वाद्भवन्तमवलोकितुम् ॥ १०० ॥  
 इह प्रेम्णागतोऽस्मीति नारदोक्त्या खगोशिना । इच्छा पश्यति नो चक्षुः कामिनामिन्धुर्दारितम् ॥ १०१ ॥  
 सत्यं प्रकुर्वता सद्यः सीतासम्बन्धवाक्श्रुतेः । अनङ्गहारसम्पाताज्जर्जरीकृतचेतसा ॥ १०२ ॥  
 धन्यान्यत्र न सा स्थातुं योग्या भाग्यविहीनके । मन्दाकिन्याः स्थितिः क्व स्यात्प्रविहस्य महाम्बुधिम ॥ १०३ ॥  
<sup>१</sup>बलाकारेण तां तस्माद्पहृत्यातिदुर्बलाम् । रत्नमालामिवालांलां करिष्यामि ममोरसि ॥ १०४ ॥  
 इति कामाग्निहस्तेन तेन<sup>३</sup> पापेन संसदि । स्वस्यामगार्यनार्येण दुर्जनानामिथं गतिः ॥ १०५ ॥  
 स नारदः पुनस्तत्र प्रदीप्तं कोपपात्रकम् । प्रज्वालयितुमस्येदमाचक्षेऽतिपापधीः ॥ १०६ ॥  
 परिप्राप्तोदयो रामो महाराज्यपदे स्थितः । यौवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणोऽस्थात्सहोद्भवः ॥ १०७ ॥  
 वाराणसीं प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वराः<sup>४</sup> । स्वसुतादानसम्मानिताभ्यां सम्बन्धमादधुः ॥ १०८ ॥  
 ततस्ते तेन रामेण लक्ष्मणाविष्कृतौजसा । न युद्धं युज्यतेऽस्माभिस्यज्यतां विप्रहाप्रहः ॥ १०९ ॥  
 इत्येतदुक्तमाकर्ण्य कुपितस्मितमुद्रहन् । मत्प्रभावं मुने मंक्षु श्रोप्यसीति विसृज्य तम् ॥ ११० ॥  
 मन्त्रशालां प्रविश्यत्सगतमित्थममन्यत । उपायसाध्यमेतद्धि कार्यं नहि बलात्कृते ॥ १११ ॥

सम्पदासे ही मानो उसका शरीर वनाया गया है, वह नेत्रोंके सामने आते ही सब जीवोंको काम सुख प्रदान करती है और सम्भोगसे होनेवाली वृत्तिके बाद तो मुक्तिरूपी स्त्रीको भी जीतनेमें समर्थ है। वह स्त्रीरूपी रत्न सर्वथा तुम्हारे योग्य था परन्तु मिथिलापतिने तीन खण्डकी अखण्ड सम्पदाको धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है ॥ ६४-६६ ॥ भोगोपभोगमें निमग्न रहनेवाले तथा विपुल लक्ष्मीके धारक रामके पास रह कर मैं आया हूँ। मैं उसे सहन नहीं कर सका इसलिए आपके दर्शन करनेके लिए प्रेमवश यहाँ आया हूँ। नारदजीकी बात सुनकर विद्याधरोंके राजा रावणने 'कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है नेत्र नहीं देखते हैं' इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा। उस समय सीता सम्बन्धी वचन सुननेसे रावणका चित्त कामदेवके वाणोंकी वर्षासे जर्जर हो रहा था। रावणने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है। महासागरको छोड़कर गङ्गाकी स्थिति क्या कहीं अन्यत्र भी होती है? मैं अत्यन्त दुर्बल रामचन्द्रसे सीताको जबर्दस्ती छीन लाऊँगा और स्थायी कान्तिको धारण करनेवाली रत्नमालाके समान उसे अपने वक्षःस्थल पर धारण करूँगा ॥ १००-१०४ ॥ इस प्रकार कामाग्निसे सन्तप्त हुए उस अनार्य-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्जन मनुष्योंका ऐसा स्वभाव ही होता है ॥ १०५ ॥

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी प्रज्वलित क्रोधाग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वर्य निरन्तर बढ़ रहा है ऐसा राम तो महाराज पदके योग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पदपर नियुक्त है ॥ १०६-१०७ ॥ जबसे ये दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥ १०८ ॥ इसलिए लक्ष्मणसे जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिये ॥ १०९ ॥ नारदकी यह बात सुनकर रावण क्रोधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि हे मुने! तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोगे। इतना कह कर उसने नारदको तो विदा किया और स्वयं मन्त्रशालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूर्वक सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं है। विद्वान् लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भी लक्ष्मी हरण कर लेते हैं। ऐसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा दशरथके लड़के राम

महीयसां<sup>१</sup>ऽप्युषायेन श्रीरप्याह्रियते बुधैः । इत्यतोऽमात्यमाहूय इत्तौ दशरथात्मजौ ॥ ११२ ॥  
जिगीषू मत्पदं दुष्टानुच्छेदाहौं कृतस्वरम् । पत्नी सीताभिधानाऽस्ति रामाख्यस्य दुरात्मनः ॥ ११३ ॥  
तामाहरिष्ये तौ हन्तुं तदुपायं विचिन्तय । इत्यवांचस्स मारीचो विनयाकुञ्चिताञ्जलिः ॥ ११४ ॥  
शृणु भट्टारक स्वामिन् हितकार्यानुवर्तनम् । अहितप्रतिषेधश्च मन्त्रिकृत्यमिदं द्वयम् ॥ ११५ ॥  
भवन्निरूपितं कार्यमपथ्यमयशस्करम् । पापानुबन्धि दुःसाध्यमयोग्यं सद्भिर्गहितम् ॥ ११६ ॥  
अन्यदाराहृतिर्नाम पातकेष्वतिपातकम् । को हि नाम कुले जातो जातुचिञ्चिन्तयेदिति ॥ ११७ ॥  
अस्त्यन्योऽपि तदुच्छिन्त्यामुपायः किमनेन ते । भवद्दंशविनाशैकहेतुना धूमकेतुना ॥ ११८ ॥  
इत्याख्यस्सार्थक्रोपाख्यं तन्मारीचं वचो विधीः । नादादासन्नसृत्युत्वाद्<sup>२</sup>दृष्टरिष्ट इवौषधम् ॥ ११९ ॥  
<sup>३</sup>गृहीतमेव नेत्येतन्नावादीञ्चेति मन्त्रिणम् । किमनेन वृथा मन्त्रिन् वचनेनेष्टघातिना ॥ १२० ॥  
वेत्सि चेद् ब्रूहि सीतापहरणोपायमार्यं मे । एवं तेनोच्यमानोऽसौ तव चेदेष निश्चयः ॥ १२१ ॥  
परीक्ष्य<sup>४</sup> स्वत्या सम्फल्त्या तस्यास्वव्यनुरक्तताम् । आनेया सा सुखेनैव क्षिग्धोपायेन केनचित् ॥ १२२ ॥  
विरक्ता चेत्त्वया देव हठादाक्षिप्यतामिति । प्रत्याह तत्समाकर्ण्यं प्रशंसन्साधु साध्विति ॥ १२३ ॥  
तदैव कातरः सूर्पणखामाहूय केनचित् । प्रकारेण स्वया सीता मयि रक्ता विधीयताम् ॥ १२४ ॥  
इत्याह सादरं सापि तत्सन्निर्यं विहायसि । तदैव रंहसा गत्वा प्रापद्वाराणसीं पुरीम् ॥ १२५ ॥  
चित्रकूटमिधोद्याने नन्दनाच्चातिसुन्दरे । रामो रन्तुं तदा गत्वा वसन्ते सीतया सह ॥ १२६ ॥

और लक्ष्मण बड़े अहङ्कारी हो गये हैं। वे हमारा पद जीतना चाहते हैं इसलिए शीघ्र ही उनका उच्छेद करना चाहिए। दुष्ट रामचन्द्रकी सीता नामकी स्त्री है। मैं उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए उस सीताका हरण करूँगा। तुम इसका उपाय सोचो। जब रावण यह कह चुका तब मारीच नामका मन्त्री विनयसे द्वाय जोड़ता हुआ बोला ॥ ११०-११४ ॥ कि हे पूज्य स्वामिन्! हितकारी कार्यमें प्रवृत्ति कराना और अहितकारी कार्यका निषेध करना मन्त्रीके यही दो कार्य हैं ॥ ११५ ॥ आपने जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपथ्य है—अहितकारी है, अकीर्ति करनेवाला है, पापानुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सज्जनोंके द्वारा निन्दनीय है, परस्त्रीका अपहरण करना सब पापोंमें बड़ा पाप है, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा जो कभी इस अकार्यका विचार करेगा ॥ ११६-११७ ॥ फिर उनका उच्छेद करनेके लिए दूसरे उपाय भी विद्यमान हैं अतः आपका वंश नष्ट करनेके लिए धूमकेतुके समान इस कुकृत्यके करनेसे क्या लाभ है? ॥ ११८ ॥ इस प्रकार मारीचने सार्थक वचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालमें मरनेवाला मनुष्य औषध ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार निर्बुद्धि रावणने उसके वचन ग्रहण नहीं किये ॥ ११९ ॥ वह मारीचसे कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्यों नहीं कहा? हे मन्त्रिन्! इष्ट वस्तुका घात करने वाले इस विपरीत वचनसे क्या लाभ है? ॥ १२० ॥ हे आर्य? यदि आप सीता-हरणका कोई उपाय जानते हैं तो मेरे लिए कहिये। इस प्रकार रावणके वचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि आपका यही निश्चय है तो पहले दूतीके द्वारा इस बातका पता चला लीजिये कि उस सतीका आपमें अनुराग है या नहीं? यदि उसका आपमें अनुराग है तो वह स्नेहपूर्ण किसी सुखकर उपायसे ही लाई जा सकती है और यदि आपमें विरक्त है तो फिर हे देव, हठ पूर्वक उसे ले आना चाहिए। मारीचके वचन सुनकर रावण उसकी प्रशंसा करता हुआ 'ठीक-ठीक' ऐसा कहने लगा ॥ १२१-१२३ ॥ उसी समय उस कायरने शूर्पणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सीताको मुझमें अनुरक्त कर ॥ १२४ ॥ इस प्रकार उसने बड़े आदरसे कहा। शूर्पणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी समय वेगसे आकाशमें चल पड़ी और बनारस जा पहुँची ॥ १२५ ॥ उस समय वसन्त ऋतु थी अतः रामचन्द्रजी नन्दन वनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक वनमें रमण करनेके लिए सीताके

मध्येवर्न परिक्रम्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम् । सप्रमूनां सहासां वा सरागां वा सपल्वाम् ॥ १२७ ॥  
 लतां समुत्सुकन्तन्वीं तन्वीमन्यामिव प्रियाम् । आलोकमानो जानक्यालोकितः स मकोपया ॥ १२८ ॥  
 कुपितं विना हेतोः प्रसाद्येत्येवमब्रवीत् । पश्य चन्द्रानने मृङ्गं लतायाः कुमुमे भृशम् ॥ १२९ ॥  
 तवास्ये मामिवासकं तत्र तर्पयितुं स्वयम् । रागं पिण्डीद्रुमाः पुष्पैरुद्विरन्तीव नूननैः ॥ १३० ॥  
 मम नेत्रालिनाः प्रीत्यै वध्वैभिश्चित्रशेखरम् । स्वहस्तेन प्रिये मेऽमूनलङ्कुरः शिरारहात् ॥ १३१ ॥  
 एतत्पुष्पैः प्रवालैश्च भूषणानि प्रकल्पये । तवापि त्वं विभास्येनैर्जङ्गमेव लताऽपरा ॥ १३२ ॥  
 ह्युक्तिभिरिमां सूकीभूतामालोक्य कामिनीम् । पुनश्चैवमभाषिष्ट मृष्टं वचनो नृपः ॥ १३३ ॥  
 त्वद्वक्त्रं दर्पणे वीक्ष्य चक्षुर्पा ते कृतार्थके । त्वदास्यसौरभेणैव नृप्ता ते नासिका भृशम् ॥ १३४ ॥  
 त्वच्छब्दयोग्यसल्लापैः कर्णौ पूर्णरमौ तव । तव विम्बाधरस्वादात्त्वजिह्वान्यरसासृहा ॥ १३५ ॥  
 परिरभ्य करौ नृसौ तव त्वक्कठिनस्तनौ । मनोऽर्पीन्द्रियसंतृप्ता संतृप्तं नितरां प्रिये ॥ १३६ ॥  
 स्वस्यामेवं स्वयं नृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्त एवेति सीतां स चतुरोक्तिभिः ॥ १३७ ॥  
 ततः प्रसन्नया सार्द्धं सुखं सर्वेन्द्रियोद्भवम् । सम्प्राप्य नूतनं भूपः कोपोऽपि सुखदः क्वचित् ॥ १३८ ॥  
 तत्रैव लक्ष्मणोऽप्येवं स्वप्रियाभिः सहारमत् । इष्टौ तदा मुदा कामस्तेन्याऽभ्यर्थमदः सुखम् ॥ १३९ ॥  
 एवं रामश्चिरं रन्त्वा कान्ते पश्य रविः करैः । सर्वान् दहति मूर्द्धस्थस्ताम्रः कस्यान्न शान्तये ॥ १४० ॥

साथ गये हुए थे ॥ १२६ ॥ वहाँ वे वनके बीचमें घूम-घूमकर नाना वनस्पतियोंको देख रहे थे । वहाँ एक लता थी जो फूलोंसे सहित होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो हँस ही रही हो तथा पल्लवोंसे सहित होनेके कारण ऐसी मालूम होनी थी मानो अनुरागसे सहित ही हो । वह पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कृश शरीरवाली कोई दूसरी स्त्री ही हो । वे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे । उस लताको देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीताने कुछ क्रोध युक्त होकर देखा । उसे देखते ही रामचन्द्रने कहा कि यह विना कारण ही कुपित हो रही है अतः इसे प्रसन्न करना चाहिए । वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, जिस प्रकार मैं तुम्हारे मुख पर आसक्त रहता हूँ उसी प्रकार इधर यह भ्रमर इस लताके फूल पर कैसा आसक्त हो रहा है ? उधर ये अशोक वृक्ष स्वयं सन्तुष्ट करनेके लिए नये-नये फूलोंके द्वारा मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं ॥ १२७-१३० ॥ हे प्रिये ! मेरे नेत्ररूपी भ्रमरोंको सन्तुष्ट करनेके लिए तू इन फूलोंके द्वारा चित्र-चित्र सेहरा बाँधकर अपने हाथसे मेरे इन केशोंको अलंकृत कर । मैं तेरे लिए भी इन पुष्पों और प्रवालोंने भूषण बनाता हूँ । इन फूलों और प्रवालोंने तू सचमुच ही एक चलती-फिरती लताके समान सुशोभित होगी ॥ १३१-१३२ ॥ इस प्रकार रामने यद्यपि कितने ही शब्द कहे तो भी सीता क्रोधवशा चुप ही बैठी रही । यह देख मिष्ट तथा इष्ट वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥ १३३ ॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दर्पणमें तेरा मुख देखकर कृतकृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी सुगन्धिसे ही मानो अत्यन्त तृप्त हो गई है ॥ १३४ ॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रससे लबालब भर गये हैं । तेरे अधर-विम्बका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्वा अन्य पदार्थोंके रससे निःस्पृह हो गई है ॥ १३५ ॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोंका स्पर्श कर सन्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये ! तेरी समस्त इन्द्रियोंके सन्तुष्ट हो जानेसे तेरा मन भी खूब सन्तुष्ट हो गया है । इस तरह तू इस समय अपने आपमें तृप्त हो रही है इसलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवान्के समान जान पड़ती है फिर भी हे प्रिये ! तुम्हें क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा रामने सीताको समझाया । तदनन्तर प्रसन्न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपूर्व सुखका अनुभव किया । सो ठीक ही है क्योंकि कहीं-कहीं क्रोध भी सुखदायी हो जाता है ॥ १३६-१३८ ॥ वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करते थे । उस समय कामदेव बड़े हर्षसे उन सबके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था ॥ १३९ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक क्रीड़ा कर सीतासे कहने लगे कि हे प्रिये ! यह सूर्य अपनी

लक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविजितारातिसन्निभाः । छायामात्मनि सल्लीनां प्रकुर्वन्ति महीरुहः ॥ १४१ ॥  
 वैराज्यपरिवारो वा मृगरूपः सशावकः । काप्य<sup>१</sup>लब्धाश्रयस्ततो भ्राम्यतीतस्ततोऽपि च ॥ १४२ ॥  
 इति चेतोहरैः सीतां मोदयन् स तथा सह । शचीदेव्येव देवेशः कृत्वा वनविनोदनम् ॥ १४३ ॥  
 किञ्चित् खिन्नामिवालक्ष्य तां जलाशयमासदत् । तत्र सिञ्चन् प्रियां शीतैर्यन्त्रमुक्तपयःकणैः ॥ १४४ ॥  
 हृषन्निमीलितालोलनयनेन्दीवरोज्ज्वलम् । तद्वक्त्रकमलं पश्यन्नसावल्पं तदातुषत् ॥ १४५ ॥  
<sup>२</sup>वक्षोदघ्नमसौ वारि प्राविशत्सस्मितां प्रियाम् । परिरम्भोत्सुकां विद्वान् रञ्जितज्ञा हि नागराः ॥ १४६ ॥  
 भ्रमराः कञ्जकं मुक्त्वा कान्तास्याब्जेऽपतन्समम् । तैराकुलीकृतां दृष्ट्वा खेदी ह्लादी च सोऽभवत् ॥ १४७ ॥  
 एवं जले चिरं<sup>३</sup> रन्त्वा तन्नापूर्वं मनोरथम् । सान्तःपुरो वने रम्यप्रदेशे स्थितिमाव्रजत् ॥ १४८ ॥  
 तदा सूर्पणखागत्य तयोर्नृपतनूजयोः । वीक्ष्यमाणाऽतुलां लक्ष्मीमनुरक्ता सविस्मयम् ॥ १४९ ॥  
 प्रभूतप्रसवानन्नक्रान्नाशोकमहीरुहः । अधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिशिलातले ॥ १५० ॥  
 वनलक्ष्मीमिवालोक्य भूप्यमाणां सखीजनैः । युक्तमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥ १५१ ॥  
 बभूव स्थविरा रूपपरावर्तनविधया । सीताविलाससन्दर्शसम्भूतव्रीडयेव सा ॥ १५२ ॥  
 तद्रूपं<sup>४</sup> वर्णयन्तीर्थं सकौतुकममन्वत् । स्वबुद्धिकौशलादेतत्कृतं रूपं न वेधसा ॥ १५३ ॥  
 यादृच्छिकं न चेदन्यत्किमकारिति नेदशम् । शेषदेव्यो जराजीर्णां तां दृष्ट्वा यौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥

किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मस्तक पर स्थित हुआ उग्र प्रकृतिका धारक किसकी शान्तिके लिए होता है ? ॥ १४० ॥ लक्ष्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित हुए शत्रुके समान ये वृत्त अपनी छायाको अपने आपमें लीन कर रहे हैं ॥ १४१ ॥ शत्रु राजाओंके परिवारोंके समान इन बच्चों सहित हरिणोंको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है इसलिए ये सन्तप्त होकर इधर-उधर घूम रहे हैं ॥ १४२ ॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोंसे सीताको प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-क्रीडा करने लगे ॥ १४३ ॥ रामचन्द्र सीताको कुछ खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पहुँचे और सीताको यन्त्रसे छोड़ी हुई जलकी ठण्डी बूँदोंसे सींचने लगे ॥ १४४ ॥ उस समय कुछ-कुछ बन्द हुए चञ्चल नेत्ररूपी नीलकमलोंसे उज्ज्वल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत कुछ सन्तुष्ट हुए थे ॥ १४५ ॥ वे बुद्धिमान् रामचन्द्रजी आलिङ्गन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंको अच्छी तरह समझते हैं ॥ १४६ ॥ वहाँ बहुतसे भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके मुखकमल पर आ झपटे उनसे वह व्याकुल हो उठी। यह देख रामचन्द्रजी कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न भी हुए ॥ १४७ ॥ इस तरह जलमें चिर-काल तक क्रीडा कर और मनोरथ पूर्ण कर रामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥ १४८ ॥ उसी समय वहाँ शूर्पणखा आई और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाको बड़े आश्चर्यके साथ देखती हुई उन पर अनुरक्त हो गई ॥ १४९ ॥ उस समय सीता बहुत-भारी फूलोंके भारसे झुके हुए किसी सुन्दर अशोक वृक्षके नीचे हरे मणिके शिला-तल पर बैठी हुई थी, आस-पास बैठी हुई सखियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसे देख शूर्पणखा कहने लगी कि इसमें रावणका प्रेम होना ठीक ही है ॥ १५०-१५१ ॥ रूप-परावर्तन विद्यासे वह बुद्धिया बन गई उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देखनेसे उत्पन्न हुई लज्जाके कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥ १५२ ॥ कवि लोग उसके रूपका ऐसा वर्णन करते थे, और कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुशलतासे नहीं बनाया है अपितु अनायास ही बन गया है। यदि ऐसा न होता तो वह इसके समान ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता ? ॥ १५३ ॥ सीताको छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे उद्वत हो, वृद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दिखनेवाली उस बुद्धियाको देख हँसी करती हुई

का त्वं वद कुतस्तथा वेत्यवोचन्हासपूर्वकम् । उद्यानपालकस्याहं मातात्रैवेति सा पुनः ॥ १५५ ॥  
 तासां चित्तपरीक्षार्थमिमां वाचमुदाहरन् । युष्मदपुण्यभागिन्यो मान्याः सन्त्यन्यथापिनः ॥ १५६ ॥  
 यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह भोगपरायणाः । युष्माभिः <sup>१</sup>प्राक्कृतं किं वा पुण्यं तन्मम कथ्यताम् ॥ १५७ ॥  
 तत्करिष्यामि येनास्य राज्ञी भूत्वा महीपतेः । इमं विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्वचः ॥ १५८ ॥  
 श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्यास्तर्हणं स्मरविह्वलम् । वपुरेव जराग्रस्तमित्यलं सहसाऽहमन् ॥ १५९ ॥  
<sup>२</sup>मा हासः कुलसौरूप्यकलागुणयुजामिह । समप्रेम<sup>३</sup>फलप्राप्तेः किमन्यज्जननः फलम् ॥ १६० ॥  
 वदतेति वदन्तीं तां पुनर्भो जन्मनः फलम् । तवेदमेव चेदन्मद्विभुना विधिना वयम् ॥ १६१ ॥  
<sup>४</sup>त्वामद्य योजयिष्यामः परिसुक्तविचारगम् । महादेवी भवेत्यासां हासवाणशरव्यताम् ॥ १६२ ॥  
 उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्याज्जनकाम्भजा । किमित्याकांक्षसि स्त्रीत्वं त्वं हितानवबोधिनी ॥ १६३ ॥  
 स्त्रीतःमनुभवन्तीभिरत्राम्भिरनीप्सितम् । प्राप्तं प्राप्यं च दुर्बुद्धे महापापफलं शृणु ॥ १६४ ॥  
 अनिष्टलक्षणादन्धैरप्राह्यन्वाच्छुचा गृहे । स्वे वासो मृत्युपर्यन्तं कुलरक्षणकारणान् ॥ १६५ ॥  
 अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पन्नगोहयोः । शोकोत्पादनबन्ध्यात्वं निर्भाव्यत्वाद्गौरवम् ॥ १६६ ॥  
 दुर्भगत्वेन कान्तानां परित्यागात्पराभवः । अस्पृश्यत्वं रजोदोषात् खण्डनात्कलहादिभिः ॥ १६७ ॥  
 दुःखदावाग्निस्तनापो बन्धानामिव भूरुहाम् । चक्रवर्तिसुतानां च परयादोपसेवना ॥ १६८ ॥

बोलीं कि बतला तां सही नू कौन है ? और कहाँसे आई है ? इसके उत्तरमें बुद्धिया कहने लगी कि मैं इस बगीचाकी रक्षा करनेवालेकी माता हूँ और यहीं पर रहती हूँ ॥ १५४-१५५ ॥ तदनन्तर उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि हे माननीयो ! आप लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ हैं वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि इन कुमारोंके साथ आप लोग भोग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं । आप लोगोंने पूर्वभ्रममें कौन-सा पुण्य कर्म किया था, वह मुझसे कहिये । मैं भी उसे कहूँगी, जिससे इस राजाकी रानी होकर इसे अन्य रानियोंसे विरक्त कर दूँगी । इस प्रकार उसके वचन सुन सब रानियाँ यह कहती हुई हँसने लगीं कि इसका शरीर ही बुढ़ापासे ग्रस्त हुआ है चित्त तो जवान है और कामसे विह्वल है ॥ १५६-१५७ ॥ इसने उत्तरमें बुद्धिया बोली कि आप लोग कुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है । आप सबको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई है इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता है ? आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहती हुई बुद्धियासे वे फिर कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका यही फल है तो हम तुम्हें अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वक मिला देंगी । तू बिना किसी विचारके इनकी पट्टरानी हो जाना । इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसी रूपी बाणोंका निशाना बनती हुई बुद्धियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती ॥ १६०-१६३ ॥ स्त्रीपनेका अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इसलोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं । हे दुर्बुद्धे ! यह स्त्रीपर्याय महापापका फल है । सुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता इसलिए शोकसे उसे अपने घर ही रहना पड़ता है । इसके सिवाय कन्याको मरण पर्यन्त कुलकी रक्षा करनी पड़ती है ॥ १६४-१६५ ॥ यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें प्रविष्ट हुई और जिस घरमें उत्पन्न हुई—उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है । यदि भाग्यहीन होनेसे कोई बन्ध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता ॥ १६६ ॥ यदि कोई स्त्री दुर्भगा अथवा कुरूप हुई तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है । रजोदोषसे वह अस्पृश्य हो जाती है—उसे कोई छूता भी नहीं है । यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमें उत्पन्न हुए वृक्षोंके समान उसे दुःखरूपी दावानलमें सदा जलना पड़ता है । औरकी बात जाने दो चक्रवर्तीकी पुत्रीको भी

मानभङ्गः सपत्नीषु दृष्टोत्कर्षेण केनचित् । स्वभाववक्त्रवाक्कायमनोभिः कुटिलात्मता ॥ १६९ ॥  
 गर्भसूतिसमुत्पन्नरोगादिपरिपीडनम् । शोचनं स्त्रीसमुत्पत्तावपत्यमरणाऽ<sup>१</sup>सुखम् ॥ १७० ॥  
 रहस्यकार्यबाह्यत्वं सर्वकार्येष्वतन्त्रता । विधवात्वे महादुःखपात्रत्वं दुष्टचेष्टया ॥ १७१ ॥  
 दानशीलोपवासादिपरलोकहितक्रिया । विधानेष्वप्रधानत्वं सन्तानार्थानवापनम् ॥ १७२ ॥  
 कुलनाशोऽगतिमुक्तं रित्याद्यन्यच्च दूषितम् । साधारणमिदं सर्वस्त्रीणां कस्मात्तवाभवत् ॥ १७३ ॥  
 तस्मिन्सुखाभिलाषित्वं वयस्यस्मिन् गतत्रये । न चिन्तयसि ते भाविहितं मतिविपर्ययात् ॥ १७४ ॥  
 स्त्रीत्वे सतीत्वमेवैकं श्लाघ्यं तत्पतिमात्मनः । विरूपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवर्तकम् ॥ १७५ ॥  
 त्यक्त्वान्यं चेदृशं वास्तां चक्रिणं वाभिलाषिणम् । पश्यन्तः कुष्ठिचाण्डालसदृशं नामिलाशुकाः ॥ १७६ ॥  
 तमप्याक्रम्य भोगेच्छं सद्यो दृष्टिविषोपमाः । नयन्ति भस्मसान्नावं यद्वलात् कुलयोषितः ॥ १७७ ॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा मन्दरोऽद्रिश्च चाल्यते । शक्यं चालयितुं नास्याश्चित्तमित्याकुलाकुला ॥ १७८ ॥  
 गृहकार्यं भवद्वाक्यश्रुतेर्विस्मृत्य दुःखिता । यामि देव्यहमित्येतच्चरणववनम्य सा ॥ १७९ ॥  
 गत्वानिष्टितकार्यत्वाद्रिषण्णा रावणं प्रति । अशक्यारम्भवृत्तीनां क्लेशादन्यत्कुतः फलम् ॥ १८० ॥  
 इद्वा तं स्वोचितं देव सीता शीलवती न सा । वज्रयष्टिरेवान्येन भेषुं केनापि शक्यते ॥ १८१ ॥  
 इति स्वगतवृत्तान्तमुक्त्वा तेषुभिमतं मया । नोक्तं शीलवती कोपवह्निभोत्येति साव्रवीत् ॥ १८२ ॥

दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है ॥ १६७-१६८ ॥ और सपत्नियोंमें यदि किसीकी उत्कृष्टता हुई तो सदा मानभङ्गका दुःख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय, और मनकी अपेक्षा उनमें सदा कुटिलता बनी रहती है ॥ १६९ ॥ गर्भधारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न होनेवाले अनेक रोगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छा जाता है, किसीकी सन्तान मर जाती है तो उसका दुःख भोगना पड़ता है ॥ १७० ॥ विचार करने योग्य खास कार्योंमें उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्योंमें उन्हें परतन्त्र रहना पड़ता है, दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान् दुःखोंका पात्र होना पड़ता है। दानशील उपवास आदि परलोकका हित करनेवाले कार्योंके करनेमें उसकी कोई प्रधानता नहीं रहती। यदि स्त्रीके सन्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही नहीं है। इनके सिवाय और भी अनेक दोष हैं जो कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जाते हैं फिर क्यों तुम्हें इस निन्द्य स्त्रीपर्यायमें सुखकी इच्छा हो रही है। हे निर्लज्जे! तू इस अवस्थामें भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही है इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है ॥ १७१-१७४ ॥ स्त्री पर्यायमें एक सतीपना ही प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही है कि अपने पतिको चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दुष्ट स्वभाववाला हो, अथवा बुरा बर्ताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरेकी बात जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष जबर्दस्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो उसे कुलवती स्त्रियाँ दृष्टिविष सर्पके समान अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं ॥ १७५-१७७ ॥ इस प्रकार सीताके वचन सुनकर शूर्पणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचित् मन्दरगिरि—सुमेरु पर्वत तो हिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर वह बहुत ही व्याकुल हुई ॥ १७८ ॥ और कहने लगी कि हे देवि! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूल कर दुःखी हुई, अब जाती हूँ ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गई ॥ १७९ ॥ कार्य पूरा न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक ही है क्योंकि जिन कार्योंका आरम्भ करना अशक्य है उन कार्योंका क्लेशके सिवाय और क्या फल हो सकता है ॥ १८० ॥ शूर्पणखाने पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दर्शन किये और तदनन्तर निवेदन किया कि हे देव! सीता शीलवती है, वह वज्रयष्टिके समान किसी अन्य स्त्रीके द्वारा भेदन नहीं की जा सकती ॥ १८१ ॥ इस तरह अपना वृत्तान्त कह कर उसने यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधाग्निके भयसे

श्रुत्वा तद्वचनं सर्वमसत्यमवधारयन् । प्रकटीकृतकोपाभिरिङ्गिताकारवृत्तिभिः ॥ १८३ ॥  
 मुग्धे फणीन्द्रनिश्वासभोगाटोपविलोकनात् । भीत्वा तद्ग्रहणं को वा विषवादी विमुञ्चति ॥ १८४ ॥  
 बाह्यस्वैर्यवचः श्रुत्वा भीत्वा तन्म्याम्ब्वमागता । गजकर्णचला स्त्रीणां चित्तवृत्तिर्न वेत्ति किम् ॥ १८५ ॥  
 नास्याश्चित्तं त्वयामेदि न जाने केन हेतुना । उपायकुशलाभासीत्यसौ तामभ्यतर्जयन् ॥ १८६ ॥  
 भोगोपभोगद्वारं रञ्जयं मनो यदि । तत्र यद्वस्तु नान्यत्र तत्त्वमेऽप्युपलभ्यते ॥ १८७ ॥  
 अथ शौचादिभी रामसदृशो न क्वचित्पुमान् । वीणादिभिश्चेत्सा सर्वकलागुणविशारदा ॥ १८८ ॥  
 सुग्रहं तलहस्तेन भूमिद्वैभानुमण्डलम् । पातालादपि शेषाहिः सुहरो डिम्भकेन च ॥ १८९ ॥  
 समुत्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्धरा । भेत्तुं शीलवतीचित्तं न शक्यं मन्मथेन च ॥ १९० ॥  
 इत्याख्यत्साप्यदः पापादवकर्ण्य स रावणः । निर्मलैः केतनैर्द्वारापश्यतां जनयद्गशम् ॥ १९१ ॥  
 हंसावलीति सन्देहं नवनिमोकहासिभिः । दिशो मुखरयद्धेमघण्टाचटुलनिःस्वनैः ॥ १९२ ॥  
 कुर्वद्यनैर्घनाश्लेषं विन्निट्टैरिव बन्धुभिः । ययौ पुष्पकमारुह्य गगने सह मन्त्रिणा ॥ १९३ ॥  
 १ ध्वजदण्डाग्रनिभिश्चवारिदच्युतवाल्लवैः । मन्दगन्धबहानीतैर्विनीताध्वपरिश्रमः ॥ १९४ ॥  
 सीतोत्सुकस्तथा गच्छन् ददशे पुष्पकस्थितः । शरद्वलाहकान्तःस्थो वासौ नीलवलाहकः ॥ १९५ ॥  
 सम्प्राप्य चित्रकूटाख्यं २ प्रधानं नन्दनं वनम् । प्रविष्ट इव सीतायाश्चित्तं तुष्टिमगादलम् ॥ १९६ ॥

तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥ १८२ ॥ शूर्पणखाके वचन सुन रावणने वह सब भूठ समझा और अपनी चेष्टा तथा मुखाकृति आदिसे क्रोधाग्निको प्रकट करना हुआ वह कहने लगा कि हे मुग्धे ! ऐसा कौन विषवादी—गारुड़िक है जो सर्पका निःश्वास तथा फणाका विस्तार देख उसके भयसे उसे पकड़ना छोड़ देता है ॥ १८३-१८४ ॥ उसकी बाह्य धीरताके वचन सुनकर ही नू उससे डर गई और यहाँ वापिस चली आई । स्त्रियोंकी चित्तवृत्ति हार्थीके कानके समान चञ्चल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ॥ १८५ ॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया । तू उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है । ऐसा कह रावणने शूर्पणखाको खूब डाँट दिखाई ॥ १८६ ॥ इसके उत्तरमें शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोगोपभोगकी वस्तुओंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके पास हैं वे अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं मिलती हैं ॥ १८७ ॥ यदि शूर-वीरना आदिके द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूर-वीर पुरुष कहीं नहीं है । यदि वीणा आदिके द्वारा उसे वश करना चाहती तो वह स्वयं समस्त कला और गुणोंमें विशारद है । भूमि पर खड़े हुए लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालकभी पाताल लोकसे शेषनागका हरण कर सकता है ॥ १८८-१८९ ॥ और समुद्र सहित पृथिवी उठाई जा सकती है परन्तु शीलवती स्त्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता । शूर्पणखाके वचन सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमान पर सवार हो मन्त्रीके साथ आकाशमार्गसे चल पड़ा । पुष्पक विमान पर सौंपकी नई काँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पताकाएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको 'यह हंसोंकी पंक्ति है' ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था । सुवर्णकी बनी छोटी-छोटी घण्टियोंके चञ्चल शब्दोंसे वह पुष्पक विमान दिशाओंको मुखरित कर रहा था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिङ्गन कर रहा था मानो बिल्लुड़े हुए बन्धुओंके साथ ही आलिङ्गन कर रहा हो ॥ १९०-१९३ ॥ उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंसे पानीकी छोटी-छोटी बूँदे ऋद्धने लगती थीं, मन्द-मन्द वायु उन्हें उड़ा कर ले आती थी जिससे रावणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता जाता था ॥ १९४ ॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद् ऋतुके मेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥ १९५ ॥ जब वह चित्रकूट नामक आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सन्तुष्ट हुआ मानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका



तदाज्ञयाथ मारीचः परार्घ्यमणिनिमित्तः । भूत्वा हरिणपोतोऽसौ सीतायाः स्वमदर्शयत् ॥ १९७ ॥  
 तं मनोहारिणं दृष्ट्वा पश्य नाथातिकौतुकम् । हरिणश्चित्रवर्णोऽयं रञ्जयत्यञ्जसा मनः ॥ १९८ ॥  
 इति सीतावचः श्रुत्वा विनेतुं तत्कुरूहलम् । तदानिनीपया गत्वा रामो वामे विधौ विधिः ॥ १९९ ॥  
 ग्रीवाभङ्गेन वा पश्यन् कुर्वन् दूरं पुनः ह्युतिम् । वल्गन् धावन् क्षणं खादन् विभयो वाकृणाङ्कुरम् ॥ २०० ॥  
 हस्तग्राह्यमिवात्मानं कृत्वोद्दृष्ट्वातिदूरगः । वृथा कर्षति मां मायामृगो वैषोऽतिदुर्ग्रहः ॥ २०१ ॥  
 वदन्नित्यन्वगात्सोऽपि मृगोऽगाद्गनाङ्गणम् । कुतः कृत्यपरामर्शः स्त्रीवशीकृतचेतसाम् ॥ २०२ ॥  
 लोकमानो नभो रामस्तनुतामतिरूपयन् । तस्थौ तथैव विभ्रान्तो घटान्तरगताहिवन् ॥ २०३ ॥  
 'अथातो रामरूपेण परिवृत्तो दन्वाननः । सीतामित्वा पुरोधत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥ २०४ ॥  
 वारुणीदिक् प्रिये पश्य बिम्बमेघांशुमालिनः । सिन्दूरतिलकं न्यस्तं बिभ्रतीव विराजते ॥ २०५ ॥  
 आरोह शिबिकां तस्मादाशु सुन्दरि बन्धुराम् । १पुरीगमनकालोऽयं वर्तते सुखरात्रये ॥ २०६ ॥  
 इत्यवादीरादाकर्ण्य सा मायाशिविकाकृति । विमानं पुष्पकं मोहादारुरोह धरासुता ॥ २०७ ॥  
 रामं वा तुरगारूढमात्मनं स्म प्रदर्शयन् । मर्हागतमिव भ्रान्तिं जनयन् दुहितुर्महैः ॥ २०८ ॥  
 तां भुजङ्गीमिवानैषीदुपायेन स्वमृत्यवे । पतिव्रताग्रगां पापी मायाशुद्भुदर्शाननः ॥ २०९ ॥  
 क्रमालङ्कामवाप्यैनामवतार्य वनान्तरे । सद्यो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनक्रमम् ३ ॥ २१० ॥

हो ॥ १६६ ॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मारीचने श्रेष्ठ मणियोंसे निर्मित हरिणके बच्चेका रूप बनाकर अपने आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥ १६७ ॥ उस मनोहारी हरिणको देखकर सीता रामचन्द्रजीमे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देखिये, यह अनेक वर्णोंवाला हरिण हमारे मनको अनुरञ्जित कर रहा है ॥ १६८ ॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होने पर बुद्धि रहित रामचन्द्र सीताके बचन सुन उसका कुतूहल दूर करनेके लिए उस हरिणको लानेके इच्छासे चल पड़े ॥ १६९ ॥ वह हरिण कभी तो गरदन मोड़ कर पीछेकी ओर देखता था, कभी दूर तक लम्बी छलाङ्ग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, और कभी निर्भय हो घासके अङ्कुर खाने लगता था ॥ २०० ॥ कभी अपने आपको इतने पास ले आता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे और कभी उछल कर बहुत दूर चला जाता था । उसकी ऐसी चेष्टा देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है और कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चले गये परन्तु कुछ समय बाद ही वह उछल कर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्त्रीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ होता है ? ॥ २०१-२०२ ॥ जिस प्रकार घड़ेके भीतर रखा हुआ साँप दुखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी ओर देखते तथा अपनी हीनताका वर्णन करते हुए वहीं पर आश्चर्यसे चकित होकर ठहर गये ॥ २०३ ॥

अथानन्तर-रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर सीताके पास आया और कहने लगा कि मैंने उस हरिणको पकड़कर आगे भेज दिया है ॥ २०४ ॥ हे प्रिये ! अब सन्ध्याकाल हो चला है । देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-बिम्बको धारण करती हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सिन्दूरका तिलक ही लगाये हो ॥ २०५ ॥ इसलिए हे सुन्दरि ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर सवार होओ, सुखपूर्वक रात्रि बितानेके लिए यह नगरीमें वापिस जानेका समय है ॥ २०६ ॥ रावणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकार बना दिया । सीता भ्रान्तिवश उसपर आरूढ़ हो गई ॥ २०७ ॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण अपने आपको ऐसा दिखाया मानो घोड़ेपर सवार पृथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों ॥ २०८ ॥ इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण उपाय द्वारा पतिव्रताओंमें अग्रगामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी मृत्युके लिए ले गया ॥ २०९ ॥ क्रम क्रमसे लङ्का पहुँचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा और शीघ्र ही माया

इन्द्रनीलच्छविं देहं गृहार्थं शिष्यसन्ततेः । आचार्यो वा स तस्याः स्वं मुचिरात्ममदर्शयन् ॥ २११ ॥  
 भयेन लज्जया रामविरहोत्थशुचा च सा । अगाद्राजमुता मूर्च्छामनिक्कृच्छ्रप्रतिक्रियाम् ॥ २१२ ॥  
 सद्यः शीलवतीस्पर्शाद्विद्या गनगगामिनी । विनश्यतीति भीत्वाऽसौ जानकीं स्वयमस्पृशन् ॥ २१३ ॥  
 विद्याधरः समाहूय शीताम्बुपवनादिभिः । मूर्च्छामस्या निराकुर्युरिति दक्षा न्ययोजयन् ॥ २१४ ॥  
 उपायैस्ताभिरुद्धतमूर्च्छाऽवोचद्वरासुता । यूयं काः कः प्रदेशोऽयमिति शङ्काकुलाशया ॥ २१५ ॥  
 विद्याधर्यो वर्यं लङ्कापुरमेतन्मनाहरम् । वनं रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपनेरिदम् ॥ २१६ ॥  
 त्वाद्दशी वनिता लोके न काचित्पुण्यभागिनी । महेंद्रमिव पौलोमी सुभद्रेवादिभूपतिम् ॥ २१७ ॥  
 श्रीमती वज्रजङ्घं वा त्वमेनं कुरु ते पतिम् । स्वामिनी भव सौभाग्याद्रावणस्य महाश्रियः ॥ २१८ ॥  
 जानकी ताभिरित्युक्ता सुदूना दीनमानसा । किं पौलोम्यादयः शीलभङ्गेन ताः पतीन् स्वयम् ॥ २१९ ॥  
 प्राणेभ्योऽप्यधिकान् का वा विक्रीणन्ति गुणान् श्रिया । त्रिखण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु पटखण्डस्याग्निलस्य वा  
 किं तेन यदि शीलस्य खण्डनं मण्डनस्य मे । प्राणाः सतां न हि प्राणाः गुणाः प्राणाः प्रियास्तनः ॥ २२१ ॥  
 तद्दृश्ययात्पालयाम्येतान् गुणप्राणाञ्च जीविकाम् । स्मृतिविनश्वरी यातु विनाशमविनश्वरम् ॥ २२२ ॥  
 विनश्यति न मे शीलं कुलशैलानुकारि तन् । इति प्रत्युत्तरं श्रुत्वा गृहीत्वा सा व्रतं तदा ॥ २२३ ॥  
 वदिष्यामि न भोक्ष्ये च यावन्न श्रूयते मया । रामस्य क्षेमवार्तेति मनसालोच्य मुञ्चता ॥ २२४ ॥  
 अवबोधितवैधव्यविरुद्धस्वरूपभूषणा । यथार्थं चिन्तयन्त्यास्त सन्ततं संभृतेः स्थितिम् ॥ २२५ ॥

दूरकर उसके लानेका क्रम सूचिन किया । जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराके लिए किसी गूढ़ अर्थको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति वाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया ॥ २१०-२११ ॥ उसे देखते ही राजपुत्री सीता, भयसे, लज्जासे, और रामचन्द्रके विरहसे उत्पन्न शोकसे तीव्र दुःखका प्रतिकार करनेवाली मूर्च्छाको प्राप्त हो गई ॥ २१२ ॥ शीलवती पतिव्रता स्त्रीके स्पर्शसे मेरी आकाशगामिनी विद्याशीघ्र ही नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया ॥ २१३ ॥ किन्तु चतुर विद्याधरियोंको बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल तथा हवा आदिसे इसकी मूर्च्छा दूर करो ॥ २१४ ॥ जब उन विद्याधरियोंके अनेक उपायोंसे सीताकी मूर्च्छा दूर हुई तब शङ्कासे व्याकुल-हृदय होती हुई वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं ? और यह प्रदेश कौन है ? ॥ २१५ ॥ इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगीं कि हम लोग विद्याधरियाँ हैं, यह मनोहर लङ्कापुरी है, और यह तीन खण्डके स्वामी राजा रावणका वन है । इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी स्त्री पुण्यशालिनी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्ती को और श्रीमतीने वज्रजङ्घको अपना पति बनाया था उसी प्रकार आप भी इस रावणको अपना पति बना रही हैं । आप सौभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक रावणकी स्वामिनी होओ ॥ २१६-२१८ ॥ इस प्रकार विद्याधरियोंके कहनेपर सीता बहुत ही दुःखी हुई, उसका मन दीन हो गया । वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी आदि स्त्रियाँ अपना शील भङ्गकर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ? ॥ २१९ ॥ ऐसी कौनसी स्त्रियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने गुणोंको लक्ष्मीके बदले बेच देती हों । रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी हो और चाहे समस्त लोकका स्वामी हो ॥ २२० ॥ यदि वह मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? सज्जनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होते हैं ॥ २२१ ॥ मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा करूँगी जीवनकी नहीं । यह नश्वर शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुलाचलोंका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर उत्तम शील व्रतको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि जबतक रामचन्द्रजीकी कुशलताका समाचार नहीं सुन लूँगी तबतक न देखूँगी और न भोजन ही करूँगी ॥ २२२-२२४ ॥ वैधव्यपना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़ेसे ही आभूषण रख छोड़े थे वाकी सब दूरकर दिये थे ऐसी सीता वहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने

प्रादुरास्तंदात्पाता लङ्कायां किङ्करा इव । तद्ध्वंसिकालराजस्य समन्तान्प्रदायिनः ॥ २२६ ॥  
 उत्पन्नमायुधागारे चक्रं वा कालचक्रवत् । यज्ञशालाप्रबद्धस्य वस्तकस्यैव शाड्वलम् ॥ २२७ ॥  
 तदुत्पत्तिफलस्यास्या नवबोद्धः खगेशिनः । ज्वलदारं महाचक्रं महातोषमजीजनत् ॥ २२८ ॥  
 रामो नाम बलो भावी लक्ष्मणोऽप्यनुजातवान् । तस्य रूढप्रतापौ तौ द्वाप्यभिमुखोदयौ ॥ २२९ ॥  
 सीता शीलवती नेयं जीवन्ती ते भविष्यति । अभिभूतिः सशीलानामत्रैव फलदायिनी ॥ २३० ॥  
 उत्पाताश्च पुरेऽभूवन् बहवोऽद्युभसूचकाः । लोकद्वयाहितं वाढमयश्च युगावधि ॥ २३१ ॥  
 मुच्यतां मंङ्गिर्यं यावन्न<sup>१</sup> चेदं हृदिमृच्छति । इति युक्तिमतीं वाणीमुक्तो मन्व्यादिभिस्तदा ॥ २३२ ॥  
 प्रत्यभाषत लङ्केशो यूयं युक्तिविरोधि किम् । अस्मृत्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥  
 चक्ररत्नं समुत्पन्नं सीतापहरणेन मे । पट्खण्डार्धाधिपत्यं च तेन चिन्त्यं करस्थितम् ॥ २३४ ॥  
 स्वयं गृहागतां लक्ष्मीं हन्यात्पादेन को विधीः । इति तन्नाषितं श्रुत्वा न्यरमन् हितवादिनः ॥ २३५ ॥  
 इतः परिज्जो रामं मायामणिमृगानुगम् । विपिने नष्टद्विभागं सूर्येऽस्ताचलमेयुषि ॥ २३६ ॥  
 अष्टद्वान्विष्य सीतां च वैमनस्यमगात्तराम् । सद्यः<sup>३</sup>स्तनोर्वियोगोऽपि स्वामिनः केन सद्यते ॥ २३७ ॥  
 भानाबुदयमायाति मर्त्यलोकैकैश्चक्षुषि । ध्वान्ते भियेव निर्याति दलन्तीष्वब्जराशिषु ॥ २३८ ॥  
 घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुदा । अर्थः शब्देन वा योगं साधुना जानकीप्रियः ॥ २३९ ॥

लगी ॥ २२५ ॥ उसी समय लङ्कामें उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किकरोंके समान भय उत्पन्न करने-  
 वाले अनेक उत्पात सब और होने लगे ॥ २२६ ॥ जिस प्रकार यज्ञशालामें बँधे हुए बकराके समीप  
 हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामें कालचक्रके समान चक्ररत्न प्रकट हुआ ।  
 विद्याधरोंका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था—उसे यह नहीं मालूम था कि  
 इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हो रहा है ऐसे उस महाचक्रने  
 उसे बहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया ॥ २२७—२२८ ॥

तदनन्तर मन्त्रियोंने उसे समझाया कि 'रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, और उनका छोटा  
 भाई लक्ष्मण नारायण होनेवाला है । इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा है और दोनों ही महान्  
 अभ्युदयके सन्मुख हैं । सीता शीलवती स्त्री है, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी । शीलवान् पुरुषका  
 तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है । इसके सिवाय नगरमें अशुभकी सूचना देनेवाले बहुत भारी  
 उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एवं युगान्ततक अपयश बढ़ानेवाले इस  
 कुकार्यको उसके पहले ही शीघ्र छोड़ दो जबतक कि यह बात सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती है' । इस  
 प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिसे भरे वचन रावणसे कहे । रावण प्रत्युत्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप  
 लोग बिना कुछ सोचे-विचारे ही युक्ति-विरुद्ध वचन क्यों कहते हैं ? अरे, प्रत्यक्ष वस्तुमें विचार  
 करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीताका अपहरण करनेसे ही मेरे चक्ररत्न प्रकट हुआ है,  
 इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमें ही आगया यह सोचना चाहिये । ऐसा कौन मूर्ख  
 होगा जो घरपर आई हुई लक्ष्मीको पैरसे ठुकरावेगा' । इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका  
 उपदेश देनेवाले सब मन्त्री चुप हो गये ॥ २२९—२३५ ॥

इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे बने मायामय मृगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे चले  
 गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये और सूर्य अस्ताचलपर चला गया । परिवारके लोगोंने  
 उन्हें तथा सीताको बहुत ढूँढा पर जब वे न दिखे तो बहुत ही खेद-खिन्न हुए । सो ठीक ही है  
 क्योंकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है ॥ २३६—  
 २३७ ॥ सबेरा होनेपर मनुष्य-लोकके चक्षुस्वरूप सूर्यका उदय हुआ, अन्धकार मानो भयसे  
 भाग-गाया, कमलोकें समूह फूल उठे, रात्रिके कारण परस्पर द्वेष रखनेवाले चक्रवा-चक्रवियोंके  
 युगल हर्षसे मिलने लगे और जिस प्रकार अर्थ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको प्राप्त होता है अथवा

स्वयं परिजनेनापि भास्करो दिवसेन वा । दृष्ट्वा तं मन्प्रिया क्रेति नृपः प्रपृच्छ साकुलः ॥ २४० ॥  
 देव देवी च देवो वा नास्माभिरवलोकितः । देवी छायेव ते तस्मात्त्वमवैर्षीति सोऽभ्यधात् ॥ २४१ ॥  
 १ इति तद्वचनाह्लदधरन्ध्रा रामं समग्रहीत् । मूच्छां सीतासपत्नीव मोहयन्ती मनः क्षणम् ॥ २४२ ॥  
 तदा शीतक्रिया सीतासखीव सहसा नृपम् । व्यश्लेषयत्ततः सोऽपि क्व सीतिति प्रबुद्धवान् ॥ २४३ ॥  
 देवीं परिजनः सर्वः समन्तात्प्रतिभूरुहम् । अन्वेषयन् विलोक्योत्तरीयं वंशविदारितम् ॥ २४४ ॥  
 तस्यास्तदा तदानीय राघवाय समर्पयत् । उत्तरीयांशुकं देव्या भवत्येतदितः कुतः ॥ २४५ ॥  
 इति विशाततत्त्वं शोकव्याकुलमानसः । सहानुजस्ततश्चिन्तां कुर्वन्नुवांश्वरः स्थितः ॥ २४६ ॥  
 तत्क्षणे सम्भ्रमाक्रान्तो दूतो दशरथान्तिकात् । तं प्राप्य विनतो मृतां कार्यमित्थमभापत् ॥ २४७ ॥  
 गृहीत्वा रोहिणीं राहौ प्रयाते गगनान्तरम् । एकाकिनं तुपारांशुं भ्राम्यन्तं समलंकिपि ॥ २४८ ॥  
 स्वप्ने किं फलमेतस्येत्यन्वयुञ्क्त महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सीतामथ दशाननः ॥ २४९ ॥  
 गृहीत्वायात्स मायावी रामः स्वामी च कानने । तां समन्वेपितुं शोकादाकुलो भ्राम्यति स्वयम् ॥ २५० ॥  
 मङ्गुलु दूतमुखदादेत्प्रापणीयमिति स्फुटम् । तद्राजाज्ञागतोऽस्मीति लेखगर्भं करण्डकम् ॥ २५१ ॥  
 न्यधाञ्चाग्ने तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोच्य पत्रमत्रस्थं स्वयमित्थमवाचयत् ॥ २५२ ॥  
 इतो विनीतानगरात् श्रीमतः श्रीमतां पतिः । प्रेमप्रसारितान्भीयभुजाभ्यां स्वप्रियात्मजौ ॥ २५३ ॥

सूर्य दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीवल्लभ रामचन्द्रजी परिवारके लोगोके साथ आ मिले। परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता कहाँ है ? परिजनने उत्तर दिया कि हे देव ! हम लोगोंने न आपको देखा है और न देवीको देखा है। देवी तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि वह कहाँ गई ? इस प्रकार परिजनके वचनोंसे प्रवेश पाकर क्षण भरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी सपत्नीके समान मूच्छाने रामचन्द्रको पकड़ लिया—उन्हें मूच्छां आ गई ॥ २३६-२४२ ॥ तदनन्तर-सीताकी सखीके समान शीतोपचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मूच्छासे जुदा किया और 'सीता कहाँ है ? ऐसा कहते हुए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये ॥ २४३ ॥ परिजनके समस्त लोगोंने सीताको प्रत्येक वृक्षके नीचे खोजा पर कहाँ भी पता नहीं चला। हाँ, किसी वंशकी भाड़ीमें उसके उत्तरीय वस्त्रका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सौंप दिया। उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वस्त्र है, यहाँ कैसे आया ? ॥ २४४-२४५ ॥ थोड़ी ही देरमें रामचन्द्रजी उसका सब रहस्य समझ गये। उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया और वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे ॥ २४६ ॥ उसी समय संभ्रमसे भरा एक दूत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा और मस्तक झुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥ २४७ ॥ उसने कहा कि आज महाराज दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर दूसरे आकाशमें चला गया है और उसके विरहमें चन्द्रमा अकेला ही वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है। स्वप्न देखनेके बाद ही महाराजने पुरोहितसे पूछा कि 'इस स्वप्नका क्या फल है ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी रावण सीताको हरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे आकुल हो वनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। दूतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र ही उनके पास भेज देना चाहिये। इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा और महाराजकी आज्ञानुसार मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कह दूतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया। रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार बाँचने लगे ॥ २४८-२५२ ॥ उसमें लिखा था कि इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीवानोंके स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे फैलाई हुई अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलिङ्गनकर तथा उनके शरीरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर

परिष्वज्यानुयुज्याङ्गक्षेमवार्ता ततः परम् । इदमाज्ञापयत्यत्र दक्षिणाब्धन्तरस्थिताः ॥ २५४ ॥  
 पटपञ्चाशान्महाद्वीपाश्रकवर्त्यनुवर्तिनः । केशवाश्च स्वमाहात्म्यात्तद्वर्षपरिरक्षणः ॥ २५५ ॥  
 द्वीपोऽस्ति तेषु लङ्काख्यास्त्रिकूटाद्रिविभूषितः । तस्मिन् विनमिसन्तानविद्याधरधरेशिनाम् ॥ २५६ ॥  
 चतुष्टये व्यतिक्रान्ते प्रजापालनलोलुपे<sup>१</sup> । रावणाख्यः खलो लोककण्टकः स्त्रीषु लम्पटः ॥ २५७ ॥  
 ततोऽभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपलावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाश्रितम् ॥ २५८ ॥  
 तदैव मदनामोषवाणनिभिन्नमानसः । पौलस्त्यो ध्वस्तधीधैर्यो मायावी न्यायदूरगः ॥ २५९ ॥  
<sup>२</sup>अनन्यवेषमारास्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम् । अनैषीद्यावदस्माकमुद्योगसमयो भवेत् ॥ २६० ॥  
 तावत्स्वकायसंरक्षा कर्तव्येति प्रियां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोऽग्र्यं दूतं स्वं धीरयञ्जिति ॥ २६१ ॥  
 पितृलेखार्थमाध्याय रुद्धशोकः क्रुधोद्धतः । अन्तकस्याङ्गमारोढुं स लङ्केशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥  
 शशस्य सिंहपोतेन किं विरोधेऽस्ति जीविका । सत्यमासन्नमृत्यूनां सद्यो विध्वंसनं मतेः ॥ २६३ ॥  
 इत्युद्धतोदितैः क्रोपमाविश्रक्रोऽथ लक्ष्मणः । जनको भरतः शत्रुघ्नश्च<sup>३</sup> तद्वृत्तकश्चुतेः ॥ २६४ ॥  
 सम्प्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद् । वाक्यैः शोकं समं नेतुं तदैवं ते समब्रुवन् ॥ २६५ ॥  
 चौर्येण रावणस्यैव परदारापहारिणः । पराभवः परिद्रोग्धा दुरात्माऽधर्मवर्तनः ॥ २६६ ॥  
 सीतान्नापेन दाह्योऽसौ निविचार्यमकार्यकृत् । महापापकृतां पापमस्मिन्नेव फलिष्यति ॥ २६७ ॥  
 उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि सीताप्रत्ययनं प्रति । इति तैर्बोधितो<sup>४</sup> रामः सुसोत्थित इवाभवत् ॥ २६८ ॥

समुद्रके बीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके अनुगामी हैं अर्थात् उन सबमें चक्रवर्तीका शासन चलता है। नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन द्वीपोंमेंसे आधे द्वीपोंकी रक्षा करते हैं ॥ २५३-२५५ ॥ उन द्वीपोंमें एक लङ्का नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुशोभित है। उसमें क्रम-क्रमसे राजा विनमिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हुआ है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है ॥ २५६-२५७ ॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखने वाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य और कान्ति आदिका वर्णन किया। उसी समय रावणका मन कामदेवके श्रमोष वाणोंसे खण्डित हो गया। उसकी बुद्धिकी धीरता जाती रही। न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह मायावी जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह-गुप्तरूपसे आकर सती सीताको किसी उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोंके उद्योग करनेका समय आता है तबतक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये इस प्रकार प्रिया-सीताके प्रति उसे समझानेके लिए कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिये। ऐसा महाराज दशरथने अपने पत्रमें लिखा था। पिताके पत्रका मतलब समझकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे उद्धत हो उठे। वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमें चढ़ना चाहता है ॥ २५८-२६२ ॥ सिंहके बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है? सच है कि जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ २६३ ॥ इस प्रकार रोष भरे शब्दों द्वारा रामचन्द्रने क्रोध प्रकट किया। तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत और शत्रुघ्न यह समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण शब्दों द्वारा उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥ २६४-२६५ ॥ उन्होंने कहा कि रावण चोरीसे परस्त्री हर कर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है। वह द्रोह करने वाला है, दुष्ट है और अधर्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है। उसने चूँकि बिना विचार किये ही यह अकार्य किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है। महापाप करनेवालोंका पाप इसी लोकमें फल देता है ॥ २६६-२६७ ॥ अब सीताको वापिस लानेका कोई उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार उन सबके द्वारा समझाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो

तत्काले खेचरद्वन्द्वं दौवारिकनिवेदितम् । नृपानुगतमागत्य यथोचितम<sup>१</sup>लोकत ॥ २६९ ॥  
 भविष्यद्वलदेवोऽपि कृततद्योगसम्पदः । एतदागमनं कस्मात्कौ भवन्तौ कुमारकौ ॥ २७० ॥  
 इत्यन्वयुक्त सुग्रीवस्तत्रेदं सम्यगब्रवीत् । खगाद्रिदक्षिणश्रेण्यां पुरं किलकिलाह्वयम् ॥ २७१ ॥  
 तदर्धाशो बलीन्द्राख्यो विख्यातः खचरं प्वसौ । प्रियङ्गुसुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूज्वयौ ॥ २७२ ॥  
 बालिसुग्रीवनामानावजायावहि भूभुजाम् । पितर्युपरतेऽजायताग्रजस्याधिराजता ॥ २७३ ॥  
 ममापि युवराजत्वमजनिष्ट क्रमागतम् । एवं गच्छति तत्स्थानमपहृत्य मदग्रजः ॥ २७४ ॥  
 लोभाक्रान्ताशयो देशान् स निर्वासयति स्म माम् । एषोऽपि दक्षिणश्रेण्यां विद्युत्क्रान्तापुरेशिनः ॥ २७५ ॥  
 प्रभञ्जनखगार्धाशस्तनूजोऽमिततेजवाक् । त्रिधाविद्योऽञ्जनादेव्यामव्याहृतपराक्रमः ॥ २७६ ॥  
 नभश्चरकुमाराणां समुदाये परस्परम् । कदाचिदागमविद्यानामनुभावपरीक्षणे ॥ २७७ ॥  
 विजयार्द्धगिरेर्मूर्ध्नि क्रमं विन्यस्य दक्षिणम् । वामपादेन भास्वन्तमपह्राय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥  
 त्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमकृताद्भुतम् । ततः प्रभृति विद्येशैविस्मर्याहितमानसैः ॥ २७९ ॥  
 अणुमानिति हर्षेण निखिलैरभ्यघ्राय्ययम् । पीतव्याकरणाभ्योधिः सखा प्राणाधिको मम ॥ २८० ॥  
 गत्वा कदाचिदेतेन सह सम्मेदपर्वतम् । सिद्धकूटाभिधे तीर्थक्षेत्रेऽर्हत्प्रतिमा बहूः ॥ २८१ ॥  
 अभ्यर्च्य भक्त्या बन्दिन्त्वा स्थितोऽस्मिन् शुभभावनः । जटामुकुटसन्धारी<sup>२</sup>मुक्तापज्ञोपवीतकः ॥ २८२ ॥  
 काषायवस्त्रः कक्षावलम्बितकमण्डलुः । करोद्धृतातपत्राणो नैष्टिकब्रह्मसद्भृतः ॥ २८३ ॥  
 नारदो<sup>३</sup>विशिखारूढो रौद्रध्यानपरायणः । अवतीर्य नभोभागात्परीत्य जिनमन्दिरम् ॥ २८४ ॥

गये ॥ २६८ ॥ उसी समय द्वारपालोंने दो विद्याधरोंके आनेका समाचार कहा । राजा रामचन्द्रने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥ २६९ ॥ होनहार बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कहाँसे आये हैं ? और आप कौन हैं ? इसके उत्तरमें सुग्रीव कहने लगा कि विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक किलकिल नामका नगर है । विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका स्वामी था । उसकी प्रियङ्गुसुन्दरी नामकी स्त्री थी । उन दोनोंके हम घाली और सुग्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़े भाई वालीको राज्य प्राप्त हुआ और मुझे क्रमप्राप्त युवराज पद मिला । इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे बड़े भाई वालीके हृदयको लोभने धर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर मुझे देशसे बाहर निकाल दिया । यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी । सो यह भी दक्षिण श्रेणीके विद्युत्क्रान्त नगरके स्वामी प्रभञ्जन विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है । यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, अञ्जना देवीमें उत्पन्न हुआ है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है ॥ २७०-२७६ ॥ किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्याओंके माहात्म्यकी परीक्षा देनेकी बात निश्चित हुई । उस समय इसने विजयार्ध पर्वतके शिखर पर दाहिना पैर रखकर बायें पैरसे सूर्यके विमानमें ठोकर लगाई । तदनन्तर उसी क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया । यह देख, विद्याधरोंके चित्त आश्चर्यसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े हर्षसे इसका 'अणुमान् यंह नाम रक्खा । इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात् यह सब प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥ २७७-२८० ॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ सम्मेदशिखर पर्वतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थक्षेत्रमें अर्हन्त भगवान्की बहुत सी प्रतिमाओंकी भक्ति पूर्वक पूजा बन्दनाकर वहींपर शुभ भावना करता हुआ बैठ गया । उसी समय वहाँपर विमानमें बैठे हुए नारदजी आ पहुँचे । वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे थे, मोतियोंका यज्ञोपवीत पहिने थे, गेरुवा वस्त्रोंसे सुशोभित थे, उनकी बगलमें रत्नोंका कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें छत्ता लिये हुए थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, और सदा रौद्रध्यानमें

१ यथातमत ल० ( ? ) । २ शुभयज्ञोपवीतकः ल० । ३-ऽविशिखारूढः ल० । ( विमानारूढः ) ।

समुपाविक्षदेकत्र जिनस्तवनपूर्वकम् । समुपेत्य तमप्राक्षं किं मुने स्थानमात्मनः ॥ २८५ ॥  
 सम्पद्यते न वेत्येतद्ब्रचनादब्रवीदसौ । रामलक्ष्मणयोरर्द्धभरतस्वामिताचिरात् ॥ २८६ ॥  
 भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताभ्यां तवेप्सितम् । सम्पत्स्यते च तत्प्रेष्यं किञ्चिद्रामनोरमाम् ॥ २८७ ॥  
 विहरन्ती वने वीक्ष्य रावणो माययाऽग्रहीत् । तद्रामलक्ष्मणावद्य लङ्काभिगमनोचितम् ॥ २८८ ॥  
 अन्वेषितारौ पुरुषं तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्ब्रचनाचोषाद्देवास्मि त्वां प्रतीयिव १ ॥ २८९ ॥  
 तौ च तद्ब्रचनात्पूजामुचितां चक्रुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रभञ्जनतनूद्भवः ॥ २९० ॥  
 तवादेशोऽस्ति, वेद्देव्याः स्थानमन्वेषयाम्यहम् । तत्प्रत्ययार्थमाख्येयमभिज्ञानं महीपते ॥ २९१ ॥  
 इति तेनोक्तमाकर्ण्य विनम्यन्वयस्नेन्दुना । यथाभिप्रेतमेतेन प्रसेत्स्यत्यस्तसंशयम् ॥ २९२ ॥  
 इति मत्वा स्वनामाङ्गमुद्रिकां मत्प्रियेदृशी । वर्णादिभिरिति व्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ नृपः २ ॥ २९३ ॥  
 स रामचरणाम्भोजं विनम्य गगानान्तरम् । समुत्पत्य समुलङ्घ्य समुद्रं सन्निकृटकम् ॥ २९४ ॥  
 द्विषट्कयोजनायामं नवयोजनविस्तृतम् । द्वात्रिंशत्तगोपुरोपेतं रत्नप्राकारवेष्टितम् ॥ २९५ ॥  
 नानाभवनसंकीर्णं मणितोरणभास्वरम् । महामेरुसमुच्चूर्णं रावणावासभाजितम् ॥ २९६ ॥  
 अलिपुंस्कोकिलालापैलसत्कुसुमपल्लवैः । सरागहासं गायद्भिरिवोद्यानैर्मनोहरम् ॥ २९७ ॥  
 लङ्कानगरमासाद्य सीतान्वेषणतत्परः । गृहीतभ्रमराकारो दशाननसभागृहम् ३ ॥ २९८ ॥  
 इन्द्रजित्प्रमुखान् भूपङ्कमारान् वीक्ष्य सादरम् । मन्दोदरीभ्रमृत्येतद्वनितश्च निरूपयन् ॥ २९९ ॥  
 नताखिलखगाधीशमौलिमालाचिन्तकम् । मध्ये सिंहासनं सिंहाविक्रमं शक्रसन्निभम् ॥ ३०० ॥

तत्पर रहते थे । उन्होंने आकाशसे उतरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र भगवान्का स्तवन किया और तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये । मैंने उनके पास जाकर पूछा कि हे मुने ! क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मणका बहुत ही शीघ्र आधे भरतका स्वामीपना प्रकट होनेवाला है ॥ २८१-२८६ ॥ यदि तू उनके दूतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जावेगा । उन्हें दूत भेजने का कार्य यों आ पड़ा है कि रामकी स्त्री वनमें विहार कर रही थी उसे रावण छल पूर्वक हरकर ले गया है । इसलिए आज राम और लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए लङ्का भेजने योग्य किसी पुरुषकी खोज करते हुए बैठे हैं । इस प्रकार नारदके वचन सुनकर हे देव ! बड़े सन्तोषसे हम दोनों आपके पास आये हैं ॥ २८७-२८९ ॥ दोनों विद्याधरोंके उक्त वचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया । तदनन्तर प्रभञ्जनके पुत्र अणुमान् ( हनुमान् ) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी खोज करूँ । हे राजन् ! देवीको विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइये ॥ २९०-२९१ ॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विश्वास हो गया कि धिनमिके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा ॥ २९२ ॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप रङ्ग आदिमें ऐसी है यह स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नामसे चिह्नित मुद्रिका ( अंगूठी ) दे दी ॥ २९३ ॥ अणुमान् रामचन्द्रके चरण-कमलोंको नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ा और समुद्र तथा त्रिकूटाचलको लांघकर लङ्का नगरमें जा पहुँचा । वह लङ्का नगर बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा था, बत्तीस गोपुरोंसे सहित था, रत्नोंके कोटसे युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, रावणके मंहलोंसे सुशोभित था, एवं जिनमें भ्रमर और पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं तथा फूल और पत्ते सुशोभित हैं अतएव जो राग तथा हासके साथ गाते हुएसे जान पड़ते हैं ऐसे बाग-वगीचोंसे मनोहर था, ऐसे लङ्का नगरमें जाकर सीताकी खोजमें तत्पर रहनेवाले अणुमान्ने भ्रमरका रूप रख लिया और क्रम-क्रमसे वह रावणके सभागृह, इन्द्रजित् आदि राजकुमारों तथा मन्दोदरी आदि रावणकी स्त्रियोंको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था ॥ २९४-२९६ ॥ तदनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाओंके मुकुटोंकी मालाओंसे जिसके चरण-

नीलाद्रिमिव गङ्गोत्तरङ्गैश्च महीरुहैः । 'द्रोध्यमानमालोक्य रावणं रावितद्विपम् ॥ ३०१ ॥  
 अहो पापस्य कोऽप्येव विपाकोऽयमपीदृशः । किल धिग्धर्मसुलङ्घ्य परदाराभिलाषुकः ॥ ३०२ ॥  
 ध्रुवं तन्नारदेनाकमकालमरगं ध्रुवम् । भार्वाति भावयन् सीतां तन्सभायामलक्षयन् ॥ ३०३ ॥  
 मन्दमन्दप्रभे भानो दाने सति दिनात्यये । सहायसम्पदं प्रायो मन्वानः सम्पदावहाम् ॥ ३०४ ॥  
 उदयास्तमयौ नित्यं देहिनामिति रावणम् । रविर्ययौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन् ॥ ३०५ ॥  
 दूतो रामस्य गत्वाऽन्तःपुरपश्चिमगोपुरम् । आरुह्य लोकमानोऽयं भ्रमरारावराजितम् ॥ ३०६ ॥  
 वनं सर्वर्तुकं नाम नन्दनं नन्दनोपमम् । फलप्रसवभारावनञ्जकञ्जमहीरुहैः ॥ ३०७ ॥  
 मन्दगन्धवर्होद्धृतनानाप्रसवपांशुभिः । कृतकाद्रिसरोवार्पालतालालितमण्डपैः ॥ ३०८ ॥  
 मदनोद्दीपनैर्देवैरन्यैश्चातिमनोहरम् । दृष्ट्वा तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०९ ॥  
 तत्रैकस्मिन् समासन्नदेने विद्याधरीजनैः । सामादिभिर्वैशाकतुमिङ्गिताकारवेदिभिः ॥ ३१० ॥  
 परीतां शिशिपाक्षमाजमूले शोकाकुर्लाकृताम् । ध्यायन्तीं निश्रुतां शृत्वा शीत्वापि कुलक्षणैः ॥ ३११ ॥  
 सयनां शीलमालां वा समालोक्य धरात्मजाम् । इयं सा रावणानीना सीता ज्ञानाभिर्गणिनैः ॥ ३१२ ॥  
 अभिज्ञानैर्नृपेन्द्रेण मम पुण्योदयादिति । तद्दर्शनममुत्पन्नरागो रावगपापिना ॥ ३१३ ॥  
 कल्पवर्द्धव दावेन तापितेर्यं सतीत्यलम् । शोकाभितप्तचित्तोऽपि नीतिमार्गविशारदः ॥ ३१४ ॥

कमल पूजित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठे हैं, सिंहके समान पराक्रमी हैं, इन्द्रके समान हैं, दुरते हुए चमरोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो गङ्गाकी विशाल तरङ्गोंसे मुशोभित नीलाचल ही हो और जिसने समस्त शत्रुओंको रुला दिया है ऐसे रावणको देखकर अणुमानने सोचा कि इस पापीके यह ऐसा ही विचित्र कर्मका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उल्लंघनकर परन्धीकी इच्छा की ॥ ३००-३०२ ॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण होनेवाला है सो ठीक ही कहा था । इस प्रकार विचार करते हुए अणुमानने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी ॥ ३०३ ॥ धीरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गई, दिन अस्त हो गया और सूर्य रावणके लिए यह सूचना देता हुआ ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं वे सब प्रायः सम्पत्तिशालियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जिनने प्राणी हैं उन सबका उदय और अस्त नियमसे होता है ॥ ३०४-३०५ ॥ इस प्रकार सब ओरसे चिन्तन करता हुआ वह रामचन्द्रका दूत अणुमान् अन्तःपुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका वन देखने लगा । वह नन्दन वन भ्रमरोंके शब्दसे मुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही थी, साथ ही नन्दन-वनके समान जान पड़ता था, फल और फूलोंके बोझसे झुके हुए सुन्दर सुन्दर वृक्षों, मन्दमन्द वायुसे उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, कृत्रिम पर्वतों, सरोवरों, बावलियों, तथा लताओंसे मुशोभित मण्डपों और कामको उद्दीपित करनेवाले अन्य अनेक स्थानोंसे अन्यन्त मनोहर था । उसे देख वह अणुमान् कुछ देर तक हर्ष और कौतुकके साथ वहां खड़ा रहा ॥ ३०६-३०८ ॥ वहीं किसी समीपवर्ती स्थानमें उसने सीताको देखा । उस सीताको साम आदि उपायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्रयानुकूल चेष्टाओंको जानने वाली अनेक विद्याधरियों घेरे हुई थीं । वह शिंशपा वृक्षके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बैठी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीर्ण शीर्ण होकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयत्नशील थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी मानो शीलकी-पातिव्रत्य धर्मकी माला ही हो । ऐसी सीताको देख अणुमानने विचार किया कि यह वही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है । उसने राजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिह्नोंसे उसे पहिचान लिया और साथ ही यह विचार किया कि मेरे पुण्योदयसे ही मुझे आज इस सतीके दर्शन हुए हैं । दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ । उसने समझा कि जिस प्रकार दावानलके द्वारा कल्पलता संतापित होती है उसी प्रकार पापी रावणके द्वारा यह सती सन्तापित की गई है । इस प्रकार उसका चित्त यद्यपि शोकसे सन्तप्त हो



प्रारम्भकार्यसंसिद्धाद्युद्यतस्य विवेकिनः । प्राहुर्नीतिविदः कोपं व्यसनं कार्यविघ्नकृत् ॥ ३१५ ॥  
 तस्मादस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षमः । निजागमन<sup>१</sup>वार्तां तामवबोधयितुं सतीम् ॥ ३१६ ॥  
 मनागवसरावेक्षी स्थितस्तावन्निशाकरः । उदयक्षमाभृदुन्नासिचूडामणिनिभो बभौ ॥ ३१७ ॥  
 दशाननोऽप्यतिक्रान्ते तत्रास्या दिनसप्तके । सीता कीदृगवस्थेति चिन्तयन् दीपिकावृतः ॥ ३१८ ॥  
 दीव्यत्कल्पद्रुमोपेतनीलाद्रिविजङ्गमः । निरीक्षितुं तथैवायात् सोत्कण्ठोऽन्तःपुरान्वितः ॥ ३१९ ॥  
 मङ्गलुः कुशलोदन्तं संश्रोष्यामि कदा न्विति । मत्वा तां स्तिमिताकारां चिरं वीक्ष्य सविस्मयः ॥ ३२० ॥  
 न काचिच्चदृशा स्त्रीषु <sup>२</sup> पतिभक्तंति चिन्तयन् । अपसृत्य स्थितः किञ्चिद् दूर्तीं मञ्जरिकाभिधाम् ॥ ३२१ ॥  
 प्राहिणोत्तदभिप्रायं परिज्ञातुं विवेकिनीम् । जानकीं विनयेनासौ प्रपथ शृणु मद्बचः ॥ ३२२ ॥  
 भट्टारिके खगेन्द्रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मजाः । देव्यः पञ्चसहस्राणि त्वत्समाना मनोरमाः ॥ ३२३ ॥  
 तासां स्वं स्वामिनी भूत्वा महादेवीपदे स्थिता । त्रिल्लण्डाधिपतेभूयाः सश्रीर्वक्षःस्थले चिरम् ॥ ३२४ ॥  
 विफलं मा कृथा विद्युच्चपलं तव यौवनम् । हस्तात्पुलस्तिपुत्रस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ ३२५ ॥  
 वितर्कणं कदम्बोरुवनं वा विद्धि निष्फलम् । क्षुधातानिकपारातिवक्त्रान्तर्वीतनं मृगम् ॥ ३२६ ॥  
 परित्याजयितुं ब्रूहि कः समर्थतमः पुमान् । इत्यभ्यधात्तदाकर्ण्य निश्चला वसुधासुता ॥ ३२७ ॥  
 वसुधेव स्थिता भेत्तुं के वा शक्ताः पतिव्रताम् । <sup>३</sup>तां दृष्ट्वा खेचराधीशः स्वयमागत्य कातरः ॥ ३२८ ॥  
 कुलं चेद्रक्षितुं तिष्ठेन्न विचारक्षमं हि तत् । लज्जा चेद्धीनसम्बन्धात्सा तस्याः प्रसवोऽत्र न ॥ ३२९ ॥

गया तथापि वह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है और कार्यमें विघ्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं । इसलिए असमयमें क्रोध करना व्यर्थ है ऐसा विचारकर उसने जमा धारण की और उस पतिव्रताको अपने आनेका समाचार बतलानेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ वह वहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया । उसी समय चन्द्रमाका उदय हो गया और वह उदयाचलके शिखर पर चूडामणिके समान सुशोभित होने लगा ॥ ३१०-३१७ ॥ उसी समय 'आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः देखना चाहिये कि उसकी क्या दशा है' ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया । वह अनेक दीपिकाओंसे आवृत था— उसके चारों ओर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो देदीप्यमान कल्पवृक्षोंसे सहित चलता फिरता नीलगिरि ही हो । वह उत्कण्ठासे सहित था तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे युक्त था ॥ ३१८-३१९ ॥ 'मैं अपने पतिका कुशल समाचार कब सुनूँगी' ऐसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बैठी हुई थी । उसे रावण बड़ी देर तक आश्चर्यसे देखता रहा और स्त्रियोंके बीच ऐसी पतिव्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार कर वह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा । वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए अपनी मञ्जरिका नामकी विवेकवती दूती उसके पास भेजी । वह दूती सीताके पास आकर विनयसे कहने लगी कि हे स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियाँ हैं जो विद्याधर राजाओंकी पुत्रियाँ हैं और तुम्हारे ही समान मनोहर हैं । तुम उन सबकी स्वामिनी होकर महादेवीके पदपर स्थित होओ और तीन खण्डके स्वामी रावणके बन्धुस्थलपर चिरकाल तक लक्ष्मीके साथ साथ निवास करो ॥ ३२०-३२४ ॥ बिजलीके समान चञ्चल अपने इस यौवनको निष्फल न करो । 'रावणके हाथसे राम तुम्हें वापिस ले जावेगा' इस विचारको तुम कदम्बके विशाल वनके समान निष्फल समझो । भूखसे पीड़ित सिंहके मुखके भीतर वर्तमान मृगको छुड़ानेके लिए कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मञ्जरिका नामकी दूतीने कहा सही परन्तु सीता उसे सुनकर पृथिवीके समान ही निश्चल बैठी रही सो ठीक ही है क्योंकि पतिव्रता स्त्रीको भेदन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? उसे निश्चल देख रावण स्वयं डरते डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रक्षा करनेके लिए बैठी है तो यह बात विचार करनेके योग्य नहीं है । यदि लज्जा आती है तो वह नीच मनुष्योंके संसर्गसे

रामे चेत्येव तद्विद्धि जन्मान्तरितसन्निभम् । चिरं परिचितं कस्माद्विस्मराम्यधुनैव तम् ॥ ३३० ॥  
 इति चेत्यसंतौ जन्तौ केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिधिर्दुर्गस्त्रिकूटाद्रिः खगेश्वराः ॥ ३३१ ॥  
 दुर्गापालाः पुरं लङ्का मेघनादाद्यो भटाः । नायकोऽहं कथं तस्य तव भर्तुः प्रवेशनम् ॥ ३३२ ॥  
 तस्मात्प्रादाशामुञ्जित्वा मदाशां पुरय प्रिये । अवश्यं भाविकार्योऽस्मिन् किं कालहरणेन ते ॥ ३३३ ॥  
 हसन्त्याश्च रुदन्त्याश्च तव प्राचूर्णिकोऽस्म्यहम् । मत्कान्तकान्तासन्ताने कान्ते चूलामगिर्भव ॥ ३३४ ॥  
 न चेदसि विभाग्यत्वादद्यैव घटदासिका । अतिथिवां भव प्रेतनाथावासनिवासिनाम् ॥ ३३५ ॥  
 इति तां <sup>१</sup>मामिवापुण्यः स्वकर्तुं व्यर्थमब्रवीत् । तदाकण्यापि भूभूता <sup>२</sup>समाहितमनास्तदा ॥ ३३६ ॥  
 ध्याति धर्म्यैव नैर्मल्यमादधानाभवत्स्थिरा । खगेशवक्त्रनिर्यातवाग्जालज्वलनावली ॥ ३३७ ॥  
 सीताधैर्याग्निं प्राप्य सद्यः शान्तिमगात्तदा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥  
 स्त्रीसृष्टिमपि जेतारं मामेपा परिभावुका । किलेति क्रुध्यतः पत्युर्दासक्रोधदवानलम् ॥ ३३९ ॥  
 सद्यः सीतालतां दग्धुं जृम्भमाणं मनोरणे । मन्दोदरी हितश्रव्यवचनामृतवारिभिः ॥ ३४० ॥  
 प्रशमय्य किमस्थाने जनवत्कोपवान् भवेः । विचिन्तय किमेपा ते दण्डयोग्याऽवभासते ॥ ३४१ ॥  
 मन्दारप्रसवारब्धमालाग्निक्रेपमर्हति । सतीनां परिभूत्याशु खगामिन्यादिका <sup>३</sup>ध्रुवम् ॥ ३४२ ॥  
 विद्याविनाशमायान्ति तत्स्या <sup>४</sup>विर्वा विपक्षकः <sup>५</sup> । पुरा स्वयम्प्रभाहेतोरश्वग्रीवःखगाधिपः ॥ ३४३ ॥  
 पद्मावतीनिमित्तेन प्रसिद्धो मधुमूदनः । समासक्तः सुतारायां विधरश्निघोषकः ॥ ३४४ ॥

होती है अतः यहाँ जसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥ ३२५-३२६ ॥ यदि राममें तेरा प्रेम है तो तू उसे अब मरे हुएके समान समझ । जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय एकदम कैसे भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ? कदाचित् यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझे ले जावेंगे सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लङ्का नगर है, मेघनाद आदि योद्धा हैं और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो सकता है ? ॥ ३३०-३३२ ॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो । जो कार्य अवश्य ही पूर्ण होनेवाला है उसमें समय बितानेसे तुम्हे क्या लाभ है ? ॥ ३३३ ॥ तू चाहे रो और चाहे हँस, मैं तो तेरा पाहुना हो चुका हूँ । हे सुन्दरी ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूहमें चूडामणिके समान हो ॥ ३३४ ॥ यदि तू अभाग्य वश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुम्हे आज ही मेरी घटदासी बनना पड़ेगा अथवा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़ेगा ॥ ३३५ ॥ इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लक्ष्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास करता है उसी प्रकार उस रावणने सीताको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास किया । उसे सुनकर सीता निश्चल चित्त हो धर्म्यध्यानके समान निर्मलता धारण करती हुई निश्चल बैठी रही । रावणके मुखसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्निकी पंक्ति सीताके धैर्यरूपी समुद्रको पाकर शीघ्र ही उसी समय शान्त हो गई । उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सौभाग्यरूपी सम्पदाके द्वारा समस्त स्त्रियोंको भी जीतता हूँ—उन्हें अपने वश कर लेता हूँ फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही है' ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र ही जलानेके लिए रावणके मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड क्रोधरूपी दावानल फैल रही थी उसे मन्दोदरीने हितकारी तथा सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्तकर कहा कि आप इसतरह साधारण पुरुषके समान अस्थानमें क्यों क्रोध करते हैं ? जरा सोचो तो सही, यह स्त्री क्या आपके दण्ड देने योग्य मालूम होती है ? अरे, मन्दारवृक्षके फूलोंसे बनी हुई माला क्या अग्निमें डाली जानेके योग्य है ? आप यह याद रखिये कि सती स्त्रियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं और ऐसा होनेसे आप पञ्चरहित पक्षीके समान हो जावेंगे । पहले

पराभवं परिप्राप्तो मा भूस्त्वमपि तादृशः । मा मंस्था मां सपत्नीति मद्बचस्त्वं प्रमाणयन् ॥ ३४५ ॥  
 त्यज सीतागतं मोहमित्यसौ निजगाद तम् । तदुक्तेरुत्तरं वाक्यमभिधातुमशक्नुवन् ॥ ३४६ ॥  
 समं प्राणैरियं त्याज्येत्यगात्स कुपितः पुरम् । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुत्रीशुगाहिता ॥ ३४७ ॥  
 सीतां मिथः श्रिताभाविविदादेशभयात् क्षितौ । यां निक्षेपयति स्मेति मथा कलहकारणात् ॥ ३४८ ॥  
 आगतामेव मत्पुत्रीं तां त्वां मे मन्यते मनः । पापेन विधिनाऽऽनीता भद्रे त्वं दुःखकारिणा ॥ ३४९ ॥  
 भलङ्घ्यं केनचिच्चान्न प्रायेण विधिचेष्टितम् । इह जन्मनि किं बन्धुः किं वा त्वं मेऽन्यजन्मनि ॥ ३५० ॥  
 न जाने त्वां विलोक्याद्य मम स्नेहः प्रवर्द्धते । यदि मज्जननीत्वं त्वं पद्मनेत्रेऽवबुध्यते ॥ ३५१ ॥  
 त्वां मे भावयितुं वष्टि सपत्नीं खचराधिपः । तेन वाले मृतिं वापि याहि मा गास्तदीप्सितम् ॥ ३५२ ॥  
 स्तनप्रसूतिमित्येवं<sup>१</sup> वदन्ती प्रापदुत्सुका । तस्याः पयोधरद्वन्द्वमभिषेक्तुमिवापतत् ॥ ३५३ ॥  
 जलं गद्गदकण्ठायामश्रुभ्यां स्नेहसूचनम् । शोकानलपरिम्लानं वक्त्राब्जं चाभवत्तदा ॥ ३५४ ॥  
 तद्वीक्ष्य जानकी सर्वं प्राप्ता स्वामिव मातरम् । जायते स्मार्द्रहृदया वाष्पाविलविलोचना ॥ ३५५ ॥  
 तदभिप्रायमाज्ञाय दशाननबधूतामा । यदि स्वकार्यसंसिद्धिमभिकामयसे भृशम् ॥ ३५६ ॥  
 कृताञ्जलिरहं याचे गृहाणाहारमम्बिके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः<sup>२</sup> सुसाधनम् ॥ ३५७ ॥  
 वदन्ति निपुणाः क्षमाजे<sup>३</sup> प्रसवादि कृतांऽसति । स्थिते वपुषि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम् ॥ ३५८ ॥  
 न चेत्तद्दर्शनं साध्यं वपुषैव महत्तपः । न चेन्मद्बचनं ग्राह्यं त्वयाहमपि भोजनम् ॥ ३५९ ॥

स्वयंप्रभाके लिए अश्वर्थाव विद्याधर, पद्मावतीके कारण राजा मधुसूदन और सुतारामें आसक्त हुआ निर्बुद्धि अशनिघोष पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन जैसे मत होओ। ऐसा मत समझिये कि मैं सौतके भयसे ऐसा कह रही हूँ। आप मेरे वचनको प्रमाण मानते हुए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिये। ऐसा मन्दीदरीने रावणसे कहा। रावण उसके वचनोंका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हो सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापिस चला गया कि अब तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ॥ ३३६-३४७ ॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुई पुत्रीके शोकसे युक्त है ऐसी मन्दीदरी सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमित्तज्ञानीके आदेशके बरसे पृथिवीमें नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू आ गई है ऐसा मेरा मन मानता है। हे भद्रे ! तू दुःख देने वाले पापी विधाताके द्वारा यहाँ लाई गई है। सो ठीक ही है क्यों कि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी है। न जाने क्यों तुम्हें देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। हे कमललोचने ! बहुत कुछ सम्भव है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पुत्री है, यह तू भी समझ रही है। परन्तु यह विद्याधरोंका राजा तुम्हें मेरी सौत बनाना चाहता है इसलिए हे बच्चे ! चाहे मरणको भले ही प्राप्त हो जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना। इस प्रकार कहती हुई मन्दीदरी बहुत ही उत्सुक हो गई। उसके स्तनोंसे दूध भरने लगा और उसके स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो नीचेकी ओर झुक गये ॥ ३४८-३५३ ॥ उसका कण्ठ गद्गद हो गया, दोनों नेत्रोंसे स्नेहको सूचित करनेवाला जल गिरने लगा और उस समय उसका मुखकमल शोकरूपी अग्निसे मलिन हो गया ॥ ३५४ ॥ यह सब देख सीताको ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गई हूँ, उसका हृदय आर्द्र हो गया और नेत्र आँसुओंसे भर गये ॥ ३५५ ॥ उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पट्टरानी मन्दीदरी कहने लगी कि यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ ! मैं हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है और शरीरका साधन आहार है ॥ ३५६-३५७ ॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि वृत्त नहीं हीगा तो फूल आदि कहाँसे आँवेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुम्हें तेरे स्वामी रामचन्द्रका दर्शन हो सकेगा ॥ ३५८ ॥ यदि उनका दर्शन साध्य न हो तो इस शरीरसे महान् तप ही करना

स्यजामीत्यवदसीताप्येतच्छुद्धावधार्यं च । ममामातापि मातेव महुःखे दुःखिताऽग्रि ॥ ३६० ॥  
 इति चित्ते विनम्यैतच्चरगौ स्निग्धमैक्षत । मञ्जुपास्थापनाकाले मत्सुनाया इवेक्षितम् ॥ ३६१ ॥  
 एतन्मां मधुरं सत्याः सन्तापयति सर्वतः । इति प्रलयमापन्ना तदा रावणवह्नुभा ॥ ३६२ ॥  
 आसौदुःखेन तद्दुःखाद् विनीता प्राविशत्पुरम् । शिगिपास्थस्ततोऽभ्येत्य दूनः प्लवगविद्यया ॥ ३६३ ॥  
 परावृत्या कपेर्मूल्यां स्वयं निद्रात्यभिद्रुतान् । विधाय रक्षकान् देव्याः पुरस्तात्समवस्थिनः ॥ ३६४ ॥  
 प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सर्वं संश्राव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन लेखगर्भकरण्डकम् ॥ ३६५ ॥  
 मयाऽऽनीतमिदं देवीत्यग्रेऽस्याः स तदक्षिपत् । १ तं दृष्ट्वा किमयं मायाविग्रहो रावणोऽधमः ॥ ३६६ ॥  
 शङ्कमानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवत्सलान्छनम् । रत्नाङ्गुलीयकं चात्मपतिनामाक्षराङ्कितम् ॥ ३६७ ॥  
 ममेदमपि भाल्येव भायेवास्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येतन्पत्रं तस्यैव वा भवेत् ॥ ३६८ ॥  
 मन्नाग्यादिति निर्भिद्य मुद्रां ३ पत्रमवाचयत् । ४ वाचनानन्तरं वीतशोक्या स्निग्धवैक्षया ॥ ३६९ ॥  
 जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः । इत्युक्तः सीतया कर्णो पिधाय पवनान्मजः ॥ ३७० ॥  
 मत्स्वामिनो महादेवी मातर्नेहान्यकल्पना । त्वां नेतुं मम सामर्थ्यमद्यैवास्ति पतिव्रते ॥ ३७१ ॥  
 नास्ति भङ्गारकस्याज्ञा स्वयमेव मर्हापतिः । हत्वैत्य रावणं तस्य त्वां नेष्यति सह श्रिया ॥ ३७२ ॥  
 तत्साहसेन तर्कीतिव्याप्यास्ताम् १ भुवनत्रयम् । ततः शरीरसन्धारणार्थमाहारमाहार ॥ ३७३ ॥

चाहिये । यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे वचन नहीं मानती हैं तो मैं भी भोजन छोड़े देती हूँ । मन्दोदरीके वचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है । ऐसा विचारकर वह मन ही मन मन्दोदरीके चरणोंको नमस्कारकर उनकी ओर बढ़े स्नेहसे देखने लगी । उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी ओर देख रही है । इस पतिव्रताका यह मधुर दर्शन मुझे सब ओरसे सन्तप्त कर रहा है । इस प्रकार शोकको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीताके दुःखसे विनम्र हो आप्तजनोंके साथ साथ नगरमें बढ़े दुःखसे प्रवेश किया । तदनन्तर उसी शिशपा वृक्षपर बैठे हुए दूत अणुमान्ने प्लवग नामक विद्याके द्वारा अपना वन्दर जैसा रूप बना लिया और वनकी रक्षा करनेवाले पुरुषोंको निद्रासे युक्तकर वह स्वयं सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ ॥ ३५६-३६४ ॥ वानर रूपधारी अणुमान्ने सीताको नमस्कारकर उसे अपना सब वृत्तान्त सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके आदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूँ । इतना कह उसने वह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया । वानरको देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्या यह मायामयी शरीरको धारण करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥ ३६५-३६६ ॥ इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके चिह्नसे चिह्नित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अङ्कित रत्नमयी अंगूठीपर जा पड़ी । उसे देख वह फिर भी संशय करने लगी कि मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह दुष्ट रावणकी ही माया है । क्या है ? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है और मेरे माग्यसे ही यहाँ आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुहर तोड़कर पत्र बाँचा । पत्र बाचते ही उसका शोक नष्ट हो गया । वह स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुझे जीवित रक्खा है अतः मेरे पिताके पदपर अधिष्ठित हूँ—मेरे पिताके समान है । जब सीताने उक्त वचन कहे तब पवनपुत्र अणुमान्ने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेवी हैं, इसपर अन्य कल्पना न कीजिये । हे पतिव्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि स्वामीकी आज्ञा नहीं है । राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही आकर रावणको मारेंगे और उसकी लक्ष्मीके साथ साथ तुम्हें ले जावेंगे । उस साहसपूर्ण कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर रहेगी

१ तद्दृष्ट्वा म०, ल० । २-भवत् ल०, म० । ३ पत्रं त्ववाचयत् ल० । ४ वचनानन्तरं ल० ।

भगवत्यत्र को दोषो राज्ञा ते सङ्गमोऽचिरात् । इत्याख्यत्सा ततस्थक्त्वा वैमनस्यं महीसुता ॥ ३७४ ॥  
 १कायस्थितिसमादानं चाम्युपेत्य कृतत्वरम् । तत्कालोचितकार्योक्तिकुशलं तं व्यसर्जयत् ॥ ३७५ ॥  
 प्रणम्य सोऽपि तत्पादपङ्कजं भास्करोदये । गत्वा ततो हृदित्याप रामं स्वागमनोन्मुखम् ॥ ३७६ ॥  
 वदनाब्जप्रसादेन कार्यसिद्धिं न्यवेदयत् । प्रणम्य स्वामिना सम्यक् परिरभ्योदितासनः ॥ ३७७ ॥  
 उपविष्टो मुदा तेन पृष्टो हृष्टेति मत्प्रिया । सप्तपञ्चमुदीर्योच्चैर्वचस्तत्प्रीतिहेतुकम् ॥ ३७८ ॥  
 निसर्गाद्रावणो हसश्चक्रं चान्यत्समुद्ययौ । लङ्कायां दुर्निमित्तानि चासन् २ कृत्याश्च खेचराः ॥ ३७९ ॥  
 सन्ति तत्खेचकाः सर्वमेतदालोच्य मन्त्रिभिः । जानक्यानयनोपायो निश्चितभ्यो यथा तथा ॥ ३८० ॥  
 इतीदमुचितं कार्यंभवदल्पवनात्मजः । तदुक्तं चेतसा सम्यगवधार्योजिताशयः ॥ ३८१ ॥  
 ३ततः सेनापतिं पट्टबन्धेनानिलनन्दनम् । कृत्वाधिराज्यपट्टं च सुग्रीवस्य महीपतिः ॥ ३८२ ॥  
 सह ताभ्यां समभ्राष्ट्रीन्मन्त्रिणं ४ कृत्यनिर्णयम् । तत्रैवमङ्गदोऽवोचदेव त्रेधा महीभुजः ॥ ३८३ ॥  
 लोभधर्मासुराह्वादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्ये भेददण्डने ५ ॥ ३८४ ॥  
 नयज्ञैः कार्यसिद्धयर्थमित्युपायः प्रयुज्यते । अन्तिमो रावणस्तेषु नीचत्वात्क्रूरकर्मकृत् ॥ ३८५ ॥  
 भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ तत्तस्मिन्प्रीतिविविभिः । क्रमस्तथापि नोल्लङ्घ्यः साम तावत्प्रयुज्यताम् ॥ ३८६ ॥  
 कः सामवित्प्रयोक्तव्य इत्यस्मिन् सम्प्रधारणे । दक्षतादिगुणोपेता बहवः सन्ति भूचराः ॥ ३८७ ॥

अतः शरीर धारण करनेके लिए आहार ग्रहण करो ॥ ३६५-३७३ ॥ हे भगवति ! आहार ग्रहण करनेमें क्या दोष है ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र ही हो जावेगा । इस प्रकार जब अणुमान्ने कहा तब सीताने उदासीनता छोड़कर शीघ्र ही शरीरकी स्थितिके लिए आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया और उस समयके योग्य कार्योंके कहनेमें कुशल सीताने उस दूतको शीघ्र ही बिदा कर दिया ॥ ३७४-३७५ ॥ दूत-अणुमान् भी सीताके चरणकमलोंको नमस्कार कर सूर्योदयके समयचला और अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ्र ही पहुँच गया ॥ ३७६ ॥ उसने पहुँचते ही पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको कार्यसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिङ्गन कर आसन पर बैठनेके लिए कहा । जब वह हर्ष पूर्वक आसन पर बैठ गया तब रामचन्द्रने उससे पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है ? उत्तरमें अणुमान्ने रामचन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उरुकुष्ठ वचन विस्तारके साथ कहे । वह कहने लगा कि रावण स्वभावसे ही अहङ्कारी है फिर उसके चक्ररत्न भी प्रकट हो गया है । इसके सिवाय लङ्कामें बहुतसे अपशकुन हो रहे हैं और उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल हैं । इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ अच्छी तरह विचार कर जिस तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना चाहिये । इस प्रकार यह योग्य कार्य अणुमान्ने सूचित किया । बलिष्ठ अभिप्रायको धारण करनेवाले रामचन्द्रने अणुमान्ने कहे वचनोंका हृदयमें अच्छी तरह विचार किया । उसी समय उन्होंने अणुमान्को सेनापतिका पट्ट ब्रौंथा और सुग्रीवको युवराज बनाया ॥ ३७७-३८२ ॥ तदनन्तर उन्होंने उन दोनोंके साथ-साथ मन्त्रीसे करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा । उत्तरमें अङ्गदने कहा कि हे स्वामिन् ! राजा तीन प्रकारके होते हैं— १ लोभ-विजय, २ धर्म-विजय और ३ असुर-विजय । नीतिके जाननेवाले विद्वान् अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यवहार करना और तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं । इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण अन्तिम-असुरविजय राजा है । वह नीच होनेसे क्रूर कार्य करनेवाला है इसलिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद और दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिये तो भी क्रमका उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए । सर्व प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग करना चाहिए ॥ ३८३-३८६ ॥ यदि आप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेवाला

१ 'ज्ञानवेषार्चनं कृत्वा मन्दोदयुःपरोधतः' इति म पुरतकेऽधिकः पाठः । २-वासन् लृ० । ३ 'सेनापतिं पट्टबन्धेनाकृतानिलनन्दनम्' ल० । ४ मन्त्रिणं कर्मनिर्णयम् म० । मन्त्रिणः कर्मनिर्णयम् ल० । ५ भेददण्डनम्ल० ।

किन्तु नाकाशगामिन्वसामर्थ्यं तेषु विद्यते । तस्मात्त्वेनापतिः प्रेत्यन्ववयार्थं नूतनः कृतः ॥ ३८८ ॥  
 इष्टमार्गः पराध्वयः सिद्धकार्यः श्रुतागमः । जाल्यादिविद्यामम्पन्नः स्यादस्मात्कार्यनिर्णयः ॥ ३८९ ॥  
 इत्येतदुपदेशेन मनोवेगाभिधानकम् । विजयं कुमुदाख्यातं न्यातं रविगतिं हितम् ॥ ३९० ॥  
 सहायीकृत्य संपूज्य कुमार भवतोऽपरः । कार्यवि-कार्यकृच्चाम्नि नात्रेति श्लाघयन्नृपः ॥ ३९१ ॥  
 पवमानात्मजं वाच्यस्त्वयैवं न विभीषणः । अत्र त्वमेव धर्मज्ञः प्राज्ञः कार्यविपाकविन ॥ ३९२ ॥  
 हितो लङ्केश्वरायस्मै सूर्यवंशाग्रिमाय च । सीताहरणमन्याय्यभाकल्पमयशस्करम् ॥ ३९३ ॥  
 अपथ्यमिति संश्राव्य रावणं रतिमोहितम् । मोचनीया त्वया सीता तथा सति भवत्कुलम् ॥ ३९४ ॥  
 त्वयैव रक्षितं पापादपायादपवादतः । इति सामोक्तिभिन्नस्मिन् स्वीकृते स्वीकृता द्विपः ॥ ३९५ ॥  
 १गोमिन्या सह सीतापि वेत्सि दूतोत्तमापरम् । त्वमेव कृत्यं निर्णाय द्विदृष्टं शीघ्रमेहि माम् २ ॥ ३९६ ॥  
 इत्यमुञ्चत्सहायैस्वै स कुमारः प्रणम्य तम् । गन्वाप्य सहसा लङ्कां ज्ञातो वीक्ष्य विभीषणम् ॥ ३९७ ॥  
 रामभट्टारकेगाहं प्रेषितो भवदन्तिकम् । इति सप्रश्रयं सर्वं तदुक्तं तमजीगमत् ॥ ३९८ ॥  
 इदं च स्वयमाहासां स्वामिसन्देशहारिणम् । प्रापय त्वं खगार्धाश मां तस्मै हितकारिणम् ॥ ३९९ ॥  
 रामाभिप्रेतकार्यस्य त्वया सिद्धिस्तथासति । कार्यमेतत्तु ३मद्वारा विधातुं भवतो भवेन ॥ ४०० ॥  
 त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां विमुञ्चति स मन्दधीः । नापराधस्तवापुण्यः स्वयमेव विनक्ष्यति ॥ ४०१ ॥

कौन है जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्षता—चतुरता आदि गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा हैं परन्तु उनमें आकाशमें चलनेकी सामर्थ्य नहीं है इसलिए आपने जो यह नया सेनापति बनाया है इमे ही भेजना चाहिए ॥ ३८७-३८८ ॥ इस अणुमानने मार्ग देखा है, इसे दूसरे दवा नहीं सकते, एक बार यह कार्य सिद्ध कर आया है, अनेक शास्त्रोंका जानकार है तथा ज्ञानि आदि विद्याओंसे सहित है, इसलिए इमसे कार्यका निर्णय अवश्य ही हो जावेगा ॥ ३८९ ॥ अङ्गदके इस उपदेशसे रामचन्द्रने मनोवेग, विजय, कुमुद और हिनकारी रविगतिको सहायक बनाकर अणुमानका आदर-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कुमार ! यहां आपके सिवाय कार्यको जाननेवाला तथा कार्यको करनेवाला दूसरा नहीं है । राजा रामचन्द्रने अणुमानसे यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषणसे कहना कि इस लङ्का द्वीपमें आपही धर्मके जानकार हैं, विद्वान हैं और कार्यके परिपाक—फलको जाननेवाले हैं । लङ्काके ईश्वर रावण और सूर्यवंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका हित करनेवाले हैं, इसलिए आप रावणसे कहिए—जो तू सीताको हरकर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपूर्ण है, कल्पान्तकाल तक अपयश करनेवाला है, तथा अहितकारी है । इस प्रकार रतिसे मोहित रावणको सुनाकर आप सीताको छुड़ा दीजिये । ऐसा करने पर आप अपने कुलकी पापसे, विनाशसे तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभीषण वशमें हो गया तो शत्रु अपने वशमें ही समझिये । हे दूतोत्तम ! इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ-साथ सीता भी आई हुई ही समझिए । इसके सिवाय और जो कुछ करने योग्य कार्य हों उनका तथा शत्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापिस आओ ॥ ३९०-३९६ ॥ इस प्रकार कहकर रामचन्द्रने अणुमानको सहायकोंके साथ विदा किया । कुमार अणुमान भी रामचन्द्रको नमस्कार कर गया और शीघ्र ही लङ्का पहुँच गया । वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीषणके दर्शन किये और विनयपूर्वक कहा कि 'मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ' ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछ कहा था वह सब वड़ी विनयके साथ विभीषणसे निवेदन कर दिया ॥ ३९७-३९८ ॥ साथ ही उसने अपनी ओरसे यह बात भी कही कि हे विद्याधरोंके ईश ! आप स्वामीका सन्देश लानेवाले तथा हित करनेवाले मुझको रावणके पास तक भेज दीजिये । आपसे रामचन्द्रके इष्ट-कार्यकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी और ऐसा हो जानेपर यह कार्य मेरे द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥ ३९९-४०० ॥ आपके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी वह मूर्ख यदि सीताको नहीं छोड़ता

१ : लक्ष्म्या 'लक्ष्मीगोमिनोन्दिरा' इति कोशः । २-मेहि तम् ल० । ३ गत्वाह ख० । मद्वाचा ग० ।

वर्द्धमानश्रियं दृष्ट्वा रामं तत्पुण्यचोदितम् । इतो द्वितयलोकैकहितं यायामधीश्वरम् ॥ ४०२ ॥  
 इति रक्तं स्वयं भूयो रणधीगोचरं बलम् । पञ्चाशत्कोटिसंयुक्तं लक्ष्माचतुरशीतिकम् ॥ ४०३ ॥  
 \*सार्द्धत्रिकोटिसङ्घातं खेचरानीकमप्यदः । बलेन तेन ससम्प्राप्य स नृसिंहः सलक्ष्मणः ॥ ४०४ ॥  
 हर्तुमद्यैव सीतां वा \* सीतां च खचरोशिनः । समर्थः किन्तु दाक्षिण्यं विभोर्नैसर्गिकं त्वयि ॥ ४०५ ॥  
 ततोऽहं प्रेषितस्तेन त्वं च किं वेत्सि नेदृशम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा कार्यविद्रावणानुजः ॥ ४०६ ॥  
 तदानीमेव तं नीत्वा दशाननमजिज्ञपत् । वचोहरोऽर्थं रामेण प्रहितो देवसन्निधिम् ॥ ४०७ ॥  
 इत्यसावपि योग्येन क्रमेणालोक्य रावणम् । तदादिष्टासने स्थित्वा प्राभृतापुर्णपूर्वकम् ॥ ४०८ ॥  
 श्रुत्वैहितमितालापैः शृणु देवेति बोधयन् । प्राज्ञो विज्ञाययामास प्रस्पष्टमधुरध्वनिः ॥ ४०९ ॥  
 अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्द्धमानो निजौजसा । \*आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसो गुणभूषणः ॥ ४१० ॥  
 राघवः कुशाली देवं त्रिखण्डालखण्डनायकम् । कुशलोदन्तसम्प्रश्नपूर्वमित्थमभाषत ॥ ४११ ॥  
 सीतान्यस्येति नीता सावस्मदीयेत्यजानता । किं जातं नास्ति दोषो द्राक् प्रेषणीया मनीषिणा ॥ ४१२ ॥  
 न चेद्विनमिवंशैकभूषणस्य महात्मनः । नानारूपमिदं कर्म धर्म-धर्मविघातकृत् ॥ ४१३ ॥  
 \*कुलपुत्रमहाम्भोधेनं युक्तं मलधारणम् । सीताविमोचनोत्तुङ्गतरङ्गैः क्षिप्यतां बहिः ॥ ४१४ ॥  
 इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्य प्रत्युवाच खगेश्वरः । सीतां नानवबुध्याहमानैषं किन्तु \*भूभुजः ॥ ४१५ ॥

है तो इसमें आपका अपराध नहीं है वह पापी अपने आप ही नष्ट होगा ॥ ४०१ ॥ इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है ऐसे रामचन्द्रको देख उनके पुण्यसे प्रेरित हुई तथा 'हम लोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले रामचन्द्रजीकी शरण जाना चाहिए, इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भावनासे आतप्रोत पचास करोड़ चौरासी लाख भूमिगोचरियोंकी सेना और साढ़े तीन करोड़ विद्याधरोंकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है। वे रामचन्द्र इतनी सव सेना तथा लक्ष्मणको साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे। यद्यपि वे सीताके समान विद्याधरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीको भी आज ही हरनेमें समर्थ हैं किन्तु उनका आपमें स्वाभाविक प्रेम है इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। क्या आप इस तरहके सब समाचार नहीं जानते? इस प्रकार अणुमानके वचन सुनकर कार्यको जाननेवाला विभीषण उसी समय उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव! रामचन्द्रने यह \*दूत आपके पास भेजा है ॥ ४०२-४०७ ॥ बुद्धिमान् तथा स्पष्ट और मधुर शब्द बोलनेवाले अणुमानने भी विनयपूर्वक रावणके दर्शन किये, योग्य भेंट समर्पित की। तदनन्तर रावणके द्वारा बतलाये हुए आसन पर बैठकर श्रवण करनेके योग्य हित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि हे देव, मुनियं॥४०८-४०९॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि तथा साहस सबको अपने अनुकूल बनानेवाला है, गुण ही जिनके आभूषण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं ऐसे राजा रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका पहले तो कुशल-प्रश्न पूछा है और फिर यह कहला भेजा है कि आप सीताको किसी दूसरेकी समझ कर ले आये हैं। परन्तु वह मेरी है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए कुछ विगड़ा नहीं है। आप बुद्धिमान् हैं अतः उसे शीघ्र भेज दीजिए ॥ ४१०-४१२ ॥ यदि आप सीताको न भेजेंगे तो विनमि वंशके एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह चित्रित कार्य धर्म तथा सुखका विघात करनेवाला होगा ॥ ४१३ ॥ कुलीन पुत्ररूपी महासागरको यह कलङ्क धारण करना उचित नहीं है। अतः सीताको छोड़ने रूप बड़ी-बड़ी तरङ्गोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए ॥ ४१४ ॥ अणुमानके यह वचन सुनकर रावणने उत्तर दिया कि मैं सीताको बिना जाने नहीं लाया हूँ किन्तु जानकर लाया हूँ। मैं राजा हूँ अतः सर्व रत्न मेरे ही हैं और विशेष कर खीरत्न तो मेरा ही है। तुम्हारे राजा

१ सार्धत्रितयसंख्या ल० । २ स्वां ख०, ग०, घ० । ३ आत्माभिगामिकप्राज्ञोत्साहश्च गुणभूषणः ख०, ग०, घ० । आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसगुणभूषणः ल० । ४ कुलपुत्रमिवाम्भोधे-ल० । ५ भूभुजाम् ख०, घ०, म० ।

ममैव सर्वरत्नानि खरान् नु विशेषतः । प्रेषयत्विति किं वक्तुं युक्तं मां ते महार्हापतेः<sup>१</sup> ॥४१६॥  
 जित्वा मां विग्रहेणाशु<sup>२</sup> गृह्णीयात्केन वार्यते । इति तन्नाशसंभूचिवचनं देवचोदितम् ॥ ४१७ ॥  
 श्रुत्वा रामोदयापादिनिमित्तं शुभसूचकम् । इदमेवात्र नोऽभाष्यमिति चित्तोऽनिलाम्बजः ॥ ४१८ ॥  
 व्याजहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दशाननम् । अन्यायम्य निपेद्धा त्वं निपेच्यश्चेन्नपेन्द्ररि ॥ ४१९ ॥  
 वाडवाग्निरिवाभोधौ केन वा स निपिध्यते । अभेद्यै<sup>३</sup> महं ख्यातो राघवः सिंहविक्रमः ॥ ४२० ॥  
<sup>४</sup>अकीर्तिनिष्फलाऽऽचन्द्रमिति स्मृतुं तवोचितम् । मया बन्धुत्वसम्बन्धात्तव पथ्यसुदाहृतम् ॥ ४२१ ॥  
 प्रभो गृहाण चेत्तुभ्यं रोचते चेन्न मा गृहीः । इति दूतवचः श्रुत्वा पौलस्त्यः पुनरब्रवीन् ॥ ४२२ ॥  
 रत्नं ममानिवेद्येदं जनकेन समर्पितम् । दर्पाद्वाशरथीं तस्मादाहृतेयं मया रूपा ॥ ४२३ ॥  
 मद्योग्यवस्तुस्वीकारादकीर्तेश्चेन्नवेन्मम । चक्ररत्नं च मद्धस्तादाददातु<sup>५</sup> स राघवः ॥ ४२४ ॥  
 इत्यन्वतोऽञ्जनासुरवोचदशकन्धरम् । वचः प्रसन्नगर्भारं तत्तदुक्त्यनुसारि<sup>६</sup> यत ॥४२५॥

रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताको भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है ॥ ४१५-४१६ ॥ [ वह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमानी मालूम होता है । वह मेरी श्रेष्ठताको नहीं जानता है । 'मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है' यह समाचार क्या उसके कानोंके समीप तक नहीं पहुँचा है ? भूमिगोचरियों तथा विवाधर राजाओंके मुकुटों पर मेरे चरण-युगल, स्थल-कमल—गुलाबके समान मुशोभित होते हैं यह वान आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है—बड़ेसे लेकर छोटे तक सब जानते हैं । सीता मेरी है यह बात तो बहुत चौड़ी है किन्तु समस्त विजयार्थ पर्वत तक मेरा है । मेरे सिंवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जो इसे ग्रहण करना चाहता है वह पराक्रमी नहीं है—शूर-वीर नहीं है । इस सीताको अथवा अन्य किसी स्त्रीको ग्रहण करनेकी उसमें शक्ति है तो वह यहाँ आवे और युद्धके द्वारा मुझे जीत कर शीघ्र ही सीताको ले जावे । कौन मना करता है ? ] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे रावणके नाशको सूचित करनेवाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्रके अभ्युदयको प्रकट करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं और इस विषयमें मुझे भी यही इष्ट है—मैं चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें रावणको परास्त करें और अपना अभ्युदय बढ़ावें ॥ ४१७-४१८ ॥ तदनन्तर वह अणुमान रामचन्द्रकी आरसे दुष्ट और दुराचारी रावणसे फिर कहने लगा कि 'आप अन्यायको रोकनेवाले हैं, यदि रोकनेवालेको ही रोकना पड़े तो ममुद्रमें बड़बानलके समान उसे कौन रोक सकता है ? यह सीता अभेद्य है—इसे कोई विचलित नहीं कर सकता और मैं सिंहके समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥ ४१९-४२० ॥ इस अकार्यके करनेसे जब तक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपकी निष्प्रयोजन अकीर्ति बनी रहेगी इस बातका भी आपको विचार करना उचित है, मैंने भाईपनेके सम्बन्धसे आपके लिए हितकारी वचन कहे हैं । हे स्वामिन् ! यदि आपको रुचिकर हों तो ग्रहण कीजिए अन्यथा मत कीजिये ।' इस प्रकार दूत-अणुमानके वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा ॥ ४२१-४२२ ॥ कि 'चूँकि राजा जनकने अहंकार वश मुझे सूचना दिये बिना ही यह सीता रूपी रत्न रामचन्द्रके लिए दिया था इसलिए क्रोधसे मैं इसे ले आया हूँ ॥ ४२३ ॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनेसे यदि मेरी अकीर्ति होती है तो हो । वह रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्ररत्न भी ग्रहण करना चाहता है' इस प्रकार रावणने कहा । तदनन्तर अणुमान् रावणके कहे अनुसार उससे प्रसन्न तथा गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी है यह आप क्यों कहते हैं ? यह सब जानते

१ [ दक्षिणामसौ प्रष्टो ज्येष्ठतां मे न बुध्यते । चक्रोत्पत्तिर्न किं तस्य श्रवणोपान्तवर्तिनी । भृगुभक्षरभूषालमौलिमालास्थलागुञ्जम् । मत्क्रमद्वन्द्वमित्येतदागोपालप्रसिद्धिमत् ॥ सीता ममेयमित्यल्पमेतदाखचराचलात् । सीता नान्यस्य तां नासौ जिघृक्षुर्विव विक्रमी ॥ इमां च तां च यद्यस्ति शक्तिरत्रैत्य राघवः । ] इत्ययं कोष्ठकान्तगतः पाठः क० ख० ग० घ० पुस्तकेषु मूलीनिबद्धो वर्तते किन्तु 'ल०' पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेणामा क०, ख०, ग०, घ०, म० । ३ अमेद्योऽय-क०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५—दादात् ल० । ६ तदुक्त्यनु-क० ।



सीता मया हतेत्येतत्किं वक्षि विदितं जनैः । करे कस्य स्थिता सेति विभो त्वद्धरणक्षणे ॥ ४२६ ॥  
 किमेतेन भवच्छौर्यं वदान्न प्रकटीभवेत् । किं वृथोक्त्या प्रियेणैव राज्ञी मंशु १त्वयार्प्यताम् ॥ ४२७ ॥  
 इति तद्गुढहासोकिवद्धि २सन्तापिताशयः । पुष्पकाधिपतिर्दृष्टि ३विपाहीन्द्रफणामणिम् ॥ ४२८ ॥  
 आदातुमिच्छतो गन्तुं गतिं रामोऽभिवान्छति । दूतस्त्वं ४तन्न वध्योऽसि याहि याहीत्यतर्जयत् ॥ ४२९ ॥  
 निजित्य सिन्धुरारारिं गर्जितेनोजिता क्रुधा । ततः कुम्भनिकुम्भंऽप्रकुम्भकर्णादिभिर्भटैः ॥ ४३० ॥  
 इन्द्रजित्सेन्द्रचर्मातिकन्यार्कखरदूषणैः । खरेण दुर्मुखख्येन महामुखखगेशिना ॥ ४३१ ॥  
 क्रुद्धैः कुमारैरन्यैश्च तर्ज्यमानोऽनिलाम्बजः । गर्जितेन वृथानेन वनिताजनसम्मुखम् ॥ ४३२ ॥  
 किं कृत्यमन्न संग्रामे मदीयं शृणुशोचरम् । इत्यवादीत्तादा नेदमुचितं दुरुदीरितम् ॥ ४३३ ॥  
 इति तान् वारयन् क्रुद्धान् नयवेदी विभीषणः । याहि भद्रानिवार्योऽथमकार्यखरदूषणैः ॥ ४३४ ॥  
 शुभाशुभविपाकानां भाविनां को निवारकः । इत्युवाचाणुमांश्चैत्य जानकीं वजिताशनाम् ॥ ४३५ ॥  
 मन्दोदर्युपरुह्यास्या द्रगदृष्ट्वा पारणाविधिम् । ततो वाराशिमुल्लङ्घ्य रामाभ्यर्णमुपागतः ॥ ४३६ ॥  
 नत्वा किं बहुनोक्तेन सीता तेन न मोक्ष्यते । अतस्तदनुरूपं वा कार्यं मा भूत शीतकाः ॥ ४३७ ॥  
 शंसन्ति निश्चिते कृत्ये कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहादाय तत्प्रोक्तमिध्वाकुकुलकंसरी ॥ ४३८ ॥  
 चतुरङ्गबलेनामा चित्रकूटवनान्तरे । कालमेव बलं मत्वाऽनैषीद्वर्षतुमित्तरः ॥ ४३९ ॥

हैं कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमें थी—किसके पास थी ? आप सीताको हर कर नहीं लाये हैं किन्तु चुरा कर लाये हैं । अतः यह कहिये कि इस कार्यसे क्या आपकी शूर-वीरता प्रकट होती है ? अथवा इन व्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ है । आप मीठे वचनोंसे ही रानी सीताको शीघ्र वापिस कर दीजिये ॥ ४२४-४२७ ॥ इस प्रकार अणुमानसे उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृदय संतप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विमानका स्वामी रावण कहने लगा कि 'रामचन्द्र, दृष्टिपि सपके फणामणिको ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषकी गतिको प्राप्त करना चाहता है—मरना चाहता है । तू दूत होनेके कारण मारने योग्य नहीं है अतः यहाँसे चला जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहको जीतनेवाली अपनी गर्जनासे अणुमानको ललकारा । तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं क्रूर प्रकृतिवाले कुम्भकर्ण आदि योद्धाओंने इन्द्रजित्, इन्द्रचर्म, अतिकन्यार्क, खरदूषण, खर, दुर्मुख, महामुख आदि विद्याधरोंने और क्रुद्ध हुए अन्य कुमारोंने अणुमान को बहुत ही ललकारा । तब अणुमानने कहा कि स्त्रीजनोंके सामने इस व्यर्थकी गर्जनासे क्या लाभ है ? इससे कौनसा कार्य सिद्ध होता है ? आप लोग मेरा उत्तर संग्राममें ही मुनिये । यह सुन नयोंके जाननेवाले विभीषणने उन क्रुद्ध विद्याधरोंको रोकते हुए कहा कि यह दुर्वचन कहना ठीक नहीं है । विभीषणने अणुमानसे भी कहा कि हे भद्र ! तुम अपने घर जाओ । अकार्य करनेके कारण जिसे आर्य मनुष्योंने छोड़ दिया है ऐसे इस रावणको कोई नहीं रोक सकता—यह किसीकी बात माननेवाला नहीं है । ठीक ही है आगे आने वाले शुभ-अशुभ कर्मके उदयको भला कौन रोक सकता है ? इस प्रकार विभीषणने कहा तब अणुमान, जिसने आहार पानी छोड़ रक्खा था ऐसी सीताके पास गया ॥ ४२८-४३५ ॥ मन्दोदरीके उपरोधसे सीताने क्रुद्ध थोड़ा-सा खाया था उसे देख अणुमान शीघ्र ही समुद्रको पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया ॥ ४३६ ॥ और नमस्कार कर कहने लगा कि बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? सबका सारांश यह है कि रावण सीताको नहीं छोड़ेगा इसलिए इसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, विलम्ब मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य निश्चित किये हुए कार्यमें शीघ्रता करनेकी प्रशंसा करते हैं—जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र ही कर डालना चाहिए । अणुमानकी बात सुनकर इक्ष्वाकु वंशके सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ चित्रकूट नामक वनमें जा पहुँचे । वे यद्यपि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समयको

१ तवार्पिताम् क०, ध० । त्वयार्पिता क० । २ संतर्पिताशयः ल० । ३ दृष्ट ग० । ४ यन्न क०, ध०, म० ।

तत्रत्यं बालिनो दूतः सर्माक्ष्य रघुनन्दनम् । प्रगम्योपायनं दन्वेन्यश्रवाद्दविमोहितम् ॥ ४४० ॥  
 विज्ञापयति मन्स्वामां बालीति बलवानलम् । पूज्यपादां यदि प्रेष्यं मामिच्छति महीपतिः ॥ ४४१ ॥  
 १न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं सुग्रीवानिलपुत्रयोः । यावत् किञ्चिन्करावार्यो वेति वैतम्पराक्रमम् ॥ ४४२ ॥  
 तिष्ठन्वैव देवोऽहं गत्वा लङ्कां दशाननम् । मानभङ्गे नियोज्यार्यामानयेऽधैव जानकांम् ॥ ४४३ ॥  
 इत्याकर्णिततद्वाक्यः २प्रप्राक्षील्लक्ष्मणाग्रजः । सामभेदविदां वाच्यं किष्किन्धेगः किमुत्तरम् ॥ ४४४ ॥  
 इति मन्त्रिगणं सर्वसम्मतः संस्तुतोऽङ्गदः । शत्रुमित्रमुदासीन इति भूपाश्रयो मनाः ॥ ४४५ ॥  
 रावणस्तेषु नः शत्रुबाली मित्रस्य विद्विपः । ३न कुर्मो यदि तत्कार्यं सम्बन्धीयान्स शत्रुगा ॥ ४४६ ॥  
 तथा चोपचयः शत्रोर्दुरुच्छेदो हि तेन सः । अथ बालिचक्रः कुर्मः कर्म तत्त्वार्यं दुष्करम् ॥ ४४७ ॥  
 ततो हठात्तवायातं किष्किन्धेशविनाशनम् । प्राक् पश्चाच्छक्तिसम्पत्त्या सुखोच्छेषो दशाननः ॥ ४४८ ॥  
 इत्यश्रुवीर्यदादाय दूतमाहूय भूपतिः । महामेधाभिधानं मे प्रदायानेकप्राग्निमम् ॥ ४४९ ॥  
 सहाभ्येतु मया लङ्का चर्यं पश्चार्दाप्सितम् । इत्युक्त्वामासुनात्मायमपि दूतं व्यसर्जयत् ॥ ४५० ॥  
 गत्वा तौ रामसन्देशात्सुग्रीवस्याग्रजन्मनः । कोपमानयतः स्मासाविन्धवोचन्मदोद्धतः ॥ ४५१ ॥  
 एवं ४प्रार्थयमानो मां रामो रामापहारिणम् । निर्मूल्यानीय सीतां किं यथा दिशु विकीर्णवान् ॥ ४५२ ॥

बलवान् मानकर उन्होंने वर्षाकृतु वहीं विनाई ॥ ४३५-४३६ ॥ जब रामचन्द्र चित्रकूट वनमें निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दूत उनके पास आया और प्रणाम करनेके अनन्तर भेंट समर्पित करना हुआ बड़ी सावधानीसे यह कहने लगा ॥ ४४० ॥ कि हे देव! मेरे स्वामी राजा बाली बहुत ही बलवान् है । वे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं—कि यदि पूज्यपाद महाराज रामचन्द्र मुझे दूत बनाना चाहते हैं तो सुग्रीव और अणुमानको दूत न बनायें क्योंकि वे दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं । यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठहरिये, मैं अकेला ही लङ्का जाकर और रावणका मानभङ्ग कर आर्या जानकीको आज ही लिये आना हूँ ॥ ४४१-४४३ ॥ इस प्रकार बालिके दूतके वचन सुनकर रामचन्द्रने साम और भेदको जानने वाले मन्त्रियोंसे पूछा कि किष्किन्धा नगरके राजा बालीको क्या उत्तर दिया जावे ॥ ४४४ ॥ इस प्रकार मन्त्रि-समूहसे पूछा । तब सर्वप्रिय एवं सर्व प्रशंसित अङ्गदने कहा कि शत्रु, मित्र और उदासीनके भेदसे राजा तीन प्रकारके होते हैं । इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण हमारा शत्रु है, और बालि मित्रका शत्रु है । यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वह शत्रुके साथ सन्धि कर लेगा—उसके साथ मिल जावेगा ॥ ४४५-४४६ ॥ और ऐसा होनेसे शत्रुकी शक्ति बढ़ जायगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःख-साध्य हो जायगा । यदि बालिकी बात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है ॥ ४४७ ॥ इसलिए सबसे पहले किष्किन्धा नगरीके स्वामीके नाश करनेका काम जवर्दस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और सम्पत्ति बढ़ जानेसे रावणका नाश सुखपूर्वक किया जा सकेगा ॥ ४४८ ॥ इस प्रकार अंगदके वचन स्वीकृत कर रामचन्द्रने बालिके दूतको बुलाया और कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ नामका श्रेष्ठ हाथी है वह मेरे लिए समर्पित करी तथा मेरे साथ लङ्काके लिए चलो, पीछे आपके इष्ट कार्यकी चर्चा की जायगी । ऐसा कह कर उन्होंने बालिके दूतको विदा किया और उसके साथ ही अपना दूत भी भेज दिया ॥ ४४९-४५० ॥ वे दोनों ही दूत जाकर सुग्रीवके बड़े भाई बालिके पास पहुँचे और उन्होंने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया । तब मदसे उद्धत हुआ बालि कहने लगा कि इस तरह मुझपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या स्त्रीको अपहरण करनेवाले रावणको नष्ट कर तथा सीताको वापिस लाकर दिशाओंमें अपना यश

१ मा ल०, म० । २ सोऽप्राचीत् ल० । ३ कुर्मो यदि ल० । ४ अभियाति, 'याञ्चायामभिधाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः ॥ इति केशवः । यद्वा अवरुणादि, इत्यर्थः । प्रा अर्थयते । 'प्रा न्यायाञ्चा-बरोधयोः' इत्यभिधानात् । प्रा अवरोधेन, प्रा इति तृतीयान्तम्, आकारान्तस्य प्राशब्दस्य योगविभागात् 'आतो धातोः' इत्यालोपः ।

दशास्ये साम सामोक्त्या समीप्सौ सामवायिके । परुपोक्तिर्मयीत्यस्य धीशौर्ये पश्य कौदशे ॥ ४५३ ॥  
 इमां तद्गर्वदुर्भाषां श्रुत्वा राघवसेविना । चौर्येण परदारारणां नेतुरुन्मार्गागामिनः ॥ ४५४ ॥  
 दोषद्वयानुरूपं त्वं दण्डं द्रक्ष्यसि चाचिरात् । किं तेन तव चेत्पथमिच्छेरुच्छिद्य दुर्मदम् ॥ ४५५ ॥  
 दत्त्वा गजं कुरूपासं स्वामिनो वृद्धिमेप्यति । अवश्यमचिरेणेति दूतेनोद्दीपितः क्रुधा ॥ ४५६ ॥  
 बाली कालानुकारी तं प्रत्याह परुषं वचः । वारणाशां त्यजत्वस्ति चेदाशा नास्ति वा रणम् ॥ ४५७ ॥  
 यातु मत्पादसेवां स मयामा यातु वारणम् । तदा तस्थान्शुभां वाणीं तद्विनाशविधायिनीम् ॥ ४५८ ॥  
 श्रुत्वा दूतोऽभ्युपेत्यैपद्मलिनं बालिनोऽन्तकम् । प्रातिकूल्येन बाली वः कृत्रिमः शत्रुरहितः ॥ ४५९ ॥  
 पारिपन्थिकवन्मार्गो दुर्गस्तस्मिन् विरोधिनि । इत्यब्रवीत्ततो रामः सुग्रीवप्रमुखं बलम् ॥ ४६० ॥  
 लक्ष्मणं नायकं कृत्वा प्राहिणोत्खादिरं वनम् । गत्वा वैद्याधरं सैन्यं बालिनोऽभ्यागतं बलम् ॥ ४६१ ॥  
 जघानेव वनं वज्रं प्रज्वलच्छस्त्रसन्तति । स्वयं सर्वबलेनामा योद्धुं बाली तदागमत् ॥ ४६२ ॥  
 पुनस्तयोरभूद् युद्धं बलयोः काललीलयोः । प्रलये वान्तकस्तत्र प्रायस्तुसिमुपेयिवान् ॥ ४६३ ॥  
 शार्करांकृष्णनिर्मुक्तनिशातसितपत्रिणा । लक्ष्मणेन शिरोऽग्राहि तालं वा बालिनः फलम् ॥ ४६४ ॥  
 तदा स्वस्थानमापन्नौ सुग्रीवानिलनन्दनौ । सद्यः फलति संसेवा प्रायेण प्रसुमाश्रिता ॥ ४६५ ॥  
 ततः सर्वेऽगमन् रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत । स्वस्थानं सबलो भक्त्या सुग्रीवेण सहानुजः ॥ ४६६ ॥

फैला लेंगे ? ॥ ४५१-४५२ ॥ स्त्रीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन कहला भेजे हैं और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द कहला रहे हैं । इनकी बुद्धि और शूर-वीरता तो देखो कैसी है ? ॥ ४५३ ॥ गर्वसे भरी हुई बालिकी इस नीच भापाको सुनकर रामचन्द्रके दूतने कहा कि रावण चोरीसे परस्त्री हर कर ले गया है सो उस उन्मार्गागामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीघ्र ही देखेंगे । अथवा इससे आपको क्या प्रयोजन ? यदि आपको महामेघ हाथी देना इष्ट है तो इस दुष्ट अहंकारको छोड़कर वह हाथी दे दो और स्वामीकी सेवा करो । ऐसा करनेसे आप अवश्य ही शीघ्र वृद्धिको प्राप्त होंगे । इस प्रकार कह कर दूतने बालिको क्रोधसे प्रज्वलित कर दिया ॥ ४५४-४५६ ॥ तब यमराजका अनुकरण करनेवाला बालि उत्तरमे निम्न प्रकार कठोर वचन कहने लगा । उसने कहा कि 'यदि रामचन्द्रको जीनेकी आशा है तो हाथीकी आशा छोड़ दें, यदि जीनेकी आशा नहीं है तो युद्धमें मेरे सामने आवें और उन्हें हाथी पर बैठनेकी ही इच्छा है तो मेरे चरणोंकी सेवाको प्राप्त हों फिर मेरे साथ इस हाथी पर बैठ कर गमन करें ।' इस प्रकार बालिका विनाश करनेवाली उसकी अशुभ वाणी को सुनकर वह दूत उसी समय बालिको नष्ट करनेवाले बलवान् रामचन्द्रके पास वापिस आ गया और कहने लगा कि बालि प्रतिकूलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥ ४५७-४५९ ॥ उस विरोधीके रहते हुए आपका मार्ग चोरोंके मार्गके समान दुर्गम है अर्थात् जब तक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं तब तक आपका लङ्काका मार्ग सुगम नहीं है । इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन्द्रने लक्ष्मणको नायक बनाकर सुग्रीव आदिकी सेना खादिर-वनमें भेजी । जिसमें शस्त्रोंके समूह देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी विद्याधरोंकी सेनाने सामने आई हुई बालिकी सेनाको उस तरह काट डाला जिस तरह कि वज्र वनको काट डालता है—नष्ट कर देता है । जब सेना नष्ट हो चुकी तब बालि अपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके लिए आया ॥ ४६०-४६२ ॥ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और काल उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः तृप्त हो गया ॥ ४६३ ॥ अन्तमें लक्ष्मणने कान तक खींच कर छोड़े हुए तीक्ष्ण सफेद वाणसे ताल वृक्षके फलके समान बालिका शिर काट डाला ॥ ४६४ ॥ उसी समय सुग्रीव और अणुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योंकि अच्छी तरह की हुई प्रभुकी सेवा प्रायः शीघ्र ही फल देती है ॥ ४६५ ॥ तदनन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास गये । सुग्रीव,

विभोर्मनाहेरोद्याने किष्किन्धे शरदागमे । बलं चतुर्दशाक्षौहिणीप्रमं भून्मनामभूत् ॥ ४६७ ॥  
 लक्ष्मणश्च जगत्पादगिरौ निरशनस्तदा । ससाहं शिवयोपाख्यमोक्षस्थाने कृतार्चनः ॥ ४६८ ॥  
 प्रज्ञप्तिं साधयामास भटाष्टातरक्षितः । सुर्यावोऽपि महाविद्याः पूजयामास सुजतः ॥ ४६९ ॥  
 सोपवासो गिरौ सम्मेदाख्ये सिद्धशिलातले । तथान्येऽपि स्वविद्यानां त्रगाः पूजामकुर्वन् ॥ ४७० ॥  
 एवं भूखेचराधीशं बलं चलितकेतनम् । रामलक्ष्मणसुर्यावमरुत्तन्मन्दननायकम् ॥ ४७१ ॥  
 करीन्द्रमकराकीर्णं तुरङ्गमतरङ्गकम् । प्रलयाम्भोधिस्तद्गाशं लङ्कां प्रति चचाल तत् ॥ ४७२ ॥  
 लङ्कापुरेऽप्यणुमतो विनिवृत्तौ दधाननः । कुम्भकर्णादिभिनास्मदुग्रवंशस्य भास्वतः ॥ ४७३ ॥  
 कर्मेदमुचितं ख्यातपौरुषस्य तव प्रभो । स्त्रीरत्नमेतदुच्छिष्टं तदस्मद्गुरोधतः ॥ ४७४ ॥  
 विसृज्यतामिति प्रोक्तोऽप्यासक्तस्त्यक्तुमक्षमः । भूयस्तृणमनुष्यस्य रामनाम्नो बलं किल ॥ ४७५ ॥  
 सीतां नेतुमतोऽस्माकमुपर्यागच्छतीति वाक् । श्रूयतेऽद्य कथं सीतामोक्षः कुलकलङ्कृत ॥ ४७६ ॥  
 इत्याख्यत्तद्बचः सोढुमक्षमो रावणानुजः । सूर्यवंशस्य शौर्यं किं रामस्तृणमनुष्यकः ॥ ४७७ ॥  
 न शृणोसि वचः पथ्यं बन्धूनां मदनान्धकः । परदारार्पणं द्योपं वदन् द्योपविदांवरः ॥ ४७८ ॥  
 परस्त्रीग्रहणं शौर्यं त्वदुपज्ञं भवेद् भुवि । मिथोचरेण किं मार्गाविध्वन्सोन्मार्गवर्तनम् ॥ ४७९ ॥  
 दुर्धरं तव दुर्बुद्धेलोकैर्द्वयभयावहम् । विषयाननिषिद्धांश्च परित्यक्तुं वयस्तव ॥ ४८० ॥

रामचन्द्रको लक्ष्मण और सब सेनाके साथ-साथ बड़ी भक्तिसे अपने नगरमें ले आया और किष्किन्धा नगरके मनोहर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया । उस समय शरद-ऋतु आ गई थी और रामचन्द्रके साथ राजाओंकी चौदह अक्षौहिणी प्रमाण सेना इकट्ठी हो गई थी ॥ ४६६-४६७ ॥ जहाँसे शिवयोप मुनिने मोक्ष प्राप्त किया था ऐसे जगत्पाद नामक पर्वत पर जाकर लक्ष्मणने सात दिन तक निराहार रहकर पूजा की और प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध की । विद्या सिद्ध करते समय एक साँ आठ योद्धाओंने उसकी रक्षा की थी । इसी प्रकार सुर्यावने भी उस समय उत्तम व्रत और उपवास धारण कर सम्मेदा-चल पर सिद्धशिलाके ऊपर महाविद्याओंकी पूजा की । इनके सिवाय अन्य विद्याधरोंने भी अपनी अपनी विद्याओंकी पूजा की । इस प्रकार जिसमें ध्वजाएँ फहरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सुर्याव और अणुमान् जिसमें प्रधान हैं, जो बड़े बड़े हाथीरूपी मगरमच्छोंसे व्याप्त हैं, और घोड़े ही जिसमें बड़ी-बड़ी तरंगे हैं ऐसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंकी सेना लङ्काके लिए रवाना हुई ॥ ४६८-४७२ ॥

अथानन्तर—जब अणुमान् लङ्कासे लौट आया था तब कुम्भकर्ण आदि भाइयोंने रावणसे कहा था कि हे प्रभो ! आप हमारे उच्च वंशमें सूर्यके समान देदीप्यमान हैं और आपका पौरुष भी सर्वत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है । यह स्त्रीरत्न उच्छिष्ट है इसलिए हमलोगोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए । इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँकि रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका । वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र तृण-मनुष्य हैं—तृणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, 'उनकी सेना सीताको लेनेके लिए यहाँ हमारे ऊपर आ रही है' ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको कैसे छोड़ा जा सकता है, यह बात तो कुलको कलङ्क लगाने वाली है ॥ ४७३-४७६ ॥ रावणका छोटा भाई विभीषण उसकी यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रको तृणमनुष्य मानते हैं पर सूर्यवंशीय रामचन्द्रकी क्या शूर-वीरता है इसका आपको पता नहीं है । आप कामसे अन्ये हो रहे हैं इसलिए भाइयोंके हितकारी वचन नहीं सुन रहे हैं । आप परस्त्रीके समर्पण करनेको दोष बतला रहे हैं इसलिए मालूम होता है कि आप दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं ? (व्यङ्ग्य) ॥ ४७७-४७८ ॥ परस्त्रीग्रहण करना शूर-वीरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो रहा है । आप जो अपनी दुर्बुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न करनेवाले एवं दुर्धर उन्मार्गकी प्रवृत्ति नहीं होगी और सुमार्ग-

परामृशत्र किं युक्तं निषिद्धविषयैषणम् । विद्धि वैद्याधरीं लक्ष्मीमिमां तव गुणप्रियाम् ॥ ४८१ ॥  
 अनर्पयन्तं सीतां त्वां त्यजत्यद्यैव निर्गुणम् । अकार्यकारिणामत्र १ गणनायां किमग्रिमम् ॥ ४८२ ॥  
 स्वं करोष्यभिलाषात्मकार्येण परयोषिति । प्रतिकूलोऽसि पुण्यस्य दुर्वृत्त्या पापसञ्चयात् ॥ ४८३ ॥  
 ततोऽननुगुणं २ दैवं विना दैवात्कुतः श्रियः । परस्त्रीहरणं नाम पापं पापेषु दुस्तरम् ॥ ४८४ ॥  
 विस्मरेण किमुक्तेन नेष्यत्येनो महातमः ३ । आस्तां तावददो भावि शपेः ४ शीलालयस्त्रियः ॥ ४८५ ॥  
 अलमामूलतो दुग्धं कुलं क्रोधविधायिनाम् । नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामीत्येकमेव तव व्रतम् ॥ ४८६ ॥  
 पोतभूतं भवादिंश्च ५ तत्तत्किं विनाशयेः । प्राणैरपि यशः क्रयं सतां प्राणैश्च तेन च ॥ ४८७ ॥  
 पापं कल्पान्तरस्थायि क्रीणास्यज्ञोऽयशश्च धिक् । कस्येयं दुहिता सीता किं तन्न ज्ञायते त्वया ॥ ४८८ ॥  
 सुज्ञानमभ्यविज्ञेयं कामव्यामुग्धमानसैः । अत्यौत्सुक्यमनासेषु प्राप्तेषु परितोषणम् ॥ ४८९ ॥  
 ६ भुज्यमानेषु वैरस्यं विषयेषु न वेत्सि किम् । अयोग्यायामनाथायां नाशहेतौ बृथा रतिम् ॥ ४९० ॥  
 मा कृथाः पापदुःखापलेपभाक् परयोषिति । आदेशः कीदृशः सोऽपि स्मार्यां वा ७ भाविवेदिनाम् ॥ ४९१ ॥  
 चक्रस्य परिपाकं च प्रादुर्भूतं च भावय । बलानामप्टमं रामं लक्ष्मणं चार्द्धचक्रिणाम् ॥ ४९२ ॥  
 आमनन्ति पुराणज्ञाः प्राज्ञं तच्च विचिन्तय । यादृशार्पयतो दोषस्तादृगर्पयतस्तथा ॥ ४९३ ॥  
 सीतां नेति विनिश्चिद्य तां रामाय समर्पय । इति लक्ष्मीकृतावृद्धिसाधनं धर्मशर्मदम् ॥ ४९४ ॥

का विनाश नहीं होगा ? जो विषय निषिद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अवस्था है फिर जरा विचार तो कीजिये इस अवस्थामें निषिद्ध विषयकी इच्छा करना क्या आपके योग्य है ? आप यह निश्चित समझिये कि यह विद्याधरोकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी प्रिया है । यदि आप सीताको वापिस नहीं करेंगे तो निर्गुण समझ कर यह आपको आज ही छोड़ देगी । पर-स्त्रीकी अभिलाषा करने रूप इस अकार्यसे आप अपने आपको अकार्य करनेवालोंमें अग्रणी—मुखिया क्यों बनाते हैं ? इस समय आप इस दुष्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे हैं, पुण्यके प्रतिकूल रहनेसे दैव अनुकूल नहीं रहता और दैवके विना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर-स्त्रीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है ॥ ४७६-४८४ ॥ अधिक विस्तारके साथ कहनेमें क्या लाभ है ? यह पाप आपको सातवें नरक ले जावेगा । अथवा इसे जाने दो, यह पाप पर भवमें दुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूतस्त्रियों अपने प्रति क्रोध करनेवालोंके कुलको शापके द्वारा इसी भवमें आमूल नष्ट करनेके लिए समर्थ रहती हैं । आपने व्रत लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा । आपका यह एक व्रत ही आपको संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो ? सज्जन पुरुषोंको प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप ऐसे अज्ञानी हैं कि प्राण और यश देकर दूसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं अतः आपके लिए धिक्कार है । यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे मोहित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानिके समान होती है । क्या आप यह नहीं जानते कि ये पञ्चेन्द्रियोंके विषय जबतक प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इनमें उत्सुकता रहती है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोष होने लगता है, और जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब नीरसता आ जाती है । इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप और दुःखका सञ्चय करनेवाली परस्त्रीमें व्यर्थका प्रेम मत कीजिए । भविष्यत्की बात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा आदेश दिया था—क्या कहा था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए ॥ ४८५-४८९ ॥ तथा चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कीजिए । पुराणोंके जाननेवाले रामको आठवाँ बलभद्र और लक्ष्मणको नौवाँ नारायण कहते हैं । हे विद्वन् ! आप इसका भी विचार कीजिए । सीताको नहीं सौंपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सौंपनेमें नहीं है ॥ ४८२-४८३ ॥ इसलिए इन सब बातोंका

१ गणनीयं ल० । २ अनुकूलम् । ३ नेष्यते तत्तमरतमं ग०, घ० । ४ शपः शीलालयश्रियः ल० । ५ किं तत्तरीतुं ल०, म० । ६ भुज्यमानेषु ल० । ७ भावि निवेदिनाम् ल० ।

बचोऽवोचद्विचार्योर्ध्वशः कर्तुं शशिप्रभम् । भाया विभीषणायैवं भापमाणाय भीषणः ॥ ४९५ ॥  
 रुषितो रावणो दूते नैकस्वमुपगम्य मे । परामर्षं सभामध्ये प्राग्बुस्सहमजीजनः ॥ ४९६ ॥  
 सप्रत्यपि दुरुक्तोऽहं त्वया सहजताबलान् । अवध्यो याहि महेशादित्यभावं निहुरम् ॥ ४९७ ॥  
 सोऽपि दुश्चरितस्यास्य नाशोऽवश्यं भविष्यति । सहानेन विनाशो मां दूषयन्त्ययश्मकरः ॥ ४९८ ॥  
 निर्वासितोऽहं निर्भर्त्स्यं देशाद्वितमुदाहरन् । इष्ट एव किलारण्यं वृष्टो देव इति श्रुतिः ॥ ४९९ ॥  
 पुण्यान्ममाद्य सम्पन्ना यामि रामक्रमास्तुजम् । इत्यन्तर्गतमालोच्य चिनिश्चित्य विभीषणः ॥ ५०० ॥  
 जलधेर्जलमुल्लङ्घ्य सौजन्यमिव सन्वरम् । महामदीप्रवाहो वा वारिधिं राममासदन् ॥ ५०१ ॥  
 लक्ष्मणप्रमुखान्मुख्यान् वेलालीलावहान् बहून् । प्रत्युद्रमस्य विस्रम्य तमानीय परीक्षया ॥ ५०२ ॥  
 सोऽपि ज्ञातानुभावत्वादेकीभावमुपागमन् । ततः कनिपर्यैरेव प्रयाणैर्गतवत्सलम् ॥ ५०३ ॥  
 जलधेस्तटमाश्रित्य सखिविष्टं समन्ततः । तदा तत्राणुमानित्थं रामं विज्ञापयन्मिथः ॥ ५०४ ॥  
 देवादेशोऽस्ति चेद्वत्वा लङ्कां शौर्योर्जिहीर्षया । वनभङ्गेन ते शत्रोर्मानभङ्गं करोम्यहम् ॥ ५०५ ॥  
 लङ्कादाहेन दाहं च देहस्याहेतकारिणः । तथा सति स मागित्वाद्दसौ वेदागमिष्यति ॥ ५०६ ॥  
 स्थानभ्रंशासुखोच्छेद्यो नागच्छेरोजसः क्षतिः । इति श्रुत्वास्व विज्ञप्तिं तद्भिन्यवद्वक्ष्यः ॥ ५०७ ॥  
 सहायैश्चादिशस्य विधेशान् शौर्यशालिनः । लब्धाश्च सांसपि सन्मुष्य सद्यो वानरविद्यया ॥ ५०८ ॥  
 प्रादुर्भावितदुःप्रैक्ष्यनानावानरसेनया । द्रुतं वाराणिसुलङ्घ्य विक्रमाद्गनपालकान् ॥ ५०९ ॥

निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सौंप दीजिये । इस प्रकार विभीषणने अच्छी तरह विचार कर यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी लताको बढ़ानेवाले तथा धर्म और मुख देनेवाले उत्कृष्ट वचन कहे । परन्तु इस प्रकारके उत्तम वचन कहनेवाले विभीषणके लिए वह भयङ्कर रावण कुपित होकर कहने लगा कि 'तूने दूतके साथ मिलकर पहले सभाके बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था और इस समय भी तू दुर्वचन बोल रहा है । तू मेरा भाई होनेसे मारने योग्य नहीं है इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा' । इस प्रकार रावणने बहुत ही कठोर शब्द कहे ॥ ४९४-४९७ ॥ रावणकी बात सुनकर विभीषणने विचार किया कि इस दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा और यह अपयश करनेवाला नाश मुझे दूषित करेगा ॥ ४९८ ॥ इसने तिरस्कार कर मुझे देशसे निकाल दिया है यह अच्छा ही किया है क्योंकि मुझे यह इष्ट ही है । 'कपल जङ्गलमें ही बरसे' यह कहावत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हुई है । अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप ही जाता हूँ । इस प्रकार चित्तमें विभीषणने विचार किया और ऐसा ही निश्चय कर लिया ॥ ४९९-५०० ॥ वह शीघ्र ही सौजन्यकी तरह समुद्रके जलका उलङ्घन कर गया और जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास पहुँचता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ॥ ५०१ ॥ रामचन्द्रने तरङ्गोंकी लीला धारण करनेवाले लक्ष्मण आदि अनेक बड़े-बड़े योद्धाओं को विभीषणकी अगवानी करनेके लिए भेजा और वे सब परीक्षा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे ले आये । विभीषण भी रामचन्द्रके प्रभावको समझता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्त हो गया—हितहित गया । तदनन्तर कुछ ही पड़ाव चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ पहुँची और चारों ओर ठहर गई । उस समय अणुमानने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि हे देव ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शूर-वीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लक्ष्मण जाऊँ और वनका नाश कर आपके शत्रुका मान भङ्ग करूँ ॥ ५०२-५०५ ॥ साथ ही लक्ष्मणको जलाकर शत्रुके शरीरमें दाह उत्पन्न करूँ । ऐसा करने पर वह अहङ्करी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा और उस दशमें स्थान-भ्रष्ट होनेके कारण वह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा । यदि यहाँ नहीं भी आवेगा तो उसके प्रतापकी अति तो अवश्य होगी । अणुमानकी यह विज्ञप्ति सुनकर राजा रामचन्द्रने वैसा करनेकी अनुमति दे दी और शूर-वीरतासे सुशोभित अनेक विद्याधरोंको उसका सहायक बना दिया । रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अणुमान बहुत सन्तुष्ट हुआ । उसने वानर-विद्याके द्वारा शीघ्र ही अनेक भयङ्कर वानरोंकी सेना बनाई और उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्रका उलङ्घन किया । वहाँ वह

आग्रहं निग्रहं कृत्वा वनभङ्गं व्यधात् क्रुधा । <sup>१</sup>ऊर्ध्वकृतकरा घोरं क्रोशन्तो वनपालकाः ॥ ५१० ॥  
 प्राविशन्नगरी घोरं श्रावयन्तोऽश्रुतश्रुतिम् । तदा राक्षसविद्योद्यद्भवमालोपलक्षिताः ॥ ५११ ॥  
 अभियाता पुरारक्षा योर्द्धुं पवननन्दनम् । अधानिलसुतादिष्ट<sup>२</sup>वानरानीकनायकाः ॥ ५१२ ॥  
 तानभङ्गन् समुद्धृत्य ग्रहृत्य वनपादपैः । ततः स्फुरन् महाज्वालविद्ययाऽसौ बहिः पुरम् ॥ ५१३ ॥  
 निरधाक्षीदधिक्षिप्य रुक्षरक्षोबलं बली । एवं रावणदुर्वारप्रतापप्रोद्यतद्रुमम् ॥ ५१४ ॥  
 प्रोन्मूल्य वानरानीकनायको राममाययौ । सञ्चाङ्ग राघवः स्थित्वा<sup>३</sup> बलं संग्रामसम्मुखम् ॥ ५१५ ॥  
 नागतो रावणः केन हेतुनेति विभीषणम् । अप्राक्षीदथ सोप्याख्यलङ्कायां नास्ति रावणः ॥ ५१६ ॥  
 बालिलोकान्तरापत्तिं सुग्रीवाणुमतोरपि । विद्याबलालेपिस्वमवगम्य स्वयं च सः ॥ ५१७ ॥  
 निवेश्य निजरक्षायां सुतमिन्द्रजिदाह्वयम् । अष्टोपवासमासाद्य सम्यग्भियमितेन्द्रियः ॥ ५१८ ॥  
 आदित्यपादशैलेन्द्रे विद्याः संसाधयन् स्थितः । राक्षसादिमहाविद्यासिद्धावुपचितो भवेत्<sup>४</sup> ॥ ५१९ ॥  
 तद्विघ्नपूर्वकं लङ्कामवष्टभ्यनिवेशनम् । प्रयोजनमिति श्रद्धधन्तं सीतापतिं प्रति ॥ ५२० ॥  
 नायकाभ्यां ततः सुग्रीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दत्त्वा गरुडसिंहाविवाहन्यौ बन्धमोचनीम् ॥ ५२१ ॥  
 हननावरणीं विद्याश्रतस्त्रोऽस्य पृथक् पृथक् । प्रज्ञसिविद्याविकृतविमानेन महाबलम् ॥ ५२२ ॥  
 लङ्कापुरबहिर्भागे लक्ष्मिवेशयतः स्म तौ । नभश्चरकुमारेषु तदा रामाज्ञया गिरिम् ॥ ५२३ ॥  
 सम्प्राप्य युद्धयमानेषु रावणस्याप्रसूनुना । सम्भूयेन्द्रजिता यूयं युध्यध्वमिति संक्रुधा ॥ ५२४ ॥

अपने पराक्रमसे वन-पालकोंको पकड़ कर उनका निग्रह करने लगा और क्रोधसे उसने रावणका समस्त वन नष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिल्लाते हुए नगरीमें गये और जो कभी नहीं सुने थे उन भयङ्कर शब्दोंको सुनाने लगे । उस समय राक्षस-विद्याके प्रभावसे फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणुमानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये । यह देख अणुमानने भी वानर-सेनाके सेनापतियोंको आज्ञा दी और तदनुसार वे सेनापति लोग वनके वृक्ष उखाड़कर उन्हींसे प्रहार करते हुए उन्हें मारने लगे । तदनन्तर बलवान् अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्षसोंकी रूखी सेनाको अपनी देदीप्यमान महाज्वाल नामकी विद्यासे वहाँका वहीं भस्म कर दिया । इस प्रकार वानर सेनाका सेनापति अणुमान्, रावण के दुर्वार प्रताप रूपी ऊँचे वृक्षको उखाड़ कर रामचन्द्रके समीप वापिस आ गया । इधर रामचन्द्र तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सम्मुख खड़े हो गये ॥ ५०६-५१५ ॥ उस समय उन्होंने विभीषण से पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है ? तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय रावण लङ्कामें नहीं है । बालिका परलोक गमन और सुग्रीव तथा अणुमानके विद्याबलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित् नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिनका उपवास लेकर और इन्द्रियोंको अच्छी तरह वश कर आदित्यपाद नामके पर्वत पर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है । राक्षसादि महाविद्याओंके सिद्ध हो जानेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जावेगा । इसलिए इस समय हम लोगोंका यही काम है कि उसकी विद्यासिद्धिमें विघ्न किया जाय और लङ्काको घेरकर ठहरा जाय, इस प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे कहा । तदनन्तर सुग्रीव और अणुमान् ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुडवाहनी, सिंहवाहनी, बन्धमोचनी और हननावरणी नामकी चार विद्याएँ अलग-अलग रामचन्द्र और लक्ष्मणके लिए दीं । इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रज्ञप्ति नामकी विद्यासे बनाये हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको लङ्कानगरीके बाहर मैदानमें ले जाकर खड़ी कर दी । उसी समय कितने ही विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद नामक पर्वत पर जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणके बड़े पुत्र इन्द्रजितने क्रोधमें आकर विद्याधर राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग मिलकर इनसे युद्ध करो । इन्द्रजितकी बात सुनकर विद्या-देवताओंने कहा कि हमलोगोंने आपिके

प्रेयिताः खचरार्थाशाः प्राच्याः सर्वांश्च देवताः । इयन्तं कालमस्माभिर्भवपुण्यबलोद्भयान् ॥ ५२५ ॥  
 त्वयाभिलषितं कार्यं साधितं पुण्यसंक्षयं । समयां नेत्यसात्कुतो व्यक्तं नाभिर्दशाननः ॥ ५२६ ॥  
 भवतीभिर्वराकीभिर्यातं किं मम साध्यते । हन्त्यहं परिरूपेणैव नृमृगान् सह खचरान् ॥ ५२७ ॥  
 सहायैः साधितं कार्यं लज्जायै ननु मानिनाम् । इति क्रुद्धः पुरीमागारादैवासौ सहेंद्रजिनः ॥ ५२८ ॥  
 दुश्चेष्टस्यास्तपुण्यस्य<sup>१</sup> भूतं भावि<sup>२</sup> विनश्यति । परिवारमुखाद् ज्ञात्वा परैर्लङ्कोपरोधनम् ॥ ५२९ ॥  
 हरिणैर्हरिरारुद्धः पश्य कालविपर्ययम् । अथ वासन्नमृत्यूनां भवेत्प्रकृतिविभ्रमः ॥ ५३० ॥  
 इति गर्जन्सामाक्रान्ततुङ्गमातङ्गसिंहवन् । रविकीर्तिं स्वसेनान्यं हरिणध्वजमादिशन् ॥ ५३१ ॥  
 युद्धायास्फाल्यतां भेरी शत्रुपक्षक्षयावहा । इत्यादिष्टस्तदैवासौ तथा कृत्वाखिलं बलम् ॥ ५३२ ॥  
 कालान्ते कालदूतो वा सहसैकीचकार तत् । अथ निर्गत्य लङ्काया विभक्तनिजसाधनः ॥ ५३३ ॥  
 सुकुम्भेन निकुम्भेन कुम्भकर्णेन चारुरैः । सहजैरिन्द्रजिन्मुख्येनेन्द्राख्येनेन्द्रकीर्तिना ॥ ५३४ ॥  
 इन्द्रवर्माभिधानेन तनुजैरपरैरपि । महामुखानिकायाख्य<sup>३</sup>दुर्मुखैर्माहाबलैः ॥ ५३५ ॥  
 खरदूषणधूमख्यप्रमुखैश्च खगेश्वरैः । इव क्रूरग्रहैर्भास्वाच्चैदाधः परिवारितः ॥ ५३६ ॥  
 त्रिजगद्प्रसनालोलकाललीलां विडम्बयन् । न तौ मम पुरः स्थातुं समर्थौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५३७ ॥  
 तिष्ठतः शन्नगोमायू किं पुनः संहतौ हरेः । अरावणं भवेदद्य जगदेतत्सतांस्तयोः ॥ ५३८ ॥  
 सहावश्यमहं ताम्यां पालयामि महीं नहि । इत्याद्यतर्कितायानिजामङ्गलमालपन् ॥ ५३९ ॥

पुण्योदयसे इतने समय तक आपका वाञ्छित कार्य किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो गया है इसलिए आपके कहे अनुसार कार्य करनेमे हम समथे नहीं हैं । जब उक्त विद्या-देवताओंने रावणसे इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग जा सकती हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध होनेवाला है ? मैं अपने पुरुषार्थसे ही इन मनुष्य रूपी हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूँ ॥ ५१६-५२७ ॥ सहायकोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लज्जा उत्पन्न करना है । इस प्रकार क्रुद्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रजित्के साथ नगरमें आ गया । देखो, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता है ऐसे दुश्चरित्र मनुष्यका भूत और भावी सब नष्ट हो जाता है । नगरमें आनेपर उसने परिवारके लोगोंसे क्षत किया कि शत्रुओंने लङ्काको घेर लिया है ॥ ५२८-५२९ ॥ उस समय रावण कहने लगा कि समयकी विपरीतता तो देखो, हरिणोंने सिंहको घेर लिया है । अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनके स्वभावमें विभ्रम हो जाता है ॥ ५३० ॥ इस प्रकार किसी ऊँच हाथी पर आक्रमण करनेवाले सिंहके समान गरजते हुए रावणने हरिणकी ध्वजा धारण करनेवाले अपनी रविकीर्ति नामक सेनापतिको आदेश दिया ॥ ५३१ ॥ कि युद्धके लिए शत्रुपक्षका क्षय करनेवाली भेरी बजा दो । उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और कल्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनी समस्त सेना इकट्ठी की । तदनन्तर सेनाका अलग-अलग विभाग कर रावण लङ्कासे बाहर निकला ॥ ५३२-५३३ ॥ उस समय वह सुकुम्भ, निकुम्भ, कुम्भकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सबसे मुख्य इन्द्रजित्, इन्द्रकीर्ति, इन्द्रवर्मा तथा अन्य राजपुत्रोंसे एवं महाबलवान् महामुख, अतिकाय, दुर्मुख, खरदूषण और धूम आदि प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट ग्रहोंसे घिरे हुए ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके समान जान पड़ता था और तीनों जगत्को असनेके लिए सत्पुष्प यमराजकी लीलाको विडम्बित कर रहा था । वह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थ नहीं हैं । अरे, बहुतसे खरगोश और शृगाल इकट्ठे हो जावें तो क्या वे सिंहके सामने खड़े रहे सकते हैं ? आज उनके जीते जी यह संसार रावणसे रहित भले ही हो जाय परन्तु मैं उनके साथ इस पृथिवीका पालन कदापि नहीं करूँगा । इस प्रकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमङ्गलको

१ दुश्चेष्टस्यास्तपुण्यस्य ल० । २ च नश्यति ल० । ३ कार्याधिकः ख०, क०, प्र०, म० । कामाक्षः ग० ।



कालमेघमहागन्धगजस्कन्धमधिष्ठितः । प्रतिघातहतप्रोद्यद्वाक्षसध्वजराजितः ॥ ५४० ॥  
 'अग्रेसरस्फुरच्चक्रदञ्ज्रस्थगितभास्करः । नानानूनानकध्वानभिन्नाशानेकपश्रुतिः ॥ ५४१ ॥  
 खेचराधीश्वरो योद्धुं सन्नद्धोऽस्थान्मदोद्धतः । इतो रामस्तदायानकथाकर्णनवूर्णितः ॥ ५४२ ॥  
 दुर्निवारो रिपुं कोपपावकेनेव निर्दहन् । चक्षुःप्रान्तविनिर्गच्छतज्वलद्वीक्षाशिखावर्लाः ॥ ५४३ ॥  
 उल्मुकालीरिवायोद्धुं विक्षिपन् दिक्षुमंक्षु सः । महाविद्यासमूहासपन्नमाङ्गबलान्वितः ॥ ५४४ ॥  
 तालध्वजः समारुह्य गजमञ्जनपर्वतम् । लक्ष्मणां 'वलयालम्बिविषधृद्गुरुध्वजः ॥ ५४५ ॥  
 उदयाद्रिभिवाह्य गजं विजयपर्वतम् । जिनेशिनं प्रणम्येतौ विश्वविघ्नविवाशनम् ॥ ५४६ ॥  
 सुग्रीवानिलयुत्नादिखगेशैः परिवेष्टितौ । सूर्याचन्द्रमसौ वैरितमो हन्तुं समुद्यतौ ॥ ५४७ ॥  
 भासमानौ नयौ बोधौ दृष्टदुर्मतिघातिनौ । रावणाभिमुखं योद्धुं विभज्य ध्वजिनीं निजाम् ॥ ५४८ ॥  
 युद्धभूमिमधिघाय तस्वतुच्छासितद्विषौ । तत्र तूर्यमहाध्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम् ॥ ५४९ ॥  
 निर्भर्त्सयन्तो बोधण्डनिष्ठप्रहतेर्भयान् । गुहागङ्गदेशादीन् विशान्तो वा समन्ततः ॥ ५५० ॥  
 गजवृंहितवाहोरुहेषाघोषाविशेषतः । वर्द्धयन्तो भटानां च सुतरां शौर्यसम्पदम् ॥ ५५१ ॥  
 द्विषां भयं प्रकुर्वन्तो नभोभागमरोधयन् । तदाविष्कृतसंरम्भाः कलत्राणीव दुर्जयाः ॥ ५५२ ॥  
 हस्ताप्रमितमध्यानि नवाभोदकुलानि वा । सशराणि मनांसीव गुणनम्राणि धीमताम् ॥ ५५३ ॥

वह रावण स्वयं कह रहा था ॥ ५३४-५३६ ॥ उस समय वह कालमेघ नामक मदा मदान्त हाथीके ऊपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी ओरसे आनेवाली ) वायुसे ताड़ित होकर फहराती हुई राक्षस-ध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररत्न देदीप्यमान हो रहा था, उसके छत्रसे सूर्य आच्छादित हो गया था—सूर्यका आताप रुक गया था और उसने अपने अनेक प्रकारके बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दसे दिग्गजोंके कान बहिरे कर दिये थे । इस प्रकार उस ओर मदसे उद्धत हुआ रावण युद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचन्द्र उसके आनेकी बात सुनकर क्रोधसे भूमने लगे ॥ ५४०-५४२ ॥ वह उस समय अत्यन्त दुर्निवार थे और क्रोध रूपी अग्निके द्वारा मानो शत्रुको जला रहे थे । उनके नेत्रोंके समीपसे जो जलती हुई दृष्टि निकल रही थी वह वाणोंके समान जान पड़ती थी और उरो वे जलते हुए अंगारोंके समान युद्ध करनेके लिए दिशाओंमें बढ़ी शीघ्रतासे फंके रहे थे । महाविद्याओंके समूहसे जो उन्हें सेनाका पाँचवाँ अङ्ग प्राप्त हुआ था वे उससे सहित थे । उनकी तालकी ध्वजा थी और वे अञ्जनपर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकले थे । साथ ही, जिसकी ध्वजामें वलयाकार सौंपको पकड़े हुए गरुड़का चिह्न बना है ऐसा लक्ष्मण भी विजय-पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकला । इन दोनोंने पहले तो समस्त विघ्न नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया और फिर दोनों ही सुग्रीव तथा अणुमान् आदि विद्याधरोंसे वेष्टित हो सूर्य-चन्द्रमाके समान शत्रु रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए चल पड़े ॥ ५४३-५४७ ॥ वे दोनों भाई नयोंके समान सुशोभित थे और दृष्ट तथा दुर्बुद्धियोंका घात करनेवाले थे । रावणके सामने युद्ध करनेके लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रक्खा था, इस प्रकार शत्रुओंको भयभीत करते हुए वे युद्ध-भूमिमें जाकर ठहर गये । वहाँ इनके नगाड़ोंके बड़े भारी शब्द शत्रुओंके नगाड़ोंके शब्दोंको तिरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा जाम पड़ता था कि मानो वे शब्द ऊँचे उठते हुए दृष्टोंके कठोर प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़े आदि देशोंमें सब ओरसे प्रवेश कर रहे हों—छिप रहे हों ॥ ५४८-५५० ॥ हाथियोंकी चिंघाड़ें और घोड़ोंके हींसनेके शब्द विशेष रूपसे योद्धाओंकी शूर-वीरता रूप सम्पत्तिको अन्धकी तरह बढ़ा रहे थे ॥ ५५१ ॥ उस समय जो आरम्भ प्रकट हो रहे थे वे शत्रुओंको भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे और स्त्रियोंके समान दुर्जय थे ॥ ५५२ ॥ धनुष धारण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष लेकर निकले थे । उन धनुषोंका मध्यम

१. अग्रेसर च० । २ 'वलयाकारसर्पसहितगुरुध्वजाः' (म पुस्तके टिप्पणी) 'लक्ष्मणोऽपि मुलाखम्बिविष-धृद्गुरुध्वजः' ल० ।

दुर्लभवचनार्नाव हृदिभेदीनि दूरतः । दिग्ग्यापिमौर्वानादत्वात् कोपहुङ्कारवन्ति वा ॥ ५२४ ॥  
 कर्णाभ्यर्णप्रवर्तित्वाच्चिगदन्तीव मन्त्रणम् । कृच्छ्रकृत्येष्वभङ्गत्वात्सङ्गतानां सज्जनैः ॥ ५२५ ॥  
 शरासनानि सन्धार्य निरगच्छन् धनुर्धराः । खड्गवर्मधरा १धीरभट्टाश्च पटुराटिनः ॥ ५२६ ॥  
 धनान् सतद्धितः कृष्णान् गर्जिनो विजिगीषवः । २नानाप्रहरणोपेता नानायुद्धविभारदाः ॥ ५२७ ॥  
 परे च परितः प्रापुर्थोर्द्धुं परवलं भटाः । अतिद्रुताः सुराघातैर्दारयन्त इवावनिम् ॥ ५२८ ॥  
 सचामरा महीशा वा समहामणिपीठकाः । आसृतेरिष्टमृत्या वा स्वस्वामिहितकारिणः ॥ ५२९ ॥  
 भुक्षाना इव सप्रासा मधुरैः किङ्किणीरवैः । विजयं वा स्वसैन्यस्य घोषयन्तो निरन्तरम् ॥ ५३० ॥  
 सपक्षा इव सत्पत्नकङ्कटा गगनान्तरम् । लिलङ्घयिषवो ३लालाजलफेनप्रसूनकैः ॥ ५३१ ॥  
 स्वपादनटनृत्तार्थमर्चयन्तो धराभिव । हया यवनकाशर्मारवाह्नीकादिसमुद्रवाः ॥ ५३२ ॥  
 स्फुरदुत्खातखड्गाङ्गुविलसस्तापविधिताः । महासैन्याब्धिसम्भूततरङ्गाभा विनिर्गताः ॥ ५३३ ॥  
 द्विषो भीषयितुं वोद्धेर्हंपाघातैर्विभूषणैः । स्वानुकूलानिलाः शस्त्रभाण्डाः प्रोद्दण्डकेतवः ॥ ५३४ ॥  
 संग्रामाम्भोनिधेः प्रोताः प्रबेलुः शृथवो रथाः । चक्रपैकेन चक्रव्री विक्रमी नस्तयोर्द्वयम् ॥ ५३५ ॥  
 मत्वेति वा द्रुतं पेतुर्दिकचक्राक्रमिणो रथाः । नायकाविधिता शस्त्रैः सम्पूर्णास्पूर्णवाजिनः ॥ ५३६ ॥

भाग हाथके अप्रभागेके बराबर था, वे नये बादलोंके समूहके समान जान पड़ते थे, बाण सहित थे, बुद्धिमान् पुरुषोंके मनके समान गुण—डोरी ( पक्षमें दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) से नन्न थे, कठोर वचनोंके समान दूरसे ही हृदयको भेदन करनेवाले थे, उनकी प्रत्यङ्गाका शब्द दिशाओंमें फैल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रोध वश हुङ्कार ही कर रहे हों, खिचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो कुछ मन्त्र ही कर रहे हों, और सज्जनोंकी संगतिके समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी भ्रम नहीं होते थे ऐसे धनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले । कुछ धीर वीर योद्धा तलवार और कवच धारण कर जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिजली सहित गरजते हुए काले मेघोंको ही जीतना चाहते हों । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शत्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ पहुँचे । उनके साथ जो घोड़े थे वे बड़े वेगसे चल रहे थे और सुरोंके आघातसे मानो पृथिवीको विदार रहे थे ॥ ५३३-५३८ ॥ वे घोड़े चमरोंसे सहित थे तथा महामणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे । अथवा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेवकके समान मरण-पर्यन्त अपने स्वामीका हित करनेवाले थे ॥ ५३९ ॥ उनके मुखमें घासके घास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुएसे जान पड़ते थे और छोटो-छोटो घंटियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसे मालूम हो रहे थे मानो निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा ही कर रहे हों ॥ ५३० ॥ वे घोड़े कवच पहने हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो फंखोंसे युक्त होकर आकाशके मध्यभागको ही लाँघना चाहते हों । उनके मुखोंसे लार रूपी जलका फेन निकल रहा था जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पैररूपी नदोंके नृत्य करनेके लिए फूलोंसे पृथिवीकी पूजा ही कर रहे हों । वे घोड़े यूनान, काश्मीर और वाल्हीक आदि देशोंमें उत्पन्न हुए थे, उन पर ऊँची उठाई हुई देदीप्यमान तलवारोंकी किरणोंसे सुरोभित घुड़सवार बैठे हुए थे, वे महासेना रूपी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उधर चल रहे थे, और जोर-जोरसे हींसनेके शब्द रूपी आभूषणोंसे शत्रुओंको भयभीत करनेके लिए ही मानो निकले हुए थे । इनके सिवाय वायु जिनके असुकूल चल रही है जिसमें शस्त्र रूपी वर्तन भरे हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड वाली पताकाएँ फहरा रही हैं, और संग्राम रूपी समुद्रके जहाजके समान जान पड़ते हैं ऐसे बड़े-बड़े रथ भी वहाँ चल रहे थे । चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्रसे पराक्रमी है तो हमारे पास ऐसे दो चक्र विद्यमान हैं वेसा समझ कर समस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वहाँ बड़ी तेजीसे आ रहे थे । जिनके भीतर

सशङ्काः सन्तु नो युद्धे बद्धकक्षाः कथं रथाः । धावन्तु पशयो वाहा गजाश्चैभिः किमातुरैः ॥ ५६७ ॥  
जयोऽस्मास्त्विति वा मन्दं सभराः स्यन्दना ययुः । सन्मार्गागामिभिः शस्त्रधारिभिश्चक्रवर्तिभिः ॥ ५६८ ॥  
रथैर्दिवक्त्रमाक्रम्य तैर्द्विचक्रं किमुच्यते । महीधरनिभैः पूर्वकायैरौदम्यधारिणः ॥ ५६९ ॥  
पश्चात्प्रसारिताप्राङ्गली बिलह्वय 'स्वपंचकाः । अम्भोरुहाकरा बोधद्रक्तपुष्करवोभिनः ॥ ५७० ॥  
परप्रणयवृत्तित्वादर्भकानुविधाधिनः । रुषेवोत्थापयन्तोऽलीन् कर्णतालैः कटस्थितान् ॥ ५७१ ॥  
सत्रलाका इवाम्भोवाः समुद्यद्भवलध्वजैः । केचित्परमदामोदमाप्रायाम्भोदवर्त्मनि ॥ ५७२ ॥  
करैः प्रविकसत्पुष्करैस्तैर्योद्धुं समुद्यताः । निशितोद्भ्वाङ्कुशाघातदलस्त्रियार्ण चारिताः ॥ ५७३ ॥  
मुहुविभूतमूर्खानः करेणुगणसस्त्रिधौ । प्रशान्तीभूतसंरम्भा ३महामात्राद्यधिष्ठिताः ॥ ५७४ ॥  
मातङ्गास्तुद्भवेहत्वादाक्रामन्त इवाखिलम् । सर्वतो निर्ययुर्वाञ्छैर्जङ्गमां धरणीधराः ॥ ५७५ ॥  
केतवश्चानुकूलानिलेरिता ४विद्विषं प्रति । चेलुर्दण्डान् परित्यज्य पुरो योद्धुमिवोद्यताः ॥ ५७६ ॥  
नभसः शुद्धरूपस्य मालं जलधराकृतिम् । अधवापनयन्तो वा संच्छादितरवित्स्विपः ॥ ५७७ ॥  
धृतदण्डप्रवृत्तित्वाद् वयोतीतानुकारिणः । काले विमुक्तिमस्वाच्च मुनिमार्गानुसारिणः ॥ ५७८ ॥  
बलावष्टम्भस्त्रिभ्रावनीनिःशसितसस्त्रिभे । मिथ्याज्ञान इवाशेषबोधविध्वंसकारणे ॥ ५७९ ॥

उनके स्वामी बैठे हुए हैं, जो अनेक शस्त्रोंसे परिपूर्ण हैं और जिनमें शीघ्रतासे चलनेवाले वेगगामी घोड़े जुते हुए हैं ऐसे तैयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकक्ष क्यों न हों ? पैदल चलनेवाले सिपाही, घोड़े और हाथी भले ही आगे दौड़ते चले जावें पर इन व्यंग्र प्राणियोंसे क्या होनेवाला है ? विजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है । यह सोचकर ही मानो बोभसे भरे रथ धीरे-धीरे चल रहे थे । सन्मार्ग पर चलनेवाले, शस्त्रोंके धारक एक चक्रवाले चक्रवर्तियोंने जब समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया था तब दो चक्रवाले रथोंने समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसी प्रकार पर्वतके समान जिनका अग्रभाग कुछ ऊँचा उठा हुआ था, पीछेकी ओर फैली हुई पूँछसे जिनकी पूँछका उपान्त भाग कुछ खुल रहा था, जो ऊपरकी ओर उठते हुए सूँड़के लाल लाल अग्रभागसे सुशोभित थे और इसीलिए जो कमलोंके सरोवरके समान जान पड़ते थे । जिनकी वृत्ति पर-प्रणय थी—दूसरोंके आधीन थी अतः जो बच्चोंके समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलों पर स्थित भ्रमरोंको मानो क्रोधसे ही कान रूपी पंखोंकी फटकारसे उड़ा रहे थे । उड़ती हुई सफेद ध्वजाओंसे जो बगलाओंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूँघकर आकाशमें खिले हुए कमलके समान जिनका अग्रभाग विकसित हो रहा है ऐसी सूँड़ोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पैनी नोकवाले अंकुशोंकी चोटसे अपाङ्ग प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके समीप बार-बार अपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्त हो गया था, जिनपर प्रधान पुरुष बैठे हुए थे और जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसार पर आक्रमण करते हुएसे जान पड़ते थे ऐसे चलते फिरते पर्वतोंके समान ऊँचे-ऊँचे हाथी सब ओरसे निकल कर चल रहे थे ॥ ५६१-५७५ ॥ उस समय अनुकूल पवनसे प्रेरित ध्वजाएँ शत्रुओंकी ओर ऐसी जा रही थीं मानो दण्डोंको छोड़कर पहले ही युद्ध करनेके लिए उद्यत हो रही हों ॥ ५७६ ॥ अथवा सूर्यकी किरणोंको ढकनेवाली वे ध्वजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो निर्मल आकाशमें जो मेघरूपी मैल छाया हुआ था उसे ही दूर कर रही हों ॥ ५७७ ॥ अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात् दण्डोंमें लगी हुई थीं इसलिए वृद्ध पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समय पर मुक्त होती थीं—खोलकर फहराई जाती थीं इसलिए मुनिमार्गका अनुसरण करती थीं ॥ ५७८ ॥ उस समय धूलि उड़कर चारों ओर फैल गई थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सेनाके बोभसे खिन्न हुई पृथिवी साँस ही ले रही

१ 'उल्लूके करिणः पुञ्जमूर्खोपान्ते च पेचकः' इत्यमरः । २ 'अपाङ्गदेशो निर्याणम्' इत्यमरः ।

३ 'महामात्राः प्रधानानि' इत्यमरः । ४ विद्विषः ल० ।

महाभये वा सम्प्राप्ते रणविघ्नविधायिनी । पुरानजितगुण्ये वा समस्तनयनाप्रिये ॥ ५८० ॥  
 रजस्येवं नभोभागलङ्घिन्याहितरंहसि । मूर्च्छितं गर्भगं कुब्जलिखितं चातिशय्य तनु ॥ ५८१ ॥  
 बलं कलकलं किञ्चिद्विचेष्टमभवत्तदा । विष्वस्तवैरिभूपालचित्तक्षोभोपमे शनैः ॥ ५८२ ॥  
 पृथौ तस्मिन् रजःक्षोभे प्रशान्ते सति सक्रुधः । प्रस्पष्टदृष्टिसञ्चाराः सेनानायकचोदिताः ॥ ५८३ ॥  
 गतिं प्रपातसंश्रुद्धा नवाब्दा वा धनुर्धराः । शरवृष्टिं विमुञ्चन्तो हृदयानि विराधिनाम् ॥ ५८४ ॥  
 कुर्वन्ति स्मपरागाणि सद्गतानां रणाङ्गणे । युद्धयन्ते स्माहवांसाहात्तेऽपि तैरिव चोदिताः ॥ ५८५ ॥  
 द्विषतो वा न सत्सामिष्यफिः स्यत्सुहृदः सताम् । मया मर्जीवितुं दातुं नृपाजीविनमावृदे ॥ ५८६ ॥  
 तस्य कालोऽयमित्येको व्यतरत्तदणं रणे । भृत्यकृत्यं यज्ञः घूरगतिश्चात्र ग्रथं फलम् ॥ ५८७ ॥  
 पुरुषार्थत्रयं चैतदेवेत्यन्योन्ययुष्यते । नास्मद्वले मृतिं वीक्षे कस्यापि स पराभवः ॥ ५८८ ॥  
 ममेति मन्यमानोऽन्यः प्राग्युध्वाप्त्रियत स्वयम् । अयुध्यन्तैवमुन्क्रोधाः सर्वशस्त्ररनारनस ॥ ५८९ ॥  
 सव्यापसव्यमुक्ताधर्ममुक्तामुक्तरैरानुकूलम् । अभीतमार्गणेनैव मार्गणा मार्गाम्मनः ॥ ५९० ॥  
 मध्ये विधाय गत्वा द्राक् परत्र पतिताः परे । दूरं त्यक्त्वा गुणान्वाणेस्तीक्ष्णैः शोणितपायिभिः ॥ ५९१ ॥  
 ऋजुवाजहारे प्राणान् गुणोऽपि न गुणः खले । न वैरं न फलं किञ्चित्थाप्यन्न शरः परान् ॥ ५९२ ॥

हो । अर्थात् पूर्ण ज्ञानको नाश करनेका कारण मिथ्याज्ञान ही फैल रहा हो ॥ ५७६ ॥ अथवा युद्धमें विघ्न करनेवाला कोई बड़ा भारी भय ही आकर उपस्थित हुआ था । जिसने पूर्वभयमें पुण्य संचित नहीं किया। ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार वह धूलि भी सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लग रही थी ॥ ५८० ॥ इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाशको उल्लंघन कर रही थी अर्थात् समस्त आकाशमें फैल रही थी । उस धूलिके भीतर समस्त सेना गंसी हो गई मानो मूर्च्छित हो गई हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथवा दीवाल पर लिखे हुए चित्रके समान निश्चेष्ट हो गई हो । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया । जिस प्रकार किसी पराजित राजाके चित्तका क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाता है उसी प्रकार जब वह धूलिका बहुत भारी क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया और दृष्टिका कुब्ज-कुब्ज संचार होने लगा तब सेनापतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गई है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा गमन करनेसे शुद्ध हुए नये बादलोंके समान धनुष धारण करते हुए वाणोंकी वर्षा करने लगे और युद्धके मैदानमें शत्रु-योद्धाओंके हृदय रागरहित करने लगे । सेनापतियोंके द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५८१-५८५ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनों का बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु मित्रसे प्रकट होता है । मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आजीविका पाई है—वेतन ग्रहण किया है । अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें वह ऋण चुका रहा था । युद्ध करने में एक तो सेवकका कर्तव्य पूरा होता है, दूसरे यश की प्राप्ति होती है और तीसरे शूर-वीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैं ॥ ५८६-५८७ ॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे परस्पर लड़ रहा था । मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्योंकि वह मेरा ही पराभव होगा यह मानता हुआ कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था । इस प्रकार तीव्र क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-बायें दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे छोड़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंसे बिना किसी आकुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे । दोनों ओरसे एक दूसरेके सन्मुख छोड़े जानेवाले वाण, बीचमें ही अपना मार्ग बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पड़ रहे थे । गुण अर्थात् धनुषकी डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीक्ष्ण एवं खून पीनेवाले वाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका घात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेवाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं । वाणोंका न तो किसीके साथ वैर था और न उन्हें कुब्ज फल ही मिलता था तो भी वे शत्रुओंका घात कर रहे थे ॥ ५८८-५९१ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि

१ ( कलकलं यथा स्यात्, क० डि० ) कालकलां कंचित् ख० । २ फलत्रयम् ख० । ३ अभीत-ख०, म० । ४ परं प्रपतिताः ख० । ५ दूरे ख० ।

परप्रेरितवृत्तीनां तीक्ष्णानामीदृशी गतिः । <sup>१</sup>खगाः खगैः खगान् जघुर्बद्धवैराः खगा इव ॥ ५९३ ॥  
 नृणाय मन्यमानाः स्वान् प्राणान् पापाः परस्परम् । <sup>२</sup>लक्ष्यबद्धात्मदृष्टान्विताशुपातिशितैः शरैः ॥ ५९४ ॥  
 धन्विनः पातयन्ति स्म गिरीन्वा करिणो बहून् । एकेनैकः शरेणेभमवधोन्मर्मभेदिना ॥ ५९५ ॥  
 स्वीकुर्वन्त्यत पवान्यमर्मज्ञान् विजिगीषधः । प्रघातमूर्च्छितः कश्चिप्रवहलोहितो भटः ॥ ५९६ ॥  
 आपतद् गृद्धपक्षानिलोरिथितोऽहन्बहून् पुनः । नीयमानमिवात्मानं वीक्ष्यान्यो देवकन्यथा ॥ ५९७ ॥  
 सोत्सवः सहसांदस्यात्सहासो दरमूर्च्छितः । बाणाङ्किते रणसूर्यरणरङ्गे <sup>३</sup>निरन्तरम् ॥ ५९८ ॥  
 नृत्यस्कबन्धके सद्यः शरच्छादितमण्डपे । बद्धान्त्रजालमालोऽन्धो <sup>४</sup>बहलात्तालवार्धितः ॥ ५९९ ॥  
 राक्षसेन विवाहेन वीरलक्ष्मीं समाक्षिपत् । ङाकिन्यश्चटुलं नेदुरारुवन् भैरवं शिवाः ॥ ६०० ॥  
 ऊर्ध्ववक्रवमवह्निविस्फुल्लिङ्गविभीषणाः <sup>५</sup> । उच्छिप्तकतिकाजालश्चलोलकपालभृत् ॥ ६०१ ॥  
 अतिपातनिपीतास्त्रमस्मीद्राक्षसीगणः । निम्नातस्तरनाराचचक्रायुपनिपातनात् ॥ ६०२ ॥  
 निःप्रभं निःप्रतापं च तदाभूदकमण्डलम् । स्याद्वादिभिः समाक्रान्तकुवादि कुलवत्तदा ॥ ६०३ ॥  
 दशाननबलान्यापन् भङ्गं राघवसैनिकैः । इति प्रवृत्ते संग्रामे सुचिरं तद्रणाङ्गणे ॥ ६०४ ॥  
 मृताः केचित्पुनः केचित् प्रहताः प्राणमोक्षणे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्ठगतासवः ॥ ६०५ ॥  
 समवर्तीनरान् सवान् प्रस्तान् जरयितुं तदा । निःशक्तिर्वान्तवानेतानिति शङ्काविधायिनः ॥ ६०६ ॥

जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा प्रेरित रहती है ऐसे तीक्ष्ण (पैने-कुटिल) पदार्थोंकी ऐसी ही अवस्था होती है। जिनका परस्पर वैर बंधा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधर पक्षियोंके समान अपने प्राणोंको नृणके समान मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे ॥ ५९२-५९४ ॥ धनुष धारण करनेवाले कितने ही योद्धा लक्ष्य पर लगाई हुई अपनी दृष्टिके साथ ही साथ शीघ्र पड़नेवाले तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा पर्वतोंके समान बहुतसे हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने अपने मर्मभेदी एक ही बाणसे हाथीको मार गिराया था सो ठीक ही है क्योंकि इसीलिए तो विजयकी इच्छा करनेवाले शर-वीर दूसरेका मर्म जाननेवालोंको स्वीकार करते हैं-अपने पक्षमें मिलाते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मूर्च्छित हो खूनसे लथ-पथ हो गया था तथा आये हुए गृद्ध पक्षियोंके पंखोंकी वायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंको मारने लगा था। कोई एक अल्प मूर्च्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या द्वारा ले जाया जाता हुआ देख उत्सवके साथ हँसता हुआ अकस्मात् उठ खड़ा हुआ। जो बाणोंसे भरा हुआ है, जिसमें रणके मारू बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर शिर रहित बड़ नृत्य कर रहे हैं, और जिसमें बाणोंका मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसकी सब अंतर्द्वियोंका समूह बंध रहा है और जो बहुतसे खूनके प्रवाहसे पूजित है ऐसे किसी एक योद्धाने राक्षस-विवाहके द्वारा वीर-लक्ष्मीको अपनी ओर खींचा था। उस युद्ध-स्थलमें ङाकिनियाँ बड़ी चपलतासे नृत्य कर रही थीं और शृगाल भयङ्कर शब्द कर रहे थे। वे शृगाल ऊपरकी ओर किये हुए मुखोंसे निकलनेवाले अग्निके तिलगोंसे बहुत ही भयङ्कर जान पड़ने थे। जिसकी कँचियोंका समूह ऊपरकी ओर उठ रहा है और जो चञ्चल कपालोंको धारण कर रहा है ऐसा राक्षसियोंका समूह बहुत अधिक पिये हुए खूनको उगल रहा था। अत्यन्त तीक्ष्ण बाण नाराच और चक्र आदि शस्त्रोंके पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभाहीन तथा कान्ति रहित हो गया था। जिस प्रकार स्याद्वादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्यावादियोंका समूह पराजयको प्राप्त होता है उसी प्रकार उस समय रामचन्द्रजीके सैनिकोंके द्वारा आक्रान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। इस प्रकार उस रणाङ्गणमें संग्राम प्रवृत्त हुए बहुत समय हो गया ॥ ५९५-६०४ ॥ उस युद्धमें कितने ही लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, और कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठगत प्राण हो गये ॥ ६०५ ॥ उस समय वे मरणासन्न पुरुष ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमराज

१ नाना खगाः खगैः ख० । २ लक्ष्यावढा ख०, ल०, ध०, ग०, म० । ३ भिस्करे ख०, ग० ।

४ प्रचुरवचिरररणवर्धितः । ५ विभीषणः ख० ।

इतस्ततो भटा व्यस्ताः सङ्करे जर्जरहकाः । जनयन्त्यन्तकन्यापि १वांक्षमाणस्य भारसम् ॥ ६०७ ॥  
 बाजिनोऽत्र समुच्छिन्नचरणाः सत्त्वशालिनः । अङ्गेनैव समुत्थातुमुद्यन्ति स्मोजितौजसः ॥ ६०८ ॥  
 २अभानिभा भटोन्मुक्तशरनाराचकीलिताः । प्रक्षरद्वानुनिप्यन्दगिरयो बाल्यवेणवः ॥ ६०९ ॥  
 चक्रायवयवैर्भ्रैर्विक्षिप्ता सर्वतो रथाः । भान्ति स्म भिन्नपोता वा तन्संग्रामाच्चिमध्यगाः ॥ ६१० ॥  
 दिनान्येवं बहून्यासीत् संग्रामो बलयोर्द्वयोः । प्रायेण विमुग्ये दैवे म्वं वलं वाक्ष्यमङ्गुरम् ॥ ६११ ॥  
 सन्तप्तो मायया सीताशिरश्छेदं दशाननः । विधाय तव देवाय गृहाणेति न्याक्षिपत् ॥ ६१२ ॥  
 शिरस्तल्पश्यतो भर्तुर्हृदि मोहे कृतास्पदे । खेचरेश्वरसैन्यस्य समीक्ष्य समरांस्सवम् ॥ ६१३ ॥  
 सीतां शीलवतीं कश्चिदपि स्पष्टं त्वया विना । शक्तो नास्ति दशास्यस्य माययं मात्रगाः शुचम् ॥ ६१४ ॥  
 नाथेति राघवं तथ्यमद्भवीद्रावणानुजः । विभीषणस्य तद्वाक्यं श्रद्धाय रघुनन्दनः ॥ ६१५ ॥  
 गजारिर्गजयुथं वा भास्करो वा तमस्ततिम् । बलं विभेदयामास सद्यो विद्याधरोश्चिनः ॥ ६१६ ॥  
 प्रकाशयुद्धमुज्जित्वा मायायुद्धविधिसया । स पुत्रैः सह पौलस्त्यो लङ्घते स्म नभोऽङ्गणम् ॥ ६१७ ॥  
 तं वीक्ष्य तद्रणे दक्षौ दुरीक्ष्यं रामलक्ष्मणौ । गजारिविनतामनु वाहिनीभ्यां ३ समुद्यतौ ॥ ६१८ ॥  
 सुग्रीवाणुमदाद्यात्सर्वविद्याधरबलान्वितौ । रावणेन समं रामो लक्ष्मणोप्यग्रमुचुना ॥ ६१९ ॥  
 सुग्रीवः कुम्भकर्णेन मरुत्पुत्रविकीर्तिना । खरेण केनुरब्जादिरङ्गदश्वेन्द्रकेतुना ॥ ६२० ॥

खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समर्थ नहीं हो सका, इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था ॥ ६०६ ॥ जिनके अङ्ग जर्जर हो रहे हैं ऐसे कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे और वे देखनेवाले यमराजको भी भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे—उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था ॥ ६०७ ॥ जिनके पैर कट गये हैं ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर रहे थे ॥ ६०८ ॥ योद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए बाणों और नाराओंसे कीलित हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनसे गेरुके निर्भर भर रहे हैं और जिनपर छोटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे पर्वत ही हों ॥ ६०९ ॥ चक्र आदि अवयवोंके टूट जानेसे सब ओर बिखरे पड़े रथ ऐसे जान पड़ते थे मानो उस संग्राम रूपा समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही टूटकर बिखर गये हों ॥ ६१० ॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओंमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा । एक दिन रावण भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख बहुत दुःखी हुआ । उसी समय उसने मायासे सीताका शिर काट कर 'लो, यह तुम्हारी देवी है प्रहण करो' यह कहते हुए क्रोधसे रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ॥ ६११-६१२ ॥ इधर सीताका कटा हुआ शिर देखते ही रामचन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया और उधर रावणकी सेनामें युद्धका उत्सव होना शुरू हुआ । यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीलवती सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेके लिए भी समर्थ नहीं है । हे नाथ, यह रावणकी माया है अतः आप इस विषयमें शोक न कीजिए । विभीषणकी इस बातपर विश्वास रख कर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाको शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके समूहको अथवा सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करता है ॥ ६१३-६१६ ॥ अब रावण खुला युद्ध छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाश रूपा आँगनमें जा पहुँचा ॥ ६१७ ॥ उस माया-युद्धमें रावणको दुरीक्ष्य ( जो देखा न जा सके ) देख कर, अत्यन्त चतुर राम और लक्ष्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुड़वाहिनी विद्याओंके द्वारा अर्थात् इन विद्याओंके द्वारा निर्मित—आकाशगामी सिंह और गरुड़ पर आरुढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए । सुग्रीव, अणुमान आदि अपने पक्षके समस्त विद्याधरोंकी सेना भी उनके साथ थी । रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके साथ लक्ष्मण, कुम्भकर्णके साथ सुग्रीव, रविकीर्तिके साथ अणुमान, खरेके साथ कमलकेतु, इन्द्रकेतुके

१ वीक्ष्यमाणस्य क०, ख०, ग०, म० । २ 'अभान् इभाः' इति पदच्छेदः । अभान्-शोभन्ते स्म, इभा गजाः । ३ विनीताभ्यां ल० ।

इन्द्रवर्माभिधानेन कुमुदो युद्धविभ्रतः । खरदूषणनाम्नापि नीलो मायाविशारदः ॥ ६२१ ॥  
 एवमन्येऽपि तैरन्ये रामभृत्या रणोद्धताः । दशास्यनायकैः सार्द्धं मायायुद्धमकुर्वत<sup>१</sup> ॥ ६२२ ॥  
 तदा रामेण संग्रामे परिभूतं<sup>२</sup> दशाननम् । अवलोक्येन्द्रजिन्मध्यं प्राविशद्वास्य जीवितम् ॥ ६२३ ॥  
 तं<sup>३</sup> शक्यापातयद्गामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कुपित्वाऽधावदुद्दिश्य सशस्त्रं लक्ष्मणाग्रजम् ॥ ६२४ ॥  
 तन्मध्ये लक्ष्मणस्पूर्णभूरुं दशकन्धरः । मायागर्जं समारुह्य व्यधाञ्जाराचपञ्जरे ॥ ६२५ ॥  
 प्रहारावरणेनापि प्रतापी गरुडध्वजः । सिंहपोत इव दसो दुर्निवारोऽरिवारणैः ॥ ६२६ ॥  
 तत्पञ्जरं विभिद्यासौ निर्ययौ निजविद्यया । दृष्ट्वा तद्रावणः क्रुद्ध्वा प्रतीतं चक्रमादिशत् ॥ ६२७ ॥  
 सिंहनादं तदा कुर्वन् गगने नारदादयः । बाहौ प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे स्वस्थ तिष्ठता ॥ ६२८ ॥  
 चक्रेण विक्रमेणैव मूर्तीभूतेन चक्रिणा । तेन तेन शिरोऽप्राहि त्रिखण्डं वा खगेशितुः ॥ ६२९ ॥  
 सोऽपि प्रागेव बद्धायुर्दुराचारादधोगतिम् । प्रापदापत्करीं घोरं पापिनं का परागतिः ॥ ६३० ॥  
 विजयाब्जं<sup>४</sup> समापूर्य केशवो विश्वविद्विषाम् । अभयं घोषयामास स धर्मो जितभूभुजात् ॥ ६३१ ॥  
 तदावशिष्टपौलस्त्यमहामात्रादयोऽखिवत् । मलिना बलचक्रेशपादपङ्कजमाश्रयन् ॥ ६३२ ॥  
 मन्दोदर्यादितद्देवीदुःखनोदनपूर्वकम् । विभीषणाय लङ्कैश्यपदबन्धं<sup>५</sup> विधाय तौ ॥ ६३३ ॥  
 दशकण्ठान्वयायातविश्वसुक्तिं वितेतरुः । अभूतां च त्रिखण्डेशौ प्रचण्डौ बलकेशवौ ॥ ६३४ ॥

साथ अङ्गद, इन्द्रवर्माके साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद और खर-दूषणके साथ माया करनेमें चतुर नील युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भृत्य भी रावणके मुखिया लोकोके साथ मायायुद्ध करने लगे ॥ ६१८-६२२ ॥ उस समय इन्द्रजीतने देखा कि रामचन्द्रजी युद्धमें रावणको दबाये जा रहे हैं—उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह रावणके प्राणोंके समान बीचमें आ घुसा ॥ ६२३ ॥ परन्तु रामचन्द्रजीने उसे शक्तिकी चोटसे गिरा दिया । यह देख रावण कुपित होकर शस्त्रोंसे मुशोभित रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा ॥ ६२४ ॥ इसी बीचमें लक्ष्मण बड़ी शीघ्रतासे उन दोनोंके बीचमें आ गया और रावणने मायामयी हाथीपर सवार होकर उसे नाराच-पञ्जरमें घेर लिया । अर्थात् लगातार बाण वर्षा कर उसे ढँक लिया ॥ ६२५ ॥ परन्तु गरुड़की ध्वजा फहरानेवाला लक्ष्मण प्रहरणावरण नामकी विद्यासे बड़ा प्रतापी था । वह सिंहके बच्चेके समान दृप्त बना रहा और शत्रुरूपी हाथी उसे रोक नहीं सके ॥ ६२६ ॥ वह अपनी विद्यासे नाराच-पञ्जरको तोड़कर बाहर निकल आया । यह देख रावण बहुत कुपित हुआ और उसने क्रोधित होकर विश्वासपात्र चक्ररत्नके लिए आदेश दिया ॥ ६२७ ॥ उसी समय नारद आदि आकाशमें सिंहनाद करने लगे । वह चक्ररत्न मूर्तिधारी पराक्रमके समान प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मणके दाहिने हाथ पर आकर ठहर गया । तदनन्तर चक्ररत्नको धारण करनेवाले लक्ष्मणने उसी चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका शिर काटकर अपने आधीन कर लिया ॥ ६२८-६२९ ॥ रावण, अपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था । अतः, दुःख देनेवाली भयंकर ( अधोगति ) नरक गतिको प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि, पापी मनुष्योंकी और क्या गति हो सकती है ? ॥ ६३० ॥ तदनन्तर लक्ष्मणने विजय-शङ्ख बजाकर समस्त शत्रुओंको अभयदानकी घोषणा की सो ठीक ही है । क्योंकि, राजाओंको जीतनेवाले विजयी राजाओंका यही धर्म है ॥ ६३१ ॥ उसी समय रावणके बच्चे हुए महामन्त्री आदिने भ्रमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया ॥ ६३२ ॥ रावणकी मन्दोदरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम और लक्ष्मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकी वंश-परम्परासे आई हुई समस्त विभूति उसे प्रदान कर दी । इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र और नारायण होकर तीन खण्डके बलशाली स्वामी हुए ॥ ६३३-६३४ ॥

१ मायायुद्धं व्यकुर्वत, म०, ल० । २ परिभूतदशाननम् ख० । ३ शक्यापातयद्गाम ल० । ४ प्रहारा-  
 रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेनाशु ग० । ५ विजयशङ्खम् । ६ सदावशिष्ट ल० । ७ लङ्कैश्यपदबन्धं  
 घ० । ८ अभूतां ल० ।

अथ शीलवतीं सीतामशोकवनमध्यगाम् । संग्रामविजयाकर्णनोर्दीर्घप्रमदान्विताम् ॥ ६३५ ॥  
 रावणानुजसुभ्रावपवमानात्मजादयः । गन्वा यथोचिर्न दृष्ट्वा ज्ञापयित्वा जयोत्सवम् ६३६ ॥  
 समयुञ्जत रामेण समं लक्ष्मीमिवापराम् । महार्माणं वा हारेण कुशलाः कवयोऽथवा ॥ ६३७ ॥  
 वाचं मनोहरार्थेन सन्तो धर्मेण वा धियम् । सद्भृत्यामित्रसम्बन्धाद्भवन्तीप्सितसिद्धयः ॥ ६३८ ॥  
 वहन्ती जानकी दुःखमा<sup>१</sup>प्राणप्रियदर्शनान् । रामाऽपि तद्वियोगान्थशांकष्याकुलिताशयः ॥ ६३९ ॥  
 तौ परस्परसन्दर्शात्परौ प्रीतिमवापनुः । नृतीयप्रकृतिं प्राप्य नृपो वा सापि वा नृपम् ॥ ६४० ॥  
 आरभ्य विरहाद्भक्तं यद्यत्तत्तदपृच्छताम् । अन्योन्यसुखदुःखानि निवेद्य सुखिनः प्रियाः ॥ ६४१ ॥  
 कृतदोषो हतः सीता निर्दोषेति निरूप्य ताम् । स्वयकरोद्गावः सन्तो विचारानुचराः सदा ॥ ६४२ ॥  
 ततोऽरिखेपुरोऽगच्छस्त्फुरत्पीठगिरौ स्थितः । अत्रैवाभिपवं प्राप्य सर्वतीर्थान्भुसम्भृतैः ॥ ६४३ ॥  
 अष्टोत्तरसहस्रोऽसुवर्णकलशैर्मुदा । देवविद्याधराधीशैः स्वहस्तेन समुद्धृतैः ॥ ६४४ ॥  
 कोटिकाख्यशिलां तस्मिन्नुज्जङ्हे राघवानुजः । तन्माहात्म्यप्रतुष्टः सन् सिंहनादं व्यधाद्वलः ॥ ६४५ ॥  
 तन्निवासी सुनन्दाख्यो यक्षः सम्पूज्य तौ मुदा । असिं सौनन्दकं नामा समानं चक्रिणोऽयिन ॥ ६४६ ॥  
 अनुगङ्गं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपगे । वने निवेद्य शिविरं रथमारुह्य चक्रभृन् ॥ ६४७ ॥  
 गोपुरेण प्रविश्याब्धिं निजनामाङ्कितं शरम् । मागधावासमुद्दिश्य व्यमुञ्जत् कुञ्चितक्रमः ॥ ६४८ ॥  
 मागधोऽपि शरं वीक्ष्य मत्वा स्वं स्वल्पपुण्यकम् । अभिष्टुवन् महापुण्यश्चक्रवर्तिं लक्ष्मणम् ॥ ६४९ ॥

तदनन्तर जो अशोक वनके मध्यमें वैठी है, और संग्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार सुननेसे प्रकट हुए हर्षसे युक्त है ऐसी शीलवती सीताके पास जाकर विभीषण, सुग्रीव तथा अणुमान् आदिने उसके यथा योग्य दर्शन किये और विजयोत्सवकी खबर सुनाई ॥ ६३५-६३६ ॥ तत्पश्चात् जिस प्रकार कुशल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथवा कुशल कवि शब्दको मनोहर अर्थके साथ अथवा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलाते हैं उसी प्रकार उन विभीषण आदिने दूसरी लक्ष्मीके समान सीताजीको रामचन्द्रजीके साथ मिलाया । सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम भृत्य और मित्रोंके सम्बन्धसे इष्ट-सिद्धियाँ हो ही जाती हैं ॥ ६३७-६३८ ॥ उधर जब तक रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं हो गया था तब तक सीता दुःखको धारण कर रही थी और इधर रामचन्द्रजीका हृदय भी सीताके वियोगसे उत्पन्न होनेवाले शोकसे व्याकुल हो रहा था । परन्तु उस समय परस्पर एक-दूसरेके दर्शन कर दोनों ही परम प्रीतिको प्राप्त हुए । रामचन्द्रजी तृतीय प्रकृतिवाली शान्त स्वभाववाली सीताको और सीता शान्त स्वभाववाले राजा रामचन्द्रजीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६३९-६४० ॥ विरहसे लेकर अब तकके जो-जो वृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेसे पूछे सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दूसरेको अपना सुख-दुःख वतलाकर ही सुखी होते हैं ॥ ६४१ ॥ जिसने दोष किया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष है ऐसा विचार कर रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया । सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार ही काम करते हैं ॥ ६४२ ॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्दरपीठ नामके पर्वत पर ठहरे वहाँ पर देव और विद्याधरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दोनोंका बड़े हर्षसे अभिषेक किया । वहीं पर लक्ष्मणने कोटि-शिला उठाई और उसके माहात्म्यसे सन्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ॥ ६४३-६४५ ॥ वहाँके रहनेवाले सुनन्द नामके यक्षने उन दोनोंकी बड़े हर्षसे पूजा की और लक्ष्मणके लिए बड़े सम्मानसे सौनन्दक नामकी तलवार दी ॥ ६४६ ॥ तदनन्तर दोनों भाइयोंने गङ्गा नदीके किनारे-किनारे जाकर गङ्गाद्वारके समीप ही वनमें सेना ठहरा दी । लक्ष्मणने रथपर सवार हो गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश किया और पैरको डुब्ब टेढ़ाकर मागध देवके निवास स्थानकी ओर अपने नामसे चिह्नित वाण छोड़ा ॥ ६४७-६४८ ॥ मागध देवने भी वाण देखकर अपने आपको



रत्नहारं तिरिंतं च कुण्डलं शरमप्यमुम् । तीर्थांशुपूर्णकुम्भान्तर्गतमस्मै ददौ सुरः ॥ ६५० ॥  
 ततोऽनुजलधिं गत्वा वैजयन्ताख्यगोपुरे । वशीकृत्य यथा प्राच्यं तथा वरतनुं च तम् ॥ ६५१ ॥  
 कटकं साङ्गदं चूडामणिं मौलिविभूषणम् । प्रैवेयकं ततश्चक्री कटीसूत्रं च लब्धवान् ॥ ६५२ ॥  
 ततः प्रतीचीमागत्य सबलः सिन्धुगोपुरे । प्रविश्याद्विधं प्रभासं च विनतीकृत्य पूर्ववत् ॥ ६५३ ॥  
 मालां सन्तानकाख्यानां मुक्ताजालप्रलम्बकम् । श्वेतच्छत्रं ततो भूषणान्यन्यान्यपि चाददौ ॥ ६५४ ॥  
 ततः सिन्धोस्तटे गच्छन् प्रतीचीखण्डवासिनः । स्वकीयां श्रावयित्वाज्ञां सारवस्तूनि चाददत् ॥ ६५५ ॥  
 ऐन्द्रस्याभिमुखो भूत्वा विजयाद्वनिवासिनः । विनमय्य गजाश्राद्धविद्याधरकुमारिकाः ॥ ६५६ ॥  
 रत्नानि चात्मसात्कृत्य पूर्वखण्डनिवासिनः । विधाय करदान् म्लेच्छान् विजया निर्गतस्ततः ॥ ६५७ ॥  
 द्विगुणाष्टसहस्राणि पट्टबन्धान् महीभुजः । दशोत्तरशताख्यातपुराधीशान् खगेशिनः ॥ ६५८ ॥  
 त्रिखण्डवासिदेवांश्च विद्यायाज्ञाविधायिनः । द्वाचत्वारिंशदब्दान्ते परिनिष्ठितदिग्जयः ॥ ६५९ ॥  
 कृताञ्जलिभिरासेभ्यो देवलेखरभूचरैः । अग्रजाग्रसरश्चक्री सचक्रः सर्वपूजितः ॥ ६६० ॥  
 कृतमङ्गलनेपथ्यां प्रार्थ्यमानसमागमाम् । कान्तामिव विनीतां<sup>२</sup> तां शक्रवत्प्राविशत्पुरीम् ॥ ६६१ ॥  
 लघ्मगां चरसंशुद्धशुभवेलादिसन्निधौ । नरविद्याधरा न्यन्तराधिपप्रमुखाः समम् ॥ ६६२ ॥  
 सिंहासनं समारोप्य श्रीमन्तौ रामलक्ष्मणौ । तीर्थांशुपूर्णसौवर्णसहस्राष्टमहाघटैः ॥ ६६३ ॥  
 अभिषिच्य त्रिखण्डाधिराज्ये सम्पूजितौ युवाम् । प्रवर्द्धमानलक्ष्मीकावाशास्त्वयशोऽनुषौ ॥ ६६४ ॥

अल्प पुण्यवान् माना और यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती है ऐसा समझकर लक्ष्मणको स्तुति की । यहीं नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस वाणको तीर्थ-जलसे भरे हुए कलशके भीतर रखकर लक्ष्मणके लिए भेंट किया ॥ ६४९-६५० ॥ तदनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे चलकर वैजयन्त नामक गोपुर पर पहुँचे और वहाँ पूर्वकी भाँति वरतनु देवको वश किया ॥ ६५१ ॥ उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तकको सुशोभित करनेवाला चूडामणि, हार और कटिसूत्र प्राप्त किया ॥ ६५२ ॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ ही साथ लक्ष्मण पश्चिम दिशाकी ओर गया और वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश कर उसने पूर्वकी ही भाँति प्रभास नामके देवको वश किया ॥ ६५३ ॥ प्रभास देवसे लक्ष्मणने सन्तानक नामकी माला, जिस पर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, और अन्य-अन्य आभूषण प्राप्त किये ॥ ६५४ ॥ तत्पश्चात् सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ खण्डमें रहनेवाले लोगोंको अपनी आज्ञा सुनाई और वहाँकी श्रेष्ठ वस्तुओंको ग्रहण किया ॥ ६५५ ॥ फिर दोनों भाई पूर्व दिशाकी ओर सन्मुख होकर चले और विजयार्थ पर्वत पर रहनेवाले लोगोंको वश कर उसने हाथी, घोड़े, अस्त्र, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, पूर्व खण्डमें रहनेवाले म्लेच्छोंको कर देनेवाला बनाया और तदनन्तर विजयी होकर वहाँसे बाहर प्रस्थान किया ॥ ६५६-६५७ ॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्टबन्ध राजाओंको, एक सौ दश नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको और तीन खण्डके निवासी देवोंको आज्ञाकारी बनाया था । उसकी यह दिग्विजय व्यालीस वर्षमें पूर्ण हुई थी । देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा हाथ जोड़कर सेवा करते थे । इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलने वाले चक्ररत्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लक्ष्मणने, माङ्गलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी प्रार्थना करनेवाली कान्ताके समान उस आयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया ॥ ६५८-६६१ ॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लघ्न और शुभ मुहूर्तके आनेपर मनुष्य, विद्याधर और व्यन्तर देवोंके मुखिया लोगोंने एकत्रित होकर श्रीमान् राम और लक्ष्मणको एक ही साथ सिंहासन पर विराजमान कर उनका तीर्थ-जलसे भरे हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंसे अभिषेक किया । इस प्रकार उन्हें तीन खण्डके साम्राज्य पर विराजमान कर प्रार्थना की कि आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहे और आपका यश दिशाओंके अन्त तक फैल जावे । प्रार्थना करनेके बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बाँधे, मणिमय

इत्यारोपितरत्नोरुमुकुटौ मणिभूषणौ । अलंकृत्य महार्शाभिः<sup>१</sup> पूजयामामुरुमुकाः ॥ ६६५ ॥  
 पृथिवीसुन्दरीमुख्याः केशवस्य मनोरमाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देव्यः सत्यांऽभवन् श्रियः । ६६६ ॥  
 सीताद्यष्टसहस्राणि रामस्य प्राणवल्लभाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देशास्तावन्महीभुजः ॥ ६६७ ॥  
 शून्यं पञ्चाष्टरन्ध्रोक्तख्याना द्रोणमुखाः स्मृताः<sup>२</sup> । पत्नानि सहस्राणि पञ्चविंशतिसहस्रया ॥ ६६८ ॥  
 कर्कटाः खत्रयद्वयैकप्रमिताः प्रार्थितार्थादाः । मटम्बास्तत्प्रमाणाः न्युः सहस्राण्यष्ट खेटकाः ॥ ६६९ ॥  
 शून्यसप्तकम्बन्धिप्रमिता ग्रामा महाफलाः ।<sup>३</sup> अष्टाविंशतिर्द्रापाः समुद्रान्तर्वनिनः ॥ ६७० ॥  
 शून्यपञ्चकपक्षाधिभिनास्तुङ्गमतङ्गजाः । रथवयांस्तु तावन्तो नवकोट्यस्तुरङ्गमाः ॥ ६७१ ॥  
 खसप्तकद्विवाधुर्युक्ता युद्धशौण्डाः पदातयः । देवाश्चाष्टसहस्राणि गणवद्धाभिमानकाः ॥ ६७२ ॥  
 हलायुधं महारत्नमपराजितनामकम् । अमोघाख्याः<sup>४</sup> शरास्नीक्षणाः संज्ञया कौमुदी गदा ॥ ६७३ ॥  
 रत्नावर्तसिका माला रत्नान्येतानि सौरिणः । तानि यक्षसहस्रेण रक्षितानि पृथक् पृथक् ॥ ६७४ ॥  
 चक्रं सुदर्शनाख्यानं कौमुदीत्युदिता गदा । अग्निः सौनन्दकोऽमोघमुखी<sup>५</sup> शक्तिः शरासनम् ॥ ६७५ ॥  
 शार्ङ्गं पञ्चमुखः पाञ्चजन्यः शङ्खो महाध्वनिः । कौस्तुभं स्वप्रभाभारभासमानं महामणिः ॥ ६७६ ॥  
 रत्नान्येतानि सप्तैव केशवस्य पृथक् पृथक् । सदा यक्षसहस्रेण रक्षितान्यमितद्युतः ॥ ६७७ ॥  
 पूर्वं तयोर्मेहाभागधेययोर्भोगसम्पदा । निमग्नयोः सुखाम्भोधौ काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ६७८ ॥  
 जिनं मनोहरोद्याने शिवगुप्तसमाह्वयम् । विनयेन समासाद्य पूजायित्वाभिवन्द्य तम्<sup>६</sup> ॥ ६७९ ॥  
 श्रद्धालुर्धर्ममप्राक्षीढीमान् रामः सकेशवः । प्रत्यासन्नान्निष्ठत्वास्त्रिष्टितार्थं<sup>७</sup> निरञ्जनम् ॥ ६८० ॥

आभूषण पहिनाये और षडे-षडे आर्शावादिंमे अलंकृत कर उमुक्त हो उनकी पूजा की ॥६६२-६६५॥  
 लक्ष्मणके पृथिवीसुन्दरीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतिव्रता रानियाँ थीं और रामचन्द्रजीके सीताको आदि लेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानियाँ थीं । सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके आर्धीन थे । नौ हजार आठ सौ पचास द्रोणमुख थे, पच्चीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले वारह हजार कर्कट थे, वारह हजार मटव थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले अड़नालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके भीतर रहनेवाले अट्टार्लेस द्वीप थे, व्यालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इनने ही श्रेष्ठ रथ थे, नवकरोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शूर-वीर व्यालीस करोड़ पैदल सैनिक थे और आठ हजार गणवद्ध नामके देव थे ॥ ६६६-६७२ ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोघ नामके तीक्ष्ण वाण, कौमुदी नामकी गदा और रत्नावर्तसिका नामक माला ये चार महारत्न थे । इन सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यज्ञदेव रक्षा करते थे ॥ ६७३-६७४ ॥ इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र, कौमुदी नामकी गदा, सौनन्दक नामका खड्ग, अमोघमुखी शक्ति, शार्ङ्ग नामका धनुष, महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पाञ्चजन्य नामका शङ्ख और अपनी कान्तिके भारसे शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले लक्ष्मणके थे और सदा एक-एक हजार यज्ञ देव उनकी पृथक्-पृथक् रक्षा करते थे ॥ ६७५-६७७ ॥

इस प्रकार सुख रूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग और सम्पदाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त नामके जिनराज पधारे । श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान् राम और लक्ष्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर उनकी पूजा-वन्दना की । तदनन्तर आत्म-निष्ठाके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृत्य एवं कर्ममल

१ वर्षायामासु ख०, ग०, घ० । २ म पुस्तकेऽयं पाठो मूले मिलितः, क पुस्तके त्वञ्चलिकायां लिखितः, अन्यत्र नास्त्येव । 'ग्रामो वृत्यावृतः स्यान्नगरमुरुचतुर्गोपुरोद्भासिसालं, खेटं नद्यद्विवेष्टं परिश्रुतमभितः कर्कटं पत्तनेन । ग्रामैयुक्तं मटम्बं दलितदशशतैः पत्तनं रत्नयोनिः, द्रोणास्थं सिन्धुवेलावलयवलयितं वाहनं चादि-रूढम्' । ३ अष्टाविंशतिप्रमिता-ख० । ४ खगास्तीक्ष्णा ख० । ५ मेघमुखी क०, ग०, ख० । ६-वन्द्यतां ख० । ७ निष्ठितार्थनिरञ्जनं क०, ख० । निष्ठितार्थो निरञ्जनः ख० ।

भव्यानुग्रहमुन्वात्मप्रवृत्तिः सांश्रयजागन । श्रवाक्षरनञ्ज्योक्त्वा समाह्लादिततत्समः ॥ ६८१ ॥  
 प्रमाणनयनिक्षेयानुयोगैर्ज्ञानहेतुभिः । गुणसुखनयादानविशेषबललाभतः ॥ ६८२ ॥  
 स्याच्छब्दलाञ्छितान्तिदनास्मिन्वाद्यन्नस्यन्तगम् । जीवादीनां पदार्थानां तत्त्वमासस्वलक्षणम् ॥ ६८३ ॥  
 मार्गणा गुग्गुवादीनां नलामं नन्दुनिन्धिनिर् । अन्यच्च धर्मसम्बद्धं व्यक्तं युक्तिसमाश्रितम् ॥ ६८४ ॥  
 कर्मभेदान् फलं तेषां मुखदुःखादिभेदकम् । बन्धमोचनयोर्हेतुं स्वरूपं मुक्तिसमुक्तयोः ॥ ६८५ ॥  
 इति धर्मविशेषं तन् नतः श्रुत्वा मनीषिणः । सर्वे रामादयोऽभूवन् गृहीतोपासकव्रताः ॥ ६८६ ॥  
 निदानशल्यदोषेण भोगासक्तः स केशवः । बध्वायुनारकं घोरं नागृहीदर्शनादिकम् ॥ ६८७ ॥  
 एवं संवत्सराज्ञीत्वा साकेतं कतिचित्सुखम् । तदाधिपत्यं भरतशत्रुघ्नाभ्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥  
 स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा चाराणसीं पुरीम् । प्राविशतामधिक्षिप्य शक्रलीलां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥  
 सुनो विजयरामाख्यो रामस्यामरसन्निभः । पृथिवीचन्द्रनामाभूच्चन्द्राभः केशवस्य च ॥ ६९० ॥  
 अन्यैश्च पुत्रपौत्राद्यैः परीतौ तौ श्रुतोदयौ । नयतःस्म सुखं कालं त्रिवर्णफलशालिनौ ॥ ६९१ ॥  
 कदाचिच्छर्मणो नागवाहिनीशयने सुखम् । सुप्तो न्यग्रोधवृक्षस्य भञ्जनं मत्तदन्तिना ॥ ६९२ ॥  
 सैहिकेयनिर्गणार्करसातलनिवेशनम् । सुधाधवलितोत्तङ्गप्रासादैर्काशविच्युतिम् ॥ ६९३ ॥  
 स्वप्ने दृष्ट्वा समुत्थाय समासाद्य निजाग्रजम् । स्वप्नान् संप्रश्रयं सर्वान् यथादृष्टान्यवेदयत् ॥ ६९४ ॥  
 पुरोहितस्तदाकर्ण्य फलं तत्रेत्थमब्रवीत् । व्यग्रोधोन्मूलनाद् व्याधिमसाध्यं केशवो ब्रजेत् ॥ ६९५ ॥

कलङ्कसे रहित उक्त जिनराजमे धर्मका स्वरूप पूछा ॥ ६७८-६८० ॥ भव्य जीवोंका अनुग्रह करना ही जिनका मुख्य कार्य है ऐसे शिवगुप्त जिनराज भी अपने वचन-समूह रूपी उत्तम चन्द्रिकासे उस सभाको आह्लादित करते हुए कहने लगे ॥ ६८१ ॥ कि इस संसारमें जीवादिक नौ पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय निक्षेप तथा निर्देश आदि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिके कारण हैं बोध होता है । गौण और मुख्य नयोंके स्वीकार करने रूप वलके मिल जानेसे 'स्यादस्ति', 'स्यान्नास्ति' आदि भङ्गों द्वारा प्रतिपादित धर्मोंसे वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रहते हैं । इनके सिवाय शिवगुप्त जिनराजने आप्त भगवान्का स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीवसमास, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखने-वाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मोंके भेद, सुख-दुःखादि अनेक भेद रूप कर्मोंके फल, बन्ध और मोक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप आदि विविध पदार्थोंका विवेचन भी किया । इस प्रकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप सुनकर रामचन्द्रजी आदि समस्त बुद्धिमान् पुरुषोंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ ६८२-६८६ ॥ परन्तु भोगोंमें आसक्त रहनेवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके कारण नरककी भयङ्कर आयुका बन्ध कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दर्शन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया ॥ ६८७ ॥ इस प्रकार राम और लक्ष्मणने कुछ वर्ष तो अयोध्यामें ही सुखसे बिताये तदनन्तर वहाँका राज्य भरत और शत्रुघ्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारके साथ बनारस चले गये और अपनी सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको तिरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ६८८-६८९ ॥ रामचन्द्रके देवके समान विजयराम नामका पुत्र था और लक्ष्मणके चन्द्रमाके समान पृथिवीचन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ ६९० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्गके फलसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र और लक्ष्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे समय बिताते थे ॥ ६९१ ॥ किसी एक दिन लक्ष्मण नागवाहिनी शय्या पर सुखसे सोया हुआ था । वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे—पहला मत्त हाथीके द्वारा बट वृक्षका उखाड़ा जाना, दूसरा राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसातलमें चला जाना और तीसरा चूनासे सफेद किये हुए ऊँचे राजभवनका एक-देश गिर जाना । इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचन्द्रजीके पास गया और बिनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर गया ॥ ६९२-६९४ ॥ पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, बट वृक्षके उखड़नेसे लक्ष्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा,

राहुग्रस्तार्कसम्पानाद् 'भायभोगाधुनां क्षयः । नुङ्गप्रासादभङ्गेन त्वं प्रयाता तपोवनम् ॥ ६९६ ॥  
 इत्येकान्ते वचन्स्य श्रुत्वा रामो यथार्थवित् । धीरोदात्तनया नायान् मनगपि मनःक्षतिम् ॥ ६९७ ॥  
 लोकद्वयदिनं सत्या दारयामाम् घोषणाम् । प्राणिनां नहि वन्नव्याः कैश्चिन्नंति दयाद्यतः ॥ ६९८ ॥  
 चकार शान्तिपत्रं च सर्वज्ञमवनावधिम् । उद्यौ दानं च दीनिभ्यो येन यद्यदभीप्सितम् ॥ ६९९ ॥  
 बभूव श्रागपुण्यस्य तनः कतिपर्यैर्दिनैः । केशवस्य महाव्याधिरम्मानोदयचोदितः ॥ ७०० ॥  
 दुःसाध्येनामयेनामो माये मान्यन्तिनेऽन्तिने । दिने तेनागमच्छकी पृथ्वी पङ्कजभाषिधाम् ॥ ७०१ ॥  
 तद्विद्योगेन शोकाक्षिप्सन्सहृदयो बलः । कथं कथमपि ज्ञानात्सन्वाथाग्मानमात्मना ॥ ७०२ ॥  
 कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । सदान्ःपुरदुःखं च प्रजगद्य प्रसन्ननाक् ॥ ७०३ ॥  
 सर्वप्रकृतिसाक्षिष्ये पृथिवी सुन्दरीपुत्रे । उपेदे राज्ञं विधायत्रैः नष्टं केशवाम्बे ॥ ७०४ ॥  
 अष्टौ विजयरामाद्याः सीतायाः सान्त्विका सुताः । लक्ष्मीनर्तनवत्कञ्जु तेषां ज्येष्ठेषु सप्तसु ॥ ७०५ ॥  
 दत्त्वाजितक्षयाध्याय यौवराज्यं कर्नायमे । मिथिलामर्षिश्चात्मै त्रिनिवेदपराचणः ॥ ७०६ ॥  
 साकेतपुरमभ्येयं वने सिद्धार्थनामनि । वृषभम्बान्तिनिष्क्रान्तिनीर्धभूशो महौजसः ॥ ७०७ ॥  
 शिवगुप्तमिधानस्य समीपे केवलेशिनः । संसारमोक्षचोरेणुफले मन्वक् प्रवृद्धवान् ॥ ७०८ ॥  
 निदानशल्यदोषेण चतुर्थी नारकी भुवम् । केशवः प्राप्त इत्येतद्वृथाऽस्मादेव' शुद्धर्थाः ॥ ७०९ ॥  
 निरस्ततद्गतस्नेहविधिराभिनिबोधिकात् । वेदान्प्रादुर्भवत्तैः विः सुग्रीवाणुमदादिभिः ॥ ७१० ॥

राहुके द्वारा ग्रस्त सूर्यके गिरनेमें उसके भाग्य, भोग और आयुका त्रय मूचिन करना है तथा ऊँचे भवनके गिरनेसे आप तपोवनको जावेंगे ॥ ६९५—६९६ ॥ पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह वचन एकान्तमें सुने परन्तु धीर-धीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकार-भावको प्राप्त नहीं हुए ॥ ६९७ ॥ तदनन्तर दयामे उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दानों लोकोंका हितकर मान कर यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥ ६९८ ॥ इसके सिवाय उन्होंने सर्वज्ञ देवका स्तनपन तथा शान्ति-पूजा की और दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया ॥ ६९९ ॥ तदनन्तर जिसका पुण्य र्चाण हो गया है ऐसे लक्ष्मणको कुछ दिनोंके बाद असाना वेदनीय कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ ॥ ७०० ॥ उसी असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका स्वामी लक्ष्मण भरकर माघ कृष्ण अमावस्याके दिन चौथी पङ्क-प्रभा नामकी पृथिवीमें गया ॥ ७०१ ॥ लक्ष्मणके वियोगसे उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसे रामचन्द्रजीने ज्ञानके प्रभावसे किन्हीं तरह अपने आप आत्माको सुस्थिर किया, छोटे भाई लक्ष्मणका विधि पूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूर्ण वचन कहकर समस्त अन्तःपुरका शोक शान्त किया ॥ ७०२—७०३ ॥ फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने पृथिवीसुन्दरी नामकी प्रधान रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणके बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पट्ट बाँधा ॥ ७०४ ॥ सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताके विजयराम आदिक आठ पुत्र थे । उनमें से सात बड़े पुत्रोंने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजिनस्रय नामके छोटे पुत्रके लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संभार, शरीर तथा भोगोंसे विरक्त हो गये ॥ ७०५—७०६ ॥ विरक्त होते ही वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस वनमें पहुँचे जो कि भगवान् वृषभदेवके दीक्षाकल्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया था । वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामके केवलीके समीप संसार और मोक्षके कारण तथा फलको अच्छी तरह समझा ॥ ७०७—७०८ ॥ जब उन्हें इन्हीं केवली भगवान्मे इस वानका पना चला कि लक्ष्मण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गई । तदनन्तर जिन्होंने लक्ष्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है और आभिनिबोधिक-मतिज्ञानसे

विभीषणविनिश्चामा भूमिपैः पञ्चभिः शनैः । जग्गानिश्चतपुत्रैश्च सह संयममाप्तवान् ॥७११॥  
 तथा सीता महादेवी पृथिवीसुन्दरी युताः । देव्यः श्रुतवती क्षान्तिनिकटे तपसि स्थिताः ॥७१२॥  
 सौ राजयुवराजौ च गृहीनश्रावकमतौ । जिनाङ्घ्रियुग्ममानभ्य सम्यक् प्राविशतां पुरीम् ॥७१३॥  
 मोक्षमार्गमनुष्ठाय यथाशक्ति यथाविधि । रामाणुमन्तौ सञ्जातौ श्रुतकेवलिनौ मुनी ॥७१४॥  
 जाताः शेषाश्च बुद्ध्यादिससद्ग्रथाविष्कृतोदयाः । एवं छद्मस्थकालेऽस्य पञ्चाब्दोत्तमचतुःशतेः ॥७१५॥  
 व्यतीतवति सद्भ्यानविशेषाद्भनघातिनः । रामस्य केवलज्ञानमुदपाद्यर्कविम्बवत् ॥ ७१६ ॥  
 समुद्रतैकछत्रादिप्रातिहार्यविभूषितः । असिञ्चन्नव्यसस्यानां वृष्टिं धर्ममयीमसौ ॥ ७१७ ॥  
 एवं केवलबोधेन नीत्वा पटशतवत्सरान् । फाल्गुने मासि पूर्वाह्णे शुक्लपक्षे चतुर्दशी ॥७१८॥  
 दिने सम्मेदगिर्यग्ने तृतीयं शुक्लमाश्रितः । योगत्रितयमारुह्य समुच्छिन्नक्रियाश्रयः ॥ ७१९ ॥  
 निःशेषन्यक्कृताघातिकर्मा सोऽणुमदादिभिः । शरीरत्रितयापायादवापत्पदमुत्तमम्<sup>१</sup> ॥७२०॥  
 विभीषणादयः केचित् प्रापन्नतुदिशं पुनः । रामचन्द्रप्रभदेव्याद्याः काश्चिदीयुरितोऽच्युतम् ॥७२१॥  
 शेषाः कल्पेऽभवाच्चादौ लक्ष्मणश्चागतः क्रमात् । नरकात् संयमं प्राप्य मोक्षलक्ष्मीमवाप्स्यति ॥७२२॥  
 १..... । विनेयात्तस्य जन्तूनां भवेद्वैचिन्वमीदृशम् ॥ ७२३ ॥

### वसन्ततिलका

प्राल्लङ्घ्य गोपदमिवाम्बुनिधिं स्वसैन्यै-

रुद्ध्वा रिपोः पुरमगारमिवैकमल्पम् ।

निर्मूल्य वैरिकुलमाश्रिव सस्यमीष-

लक्ष्म्या सह क्षितिसुतामपहृत्य शत्रोः ॥ ७२४ ॥

जिन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने सुग्रीव, अणुमान् और विभीषण आदि पाँच सौ राजाओं तथा एक सौ अस्सी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ७०६-७११ ॥ इसी प्रकार सीता महादेवी और पृथिवीसुन्दरीसे सहित अनेक देवियोंने श्रुतवती आर्थिकाके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ ७१२ ॥ तदनन्तर जिन्होंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये हैं ऐसे राजा तथा युवराजने जिनेन्द्र भगवानके चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रवेश किया ॥ ७१३ ॥ रामचन्द्र और अणुमान् दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक मोक्षमार्गका अनुष्ठान कर श्रुतकेवली हुए ॥ ७१४ ॥ शेष बचे हुए मुनिराज भी बुद्धि आदि सात ऋद्धियोंके ऐश्वर्यको प्राप्त हुए । इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तीन सौ पंचानवे वर्ष बीत गये तब शुक्ल ध्यानके प्रभावसे घातिया कर्माका क्षय करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूर्य-विम्बके समान केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७१५-७१६ ॥ प्रकट हुए एकछत्र आदि प्रातिहार्योंसे विभूषित हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंको सींचा ॥ ७१७ ॥ इस प्रकार केवलज्ञानके द्वारा उन्होंने छह सौ वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीके दिन प्रातःकालके समय सम्मेदाचलकी शिखर पर तीसरा शुक्लध्यान धारण किया और तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके आश्रयसे समस्त अघातिया कर्माका क्षय किया । इस प्रकार औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंका नाश हो जानेसे उन्होंने अणुमान् आदिके साथ उन्नत पद-सिद्ध क्षेत्र प्राप्त किया ॥ ७१८-७२० ॥ विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा लक्ष्मणकी पट्टरानियाँ सीता तथा पृथिवीसुन्दरी आदि कितनी ही आर्थिकाएँ अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुईं ॥ ७२१ ॥ शेष रानियाँ प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुईं । लक्ष्मण नरकसे निकल कर क्रम-क्रमसे संयम धारण कर मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त होगा ॥ ७२२ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि जीवोंके इसी प्रकारकी विचित्रता होती है ॥ ७२३ ॥ जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लङ्घन किया, जिन्होंने अपनी सेनासे शत्रुके नगरको एक छोटेसे घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रुके समस्त वंशको धानके

### शार्दूलविक्रीडितम्

आनन्नामरभूनभश्चरशिरःपीठोद्धृताङ्घ्रिद्वयौ,  
निष्कण्ठीकृतदक्षिणार्धभरताखण्डत्रिखण्डाधिपौ ।  
साकेनं समधिष्ठितौ हनशुचिप्रान्नासिभास्वप्नभौ  
दिकप्रान्तद्विप<sup>१</sup>दर्पसर्पशमनव्यप्रोग्रवीरश्रिभौ ॥ ७२५ ॥  
र्षारादिप्रभृतिप्रमिद्धविलसद्गन्नावर्लारञ्जित-  
श्रीसम्पादिनभोगयोगसुखिनौ सर्वाभिसन्तर्पकौ ।  
चन्द्राकारविव नेजसा न्वयगमा विश्वं प्रकाश्य स्फुटं  
श्रीमन्तौ बलकेश्वरौ श्रिनिमिमां सम्पाल्य साङ्गं चिरम् ॥ ७२६ ॥

### वसन्ततिलका

एकखिलोकशिखरं सुखमध्यतिष्ठ-  
दन्यश्चतुर्थनरकावनिनायकोऽभूत् ।  
भोग्ये समेऽपि परिणामकृताद्विशेषा-  
न्मा तद्व्यधाद्वुधवत्सुबुधो<sup>२</sup> निदानम् ॥ ७२७ ॥  
देशे सारसमुच्चये नरपतिर्देवो नरादिस्ततः  
सौधमें<sup>३</sup> निमिपोऽभवत्सुखनिधिस्तस्माच्च्युतोऽन्मिभूत् ।  
आक्रान्ताखिलखेचरोञ्ज्वलशिरोमालो विनम्यन्वये  
स्त्रीलोलो निजवंशकेतुरहिताचाराग्रणी रावणः ॥ ७२८ ॥  
आर्सादिहैव मलये विपये महीश-  
स्तुक् चन्द्रचूल इति दुश्चरितः समाप्य ।  
पश्चान्त्पांऽजनि सुरः स सनत्कुमारे  
तस्मादिहैव्य समभूद्विशुरद्धचक्रौ ॥ ७२९ ॥

खेतके समान शीघ्र ही निर्मूल कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुमे सीताको छीन लिया, जिनके दोनों चरण, नम्रीभून देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोंके मस्तकरूपी सिंहासन पर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अर्धभरत क्षेत्रको निष्कण्ठक बना दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अग्रोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा ज्येष्ठ मासके सूर्यकी प्रभाका भी तिरस्कृत करनी थी। जिनकी वीरलक्ष्मी दिशाओंके अन्तमें रहनेवाले दिग्गजोंके गर्व-रूपी सर्पको शान्त करनेमें सदा व्यग्र रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा सुशोभित रत्नोंकी पंक्तिसे अनुरञ्जित लक्ष्मीके द्वारा प्राप्त करायें हुए भोगोंके संयोगसे जो सदा सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको संतुष्ट रखते थे, जो तेजसे चन्द्र और सूर्यके समान थे, और जिन्होंने अपने यशसे समस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान् बलभद्र और नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र और लक्ष्मण चिरकाल तक साथ ही साथ इस पृथिवीका पालन करते रहे। उन दोनोंमेंसे एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परिणामोंके द्वारा की हुई विशेषतासे तीन लोकके शिखर पर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ नरककी भूमिका नायक हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मूर्खके समान कभी भी निदान नहीं करना चाहिये ॥ ७२४-७२७ ॥ रावणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशमें नरदेव नामका राजा था। फिर सौधर्म स्वर्गमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुआ और तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोंके देदीप्यमान मस्तकोंकी मालापर आक्रमण करनेवाला, स्त्रीलम्पट, अपने वंशको नष्ट करनेके लिए केतु (पुच्छलतारा) के समान तथा दुराचारियोंमें अग्रसर रावण हुआ ॥ ७२८ ॥ लक्ष्मणका जीव पहले

१ द्विपसर्पहर्पशमन-ल० । २ प्रबुधो क०, घ० । ३ देवः ।

## द्रुतविलम्बितम्

मणिमतिः खचरी गुणभूषणा

कृतानिदानमृतेरति<sup>१</sup>कोपिनी ।

ननयशः समभूदिह सुव्रता

परिरता जनकेगमुता सती ॥ ७३० ॥

## मालिनी

इह सचिवतनूजश्चन्द्रचूलस्य मित्रं

विजयविदितनामाऽजायत<sup>२</sup> स्वस्तुतीये ।

कथितकनकचूलो लालितो दिव्यभोगै-

रभवदमितवीर्यैः सूर्यवंशे स रामः ॥ ७३१ ॥

जनयतु बलदेवो देवदेवो दुरगताद्


दुरितदुरुदशोत्थाद्दूष्यदुःखाद्दवीयान् ।

अवनतभुवनेशो विद्वद्भवा विरागो<sup>३</sup>

निखिलसुखनिवासः सोऽष्टमोऽभीष्टमस्मान् ॥ ७३२ ॥


इत्यार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे मुनिसुव्रततीर्थकर-हरिषेणचक्रवर्ति-

रामवल्लदेवलक्ष्मीधरकेशवसीतारावणपुराणं परिसमाप्तमष्टपष्टं पर्वं ॥ ६८ ॥



इसी क्षेत्रके मलयदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त दुराचारी था। जीवनके पिछले भागमें तपस्वरण कर वह सनखुमार स्वर्गमें देव हुआ फिर वहाँसे आकर यहाँ अर्धचम्री लक्ष्मण हुआ था ॥ ७२६ ॥ सीता पहले गुणरूगी आभूषणोंसे सहित मणिमति नामकी विद्याधरी थी। उसने अश्रयन्त क्लुपित होकर निदान मरण किया जिससे यशको विस्तृत करनेवाली तथा अचछे व्रतोंका पालन करनेवाली जनकपुत्री सती सीता हुई ॥ ७३० ॥ रामचन्द्रका जीव पहले मलय देशके मंत्रीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे प्रसिद्ध था फिर तीसरे स्वर्गमें दिव्य भोगोंसे लालित कनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुआ और फिर सूर्यवंशमें अपरिमित बलको धारण करनेवाला रामचन्द्र हुआ ॥ ७३१ ॥ जो दुःखदायी पापकर्मके दुष्ट उदयसे उत्पन्न होनेवाले निन्दनीय दुःखसे बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त इन्द्रोंको नष्ट बना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, वीतराग थे, समस्त मुखोंके भाण्डार थे और जो अन्तमें देवोंके देव हुए—सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे अष्टम बलभद्र श्री रामचन्द्रजी हम लोगोंकी इष्ट-सिद्धि करें ॥ ७३२ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणके संप्रहर्मे मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकर, हरिषेण चक्रवर्ती, राम बलभद्र, लक्ष्मीधर ( लक्ष्मण ) नारायण, सीता तथा रावणके पुराणका वर्णन करनेवाला अड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥



## एकोनसप्ततितमं पर्व

यस्य नामापि धर्तृणां मुक्तये हृदयपङ्कजे । ननिर्गमयताञ्चग्रान् सोऽभक्तर्क्ष्मा म मंक्षु नः ॥ १ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वपे विषये वन्मनामनि । कौशाभ्यां नगरे राजा पार्थिवान्भ्यो विभुधि-नाम ॥ २ ॥  
 चक्षुरिक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीं वक्षःस्थले दधन् । साक्षाच्चक्राव दिक्षुचक्रनाक्रम्यभान्म विक्रमा ॥ ३ ॥  
 तन्जन्मस्य मुन्दर्यां देव्यां सिद्धार्थनामनाम् । मुनि मनोहराद्याने परमावधिर्वाक्षगम् ॥ ४ ॥  
 दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं कदाचिद्विनयानतः । सन्वृत्तय धर्मनकायं यथावगदुर्दारितन ॥ ५ ॥  
 समाकर्ण्य समुत्पन्नसंवेगः स महापतिः । नृनिमूलधनेनाग्रमग्रे सृञ्जोरनागुञ्जुन ॥ ६ ॥  
 वहन् दुःभ्वानि नद्वृद्धिं सर्वो जन्मनि दुर्गतः । रत्नत्रयं समावर्ज्य तन्मे यावन्न दाम्बनि ॥ ७ ॥  
 ऋणं सवृद्धिकं तावन्नुतः स्वास्थ्यं कुतः सुखम् । इति निश्चित्य कनारीश्वहनुं विहितोद्यमः ॥ ८ ॥  
 सुताय श्रुतशास्त्राय प्रजापालनशालिने<sup>१</sup> । सिद्धार्थाय समयाय दत्त्वा राज्यमुदात्तर्याः<sup>२</sup> ॥ ९ ॥  
 प्रात्राजीपूज्यपादस्य मुनेर्मुनिवरश्रुतः । पादमूलं समासाद्य सनां साः वृत्तिरोदृश्या ॥ १० ॥  
 सिद्धार्थो व्याससम्यक्त्वो गृहीताणुग्रतादिकः । भोगान् मुञ्चन् भुञ्जानः प्रचण्डोऽपालयन्प्रजाः ॥ ११ ॥  
 काले गच्छति तम्यैवं कदाचिन्मवगुरोर्मुनेः । श्रुत्वा शरीरमन्यासं विच्छिन्नविषयमृहः ॥ १२ ॥  
 सद्यो मनोहरोद्याने बुद्धतत्त्वार्थविन्मृतिः ।<sup>३</sup> महाबलाभिधाख्यानाक्केवलवगमेक्षणाल ॥ १३ ॥

अथानन्तर—भक्त लोगोंके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिके लिए पर्याप्त है—मुक्ति देनेमें समर्थ है ऐसे नमिनाथ स्वामी हम सबके लिए शीघ्र ही मोक्ष-तर्क्ष्मा प्रदान करें ॥ १ ॥ इसी जन्मद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके वत्स देशमें एक कौशाभ्यां नामकी नगरी है । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ॥ २ ॥ वह इक्ष्वाकु वंशके नेत्रके समान था, लक्ष्मीको अपने वक्षःस्थल पर धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं पर आक्रमण कर साक्षात् चक्रवर्तीके समान सुशोभित होता था ॥ ३ ॥ उस राजाके मुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका पुत्र हुआ था । एक दिन वह राजा मनोहर नामके उद्यानमें गया था । वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामके मुनिके दर्शन किये और विनयसे नम्र होकर उनसे धर्मका स्वरूप पूछा । मुनिराजने धर्मका यथार्थ स्वरूप बतलाया उसे मुनकर राजाको वैराग्य उत्पन्न हो आया । वह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी मरण-रूपी मूलधन लेकर मृत्युका कर्जदार हो रहा है ॥४-६॥ प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंको भोगता और उस कर्जकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है—दुर्गतियोंमें पड़कर दुःख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है । जब तक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धनका उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तब तक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? वह सुखी कैसे रह सकता है ? ऐसा निश्चय कर वह कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेका उद्यम करने लगा ॥ ७-८ ॥ उत्कृष्ट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक शास्त्रोंके मुनने एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धार्थ नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पूज्यपाद मुनिवर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि सांपुरुषोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है ॥ ९-१० ॥ प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर तथा अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगता हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥ ११ ॥

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराजका समाधिभरण सुना । समाधिभरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गई । उसने शीघ्र ही मनोहर नामके उद्यानमें जाकर महाबल नामके केवली भगवान्से तत्त्वार्थका विस्तारके

१—शीलने ल० । २ श्रियं सुधीः ल० । ३ महाबलाभिधाख्यातकेवला-५०, म० । महाबलाभिधानाख्यात केवला-ल० ।



राज्यभारं समारोप्य श्रीदत्तं स्वसुते सति । लब्धक्षाधिकसम्यक्त्वः शमी संयममाददं ॥ १४ ॥  
 स धृत्वैकादशङ्गानि बद्ध्वा षोडशकारणैः । अन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोत्तमः ॥ १५ ॥  
 स्वायुरन्ते समाराध्य विमाने 'लवसत्तमः । देवोऽपराजिते पुण्यादुत्तरेऽनुत्तरेऽभवत् ॥ १६ ॥  
 त्रयस्त्रिंशत्पयोऽध्यायुरेकारत्निसमुच्छ्रितः । निश्वासाहारलेष्यादिभावैस्तत्रोदितैर्युतः ॥ १७ ॥  
 जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन् षण्मासैरागमिष्यति । जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये वङ्गनामनि ॥ १८ ॥  
 मिथिलायां महींपालः श्रीमान् गोत्रेण काः यपः । विजयादिमहाराजो विख्यातो वृषभान्वये ॥ १९ ॥  
 अनुरक्तं व्यधात् कृत्स्नमुद्यन्निव रविर्जगत् । स्वविरागाद्विरक्तं तत् सोऽतपरास्य तादृशम् ॥ २० ॥  
 'अवृणीत गुणालिस्तं लक्ष्मींश्च सुकृतोदयात् । पुष्कलाविष्कियं तस्मिन् पुरुषार्थत्रयं ततः ॥ २१ ॥  
 तस्य राज्ये रवावेव तापः कोपोऽपि कामिषु । विग्रहाख्या तनुष्वेव मुनिष्वेव विरागता ॥ २२ ॥  
 परार्थग्रहणं नाम कुक्कविष्वेव बन्धनम् । कान्येष्वेव विवादश्च विद्वस्त्वेव जयाधिषु ॥ २३ ॥  
 शरव्याप्तिः सरित्स्वेव ज्योतिःश्वेवानवस्थितिः । क्रौर्यं क्रूरग्रहेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥

साथ स्वरूप समझा ॥ १२-१३ ॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया और शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥ १४ ॥ उस पुरुषोत्तमने ग्यारह अङ्ग धारण कर सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया ॥ १५ ॥ और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर विमानमें अतिशय शोभायमान देव हुआ ॥ १६ ॥ वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, तथा रवासोच्छ्वास, आहार, लेष्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंके जितने बतलाये गये हैं वह उन सबसे सहित था ॥ १७ ॥ जब इस अहमिन्द्रका जीवनका अन्त आया और वह छह माह बाद यह वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूद्वीपके सुशोभित इसी जम्बूद्वीपके वङ्ग नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी । वहाँ भगवान् वृषभदेवका वंशज, काश्यपगौत्री विजयमहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था ॥ १८-१९ ॥ जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य संसारको अनुरक्त—लालवर्णका कर लेता है उसी प्रकार उसने राज्यगद्दी पर आरूढ़ होते ही समस्त संसारको अनुरक्त—प्रसन्न कर लिया था और ज्यों-ज्यों सूर्य स्वयं राग—लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों वह संसारको विरक्त—लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी ज्यों-ज्यों विराग—प्रसन्नतासे रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारको विरक्त—प्रसन्नतासे रहित करता जाता था । सारांश यह है कि संसारकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि उसने वैसा ही तप किया था और वैसा ही उसका प्रभाव था ॥ २० ॥ चूंकि पुण्य कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके समूह तथा लक्ष्मीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म, अर्थ, कामरूप तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ॥ २१ ॥ उस राजाके राज्यमें यदि ताप—उष्णत्व था तो सूर्यमें ही था अन्यत्र ताप-दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्योंमें ही था वहाँके अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विग्रह नाम था तो शरीरोंमें ही था अन्यत्र नहीं, विरागता—वीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी वहाँके अन्य मनुष्योंमें विरागता—स्नेहका अभाव नहीं था । परार्थ ग्रहण—अन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका ग्रहण करना कुक्कवियोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें परार्थग्रहण—दूसरेके धनका ग्रहण करना नहीं था । बन्धन—हरबन्ध, छत्रबन्ध आदिकी रचना काव्योंमें ही थी वहाँके अन्य मनुष्योंमें बन्धन-पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था । विवाद—शास्त्रार्थ यदि था तो विजयकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंमें ही था वहाँके अन्य मनुष्योंमें विवाद—कलह नहीं था । शरव्याप्ति—एक प्रकारके तृणका विस्तार नदियोंमें ही था वहाँके मनुष्योंमें शरव्याप्ति—वाणोंका विस्तार नहीं था । अनवस्थिति—अस्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देवोंमें ही थी—वे ही निरन्तर

१ अहमिन्द्रः । २ ल० पुस्तके तु 'अवृणीत गुणानेव सर्वान् सुकृतोदयात्' इति पाठः । अत्र द्वितीय-पादे कृन्दोभङ्गः ।

वर्षिपला तन्महादेवा वसुधारादिपूजिता । श्रीङ्गीधृत्यादिभिः सेव्या मुखमुसानिशावर्धा ॥ २५ ॥  
 १ शरदादिद्वितीयायां नक्षत्रेष्वदिमे सति । स्वर्गावनरणे भर्तुर्दृष्ट्वा स्वमान् पुरोदिगान् ॥ २६ ॥  
 स्ववक्रावजप्रविष्टेभमप्यालोक्य विनिद्रिका । प्रभानपटहृत्त्वानध्रवणाविष्कृतोत्सवा ॥ २७ ॥  
 अपृच्छत् फलमेतेषां नृपं देशावधीक्षणम् । सोऽप्यदादाद्भवद्भ्रमे भावितीर्थकुदित्यदः ॥ २८ ॥  
 तदैवागत्य देवेन्द्राः स्वर्गावतरणोत्सवम् । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमन्समम् ॥ २९ ॥  
 आपाठे स्वातियांगे तं कृष्णपक्षे महौजसम् । दशम्यां विश्वलोकेशममृतं तनुजोत्तमम् ॥ ३० ॥  
 देवा द्वितीयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा व्यधुः । नमिनामानमप्येनं व्याहरन् मोहभेदिनम् ॥ ३१ ॥  
 मुनिसुव्रततीर्थेशसन्ताने वर्षमानतः । गतेषु पण्डिलक्षेषु नमिनाथसमुद्भवः ॥ ३२ ॥  
 आयुदर्शसहस्राणि वर्षाणां परमं मतम् । उन्सेधो धनुषां पत्रदश चाभ्याभिर्धायने ॥ ३३ ॥  
 जातरूपद्युतिः सार्द्धद्विसहस्रादसम्मिने । गते कुमारकालेऽभिषेकमापन्सराज्यकम् ॥ ३४ ॥  
 राज्ये पञ्चसहस्राणि वत्सराणामगुर्विभोः । तदा प्रावृद्धवनाटोपसङ्कटे गगनाङ्गणे ॥ ३५ ॥  
 २ देवं वनविहाराय गतवन्तं महोदयम् । गजस्कन्धसमारूढं भानुमन्तमिवापरम् ॥ ३६ ॥  
 नभस्तलगतौ देवकुमारौ विहितानती । एवं विज्ञापयामासनुर्बद्धकरपङ्कजौ ॥ ३७ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानादपराजिनात् ॥ ३८ ॥

गमन करते रहते थे वहाँके मनुष्योंमें अनवस्थिति—अस्थिरता नहीं थी । कृता यदि थी तो दुष्ट ग्रहोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें क्रूरता—दृष्टता—निर्दयता नहीं थी और पिशाचता—पिशाच जाति यदि थी तो देवोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें पिशाचता—नीचना नहीं थी ॥ २२-२४ ॥ विजय-महाराजकी महादेवीका नाम वर्षिपला था, देवाने रनवृष्टि आदिसे उसकी पूजा की थी, श्री, ही, धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं । शरद् ऋतुकी प्रथम द्वितीया अर्थात् आश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रिके पिछले पहर जब कि भगवानका स्वर्गावनरण हो रहा था तब मुखसे सोई हुई महारानीने पहले कहे हुए सोलह स्वप्न देखे ॥ २५-२६ ॥ उसी समय उसने अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई और प्रातः-कालके वाजोका शब्द सुननेसे उसके हर्षका ठिकाना नहीं रहा ॥ २७ ॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धरण करनेवाले राजसे इन स्वप्नोंका फल पूछा और राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमें भावी तीर्थकरने अवतार लिया है ॥ २८ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर अपने नियोगके अनुसार भगवानका स्वर्गावनरण महोत्सव-गर्भकल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर सब साथ ही साथ अपने अपने स्थानपर चले गये ॥ २९ ॥ वर्षिपला महादेवीने आपाठ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगमें समस्त लोकके स्वामी महाप्रतापी जेष्ठपुत्रको उत्पन्न किया ॥ ३० ॥ देवाने उसी समय आकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया और मोह शत्रुको भेदन करनेवाले जिन-बालकका नमिनाथ नाम रक्खा ॥ ३१ ॥ भगवान् मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरकी तीर्थ-परम्परामें जब साठ लाख वर्ष दीत चुके थे तब नमिनाथ तीर्थकरका जन्म हुआ था ॥ ३२ ॥ भगवान् नमिनाथकी आयु दश हजार वर्षकी थी, शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था और कान्ति सुवर्णके समान थी । जब उनके कुमारकालके अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने अभिषेकपूर्वक राज्य प्राप्त किया था ॥ ३३-३४ ॥ इस प्रकार राज्य करते हुए भगवानको पाँच हजार वर्ष बीत गये । एक दिन जब कि आकाश वर्षा-ऋतुके बादलोंके समूहसे व्याप्त हो रहा था तब महान् अभ्युदयके धारक भगवान् नमिनाथ दूसरे सूर्यके समान हाथीके कन्धपर आरूढ़ होकर वन-विहारके लिए गये ॥ ३५-३६ ॥ उसी समय आकाशमार्गसे आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे ॥ ३७ ॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक वत्सकावती नामका

अवतीर्थ समुत्पन्नन्नीर्यनाथाऽपराजितः । तस्य केवलपूजार्थं देवेन्द्राः समुपागताः ॥ ३९ ॥  
 तत्सभायामभूत् प्रदत्तः किमग्नि भरतेऽधुना । कश्चित्तीर्थकृदित्याह सोप्येवं सकलार्थदक् ॥ ४० ॥  
 वङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरं नमिनायकः । भावितीर्थकरः पुण्यादवतीर्णोऽपराजितात् ॥ ४१ ॥  
 देवोपनीतभोगानां भोक्ता सम्प्रति साध्विति । तपः प्राग्घातकीखण्डे कृत्वा सौधर्मनामनि ॥ ४२ ॥  
 सम्भूयेतौ द्वितीयेऽह्नि गत्वा तद्वचनश्रुतेः । भवन्तमीक्षितुं पूज्यमावामैव<sup>१</sup> सकौतुकौ ॥ ४३ ॥  
 इति सोऽपि समासन्नकेवलावगमोदयः । चित्ते विधाय तत्सर्वं महीशः प्राविशत्पुरम् ॥ ४४ ॥  
 तत्र स्वभवसम्बन्धं स्मृत्वा तीर्थकरं च तम् । आजवं जवसंजातसद्भावं भावयन्मुहुः ॥ ४५ ॥  
 अनादिबन्धनैर्गाढं बध्वात्मानमानमात्मना । कायकारागृहे स्थित्वा पापी पक्षीव पञ्जरे ॥ ४६ ॥  
 कुञ्जरो वार्पितालानो कलयत्यलमात्मनः । नाना दुःखानि भुञ्जानो भूयस्तैरेव रञ्जितः ॥ ४७ ॥  
 इन्द्रियार्थेषु संसक्तो रतितीव्रतरोदयात् । अशुचिष्वेवसम्बृद्धतृष्णोऽवस्करकीटवत् ॥ ४८ ॥  
 विन्ध्यन्मृत्योस्तमाधावन् वर्ज्यदुःखस्तदर्जयत् । विपर्यस्तमतिः कष्टमार्तरौद्राहिताशया ॥ ४९ ॥  
 भवे भ्राम्यत्यचिभ्राम्यन् प्रताम्यन् पापपाकतः । दृढां निरूढां धिक्मूढिमभीष्टार्थविधातिर्नाम् ॥ ५० ॥  
 इति निर्वेद<sup>२</sup>संयोगाद्भोगरागातिदूरगः । सारस्वतादिसर्वापरागामरसमचितः ॥ ५१ ॥  
 क्षयोपशमसम्प्राप्तशस्त<sup>३</sup>संज्वलनोदयः । लब्धबोधिः सुतं राज्ये निजे संयोज्य सुप्रभम् ॥ ५२ ॥

देश है। उसकी सुर्सीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके तीर्थङ्कर उत्पन्न हुए हैं। उनकें केवलज्ञानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे ॥ ३८-३९ ॥ उनकी सभामें प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीर्थङ्कर है? सर्वदर्शी अपराजित भगवान् ने उत्तर दिया कि इस समय वङ्गदेशके मिथिलानगरमें नमिनाथ स्वामी अपराजित विमानसे अवतीर्ण हुए हैं वे अपने पुण्योदयसे तीर्थकर होनेवाले हैं ॥ ४०-४१ ॥ इस समय वे देवोंके द्वारा लाये हुए भोगोंका अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं—गृहस्थावस्थामें विद्यमान हैं। हे देव! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धानकीखण्ड द्वीपके रहनेवाले थे वहाँ तपश्चरण कर सौधर्म नामक स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके लिए गये थे। वहाँ उनके वचन सुननेसे पूजनीय आपके दर्शन करनेके लिए कौतुकवश यहाँ आये हैं ॥ ४२-४३ ॥ जिन्हें निकटकालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है ऐसे भगवान् नमिनाथ देवोंकी उक्त समस्त बातोंको हृदयमें धारण कर नगरमें लौट आये ॥ ४४ ॥ वहाँ वे विदेह क्षेत्रके अपराजित तीर्थकर तथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें होनेवाले भावोंका बार-बार विचार करने लगे ॥ ४५ ॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने अपने आपको अपने आपके ही द्वारा अनादि-कालसे चले आये बन्धनोंसे अच्छी तरह जकड़ कर शरीर-रूपी जेलखानेमें डाल रक्खा है और जिस प्रकार पिंजड़ेके भीतर पापी पक्षी दुःखी होता है अथवा आलान—खम्भेसे बँधा हुआ हाथी दुःखी होता है उसी प्रकार यह आत्मा निरन्तर दुःखी रहता है। यह यद्यपि नाना दुःखोंको भोगता है तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है। रति नोकषायके अत्यन्त तीव्र उदयसे यह इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त रहता है और विष्णुके कीड़ाके समान अपवित्र पदार्थोंमें तृष्णा बढ़ाता रहता है ॥ ४८ ॥ यह प्राणी मृत्युसे डरता है किन्तु उसी ओर दौड़ता है, दुःखोंसे छूटना चाहता है किन्तु उनका ही सञ्चय करता है। हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात है कि आर्त और रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस जीवकी बुद्धि विपरीत हो गई है। यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गतिरूप भवमें भ्रमण करता है और पापके उदयसे दुःखी होता रहता है। इष्ट अर्थका विघात करनेवाली, दृढ़ और अनादि कालसे चली आई इस मूर्खताको भी धिक्कार हो ॥ ४६-५० ॥

इस प्रकार वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवोंने—लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की ॥ ५१ ॥ कर्मोंका

१ मायामैवः ख०, ग०, मावामेवं म०, ल० (आवाम्, ऐव, इण् धातोर्लङ्घुत्तमपुरुषद्वितीयबचनस्य रूपम्-आवाम् आगतौ इति भावः) । २ निर्वेदसंवेगात् ल० । ३ प्रशस्त ख० पाठे अन्वोभङ्गः ।

साभिषेकं सुरैः <sup>१</sup>प्राप्य परिनिःक्रान्तिपूजनम् । यानमुत्तरकुवाख्यं समारुह्य मनोहरम् ॥ ५३ ॥  
 गत्वा <sup>२</sup>चैत्रवनोद्यानं पट्टोपवसनं श्रितः । आषाढकालपक्षेऽश्विनक्षत्रे दशमीदिने ॥ ५४ ॥  
 अपराह्णे सहस्रं क्षत्रियाणां सहाग्रहीत् । संयमं सयमापाद्यं<sup>३</sup> सञ्ज्ञानं च चतुर्थकम् ॥ ५५ ॥  
 भोक्तुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतवते नृपः । सुवर्णवर्णो दशमवापाश्रयपञ्चकम् ॥ ५६ ॥  
 छात्रस्थेन ततः काले प्रयाते नववत्सरे । निजदीक्षावने रम्ये मूले वकुलभूरुहः ॥ ५७ ॥  
 तस्य पट्टोपवासस्य नक्षत्रे ऽश्वभिधानके । मार्गशीर्षशुचौ पक्षे दिनान्ते केवलं विभोः ॥ ५८ ॥  
 दिने तृतीयनन्दायामभूदखिलगोचरम् । <sup>४</sup>नाकनायकसञ्चार्यनुर्यकल्याणभागिनः ॥ ५९ ॥  
 सुप्रभार्यादयः सप्तदशासन् गणनायकाः । चतुःशतानि पञ्चाशत् सर्वपूर्वधरा मताः ॥ ६० ॥  
 शिक्षकाः पट्टशतद्वादशसहस्राणि सद्भ्रताः । त्रिज्ञानधारिणां सङ्ख्या सहस्रं पट्ट शताधिकम् ॥ ६१ ॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञाना मुनयो विक्रियद्विकाः । सर्वे सार्द्धसहस्रं स्युर्भनःपर्ययबोधनाः ॥ ६२ ॥  
 शून्यपञ्चद्विकैकोक्तस्यक्तसङ्गाः प्रकीर्तिताः । सहस्रं वादिनां सङ्ख्या ते सर्वेऽपि समुचिताः ॥ ६३ ॥  
 विंशतिः स्युः सहस्राणि मङ्गिनीप्रमुखारिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि तदप्यंशाधिका मताः ॥ ६४ ॥  
 श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः । देवा देवोप्यसङ्ख्यातास्तिर्यञ्चः सङ्ख्याया मिताः ॥ ६५ ॥  
 एवं द्वादशसङ्ख्यानं <sup>५</sup>गणैर्नम्रैर्नमीश्वरः । सद्धर्मदेशनं कुर्वन्चार्यक्षेत्राणि सर्वतः ॥ ६६ ॥

क्षयोपशम होनेसे उनके प्रशस्न मंज्वलनका उदय हो गया अर्थात् प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभका क्षयोपशम और संज्वलन क्रोध मान माया लोभका मन्द उदय रह गया जिससे रत्नत्रयको प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सौंप दिया ॥ ५२ ॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुरु नामकी मनोहर पालकी पर सवार हो चैत्रवन नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने बेलाका नियम लेकर आपादकृष्ण दशमीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थ—मनःपर्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५५ ॥ पारणाके लिए भगवान् वीरपुर नामक नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा दत्तने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५६ ॥ तदनन्तर जब छद्मस्थ अवस्थाके नव वर्ष बीत गये तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावनमें मनोहर वकुल वृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए । वहाँ पर उन्हें मार्गशीर्ष शुक्लपक्षकी १३ तीसरी नन्दा तिथि अर्थात् एकादशीके दिन सायंकालके समय समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ—उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुर्थ—ज्ञानकल्याणका उत्सव किया ॥ ५७-५९ ॥ सुप्रभार्यको आदि लेकर उनके सत्रह गणधर थे । चार सौ पचास समस्त पूर्वोंके जानकार थे, बारह हजार छह सौ अच्छे व्रतोंको धारण करने वाले शिक्तक थे, एक हजार छह सौ अविधिज्ञानके धारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात् एक हजार छह सौ ही केवल ज्ञानी थे, पन्द्रह सौ विक्रियाष्टद्विके धारक थे, बारह सौ पचास परिग्रह रहित मनःपर्ययज्ञानी थे और एक हजार वादी थे । इस तरह सब मुनियोंकी संख्या बीस हजार थी । मङ्गिनीको आदि लेकर पैंतालीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव देवियां थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे ॥ ६०-६५ ॥ इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश करते हुए भगवान् नमिनायने नम्रीभूत बारह सभाओंके साथ आर्य क्षेत्रमें सब ओर विहार किया । जब उनकी आयुका एक माह बाकी रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्भेदशिखर पर जा विराज-

१ प्राप्तपरिनिःक्रान्तिपूजनः ख०, घ० । २ चित्रवनोद्यानं म०, ल०, । ३ संयमापाद्यं घ० ।  
 ४ नायनायक घ०, ल० । ५ भोगिनः म० । ६ संख्यात म०, घ० ।

\* ज्योतिष शास्त्रमें 'नन्दा भद्रा जवा रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्' इस श्लोकके क्रमानुसार प्रतिपदा आदि तिथियोंके क्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम हैं । षष्ठीसे दशमी तककी तथा एकादशीसे पूर्णिमा तककी तिथियोंके भी यही नाम हैं इस प्रकार तीसरी नन्दा तिथि एकादशी होती है ।

विहृत्य विहृतिं त्यक्त्वा मासं सम्भेदपर्वते । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमास्थितः ॥ ६७ ॥  
 वैशाखे मासि कृष्णायां चतुर्दश्यां निशात्यये । मुक्तिमद्वयान्कनक्षत्रे १ नमिस्तीर्थकरोऽगमत् ॥ ६८ ॥  
 अकुर्वन्पञ्चमं देवाः कल्याणं चाखिलेशिनः । स्वं स्वभोकश्च सम्प्राप्तपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥ ६९ ॥

### पृथ्वीच्छन्दः

कनक्कनकविग्रहो विहितविग्रहो घातिभिः

सहाहितजयो<sup>२</sup> जयेति च नुतो नतैर्नाकिभिः ।

भियं भवभवां<sup>३</sup> बहुं नयतु नः क्षयं नायको

विनेयविदुषां रचयं विहतविग्रहोऽन्ते नमिः ॥ ७० ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कौशाब्ध्यां प्रथितस्तृतीयजनने सिद्धार्थनामा नृपः

कृत्वा तत्र तपोऽतिघोरमभवत्तुर्येऽमरोऽनुत्तरे ।

तस्मादेत्य पुरे बभूव मिथिलानाम्नीन्द्रवद्यो नमि-

स्तीर्थेशस्त्रिजगद्धितार्थवचनव्यक्त्यैकविंशो जिनः ॥ ७१ ॥

### पृथ्वीवृत्तम्

नमिर्नमितसामरामरपतिः पतञ्चामरो

भ्रमद्भ्रमरविभ्रमभ्रमितपुष्पवृष्ट्युत्करः ।

करोतु चरणारविन्दमकरन्दसम्पायिनां

विनेयमधुपायिनामविरतोरनृप्तिं जिनः ॥ ७२ ॥

जगत्त्रयजयोत्सिकमोहमाहात्म्यमर्दनात् । एकविंशो जिनो लब्धलक्ष्मीर्लक्ष्मीं ददातु नः ॥ ७३ ॥

मान हुए । वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाखकृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ६६-६८ ॥ उसी समय देवोंने आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ तीर्थकरका पञ्चम—निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर पुण्यरूपी पदार्थको प्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ६९ ॥ जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मोंके साथ युद्ध किया था, समस्त अहितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्रीभूत देव जय-जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान् शिष्योंके स्वामी थे और अन्तमें जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था—मोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी बहुत भारी भयको नष्ट करें ॥ ७० ॥ जो तीसरे भवमें कौशाब्धी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए और वहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा बन्दीय तीनों जगत्के हितकारी बचनोंको प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इक्षीसर्वे तीर्थकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रहे थे और जिनपर उड़ते हुए भ्रमरोंसे सुराभित पुष्पवृष्टियोंका समूह पड़ा करता था ऐसे श्री नमिनाथ भगवान् चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनेवाले शिष्य रूपी भ्रमरोंके लिए निरन्तर संतोष प्रदान करते रहें ॥ ७१-७२ ॥ तीनों जगत्को जीतनेसे जिसका गर्व बढ़ रहा है ऐसे मोहका माहात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हें मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे श्री नमिनाथ भगवान् हम सबके लिए भी मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ७३ ॥

१ नमितीर्थ—म०, ल० । २ अहितानां जयः, अथवा आहितो धृतो जयो येन सः । ३ भवः संसारो भवः कारणं यस्यास्ताम् भियम् ।

इषेऽस्मिन्नुत्तरे भागे महर्ष्यरावताह्वये । लक्ष्मीमान् श्रीपुरार्धाशो वसुन्धरमहीपतिः ॥ ७४ ॥  
 पद्मावर्तावियोगेन शृशं निविण्णमानसः । वने मनाहरे रम्ये वरचर्मोत्तिलेक्षिणः ॥ ७५ ॥  
 निर्गाय धर्मसङ्गावं तनये विनयन्धरं । निवेशितात्मभारः सन् बहुभिर्भूभुजैः<sup>३</sup> समम् ॥ ७६ ॥  
 संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन् । स्वाराधनविधानेन महाशुक्रे सुरोऽभवत् ॥ ७७ ॥  
 षोडशाब्ध्युपमस्त्रायुर्दिव्यान् भोगान् मुमुज्य सः । ततः प्रच्युत्य तर्त्तार्थं वल्गाख्यविषयेऽजनि ॥ ७८ ॥  
 नृपस्येक्ष्वाकुवंशस्य कौशास्वर्वातगरंनिनः । तनूजो विजयाख्यस्य प्रभाकर्यां प्रभाधिकः ॥ ७९ ॥  
 सर्वलक्षणसम्पूणो जयसेनसमाह्वयः । त्रिसहस्रशरर्भावी<sup>४</sup> पट्टिद्वस्तसमुच्छ्रितः ॥ ८० ॥  
 तप्तचार्माकरच्छायः स चतुर्दशरत्नभाक् । निधिभिनं वसिः मेढ्यो भोगेर्दशविधैः मुग्धम्<sup>५</sup> ॥ ८१ ॥  
 शिरमेकादशश्रकधरः कालमर्जागमन् । भन्देद्युन्तुङ्गसौधाग्रे सुसुप्तोऽन्तःपुरावृत् ॥ ८२ ॥  
 कुर्वन् पर्वशशाङ्गाभो दिगन्तरविलोकनम् । उल्काभिपतनं वीक्ष्य मुनिर्वेगपरायणः ॥ ८३ ॥  
 उच्चैःस्थितमिदं पश्य भास्वरं पर्ययद्द्वयम् । परिन्यज्य सुसम्प्रापद्दधोगनिमपप्रभम् ॥ ८४ ॥  
 उच्चतमूर्जितं तेजो ममेति मदमावहन् । भनाचरन् हितं मूढः पारलौकिकमात्मने ॥ ८५ ॥  
 विषयेषु विपक्तः सन्नध्रुवेष्वविनपिषु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र प्रमादवान् ॥ ८६ ॥  
 इत्याकलय्य कालादिलब्ध्या चक्रेडवक्रधीः । त्यक्तुं चक्रादिसाम्राज्यं परिच्छिद्योच्छ्रितेच्छया ॥ ८७ ॥  
<sup>६</sup>तुक्षु राज्यमनिच्छन्सु महीयःमु, कनीयमे । दत्त्वा पुत्राय साम्राज्यं वरदत्ताभिधायिनः ॥ ८८ ॥

अथानन्तर—इसी जन्मवृद्धीपके उत्तर भागमें एक ऐरावत नामका वड़ा भारी क्षेत्र है उसके श्रीपुर नगरमें लक्ष्मीमान् वसुन्धर नामका राजा रहता था ॥ ७४ ॥ किसी एक दिन पद्मावर्ता कीके वियोगसे उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर मनाहरे नामके वनमें गया । वहाँ उसने वरचर्म नामके सर्वज्ञ भगवान्मे धर्मके सद्भावका निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सब भार सौंपकर अनेक राजाओंके साथ, संयम धारण कर लिया । तदनन्तर कठोर तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ ॥ ७५-७७ ॥ वहाँ पर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंका अनुभव कर वह वहाँसे च्युत हुआ और इन्हीं नमिनाथ तीर्थकरके तीर्थमें बत्स देशकी कौशास्वी नगरीके अधिपति, इक्ष्वाकुवंशी राजा विजयकी प्रभाकरा नामकी देवीसे कान्तिमान् पुत्र हुआ ॥ ७८-७९ ॥ वह सर्व लक्षणांसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार वर्षकी उसकी आयु थी. साठ हाथकी ऊँचाई थी, तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी, वह चौदह रत्नोंका स्वामी था, नौ निधियों सदा उसकी सेवा करती थी, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दश प्रकारके भोग भोगता हुआ मुखसे समय बिनाता था । किसी एक दिन वह ऊँचे राजभवनकी छत पर अन्तःपुरवर्ती जनोंके साथ लेट रहा था ॥ ८०-८२ ॥ पौर्णमासीके चन्द्रमाके समान वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया । उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु अभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपनी दो पर्यायों छोड़कर कान्तिरहित होती हुई नीचे चली गई ॥ ८३-८४ ॥ 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है, तथा बलवान् है' इस तरहके मदको धारण करता हुआ जो मूढ़ प्राणी अपनी आत्माके लिए हिनकारी परलोक सम्बन्धी कार्यका आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वर तथा संतुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात् तेज रहित होकर अधोगतिको जाता है ॥ ८५-८६ ॥ ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तीने काल आदि लब्धियोंको अनुकूलतासे चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निश्चय कर लिया । वह अपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी उदात्त इच्छासे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे

१ निवेशितात्म-ल० । २ स- ल० । ३ चिन्त्यः पाठः ( भूसुग्मिर्बहुभिः समम् ) । ४ प्रभंकर्यां ल०, ग० । ५ 'हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमरः । ६ वरैः घ०, ल० । ७ परिच्छेद्य षड्छया घ० । ८ पुत्रेषु 'तुक्' तोकं चात्मजः प्रजाः ।

केवलावगमात्प्राप्य संयमं बहुभिः समम् । श्रुतबुद्धितपोविक्रियापद्भिविभूषितः ॥ ८९ ॥  
 चारणत्वमपि प्राप्य प्रायोपगमनं श्रितः । सम्मेदे चारणोत्तुङ्गकूटे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥  
 जयन्तेऽनुचरे जातो विमाने लवसचमः<sup>१</sup> । पुण्योत्तमानुभागोत्थमन्वभूत्सुचिरं सुखम् ॥ ९१ ॥

### पृथ्वीवृत्तम्

वसुन्धरमहीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त स-

त्तपाः समजनिष्ट षोडश समुद्रमित्यायुषा ।

<sup>१</sup>सुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजप्रसेननामा ततो

बभूव बलसचमः सुखनिधिर्जयन्ते विभुः ॥ ९२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नमितीर्थकरजयसेन-  
 चक्रवर्तिपुराणं परिसमाप्तं एकोनसप्ततितमं पर्व ॥ ६९ ॥

—ॐ:०:ॐ—

पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओंके साथ वरदत्त नामके केवली भगवान्से संयम धारण कर लिया । वह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि तप विक्रिया और औषध आदि ऋद्धियोंसे विभूषित हो गया ॥ ८७-८९ ॥ चारण ऋद्धि भी उसे प्राप्त हो गई । अन्तमें वह सम्मेदशिखरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ और वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा ॥ ९०-९१ ॥ जयसेनका जीव पहले भवमें वसुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ, वहाँसे चय कर जयसेन नामका चक्रवर्ती हुआ और फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्डार स्वरूप अहमिन्द्र हुआ ॥ ९२ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें नमिनाथ तीर्थकर तथा जयसेन चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—+ + + +—

## मसतितमं पर्व

क्षान्त्यादिद्रव्यं धर्मारात्म्यं यमुदाहरन् । सन्तः सद्धर्मचक्रम्य स नेमिः द्रकरोऽन्तु नः ॥ १ ॥  
 संवेगजननं पुण्यं पुराणं जिनचक्रिणाम् । बलानां च श्रुतज्ञानमेतद् वन्दे त्रिशुद्धये ॥ २ ॥  
 पूर्वानुपुष्यां वक्ष्येऽहं कृत्नमङ्गलसन्क्रियः । पुराणं हरिवंशान्त्र्यं यथावृत्तं यथाश्रुतम् ॥ ३ ॥  
 अथ जम्बूमति द्वीपे विदेहेऽपरनामनि । र्सीनांद्रोदकटे देगे मुगन्धिलमसाङ्गये ॥ ४ ॥  
 पुरे सिंहपुरे ख्यातो भूपोऽहं द्वासमंज्ञकः । देव्यस्य जिनदरास्या तयोः पूर्वभवजितान् ॥ ५ ॥  
 पुण्यादयान् समुद्भूतकामभोगैः सनृमगोः । काले गच्छन्थधान्येद्युरदंतां परमेष्ठिनाम् ॥ ६ ॥  
 आप्टाह्लिकमहापूजां विधाय नृपतिप्रिया । कुलस्य तिलकं पुत्रं लप्सीयाहमिति स्वयम् ॥ ७ ॥  
 आशास्यासौ सुखं सुसा निशायां सुप्रसन्नार्थाः । सिंहं भाकेंन्दुपद्माभिपेकानैक्षिण्ट सुव्रता ॥ ८ ॥  
 स्वप्नानन्तरमेवास्या गर्भे प्रादुरभूत्कृती । नवमाभावसानेऽसावमृत सुतभूजितम् ॥ ९ ॥  
 तज्जन्मनः प्रभृत्यन्तरैरजस्यस्तनिपताऽभवत् । ततोऽपरजितान्स्थानमकुर्यन्तस्य बान्धवाः ॥ १० ॥  
 रूपादिगुणसम्पत्त्या साद्वं वृद्धिमसावगन्त् । आर्यौवनं मनोहारां सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम् ॥ ११ ॥  
 तदा मनोहारोद्यानगतं विमलवाहनम् । तीर्थकर्तारमाकर्ण्य वनपालमुग्वाहृपः ॥ १२ ॥  
 स्वान्तःपुरपरीवारपरीतो भक्तिचोदिनः । गन्वा प्रदक्षिणीकृत्य मुहुमुकुलिताङ्गलिः ॥ १३ ॥  
 प्रग्रणम्य समभ्यर्च्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधमामृतस्तस्मादकस्माद् भोगनिस्पृहः ॥ १४ ॥

अथानन्तर—सज्जन लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि दश धर्म रूपी अरोंका अथलम्बन वतलाते हैं और जो समीचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल हैं एमे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंको शान्ति करनेवाले हों ॥ १ ॥ जिनेन्द्र भगवान् नारायण और बलभद्रका पुण्यवर्धक पुराण संसारसे भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिए इस श्रुतज्ञानको मन-वचन कायकी शुद्धिके लिए वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ मङ्गलाचरण रूपी सन्क्रिया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूँगा और वह भी पूर्वचार्योंके अनुसार जैसा हुआ है अथवा जैसा मुना है वैसा ही कहूँगा ॥ ३ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तट पर मुगन्धिला नामके देशमें एक सिंहपुर नामका नगर है उसमें अर्द्धहास नामका राजा राज्य करता था । उसकी र्खीका नाम जिनदत्ता था । दोनों ही पूर्वभवंमें संचित पुण्य-कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे संतुष्ट रहते थे । इस प्रकार दोनोंका मुखरो समय बीत रहा था । किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र भगवान्की अष्टाह्लिका सम्बन्धी महापूजा करनेके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके तिलकभूत पुत्रको प्राप्त करूँ । ऐसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिमें सुखसे सोई । उसी रात्रिको अच्छे व्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक इस प्रकार पाँच स्वप्न देखे । स्वप्न देखनेके बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अवतीर्ण हुआ और नौ माह बीत जानेपर रानीने बलवान् पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर उसका पिता शत्रुओं द्वारा अजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धवोंने उसका नाम अपराजित रक्खा ॥ ४-१० ॥ वह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ साथ यौवन अवस्था तक बढ़ता गया इसलिए देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ॥ ११ ॥ तदनन्तर किसी एक दिन राजाने वनपालके मुखसे सुना कि मनोहर नामके उद्यानमें विमलवाहन नामक तीर्थकर पधारे हुए हैं । सुनते ही वह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ वहाँ गया । वहाँ जाकर उसने बारबार प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प अक्षत आदिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धर्मरूपी अमृतका पान किया । यह सब



तुजेऽपराजिताख्याय इत्वा सप्ताङ्गसम्पदम् । तपोऽग्र्यं समुपादत्त<sup>१</sup> पञ्चभिर्भूभुजां शतैः ॥ १५ ॥  
 कुमारोऽपि गृहीताणुव्रतादिः शुद्धदर्शनः । प्राविशल्लक्षितो लक्ष्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ॥  
<sup>२</sup>तन्त्रावापगतां चिन्तां <sup>३</sup>निधाय निजमन्त्रिषु । सक्तः शास्त्रोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १७ ॥  
 कदाचिन्नजपिप्रामा जिनं विमलवाहनम् । मुक्त्या वशीकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥  
 अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमलवाहनम् । इति प्रतिज्ञयाप्योपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥  
 तदा शक्राज्ञया यक्षपतिविमलवाहनम् । तस्य संदर्शयामास साक्षात्कृत्वा महाशुभम्<sup>४</sup> ॥ २० ॥  
 जैनगोहे समभ्यर्च्य तं सोऽपि कृतवन्दनः । भुङ्क्तेऽस्म स्नेहशोकार्कचैतसां का विचारणा ॥ २१ ॥  
 वसन्तसमयेऽन्येद्युर्नन्दीववरदिनेष्वसौ । जिनचैत्यानि सम्पूज्य तत्संस्तवनपूर्वकम् ॥ २२ ॥  
 तत्र स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विदधत्सुधीः । खाद् वियच्चारणौ साधू प्रापतुस्तस्थतुः पदः ॥ २३ ॥  
 प्राणपत्य तयोर्देवतास्तवावसितौ नृपः । सोपचारं समभ्येत्य श्रुत्वा धर्ममभाषत ॥ २४ ॥  
 भगवन्तावहं पूज्यौ क्वचिप्राग्दृष्टवानिति । ज्येष्ठो मुनिस्वाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षितौ ॥ २५ ॥  
 त्वदर्शनप्रदेशं च वक्ष्यामि शृणु भूपते । पुष्करार्द्धांपराद्वीन्द्रापरभागे महासरित् ॥ २६ ॥  
 तस्याश्चास्त्युचारे भागे गन्धिलो विपयो महान् । तत्खगाद्ग्रन्थेऽन्तरश्रेण्यां सूर्यप्रभपुराधिपः ॥ २७ ॥  
 राजा सूर्यप्रभस्तस्य धारिणी प्राणबल्लभा । तयोश्चिन्तागतियज्येष्ठस्तनुजोऽनुमनोगदिः ॥ २८ ॥  
 ततश्चप्रणाल्याख्यस्त्रिभस्त्रैस्तौ मुदं गतौ । चिरं धर्मार्थकामैर्वा के न तुष्यन्ति सत्सुतैः ॥ २९ ॥

करते ही अकस्मात् उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गई जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सौ राजाओंके साथ ज्येष्ठ तप धारण कर लिया ॥११-१५॥ कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अणुव्रत आदि श्रावकके व्रत ग्रहण किये और फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मीसे युक्त हो अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने मन्त्रियोंपर छोड़ दी और स्वयं शास्त्रोक्त मार्गसे धर्म तथा काममें लीन हो गया ॥ १७ ॥

किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान् गन्धमादन पर्वतपर मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं । यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि मैं श्री विमलवाहन भगवान्के दर्शन किये बिना भोजन नहीं करूँगा । इस प्रतिज्ञासे उसे आठ दिनका उपवास हो गया ॥१८-१९॥ तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यक्षपतिने उस राजाको महान् शुभ रूप श्री विमलवाहन भगवान्का साक्षात्कार कराकर दर्शन कराया । राजा अपराजितने जिन-मन्दिरमें उन विमलवाहन भगवान्की पूजा बन्दना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें तबका विचार कैसे हो सकता है ? ॥ २०-२१ ॥ किसी एक दिन वसन्त ऋतुकी आष्टाह्निकाके समय बुद्धिमान राजा अपराजित जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर उनकी स्तुति कर वहीं पर बैठा हुआ था और धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाशसे दो चारणश्रद्धि धारी मुनिराज आकर वहीं पर विराजमान हो गये । जिनेन्द्र भगवान्की स्तुतिके समाप्त होने पर राजाने बड़ी विनयके साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना और तदनन्तर कहा कि हे पूज्य ! हे भगवन् ! मैंने पहले कभी आपको देखा है । उन दोनों मुनियों-में जो ज्येष्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन् ! ठीक कहते हो, हम दोनोंको आपने देखा है ॥ २२-२५ ॥ परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्थान मैं कहता हूँ सुनो । पुष्करार्द्ध द्वीपके पश्चिम सुमेरु की पश्चिम दिशामें जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गन्धिल नामका महादेश है । उसके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सूर्यप्रभ नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था । उसकी स्त्री का नाम धारिणी था । उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति दूसरा मनोगति और तीसरा चपलगति

१ समुपादत्त ल० । २ तन्त्रवीगतां (?) ल० । ३ निजाय ल० । ४ महाशुभः ल०, ग० ।  
 महाशुभः ल० ।

तस्यामेवोत्तरश्रेण्यामरिन्दमपुरेश्वरान् । अरिञ्जयाख्याद्वजितमेनायामभवन्मुता ॥ ३० ॥  
सती प्रीतिमती मेरुगिरिः सकलखेचरान्<sup>१</sup> । त्रिभ्रान्त्या साऽजयच्चिन्तागतिं मुक्त्वा<sup>३</sup> सविद्यया ॥ ३१ ॥  
जिन्वा चिन्तागतिवेगात्तां पश्चादिति चात्रवीन् । सम्भावय कर्नायांसं मम त्वं रन्नमालया ॥ ३२ ॥  
श्रुततद्वचना साह नाहं जितवनोऽपरैः । मालामिमां क्षिपामिनि स तामित्यश्रवात् पुनः ॥ ३३ ॥  
गतियुद्धं त्वया पूर्वमनुजाभ्यां कृतं मम । अभिलाषात्तन्मया त्वं मया तद्वचनश्रुतः ॥ ३४ ॥  
निर्विण्णा सा निवृत्तार्थिकाभ्यासेऽगात्पः परम् । तद्वाक्ष्य बहवस्तत्र निर्विद्य तपसि स्थिताः ॥ ३५ ॥  
अनुजाभ्यां सभं चिन्तागतिश्चालोक्य साहसम् । कन्याया जातसंवेगो गुरुं दमवराभिधम् ॥ ३६ ॥  
सम्प्राप्य संयमं प्राप्य शुद्धयष्टकमधिष्ठितः । प्रान्ते सामानिकन्तुर्यं कल्पेऽजायत सातुजः ॥ ३७ ॥  
तत्र भोगान्बहून् भुक्त्वा ससाद्यधरमायुषा । वनस्तावनुजां जन्वु द्वीपपूर्वविदेहगे ॥ ३८ ॥  
विषये पुष्कलावन्यां विजयाद्धोतारं तटे । राजा गगनचन्द्रागत्यः पुरं गगनवल्लभे ॥ ३९ ॥  
सुतो गगनमुन्दर्यां तस्यामितमनिस्तनः । आवाममितनेजाश्च जातौ त्रिद्यात्रयान्वितौ ॥ ४० ॥  
अन्येषुः पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूर्वजम् । आवयोः परिपृष्टेन जन्मत्रितयवृषकम्<sup>५</sup> ॥ ४१ ॥  
सर्वं स्वयंप्रभाख्येन तीर्थनाथेन भाषितम् । ततोऽस्मदग्रजः क्लृप्त्यावयोरनुयोजने ॥ ४२ ॥  
भूमौ सिंहपुरे जातो राजते सोऽपराजित- । नाम्ना राज्यं समासाय स्वयमित्यर्हन्तौदितम् ॥ ४३ ॥  
तत्समीपे समादाय संयमं त्वां विलोकितुम् । त्वयि जन्मान्तरस्त्रेहादिहागमनमावयोः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे । धर्म, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माना-पिता सदा प्रसन्न रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम पुत्रोंसे कौन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ? ॥ २६-२८ ॥ उसी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्दमपुर नगरके राजा अरिञ्जय रहते थे उनकी अजितसेना नामकी रानी थी और दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी । उसने अपनी विद्यासे चिन्ता-गतिको छोड़कर समस्त विद्याधरोंको मेरु पर्वतकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें जीत लिया था ॥ ३०-३१ ॥ तत्पश्चात् चिन्तागति उसे अपने वेगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोंकी मालासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागतिके वचन सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि जिसने मुझे जीता है उसके सिवाय दूसरेके गलेमें मैं यह माला नहीं डालूँगी । इसके उत्तरमें चिन्तागतिके कहा कि चूँकि तूने पहले उन्हें प्राप्त करनेके इच्छासे ही मेरे छोटे भाइयोंके साथ गनियुद्ध किया था अतः तू मेरे लिए त्याज्य है । चिन्तागतिके यह वचन सुनते ही वह संसारसे विरक्त हो गई और और उसने विद्युत्ता नामकी आर्थिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया । यह देख वहाँ बहुतसे लोगोंने विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ३२-३५ ॥ कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे चिन्तागतिके भी अपने दोनों छोटे भाइयोंके साथ दमवर नामक गुरुके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आठों शुद्धियोंको पाकर तीनों भाई चौथे स्वर्गमें सामाजिक जातिके देव हुए ॥ ३६-३७ ॥ वहाँ सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त अनेक भोगोंका अनुभव कर च्युत हुए और दोनों छोटे भाइयोंके जीव जन्वुद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्र सम्यन्धी पुष्कला देशमें जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमें गगनवल्लभ नगरके राजा गगनचन्द्र और उनकी रानी गगनसुन्दरीके हम दोनों अमितमति तथा अमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं । हम दोनों ही तीनों प्रकारकी विद्याओंसे युक्त थे ॥ ३८-४० ॥ किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये । वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीर्थ-करसे हम दोनोंने अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पूछा । तब स्वयंप्रभ भगवान्ने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम है, और स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है ॥ ४१-४३ ॥ यह सुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वयं-

१ सकलखेचरात् ल० । २ त्रिभ्रान्त्या (?) ल० । ३ सविद्यया ग०, घ० । ४ निवृत्तार्थिका ल० । ५ पूर्वकम् ग०, घ० । पूर्वजम् ल० ।

पुण्योद्दयोदितान् भोगान् सर्वान् भूयोऽत्र भुक्तवान् । मासप्रमाणजीर्वा त्वं हितमद्य स्मराश्रिति ॥ ४५ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं राजा वन्दित्वा तौ मुनीश्वरौ । युवां जन्मान्तरस्त्रेहाश्रिसङ्गत्वं गतावपि ॥ ४६ ॥  
 उपकारं महान्तं मे कृतवन्तां हिनैपिणौ । इत्याख्यत्स ततः प्रीतौ तौ निजस्थानमीयतुः ॥ ४७ ॥  
 तद्वन्न स महाशोऽपि दत्त्वा राज्यं यथाविधि । प्रीतिङ्करकुमाराय कृत्वाष्टाह्निकपूजनम् ॥ ४८ ॥  
 वन्द्यन् विसर्ज्य प्रायोपगमसंन्यासमुत्तमम् । विधाय षोडशे कलो द्वाविंशत्यब्धिजीवितः ॥ ४९ ॥  
 १सातंकरे विमानेऽभूदच्युतेन्द्रो महद्विकः । दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥ ५० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्यपुराधीशः श्रीचन्द्रस्य महीपते ॥ ५१ ॥  
 श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः सुप्रतिष्ठः सुतोऽभवत् । आपूर्णयौवनस्यास्य सुनन्दासीत् सुखप्रदा ॥ ५२ ॥  
 सुतं योग्यनमं मत्वा श्रीचन्द्रधरणीश्वरः । दत्ताराज्योऽग्रहीद्दीक्षां सुमन्दरयतिं श्रितः ॥ ५३ ॥  
 सुप्रतिष्ठोऽपि तद्ग्राज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठितः । यशोधरमुनेर्दानाद्वापाश्वर्यपञ्चकम् ॥ ५४ ॥  
 अन्तःपुरान्विनोऽन्येद्युः शशाङ्गकरनिर्मलं । रम्ये हर्म्यतले स्थित्वा कुर्वन् दिगवलोकनम् ॥ ५५ ॥  
 उल्कापातनमालोक्य भङ्गुरं भावयन् जगत् । सुदृष्ट्यैर्दृष्टपुत्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ ५६ ॥  
 सुमन्दरजिनाभ्याशे लब्धबोधिरदीक्षित । क्रमेणैकादशाङ्गानां पारगो भावनापरः ॥ ५७ ॥  
 सम्पक्त्वाद्विषु बध्वासौ तीर्थकृत्कर्म निर्मलम् । स्वायुरन्ते समाधाय मासं संन्यासमास्थितः ॥ ५८ ॥  
 अनुचारे जयन्ताख्ये सम्प्रापदहमिन्द्रताम् । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्ततनूच्छ्रितिः ॥ ५९ ॥

प्रभ भगवान्के समीप संयम धारण कर लिया और तुम्हें देखनेके लिए तुम्हारे जन्मान्तरके स्नेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥ ४४ ॥ हे भाई! अब तब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त भोगोंका उपभोग कर चुका है। अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेष रह गई है इसलिए शीघ्र ही आत्म-कल्याणका विचार कर ॥ ४५ ॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों मुनिराजोंकी वन्दना की और कहा कि आप यद्यपि निर्ग्रन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं तो भी जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। यथार्थमें आप ही मेरे दितेच्छु हैं। तदनन्तर उधर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर गये इधर राजा अपराजितने अपना राज्य विधिपूर्वक प्रीतिङ्कर कुमारके लिए दिया, आष्टाह्निक पूजा की, भाइयोंको विदा किया और स्वयं प्रायोपगमन नामका उक्त संन्यास धारण कर लिया। संन्यासके प्रभावसे वह सोलहवें स्वर्गके सातङ्कर नामक विमानमें वाईस सागरकी आयुवाला बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक अच्युतेन्द्र हुआ। वह पुण्यात्मा वहाँके दिव्य भोगोंका चिरकाल तक उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ ॥ ४६-५० ॥ और इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजाङ्गल देशमें हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रतिष्ठ नामका यशस्वी पुत्र हुआ। जब यह पूर्ण युवा हुआ तब सुनन्दा नामकी इसकी सुख देनेवाली स्त्री हुई ॥ ५१-५२ ॥ श्रीचन्द्र राजाने पुत्रको अत्यन्त योग्य समझ कर उसके लिए राज्य दे दिया और स्वयं सुमन्दर नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ५३ ॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक राज्यमें अच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ। एक दिन उसने यशोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे पञ्चाश्वर्यकी प्राप्ति हुई थी ॥ ५४ ॥ किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल सुन्दर राजमहलके ऊपर अन्तःपुरके साथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि उल्कापात पर पड़ी। उसे देखते ही वह संसारको नश्वर समझने लगा। तदनन्तर उसने सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्दर नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली। अनुक्रमसे उसने ग्यारह अङ्गोंका अभ्यास किया और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थङ्कर नामक निर्मल नामकर्मका बन्ध किया। जब आयुका अन्त आया तब समाधि धारण कर एक महीनेका संन्यास लिया जिसके प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया। वहाँ उसकी तैतीस सागरकी

साहोडशमासान्तनिःधासोऽभून्निराकुलम् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राद्दृश्यतांती भोगसम्पदम् ॥ ६० ॥  
 भुञ्जानो निःप्रवाचारं लोकांनार्त्तागतावधिः । बलर्दासिधिकारादिगुणैस्तथेत्रमात्रकः ॥ ६१ ॥  
 एवं देवगतौ दिव्यमुखं मुखमहासुन्दरेः । सम्प्रार जानमन्नुतिः स्थितश्चिरमुखायुग ॥ ६२ ॥  
 यतः परं तदुद्धतेः क्रियते वंशवर्गनम् । द्वीपे जम्दमनि क्षेत्रे भरते वत्सदेशत्रे ॥ ६३ ॥  
 कौशास्यागन्धे भुविग्यातो नगरे भववा नृपः । नडेवी वीनशोकाऽभून्मुनः ग्यातो रघुम्नयोः ॥ ६४ ॥  
 सुमुखो नाम नक्षत्रं जानः श्रेष्ठी महद्विकः । इतः कलिद्रविपथे दुराडन्तपुगह्वयान् ॥ ६५ ॥  
 सार्धेन सममागच्छन्तंरद्वो वगिज्जमुनः । नाम्ना व्याधनयाद्वेय भाप्या वनमालया ॥ ६६ ॥  
 कौशास्यानगरं तत्र सुमुखाग्य समःश्रयन् । वनमालां समालोक्य स श्रेष्ठी वितरन् वने ॥ ६७ ॥  
 'विक्रायसायकैस्तीक्ष्णैः कदाचिच्छरैःकृतः' । मायावी वीररुणं तं पापी वागिज्जहेतुना ॥ ६८ ॥  
 प्राहिणोद् द्वादशाद्वानां द्वा द्वा दुष्कृतैर्विक्राम् । न्याचकार सशोकान् वनमालां दिशोभितान् ॥ ६९ ॥  
 अतिवाह्यागतो वीरज्ञो द्वादश वत्सरान् । तद्विक्रियां समाकृत्ये स्मरन् संसारदुःस्थितिम् ॥ ७० ॥  
 'शोकाकुलः मुनिर्विण्णः श्लागगुण्यो निराश्रयः । वणिग् ससग्रहीर्हादां प्रोष्ठिलाग्यमुनिं श्रितः ॥ ७१ ॥  
 जीवितान्ते स संन्यस्य कल्पे सौधर्मनामनि । जानश्चित्राङ्गदो देवः प्रवाचारमुखाकरः ॥ ७२ ॥  
 स श्रेष्ठी वनमाला च धर्मसिंहतपोभूते । द्वा प्रासुकमाहारं निन्दित्वा निजदुष्कृतम् ॥ ७३ ॥  
 अन्येद्युरशनः पानान्मंप्राप्य मरणं समन् । ३भरते हरिवर्षान्ये देशे भोगपुरेशिनः ॥ ७४ ॥  
 प्रभञ्जनाख्यनृपतेर्भृष्टायाः नगरेरना । हरिवंशेऽजनि श्रेष्ठी सिंहकेतुम्नयोः मुनः ॥ ७५ ॥

आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह साढ़े गोल्दह माहके अन्नगरे एक बार श्वास ग्रहण करना था, बिना किसी आकुलताके जब तेरीम हजार वर्ष कीन जाते थे तब एक बार आहार ग्रहण करना था, उसका मुख प्रवीचार-मै-युनसे रहित था, लोक-नाडीके अन्न तक उसके अर्वाधज्ञानदा विपय था, वहीं तक उसके वल, कान्ति तथा विक्रिया आदि गुण भी थे ॥ ५५-६१ ॥ इम प्रकार वह देव-गतिमें दिव्य मुखका अनुभव करना था, मुख हरी महासागरसे सदा सन्तुष्ट रहता था और मुख-दायी लम्बी आयु तक वहीं विद्यमान रहा था ॥ ६२ ॥

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उपन्न होगा उम वंशका वर्णन क्रिया जाना है । जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक वत्स नामका देश है । उमकी कौशाम्बी नगरीमें अनिशय प्रसिद्ध राजा मघवा राज्य करता था । उसकी महादेवीका नाम वीनशोका था । कालक्रमसे उन दोनोंके रघु नामका पुत्र हुआ ॥ ६३-६४ ॥ उसी नगरमें एक सुमुख नामका बहुत धनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिङ्ग देशके दन्तपुर नामक नगरमें वीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोके डरके कारण अपने साथियों तथा वनमाला नामकी स्त्रीके साथ कौशाम्बी नगरीमें आया और वहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा । किसी दिन सुमुख सेठ वनमें घूम रहा था कि उसकी दृष्टि वनमाला पर पड़ी । उसे देखते ही काम-देवने उसे अपने वाणोंका मानो तरकश बना लिया—वह कामदेवके वाणोंसे घायल हो गया । तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने वीरदत्तको तो बहुत भारी आजीविका देकर बारह वर्षके लिए व्यापारके हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं लुभाई हुई वनमालाको अपकीतिके साथ स्वीकृत कर लिया—अपनी स्त्री बना लिया ॥ ६५-६६ ॥ बारह वर्ष विता कर जब वीरदत्त वापिस आया तब वनमालाके विकारको मुन संसारकी दुःखमय स्थितिका विचार करने लगा । अन्नमें शोकसे आकुल, पुण्यहीन, आश्रयरहित, वीरदत्तने विरक्त होकर प्रोष्ठिल मुनिके पास जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥ ७०-७१ ॥ आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें प्रवीचारकी खान स्वरूप चित्राङ्गद नामका देव हुआ ॥ ७२ ॥ इधर सुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्मसिंह नामक मुनिराजके लिए प्रासुक आहार देकर अपने पापकी निन्दा की ॥ ७३ ॥ दूसरे ही दिन वज्रके गिरनेसे उन दोनोंकी साथ ही साथ मृत्यु हो गई । उनमेंसे सुमुखका जीव तो भरत क्षेत्रके हरिवर्ष

१वस्वालयपुराधीशो वज्रचापमहीपतेः । तत्रैवासौ सुभामाश्च वनमालानुरुपिणी ॥ ७६ ॥  
 विद्युन्मालेति भूत्वा तुक् विद्युदुद्योतहासिनी । २आपूर्णयौवनस्यासीत्सिंहकेतोः रतिप्रदा ॥ ७७ ॥  
 जातु तौ दम्पती दृष्ट्वा देवे विहरणे वने । चित्राङ्गदे समुद्धृत्य हनिष्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥  
 रघुः पुरातनो भूपः सुमुखस्य सखा प्रियः । अणुव्रतफलेनाभूत्कल्पे सौधर्मनामनि ॥ ७९ ॥  
 बर्षः सूर्यप्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा । शृणु मद्बचनं भद्र फलं किं तेऽनयोः मृतौ ॥ ८० ॥  
 पापातुबन्धि कर्मदमयुक्तं युक्तिकारिणाम् । संसारद्रुमदुःखाभिधानं दुःखफलप्रदम् ॥ ८१ ॥  
 ततो मिथुनमेतत्त्वं विसृज्येत्यभ्यधानमुहुः । श्रुत्वा तज्जातकारुण्यस्तदमुच्चदसौ सुरः ॥ ८२ ॥  
 तौ सम्बोध्य समाश्वास्य तयोश्चम्पापुरे वने । सुखासिं भाविनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजो न्यसर्जयत् ॥ ८३ ॥  
 तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीतिनाममहीभुजि । विपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसन्ततिसंस्थितेः ॥ ८४ ॥  
 सपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं वारणं शुभलक्षणम् । गन्धादिभिः समभ्यर्च्यामुच्चस्सन्मन्त्रिमण्डलम् ॥ ८५ ॥  
 सोऽपि दिव्यो गजो गत्वा वनं पुण्यविपाकतः । तावुद्धृत्य निजस्कन्धमारोप्य पुरमागमत् ॥ ८६ ॥  
 सिंहकेतोविधायाभिषेकं मन्थ्यादयस्तदा । राज्यासनं क्षमारोप्य बद्ध्वा पट्टं ३ससम्मदाः ॥ ८७ ॥  
 त्वं कस्यान्नागतः कस्मादित्याहुः सोऽब्रवीदिदम् । प्रभञ्जनः पिता माता मृकण्डू मण्डिता गुणैः ॥ ८८ ॥  
 हरिवंशामलन्योमसोमोऽहमिह केनचित् । सुरेणानीय मुक्तः सन्न सह पत्न्या वने स्थितः ॥ ८९ ॥  
 इति तद्बचनं श्रुत्वा मृकण्डूवास्तनयो यतः । मार्कण्डेयस्तु नाम्नैष इति ते तमुदाहरन् ॥ ९० ॥  
 एष देवोपनीतं तद्राज्यं सुचिरमन्वभूत् । सन्ताने तस्य गिर्यन्तो हरिर्हिमगिरिः परः ॥ ९१ ॥

नामक देशमें भोगपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभञ्जनकी मृकण्डू नामकी रानीसे सिंहकेतु नामका पुत्र हुआ और वनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा वज्रचाप की सुभा नामकी रानीसे बिजलीकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाली विद्युन्माला नामकी पुत्री हुई जो सिंहकेतुके पूर्ण यौवन होनेपर उसकी स्त्री हुई ॥ ७४-७७ ॥ किसी दिन वन-विहार करते समय चित्राङ्गद देवने उन दोनों दम्पतियोंको देखा और 'मैं इन्हें मारूँगा' ऐसे विचारसे वह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥ ७८ ॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राजा रघु अणुव्रतोंके फलसे सौधर्म स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था । वह उस समय चित्राङ्गदको देखकर कहने लगा कि 'हे भद्र ! मेरे वचन सुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुझे क्या फल मिलेगा ? यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूर्वक काम करनेवालोंके अयोग्य है, संसार रूप वृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है । इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे' इस प्रकार उसने बार बार कहा । उसे सुनकर चित्राङ्गदको भी दया आ गई और उसने उन दोनोंको छोड़ दिया । तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पतियोंको संबोध कर आश्वासन दिया और आगे होनेवाले सुखकी प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके वनमें छोड़ दिया ॥ ७९-८३ ॥ दैव योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीर्ति विना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा ठीक ठीक चलानेके लिए सुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको ढूँढ़नेके अर्थ किसी शुभ लक्षणवाले हाथीको गन्ध आदिसे पूजा कर छोड़ा था ॥ ८४-८५ ॥ वह दिव्य हाथी भी वनमें गया और पुण्योदयसे उन दोनों—सिंहकेतु और विद्युन्मालाको अपने कंधे पर बैठा कर नगरमें वापिस आ गया ॥ ८६ ॥ प्रसन्नतासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक किया, राज्यासन पर बैठाया और पट्ट बाँधा ॥ ८७ ॥ तदनन्तर उन लोगोंने पूछा कि आप किसके पुत्र हैं और यहाँ कहाँसे आये हैं ? उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि 'मेरे पिताका नाम प्रभञ्जन है और माताका नाम गुणोंसे मण्डित मृकण्डू है । मैं हरिवंश रूपी निर्मल आकाशका चन्द्रमा हूँ, कोई एक देव मुझे पत्नी सहित लाकर यहाँ वनमें छोड़ गया है, मैं अब तक वनमें ही स्थित था' ॥ ८८-८९ ॥ सिंहकेतुके वचन सुनकर लोग चूँकि यह मृकण्डूका पुत्र है इसलिए उसका माकण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे ॥ ९० ॥ इस प्रकार वह माकण्डेय, दैवयोगसे

नृनीयो वसुगियांग्यः परेऽपि बहवो गताः । नदा कुशार्थविषये तद्वंशाम्बरभास्वतः ॥ ९२ ॥  
 भवार्थनिजगौर्भेण निजिनाशेषविद्रिपः । ग्यानार्थीयपुरार्थीशमूरसेनमहीपतेः ॥ ९३ ॥  
 सुनम्य शूरवीरस्य धारिण्याश्च ननुद्भवा । विख्यानांऽन्धकवृष्टिश्च पनिर्द्धृष्टिनरादिवाक् ॥ ९४ ॥  
 धर्मा<sup>१</sup>वान्धकवृष्टेश्च मुभद्रायाश्च नुग्वराः । समुद्रविजयंऽक्षोभ्यन्तनः स्निमितसागरः ॥ ९५ ॥  
 हिमवान् विजयो विद्वानचलो धारगाह्वयः । पूरगः परिनार्थीच्छो नवमोऽप्यभिनन्दनः ॥ ९६ ॥  
 वसुदेवोऽस्मिन्मश्वेवं दशाभूवन् षशिप्रभाः । कुर्त्ता माद्रो च<sup>२</sup> सोमे जा मुने प्रादुर्बभूवतुः ॥ ९७ ॥  
 समुद्रविजयार्दीनां नवानां मुरतप्रदाः । शिवदेव्यनु तस्य धृतीश्वराथ<sup>३</sup> स्वयम्प्रभा ॥ ९८ ॥  
 मुनीताख्या च जीता च प्रियावाक् च प्रभावती । कालिङ्गी सुप्रभा धेति बभूवुर्भुवनोत्तमाः ॥ ९९ ॥  
 पद्मावत्या द्वितीयस्य वृष्टेश्च तनयान्प्रयः । उग्रदेवमहाद्युक्तिमेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥ १०० ॥  
 गान्धारी च मुता प्रादुरभवन् शुभदायिनः । अथ कौरवसुग्यस्य हस्तिनाग्यपुरेशिनः ॥ १०१ ॥  
 षक्तिनाममहाशस्य<sup>४</sup> शतक्याश्च पराशरः । तस्य मन्थकुलोत्पन्नराजपुत्र्यां सुतोऽभवत् ॥ १०२ ॥  
 सत्यवत्यां सुर्ध्यांस्तः पुनर्व्याममुभद्रयोः । धृतराष्ट्रो महान् पाण्डुविदुरश्च सुताख्यः ॥ १०३ ॥  
 अथात्रैत्य विहारार्थं कदाचिद्ब्रह्मालिनि । नभोयायिनि विस्मृत्य गने हस्नाङ्गुलीयकम् ॥ १०४ ॥  
 विलोक्य पाण्डुभूपालो गहने तन्ममग्रहान् । स्पृष्ट्वा स्वर्गं विवृण्वैत्य मुद्रिकां तामिनस्तनः १०५ ॥  
 अन्विच्छन्तं विलोक्याह पाण्डुः किं मृगयते त्वया । इति तद्वचनं श्रुत्वा विद्याधृन्मम मुद्रिका ॥ १०६ ॥  
 विनष्टेभ्यवदन्स्य पाण्डुश्चैतामदगंथत् । पुनः किमनया कृत्यमिति तस्यानुयोजनान् ॥ १०७ ॥

प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करना रहा । उसीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि तथा वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए । उन्हींमें कुशार्थ देशके शौर्यपुर नगरका स्वामी राजा शूरसेन हुआ जो कि हरिवंश रूपी आकाशका सूर्य था और अपनी शूरवीरतासे जिसने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था । राजा शूरसेनके वीर नामका एक पुत्र था उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था । इन दोनोंके अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि नामके दो पुत्र हुए ॥ ९१-९४ ॥ अन्धकवृष्टिकी रानीका नाम मुभद्रा था । उन दोनोंके धर्मके समान गम्भीर समुद्रविजय १, स्निमितसागर २, हिमवान् ३, विजय ४, विद्वान् अचल ५, धारण ६, पूरण ७, परिनार्थीच्छ ८, अभिनन्दन ९ और वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दश पुत्र हुए तथा चन्द्रिकाके समान कान्तिवाली कुर्त्ता और माद्रो नामकी दो पुत्रियाँ हुई ॥ ९५-९७ ॥ समुद्रविजय आदि पहलेके नौ पुत्रोंके क्रमसे संभोग मुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, धृतीश्वरा, स्वयम्प्रभा, मुनीता, मीता, प्रियावाक्, प्रभावती, कालिङ्गी और सुप्रभा नामकी संसारमें सबसे उत्तम स्त्रियाँ थीं ॥ ९८-९९ ॥ राजा शूरवीरके द्वितीय पुत्र नरवृष्टिकी रानीका नाम पद्मावती था और उससे उनके उग्रसेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १०० ॥ इनके सिवाय एक गन्धारी नामकी पुत्री भी हुई । ये सब पुत्र-पुत्रियाँ अत्यन्त सुख देनेवाले थे । इधर हस्तिनापुर नगरमें कौरव वंशी राजा शक्ति राज्य करना था । उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ । उस पराशरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसे बुद्धिमान् व्यास नामका पुत्र हुआ । व्यामकी स्त्रीका नाम मुभद्रा था इसलिए तदनन्तर उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥ १०१-१०३ ॥

अथानन्तर—किसी एक समय वज्रमाली नामका विद्याधर क्रीड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके वनमें आया था । वह वहाँ अपने हाथकी अंगूठी भूलकर चला गया । इधर राजा पाण्डु भी उसी वनमें घूम रहे थे । इन्हें वह अंगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली । जब उस विद्याधरको अंगूठीका स्मरण आया तब वह लौटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ वहाँ उसकी खोज करने लगा । उसे ऐसा करते देख पाण्डुने कहा कि आप क्या खोज रहे हैं ? पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी

१ धर्मा इव । २ चन्द्रिके इव । ३ धृतिश्वराथ ख०, ग० । धृतीश्वरा ख० । ४ शतक्याश्च ग०, घ०, म० । शतक्याश्च ख० ।

भद्रैषा कामरूपस्य साधनीत्यब्रवीत्स्वगः । तद्येवं कानिचिद् भ्रातर्दिनान्येषास्तु मत्करे ॥ १०८ ॥  
 प्रभावमस्याः पद्मयामीत्यथितस्तेन सोऽप्यदात् । पाण्डुश्च तत्कृतादृश्यनिजरूपेण सङ्गमम् ॥ १०९ ॥  
 कुन्त्या सहाकृतोत्पन्नस्तत्र कर्णाङ्गयः सुतः । ततः परैरविदितं मञ्जूषाख्यं सकुण्डलम् ॥ ११० ॥  
 सरत्नकवचं लेख्यपत्रकेण सहार्भकम् । कुन्तीपरिजनः कालिङ्गयाः प्रवाहे मुमोच तम् ॥ १११ ॥  
 चम्पापुरेश्वरो धान्तीमानाख्यादित्यनामकः । बालभानुमिवान्तस्थं बालकं स सविस्मयः ॥ ११२ ॥  
 पद्मयन् स्वदेव्यै<sup>१</sup> राधायै तोकः स्यादिति भाववित् । दत्त्वा सकृद्विलोक्येनं राधाकर्णपरिस्पृशम् ॥ ११३ ॥  
 भस्तु कर्णाभिधानोऽयमिति सादरमब्रवीत् । पाण्डोः कुन्त्या च मद्रथा च पाणिग्रहणपूर्वकम् ॥ ११४ ॥  
 प्राजापत्येन सम्बन्धो विवाहेनाभवत्पुनः । कुन्त्यामजनि धर्मिष्ठो धर्मपुत्रो<sup>३</sup> धराधिपः ॥ ११५ ॥  
 भीमसेनोऽनुपार्थश्च त्रयो वर्गत्रयोपमाः । माद्र्यां च नकुलो ज्येष्ठः सहदेवस्ततोऽन्वभूत् ॥ ११६ ॥  
 धृतराष्ट्राय गान्धारी दत्ता दुर्योधनोऽजनि । तयोर्दुःशासनः पश्चादथ दुर्धर्षणस्ततः ॥ ११७ ॥  
 दुर्मर्षणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं महौजसः । एवं सुखेन सर्वेषां कालो गच्छति लीलया ॥ ११८ ॥  
 अन्येषुः सुप्रतिष्ठाख्यो मुनीन्द्रो गन्धमादने । गिरौ सन्निहितः शूरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥ ११९ ॥  
 पुत्रपौत्रादिभिः सार्द्धं गत्वाभ्यर्च्याभिनुत्य तम् । श्रुत्वा धर्मं तदुद्दिष्टं स संवेगपरायणः ॥ १२० ॥  
 कृत्वाभिषेचनं दत्त्वा राज्यमन्धकवृष्टये । योग्याऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥ १२१ ॥  
 संयमं स्वयमादाय तपांस्युच्चैः समाचरन् । गतेषु द्वादशाब्देषु पर्वते गन्धमादने ॥ १२२ ॥  
 प्रतिमायोगमालम्ब्य सुप्रतिष्ठस्य तिष्ठतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्रवं क्रुधा ॥ १२३ ॥

अंगूठी गिर गई है । इसके उत्तरमें पाण्डुने उसे अंगूठी दिखा दी । पश्चात् पाण्डुने उस विद्याधरसे पूछा कि इससे क्या काम होता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि हे भद्र ! यह अंगूठी इच्छानुसार रूप बनानेवाली है । यह सुन कर पाण्डुने प्रार्थना की कि हे भाई ! यदि ऐसा है तो यह अंगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, मैं इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डुकी इस प्रार्थना पर उस विद्याधरने वह अंगूठी उन्हें दे दी । पाण्डुने उस अंगूठीके द्वारा किये अपने अदृश्य रूपसे कुन्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । कुन्तीके परिजनोंने दूसरोंको विदित न होने पावे इस तरह छिपा कर उस बालकको एक सन्दूककीमें रक्खा, उसे कुण्डल तथा रत्नोंका कवच पहिनाया और एक परिचायक पत्र साथ रखकर यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥ १०४-१११ ॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई सन्दूककीको भँगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान बालकको देखकर वह विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो जायगा । यह विचार कर उसने वह पुत्र राधाके लिए दे दिया । राधाने जब उस पुत्रको देखा तब वह अपने कर्ण—कानका स्पर्श कर रहा था इसलिए उसने बड़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया । यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती और माद्रीके साथ पाणिग्रहणपूर्वक प्राजापत्य विवाहसे सम्बन्ध हो गया । कुन्तीके धर्मपुत्र—युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ फिर क्रमसे भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुए । उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गके समान जान पड़ते थे । इसी प्रकार माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकुल उत्पन्न हुआ था ॥ ११२-११६ ॥ धृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गई थी अतः उन दोनोंके सर्व प्रथम दुर्योधन उत्पन्न हुआ । उसके पश्चात् दुःशासन, दुर्धर्षण तथा दुर्मर्षण आदि उत्पन्न हुए । ये सब महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सबका काल लीला पूर्वक सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ ११७-११८ ॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक पर्वत पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए । राजा शूरवीर अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ उनकी वन्दनाके लिए गया । वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की और उनके द्वारा कहा हुआ धर्मका उपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने अभिषेक कर अन्धकवृष्टिके लिए राज्य दे दिया और 'यह योग्य है' ऐसा समझकर छोटे पुत्र नर-वृष्टिके लिए युवराज पद दे दिया । तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने

उपसर्गं विजिन्याम्य सोढ्वाऽर्गपरंपरान् । ध्यानेनाहन्य धार्तानि प्रादुरासति स केवली ॥ १२४ ॥  
 देवैरन्धकवृष्टिश्च सह पूजार्थमागतः । अपृच्छदेवं देवार्यं देवमने केव हेतुना ॥ १२५ ॥  
 महोपसर्गं पृथग्य कृन्वानिति विस्मयान् । तदुक्थवसिनौ व्यथां जिनेन्द्रोऽप्येवमब्रवीत् ॥ १२६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे कलिङ्गविषये पुरे । काञ्च्यां वणिक्मुतः सूरदत्तोऽन्यश्च सुदशवाक् ॥ १२७ ॥  
 लङ्काद्वीपादिषु स्वैरं ममावर्त्य निजं धनम् । पुरोऽन्यक्षिपतां गृहं प्रवेशे शुल्कभीलुकौ ॥ १२८ ॥  
 मूले क्षुपविशेषस्यानभिज्ञानमथोऽन्यदा । कश्चिन्मद्यप्रयोगार्थं वने तथोग्यभूरहाम् ॥ १२९ ॥  
 मूलान्युत्वन्य सङ्गृह्यन् विलोक्य बहु तद्वनम् । किमनेन सुधा मूलम्वननेनाल्पहेतुना ॥ १३० ॥  
 सुप्रभूतमिदं लब्धं धनं दारिद्र्यविद्वनिम् । विदधान्यामृतेभोगैरित्यादाय गतमनः ॥ १३१ ॥  
 तदागम्य वणिक्पुत्रां तन्प्रदेशे निजं धनम् । अनिराद्य सृतां हत्या श्रद्धधानौ परस्परम् ॥ १३२ ॥  
 बद्ध्वायुः क्रोधलोभाभ्यामाद्यं नरकर्मायतुः । तत्र दुःखं चिरं भुक्त्वा ततो विन्ध्याद्रिकन्दरे ॥ १३३ ॥  
 जातौ मेपां पुनस्तत्राप्यन्यान्यवधकारिणौ । गोकुले वृषभौ जातौ गङ्गानटनिवासिनि ॥ १३४ ॥  
 तत्र जन्मान्तरद्वेषात् कृतयुद्धौ गतामुकौ । सम्मेदपर्वते जातौ वानरा वा नरौ धिया ॥ १३५ ॥  
 शिलासलिलहेतोस्तौ कलहं खलु चक्रतुः । मृतस्तयोः सपद्येकः परः कण्ठगतामुकः ॥ १३६ ॥  
 सुरदेवादिगुर्वन्तचारणाभ्यां समुत्सुकः । श्रुत्वा पञ्चनमस्कारं धर्मश्रुतिपुरस्सरम् ॥ १३७ ॥

लगा । अनुक्रमसे चारह वर्ष बीत जानेपर वही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उर्मी गन्धमादन पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय सुदर्शन नामके देवने क्रोधवश कुछ उपसर्ग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गको जीतकर तथा समस्त परिषद्को सह कर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोका क्षय करते हुए केवलज्ञानी हो गये ॥ ११६-१२४ ॥ उस समय सब देवोंके साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था । वहाँ उसने आश्चर्यसे पूछा कि हे देव ! इस देवने पूजनीय आपके ऊपर यह महान् उपसर्ग किस कारण किया है ? अन्धकवृष्टिके ऐसा कह चुकने पर जिनेन्द्र भगवान् सुप्रतिष्ठ केवली इस प्रकार कहने लगे—

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कलिङ्ग देशके काञ्चीपुर नगरमें सूरदत्त और सुदत्त नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे ॥ १२५-१२७ ॥ उन दोनोंने लङ्का आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छालुसार बहुत-सा धन कमाया और लौटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय लगा कि इस धन पर टैक्स देना पड़ेगा । इस भयसे उन्होंने वह धन नगरके बाहर ही किसी भाड़ीके नीचे गाड़ दिया और कुछ पहिचानके लिए चिह्न भी कर दिये । दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा । खोदते समय उसे वह भारी धन मिल गया । धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है ऐसे इन वृक्षोंकी जड़ोंके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुझे अब बहुत भारी धन मिल गया है यह मेरी सब दरिद्रताको दूर भगा देगा । मैं मरण पर्यन्त इस धनसे भोगोंका सेवन करूँगा, ऐसा विचार वह सब धन लेकर चला गया ॥ १२८-१३१ ॥ दूसरे दिन जब वैश्यपुत्र उस स्थान पर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर एक दूसरे पर धन लेनेका विश्वास करते हुए लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरेको मारते हुए मर गये । वे क्रोध और लोभके कारण नरकायुका बन्धक पहले नरकमें जा पहुँचे । चिरकाल तक वहाँके दुःख भागनेके बाद वहाँसे निकले और विन्ध्याचलकी गुफामें मेढ़ा हुए । वहाँ भी परस्पर एक दूसरेका वध कर वे गङ्गा नदीके किनारे बसनेवाले गोकुलमें बँधे हुए । वहाँ भी जन्मान्तरके द्वेषके कारण दोनों युद्ध कर मरे और सम्मेदपर्वत पर बुद्धिसे मनुष्योंकी समानता करनेवाले वानर हुए ॥ १३२-१३५ ॥ वहाँ पर भी पत्थरसे निकलनेवाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे । उनमेंसे एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वहाँ सुरगुरु और देवगुरु नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज आ पहुँचे । उन्होंने उसे पञ्चनमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे उसने बड़ी उत्सुकतासे सुना और धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधर्म स्वर्गमें



सौधर्मकल्पे चित्राङ्गदाख्यां देवोऽजनिष्ठ सः । ततो निर्गत्य जम्बूवादिद्वीपे भरतमध्यगं ॥ १३८ ॥  
 सुरम्यविषये पादनेशः सुस्थितभूपतेः । सुलक्षणायां पुत्रोऽभूत्सुप्रतिष्ठावरिष्ठर्थाः ॥ १३९ ॥  
 कदाचिद्व्यावृडास्मभं गिरावसितनामनि । युद्धं मर्कटयोर्वीक्ष्य स्मृतप्राग्जन्मचेष्टितः ॥ १४० ॥  
 सुधर्माचार्यमासाद्य दीक्षित्वाऽभवद्दीदृशः । सूरदत्तचरः सोऽहं सुदत्तोऽप्यनुजो भवे ॥ १४१ ॥  
 भ्रान्तवान्ते सिन्धुतीरस्थमृगायणतपस्विनः । विशालायाश्च तोकोऽभूद्गोतमाख्यः कुदर्शनात् ॥ १४२ ॥  
 तपः पञ्चाग्निमध्येऽसौ विधाय ज्योतिषां गणैः । देवः सुदर्शनो नाम्ना भूत्वा प्राग्जन्मवैरतः ॥ १४३ ॥  
 ममायमकरोदीहगिति तद्वाक्यमादरात् । श्रुत्वा सुदर्शनो मुक्तवैरः सद्धर्ममग्रहीत् ॥ १४४ ॥  
 अथातोऽन्धकवृष्टिश्च श्रुत्वा मुक्तलयन्करौ । स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृच्छजिनपुङ्गवम् ॥ १४५ ॥  
 वीतरागोऽपि 'सोऽप्याह तत्पृष्टं शिष्टगीर्गुणः । निर्निमित्ताहिताख्यानं नाम तेषु निसर्गाजम् ॥ १४६ ॥  
 द्वापेऽत्रैव विनीतायां नरेन्द्रोऽनन्तवीर्यवाक् । सुरेन्द्रदत्तस्तत्रैव वैश्यो वैश्रवणोपमः ॥ १४७ ॥  
 दशभिन्नित्यपूजायामप्यस्यां द्विगुणैस्ततः । चतुर्गुणैरभावस्यायां पर्वण्यष्टभिर्गुणैः ॥ १४८ ॥  
 दीनारैरर्हतां पूजां करोति विहितन्यथैः । सहितः पात्रदानेन सशीलः सोपवासकः ॥ १४९ ॥  
 धर्मशील इति ख्यातिं स समापापपापकः । गन्तुं वारिपथं वाञ्छन्नन्येद्युर्वणिजां वरः ॥ १५० ॥  
 द्वादशाब्दैः समावर्त्य धनमागन्तुकः परम् । जिनपूजाव्ययायार्थं द्वादशाब्दनिबन्धनम् ॥ १५१ ॥  
 मित्रस्य रुद्रदत्तस्य ब्राह्मणस्य करे न्यघात् । अनेन जिनपूजादिं कुर्वहं वा त्वमित्यसौ ॥ १५२ ॥

चित्राङ्गद नामका देव हुआ । वहाँसे निकल कर वह उसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदनपुर नगरके स्वामी राजा सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उल्लूक बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥ १३६-१३६ ॥ किसी एक समय वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें उसने असित नामके पर्वत पर दो वानरोंका युद्ध देखा । जिससे उसे अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेष्टाओंका स्मरण हो गया ॥ १४० ॥ उसी समय उसने सुधर्माचार्यके पास जाकर दीक्षा ले ली । वही सूरदत्तका जीव मैं यह सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ । मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें भ्रमण करता हुआ अन्तमें सिन्धु नदीके किनारे रहनेवाले मृगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामकी स्त्रीसे गोतम नामका पुत्र हुआ । मिथ्यादर्शनके प्रभावसे वह पञ्चाग्नियोंके मध्यमें तपश्चरण कर सुदर्शन नामका ज्योतिष्क देव हुआ है । पूर्व भवके वैरके कारण ही इसने मुझ पर यह उपसर्ग किया है । सुदर्शन देवने इन सुप्रतिष्ठ केवलीके वचन वड़े आदरसे सुने और सब वैर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत किया ॥ १४१-१४४ ॥ तदनन्तर राजा अन्धकवृष्टिने यह सब सुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भवका सम्बन्ध पूछा ॥ १४५ ॥ शिष्ट वचन बोलना ही जिनकी वाणीका विशेष गुण है ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान् कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि बिना किसी निमित्तके हितकी बात कहना उन जैसोंका स्वाभाविक गुण है ॥ १४६ ॥

वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीर्य नामका राजा रहता था । उसी नगरीमें कुबेरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था । वह सेठ प्रतिदिन दश दीनारोंसे, अष्टमीको सोलह दीनारोंसे, अमावसको चालीस दीनारोंसे और चतुर्दशीको अस्सी दीनारोंसे अर्हन्त भगवान्की पूजा करता था । वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था, शील पालन करता था और उपवास करता था । इन्हीं सब कारणोंसे पापरहित उस सेठने 'धर्मशील' इस तरहकी प्रसिद्धि प्राप्त की थी । किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे जाकर धन कमानेकी इच्छा की । उसने बारह वर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इसलिए बारह वर्ष तक भगवान्की पूजा करनेके लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मणके हाथमें सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कार्य करते रहना क्योंकि आप मेरे ही समान हैं ॥ १४७-१५२ ॥

तन्मिन् गते स विप्रोऽपि स्त्रीद्युतव्यमनादिभिः । धनं कर्तपयैरेव दिनेव्यंयमनानयन् ॥ १५३ ॥  
 नतश्चौर्यादिदुष्कर्मसक्तं नलवरो द्विजम् । श्येनकाभ्यां भ्रमन् दृष्ट्वा रात्रौ त्वो हन्म्यहं नतिः ॥ १५४ ॥  
 द्विजाभ्याधारिणं याहि नगराद् द्रक्ष्यसे यदि । पुनः कृतान्तवक्त्रं त्वं नेप्यसे दुष्क्रियो मया ॥ १५५ ॥  
 १ इत्यन्यत्र जयन्मोऽपि कालकाव्येन पापिना । मममुक्तासुर्वाभ्याधनिवासपतिनागमन ॥ १५६ ॥  
 स कदाचिदयोभ्यायां गोकुलापह्नौ द्विजः । श्येनकेन हनोऽयार्मान्महापापाद्योगनिम्न ॥ १५७ ॥  
 ततश्च्युत्वा महामन्थो हरिर्दृष्टिविगोरगः । शार्दूलो पश्चिगार्माशो ३ व्यालः व्याधश्च स्रग्वन् ॥ १५८ ॥  
 प्रविश्याधोगर्ताः सर्वाः कृच्छ्रानाभ्यो विनिर्गतः । त्रसन्धावग्नावेन चिरकालं परिभ्रमन् ॥ १५९ ॥  
 जम्बूपलक्षिते द्वीपे भरते कुरुजाङ्गले । हाम्निनारयं पुरं पति वरार्थाद्ये धनञ्जये ॥ १६० ॥  
 सुतो गान्तमपुत्रस्य सम्बभूव द्विजान्मजः । ३ कपिष्ठलस्य निःश्राकः मांऽनुन्धयाश्च गान्तमः ॥ १६१ ॥  
 तत्समुत्पत्तिमात्रेण तच्छेषमभवत्कुलम् । अलन्धान्नः कुरुजाभुनञ्जटः प्रकटाम्बिहः ॥ १६२ ॥  
 ४ सिरावनद्धदुष्कायां यूकञ्चिनगिरोरुहः १ । शयानश्चैव सर्वैश्च नञितो यत्र तत्र वा ॥ १६३ ॥  
 कराप्रकर्षरणोपलक्ष्यमागोऽनपायिना । सुमित्रेणैव सर्वत्र शरीरम्यनिहेतुना ॥ १६४ ॥  
 वाञ्छितेन रसेनेव देहीनि वचसा तदा । लोलुपो निवृत्तिं प्राप्नुं भिक्षामात्रेण दुर्विधः ॥ १६५ ॥  
 काकवत्पर्वसु भ्रान्तः पश्यन् बलिं विसर्जनम् । अनाश्वानिव शानोऽप्यवनवाधाः सहन् मुहुः ॥ १६६ ॥

सेठके चले जाने पर रुद्रदत्त ब्राह्मणने वह नमस्त धन परस्त्रीसेवन तथा जुआ आदि व्यमनोंके द्वारा कुछ ही दिनोंमें खर्च कर डाला ॥ १५३ ॥ तदनन्तर वह चोरी आदिमें आमक्त हो गया । श्येनक नामक कानवालने उसे चोरी करने हुय एक रातने देव लिया । देवकर कानवालने कहा कि चूँकि तू ब्राह्मण नामको धारण करता है अतः मैं तुझे मारना नहीं हूँ, तू इम नगरमें चला जा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अथर्व ही मेरे द्वारा यमराजके मुखमें भेज दिया जायगा—मारा जायगा ॥ १५४-१५५ ॥ यह कहकर कानवालने उसे डाँटा । रुद्रदत्त भी, वहाँसे निकल कर उल्कासुर्वा पर रहनेवाले भीलोंके स्वामीपापी कानकमे जा मिला ॥ १५६ ॥ वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करनेके लिए आया था उसी समय श्येनक कानवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापके कारण अधोगतिमें गया ॥ १५७ ॥ वहाँसे निकल कर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर सिंह हुआ, फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिविष नामका सर्प हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर शार्दूल हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर गरुड़ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर सर्प हुआ फिर नरक गया और वहाँसे आकर भील हुआ । इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर वहाँसे बड़े कष्टले निकला और त्रस स्थावर योनियोंमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा ॥ १५८-१५९ ॥ अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमें जब राजा धनञ्जय राज्य करते थे तब गान्तम गोत्री कपिष्ठल नामक ब्राह्मणकी अनुन्धरी नामकी स्त्रीसे वह रुद्रदत्तका जीव गान्तम नामका महादरिद्र पुत्र हुआ । उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया । उसे खानेके लिए अन्न नहीं मिलता था, उसका पेट सूख गया था, हड्डियाँ निकल आई थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था, उसके बाल जुओंसे भरे थे, वह जहाँ कहीं सोता था वहाँ लोग उसे फटकार वतलाते थे, वह अपने शरीरकी स्थितिके लिए कभी अलग नहीं होनेवाले श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके अग्रभागमें खप्पर लिये रहता था ॥ १६०-१६४ ॥ वाञ्छित रसके समान वह सदा 'देओ देओ' ऐसे शब्दोंसे केवल भिक्षाके द्वारा सन्तोष प्राप्त करनेका लोलुप रहता था परन्तु इतना अभाग था कि भिक्षासे कभी उसका पेट नहीं भरता था । जिस प्रकार पर्वके दिनोंमें कौआ बलिको ढूँढनेके लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी भिक्षाके लिए इधर-उधर भटकता रहता था । वह

१ इत्यतर्जयत् ल० । २ व्यालकाधश्च ल० । ३ कपिष्ठस्य ल० । ४ क्षमावनद ल० । ५ तनूरुहः ल० ।  
 ६ बलिविमञ्जनम् ल० । ७ वाताः वाधाः ल० (१) ।

मलधारी परिश्रुतशेषेन्द्रियविजम्भणः । जिह्वाविषयमेवेच्छन् दण्डधारीव भूपतिः ॥ १६७ ॥  
 तमस्तमःप्रजातानां रूपमीदृग्भवेदिति । वेधसेव स्फुटीकर्तुमिहस्थानां विनिमित्तः ॥ १६८ ॥  
 दधन्नापमर्षावर्णमर्कभील्यः तमश्चयः । नररूपधरो वातिजुगुप्स्यः पापभाक् क्वचित् ॥ १६९ ॥  
 आकण्ठपूर्णहारोऽपि नयनाभ्यामनुस्रवान् । परिवीतकटिर्जीर्णछिद्रिताशुभकर्पटैः ॥ १७० ॥  
 व्रणवैगन्ध्यसंसक्तमक्षिकौघैरितस्ततः । क्रुद्धयच्छववदावेष्ट्यो मुखरैरनपायिभिः ॥ १७१ ॥  
 पौरबालकसङ्घातैरनुयातैरनुक्षणम् । उपलादिप्रहारेण ताड्यमानः प्रकोपवान् ॥ १७२ ॥  
 अनुधावन्पतन्नेव दुःखैः कालमजीगमत् । कदाचिल्लब्धकालादिरनुयातो महामुनिम् ॥ १७३ ॥  
 समुद्रसेननामानं पर्यटन्तं तनुस्थितेः । वणिग्वैश्रवणागारे तेनाकण्ठमभोज्यत ॥ १७४ ॥  
 पुनर्मुन्याश्रमं गत्वा कुरु त्वाभिव मामपि । इत्यवादीदसौ वास्तु भव्योऽयमिति निश्चयात् ॥ १७५ ॥  
 दिवसैः सहवासेन कैश्चिद्व्यक्षिततन्मनाः । अग्राहयन्मुनिस्तेन संयमं शमसाधनम् ॥ १७६ ॥  
 बुद्ध्यादिकर्द्धयस्तस्य जाताः संवत्सरादतः । १स श्रीगोतमनाम्नामा गुरुस्थानमवाप सः ॥ १७७ ॥  
 जीवितान्ते गुरुस्तस्य मध्यग्रैवयकोध्वंगे । विमाने सुविशालाख्ये समुत्पन्नः सुरोत्तमः ॥ १७८ ॥  
 स श्रीगौतमनामापि विहिताराधनाविधिः । सम्यक् संन्यस्य तत्रैव सम्प्रापदहमिन्द्रताम् ॥ १७९ ॥  
 तत्र दिव्यं सुखं भुक्त्वा तस्माद्विप्रचरो मुनिः । अष्टाविंशतिवार्यार्युरितक्रान्तौ च्युतो भवान् ॥ १८० ॥

मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा वायुकी बाधाको बार-बार सहता था, वह सदा मलिन रहता था, केवल जिह्वा इन्द्रियके विषयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोंके विषय उसके छूट गये थे । जिस प्रकार राजा सदा दण्डधारी रहता है—अन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोंको दण्ड देता है उसी प्रकार वह भी सदा दण्डधारी रहता था—हाथमें लाठी लिये रहता था ॥ १६५-१६७ ॥ 'सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारकियोंका रूप ऐसा होता है' यहाँके लोगोंको यह बतलानेके लिए ही मानो विधाताने उसकी सृष्टि की थी । वह उड़द अथवा स्याही जैसा रङ्ग धारण करता था । अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यके भयसे मानो अन्धकारका समूह मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो । वह अत्यन्त घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं कण्ठपर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेत्रोंसे वह अतृप्त जैसा ही मालूम होता, वह जीर्ण शीर्ण तथा छेदवाले अशुभ वस्त्र अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीर पर बहुतसे घाव हो गये थे, उनकी बड़ी दुर्गन्ध आती थी तथा भिनभिनाती हुई अनेक मक्खियाँ उसे सदा घेरे रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मक्खियोंसे उसे क्रोध भी बहुत पैदा होता था । नगरके बालकोंके समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचाते थे, वह मुँफला कर उन बालकोंका पीछा भी करता था परन्तु बीचमें ही गिर पड़ता था । इस प्रकार बड़े कष्टसे समय बिता रहा था । किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल प्राप्तिसे वह आहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया । वैश्रवण सेठके यहाँ मुनिराजका आहार हुआ । सेठने उस गोतम ब्राह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण भोजन करा दिया । भोजन करनेके बाद भी वह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा और कहने लगा कि आप मुझे भी अपने जैसा बना लीजिये । मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया यह वास्तवमें भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तदनन्तर उन्होंने उसे शान्तिका साधन भूत संयम ग्रहण करा दिया ॥ १६८-१७६ ॥ बुद्धि आदिक ऋद्धियाँ भी उसे एक वर्षके बाद ही प्राप्त हो गईं । अब वह गोतम नामके साथ ही साथ गुरुके स्थानको प्राप्त हो गया—उनके समान बन गया ॥ १७७ ॥ आयुके अन्तमें उसके गुरु मध्यमप्रैवयक के सुविशाल नामके उपरितन विमानमें अहमिन्द्र हुए और श्री गोतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधनाओंकी आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम प्रैवयकके सुविशाल विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १७८-१७९ ॥ वहाँके दिव्य सुखका उपभोग कर

अजन्यन्धकवृष्ट्याख्य इति तन्नावायन् सुधीः । स्वपुत्रभवसम्बन्धं सोऽन्वयुक्तं पुनर्जिनम् ॥ १८१ ॥  
 सर्वभाषाम्बभावेन ध्वनिना निजगाद् सः । जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मङ्गलाह्वये ॥ १८२ ॥  
 नृपो मेघरथो नात्रा पुरे मद्रिलनामनि । मुभद्रायां मुनश्नम्य रथान्तद्वदमंजकः ॥ १८३ ॥  
 पट्टबन्धं स्वपुण्येन यौवराजस्य सोऽभिभः<sup>१</sup> । तत्र नन्दयशोनाम्न्यां धनदत्तवणिक्पतेः ॥ १८४ ॥  
 धनादिदेवपालाख्यौ देवपालौ जिनादिकौ । अहन्तो दत्तादानान्तौ जिनदत्तश्च सप्तमः ॥ १८५ ॥  
 प्रियमित्रोऽष्टमो धर्मरुचिदचान्त्योऽभवन्मुनः । प्रियदर्शना ज्येष्ठा च जाते दुहितरौ ततः ॥ १८६ ॥  
 नृपः सुदर्शनोद्याने मन्दिरस्थविरान्तिके । कदाचिद् वणिर्गोशश्च पुत्रादिपरिवारिनौ ॥ १८७ ॥  
 सक्रियं धर्ममाकर्ण्य निविष्ट स महीपतिः । दत्त्वा दृढरथायाभिषेकपूर्वं स्वकं पदम् ॥ १८८ ॥  
 आददे संयमं पश्चाच्छ्रेष्ठीं च नवभिः मुनेः । ततो नन्दयशा पुत्रिकाद्वयेनागमत्तपः ॥ १८९ ॥  
 सुदर्शनार्थिकाभ्यर्णं नृणनिर्णान्तंस्मृतिः । क्रमाद्वारागर्सावाब्धं केवलज्ञानिनोऽभवन् ॥ १९० ॥  
 वने प्रियङ्गुवण्डाख्ये मनोहरतमद्रुमे । गुरुर्मेघरथो ध्यात्वा धनदत्तश्च ते त्रयः ॥ १९१ ॥  
 धर्मांशुनमर्थी वृष्टिमुद्गिरन्तो निरन्तरम् । जीवितान्ते तले सिद्धशिलायाः सिद्धिमश्नन् ॥ १९२ ॥  
 पुरे राजगृहे पूज्यास्त्रिजगज्जननायकैः । धनदेवादिकास्तस्मिन्नेवान्येषुः शिलानले ॥ १९३ ॥  
 नवापि विधिना संन्यस्यन्तो बोध्य मुनायुता । निदानमकरोन्नन्दयशा मे जन्मनाह वा ॥ १९४ ॥  
 परम्प्राप्येवमेवैभिर्बन्धुत्वं भवतादिति । स्वयं च कृतसंन्यासा तैः सहानतकल्पजे ॥ १९५ ॥

वह ब्राह्मण मुनिका जीव अट्टाईस सागरकी धायु पूर्ण हाने पर वहाँसे च्युत हुआ और तू अन्धक-  
 वृष्टि नामका राजा हुआ है । इस प्रकार अपने भयोंका अनुभव करना हुआ बुद्धिमान् अन्धकवृष्टि  
 फिर भगवान्से अपने पुत्रोंके भयोंका सम्बन्ध पूछने लगा ॥ १८०-१८१ ॥ वे भगवान् भी सर्वभाषा  
 रूप परिणामन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे—

जम्बूद्वीपके मङ्गला देशमें एक मद्रिलपुर नामका नगर है । उसमें मेघरथ नामका राजा राज्य  
 करता था । उसकी देवीका नाम मुभद्रा था । उन दोनोंके दृढरथ नामका पुत्र हुआ । अपने पुण्यादयसे  
 उसने यौवराज्यका पट्ट धारण किया था । उसी मद्रिलपुर नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था,  
 उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था । उन दोनोंके धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, अर्हदत्त, अर्हदास,  
 सातवाँ जिनदत्त, आठवाँ प्रियमित्र और नौवाँ धर्मरुचि ये नौ पुत्र हुए थे । इनके सिवाय प्रियदर्शना  
 और ज्येष्ठा ये दो पुत्रियाँ भी हुई थीं ॥ १८२-१८६ ॥ किसी एक समय सुदर्शन नामके वनमें मन्दिर-  
 स्थविर नामके मुनिराज पधारे । राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रादिसे  
 परिवृत्त होकर उनके पास गये । राजा मेघरथ क्रिया सहित धर्मका स्वरूप मुनकर विरक्त हो गया  
 अतः अभिषेक पूर्वक दृढरथ नामक पुत्रके लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया ।  
 तदनन्तर धनदत्त सेठने भी अपने नौ पुत्रोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया । नन्दयशा सेठानी भी  
 अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदर्शना नामकी आर्यिकाके पास गई और शीघ्र ही संसारके स्वरूपका  
 निर्णय कर उसने भी तप धारण कर लिया—क्रम क्रमसे विहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे और  
 वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर वृक्षांसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए । वहाँ सबके  
 गुरु मन्दिरस्थविर, मेघरथ राजा और धनदत्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलज्ञानी हो गये ।  
 तदनन्तर निरन्तर धर्मांशुनकी वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आयु  
 के अन्तमें राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध अवस्थाका प्राप्त हुए । किसी दूसरे दिन धन-  
 देव आदि नौ भाई, दोनों बहिनों और नन्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास धारण  
 किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्दयशाने उन्हें देखकर निदान किया कि 'जिस प्रकार  
 ये सब इस जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ हों और इन  
 सबके साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी बना रहें । ऐसा निदान कर उसने स्वयं

शातङ्करं समुत्पद्य विमाने भोगमन्वभूत् । विशल्यम्भोधिमामानायुस्ततः प्रच्युत्य सा तव ॥ १९६ ॥  
 प्रियाजनि सुभद्राख्या धनदेवादयः सुताः । प्रख्यातपौरुषा जाताः समुद्रविजयादयः ॥ १९७ ॥  
 प्रियदर्शना ज्येष्ठा च कुन्ती माद्रीनि विश्रुते । अथापृच्छन्महीपालो वसुदेवभवावलीम् ॥ १९८ ॥  
 जिनेन्द्रोऽप्यब्रवीदित्थं शुभं गम्भीरभाषया । प्रकृतिस्तादृशी तेषां यथा भव्येष्वनुग्रहः ॥ १९९ ॥  
 त्रामे पलाशकूटाख्ये विषये कुरुनामनि । दुर्गतः सोमशर्माख्यो द्विजस्तस्य सुतोऽभवत् ॥ २०० ॥  
 नाम्ना नन्दीत्यसौ देवशर्मणः सततानुगः । मातुलस्याभिलाषेण तत्सुतासु विपुण्यकः ॥ २०१ ॥  
 पुत्रिकास्तस्य ससासन् सोऽदादन्येभ्य एव ताः । तदलाभात्स नन्दी च महादुःखवशीकृतः ॥ २०२ ॥  
 अथान्येद्युर्नटप्रेक्षां वीक्षितुं कौतुकाद्गतः । बलवद्भटसंघट्टमपतत्सोढुमक्षमः ॥ २०३ ॥  
 सर्माक्ष्य तं जनोऽन्योन्यकराप्सालनान्वितम् । हसत्यापन्नलज्जः सन् भृगुपाते कृतोद्यमः ॥ २०४ ॥  
 अद्रिमस्तकमारुह्य ऽटङ्कच्छिन्ने स तस्थिवान् । पातोन्मुखो भयात्कुर्वन् प्रवर्तननिवर्तने ॥ २०५ ॥  
 गह्वनिनामिकाख्याभ्यां संयताभ्यां धरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम् ॥ २०६ ॥  
 सुगुरुद्रुमपेणाख्यः सत्रिवोधांऽब्रवीद्विदम्<sup>२</sup> । भवे भावी तृतीयेऽस्माच्छायेयं युवयोः पिता ॥ २०७ ॥  
 ध्रुवा तत्रौ च गत्वैनं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्ते मृतिनिर्वन्धो बन्धो विरम निष्फलात् ॥ २०८ ॥  
 अमुष्मान्मरणाद्भाग्यसौभाग्यादि त्वयेप्सितम् । भविष्यति तपःसिद्धेरित्यब्राह्म्यतां तपः ॥ २०९ ॥

संन्यास धारण कर लिया और मर कर उन सबके साथ आनत स्वर्गके शातङ्कर नामक विमानमें उत्पन्न हो वहाँके भोग भोगने लगी । वहाँ उसकी वीस सागरकी आयु थी । आयुपूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध पौरुषके धारक समुद्र-विजय आदि पुत्र हुए हैं तथा प्रियदर्शना और ज्येष्ठा नामक पुत्रियोंके जीव अतिशय प्रसिद्ध कुन्ती माद्री हुए हैं । यह सब सुननेके बाद राजा अन्धकवृष्टिने अब सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे वसुदेवकी भवावली पूछी ॥ १८७-१९८ ॥ जिनराज भी वसुदेवकी शुभ भवावली अपनी गम्भीर भाषा द्वारा इस प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुग्रह होता है ॥ १९६ ॥

वे कहने लगे कि कुरुदेशके पलाशकूट नामक गाँवमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था । वह जन्मसे ही दरिद्र था । उसके नन्दी नामका एक लड़का था । नन्दीके मामाका नाम देवशर्मा था । उसके सात पुत्रियाँ थीं । नन्दी अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यहीन होनेके कारण देवशर्माने वे पुत्रियाँ उसके लिए न देकर किसी दूसरेके लिए दे दीं । पुत्रियोंके न मिलनेसे नन्दी बहुत दुःखी हुआ ॥ २००-२०२ ॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन वह कौतुकवश नटोंका खेल देखनेके लिए गया । वहाँ बड़े-बड़े बलवान् योद्धाओंकी भीड़ थी जिसे वह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके विपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी हँसी करने लगे । इस घटनासे उसे बहुत ही लज्जा हुई और वह किसी पर्वतकी शिखरसे नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा ॥ २०३-२०४ ॥ पर्वतकी शिखर पर चढ़कर वह टॉकीसे कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरनेका विचार करने लगा परन्तु भयके कारण गिर नहीं सका, वह बार-बार गिरनेके लिए तैयार होता और बार-बार पीछे हट जाता था ॥ २०५ ॥ उसी पर्वतके नीचे पृथिवी तल पर द्रुमपेण नामके मुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, शङ्ख और निर्नामिक नामके दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने द्रुमपेण मुनिराजसे आदरके साथ पूछा कि यह छाया किसकी है ? उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह छाया है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥ २०६-२०७ ॥ गुरुकी बात सुनकर उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूछने लगे कि हे भाई ! तुम्हें यह मरणका आग्रह क्यों हो रहा है ? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुम्हें तपकी सिद्धिसे प्राप्त हो जावेगा' इस प्रकार समझा कर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया ॥ २०८-२०९ ॥

चिरं सोऽपि तपः कृत्वा महाशुक्रेऽमरोऽजनि । तत्र षोडशवाभ्यांयुरनुभूयाभिवान्छितम् ॥ २१० ॥  
 प्रादुरासीगतश्च्युत्वा वसुदेवो वमुन्धराम् । वशीकर्तुमर्थं यस्माद्भावितौ बलकेशवौ ॥ २११ ॥  
 इति सर्वमिदं श्रुत्वा ससंवेगपरायणः । सप्रेक्षोऽन्धकवृष्ट्याख्यः स्वीचिकीर्षुः परं पदम् ॥ २१२ ॥  
 समुद्रविजयाख्याय दत्त्वाभिवपपूर्वकम् । राज्यमुज्जितसङ्गः सन् शमसङ्गस्तपोऽग्रहीन् ॥ २१३ ॥  
 सुप्रतिष्ठजिनाभ्यर्णं राजभिर्बहुभिः समम् । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निर्भृतेरगात् ॥ २१४ ॥  
 समुद्रविजये पाति क्षितिं वर्णाश्रमाः सुखम् । मुधर्मकर्मसु स्वैरं प्रावर्तन् यथोचितम् ॥ २१५ ॥  
 राज्यं विमज्य दिक्पालैरिव भानृभिरप्यभिः । सहान्वभूस् भूपालः सकलं सर्वसौख्यदम् ॥ २१६ ॥  
 एवं सुखेन सर्वेषां काले गच्छन् यथादयान्<sup>१</sup> । चतुरङ्गबलापेता वसुदेवो युवाग्रणीः ॥ २१७ ॥  
 गन्धवारणमारुह्य सन्वरन्मरारवलिः । वाद्यमानाखिलातोद्यन्वनिर्निभिरद्विस्तटः ॥ २१८ ॥  
 बन्दिमागधसूतादिमूद्यमानाङ्गमालकः । नानाभरणभाभारभासमानस्वविग्रहः ॥ २१९ ॥  
 निगृहीतुमिवोप्रांशुमुद्यतां निजतेजसा । अबो विधानुं<sup>२</sup> वाप्येष भूपणाङ्गसुरदुमम् ॥ २२० ॥  
 अमराणां कुमारो वा कुमारः प्रत्यहं बहिः । निर्गच्छति पुरास्वैरं स्वर्लालादर्शनोत्सुकः ॥ २२१ ॥  
 विस्मस्मरुर्विलोक्यैतं स्वध्यापारान् पुरस्त्रियः । निरादरा बभूवुश्च मानुलान्यादिवारणे<sup>३</sup> ॥ २२२ ॥  
 निर्गमेश्च कुमारस्य विषण्णा नागरास्तदा । गत्वा विज्ञापयामासुस्तद्वृष्टान्तं महीपतेः ॥ २२३ ॥  
 श्रुत्वावधार्य तद्गजा सहजस्रहनिर्भरः । प्रकाशप्रतिपेधेन कदाचिद्विमुक्तो भवेत् ॥ २२४ ॥

वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरणकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी आयु प्रमाण मनोवांछित सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युन होकर पृथिवीकी वश करनेके लिए वसुदेव हुआ है । बलभद्र और नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी ॥ २१०-२११ ॥ महाराज अन्धकवृष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे । वे विद्याधर तो थे ही, अतः परम पद—मोक्षपद प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया और स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुतसे राजाओंके साथ तप धारण कर लिया । संयम धारण कर अन्तमें उन्होंने संन्यास धारण किया और कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ २१२-२१४ ॥ इधर समुद्रविजय पृथिवीका पालन करने लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णों और समस्त आश्रमोंके लोग, उत्तम धर्मके कार्योंमें इच्छानुसार सुखपूर्वक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥ २१५ ॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथायोग्य विभाग कर दिक्पालोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सर्व प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते थे ॥ २१६ ॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था । इन सबमें वसुदेव सबसे अधिक युवा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे । उस समय चतुरङ्ग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समूह उनके आस-पास दुराधे जाते थे, बजते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशाओंके किनारे फटेसे जाते थे, वन्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी विरुदावलीका वर्णन करते जाते थे, अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समूहसे उनका शरीर देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेजसे सूर्यका निग्रह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृक्षका तिरस्कार करनेके लिए ही तैयारी कर रहे हों । उस समय वे देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी स्त्रियाँ इन्हें देखकर अपना अपना कार्य भूल जाती थीं और अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं—किसीके निषेध करने पर भी नहीं मानती थीं ॥ २१७-२२२ ॥ इस तरह कुमार वसुदेवके निकलनेसे नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रविजयके पास जाकर निवेदन किया ॥ २२३ ॥ नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज

१ पुण्योदयात् । २ वाप्येक-स्र० । ३-वारणैः ल० ।

कुमार इति सखिन्य तमाहूय मिथोऽब्रवीत् । १कुमार तव कामस्य छायाद्येयमिवान्यथा ॥ २१५ ॥  
 वृथाटनं परित्याज्यं शीतवातादिषु स्वया । विहर्तुं परिवाञ्छा चेत्यरितो राजमन्दिरम् ॥ २२६ ॥  
 धारागृहे वने रम्ये हर्म्ये विहितपर्वते । मन्त्रिसामन्तयोधाग्रमहामात्रात्मजैः समम् ॥ २२७ ॥  
 यथेष्टे विचरेत्येतत् श्रुत्वा सोऽपि तथाचरत् । आददत्यमृतं वासवचनं शुद्धबुद्धयः ॥ २२८ ॥  
 एवं विहरमाणं तं वाचाटश्रेटकोऽपरम् । नात्रा निपुणमत्याख्यो यथेष्टाचरणोत्सुकः ॥ २२९ ॥  
 राज्ञा त्वं प्रतिविद्धोऽसि सोपायं निर्गमं प्रति । इत्यवादीदसौ चाह किमर्थमिति चेटकम् ॥ २३० ॥  
 सोऽग्रवीत्तव नियोगकाले रूपविलोकनात् । परे शिथिलचारित्रा मन्मथेनाकुलीकृताः ॥ २३१ ॥  
 धीतलजा विमर्यादा विपरीतविचेष्टिताः २ । पीतासवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्च ताः ॥ २३२ ॥  
 काश्चित्स्विन्नसर्वाङ्गाः काश्चिदद्वांशलोचनाः । काश्चित्सन्त्यक्तसंयाताः काश्चित्काढ्यभोजनाः ॥ २३३ ॥  
 अवमत्य गुरुन् काश्चित्काश्चिर्भर्त्य रक्षकान् । भर्तृन् विगणय्यान्याः पुत्रांश्चान्याश्च पुत्रकान् ॥ २३४ ॥  
 मन्वा मर्कटकान् काश्चित्समुक्षिप्य ३ समाकुलाः । कम्बलं परिधान्या विचिन्त्योत्कृष्टवाससी ॥ २३५ ॥  
 अङ्गरां समालोच्य काश्चिदालिप्य कर्दमम् । लोचने स्वे समालोच्य ललाटेभ्यस्तकजलाः ॥ २३६ ॥  
 ४ स्वाः स्वास्तथाविधाः सर्वाः सवैरुद्विभ्रमानसैः । निरीक्ष्य पौरैर्वाक्येन ज्ञापितोऽयं नरेश्वरः ॥ २३७ ॥  
 तवेदशीमुपायेन व्यवस्थां पर्यकल्पयत् । इति संश्रुत्य तेनोक्तं कुमारस्तत्परीक्षितुम् ॥ २३८ ॥  
 राजगोहाद्विनिर्गन्तुकामो दौवारिकैस्तदा ५ । तवाग्रजस्य ६ भो देव निर्देशोऽस्माकमीदृशः ॥ २३९ ॥

समुद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह विमुख हो जावेगा । इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कहा कि हे कुमार ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आदिमें यह व्यर्थका भ्रमण छोड़ देना चाहिए । यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके चारों ओर धारागृह, मनोहर-वन, राज-मन्दिर, तथा कृत्रिम पर्वत आदि पर जहाँ इच्छा हो मन्त्रियों, सामन्तों, प्रधान योद्धाओं अथवा महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो । १ महाराज वसुदेवकी बात सुनकर कुमार वसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष आप्तजनोंके वचनोंको अमृत जैसा ग्रहण करते हैं ॥ २२४-२२८ ॥ कुमार इस प्रकार राजमन्दिरके आसपास ही भ्रमण करने लगे । एक दिन जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी और जो स्वेच्छानुसार आचरण करनेमें उत्सुक रहता था ऐसा निपुणमति नामका सेवक कुमार वसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है । कुमारने भी उस सेवकसे पूछा कि महाराजने ऐसा क्यों किया है ? उत्तरमें वह कहने लगा कि जब आप वाहर निकलते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनेसे नगरकी स्त्रियोंका चारित्र शिथिल हो जाता है, वे कामसे आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सधवाएँ और विधवाएँ सभी मदिरा पी हुईके समान हो जाती हैं, कितनी ही स्त्रियोंका सब शरीर पसीनासे तरबतर हो जाता है, कितनी ही स्त्रियोंके नेत्र आधे खुले रह जाते हैं, कितनी ही स्त्रियाँ पहननेके वस्त्र छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर बैठती हैं, कितनी ही रक्षकोंको जलकार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर समझ कर दूर फेंक देती हैं, कितनी ही कम्बलको ही उत्तम वस्त्र समझकर पहिन लेती हैं, कितनी कीचड़को अङ्गराग समझकर शरीर पर लपेट लेती हैं और कितनी ही ललाटको नेत्र समझ कर उसीपर कज्जल लगा लेती हैं । अपनी-अपनी समस्त स्त्रियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगर-निवासी बड़े दुःखी हुए और उन्होंने शब्दों द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया । महाराजने भी इस उपायसे आपकी ऐसी व्यवस्था की है । निपुणमति सेवककी बात सुनकर उसकी परीक्षा

१ ख०, ग०, घ०, म० सम्मतः पाठः । ल० पुस्तके तु 'कुमार वपुरेतत्ते पश्यामि किमिवान्यथा' इति पाठः । २ विचेष्टितम् ग० । ३ समाकुलान् ल० । ४ स्वास्तास्तथा-ल० । ५ तथा म०, ल० । ६ ख०, ग०, घ०, म०, संमतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'तवाग्रजस्य देवस्य नादेशोऽस्माकमीदृशः' इति पाठः ।

बहिस्त्रया न गन्तव्यमिति रुद्रः स्थितोऽन्यदा । समुद्रविजयादीनामनुक्त्वाऽयन्नसो भयान् ॥ २४० ॥  
 १ वसुदेवोऽमुतो गत्वा विद्यासंसाधनच्छलान् । श्मशानभूमावेकां महाज्वाले हुताग्ने ॥ २४१ ॥  
 निपण्यार्कानिभीमानुरिति पत्रं २ विलिख्य तन् । कण्ठे निबध्य वाहस्य मुक्त्वा तत्रैव तं स्वयम् ॥ २४२ ॥  
 वह्निं प्रदक्षिणीकृत्य द्रव्यमानशवान्वितम् । अगादलक्षमार्गः स रात्रावेध द्रुतं ततः ॥ २४३ ॥  
 ३ ततः सूर्योदये राजगहे तद्रक्षकाप्रणाः । अनिरिक्ष्यानुजं राज्ञां राजादेशादितस्ततः ॥ २४४ ॥  
 पर्वटन्बहुभिः साह्यं तमन्वेष्टुमर्थैश्चन । भर्माभूतं शवं तत्र ब्राम्ह्यन्नं च तुरङ्गमम् ॥ २४५ ॥  
 ४ तत्कण्ठे पत्रमादाय नीत्वा राज्ञे समर्पयत् । तत्पत्रार्थं समाकर्ण्य समुद्रविजयादयः ॥ २४६ ॥  
 महीभुजः परे चातिशोकसन्तप्तचेतसः । ५ नैमित्तिकोक्तद्योगक्षेमज्ञाः शममागताः ॥ २४७ ॥  
 श्रुत्यान्महीपतिः स्नेहात्स तदैव समन्ततः । तं ६ गवेषयितुं दक्षान् प्राहिणोत्सहिनान् बहून् ॥ २४८ ॥  
 विजयाख्यं पुरं गत्वा सोऽप्यशोकमहीरुहः । मूले विश्रान्तये तस्थौ तरुच्छायामवस्थिताम् ॥ २४९ ॥  
 सर्माक्ष्यादैशिकप्रोक्तमभूद्वितथं वचः । हृत्युद्यानपनिर्गत्वा मगधेशमबुधुषन् ॥ २५० ॥  
 राजापि श्यामलाख्यां ७ स्वां मुतां तस्मै समर्पयन् । दिनानि कानिचिन्नत्र विश्रम्य गमवांस्ततः ॥ २५१ ॥  
 देवदारुवने पुष्परम्याख्ये वनजाकरे । अरण्यवारणेनासौ क्रिडित्वारुह्य तं मुदा ॥ २५२ ॥

करनेके लिए कुमार वसुदेव ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने लगे त्यों ही द्वारपालोंने यह कहते हुए मना कर दिया कि 'देव ! हम लोगोंको आपके वड़े भाईकी ऐसी ही आज्ञा है कि कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे ।' द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहं विना ही अपयशके भयसे विद्या सिद्ध करनेके वहाने अकेले ही श्मशानमें गये और वहाँ जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि 'वसुदेव अर्कीर्तिके भयसे महाज्वालाओं वाली अग्निमें गिरकर मर गया है ।' यह पत्र लिखकर घोड़ेके गलेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुर्दा जल रहा था ऐसी अग्निकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें ही बड़ी शीघ्रतासे किसी अलक्षित मार्गसे चले गये ॥ २२६-२४३ ॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान प्रधान रक्षकोंने राजमन्दिरमें कुमार वसुदेवको नहीं देखा तो उन्होंने राजा समुद्र-विजयको खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लोगोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे । कुछ समय बाद उन्होंने श्मशानमें जला हुआ मुर्दा और उसीके आस पास घूमता हुआ कुमार वसुदेवका घोड़ा देखा ॥ २४४-२४५ ॥ घोड़ेके गलेमें जो पत्र बाँधा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सौंप दिया । पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय आदि भाई तथा अन्य राजा लोग सर्मा शोकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमित्तज्ञानीने जब कुमार वसुदेवके योग्य और क्षेमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये ॥ २४६-२४७ ॥ राजा समुद्रविजयने उसी समय स्नेह वशा, बहुतेसे हितैषी तथा चतुर सेवकोंको कुमार वसुदेवकी खोज करनेके लिए भेजा ॥ २४८ ॥

इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए अशोक वृक्षके नीचे बैठ गये । कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छाया स्थिर हो गई थी उसे देख कर वागवान्ने सोचा कि उस निमित्तज्ञानीके वचन सत्य निकले । ऐसा विचार कर उसने मगधदेशके राजाको इसकी खबर दी और राजानं भी अपनी श्यामला नामकी कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित की । कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे चल दिया । अब वे देवदारु वनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे और वहाँ किसी जंगली हाथीके साथ

१ वसुदेवस्ततो ग०, ल० । २ व्यलिख्यत ल० । ३ ल०, ग०, घ०, म० संमतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'ततो सूर्योदये गेहे तद्रक्षणकराप्रणीः' इति पाठः । ४-कण्ठपत्र-ल० । ५ नैमित्तिकोक्तद्योगकालज्ञः म० । कायशाः ल० । ६ तमावेषयितुं ल० । ७ तां ग०, ल० ।



श्लाघ्यमानः स्वयं केनचित्त्वगेन गजाधिपात् । अपास्य सहसानीतः खेचराद्रिं कृती पुरः ॥ २५३ ॥  
 पत्युः किन्नरगीतस्य द्वितीयां वा रतिं सतीम् । सुतामशनिवेगस्य दत्तां शल्मलिपूर्विकाम् ॥ २५४ ॥  
 जातां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान् । तया सह स्मरस्यापि सुखं स्मर्तुमगोचरम् ॥ २५५ ॥  
 अनुभूय दिवान्यत्र विश्रान्तः कानिचित्पुनः । तथोपसर्तुकामं तं समीक्षयाङ्गारवेगकः ॥ २५६ ॥  
 उद्धृत्याशनिवेगस्य दयादोषं नभस्तले । ज्ञात्वा दत्तान्तशाल्मल्या समुद्रीर्णासिहस्तया ॥ २५७ ॥  
 सोऽन्वीतस्तद्भयान्मुक्त्वा तं तस्मात्प्रपलायितः । विद्यया पर्णलक्ष्यासौ <sup>१</sup>प्रियाप्रहितया तया ॥ २५८ ॥  
 चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये शनैः शनैः । द्वीपे निपातितोऽपृच्छदेहिनस्तीरवर्तिनः ॥ २५९ ॥  
 द्वीपादमुस्माच्चिर्गन्तुं किं तीर्थं वदतेति तान् । अवदँस्तेऽपि किं भद्रं पतितः खात्स्मित्यमुम् ॥ २६० ॥  
 सम्यग्भवति विश्रातमिति तेन सुभाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जलाश्रिगर्भ्यतामिति ॥ २६१ ॥  
 न्यदिशन्नप्रतस्तस्मात्प्रविश्य नगरं गुरुम् । <sup>२</sup>दृष्ट्वा गन्धर्वविद्याया मनोहरसमाह्वयम् ॥ २६२ ॥  
 उपविश्य तदभ्याशे वीणावादनशिक्षकान् । तत्र गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरविधिं प्रति ॥ २६३ ॥  
 दृष्ट्वा निगूढतज्ज्ञानो वसुदेवो विमूढवत् । अहं चैभिः सहाभ्यासं करोमीत्याचवल्लङ्किः ॥ २६४ ॥  
<sup>३</sup>आदावेवाच्छिनतन्त्रीं तुम्बीजं वाभिनत्फलम् । <sup>४</sup>वैयात्यं पश्यतास्यालं दृष्ट्वा तं तेऽहसन् शृशम् ॥ २६५ ॥  
 अर्त्तां गन्धर्वदत्तायास्त्वमेवैवं <sup>५</sup>विचक्षणः । गीतवाद्यविशेषेषु सर्वानस्मान् जयेरिति ॥ २६६ ॥

क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये ॥ २४६-२५२ ॥ उसी समय किसी विद्याधरने उनकी बड़ी प्रशंसा की और हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माको अकस्मात् ही विजयार्थ पर्वत पर पहुँचा दिया ॥ २५३ ॥ वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा अशनिवेग रहता था उसकी शास्मलिदत्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी । अशनिवेगने वह कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित कर दी । कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगोचर कामसुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया । तदनन्तर जब कुमारने वहाँसे जानेकी इच्छा की तब अशनिवेगका दयाद ( उत्तराधिकारी ) अंगारवेग उन्हें जानेके लिए उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया । इधर शास्मलिदत्ताको जब पता चला तो उससे नंगी तलवार हाथमें लेकर उसका पीछा किया । शास्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग कुमारको छोड़कर भाग गया । कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शास्मलिदत्ताके द्वारा भेजी हुई पर्णलक्ष्मी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीप पर धीरे-धीरे उतार दिया । वहाँ आकर कुमारने किनारे पर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर निकलनेका मार्ग क्या है ? आप लोग मुझे बतलाइए । तब लोगोंने कुमारसे कहा कि क्या आप आकाशसे पड़े हैं ? जिससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते । कुमारने उत्तर दिया कि आप लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही मैं आकाशसे पड़ा हूँ । कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग हँसने लगे और 'इस मार्गके द्वारा आप जलसे बाहर निकल आइए' ऐसा कह कर उन्होंने मार्ग दिखा दिया । कुमार उसी मार्गसे निकल कर नगरमें प्रवृष्ट हुए और मनोहर नामक गन्धर्वविद्याके गुरुके पास जा बैठे । गन्धर्वदत्ताको स्वयंवरमें जीतनेके लिए उनके पास बहुतसे शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे । उन्हें देख तथा अपने वीणाविषयक ज्ञानको छिपाकर कुमार मूर्खकी तरह बन गये और कहने लगे कि मैं भी इन लोगोंके साथ वीणा बजानेका अभ्यास करता हूँ । ऐसा कह कर उन्होंने एक वीणा ले ली । पहले तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली और फिर तूँबा फोड़ दिया । उनकी इस क्रियाको देख लोग अत्यधिक हँसने लगे और कहने लगे कि इसकी भ्रष्टताको तो देखो । कुमार वसुदेवसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पड़ता है कि गन्धर्वदत्ताके तुम्हीं पति होओगे और हम सबको ग़ाने-बजानेकी कलामें हरा दोगे ॥ २५४-२६६ ॥

१ प्रियप्रहितया तया ग० । प्रियं प्रियतया तया ल० । २ गन्धर्वकुशलं प्राप ल० । ३ ल०, ग०, ब०, म०, संमतः पाठः । आदावेवाच्छिनतन्त्रीं तुंवाजं वाभिनत्फलं ल० । ४ वियात्यं ल० । ५ त्वमेवैव ल० ।

१ 'पूर्वं तत्र स्थिते तस्मिन् धरागगनगोचराः । प्रापुरांन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरसमुत्सुकाः ॥ २६७ ॥  
 २ तान्स्वयंवरशालायां बहून् जितवती स्वयम् । तदानीं गीतवादाभ्यां तत्कलारूपधारिणी ॥ २६८ ॥  
 चारुदत्तादिभिः श्रोतृपदमध्यासितैः स्तुता । कलाकौशलमेतस्या विलक्षणमिति स्फुटम् ॥ २६९ ॥  
 स्वोपाध्यायं तदापृच्छथ कन्याभ्यर्णमुपागतः । वसुदेवोऽभर्णाद्गणां विद्रोपामानयन्त्विति ॥ २७० ॥  
 तेषुपि तिस्रश्चतस्रश्च हस्ते वीणाः ३ समर्पयन् । तासां तन्त्राणु ४ लोमांसं शक्यञ्चालोक्य सस्मितम् ॥ २७१ ॥  
 तुम्बीफलेषु दण्डेषु शक्यपापाणमभ्यसौ । स्फुटीचकार तद्दृष्ट्वा त्वदिष्टा कीदृशी भवेत् ॥ २७२ ॥  
 वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्टायाः समागमः । ईदृग्विध इति प्राह तत्रायांख्यानमीदृशम् ॥ २७३ ॥  
 हस्तिनाख्यपुरार्धाशो राज्ञो मेघरथश्रुतेः । पद्मावत्याश्च सञ्जातौ विष्णुपद्मरथौ सुतौ ॥ २७४ ॥  
 सह विष्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते । पश्चात्पद्मरथे राज्यमलङ्कृत्यथान्यदा ॥ २७५ ॥  
 प्रत्यन्तवासिसंक्षोभे सञ्जाते सचिवाग्रणीः । सामादिभिरुपायैर्न प्रशान्तिं समर्जामगत् ॥ २७६ ॥  
 राज्ञा तुष्टवनावादि त्वयेष्टं वाच्यतामिति । राज्यं सप्तदिनं कर्तुमिच्छामीत्यब्रवीद् बली ॥ २७७ ॥  
 दत्तं जरत्तृणं मत्वा 'तेन तस्मै तदूजितम् । कृतोपकारिणे देयं किं न तत्कृतवेदिभिः ॥ २७८ ॥  
 तत्राकम्पनगुर्वाधमागत्य मुनिमण्डलम् । अग्रहीदातपे योगं ५ सर्वं सौम्यमहीमृति ॥ २७९ ॥  
 निजिता ६ प्राग्विदुष्विष्यामकम्पनमुर्नाशिना । वादे सभायां तत्कोपात् जिघांसुरवात्मकः ॥ २८० ॥

इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे । तदनन्तर गन्धर्वदत्ताके स्वयंवरसे उत्सुक हुए भूमिगोचरी और विशाधर लोग एकत्रित होने लगे ॥ २६७ ॥ गाने वज्रानेकी कलाका रूप धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ताने स्वयंवर शालामें आयें हुए बहूनोंसे लोगोंको अपने गाने-वज्रानेके द्वारा तत्काल जीत लिया ॥ २६८ ॥ वहाँ जो चारुदत्त आदि मुख्य मुख्य श्रोता बैठे थे वे सब उस गन्धर्वदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कला-कौशल बड़ा ही विलक्षण है— सबसे अद्भुत है ॥ २६९ ॥ तदनन्तर वसुदेव भी अपने गुरुसे पूछकर कन्याके पास गये और कहने लगे कि ऐसी वीणा लाओ जिसमें एक भी दोष नहीं हो ॥ २७० ॥ लोगोंने तीन चार वीणाएँ वसुदेवके हाथमें सौंप दीं । वसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि इन वीणाओंकी तौनमें लोमांस नामका दोष है और तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शक्य एवं पापाण नामका दोष है । उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया । यह देख कन्याने कहा कि तो फिर आप कैसी वीणा चाहते हैं ? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुझे जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था । ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई ॥ २७१-२७३ ॥

हस्तिनापुरके राजा मेघरथके पद्मावती रानीसे विष्णु और पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए थे ॥ २७४ ॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो विष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा । किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राज्यमें चोभ उत्पन्न किया जिसे प्रधान मन्त्री बलिने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने बलिके कार्यसे सन्तुष्ट होकर कहा कि 'तुम्हे क्या इष्ट है ? तू क्या चाहता है ?' सो कह ! उत्तरमें बलिने कहा कि मैं सात दिन तक राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी बलिकी इस माँगको जीर्णतृणके समान तुच्छ समझ उसे सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो किये हुए उपकारको जानते हैं अर्थात् कृतज्ञ हैं वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नहीं देते हैं ? ॥ २७५-२७८ ॥ उसी समय अकम्पन गुरु आदि मुनियोंके समूहने हस्तिनापुर आकर वहाँके सौम्य पर्वत पर श्रातापन योग धारण कर लिया । पहले जब बलि मन्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे अकम्पन गुरुने शास्त्रार्थके समय विद्वानोंकी सभामें जीत लिया था इसलिए वह पापी क्रोधसे उनका घात करना

यागव्याजं समारभ्य स मन्त्री परितो गिरिम् । <sup>१</sup>अर्धिताहारदानार्थं देवसन्तर्पणाय च ॥ २८१ ॥  
 पाकं प्रकल्पयामास धूमज्वालाग्निस्तन्ततम् । ज्ञात्वा विष्णुकुमारस्तमुपसर्गं मुनीश्वरः ॥ २८२ ॥  
 गत्वा पद्मरथाभ्यर्णं वीतरागासने स्थितः । राज्ञाभिवन्द्य सम्पूज्य किं कृत्यमिति भाषितः <sup>२</sup> ॥ २८३ ॥  
 उपसर्गं व्यधान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम् । निवार्यतामसावाञ्छु त्वयेत्याह महीपतिम् <sup>३</sup> ॥ २८४ ॥  
 प्रतिपन्नं मया तस्मै राज्यं सप्तदिनावधि । न निवारयितुं शक्यः सत्यभेदभयादसौ ॥ २८५ ॥  
 ततो भवद्भिरेवार्यं निवार्यो दुर्जनोऽधुना । न विदन्ति खलाः स्वैरा युक्तायुक्तविवेष्टितम् ॥ २८६ ॥  
 इत्यवोचदसौ चैतदवगम्य मुनीश्वरः । प्रतिषिष्यामि पापिष्ठमहमेवाञ्छु नश्वरम् ॥ २८७ ॥  
 इति वामनरूपेण ब्राह्मणाकारमागतः । सम्प्राप्य बलिनोऽभ्यर्णं स्वस्तिवादपुरस्सरम् ॥ २८८ ॥  
<sup>४</sup>महाभागाहमर्थां त्वां दातुमुख्यमुपागमम् । देयं त्वथेत्यवादीत्सोप्यभीष्टं प्रतिपन्नवान् ॥ २८९ ॥  
 अभाषत द्विजो राजन् देयं मे विक्रमैस्त्रिभिः । प्रमितं क्षेत्रमित्यल्पं किमेतदभियाचितम् ॥ २९० ॥  
 गृह्णाति बली पाणिजलसेकसमन्वितम् । <sup>५</sup>अदितास्मै मुनिश्चासविक्रियद्विं निजक्रमम् ॥ २९१ ॥  
<sup>६</sup>न्यधादेकं प्रसार्योच्चैर्मानुषोत्तरमूर्धनि । द्वितीयमपि देवाद्विचूलिकायां स्फुरद्दुतिः ॥ २९२ ॥<sup>७</sup>  
 तदा विद्याधरा भूमिगोचराश्चार्यं संहर । चरणौ खंसतेर्हेतुं क्रोधं मा स्म कृथा बृथा ॥ २९३ ॥  
 इति सङ्गीतवीणादिमुखरा मुनिसचामम् । सद्यः प्रसादयामासुः सोप्यंघ्री स्वौ समाहरत् ॥ २९४ ॥  
 श्रुत्वा लक्षणवचेषां तदा गीतं सुधाशिनः <sup>८</sup> । तुष्ट्वा घोषमुघोषाख्ये महाघोषाञ्च सुस्वराम् ॥ २९५ ॥

चाहता था ॥ २७६-२८० ॥ पापी वलि मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सौम्य पर्वतके चारों ओर याचकोंको दान देने तथा देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक अर्थात् रसोई बनवाना शुरू किया जिससे घुआँ तथा ज्वालाओंका समूह चारों ओर फैलने लगा । जब मुनिराज विष्णुकुमारको इस उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथके पास गये और वीतराग आसन पर बैठ गये । राजा पद्मरथने उनकी वन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुझसे क्या कार्य है ? ॥ २८१-२८३ ॥ मुनिराज विष्णुकुमारने राजा पद्मरथसे कहा कि तुम्हारे मन्त्रीने आतप योग धारण करनेवाले मुनियोंके लिए उपसर्ग कर रक्खा है उसे तुम शीघ्र ही दूर करो ॥ २८४ ॥ उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूँ अतः सत्यव्रतके खण्डित होनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता । हे पूज्य ! इस दुष्टका इस समय आप ही निवारण कीजिए । स्वच्छन्द रहनेवाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टाओंको—अच्छे-बुरे कार्योंको नहीं जानते हैं ॥ २८५-२८६ ॥ राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे सुनकर मुनिराजने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीको मना करता हूँ ॥ २८७ ॥ इतना कहकर वे महामुनि वामन ( बौने ) ब्राह्मणका रूप रखकर वलिके पास पहुँचे और आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाताओंमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ तू मुझे भी कुछ दे । उत्तरमें वलिने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर ब्राह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हे राजन्, मैं अपने पैरसे तीन पैर पृथिवी चाहता हूँ यही तू मुझे दे दे । ब्राह्मणकी बात सुनकर वलिने कहा कि 'यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है इतना ही क्यों माँगा ? ले लो', इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर पृथिवी दे दी । फिर क्या था ? मुनिराजने विक्रियान्त्रद्विसे फैला कर एक पैर तो मानुषोत्तर पर्वतकी ऊँची शिखर पर रक्खा और देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वतकी चूलिका पर रक्खा ॥ २८८-२९२ ॥ उस समय विद्याधर और भूमिगोचरी सभी स्तुति कर मुनिराजसे कहने लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, बृथा ही संसारका कारणभूत क्रोध नहीं कीजिए ॥ २९३ ॥ इस प्रकार सङ्गीत और वीणा आदिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों और विद्याधरों ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच लिये ॥ २९४ ॥ उस समय उनका लक्षणसहित सङ्गीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने

१ प्रार्थिता ग० । २ भाषितम् ख० । ३ महीपतिः ग०, ल० । ४ महाभागाहमथ त्वां ल० । ५ आदितास्मै ल० । ६ व्यधादेकं म०, ल० । ७ सुधाशिनः ल० ।

वीणां घोषावतीं चामु ददति स्म सुसङ्गनाम् । विद्याधरेभ्यो द्वे द्वे च भूचरेभ्यो यथाक्रमम् ॥ २९६ ॥  
 वृथा त्वं याचिनो विप्रवेरणापि मयाऽधुना । नावकाशस्मृतीयस्य चरणस्येति सत्वरम् ॥ २९७ ॥  
 बध्वा बलिनमुद्वृत्तं बली विष्णुमुनीश्वरः । दुःसहं तं निराकार्पीद्रुपसर्गं मुनीशिनाम् ॥ २९८ ॥  
 बद्धं बलिनमाहन्तुं समुद्युक्तं महीपतिम् । प्रतिपिष्य प्रसन्नान्मा सद्धर्मं समजिग्रहत् ॥ २९९ ॥  
 एवं महामुनिस्तत्र कृतधर्मप्रभावनः । पूज्यः पद्मरथेनास्मात्स्वस्थानमगमत्सुधीः ॥ ३०० ॥  
 तासु घोषावती नाम वीणा वंशेऽथ सस्त्रिधिम् । समागमद्भवद्भिस्तस्ता ममानीयतां शुभा ॥ ३०१ ॥  
 एवमुक्तवते तस्मै तामेवानीय ते ददुः । तयासौ गीतवाद्याभ्यां श्रोतृचेतोऽभिरञ्जनम् ॥ ३०२ ॥  
 समापादयदाकर्ण्यं तद्गीणाकौशलं महन् । प्रीता गन्धर्वदत्तापि स्वां वा मालां समार्पयत् ॥ ३०३ ॥  
 तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य कुण्ठिताखिलभूभुजः । ननु प्राकृतपुण्यानां स्वयं सन्ति महर्षयः ॥ ३०४ ॥  
 ततः सर्वे प्रहृष्यास्य कल्याणाभिपवं व्यथुः । एवं विद्याधरश्रेण्यां लम्भात्सप्तशतान्यसौ ॥ ३०५ ॥  
 सम्प्राप्य खेचरेशेभ्यस्तन्कन्यादानमानिनः । ततो निवृत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ ३०६ ॥  
 हिरण्यवर्मणांऽरिष्टपुरार्थांशो महीपतेः<sup>३</sup> । पद्मावत्यामभ्युपग्री रोहिणी रोहिणीव सा ॥ ३०७ ॥  
 स्वस्याः स्वयंवरायैत्य शिक्षकाग्र्यान् कलागुणान् । वसुदेवमुपाध्यायतया बोधयितुं स्थितम् ॥ ३०८ ॥  
 स्वबाहुलतयेवैवं रोहिणी रत्नमालया । आदिलष्टकण्ठमकरोदुत्कण्ठाकुण्ठितचेतसा ॥ ३०९ ॥  
 ततो विभिन्नमर्यादाः समुद्रविजयादयः । समुद्र इव संहारे ऋसंक्षोभमुपगम्य ताम् ॥ ३१० ॥

अच्छे स्वर वाली घोषा, सुघोषा, महाघोषा और घोषवती नामकी चार वीणाएँ दीं । उन वीणाओं मेंसे देवोंने यथाक्रमसे दो वीणाएँ तो विद्याधरोंकी दी थीं और दो वीणाएँ भूमिगोचरियोंको दी थीं ॥ २९५-२९६ ॥ तदनन्तर उन मुनिराजने वलिसे कहा कि मुझ ब्राह्मणने तुझसे व्यर्थ ही याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अवकाश ही नहीं है । यह कहकर बलवान् विष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी वलिको शीघ्र ही बाँध लिया और अकम्पन आदि मुनियोंके उस दुःसह उपसर्गको दूर कर दिया ॥ २९७-२९८ ॥ वैंध हुए वलिको मारनेके लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया और प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने वलिको समीचीन धर्म ग्रहण कराया । इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान् महामुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की । तदनन्तर वे अपने स्थान पर चले गये ॥ २९९-३०० ॥ यह सब कथा कहनेके बाद कुमार वसुदेवने गन्धर्व-दत्तासे कहा कि देवोंके द्वारा दी हुई चार वीणाओंमें से घोषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हुई थी अतः आप वही शुभ वीणा मेरे लिए मँगाइए ॥ ३०१ ॥ इस प्रकार कहने वाले वसुदेवके लिए उन लोगोंने वही वीणा लाकर दी । वसुदेवने उसी वीणाके द्वारा गा बजाकर सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्धर्वदत्ता वसुदेवकी वीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई और उसने अच्छे कण्ठवाले तथा समस्त राजाओंको कुण्ठित करनेवाले कुमार वसुदेवके गलेमें अपने आपकी तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंको बड़ी-बड़ी ऋद्धियाँ स्वयं आकर मिल जाती हैं ॥ ३०२-३०४ ॥ इसके बाद सबने हर्षित होकर वसुदेवका कल्याणाभिषेक किया । इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों अर्थात् विजयार्थ पर्वत पर जाकर विद्याधर राजाओंके द्वारा कन्यादान आदिसे सम्मानित वसुदेवने सात सौ कन्याएँ प्राप्त कीं । तदनन्तर—परम अभ्युदयको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव विजयार्थ पर्वतसे लौटकर भूमि पर आ गये ॥ ३०५-३०६ ॥ वहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा हिरण्यवर्मके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी चन्द्रमाकी स्त्रीके समान जान पड़ती थी । उसके स्वयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक राजा लोग आये थे परन्तु वसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं' लोगोंको यह बतलानेके लिए ही मानो सबसे अलग बैठे थे । उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके समान रत्नोंकी मालासे वसुदेवके कण्ठका आलिङ्गन किया था ॥ ३०७-३०९ ॥ यह देख, जिस

भाहर्तुमुद्यतः सर्वे दृष्ट्वा तान् दुष्टचेतसः । योद्धुं हिरण्यवर्मापि सस्वबन्धुः समुद्ययौ ॥ ३११ ॥  
 वसुदेवकुमारोऽपि निजनामाक्षराङ्कितम् । प्रजिघाय शरं सद्यः समुद्रविजयं प्रति ॥ ३१२ ॥  
 नामाक्षराणि तस्यासौ वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोऽन्न पुण्यात्सम्भावितो मया ॥ ३१३ ॥  
 इति लुब्धा निवार्यं द्राक्संभ्रामं समुपागमत् । सहानुजैः कनीयांसमनुजं जितमन्मथम् ॥ ३१४ ॥  
 समुद्रविजयाधीशं वसुदेवः कृताञ्जलिः । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाप्रजान् ॥ ३१५ ॥  
 भूखेचराः कुमारेण तदा सर्वे निजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समुद्रः समजीगमन् ॥ ३१६ ॥  
 कुमारं समं गत्वा स्वपुरं विहितोत्सवम् । दशार्हाः स्वेप्सितं सौख्यमन्वभूवन्ननारतम् ॥ ३१७ ॥  
 एवं काले प्रयात्येषां श्लाघ्यैर्भोगैरभङ्गुरैः । महाशुक्रात्समुत्तीर्य शङ्खाख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥ ३१८ ॥  
 रोहिण्याः पुण्यभाक्पद्मनामासौ समजायत । प्रतोषं बन्धुवर्गेषु वर्धयन्नवमो बलः ॥ ३१९ ॥  
 सप्रतापा प्रभेवाभात्सौरी धीरस्य निर्मला । शरदा प्राप्य संस्कारं श्रुत्या पद्मोद्भववाहवा ॥ ३२० ॥  
 दुर्वारो दुष्टविध्वंसी विशिष्टप्रतिपालकः । तत्प्रतापः कथं सौरमपि सारं न लङ्घते ॥ ३२१ ॥  
 इतः प्रकृतमन्यसु वृत्तकं तन्निगद्यते । गङ्गागन्धावतीनद्योः सङ्गमे सफलद्रुमे ॥ ३२२ ॥  
 तापसानामभूत्पद्मो नामा जठरकौशिकः<sup>३</sup> । वशिष्ठो नायकस्तत्र पञ्चाभिप्रतमाचरन् ॥ ३२३ ॥

प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर लुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय आदि सभी राजा मर्यादा छोड़कर लुभित हो उठे और जबर्दस्ती रोहिणीको हरनेका उद्यम करने लगे । यह देख, हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृदय वाले राजाओंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ॥ ३१०-३११ ॥ कुमार वसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोंसे चिह्नित एक बाण शीघ्र ही समुद्रविजयकी ओर छोड़ा ॥ ३१२ ॥ बाण पर लिखे हुए नामाक्षरोंको बाँचकर समुद्र-विजय आश्चर्यसे चकित हो गये, वे कहने लगे—अहो पुण्योदयसे मुझे वसुदेव मिल गया । उन्होंने सन्तुष्ट होकर शीघ्र ही संप्राम बन्द कर दिया और अपने अन्य छोटे भाइयोंको साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई वसुदेवसे मिलनेके लिए गये ॥ ३१३-३१४ ॥ हाथ जोड़े हुए कुमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न किया । तदनन्तर अपने अन्य बड़े भाइयोंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥ ३१५ ॥ कुमारके द्वारा पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी और विद्याधर राजा बड़े हर्षसे ले आये और उन्हें कुमारके साथ मिला दिया । समुद्रविजय आदिने कुमार वसुदेवको साथ लेकर उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ ३१६-३१७ ॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था । कुछ समय बाद जिनका वर्णन पहले आ चुका है ऐसे शङ्ख नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वर्गसे चय कर वसुदेवकी रोहिणी नामक स्त्रीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ । वह अपने भाइयोंमें आनन्दको बढ़ाता-हुआ नौवाँ बलभद्र होगा ॥ ३१८-३१९ ॥ उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी । जिस प्रकार शरद् ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात् कमलोंके विकासको बढ़ाने लगती है उसी प्रकार उसकी बुद्धि शास्त्रोंका संस्कार पाकर पद्मा अर्थात् लक्ष्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने लगी थी ॥ ३२० ॥ उसका प्रताप दुर्वार था, दुष्टोंको नष्ट करनेवाला था और विशिष्ट-पुरुषोंका पालन करनेवाला था फिर भला वह सूर्यके सारभूत तेजका उल्लङ्घन क्यों नहीं करता ? ॥ ३२१ ॥

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस प्रकार है । जहाँ गङ्गा और गन्धावती नदियाँ मिलती हैं वहाँ बहुतसे फले फूले वृक्ष थे । उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जठरकौशिक नामकी तपसियोंकी एक बस्ती थी । उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपसी था वह पञ्चाभि तप तपो करता था । एक दिन वहाँ गुणभद्र और वीरभद्र नामके दो चारण मुनि आये । उन्होंने उसके तपको

भद्रान्तगुणवीराभ्यां चारणाभ्यामिदं तपः । अज्ञानकृतमित्युक्तमाकर्णयोपृच्छदज्ञता ॥ ३२४ ॥  
 कुतो ममेति सक्रोधं कुर्याः स्थित्वा तयोः पुरः । आद्योऽत्र वक्तुमुद्युक्तः सन्तो हि हिनभापिगः ॥ ३२५ ॥  
 जटाकलापमम्भुनलिश्रायकाभिघट्टनम् । सन्ततम्भानसंलग्नजटान्तमृत्तमीनकान् ॥ ३२६ ॥  
 दृश्यमानेन्धनान्तःस्थम्फुरद्विविधकाटकान् । सन्दर्श्येदं तत्राज्ञानमिति तं समबोधयत् ॥ ३२७ ॥  
 काललब्धिं समाश्रित्य वशिष्ठोऽपि विशिष्टधीः । द्वास्त्रिन्वाऽऽनपयोगन्धः सोपवामं तपो व्यधान् ॥ ३२८ ॥  
 तपोमाहान्धतस्तम्य सप्तव्यन्तरद्वेवताः । मुनीत्र प्रहि सन्दर्शमिष्टमित्यग्रतः स्थिताः ॥ ३२९ ॥  
 दृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह भवतीभिः प्रयोजनम् । नाम्यत्रागच्छनान्यस्मिन् यथं जन्मनि मामिति ॥ ३३० ॥  
 क्रमेणैवं तपः कुर्वन्नागमन्मथुरापुरीम् । तत्र मामोपवामी सञ्चानयं योगमाचरन् ॥ ३३१ ॥  
 अधान्येद्युविलोक्यैतमुग्रमेनमहीपतिः । भक्त्या मद्देह एवायं भिक्षां गृह्णानु नान्यतः ॥ ३३२ ॥  
 चकार घोषणां पुर्यामिति सर्वनिषेधिनीम् । स्वपारगादिने सोऽपि भिक्षार्थं प्राविशत्पुरीम् ॥ ३३३ ॥  
 उदतिष्ठत्तद्वाम्नी राजगोहे निरीक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवन्ध्यायाभिराहारस्तपोवनम् ॥ ३३४ ॥  
 ततः पुनर्गते मासे बुभुक्षुः क्षीणदेहकः । प्रविश्य नगरीं वीक्ष्य क्षोभणं यागहस्तिनः ॥ ३३५ ॥  
 सद्यो निवर्तते स्माम्भान्मासमात्राशनव्रतः । मासान्ते पुनरन्येद्युः शरीरस्थितये गतः ॥ ३३६ ॥  
 राजगोहं जरासन्धमहीदृप्रहितपत्रकम् । समाकर्ण्य महीपाले व्याकूलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥  
 ततो निवर्तमानोऽसौ क्षीणाङ्गो जनजल्पितम् । न ददाति स्वयं भिक्षां निषिध्यति परानपि ॥ ३३८ ॥

अज्ञान तप व्रताया । यह मुनिकर वह दुर्बुद्धि तापस क्रोध करना हुआ उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि मेरा अज्ञान क्या है ? उन दोनों मुनियोंमें जा प्रथम ये एने गुणभद्र मुनि कहनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि संपुरुष द्विक्रमा ही उपदेश देने हैं ॥ ३२२-३२५ ॥ उन्होंने जटाओंके समूहमें उपन्न होनेवाली लीग्यों तथा जुआंके मङ्गलनकां; निरन्तर स्नानके समय लगकर जटाओंके भीतर मरी हुई छोटी छोटी मङ्गलियोंका और जलते हुए इन्धनके भीतर रहकर द्रष्टपटाने वाले अनेक कीड़ोंको दिखानाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान है ॥ ३२६-३२७ ॥ काल-लब्धिका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह वशिष्ठ तापस दीक्षा लेकर आनापन योगमें स्थित हो गया और उपवास सहित तप करने लगा ॥ ३२८ ॥ उसके तपके प्रभावसे स्नान व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज ! अपना इष्ट सन्देश कहिये, हमलोग करनेके लिए तैयार हैं ॥ ३२९ ॥ उन्हें देखकर वशिष्ठ मुनिने कहा कि मुझे आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेरे पास आना ॥ ३३० ॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मथुरापुरी आये वहाँ एक महीनेके उपवासका नियम लेकर उन्होंने आनापन योग धारण किया ॥ ३३१ ॥ तदनन्तर दूसरे दिन मथुराके राजा उग्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये और नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यत्र नहीं । इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंको आहार देनेका निषेध कर दिया । अपनी पारणाके दिन मुनि-राजने भिक्षाके लिए नगरीमें प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिरमें अग्नि लग गई उसे देख मुनिराज निराहार ही लौटकर तपोवनमें चले गये ॥ ३३२-३३४ ॥ मुनिराजने एक मासके उपवास का नियम फिरसे ले लिया । तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरीरके धारक मुनिराजने जब आहारकी इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवेश किया तब वहाँ पर हार्थीका चोभ हो रहा था उसे देख वे शीघ्र ही नगरीसे वापिस लौट गये और एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे । एक माह समाप्त होनेपर जब वे फिर आहारके लिए राजमन्दिरकी ओर गये तब महाराज जरासन्धका भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उग्रसेनका चित्त व्याकुल हो रहा था अतः उसने मुनिकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥ ३३५-३३७ ॥ क्षीण शरीरके धारी वशिष्ठ मुनि जब वहाँसे लौट रहे थे तब उन्होंने लोगोंको यह कहते हुए सुना कि 'राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरोंका देने देता है । इसका क्या

१ मद्गृह एवायं घ० । २ यागहस्तिनः ल० ।

कोऽभिप्रायो महीशस्य न विद्मो वयमिष्यदः । श्रुत्वा पापोदयात्कुध्वा निदानमकरोन्मुनिः ॥३३९॥  
 पुत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य मद्युगतपसः फलान् । निगृह्यैनमिदं राज्यं गृह्यासमिति दुर्मतिः ॥३४०॥  
 एवं दुष्परिणामेन मुनिः प्राप्य <sup>१</sup>परासुताम् । जातः पद्मावतीगर्भे भूर्विरानुबन्धतः ॥३४१॥  
 सापि गर्भाभकक्रौर्यान्महीभृद्दहदयामिषम् । अभूदभिलपन्त्यातां तज्ज्ञात्वा मन्त्रिणस्तदा ॥३४२॥  
 प्रयोगविहितं भर्तुर्हन्मासमिति दौर्हृदम् । स्वबुद्ध्या पूर्यस्तस्याः किं न कुर्वन्ति धीधनाः ॥३४३॥  
 निर्दौर्हृदा क्रमेणासावलब्ध सुतपातकम् <sup>२</sup> । दष्टोष्टं निष्ठुरालोकं कृतभ्रूभङ्गसङ्गमम् ॥३४४॥  
 दृष्ट्वा तं पितरौ तस्य नात्र विलम्ब्य पोषणे । योग्योऽयमिति संस्मृत्य विधिं तस्य विसर्जने ॥३४५॥  
 मञ्जूपायां विनिक्षिप्य कंसमप्यां सपत्रकम् । तोकं कलिन्दकन्यायाः <sup>३</sup> प्रवाहे मुञ्चतः स्म तौ ॥३४६॥  
 अस्ति <sup>४</sup>मण्डोदरी नाम कौशाम्ब्यां <sup>५</sup>शौण्डकारिणी । तथा प्रवाहे मञ्जूषामध्यस्थोऽसौ व्यलोक्यत ३४७  
 अवीभृद्गृहीत्वैनमिव सा स्वसुतं हिता । किं न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम् ॥३४८॥  
 अहांसिः कैश्चिदासाद्य <sup>६</sup>लम्बनादिसहं वयः । आक्रीडमानान्निर्हेतुं समं सकलबालकान् ॥३४९॥  
 चपेटमुष्टिदण्डादिप्रहारैर्बाधते सदा । तद्दुराचारनिविण्णाऽत्यजन्मण्डोदरी <sup>७</sup> च तम् ॥३५०॥  
 सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवमहीपतेः । प्रतिपद्य पदात्तित्वं तत्सेवातत्परोऽभवत् ॥३५१॥  
 अतोऽन्यत्प्रकृतं भ्रूमो जरासन्धमहीपतिः । निर्जिताशेषभूपालः कदाचिच्कार्यशेषवान् ॥३५२॥  
 सुरम्यविषयान्तःस्थपौदनख्यपुराधिपम् । रिपुं सिंहरथं जित्वा बलाद्युद्धे ममान्तिकम् ॥३५३॥

अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता ।' लोगोंका कहना सुनकर पाप कर्मसे उदयसे मुनिराजको क्रोध आ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रही । उसी समय उन्होंने निदान किया कि 'मैंने जो उग्र तप किया है उसके फलसे मैं पुत्र होकर इस राजाका निग्रह करूँ तथा इसका राज छीन लूँ ॥३३९-३४०॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोंसे मुनिराजकी मृत्यु हो गई और वे तीव्र वैरके कारण राजा उग्रसेनकी पद्मावती रानीके गर्भ में जा उत्पन्न हुए ॥३४१॥ उस रानी पद्मावतीको भी गर्भके बालककी क्रूरतावश राजाके हृदयका मांस खानेकी इच्छा हुई और उससे वह दुःखी होने लगी । यह जानकर मन्त्रियोंने अपनी बुद्धिसे कोई वनावटी चीज देकर कहा कि 'यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस है' इस प्रकार उसका दोहला पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३४२-३४३ ॥ जिसका दोहला पूरा हो गया है ऐसी रानी पद्मावतीने अनुक्रमसे वह पापी पुत्र प्राप्त किया, जिस समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय अपने ओठ ढस रहा था, उसकी दृष्टि क्रूर थी और भौंह टेढ़ी ॥ ३४४ ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोषण करना योग्य नहीं है यहाँ समझ कर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया और कांसोंकी एक सन्दूक बनवा कर उसमें उस पुत्रको पत्र सहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥ ३४५-३४६ ॥ कौशाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कलारन रहती थी उसने प्रवाहमें बहती हुई सन्दूकके भीतर स्थित उस बालकको देखा । देखते ही वह उसे उठा लाई और हितैषिणी बन अपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी । सो ठीक ही है क्योंकि तपस्वियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ? ॥ ३४७-३४८ ॥ कितने ही दिनोंमें वह सुदृढ़ अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले समस्त बालकोंको चाँटा, मुट्टी तथा डण्डा आदिसे पीड़ा पहुँचाने लगा । उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर मण्डोदरीने उसे छोड़ दिया—घरसे निकाल दिया ॥ ३४९-३५० ॥ अब वह शौर्यपुरमें जाकर राजा वसुदेवका सेवक बन गया और सदा उनकी सेवामें तरपर रहने लगा ॥ ३५१ ॥

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वह इस प्रकार है—यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंको जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ कार्य बाकी रह गया था । उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस आशयके पत्र भेजे कि जो राजा

१ परां मृतिम् ख० । २ सुतपावकम् ग०, घ० । ३ यमुनायाः । ४ मन्डोदरी ख० । ५ शौद्रमुन्दरी । ६ लम्बनादि सहं ख०, ग०, घ०, म० । ७ लङ्गनादिसहं ख० । ७ सुतम् ख० ।

अध्वानानवते देशस्यार्थं मन्पुत्रिकामपि । कलिन्दमेनासम्भूतां सर्तीं जीवद्यशोभिधाम् ॥३५३॥  
 दान्यार्मान्यभिभूपालान्प्राहिणोत्पन्नमालिकाः । वसुदेवकृमारस्तन्परिगृह्य प्रतापवान् ॥३५५॥  
 वाजिनः निहसृत्रेण भावयित्वा रथं स तैः । बाह्यमारुह्य संग्रामे जित्वा सिंहस्थं पृथुम् ॥३५६॥  
 कंसेन निजभृत्येन बन्धयित्वा महींपतेः । म्वयं ममर्पयामास सोऽपि तुष्टा सुतां निजाम् ॥३५७॥  
 देशार्थेन समं नमै प्रतिपन्नां प्रदत्तवान् । वसुदेवोऽपि तां द्रुप्लक्षणां वीक्ष्य नो मया ॥३५८॥  
 बद्धः सिंहस्थः कर्म कंसेनानेन तत्कृतम् । कन्या प्रदीयतामस्मै भवभ्रेपणकारिणे ॥३५९॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा जरासन्धनरेश्वरः । कुलं कंसस्य विज्ञातुं दूतं मण्डोदरीं प्रति ॥३६०॥  
 प्रेषयामास तं दृष्ट्वा किं तत्राप्यपराधवान् । मन्पुत्र इति भीत्वाऽसौ समञ्जुपाऽगमस्त्वयम् ॥३६१॥  
 आगत्य नृपतेरग्रे मानाऽभ्येयमिति क्षिन्तां । निक्षिप्य कंसमञ्जुपां प्रणिपत्यैवमब्रवीत् ॥३६२॥  
 आगतः कंसमञ्जुपामधिष्ठायायमर्भकः । जले कलिन्दकन्याया मयादायाभिवधिनः ॥३६३॥  
 कंसनाम्ना समाहूतस्तत एव 'पुरोद्भवैः । निमर्गशौर्यदपिष्टः शैशवेऽपि निमर्गलः ॥३६४॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा मञ्जुपान्तःस्थपत्रकम् । गृह्णित्वा वाचयित्वाञ्चैन्मसेनमहींपतेः ॥३६५॥  
 पद्मावत्याश्च पुत्रोऽयमिति ज्ञात्वा महींपतिः । वितनार सुतां तस्मै राज्यार्धञ्च प्रतुष्टवान् ॥३६६॥  
 कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण स्वस्थ नद्यां विसर्जनात् । प्रवृद्धपूर्ववैरः सन् कुपितो 'मथुरापुरीम् ॥३६७॥  
 स्वयमादाय बन्धस्थौ गोपुरे पितरौ न्यधान् । विचारविकलाः पापाः कांपिताः किं न कुर्वते ॥३६८॥

सुरस्य देशके मध्यमें स्थित पौदनपुरके स्वामी हमारे शत्रु सिंहस्थको युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बौधकर हमारे पास लावेगा उसे मैं आधा देश तथा कलिन्दसेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवद्यशा नामकी अपनी पतिव्रता पुत्री दूंगा । प्रतापी राजा वसुदेवने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मूत्र मँगाकर घोड़ोंके शरीर पर लगवाया, उन्हें रथमें जोता और तदनन्तर ऐसे रथपर आरूढ़ होकर चल पड़े । वहाँ जाकर उन्होंने संग्राममें उस भारी राजा सिंहस्थको जीत लिया और अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बँधवा कर स्वयं राजा जरासन्धको सौंप दिया । राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर वसुदेवके लिए आधे देशके साथ अपनी पूर्व प्रणिज्ञान पुत्री देने लगा । उस समय वसुदेवने देखा कि उस पुत्रीके लक्षण अच्छे नहीं हैं अतः कह दिया कि सिंहस्थको मैंने नहीं बँधा है यह कार्य इस कंसने किया है इसलिए इसी आज्ञाकारीके लिए यह कन्या दी जावे । वसुदेवके वचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसका कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दूत भेजा ॥३५२-३६०॥ दूतको देखकर मण्डोदरी डर गई और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है ? इसी भयसे वह सन्दूक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गई । वहाँ जाकर उसने 'यह सन्दूक ही इसकी माता है' यह कहते हुए पहले वह कांसकी सन्दूक राजाके आगे जमीन पर रख दी । तदनन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह बालक कांसकी सन्दूकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है ॥ ३६१-३६३ ॥ चूँकि यह कांसकी सन्दूक में आया था इसलिए गाँवके लोगोंने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया । यह स्वस्वभावसे ही अपनी शूर-वीरताका घमण्ड रखता है और बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका है' ॥ ३६४ ॥ मण्डोदरीके ऐसे वचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दूकके भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया । उसमें लिखा था कि यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरासन्धने कंसके लिए जीवद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया ॥ ३६५-३६६ ॥ जब कंसने यह सुना कि उत्पन्न होते ही मुझे मेरे माता-पिताने नदीमें छोड़ दिया था तब वह बहुत ही कुपित हुआ, उसका पूर्व पर्यायका वैर वृद्धिगत हो गया । उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर माता-पिताको कैद कर लिया और दोनोंको गोपुर—नगरके प्रथम दरवाजेके ऊपर रख दिया सो ठीक ही है क्योंकि



अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमर्हापतिम् । देवसेनसुतामस्मै देवकीमनुजां निजाम् ॥३६९॥  
 विभूतिमद्वितीयैवं काले कंसस्य गच्छति । अन्येद्युरतिमुक्ताख्यमुनिभिक्षार्थमागमत् ॥३७०॥  
 राजगोहं समीक्ष्यैवं हासाज्जीवद्यशा मुदा । देवकी पुष्पजानन्दवस्त्रमेरावानुजा ॥३७१॥  
 स्वस्याश्चेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचरादाकर्ण्य सकोपः सोऽपि गुप्तिभित् ॥३७२॥  
 सुतोऽस्यास्तव भर्तारं भाष्यवश्यं हनिष्यति । इत्यवोचरातः क्रुध्वा सा तद्वस्त्रं द्विधा व्यधात् ॥३७३॥  
 पतिमेव न ते तेन पितरश्च हनिष्यति । इत्युक्ता सा पुनः क्रुध्वा पादाभ्यां <sup>१</sup>तद्व्यमर्दयत् ॥३७४॥  
 तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः सागरावधिम् । पालयिष्यति भूनारीं नारी वेत्यब्रवीत्स ताम् ॥३७५॥  
 जीवद्यशाश्च तत्सर्वमवधार्य यथाश्रुतम् । गत्वा बुद्धिमती कंसं मिथः समवबोधयत् ॥३७६॥  
 हासेनापि मुनिप्रोक्तमवन्ध्यमिति भीतिमान् । वसुदेवमर्हाशं स <sup>२</sup>स्नेहादिदमयाचत ॥३७७॥  
 प्रसूतिसमयेऽवाप्य देवकी मद्गृहान्तरम् । प्रसूतिविधिपर्याप्तं विदध्यात्स्वन्मतादिति ॥३७८॥  
 सोऽपि तेनोपरुद्धः संस्तथात्वेतदमस्त <sup>३</sup> तम् । अवश्यम्भाविकार्येषु मुह्यन्त्यपि मुनीश्वराः ॥३७९॥  
 भिक्षार्थं देवकीगोहं स पुनश्च प्रविष्टवान् । प्रत्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृह्य तम् ॥३८०॥  
 देवकी वसुदेवश्च दीक्षात्र स्यान्न वावयोः । किमिति <sup>४</sup>छग्ना भूतां ज्ञात्वा सोऽपि तदिक्रितम् ॥३८१॥  
 सप्तपुत्राः समाप्स्यन्ते भवद्भ्यां तेषु षट्सुताः । परस्थानेषु वधित्वा यास्यन्ति परमां गतिम् ॥३८२॥  
 सप्तमः सकलां पृथ्वीं स्वच्छत्रच्छायया चिरम् । पालयिष्यति निर्वाप्य चक्रवर्तीत्यभाषत् ॥३८३॥  
 देवकी च मुदा पश्चात्त्रिष्टुत्वाप्तवती यमान् । चरमाङ्गानिमान् <sup>५</sup>ज्ञातवता शक्रेण चोदितः ॥३८४॥

विचार रहित पापी भनुष्य लुपित होकर क्या क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३६७-३६८ ॥ तदनन्तर कंस राजा वसुदेवको अपने नगरमें ले आया और उन्हें उसने बड़ी विभूतिके साथ राजा देवसेनकी पुत्री तथा अपनी छोटी बहिन देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा । किसी दूसरे दिन अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए राजभवनमें आये । उन्हें देख हँसीसे जीवद्यशा बड़े हर्षसे कहने लगी कि 'हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकालका वस्त्र है, यह आपकी छोटी बहिन इस वस्त्रके द्वारा अपनी चेष्टा आपके लिए दिखला रही है' । जीवद्यशाके उक्त वचन सुनकर मुनिका क्रोध भड़क उठा । वे वचनगुप्तिको भङ्ग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा वह तेरे पतिको अवश्य ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध आ गया और उसने उस वस्त्रके दो टुकड़े कर दिये । तब मुनिने कहा कि वह न केवल तेरे पतिको मारेगा किन्तु तेरे पिताको भी मारेगा । यह सुनकर तो उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा । अबकी बार उसने उस वस्त्रको पैरोंसे कुचल दिया । यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र स्त्रीकी तरह समुद्रान्त पृथिवी रूपी स्त्रीका पालन करेगा ॥ ३६९-३७५ ॥ जीवद्यशा इन सुनी हुई बातोंका विचार कर कंसके पास गई और उसे परस्परमें सब समझा आई ॥ ३७६ ॥ 'मुनि जो वान हँसीमें भी कह देते हैं वह सत्य निकलती है' यह विचार कर कंस डर गया और राजा वसुदेवके पास जाकर बड़े स्नेहसे याचना करने लगा कि आपकी आज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही घर आकर प्रसूतिकी पूरी विधि करे ॥ ३७७ ॥ कंसके अनुरोधसे वसुदेवने भी 'ऐसा ही होगा' यह कहकर उसकी बात मान ली सो ठीक ही है क्योंकि अवश्यम्भावी कार्यमें मुनिराज भी भूल कर जाते हैं ॥ ३७८-३७९ ॥ किसी दिन वही अति-मुक्त मुनि भिक्षाके लिए देवकीके घर प्रविष्ट हुए तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त विधिसे उनका पङ्क्तिगाहन किया । आहार देनेके बाद देवकी और वसुदेवने उनसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों भी दीक्षा ले सकेंगे ? मुनिराजने उनका अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्यों पूछते हो ? आप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, उनमेंसे छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर निर्वाण प्राप्त करेंगे और सातवाँ पुत्र चक्रवर्ती होकर अपने छत्रकी छायासे चिरकाल तक समस्त पृथिवीका पालन करेगा ॥ ३८०-३८३ ॥ यह सुनकर देवकी बहुत हर्षित हुई । तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र

द्विविजो नैगमार्थार्थो १ भद्रिलाल्यपुरेऽलका । वणिक्सुताया निक्षिप्य पुरस्तात्सुतान् मृतान् ॥३८५॥  
 तदा तदैव सम्भूय गृहीत्वा २ त्रिमितान्यमान् । तान् पुरस्तात्त्रिचिक्षेप देवक्या गृहकृत्यवित् ॥३८६॥  
 यमान् सोऽपि गतप्रागान् क्रमात्कंसः समीक्ष्य तान् । क्रिमेभिर्मे गतप्रागैरभून्सुनिरसत्यवाक् ॥३८७॥  
 इति मत्वापि सायङ्कः शिलापट्टे न्यपानयन् । पश्चात्सा सप्तमे मास एव स्वस्य निकेतने ॥३८८॥  
 निनामकमलञ्चोक्तं महाशुक्राच्च्युतं सुतम् । कंसानवगमेनैव नन्दगोपगृहे सुखम् ॥ ३८९॥  
 बालकं वर्धयिष्याव इति ३ नीतिविशारदा । पिता याना च तद्देवकीं विज्ञाप्य ततो बलः ॥३९०॥  
 तमुद्दध्रे पिता चास्य दधारानपवारणम् । ज्वलन्निशानभृङ्गाप्रविलसन्मगिर्दापका ॥३९१॥  
 निरस्ततिमिराटोपों वृषभोऽभूद्राप्रतः । तथा विकृतिमान्ना तत्पुण्यापुरदेवता ॥३९२॥  
 सद्यस्तदास्य बालस्य चरणस्पर्शसप्तमान् । उद्घाटितकवाटं नद्वन्नभूव पुरगोपुरम् ॥३९३॥  
 उग्रसेनस्तदालोक्य बन्धनस्थः समप्रवीत् । कवाटोद्घाटनं कोऽत्र करोतीत्यनिसम्भ्रमात् ॥३९४॥  
 तदाकर्ण्यैव बन्धावामचिरान्मोचयिष्यति । तूर्णामुपविशैत्युक्तो बलेन मथुराधिपः ॥३९५॥  
 तथास्त्विनि तमाशाभिः प्रतोपादबन्धनन्द्यन् । तौ च तस्माद्विनिर्गम्य यमुनां प्रापनुनिशि ॥३९६॥  
 भावि ४ चक्रिप्रभावेन दत्तामागा द्विधामवन् । सा सवर्णाश्रितः को वा नाद्रांसा व्रन्थुतां व्रजेत् ॥३९७॥  
 ५ सविस्मयीं विलङ्घ्यैतां गच्छन्तौ नन्दगोपतिम् । उद्घृष्ट्या बालिकां यन्नेनागच्छ ५ न्नमदर्शनाम् ॥३९८॥  
 इष्ट्वा ताभ्यां कुतो भद्र राज्ञावागमनं तव । निःसम्बस्येति सम्पृष्टः सः प्रणत्याभ्यभापत ॥३९९॥

प्राप्त किये । इन्द्रको मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरों हैं अतः उसने देवकीके गृह कार्यको जाननेवाले नैगमर्ष नामके देवको प्रेरणा की । इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नैगमर्ष देव देवकीके इन पुत्रोंको ले जाकर भद्रिलपुर नगरमें अलका नामकी वैश्य पुत्रीके आगे डाल आता था और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोंको देवकीके सामने डाल देता था ॥ ३८४-३८६ ॥ कंसने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर विचार किया कि इन निर्जीव पुत्रोंसे मेरी क्या हानि हो सकती है ? मुनि असत्यवादी भी तो हो सकते हैं । उसने ऐसा विचार किया सही परन्तु उसकी राझा नहीं गई इसलिए वह उन मृत पुत्रोंको शिलाके ऊपर पछाड़ता रहा । इसके बाद निनामक मुनिका जीव महाशुक्र स्वर्गसे च्युत होकर देवकीके गर्भमें आया । अबकी बार उसने अपने ही घर सातवें महीने में ही पुत्र उत्पन्न किया । नीतिविद्यामें निपुण वसुदेव और बलभद्र पढ़ाने विचार किया कि कंसको विना जताये ही इस पुत्रका नन्दगोपके घर सुखसे पालन-पोषण करावेंगे । पिता और भाईने अपने विचार देवकीको भी बतला दिये । बलभद्रने उस बालकको उठा लिया और पिताने उस पर छत्र लगा लिया उस समय घोर अन्धकार था अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया वश एक बैलका रूप बनाकर उनके आगे हां गया । उस बैलके दोनों पैने सींगों पर देदीप्यमान मणियोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार दूर होता जाता था ॥ ३८७-३८९ ॥ गांपुरके किवाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पर्श होते ही खुल गये । यह देख बन्धनमें पड़े हुए उपसेनने बड़े जोभके साथ कहा कि इस समय किवाड़ कौन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्रने कहा कि आप चुप बैठिये यह बालक शीघ्र ही आपको बन्धनसे मुक्त करेगा । मथुराके राजा उपसेनने सन्तुष्ट होकर 'ऐसा ही हो' कहकर आशीर्वाद दिया । बलभद्र और वसुदेव वहाँसे निकल कर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे पहुँचे । होनहार चक्रवर्तीके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन आर्द्रात्मा ( जल स्वरूप पक्षमें दयालु ) होगा जो अपने समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारेको प्राप्त नहीं हो ॥ ३६३-३६७ ॥ इधर बड़े आश्चर्यसे यमुनाको पार कर बलभद्र और वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर वह भी एक बालिकाको लेकर आ रहा था । बलदेव और वसुदेवने उसे देखते ही पूछा कि हे भद्र ! रात्रिके

१ भद्रिलाल्य ग०, म० । २ त्रीन्मृतान्यमान् ग० । त्रीन्मृतानिमान् ख० । ३ नन्दविशारदौ ल० । ४ चक्र-ख० । ५ सत्त्रिमयो ल० । ६ नागञ्छत्तम-ल० ।

मन्त्रिया पुत्रलाभार्थं भवतोः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यर्च्य श्रद्धानाद् भूतदेवताः ॥४००॥  
 आशास्य स्त्रीत्ववद्रात्रावद्यपत्यमवाप्य सा । सशोका दीयतामेतत्ताभ्य एवेति मात्रवीत् ॥४०१॥  
 तदर्पयितुमायासो ममायं स्वामिनाविति । तद्वचः सम्यगाकर्ण्य सिद्धमस्मत्प्रयोजनम् ॥४०२॥  
 इति सन्तुष्य तत्सर्वमवबोधय प्रवृत्तकम् । तदपत्यं समादाय दत्त्वा तस्मै स्वमर्भकम् ॥४०३॥  
 भाविचक्रधरं विद्धि बालमित्यभिधाय च । अनन्यविदितौ गूढं तौ तदाविशतां पुरम् ॥४०४॥  
 नन्दगोपोऽपि तं बालमादाय गृहमागतः । तुभ्यं सुतं महापुण्यं प्रसन्ना देवता ददुः ॥४०५॥  
 इत्युदीर्यार्पयायास स्वप्रियायै श्रियः पतिम् । कंसोऽपि देवकी स्त्रीत्ववदपत्यमसूयत ॥४०६॥  
 इति श्रुत्वा समागत्य तां व्यधाद् भुध्नवासिकाम् । भूमिगेहे प्रयत्नेन मात्रा साध्वभिवर्धिता ॥४०७॥  
 सा सुव्रतायिकाभ्यर्णे शोकात्स्वविकृताकृतेः । गृहीतदीक्षा विन्ध्याद्रौ स्थानयोगमुपाश्रिता ॥४०८॥  
 देवतेति समभ्यर्च्य गतेषु वनवासिषु । व्याघ्रेण भक्षिता मंक्षु स्वर्गलोकमुपागमत् ॥४०९॥  
 अपरस्मिन्दिने व्याघ्रैर्दृष्ट्वा हस्तांगुलित्रयम् । तस्याः क्षीराङ्गरागादिपूजितं देशवासिनः ॥४१०॥  
 मूढात्मानः स्वयं चैतदायासौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यर्च्य तदारभ्याप्रमाणयन् ॥४११॥  
 अथाकस्मात्पुरे तस्मिन्महोत्पातविजृम्भणे । वरुणाख्यं निमित्तज्ञं द्राक्कंसः परिवृष्टवान् ॥४१२॥  
 किमेतेषां फलं ब्रूहि यथार्थमिति सोऽब्रवीत् । तव शत्रुः समुत्पन्नो महानिति निमित्तवित् ॥४१३॥  
 तदाकर्ण्य महीनाथं चिन्तयन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोचस्ताः किंकर्तव्यमिति श्रिताः ॥४१४॥

समय अकेले ही तुम्हारा आना क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जाने पर नन्दगोपने प्रणाम कर कहा कि 'आपकी सेना करनेवाली मेरी स्त्रीने पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्हीं भूत देवताओं की गन्ध आदिसे पूजाकर उनसे आशीर्वाद चाहा था । आज रात्रिको उसने यह कन्या रूप सन्तान पाई है । कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुझसे कहने लगी कि ले जाओ यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंको दे आओ—मुझे नहीं चाहिए । सो हे नाथ ! मैं यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंको देनेके लिए जा रहा हूँ' । उसकी बात सुनकर बलदेव और वसुदेवने कहा कि 'हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया' ॥ ३६८-४०२ ॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंने नन्द गोपके लिए सब समाचार सुना दिये, उसकी लड़की ले ली और अपना पुत्र उसे दे दिया । साथ ही यह भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ती समझो । यह सब काम कर बे दोनों किसी दूसरेको मालूम हुए बिना ही गुप्त रूपसे नगरमें वापिस आ गये ॥ ४०३-४०४ ॥

इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर घर आया और 'लो, प्रसन्न होकर उन देवताओंने तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान् पुत्र दिया है' यह कहकर अपनी प्रियाके लिए उसने वह होनहार चक्रवर्ती सौंप दिया । यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पैदा की है तो वह सुनते ही उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी और तदनन्तर उसे धायके द्वारा एक तलघटमें रखकर बड़े प्रयत्नसे बढ़ाया ॥ ४०५-४०७ ॥ बड़ी होनेपर उसने अपनी विकृत आकृतिको देखकर शोकसे सुव्रता आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली और विन्ध्याचल पर्वत पर रहने लगी ॥ ४०८ ॥ एक दिन वनमें रहनेवाले भील लोग उसे देवता समझ उसकी पूजा करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्याघ्रने उसे शीघ्र ही खा लिया । वह मरकर स्वर्ग चली गई । दूसरे दिन जब भील लोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अङ्गुलियाँ दिखाई । वहाँके रहनेवाले मूर्ख लोगोंने उन अङ्गुलियोंकी दूध तथा अङ्गराग आदिसे पूजा की । उसी समयसे 'यह आर्या ही विन्ध्य-वासिनी देवी है' ऐसा समझ कर लोग उसकी मान्यता करने लगे ॥ ४०९-४११ ॥

अथानन्तर—अकस्मात् ही मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे । उन्हें देख, कंसने शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तज्ञानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन उत्पातोंका फल क्या है ? निमित्त-ज्ञानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है ॥ ४१२-४१३ ॥ निमित्तज्ञानीकी

शत्रुं मम समुत्पन्नमन्विष्याह्न पापिनम् । इत्यसौ प्रेषयामास ताः ससापि तथास्त्विति ॥४१५॥  
 १ अगमन्पूजना ताम् वामुदेवं विभङ्गनः । विज्ञायादाय तन्मानुरूपं हन्तुमुपागता ॥४१६॥  
 विपस्तनपयःपायनोपायेन श्वालग्नीः । नद्वालपालनोपुक्ता काप्यन्यायात् देवता ॥४१७॥  
 स्ननयोर्वलवर्पाङ्गं तन्पानसमये व्यवात् । प्रपलायन साक्रुध्य तर्पाङ्गं सोढुमक्षमा ॥४१८॥  
 शकटाकारमादाय पुनरन्यापि देवता । बालस्थोपरि धावन्ती पादाभ्यां तेन सा हता ॥४१९॥  
 अन्येद्युर्नन्दगोपस्य वध्वा कञ्चामुल्लङ्घलम् । अगच्छज्जलमानेनुमन्वगच्छतथाप्यसौ ॥४२०॥  
 परिपीडयितुं बालं तदा ककुभपादपौ । भूत्या श्रितौ सुरीभेदौ स मूलदुन्दुपाटयन् ॥४२१॥  
 तच्चक्रमणवेलायां नालन्याह्निमास्थिता । एका फलानि तन्मूर्धेन प्रपातयितुमुद्यता ॥४२२॥  
 रासभीरूपमापाद्य तं द्रुमुपरागता । चरगे रासभीं विष्णुर्गृहीत्वाह्नम् तं द्रुमम् ॥४२३॥  
 अन्येद्युर्देवताव्यापि विकृत्य नुरगाङ्गितम् । तं हन्तुं प्रस्थिता तस्य सोऽदलद्वन्द्वं रूपा ॥४२४॥  
 आहन्तुमसमर्थाः स्म इत्युक्त्वा सप्तदेवताः । कंसाभ्याजं ममागत्य विलीना इव विद्युतः ॥४२५॥  
 शक्त्यां देवतानाञ्च निस्साराः पुण्यवज्जने । आयुधानामिवेन्द्राक्षे परस्मिन्ष्टकर्मणाम् ॥४२६॥  
 अरिष्टाख्यसुरोऽन्येद्युर्वीक्षितुं तत्पराक्रमम् । आयाकृष्णं वृषाकारस्नद्वीवाभङ्गनोद्यतम् ३ ॥४२७॥

वात मुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया । उसी समय उमके पूर्व भवमें सिद्ध हुए सात व्यन्तर देवता आकर कहने लगे कि हमलोगोंको क्या कार्य सौंपा जाना है ॥ ४१४ ॥ कंसने कहा कि 'कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है उस पापीको तुम लोग खोज कर मार डालो' । ऐसा कहकर उसने उन सातों देवताओंको भेज दिया और वे देवता भी 'तथास्तु' कहकर चल पड़े ॥ ४१५ ॥ उन देवताओं मेंसे पूतना नामकी देवताने अपने विभङ्गावधि ज्ञानसे कृष्णको जान लिया और उसकी माताका रूप रखकर मारनेके लिए उसके पास गई ॥ ४१६ ॥ वह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी और विष भरे स्ननका दूध पिलाकर कृष्णको मारना चाहती थी । इधर पूतना कृष्णके मारनेका विचार कर रही थी उधर कोई दूसरी देवी जो बालक कृष्णकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहती थी पूतनाकी दुष्टताको समझ गई । पूतना जिस समय कृष्णको दूध पिलानेके लिए तैयार हुई उसी समय उस दूसरी देवीने पूतनाके स्तनमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी । पूतना उस पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गई और चिल्ला कर भाग गई ॥ ४१७-४१८ ॥ तदनन्तर किसी दिन कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णके ऊपर दौड़ती हुई आई, उसे श्रीकृष्णने दोनों पैरोंमें ताड़ डाला ॥ ४१९ ॥ किसी एक दिन नन्दगोपकी स्त्री बालक श्रीकृष्णको एक बड़ी उल्लूखलसे बाँध कर पानी लेनेके लिए गई थी परन्तु श्रीकृष्ण उस उल्लूखलको अपनी कमरसे घटीसला हुआ उसके पीछे चला गया ॥ ४२० ॥ उसी समय दो देवियाँ अर्जुन वृक्षका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णको पीड़ा पहुँचानेके लिए उनके पास आईं परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ डाला ॥ ४२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी ताड़का वृक्ष बन गई । बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते जब उसके नीचे पहुँचा तो दूसरी देवी उसके मस्तक पर फल गिरानेकी तैयारी करने लगी और कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई । श्रीकृष्णने उस गधीके पैर पकड़ कर उसे ताड़ वृक्षसे दे मारा जिससे वे तीनों ही देवियाँ नष्ट हो गईं ॥ ४२२-४२३ ॥ किसी दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर कृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने क्रोधवश उसका मुँह ही तोड़ दिया । इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर बोलीं कि 'हमलोग आपके शत्रुको मारनेमें असमर्थ हैं' इतना कहकर वे बिजली के समान विलीन हो गईं ॥ ४२४-४२५ ॥ अन्य लोगों पर अपना कार्य दिखानेवाले शस्त्र जिस प्रकार इन्द्रके वज्रायुध पर निःसार हो जाते हैं उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देवीकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके विषयमें निःसार हो जाती हैं ॥ ४२६ ॥ किसी एक दिन अरिष्ट नामका असुर श्रीकृष्णका बल देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी

नस्य माताभितर्जनं विरमाफलचेष्टितात् । पुत्रैवमादिनः क्लेशान्तरसम्पादकादिति ॥४२८॥  
 भृत्यो निवारयामास तथाप्येतन्मद्रोद्धुरः । सोऽन्वतिष्ठन्नित्यन्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥  
 श्रुत्वा तत्पौरुषं ख्यातं जनजल्पैः समुत्सुकौ । गोमुखीनामधेयोपवासव्याजमुपागतौ ॥४३०॥  
 देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा । व्रजं गोधावनं यातौ परिवारपरिष्कृतौ ॥४३१॥  
 तत्र कृष्णं समालम्ब्य स्थितवन्तं महाबलम् । दर्पिणो वृषभेन्द्रस्य ग्रीवां भङ्गत्वा तदैव तौ ॥४३२॥  
 विलोक्य गन्धमाद्व्यादिमाननानन्तरं पुनः । प्रीत्या भूपयतः स्मातः कुर्वन्त्या व्राक् प्रदक्षिणम् ॥४३३॥  
 देवक्याः स्तनयोः शातकुम्भकुम्भाभयोः पयः । निर्गलन्त्यपतन्मूर्ध्नि कृष्णस्येवाभिषेचनम् ॥४३४॥  
 सीरपाणिन्तदन्वीक्ष्य मन्त्रभेदभयाद् द्रुतम्<sup>१</sup> । उपवासपरिश्रान्ता मूर्च्छितेति वदन्सुधीः ॥४३५॥  
 कुम्भपूर्णपयोभिस्तामभ्यपिञ्चत्समन्ततः । ततो ब्रजाधिपादीनामपि तद्योग्यपूजनम् ॥४३६॥  
 कृत्वा कृष्णं च गोपालकुमारैर्जातसम्मदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र भुक्त्वा पुरमविक्षताम् ॥४३७॥  
 स कद्राचिन्महावर्षापाते गोवर्धनाह्वयम् । हरिः पर्वतमुद्ध्यत्य चकारावरणं गवाम् ॥४३८॥  
 तेन ज्योत्स्नेव तर्कान्तिव्याप्नोति स्माखिलं जगत् । अरातिवदनाम्भोजराजिसङ्कोचकारिणी ॥४३९॥  
 तत्पुरस्थापनाहेतुभूतजैनालयान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥  
 सर्पशय्याधनुः शङ्खो रत्नत्रितयसुद्ययौ । देवतारक्षितं लक्ष्मीं भाविनीमस्य सूचयत् ॥४४१॥  
 सभयस्तानि दृष्ट्वाख्यद्रुणं मथुरापतिः । प्रादुर्भवनमेतेषां किं फलं कथयेति तम् ॥४४२॥  
 राजन्नेतानि शास्त्रोक्तविधिना साधयेत्स यः । राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसौ ॥४४३॥

गर्दन ही तोड़नेके लिए तैयार हो गया। अन्तमें माताने उसे ललकार कर और हे पुत्र! दूसरे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेवाली इन व्यर्थकी चेष्टाओंसे दूर रह' इत्यादि कहकर उसे रोका ॥ ४२७-४२८ ॥ यद्यपि माता यशोदा उसे इन कार्योंसे वार-वार रोकती थी पर तो भी मदसे उद्धत हुआ बालक कृष्ण इन कार्योंको करने लगता था सो ठीक ही है क्योंकि महाप्रनापी पुरुष साहसके कार्यमें रोके नहीं जा सकते ॥ ४२९ ॥ देवकी और वसुदेवने लोगोंके कहनेसे श्रीकृष्णके पराक्रमकी बात सुनी तो वे उसे देखनेके लिए उत्सुक हो उठे। निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवासके बहाने बलभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए व्रजके गोधा वनमें गये ॥ ४३०-४३१ ॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबलवान् कृष्ण किसी अभिमानी वैलकी गर्दन भुकाकर उससे लटक रहे थे। देवकी तथा बलदेवने उसी समय कृष्णको देखकर गन्ध माला आदिके उसका सम्मान किया और स्नेहसे आभूषण पहिनाये। देवकीने उसकी प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणाके समय देवकीके सुवर्ण कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध भरकर कृष्णके मस्तक पर इस प्रकार पड़ने लगा मानो उसका अभिषेक ही कर रही हो। बुद्धिमान् बलदेवने जब यह देखा तब उन्होंने मन्त्रभेदके भयसे शीघ्र ही 'यह उपवाससे थककर मूर्च्छित हो रही है' यह कहते हुए दूधसे भरे कलशोंसे उसका खूब अभिषेक कर दिया। तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव आदिने व्रजके अन्य अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, हर्षित होकर गोपाल बालकोंके साथ श्रीकृष्णको भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया और तदनन्तर लौटकर मथुरापुरीमें वापिस आ गये ॥ ४३२-४३७ ॥ किसी एक दिन व्रजमें बहुत वर्षा हुई तब श्रीकृष्णने गोवर्धन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रक्षा की थी ॥ ४३८ ॥ इस कामसे चाँदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल गई और वह शत्रुओंके मुखरूपी कमलसमूहको सङ्कुचित करने लगी ॥ ४३९ ॥ तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मथुरापुरीकी स्थापनाका कारण भूत था उसके समीप ही पूर्व दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्ण के पुण्यकी अधिकतासे नागशय्या, धनुष और शङ्ख ये तीन रत्न उत्पन्न हुए। देवता उनकी रक्षा करते थे और वे श्रीकृष्णकी ह्रीनहार लक्ष्मीको सूचित करते थे ॥ ४४०-४४१ ॥ मथुराका राजा कंस उन्हें देखकर डर गया और वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पूछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल क्या है? सो कहो ॥ ४४२ ॥ वरुणने कहा कि हे राजन्! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध

कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा संसिसाधयिषुः स्वयम् । तान्यशक्तोऽमनाकृषिञ्चो विरतः साधनोद्यमान् ॥४४४॥  
 अधिरुद्धाहिजां शय्यां शङ्खमेककरेण यः । प्रयन्त्यपि यश्चापं चारोपयति हेलेया ॥४४५॥  
 परेण तस्मै भूमतां स्वसुतां दास्यतीति तम् । परिज्ञानुं स साशङ्को घोषणां पुर्यकारयन् ॥४४६॥  
 तद्वातांश्रवणाद्विद्वमर्होशाः सहसागमन् । तथा राजगृहान्कंसमैथुनो भानुसखिभः<sup>१</sup> ॥४४७॥  
 सुभानुर्भानुनामानं स्वमृतुं सर्वसम्पदा । समादाय समागच्छस्त्रिवेदुसभिलापवान् ॥४४८॥  
 गोधावनमहानागनिवाससरस्तन्टे । विना कृष्णेन वार्यस्मदानेतुं सरसः परैः ॥४४९॥  
 अशक्यमिति गोपालकुमारोक्त्या महीपतिः । तमाहूय बलं तत्र यथास्थानं न्यवीविशन् ॥४५०॥  
 क गम्यते त्वया राजञ्जित कृष्णेन भापितः । स्वभानुर्मथुरायानप्रयोजनमवबुधन् ॥४५१॥  
 श्रुत्वैतत्कर्म किं कर्तुं स्यात्तदस्मद्विचैरपि । इति कृष्णपरिप्रश्ने वीक्ष्य पुण्याधिकः शिशुः ॥४५२॥  
 न केवलोऽयमित्येहि शक्तश्चेत्तस्य कर्मणः । इत्यादाय स्वपुत्रं वा स्वभानुस्तं पुरीमगात् ॥४५३॥  
 कंसं यथाहंमालोक्य तत्कर्मघटकान्बहून् । भग्नमानांश्च संवीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम् ॥४५४॥  
 युगपत्त्रितयं कर्म समासिमनयद्दरिः । ततः स्वभानुनादिष्टो दिष्ट्या कृष्णोऽगमद् व्रजम् ॥४५५॥  
 तत्कृतं भानुनैवेति कैश्चित्कंसो निबोधितः । कैश्चिच्च भानुनान्येन कुमारैरेणित रक्षकैः ॥४५६॥  
 तच्छ्रुत्वान्विष्यतां सोऽन्यस्तस्मै कन्या प्रदीयते । स कस्य किं<sup>१</sup> कुलं कस्मिन्निति राजाऽन्रवीदिदम् ४५७  
 अवधार्य स्वपुत्रेण सम्यक्कर्मसमर्थिनम् । गोमण्डलेन भीत्वामा नन्दगोपः पलायत ॥४५८॥

कर लोगा वह चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करंगा ॥ ४४३ ॥ कंसने वरुणके वचन सुनकर उन तीनों रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्तु वह असमर्थ रहा और बहुत भारी खिन्न होकर उनके सिद्ध करनेके प्रयत्नसे विरत हो गया—पीछे हट गया ॥ ४४४ ॥ ऐसा कौन बलवान् है जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनेके लिए भयभीन कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो भी नागशय्या पर चढ़कर एक हाथसे शङ्ख बजावेगा और दूसरे हाथसे धनुषको अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥ ४४५-४४६ ॥ यह घोषणा सुनते ही अनेक राजा लोग मथुरापुत्री आने लगे । राजगृहसे कंसका साला स्वभानु जो कि सूर्यके समान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ लेकर बड़े वैभवसे आ रहा था । वह मार्गमें गोधावनके उस सरोवरके किनारे जिसमें कि बड़े-बड़े सर्पोंका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जब उसे गोपाल बालकोंके कहनेसे मालूम हुआ कि इस सरोवरसे कृष्णके सिवाय किन्हीं अन्य लोगोंसे द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णको बुलाकर अपने पास रख लिया और सेनाको यथास्थान ठहरा दिया ॥ ४४७-४५० ॥ अबसर पाकर कृष्णने राजा स्वभानुसे पूछा कि हे राजन्! आप कहाँ जा रहे हैं? तब उसने मथुरा जानेका सब प्रयोजन कृष्णको वनला दिया । यह सुनकर कृष्णने फिर पूछा—क्या यह कार्य हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वभानुने सोचा कि यह केवल बालक ही नहीं है इसका पुण्य भी अधिक मालूम होता है । ऐसा विचार कर उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह कार्य करनेमें समर्थ है तो हमारे साथ चल । इतना कह कर स्वभानुने कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ ले लिया । मथुरा जाकर उन्होंने कंसके यथायोग्य दर्शन किये और तदनन्तर उन समस्त लोगोंको भी देखा कि नागशय्या आदिको बश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं मिलनेसे जिनका मान भङ्ग हो गया था । श्रीकृष्णने भानुको अपने समीप ही खड़ा कर उक्त तीनों कार्य समाप्त कर दिये और उसके बाद स्वभानुका संकेत पाकर शीघ्र ही वह कुशलता पूर्वक व्रजमें वापिस आ गया ॥ ४५१-४५५ ॥ 'यह कार्य भानुने ही किया है' ऐसा कुछ पहरेदारोंने कंसको बतलाया और कुछने यह बतलाया कि यह कार्य भानुने नहीं किन्तु किसी दूसरे कुमारने किया है ॥ ४५६ ॥ यह सुन कर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस अन्य कुमारकी खोज की जावे, वह किसका लड़का है? उसका क्या कुल है? और कहाँ रहता है? उसके लिए कन्या दी जावेगी ॥ ४५७ ॥ इधर नन्दगोपको जब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि

१ सन्निभम् ल० । २ किकुलः ग० ।

शैलस्तम्भं समुद्धृतुं तत्र सर्वेऽन्यदा गताः । नाशक्तुवन् समेत्यैते कृष्णेनैव समुद्धृतः ॥ ४५९ ॥  
 प्रहृष्य साहसारास्माद्विस्मिता जनसंहतिः । परार्घ्यं वस्त्रभूषादिदानेन तमपूजयत् ॥ ४६० ॥  
 पितामुष्य प्रभावेण कुतश्चिदपि मे भयम् । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं ब्रजमवापयत् ॥ ४६१ ॥  
 नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ यस्तत्त्रितयकर्मकृत् । इत्यन्वेष्टुं गतैः सम्यक् ज्ञापितेनाप्यनिश्चितेः १ ॥ ४६२ ॥  
 सहस्रपत्रमम्भोजमन्यदाऽहीन्द्ररक्षितम् । प्रहीयतामिति प्रोक्तो राज्ञा जिज्ञासया रिपुम् ॥ ४६३ ॥  
 श्रुत्वा तद्गोपतिः शोकादाकुलः किल भूभुजः । प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारकाः ॥ ४६४ ॥  
 इति निर्विद्य याद्वङ्ग राजादिष्टिर्ममेदशी । त्वयैवाभ्युदयग्रसर्परक्षयाणि भूभुजः ॥ ४६५ ॥  
 नेयानीत्यब्रवीत्कृष्णं २ सोऽपि किं वात्र दुष्करम् । नेष्यामीति महानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥ ४६६ ॥  
 अविशाखापि निःशङ्कं ३ तद्ज्ञात्वा कोपदीपितः । स्वनिःश्वाससमुद्भूतज्वलज्वालाकणान् किरन् ॥ ४६७ ॥  
 चूडामणिप्रभाभासिस्फुटाटोपभयङ्करः । चलजिह्वाद्वयः स्फूर्जद्वीक्षणायुअवीक्षणः ॥ ४६८ ॥  
 प्रत्युत्थाय यमाकारो निर्गलितुं तमुद्यतः । सोऽपि मद्भसनस्वैषा ४ स्फटा शुद्धशिलास्त्विति ॥ ४६९ ॥  
 पीताम्बरं समुद्धृत्य जलाद्दं मधुसूदनः । ५ स्फटामास्फालयामास पक्षकेनैव पक्षिराट् ॥ ४७० ॥  
 वज्रपातायितात्समाद्वक्षापाताद्विभीतवान् । पूर्वपुण्योदयाच्चास्य फणीन्द्रोऽदृश्यतामगात् ॥ ४७१ ॥  
 हरिर्यथेष्टमञ्जानि समादाय निजद्विषः । समीपं प्रापयत्तानि दृष्टारिं ६ इष्टवानिव ॥ ४७२ ॥

यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डर कर अपनी गायोंके साथ कहीं भाग गया ॥ ४५८ ॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खंभा उखाड़नेके लिए बहुतसे लोग गये परन्तु सब मिल कर भी उस खंभाको नहीं उखाड़ सके और श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया ॥ ४५९ ॥ लोग इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए और श्रीकृष्णके इस साहससे आश्चर्यमें पड़ गये । अनन्तर सब लोगोंने श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की ॥ ४६० ॥ यह देख नन्दगोपने विचार किया कि मुझे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं हो सकता । ऐसा विचार कर वह अपने पहलेके ही स्थान पर ब्रजमें वापिस आ गया ॥ ४६१ ॥ खोज करनेके लिए गये हुए लोगोंने यद्यपि कंसको यह अच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कार्य किये थे वह नन्दगोपका पुत्र है तथापि उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जाँच करनेकी इच्छासे दूसरे दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नाग राजा जिसकी रक्षा करते हैं वह सहस्रदल कमल भेजो । राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा लोग प्रजाकी रक्षा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे अब मारनेवाले हो गये ॥ ४६२-४६४ ॥ इस तरह खिन्न होकर उसने कृष्णसे कहा कि हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी ऐसी आज्ञा है अतः जा, भयंकर सर्प जिनकी रक्षा करते हैं ऐसे कमल राजाके लिए तू ही ला सकता है । पिता की बात सुनकर कृष्णने कहा कि 'इसमें कठिन क्या है ? मैं ले आऊँगा' ऐसा कह कर वह शीघ्र ही महासर्पसे युक्त सरोवरकी ओर चल पड़ा ॥ ४६५-६६६ ॥ और बिना किसी शङ्काके उस सरोवरमें घुस गया । यह जान कर यमराजके समान आकारवाला नागराज उठ कर उसे निगलनेके लिए तैयार हो गया । उस समय वह नागराज क्रोधसे दीपित हो रहा था, अपनी आसोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण विखेर रहा था, चूडामणिकी प्रभासे देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयङ्कर था, उसकी दोनों जिह्वाएँ लप-लप कर रही थीं और चमकीले नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया कि इसकी यह फणा हमारा वस्त्र धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो । ऐसा विचार कर वे जलसे भीगा हुआ अपना पीताम्बर उसकी फणा पर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी अपना पंखा पछाड़ता है । वज्रपातके समान भारी दुःख देनेवाली उनके वस्त्रकी पछाड़से वह नागराज भयभीत हो गया और उनके पूर्व पुण्यके उदयसे अदृश्य हो गया ॥ ४६७-४७१ ॥ तदनन्तर

१ निश्चितैः ख० । २ कृष्णः ल० । ३ तं ज्ञात्वा ख०, ग० । ४ स्फटा ख० । ५ स्फुट-क० । ६ इष्टवानिव ल० ( ? ) ।

नन्दगोपसमीपेऽस्थान्मच्छत्रुरिति निश्चयान् । कदाचिन्नन्दगोपालं मलयुद्धं निरीक्षितुम् ॥ ४७३ ॥  
 निजमल्लैः सहागच्छेदिति सन्दिशानि स्म सः । सोऽपि कृष्णादिभिर्मल्लैः सह प्राविक्षदक्षयम् ॥ ४७४ ॥  
 कञ्चिन्नगराजं वीतबन्धनं यमसञ्चिभम् । मद्गन्धसमाकृष्टरुवद्भ्रमरसेवितम् ॥ ४७५ ॥  
 १ विनयच्युतभूपालकुमारं वा निरङ्कुशम् । रदनाघातनिर्भिन्नमुधाभवनभित्तिकम् ॥ ४७६ ॥  
 आधावन्नं विलोक्यासौ प्रतीप्योत्पाठ्य २ भीषणम् । रदमेकं कुमारस्तं तेनैव समताडयत् ॥ ४७७ ॥  
 सोऽपि भीतो गतो दूरं ततस्तुष्टा हरिभृशम् । जयोऽनेन निमित्तेन ३ स्फुटं वः प्रकटीकृतः ॥ ४७८ ॥  
 इति गोपान् समुत्साह्य प्राविशत्कंससदम् । वसुदेवमर्हापोऽपि ४ कंसाभिप्रायवितदा ॥ ४७९ ॥  
 स्वसैन्यं समुपायेन सन्नाहं कत्र तस्थिवान् । मारपाणिः समुत्थाय कृतदाः स्फालनध्वनिः ॥ ४८० ॥  
 कृष्णो न सह रङ्गं वा समन्तात्स परिभ्रमन् । कंसं नाशयितुं कालम्नवेत्याख्याय निर्गतः ॥ ४८१ ॥  
 तदा कंसाज्ञया विष्णुविधेया गोपमूनवः । दर्पिणो भुजमात्फाल्य धृतमल्लपरिच्छदाः ॥ ४८२ ॥  
 श्रवणाह्लादिवादिप्रचटुलध्वनिसङ्गताः । ५ क्रमोक्षेपविनिक्षेपाः प्रोञ्चतांसद्वयोद्भवाः ॥ ४८३ ॥  
 पर्यायनतितप्रेक्ष्य भुञ्जन् भीषणारवाः । निवर्तनैः ६ समावर्तनैः सम्भ्रमणवल्गनैः ॥ ४८४ ॥  
 प्लवनैः समवस्थानैरन्यैश्च करणैः स्फुटैः ७ । रङ्गाभ्यर्णमलंकृत्य तस्थुर्वैत्रमनोहराः ॥ ४८५ ॥

श्रीकृष्णने इच्छानुसार कमल तोड़ कर शत्रुके पास पहुँचा दिये उन्हें देखकर शत्रुने ऐसा समझा मानों मैंने शत्रुको ही देख लिया हो॥४७२॥ इस घटनासे राजा कंसको निश्चय होगया कि हमारा शत्रु नन्द गोप-के पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्द गोपालको संदेश भेजा कि तुम अपने मल्लोंके साथ मलयुद्ध देखनेके लिए आओ। संदेश सुनकर नन्द गोप भी श्रीकृष्ण आदि मल्लोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए॥४७३-४७४॥ नगरमें घुसते ही श्रीकृष्णकी ओर एक मत्त हाथी दौड़ा। उस हाथीने अपना बन्धन तोड़ दिया था, वह यमराजके समान जान पड़ता था, मद्की गन्धसे खिंचे हुए अनेक भौर उसके गण्डस्थल पर लग कर शब्द कर रहे थे, वह विनय रहित किसी राजकुमारके समान निरङ्कुश था, और अपने दाँतोंके आघातसे उसने बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी दीवारें गिरा दी थीं। उस भयंकर हाथीको सामने दौड़ता आना देख श्रीकृष्णने निर्भय होकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया और दाँतसे ही उसे खूब पीटा। अन्तमें वह हाथी भयभीत होकर दूर भाग गया। तदनन्तर 'इस निमित्तसे आप लोगोंकी जीत स्पष्ट ही होगी' संतुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णने साथके गोपालोंको पहले तो खूब उत्साहित किया और फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया। कंसका अभिप्राय जाननेवाले राजा वसुदेव भी उस समय किसी उपायसे अपनी सेनाको तैयार किये हुए वहाँ एक स्थान पर बैठे थे। बलदेवने उठकर अपनी भुजाओंके आस्फालनसे ताल ठोक कर शब्द किया और कृष्णके साथ रङ्गभूमिके चारों ओर चक्कर लगाया। उसी समय उन्होंने श्री कृष्णसे कह दिया कि 'यह तुम्हारा कंसको मारनेका समय है' इतना कह वे रङ्गभूमिसे बाहर निकल गये ॥ ४७५-४८१ ॥ इसके बाद कंसकी आज्ञासे कृष्णके सेवक, अहंकारी तथा मल्लोंका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक अपनी भुजाओंको ठोकते हुए रङ्गभूमिमें उतरे। उस समय कानोंको आनन्दित करनेवाले बाजोंकी चञ्चल ध्वनि हो रही थी और उसीके अनुसार वे सब अपने पैर रखते उठाते थे, ऊँचे उठे हुए अपने दोनों कन्धोंसे वे कुछ गर्विष्ठ हो रहे थे, कभी दाहिनी भ्रुकुटि चलाते थे तो कभी बाईं। बीच-बीचमें भयंकर गर्जना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लौट जाते थे, कभी आगे चक्कर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे, कभी उछल पड़ते थे और कभी एक ही स्थान पर निश्चल खड़े रह जाते थे। इस तरह साफ-साफ दिखनेवाले अनेक पैतरोसे नेत्रोंको अच्छे लगनेवाले वे मल्ल रङ्गभूमिको अतंकृत कर खड़े थे। उनके साथ ही रङ्गभूमिको घेर कर चाणूर आदि कंसके प्रमुख मल्ल भी खड़े हुए थे। कंसके वे मल्ल

१ नियम-ल० । २ भीषणः ल० । ३ कुटुम्बप्रकटीकृतः ल० । ४ महीशोऽपि ल० । ५ क्रमक्षेप-  
 ग० । ६ शतावर्तनैः ल० । ७ स्फुटम् ल० ।



प्रोद्गताः कंसमल्लाश्च चाणूरप्रमुखास्तथा । रङ्गाभ्याशं समाक्रम्य विक्रमंकरसाः स्थिताः ॥ ४८६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

मध्येरङ्गमुदात्तचित्तविसरो वीरोरुमल्लाग्रणीः

प्रागेव प्रतिमल्लयुद्धविजयं प्राप्येव दीप्रद्युतिः ।

भास्वन्तञ्च दिवोऽवतीर्णमधुना योद्धुं गतं मल्लताम्

जेष्यामीति विवृद्धविक्रमरसः सम्भावयन्स स्वयम् ॥ ४८७ ॥

### मालिनी

वन्द्यतपरिधानां बद्धकेगो विकूर्चः

सहजमसृणगात्रश्चित्तवृत्तिप्रवीणः ।

सततकृतनियोगाद्रोपमल्लैरमल्लै-

रविकलजयलम्भः सर्वसम्भावितौजाः ॥ ४८८ ॥

स्थिरचरणविवेशो वज्रसारास्थिवन्धो

भुजपरिघविधायी मुष्टिसंमाच्यमध्यः ।

कठिनपृथुलवक्षाः स्थूलनीलाद्रितुङ्ग-

स्त्रिगुणितनिजमूर्तिर्दर्पसर्पादुराक्ष्यः ॥ ४८९ ॥

ज्वलितचलितनेत्रां निष्ठुरावद्धमुष्टिः

परिणतकरणौघो मंशु सञ्चारदक्षः ।

भृशमशानिरिवोम्रां नन्दसूनुः स्थितः सन्

भयमवहदसह्यं प्रेतनाथस्य चोच्चैः ॥ ४९० ॥

### वसन्ततिलका

रूपीव शौर्यमखिलं मिलितं बलं वा

रंहः समस्तमपि संहतिमीयिवद्वा ।

अहंकारसे भरे हुए थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो वीर रसके अवतार ही हों ॥ ४८२-४८६ ॥ उस समय रङ्गभूमिमें खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड़े-बड़े वीर पहलवानोंमें अग्रेसर थे, उनकी कान्ति ऐसी दमक रही थी मानो उन्होंने पहले ही प्रतिमल्लके युद्धमें विजय प्राप्त कर ली हो, उनका पराक्रम रूपी रस उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और उन्हें ऐसा उत्साह था कि यदि इस समय मल्लका रूप धर कर सूर्य भी आकाशसे नीचे उतर आवे तो उसे भी जीत लेंगा ॥ ४८७ ॥ उस समय उनके वक्ष बहुत कड़े बँधे थे, बाल बँधे थे, डौढ़ी मूँछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गोप मल्लोंके साथ अमल्लोंकी तरह सदा युद्धका अभ्यास करते और पूर्ण विजय प्राप्त करते थे, और उनके पराक्रमकी सब सराहना करते थे ॥ ४८८ ॥ उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हड्डियोंका गठन वज्रके सारके समान सुदृढ़ था, उनकी भुजाएँ अर्गलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, उनकी कमर मुट्टीमें समानेके योग्य थी, वक्षःस्थल अत्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़े भारी नीलगिरिके समान थे, उनका शरीर सन्ध, रज और तम इन तीन गुणोंकी मानो मूर्ति था और गर्वके संचारसे कोई उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥ ४८९ ॥ उनके चमकीले नेत्र चञ्चल हो रहे थे, वे बड़ी मजबूत मुट्टी बाँधे थे, उनकी इन्द्रियोंका समूह पूर्ण परिपक्व था, वे शीघ्र गमन करनेमें दक्ष थे, और वज्रके समान अत्यन्त उग्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिमें खड़े हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण-यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे थे ॥ ४९० ॥ वे श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शूवीरता ही रूप धरकर आ गई-

सिंहाकृतिः स सहसा कृत्सिंहनादो

रङ्गादलङ्घन नभोऽङ्गणमङ्गणं वा ॥ ४९१ ॥

भापस्य त्वादगनिवद्भुवमात्मपाद-

पानाभिघानचलिनाचलसन्धिबन्धः ।

वह्गन्सुहुः परिसरन्प्रविजम्भमाणः

सिन्दूररञ्जिनभुजां चलयद्भुद्रप्रौ ॥ ४९२ ॥

क्रुद्धः कटीद्विनयपार्श्वविलम्बिपात-

बन्धो नियुद्धकुशलं प्रतिमल्लसुग्रम् ।

चाणूरमद्रिशिखरोन्नतमापतन्त-

१मासाद्य सिंहवर्दिभं सहसा बभान्ने ॥ ४९३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

दृष्ट्वेनं रुधरोद्गानोन्नयनो योद्धुं स्वयं मल्लतां

सम्प्राप्यापतदुग्रसेननयया जन्मान्तरद्वेषनः ।

तं व्योम्नि भ्रमयन्करेण चरणे संगृह्य वाल्पाण्डजं

भूर्मां नेतुमुपान्तमन्तकविभोः कृष्णः समास्फालयत् ॥ ४९४ ॥

आपेतुर्नभसस्तदा सुमनसो देवानकैर्दध्वने

स्वारावो वसुदेवसैन्यजलधौ प्रक्षोभणादुद्गतः ।

सीरीं वीरवरो विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रङ्गे स्थितः

स्वीकृत्याप्रतिमल्लमाह्वविजयं शौर्योर्जितं स्वानुजम् ॥ ४९५ ॥

अतुलबलमलङ्कथारातिमत्तेभवाता-

त्क्षुपितहरिसमानं माननीयावदानम् १ ।

सपदि ससुपयाता वन्दिभिर्वन्धमानं

जनितसकलरागं तं हरिं वीरलक्ष्मीः ॥ ४९६ ॥

थी, अथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित हो गया था, सिंह जैसी आकृतिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया और रङ्गभूमिसे उड़ल कर आकाश रूपी आंगनको लाँघ दिया मानो घरका आंगन ही लाँघ दिया हो ॥ ४९१ ॥ फिर आकाशसे वज्रकी भाँति पृथिवी पर आये, उन्होंने अपने पैर पटकनेकी चोटसे पर्वतोंके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, वे बराबर गर्जने लगे, इधर-उधर दौड़ने लगे और सिन्दूरसे रंगी अपनी दोनों भुजाओंको चलाने लगे ॥ ४९२ ॥ उस समय वे अत्यन्त क्षुपित थे, उनकी कमरके दोनों ओर पीत वस्त्र बँधा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह हाथीको मार कर सुशोभित होता है उसी प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुशल, अतिशय दुष्ट और पहाड़की शिखरके समान ऊँचे प्रतिद्वन्दी चाणूर मल्लको सहसा मार कर सुशोभित हो रहे थे ॥ ४९३ ॥ यह देख, खूनके निकलनेकेसे जिसके नेत्र अत्यन्त भयंकर हो रहे हैं ऐसा कंस स्वयंजन्मान्तरके द्वेषके कारण मल्ल बन कर युद्धके लिए रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णने हाथसे उसके पैर पकड़ कर छोटैसे पक्षीकी तरह पहले तो उसे आकाशमें घुमाया और फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीन पर पछाड़ दिया ॥ ४९४ ॥ उसी समय आकाशसे फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, वसुदेवकी सेनामें क्षोभके कारण बहुत कलकल होने लगा, और वीर शिरोमणि बलदेव, पराक्रमसे सुशोभित, विजयी तथा शत्रु रहित छोटै भाई कृष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओं पर आक्रमण करते हुए रङ्गभूमिमें जा बटे ॥ ४९५ ॥ जिनका बल अतुल्य है, जो अलङ्कनीय शत्रु रूपी

## वसन्ततिलका

दूर्ताव मे श्रितवती वरवीरलक्ष्मी-

रेतस्य दक्षिणभुजं विजयैकगोहम् ।

प्राप्तं पतिं चिरतरादिति तं कटाक्षै-

रैक्षिष्ट रागतरलैर्भरतार्धलक्ष्मीः ॥ ४९७ ॥

इत्यार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिस्वामिचरिते

कृष्णविजयो नाम सप्ततितमं पर्व ॥ ७० ॥

+०:ॐ:०+

मत्त हाथियोंके घातसे क्रुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तुति कर रहे हैं और जिन्होंने सब लोगोंको हर्ष उत्पन्न किया है ऐसे श्रीकृष्णके समीप वीरलक्ष्मी सहसा ही पहुँच गई ॥ ४९६ ॥ मेरी दूतीके समान श्रेष्ठ वीरलक्ष्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको प्राप्त कर चुकी है, इसलिए आधे भरत क्षेत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्ण रूपी पतिको रागके द्वारा चञ्चल कटाक्षोंसे देख रही थी ॥ ४९७ ॥

इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके अन्तर्गत नेमिनाथ स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णकी विजयका वर्णन करनेवाला सत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७० ॥

—+ + + +—

## एकसप्ततितमं पर्व

अथ कंसवधमुक्त्वा लोचनाम्भःप्रपायिनः । १ भूसूरुहात्समुत्पन्नाः समन्तादुत्सवाङ्कुराः ॥ १ ॥  
 वसुदेवमहीशस्य किलैष कृतिनः सुतः । व्रजे कंसभयाद् वृद्धिं शूरः प्रच्छन्नमासवान् ॥ २ ॥  
 वृद्धिरस्य स्वपक्षस्य वृद्धये नैव केवलम् । जगतश्च तुपारांशोरिव वृद्धिश्चिन्ता क्रमान् ॥ ३ ॥  
 इत्यभिष्टुयमानस्य पौरनहेशवासिभिः । विपाणिनाम्रमेनाख्यमहीशस्य महात्मनः ॥ ४ ॥  
 विसर्जितवनो नन्दगोपांश्चापूज्य सद्धर्मैः । प्रविश्य बन्धुभिः सङ्गनस्य शौर्यपुरं हरेः ॥ ५ ॥  
 काले सुखेन यास्येवं देवी जीवद्यशात्मनः । दुःखिता मरणात्पशुजंरासन्धमुपेत्य सा ॥ ६ ॥  
 तत्र प्रवृत्तवृत्तान्तमशेषं नमबुधुधन । श्रुत्वाऽसौ च रुपा पुत्रानादिशद्यादवान् प्रति ॥ ७ ॥  
 तेऽपि सन्नाह्य सैन्यं स्वं गत्वा युष्वा रणाङ्गणे । भङ्गमापन्नके वापुदैवं वैमुख्यमीयुषि ॥ ८ ॥  
 प्राहिणोत्स पुनः कोपात्नृजमपराजितम् । मत्त्वैवान्वयर्चनामानं तद्द्विधामन्तकोपमम् ॥ ९ ॥  
 शतत्रयं ऽसपट्चत्वारिंशत्सोऽपि महाबलः । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योऽभूपराङ्मुखः ॥ १० ॥  
 पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमकृतोऽग्रमी । यादवानुद्धरार्माति तुक्कालयवनभिधः ॥ ११ ॥  
 यादवाश्च तदायानमाकण्यंगामिवेदिनः । जहुः शौर्यपुरं हास्तिनाङ्ग्यं मधुरामपि ॥ १२ ॥  
 मार्गं स्थितां सदा यादवेशिनां कुलदेवताम् । विविधेन्धनसंवृद्धज्वालमुत्थाप्य पावकम् ॥ १३ ॥  
 धृतवृद्धाकृतिं वीक्ष्य तां कालयवनो युवा । किमेतदिति पप्रच्छ साप्वाह शृणु भूपते ॥ १४ ॥

अथानन्तर—कंसकी स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजलका पान कर पृथ्वी रूपी वृक्षमे चारों ओर उत्सव रूपी अङ्कुर प्रकट होने लगे ॥ १ ॥ यह शूरवीर, पुण्याःमा वसुदेव राजाका पुत्र हैं, कंसके भयसे छिप कर व्रजमें वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, अनुक्रमसे होनेवाली वृद्धि, न केवल इनके पक्षकी ही वृद्धिके लिए है अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए है इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा अग्रसेनको बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालोंकी पूजा कर उन्हें विदा किया था, और जो भाई-बन्धुओंके साथ मिलकर शौर्यपुर नगरमें प्रविष्ट हुए थे ऐसे श्रीकृष्णका समय मुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवद्यशा पतिकी मृत्युसे दुःखी होकर जरासंधके पास गई । उसने मथुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था वह सब जरासन्धको बतला दिया ॥ २-६ ॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासंधने क्रोधवश पुत्रोंको यादवोंके प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी ॥ ७ ॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये और युद्धके आंगनमें पराजित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कौन पराजयको प्राप्त नहीं होते ? ॥ ८ ॥ अबकी बार जरासंधने कुपित होकर अपना अपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि वह उसे सार्थक नामवाला तथा शत्रुओंके लिए यमराजके समान समझता था ॥ ९ ॥ बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीन-सौ छयालीस वार युद्ध किया परन्तु पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराङ्मुख होना पड़ा ॥ १० ॥ तदनन्तर 'मै पिताकी आज्ञासे यादवोंको अवश्य जीतूंगा' ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवन नामक पुत्रने प्रस्थान किया ॥ ११ ॥ कालयवनकी आज्ञा सुनकर अग्रशोची यादवोंने शौर्यपुर, हास्तिनापुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिये ॥ १२ ॥ कालयवन उनका पीछा कर रहा था, तब यादवोंकी कुल-देवता बहुत-सा ईन्धन इकट्ठा कर तथा ऊँची लौवाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुढ़ियाका रूप बना कर मार्गमें बैठ गई । उसे देख कर युवा कालयवनने उससे पूछा कि यह

अस्मिज्ज्वालालाकरालाम्नौ सर्वेऽपि मम सूनवः । भयेन भवतोऽभूवन् व्यसवो यादवैः सह ॥ १५ ॥  
 इति तद्वचनात्सोऽपि मज्जयात्किल शत्रवः । प्राविशन्मत्प्रतापाशुशुक्षणिं वाशुशुक्षणिम् ॥ १६ ॥  
 इति प्रतिनिवृत्त्याशु मिथ्यागर्वं समुद्रहन् । जगाम पितुरभ्याशं धिगनीक्षितचेष्टितम् ॥ १७ ॥  
 १ इतो जलनिधेस्तरे बले यादवभूभुजाम् । निविष्टवति निर्मापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥  
 अष्टोपवासमादाय विधिमन्त्रपुरस्सरम् । कंसारिः शुद्धभावेन दर्भशय्यातलं गतः ॥ १९ ॥  
 अश्राकृतिधरं देवं मामारूढ पयोनिधेः । गच्छतस्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादशयोजनम् ॥ २० ॥  
 इत्युक्तो नैगमाख्येन सुरेण मधुसूदनः । चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सखा ॥ २१ ॥  
 प्राप्तवेगोद्धतौ तस्मिन्नारूढे दुरगद्विषा । हये धावति निर्द्वन्द्वं निश्चलत्कर्णचामरे ॥ २२ ॥  
 द्वेषाभेदमयाद्वाधिर्भयादिव हरेरयान् । भेषो धीशक्तियुक्तेन सङ्घातोऽपि जलात्मनाम् ॥ २३ ॥  
 शक्राज्ञया तदा तत्र निधीशो विधिर्वधितम् । सहस्रकूटं व्याभासि भास्वद्रत्नमयं महत् ॥ २४ ॥  
 कृत्वा जिनगृहं १ पूर्वं मङ्गलानाम् मङ्गलम् । वप्रप्राकारपरिखागोपुराट्टालकादिभिः ॥ २५ ॥  
 राजमानां हरेः पुण्यातीर्थेशस्य च सम्भवान् । निर्ममे नगरीं रम्यां सारपुण्यसमन्विताम् ॥ २६ ॥  
 सरित्पतिमहावीचीभुजालिङ्गितगोपुराम् । दीप्या २ द्वारवतीसञ्ज्ञां हसन्तीं वामरीं पुरीम् ॥ २७ ॥  
 सपिता साग्रजो विष्णुस्तां प्रविश्य यथासुखम् । लक्ष्मीकटाक्षसंवीक्ष्यस्तस्थिवान्यादावैः सह ॥ २८ ॥  
 अथातो भुवनाधीशे जयन्तादागमिष्यति । विमानादहमिन्द्रेऽमूं महीं मासैः षड्धुन्मितैः ॥ २९ ॥

क्या है ? उत्तरमें बुद्धिया कहने लगी कि हे राजन् ! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र यादवोंके साथ-साथ इस ज्वालामुखीसे भयंकर अग्निमें गिरकर मर गये हैं ॥ १३-१५ ॥ बुद्धियाके वचन सुनकर काल-यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भयसे समस्त शत्रु मेरी प्रतापान्निके समान इस अग्निमें प्रविष्ट हो गये हैं ॥ १६ ॥ ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लौट पड़ा और भूठा अहंकार धारण करता हुआ पिताके पास पहुँच गया । आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाको धिक्कार है ॥ १७ ॥ इधर चलते-चलते यादवोंकी सेना अपना स्थान बनानेके लिए समुद्रके किनारे ठहर गई ॥ १८ ॥ वहाँ कृष्णने शुद्ध भावोंसे दर्भके आसन पर बैठकर विधि-पूर्वक मन्त्रका जाप करते हुए अष्टोपवास का नियम लिया । उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मैं घोड़ाका रूप रखकर आऊँगा सो मुझपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना । वहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जायगा । नैगम देवकी बात सुन कर श्रीकृष्णने निश्चयानुसार वैसा ही किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता ? ॥ १९-२१ ॥ जो प्राप्त हुए वेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं, और जिसके कानोंके चमर निश्चल हैं ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि और शक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका ( पक्षमें मूर्ख लोगोंका ) समूह भेदको प्राप्त हो ही जाता है ॥ २२-२३ ॥ उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीर्थकरके पुण्यसे इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की । जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलोंका मांगलिक स्थान और एक हजार शिखरोंसे सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर बनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अट्टालिका आदिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीवोंसे युक्त मनोहर नगरी बनाई । समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्ग रूपी भुजाओंसे उस नगरीके गोपुरका आलिङ्गन करता था, वह नगरी अपनी दीप्तिसे देवपुरीकी हँसी करती थी और द्वारवती उसका नाम था ॥ २४-२७ ॥ जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष उठा कर देख रही है ऐसे श्रीकृष्णने पिता वसुदेव तथा बड़े भाई बलदेवके साथ उस नगरीमें प्रवेश किया और यादवोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ २८ ॥

अथानन्तरं—जो आगे चल कर तीन लोकका स्वामी होनेवाला है ऐसा अहमिन्द्रका जीव

राज्ञः काश्यपगोत्रस्य हरिवंशशिल्पामणेः । समुद्रविजयाख्यस्य शिवदेवी मनोरमा ॥ ३० ॥  
 देवतोपास्यमानाङ्घ्रिर्वसुधाराभिनन्दिता । पण्मासावसिन्तां मासे कार्तिके शुक्लपक्षगं ॥ ३१ ॥  
 पच्छामयोत्तरापाढे निशान्ते स्वप्नमालिकाम् । आलोकतानुवक्त्राब्जं प्रविष्टञ्च गजाधिपम् ॥ ३२ ॥  
 ततो वन्दिवचोयामभेरीध्वनिविबोधिना । कृतमङ्गलमुस्त्राना धृतपुण्यप्रसाधना ॥ ३३ ॥  
 उपचारवदभ्येत्य नृपमर्धासने स्थिता । स्वहृष्टस्वप्नसाफल्यं मन्वयुक्तं श्रुतागमम् ॥ ३४ ॥  
 सङ्कलय्य नरेन्द्रोऽपि फलं तेषामभापत । त्वदूर्ध्वे विश्वलोकेशोऽवतीर्ण इति सूक्ष्मर्धाः ॥ ३५ ॥  
 श्रुत्वा तद्वैव तं लब्धवतीवातुपदप्यसा । ज्ञात्वा त्वचिह्नैर्देवेन्द्राः सन्भूयागाय संमदान ॥ ३६ ॥  
 स्वर्गावतारकल्याणमहोत्सवत्रिधायिनः । ४स्वेषां पुण्यञ्च निर्वर्त्य स्वधाम समुपागमन् ॥ ३७ ॥  
 स पुनः श्रावणे शुक्लपक्षे पृथीदिने जिनः । ज्ञानत्रितयभृत्त्वष्ट्रयोगे तुच्छ्यामजायत ॥ ३८ ॥  
 अथ स्वविष्टराकम्पसमुत्पन्नावधीक्षणाः । बुद्ध्या भगवदुत्पत्तिं सौधर्मेन्द्रपुरस्तराः ॥ ३९ ॥  
 सञ्जातसम्मदाः प्राप्य परिवेष्ट्य पुरं स्थिताः । ऐरावतगजस्कन्धमारोप्य भुवनप्रभुम् ॥ ४० ॥  
 सौधर्माधिपतिर्भक्त्या नीलाम्भोजदलद्युतिम् । ईशर्माशानकल्पेशधृतातपनिवारणम् ॥ ४१ ॥  
 नमस्कृतवैरोचनोद्धूतचमरीरुहम् । धनेशनिमित्तत्रेधामणिसोपानमार्गाः ५ ॥ ४२ ॥  
 नीत्वा पर्यादमार्गेण गिरिशेशानदिग्गते ६ । पाण्डुकाख्यशिलाग्रमणिसिंहधृतासने ॥ ४३ ॥  
 अनादिनिधने बालमारोप्याय्यकृतैजसम् । क्षीराम्भोधिपयः ७ पूर्णसुवर्णकलशोत्तमैः ॥ ४४ ॥

जब छह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस पृथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब काश्यप-गोत्री, हरिवंशके शिखामणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रत्नोंकी धारा आदिसे पूजित हुई और देवियों उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं । छह माह समाप्त होने पर रानीने कार्तिक शुक्ल षष्ठीके दिन उत्तरापाढ नक्षत्रमें रात्रिके पिछले समय सोलह स्वप्न देखे और उनके बाद ही मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा ॥ २६—३२ ॥

तदनन्तर—वन्दीजनोके शब्द और प्रातःकालके समय वजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि सुनकर जागी हुई रानी शिवदेवीने मङ्गलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्त्राभरण धारण किये और फिर बड़ी नम्रतासे राजाके पास जाकर वह उनके अधासन पर बैठ गई । पश्चात् उसने अपने देखे हुए स्वप्नोंका फल पूछा । सूक्ष्म बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी मुने हुए आगमका विचार कर उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हारे गर्भमें तीन लोकके स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं ॥ ३३-३५ ॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोंका फल सुनकर ऐसी सन्तुष्ट हुई मानो उसने तीर्थंकरको प्राप्त ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने भी अपने-अपने चिह्नोंसे जान लिया । वे सब बड़े हर्षसे मिलकर आये और स्वर्गावतरण कल्याण ( गर्भकल्याणक ) का महोत्सव करने लगे । उत्सव द्वारा पुण्योपार्जन कर वे अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ३६-३७ ॥ फिर श्रावण शुक्ल षष्ठीके दिन चित्रा नक्षत्रमें ब्रह्मयोगके समय तीन ज्ञानके धारक भगवान्का जन्म हुआ ॥ ३८ ॥ तदनन्तर अपने आसन कम्पित होनेसे जिन्हें अधिज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे सौधर्म आदि इन्द्र हर्षित होकर आये और नगरीको घेर कर खड़े गये । तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं, ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है, तथा नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढोर रहे हैं ऐसे जिनेन्द्र बालकको सौधर्मेन्द्रने बड़ी भक्तिसे उठाया और कुबेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिसय सीढ़ियोंके मार्गसे चलकर उन्हें ऐरावत हाथीके स्कन्ध पर विराजमान किया । अब इन्द्र आकाश-मार्गसे चलकर सुमेरु पर पहुँचा वहाँ उसने सुमेरु पर्वतकी ईशान दिशामें पाण्डुक शिलाके अग्रभाग पर जो अनादि-निधन मणिसय सिंहासन रक्खा है उसपर सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कर दिया । वहीं उसने अनुक्रमसे हाथों हाथ लाकर इन्द्रोके द्वारा

१ नामाली-ख०, म०, ग०, घ० । २ शुभागमं ख० । ३ संत.भवती ख० । ४ तेषां ख० ।

५-मार्गतः ख० । ६ दिग्गते ग०, घ० । दिग्गतं, ख० । दिग्गते ख० । ७ पयःपूर्णैः म० ।

अष्टाधिकसहस्रेण प्रमितैरमितप्रभैः । हस्नाद्धस्तं क्रमेणामराधिनाथसमर्पितैः ॥ ४५ ॥  
 अभिपिच्य यथाकाममलङ्कृत्य यथोचितम् । नेमि सद्धर्मचक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात् ॥ ४६ ॥  
 तस्मादानीय मौलान्द्रमाननीयमहोदयम् । मातापित्रोः पुनर्दत्त्वा विधायानन्दनाटकम् ॥ ४७ ॥  
 विकृत्य विविधान्बाहून् रसभावानिरन्तरम् । स्वावासमगमत्सर्वैरादिमेन्द्रः सहामरैः ॥ ४८ ॥  
 नमेर्भगवतस्तीर्थसन्तानसमयस्थितेः । १पञ्चलक्षसमाप्रान्ते तदन्तर्गतजीवितः ॥ ४९ ॥  
 जिनो नेमिः समुत्पन्नः सहस्राब्दायुरन्वितः । दशचापसमुत्सेधः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥  
 त्रिलोकनाथकाभ्यर्च्यः स्वभ्यर्णाङ्कतनिर्घृतिः । तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मिन्ननुभवंश्चिरम् ॥ ५१ ॥  
 गच्छत्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेऽन्यदा । आरावारिपथोद्योगा नष्टदिक्का वणिक्सुताः ॥ ५२ ॥  
 प्राप्य द्वारावतीं केचित्पुण्यान्मगधवासिनः । राज्यलीलां विलोक्यात्र २विभूतिञ्च सविस्मयाः ॥ ५३ ॥  
 बहूनि रत्नान्यादाय सारभूतानि तत्पुरात् । गत्वा राजगृहं प्राप्तचक्ररत्नं महीपतिम् ॥ ५४ ॥  
 रत्नान्युपायनीकृत्य पुरस्कृत्य वणिक्पतिम् । दृष्टुः कृतसन्मानस्तानपृच्छत्यजेत्नवरः ॥ ५५ ॥  
 भो भवद्भिः कुतो लब्धमिदं रत्नकदम्बकम् । उदंशुभिरिवोन्मीलितेक्षणं कौतुकादिति ॥ ५६ ॥  
 शृणु देव महच्चिन्मतेतदस्मद्विलोकितम् । पातालादेत्य वादष्टपूर्वमुर्वीमुपस्थितम् ॥ ५७ ॥  
 सङ्कुलीकृतसौधोर्भवन्त्वादिवाम्बुधुः । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपागतः ॥ ५८ ॥  
 अलङ्कृत्यत्परैः पुण्यं वापरं भरतेशितुः । नेमिस्वामिसमुत्पत्तिहेतुत्वाज्ञगरात्तमम् ॥ ५९ ॥

सौपे हुए एवं और सागरके जलसे भरे, सुवर्णमय एक हजार आठ देदीप्यमान कलशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पहिनाये और ये समीचीन धर्मरूपी चक्रकी नेमि हैं—चक्रधारा हैं’ इसलिए उन्हें नेमि नामसे सम्बोधित किया । फिर सौधमेन्द्रने मुकुट-बद्ध इन्द्रोंके द्वारा माननीय महाभ्युदयके धारक भगवान्को सुमेरु पर्वतसे लाकर माता-पिताको सौपा, विक्रिया द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस और भावसे भरा हुआ आनन्द नामका नाटक किया और यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने स्थान पर चला गया ॥ ३६-४८ ॥ भगवान् नेमिनाथकी तीर्थपरम्पराके बाद पाँच लाख वर्ष बीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार वर्षकी थी, शरीर दश धनुष ऊँचा था, उनके संस्थान और संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंके इन्द्र उनकी पूजा करते थे, और मोक्ष उनके समीप था । इस प्रकार वे दिव्य मुखोंका अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्वारावतीमें रहे ॥ ४६-५१ ॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी समय एक क्षणके समान बीत गया । किसी एक दिन मगध देशके रहनेवाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जलमार्गसे व्यापार करते थे, पुण्योदयसे मार्ग भूल कर द्वारावती नगरीमें आ पहुँचे । वहाँकी राजलीला और त्रिभूति देखकर आश्चर्यमें पड़ गये । वहाँ जाकर उन्होंने बहुतसे श्रेष्ठ रत्न खरीदे । तदनन्तर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य-पुत्रोंने अपने सेठको आगे किया और उन रत्नोंको भेंट देकर चक्ररत्नके धारक राजा जरासन्धके दर्शन किये । राजा जरासन्धने उन सबका सन्मान कर उनसे पूछा कि ‘अहो वैश्य-पुत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका समूह कहाँसे प्राप्त किया है ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकवशा इसने नेत्र ही खोल रक्खे हों’ ॥ ५२-५६ ॥ उत्तरमें वे वैश्य-पुत्र कहने लगे कि हे राजन् ! सुनिये, हमलोगोंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य, जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है । समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निकल कर पृथिवी पर आई हो । वहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े भवन सघनतासे विद्यमान हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रके फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो गया हो । वह शत्रुओंके द्वारा अलङ्कनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्तीका दूसरा पुण्य ही हो । भगवान् नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोंमें उत्तम है,

असंहतम<sup>१</sup> नामेव्यमार्था भवान्तगौरवम् । शरदन्दकुलं तिष्ठत्युपर्यन्तममेति वा ॥ ६० ॥  
 सौधाग्रान्दंगलितान्दालनाकावद्बुवाद्भुभिः । तिगाचिकीपुः सङ्घवाद्बृत्तमभ्रपथोच्छ्रितम् ॥ ६१ ॥  
 परापरंभुरि रन्त्यन्वाकृत्तेजाविराजनात् । मदा गम्भीरशब्दन्वाद्मभोश्चिजलसस्त्रिभम् ॥ ६२ ॥  
 नवयोजनविस्तारं देव्यद्वाद्गयोजनम् । पुरं द्वारावर्ता नाम याद्वानां पर्याविधेः ॥ ६३ ॥  
 मध्ये प्रवर्तते नन्मादेतद्गतकडम्बकम् । लब्धमस्मानिरिष्येवमग्रुवन्नेऽपि भूपतिः ॥ ६४ ॥  
 श्रुत्वा नद्वचनं<sup>३</sup> क्रोधेनान्धाभूनाप्रयोक्षगः । जरासन्धो धियाप्यन्धो दृषा देवानिसन्धितः ॥ ६५ ॥  
 चचालाकालकालान्तचलितान्मयलासुप्रियः । कर्तुं यादवलोकास्य विलयं वाविलम्बितम् ॥ ६६ ॥  
 नारदस्तत्तदा ज्ञान्वा निर्हेतुममरप्रियः । हरिं सन्वरमभ्येन्य तद्विकारं न्यवेदयत् ॥ ६७ ॥  
 श्रुत्वा शार्ङ्गधरः अद्युमसुन्धानमनाकुलम् । कुमारं नेमिसभ्येन्य प्रजाधि त्वमिदं पुरः ॥ ६८ ॥  
 विजिगीषुः किलाद्याभूत्प्रन्यस्यान्मगधाधिपः । भनञ्जि तमङ्गं जाणं द्रुमं वा घुगभश्चिनम् ॥ ६९ ॥  
 तूर्णं भवत्प्रभावेनगन्धेन्यवददृत्तितम् । प्रमन्नचैनाम्नच्छृत्वा सस्मितो मधुरेश्रणः ॥ ७० ॥  
 सार्वधिविजयं तेन विनिश्चिय विरोधिनाम् । स्फुरदन्तकचिचिष्णुं नेमिशोमित्यभापन ॥ ७१ ॥  
 स्मिताद्यैः स्वै जयं सोऽपि निश्चिचाय जगत्प्रभाः । जैनो वादीव पक्षाद्यैरेकलक्षणभूषणैः ॥ ७२ ॥

कोई भी उमका विधान नहीं कर सकता है, वह याचकामे रहित है, यह उसके मद्दती पर बहुत-सी पनाकाएँ फहराती रहती हैं जिममे ऐसा जान पड़ता है कि 'यह गौरव रहित शरद् ऋतुके बादलोंका समूह मेरे ऊपर रहता है' इस ईर्ष्याके कारण ही वह माने मद्दतीके अग्रभाग पर फहराती हुई चञ्चल पनाकाओं रूपी बहुत-सी भुजाओंमें आकाशमें ऊँचाई पर स्थित शरद् ऋतुके बादलोंको वहाँसे दूर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्रके जलके समान है क्योंकि जिम प्रकार समुद्रके जलमें बहुतसे रत्न रहते हैं उसी प्रकार उम नगरीमें भी बहुतसे रत्न विद्यमान हैं, जिम प्रकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थात् काले वर्णसे मुशोभित रहता है उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात् वसुदेवके पुत्र श्री कृष्णके प्रनापसे मुशोभित है, और जिस प्रकार समुद्रके जलमें मदा गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरीमें भी मदा गम्भीर शब्द होता रहता है। वह नौ योजन चौड़ी तथा चारह योजन लम्बी है, समुद्रके बीचमें है तथा याद्योंकी नगरी कहलाती है। हम लोगोंने ये रत्न वहीं प्राप्त किये हैं' ऐसा वैश्य-पुत्रोंने कहा ॥ ५७-६४ ॥ जब देवमे छले गये अहङ्कारी जरासन्धने वैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने तो वह क्रोधसे अन्धा हो गया, उसकी दृष्टि भयङ्कर हो गई, यही नहीं, बुद्धिसे भी अन्धा हो गया ॥ ६५ ॥ जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए प्रलयकालके लहराते समुद्रके समान चञ्चल है ऐसा वह जरासन्ध यादव लोगोंका शीघ्र ही नाश करनेके लिए तत्काल चल पड़ा ॥ ६६ ॥ बिना कारण ही युद्धसे प्रेम रखनेवाले नारदजीको जब इस बातका पना चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्रीकृष्णसे जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया ॥ ६७ ॥ 'शत्रु चढ़कर आ रहा है' यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भी आकुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमिकुमारके पास जाकर कहा कि आप इस नगरकी रक्षा कीजिए। सुना है कि भगधका राजा जरासन्ध हम लोगोंको जीतना चाहता है सो मैं उसे आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए जीर्ण वृक्षके समान शीघ्र ही नष्ट किये देता हूँ। श्रीकृष्णके वीरता पूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नतासे भर गया है जो कुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरतासे ओत-प्रोत हैं ऐसे भगवान् नेमिनाथको अवधिज्ञान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोंके ऊपर हम लोगोंकी विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दौनोंकी देदीप्यमान कान्तिको प्रकट करते हुए 'ओम्' शब्द कह दिया अर्थात् द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथानुपपत्ति रूप लक्षणसे मुशोभित पक्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भगवान्की मुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निश्चय कर लिया था ॥ ६८-७२ ॥



अथ शत्रून् समुज्जेतुं जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदाख्येन द्वाह्नेनोद्धवेन च ॥ ७३ ॥  
सुमुखाक्षरपद्मैश्च जराख्येन सुदृष्टिना । पाण्डवैः पञ्चभिः सत्यकेनाथ द्रुपदेन च ॥ ७४ ॥  
यादवैः सविराटाख्यैरग्रमेयैर्महाबलैः । धृष्टार्जुनोऽग्रसेनाभ्यां चमरेण रणेऽपुना ॥ ७५ ॥  
विदुरेण नृपैरन्यैश्चान्विता बलकेशवौ । सन्नदात्तुद्धतौ योद्धुं कुरुक्षेत्रमुपागतौ ॥ ७६ ॥  
जरासन्धोऽपि युद्धेऽर्धुर्भाष्मेणाविष्कृतोष्मणा । सद्राणेन सकर्णेन साश्वत्थामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥  
शख्येन वृषसेनेन कृपेण कृपवर्मणा । रुदिरणेन्द्रसेनेन जयद्रथमहीभृता ॥ ७८ ॥  
हेमप्रभेण भूमत्रां दुर्योधनधरेशिना । दुःशासनेन दुर्मर्षेण दुर्धर्षणेन च ॥ ७९ ॥  
दुर्जयेन कलिङ्गेशा भगदत्तेन भूभुजा । परैश्च भूरिभूपालैराजगाम स केशवम् ॥ ८० ॥  
तदा हरिबले युद्धदुन्दुभिध्वनिरुध्वरन् । शूरचेतो रसो वासः कौसुम्भो वान्वरक्षयत् ॥ ८१ ॥  
तदाकर्ण्य नृपाः केचित्पूजयन्ति स्म देवताः । अहिंसादिप्रतान्यन्ये जगृहुर्गुरुसन्निधौ ॥ ८२ ॥  
परे निस्तारकेष्वर्थान्वितरन्ति स्म सात्त्विकाः । १ आमुञ्चत तनुत्राणं गृह्णीतासिलतां शिताम् ॥ ८३ ॥  
आरोपयत चापौघान् सन्नद्यन्तं गजाग्रिमाः २ । हरयो नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिषु ॥ ८४ ॥  
समर्प्यन्तां कलत्राणि युज्यन्तां वाजिभी रथाः । भोगोपभोगवस्तूनि भुज्यन्तामनिवारितम् ॥ ८५ ॥  
वन्दिमागधधृन्देन वन्द्यन्तां निजविक्रमाः । इति केचिज्जगुर्भृत्यान् नृपाः सङ्ग्रामसम्मुखाः ॥ ८६ ॥  
पतिभक्त्या निसर्गात्मपौरुषेण विरोधिनाम् । मात्सर्येण यशोहेतोः शूरलोकसमीप्सया ॥ ८७ ॥  
निजान्वयाभिमानेन परैश्च रणकारणैः । समजायन्त राजानः प्राणव्ययविधायिनः ॥ ८८ ॥  
वसुदेवसुतोऽप्यास्रगर्वः सर्वविभूषणः । कुङ्कुमाङ्कितगात्रत्वादिव सिन्दूरितद्विपः ॥ ८९ ॥  
जय जीवेति वन्दारुवन्देन कृतमङ्गलः । नवो वाम्भोधरश्चासुचातकध्वनिलक्षितः ॥ ९० ॥

अथानन्तर कृष्ण और बलदेव, शत्रुओंको जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, अङ्गद, दव, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पाँचों पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, विराट्, अपरिमित सेनाओंसे युक्त धृष्टार्जुन, उग्रसेन, युद्धका अभिलाषी चमर, विदुर तथा अन्य राजाओंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तैयार हुए और वहाँसे चलकर कुरुक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ ७३-७६ ॥ उधर युद्धकी इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गर्मी (अहङ्कार) प्रकट करनेवाले भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, रुक्म, शल्य, वृषसेन, कृप, कृपवर्मा, रुदिर, इन्द्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथिवीका नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मर्षण, दुर्धर्षण, दुर्जय, राजा कलिङ्ग, भगदत्ता, तथा अन्य अनेक राजाओंके साथ कृष्णके सामने आ पहुँचा ॥ ७७-८० ॥ उस समय श्री कृष्णकी सेनामें युद्धकी भेरियाँ बज रही थीं सो जिस प्रकार कुसुम्भ रङ्ग वस्त्रको रङ्ग देता है उसी प्रकार उन भेरियोंके उठते हुए शब्दने भी शूरीरोंके चित्तको रङ्ग दिया था ॥ ८१ ॥ उन भेरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओंकी पूजा करने लगे और कितने ही गुरुओंके पास जाकर अहिंसा आदि व्रत ग्रहण करने लगे ॥ ८२ ॥ युद्धके सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्योंसे कह रहे थे कि 'तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ाओ और हाथी तैयार करो। घोड़ों पर जीन कस कर तैयार करो, स्त्रियाँ अधिकारियोंके लिए सौपो, रथोंमें घोड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभोग की वस्तुओंका सेवन किया जाय और बन्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमकी वन्दना करें—स्तुति करें' ॥ ८३-८६ ॥ उस समय कितने ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक पराक्रमसे, कितने ही शत्रुओं पर जमी हुई ईर्ष्यासे, कितने ही यश पानेकी इच्छासे, कितने ही शूरीरोंकी गति पानेके लोभसे, कितने ही अपने वंशके अभिमानसे और कितने ही युद्ध सम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंसे प्राणोंका नाश करनेके लिए तैयार हो गये थे ॥ ८७-८८ ॥ उस समय श्रीकृष्ण भी बड़ा गर्व कर रहे थे, सब आभूषण पहिने थे और शरीर पर केशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हों ॥ ८९ ॥ 'आपकी जय हो', 'आप चिरंजीव रहे'

संज्ञनावर्ज्यं निर्णिकसौवर्गोरुगलन्तिका । जलैराचम्य शुद्धाच्छक्षिप्रपूर्णजलाञ्जलिः ॥ ९१ ॥  
 गन्धपुष्पादिभिर्विघ्नविनायकमनायकम् । भक्त्या जिनेन्द्रमभ्यर्च्य भव्यकल्पमहार्हम् ॥ ९२ ॥  
 अभिवन्द्यासप्तमन्त्रैः समन्तान्परिवारितः । प्रतिपक्षमपक्षेसु न्यक्षेत्राभिमुखं ययौ ॥ ९३ ॥  
 ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्तृपरिचारिणः । सैन्यं यथोक्तविन्यासं रचयन्ति स्म रागिणः ॥ ९४ ॥  
 जरासन्धोऽपि संग्रामरङ्गमध्यमधिष्ठितः । स्वसैन्यं निष्ठुरारावैरभ्यक्षैरन्वयोजयत् ॥ ९५ ॥  
 इति विन्यासिते सैन्ये दधने ममरानकैः । शूरधानुष्कनिर्भुक्तशरनाराचमङ्गलम् ॥ ९६ ॥  
 नभो न्यरुणदुष्णांशुप्रसरत्करमन्तनिम् । त्रियोगमगमन्मोहानदान्मनयशङ्कया ॥ ९७ ॥  
 कोकयुग्मं विहङ्गाश्च स्वन्तो नाडमाश्रयन् । नेक्षन्ते स्म भटा योद्धुमन्वोन्यं समराङ्गणे ॥ ९८ ॥  
 संक्रुद्धमत्तमातङ्गदन्तमद्वृजन्मना । सप्ताचिपा विधूनेऽन्धकारं दिगवलोकनात् ॥ ९९ ॥  
 पुनः प्रवृत्तसंग्रामाः<sup>१</sup> सर्वशस्त्रविचक्षणः । नदीं रक्तमयीं चक्रुर्विक्रमैकरमाः क्षणम् ॥ १०० ॥  
 करालकरवालाग्रैर्निकृत्तचरणद्वयाः । नुरङ्गमा गतिं प्रापुर्वने नष्टनपोधनाः ॥ १०१ ॥  
 विच्छिन्नचरणाः पनुद्विपाः प्रान्तमहामरु- । स्त्रिमूलपातितानानीलविपुलाचलर्लालया ॥ १०२ ॥  
 पातितानां परैः स्तूयमानसाहसकर्मणाम् । प्रसादवन्ति वक्त्राणि स्थलपद्मश्रियं दधुः ॥ १०३ ॥  
 भटैः परस्परस्त्राणि खण्डितानि स्वकौशलान् । तन्वण्डैस्तत्र पार्श्वस्था ब्रह्मो ज्यसवोऽभवन् ॥ १०४ ॥

इस प्रकार वन्दीजन उनका मङ्गलपाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ने थे मानो चानकोंकी सुन्दर ध्वनिसे युक्त नवीन मेघ ही हो ॥६०॥ उन्होंने मञ्जनोंके द्वारा धारण की हुई पवित्र मुवर्णमय भारीके जलसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीत्र ही पूर्ण जलाञ्जलि दी और फिर गन्ध पुष्प आदि द्रव्योंके द्वारा विघ्नोका नाश करने वाले, स्वामी रहित ( जिनका कोई स्वामी नहीं ) तथा भय्य जीवोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए कल्पवृक्षके समान श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नमस्कार किया । तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों और सामन्तोंको अथवा प्रामाणिक सामन्तोंको रखकर स्वयं ही शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल पड़े ॥ ६१-६३ ॥ तदनन्तर कृष्णकी आज्ञासे अनुराग रखनेवाले प्रशंसनीय परिचारकोंने यथायोग्य रीतिसे सेनाकी रचना की ॥ ६४ ॥ जरासन्ध भी संग्राम रूपी युद्धभूमिके बीचमें आ बैठा और कठोर सेनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥ ६५ ॥ इस प्रकार जब सेनाओंकी रचना ठीक-ठीक हो चुकी तब युद्धके नगाड़े बजने लगे । शूर-वीर धनुषधारियोंके द्वारा छोड़े हुए वाणोंसे आकाश भर गया और उसने सूर्यकी फैलती हुई किरणोंकी सन्ततिको रोक दिया—ढक दिया । 'सूर्य अस्त हो गया है' इस भयकी आशङ्कासे मोहवश चकवा-चकवी परस्पर विह्वुड़ गये । अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी ओर जाने लगे । उस समय युद्धके मैदानमें इनना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक दूसरेको देख नहीं सकते थे परन्तु कुछ ही समय बाद क्रुद्ध हुए मदान्त हाथियोंके दोंतोंकी टक्कर से उत्पन्न हुई अग्निके द्वारा जब वह अन्धकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएँ साफ-साफ दिखने लगतीं तब समस्त शस्त्र चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते थे । विक्रमरससे भरे योद्धाओंने क्षण भरमें खूनकी नदियाँ वहा दीं ॥ ६६-१०० ॥ भयङ्कर तलवारकी धारसे जिनके आगेके दो पैर कट गये हैं ऐसे घोड़े उन तपस्वियोंकी गतिको प्राप्त हो रहे थे जो फि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं ॥ १०१ ॥ जिनके पैर कट गये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय कालकी महावायुसे जड़से उखड़ कर नीले रङ्गके बड़े-बड़े पहाड़ ही पड़ गये हों ॥ १०२ ॥ शत्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्योंकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल कमल ( गुलाब ) की शोभा धारण कर रहे थे ॥ १०३ ॥ योद्धाओंने अपनी कुशलतासे परस्पर एक दूसरेके शस्त्र तोड़ डाले थे परन्तु उनके टुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुतसे लोग मर गये थे

न मन्त्रेण न क्रोधान्न ख्यातेन फलेच्छया । भटाः केचिदयुध्यन्त न्यायोऽस्मिन् केवलम् ॥ १०५ ॥  
 सर्वगन्धममुद्भिन्नरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धाच्चूलिकालिङ्गितांग्रयः ॥ १०६ ॥  
 चिरं परिचिन्त्यानं परिन्थक्नुमिवाक्षमाः । प्रलम्बन्ते स्म कणाग्रमवलम्ब्यानताननाः ॥ १०७ ॥  
 केचिद्दामकरोपागचित्रदण्डस्वरक्षणाः । दक्षिणास्त्रभुजेनाग्नन् भटाश्चटुलचारिणः ॥ १०८ ॥  
 तत्र वाच्यो मनुष्याणां मृत्योरुत्कृष्टसञ्चयः । कदलीवानजातस्येलुकिमत्तद्रणाङ्गणम् ॥ १०९ ॥  
 एवं तुमुलयुद्धेन प्रवृत्ते सङ्घे चिरम् । सेनयोरन्तकस्यापि सन्तृप्तिः समजायत ॥ ११० ॥  
 विलङ्घितं बलं विष्णोर्बलेन द्विपतां तथा । यथा क्षुद्र सरिद्वारि<sup>१</sup>महासिन्धुल्लवाम्बुना ॥ १११ ॥  
 तदालोक्य हरिः क्रुद्धो<sup>२</sup> हरिर्वा करिणां कुलम् । सामन्तबलसन्द्दोहसहितो हन्तुमुद्यतः ॥ ११२ ॥  
 भास्करस्योदयाद्धान्धकारं शत्रुबलं तदा । विलीनं तन्निरीक्ष्यैत्य जरासन्धोऽन्वितः क्रुधा ॥ ११३ ॥  
 धोतिताखिलदिवचक्रं चक्रमादाय विक्रमात् । त्रिविक्रमं समुद्दिश्य न्यक्षिपद्रूक्षवीक्षणः ॥ ११४ ॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवदक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिर्मगधेशोऽच्छिनच्छिरः ॥ ११५ ॥  
 सद्यो जयानकानीकं<sup>३</sup> नदति स्मागलन् दिवः । सुरद्रुमप्रमूनानि सह गन्धाम्बुबिन्दुभिः ॥ ११६ ॥  
 चर्का चक्रं पुरस्कृत्य विजिगीषुदिशो भृशम् । प्रस्थानमकरोत्सार्धं बलेन स्वबलेन च<sup>४</sup> ॥ ११७ ॥  
 मागधादीन्पुरान् जित्वा विधेयीकृत्य विश्रुतान् । गृहीत्वा साररत्नानि तद्दान्यूर्जितोदयः<sup>५</sup> ॥ ११८ ॥  
 सिन्धुसिन्धुखगाद्रथन्तरालन्याधधराधिपान् । स्वपादनखभाभारमानमय्योद्वाहायन् ॥ ११९ ॥

॥ १०४ ॥ कितने ही योद्धा न ईर्ष्यासे, न क्रोधते, न यशसे, और न फल पानेकी इच्छासे युद्ध करते थे किन्तु 'यह न्याय है' ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे ॥ १०५ ॥ जिनका शरीर सर्व प्रकारक शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियोंके स्कन्धसे नीचे गिर गये थे परन्तु कानोंके आभरणोंमें पैर फँस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानोंके अग्रभागका सहारा ले नीचेकी ओर मुखकर लटक गये हों ॥ १०६-१०७ ॥ बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने ही योद्धा अपने रक्षाकी लिए बायें हाथमें भाल लेकर शस्त्रोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंको मार रहे थे ॥ १०८ ॥ आगममें जो मनुष्योंका कदलीघान नामका अकालमरण बतलाया गया है उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी ऐसा उस युद्धके मैदानके विषयमें कहा जाता है ॥ १०९ ॥ इस प्रकार दोनों सेनाओंमें चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा जिससे यमराज भी खूब सन्तुष्ट हो गया था ॥ ११० ॥ तदनन्तर जिस प्रकार किसी छोटी नदीके जलको महानदीके प्रवाहका जल दबा देता है उसी प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाको शत्रुकी सेनाने दबा दिया ॥ १११ ॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समूह पर दूट पड़ता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समूह साथ लेकर शत्रुको मारनेके लिए उद्यत हो गये—शत्रु पर दूट पड़े ॥ ११२ ॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय होते ही अन्धकार विलीन हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको देखते ही शत्रुओं की सेना विलीन हो गई—उसमें भगदड़ मच गई । यह देख, क्रोधसे भरा जरासन्ध आया और उसने रूक्ष दृष्टिसे देखकर, अपने पराक्रमसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न ले श्रीकृष्णकी ओर चलाया ॥ ११३-११४ ॥ परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजा पर ठहर गया । तदनन्तर वही चक्र लेकर श्रीकृष्णने मगधेश्वर—जरासन्धका शिर काट डाला ॥ ११५ ॥ उसी समय कृष्णकी सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे सुगन्धित जलकी बूँदोंके साथ-साथ कल्पवृक्षोंके फूल बरसने लगे ॥ ११६ ॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजयकी भारी इच्छाके चक्ररत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया ॥ ११७ ॥ जिनका उदय बलवान् है ऐसे श्रीकृष्णने मागध आदि प्रसिद्ध देवोंको जीत कर अपना सेवक बनाया और उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न ग्रहण किये ॥ ११८ ॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी और विजयार्ध

खेचराचलवाराशिगङ्गाभ्यगनान् पुनः । वर्षाकृत्य वर्षी नृणं म्लेच्छराजान् सखेचरान् ॥ १२० ॥  
 भरतार्थमर्हानाथो दूरोच्छ्रितपताकिकाम् । उड्डतनोरगां द्वारवतीं हृष्टो विवेश सः ॥ १२१ ॥  
 प्रविष्टवन्तं तं देवविद्याधरधराश्रियाः । त्रिगण्डाधिपतिश्चक्रान्यभ्यपिञ्जलयाचिनम् ॥ १२२ ॥  
 स महत्त्वममायुक्तो दशचापसमुच्छ्रितः<sup>१</sup> । लम्बांलाञ्छनवर्णाभो लक्ष्म्यालिङ्गितविग्रहः ॥ १२३ ॥  
 चक्रं शक्तिगंदा गङ्गा धनुर्दण्डः सनन्दकः । बभ्रुवुः सस्रन्तानि शशाण्यभ्याक्षपालकैः<sup>२</sup> ॥ १२४ ॥  
 रत्नमाला गदा मारो मुसलञ्च हलेशिनः । महारत्नानि चत्वारि स्फुरन्त्वप्यभवन् विभोः<sup>३</sup> ॥ १२५ ॥  
 रुक्मिणी सत्यभामा च सर्ता जाम्बवतीति च । सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥ १२६ ॥  
 पद्मावती च देव्योऽमूरट्टी पट्टप्रमाधनाः । सवाः देव्यः महन्वागि चाणुरान्तम्य पोडश ॥ १२७ ॥  
 बलस्याष्ट महन्वागि देव्योऽभोष्टमुन्द्रप्रदाः । ताभिन्नावामरं सौग्यमासां वा प्रीतिर्मायतुः ॥ १२८ ॥  
 स्वपूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्कलान् । भोगान्प्राप्नुवन्तस्तस्य काले गच्छन्ति शार्ङ्गिणः ॥ १२९ ॥  
 अन्येद्युर्वारिदान्तंऽन्तःपुरेगामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽभूजलकेली मनोहरा ॥ १३० ॥  
 तत्र नेमीशितुः सत्यभामायाश्चास्तुमेचनान् । मल्लापोऽभवद्विशुच्चेक्षतुरोक्तया मनोहरः ॥ १३१ ॥  
 ४तप्रियावक्तुं रन्ता मयि त्वं किं ममाप्रिया । ५प्रियास्मि चेतव भ्राता यातु कां कामदायिर्नाम् ॥ १३२ ॥  
 कासां किं तां न वेत्सि त्वं सम्यक्सा वंदयिष्यति । वदन्ति न्वाभ्युजुं सर्वे कुटिलम्बं तथापि च ॥ १३३ ॥

पर्वतके वीचके म्लेच्छ राजाओंमें नमस्कार कराकर उनमें अपने पैरोंके नखोंकी कान्तिका भार उठवाया ॥ ११६ ॥ तदनन्तर विजयार्थ पर्वत, लवणममुद्र और गङ्गानदीके मध्यमें स्थित म्लेच्छ राजाओंको विद्याधरोंके साथ ही साथ जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने जीत ही वश कर लिया ॥ १२० ॥ इस प्रकार आधे भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिम्ममें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और जगह जगह तोरण बाँधे गये हैं ऐसी द्वारावती नगरीमें दड़े हर्षमें प्रवेश किया ॥ १२१ ॥ प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका विना कुछ कहे मुने ही अपने आप राज्याभिषेक किया ॥ १२२ ॥

श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी आयु थी, दश धनुषकी ऊँचाई थी, अनिशय मुशोभित नील-कमलके समान उनका वर्ण था, और लक्ष्मीसे आलिङ्गित उनका शरीर था ॥ १२३ ॥ चक्र, शक्ति, गदा, शङ्ख, धनुष, दण्ड, और नन्दक नामका खड्ग ये उनके सान र न थे । इन सभी रत्नोंकी देव लोग रक्षा करते थे ॥ १२४ ॥ रत्नमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार महारत्न बलदेव प्रभुके थे ॥ १२५ ॥ रुक्मिणी, सत्यभामा, सर्ता जाम्बवती, सुसीमा, लक्ष्मणा, गान्धारी, सप्तमी गौरी और प्रिया पद्मावती ये आठ देवियां श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं । इनकी सब मिलाकर सोलह हजार रानियाँ थीं तथा बलदेवके सब मिलाकर अभीष्ट मुख देनेवाली आठ हजार रानियां थीं । ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान मुख भागते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे थे ॥ १२६-१२८ ॥ इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपनेपुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भागोंको भागते हुए श्रीकृष्णका समय मुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी एक समय शरद् ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे । वहीं पर जल उड्डालते समय भगवान् नेमिनाथ और सत्यभामाके बीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ ॥ १२९-१३० ॥ सत्यभामाने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया ( इष्ट ) नहीं हो ? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया ( स्त्री ) हूँ तो फिर आपके भाई ( कृष्ण ) किसके पास जावेंगे ? नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनीके पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनू तो सही वह कामिनी कौन सी है ? उत्तरमें नेमिनाथने कहा कि क्या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओगी । सत्यभामाने कहा कि

१ समुच्छ्रितः ल० । २-क्षपाटकैः ख०, ग० ।-क्षपाटकैः ल० (रक्षितान्यक्षपालकैः इति पाठः मुष्टु भाति)

३ प्रभोः म० । ४ त्वं प्रियावत् ल० । ५ प्रिया चेतव भ्राता ल० ।

पुनः स्नानविनोदावसाने तामेवमब्रवीत् । स्नानवस्त्रं त्वया ग्राह्यं नीलोत्पलविलोचने ॥ १३४ ॥  
 तस्य मे किं करोम्येतत्प्रक्षालय हरिर्भवान् । यो नागशय्यामास्थाय दिव्यं शार्ङ्गशरासनम् ॥ १३५ ॥  
 हेल्यारोपयद्यश्च प्रपूरितदिगन्तरम् । शङ्खमापूरयत्किं तत्साहसं नो भवेत्त्वया ॥ १३६ ॥  
 कार्यं साधु करिष्यामीत्युक्त्वा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातुं कर्म सोऽद्भुतम् ॥ १३७ ॥  
 सम्प्रविश्यायुधागारं नागशय्यामधिष्ठितः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविभास्वराम् ॥ १३८ ॥  
 भूयो विफालनोन्नादज्यालतं च शरासनम् । आरोपयत्पयोजञ्च<sup>१</sup> दम्भौ रुद्धदिगन्तरम् ॥ १३९ ॥  
 तदा संभावयामास स्वं समाविष्कृतोन्नतिम् । रागाहङ्कारयोर्लेशोऽप्यवश्यं विकृतिं नयेत् ॥ १४० ॥  
 सहसेत्यद्भुतं कर्म श्रुत्वाध्यास्य सभावनिम् । हरिः कुसुमचित्राख्यामाकुलाकुलमानसः ॥ १४१ ॥  
 उद्भूतविस्मयोऽपृच्छत्किमेतदिति किङ्करान् । ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथं व्यजिज्ञपन् ॥ १४२ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं चक्री सावधानं वितर्कयन् । रागि चेतः कुमारस्य चिराच्चित्रमजायत ॥ १४३ ॥  
 अभूत्कल्याणयोग्योऽयमारूढनवयौवनः । बाधा खलेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मणः ॥ १४४ ॥  
 इत्युग्रवंशवार्धोऽन्दोरुप्रसेनमहीभुजः । <sup>२</sup>जयावत्याश्च सर्वाङ्ग<sup>३</sup>शस्या राजीमतिः<sup>४</sup> सुता ॥ १४५ ॥  
 तद्गृहं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिलोकस्वामिनो नेमेः प्रियास्त्वेषेति सादरम् ॥ १४६ ॥  
 त्रिखण्डजातरत्नानां त्वं पतिर्नो विशेषतः । देव त्वमेव नाथोऽसि प्रस्तुतार्थस्य के वयम् ॥ १४७ ॥

सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़े कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते-करते स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे नीलकमलके समान नेत्रों वाली! तू मेरा यह स्नानका वस्त्र ले। सत्यभामाने कहा कि मैं इसका क्या करूँ? नेमिनाथने कहा कि इसे धो डाल। तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्रीकृष्ण है? वह श्रीकृष्ण, जिन्होंने कि नागशय्या पर चढ़कर शार्ङ्ग नामका दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था और दिग्दिगन्तको पूर्ण करने-वाला शङ्ख पूरा था? क्या आपमें वह साहस है, यदि नहीं है तो आप मुझसे वस्त्र धोनेकी बात कहते हैं? ॥ १३१-१३६ ॥ नेमिनाथने कहा कि 'मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दूंगा' इतना कहकर वे गर्वसे प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े और वह आश्चर्यपूर्ण कार्य करनेके लिए आयुधशालामें जा चुसे। वहाँ वे नागराजके महामणियोंसे सुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शय्याके समान चढ़ गये, बार बार स्फालन करनेसे जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओंके अन्तरालको रोकनेवाला शङ्ख फूंक दिया ॥ १३७-१३९ ॥ उस समय उन्होंने अपने आपको महान् उन्नत समझा सो ठीक ही है क्योंकि राग और अहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको अवश्य ही विकृत बना देता है ॥ १४० ॥ जिस समय आयुधशालामें यह सब हुआ था उस समय श्रीकृष्ण कुसुमचित्रा नामकी सभाभूमिमें विराजमान थे। वे सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुन कर व्यग्र हो उठे, उनका मन अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥ १४१ ॥ बड़े आश्चर्यके साथ उन्होंने किंकरोंसे पूछा कि 'यह क्या है?' किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगा कर श्रीकृष्णसे सब बात ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी। किंकरोंके वचन सुनकर चक्रवर्ती कृष्णसे बड़ी सावधानीके साथ विचार करते हुए कहा कि आश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथका चित्त रागसे युक्त हुआ है। अब यह नवयौवनसे सम्पन्न हुए हैं अतः विवाहके योग्य हैं—इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है ऐसा कौन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नहीं होती हो ॥ १४२-१४४ ॥ यह कह कर उन्होंने विचार किया कि उपवंशरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा उपसेनकी जयावती रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वाङ्ग सुन्दर है ॥ १४५ ॥ विचारके बाद ही उन्होंने राजा उपसेनके घर स्वयं जाकर बड़े आदरसे 'आपकी पुत्री तीन लोकके नाथ भगवान् नेमिकुमारकी प्रिया हो' इन शब्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की ॥ १४६ ॥ इसके उत्तरमें राजा उपसेनने कहा कि हे देव! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी हैं, और खास हमारे स्वामी हैं,

इत्युग्रमेनवाचोद्यन्ममदो यादवाधिपः । शुभेऽहनि समारभ्य विधानुं म तदुत्सवम् ॥ १४८ ॥  
 पञ्चरत्नमयं गम्यं समानयदनुगरम् । विवाहमण्डपं तस्य मध्यस्थे जगतीतले ॥ १४९ ॥  
 नवमुक्ताफलालोत्तरद्वन्द्वहीविराजिन । मङ्गलामोदि पुष्पापहारासारविलासिन ॥ १५० ॥  
 विन्तुनाभिनवानर्घ्ययन्त्रे सौवर्णपटके । बध्वा सद समपाद्मनण्डुलारोपणं वरः ॥ १५१ ॥  
 परेद्युः समये पाणिद्वयमेकस्य माधवः । यियामुर्दुर्गतिं लोभमूर्तात्रानुभवोदयान् ॥ १५२ ॥  
 दुराशयः सुरार्धाङ्गपृथ्व्यापि महान्मनः । स्वगज्यादानमाशङ्क्य नेमेमायाविदां वरः ॥ १५३ ॥  
 निवेद्वरारणं किञ्चिच्चिरीदधैव विरम्यनि । भोगेभ्य इति सञ्चिन्त्य तदुपायविधिन्मया ॥ १५४ ॥  
 व्याधाधिपैर्द्वैतानां नानामृगकडम्बकम् । विधायैकत्र सङ्कीर्णां वृत्तिं नन्परितो व्यधान् ॥ १५५ ॥  
 अशिक्षयच्च तद्रक्षाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम् । ३दिशो नेमाधरोऽभ्येति भवद्भिः सोऽभिधीयताम् ॥ १५६ ॥  
 त्वद्विधाहे ज्यैर्याकर्तुं चक्रिर्गण मृगोत्करः । समानीतं हति व्यक्तं महापापोपलिम्पकः ॥ १५७ ॥  
 अथ नेमिकुमारोऽपि नानाभरणभामुग्ः ५ । महन्वकुन्तलो रक्तोत्पलमालाधलकुन्तः ॥ १५८ ॥  
 तुरङ्गमात्रोद्धतधूर्त्वालिप्तद्विगाननः । सवयोभिरिति प्रानैर्महासामन्तमृचुभिः ॥ १५९ ॥  
 परीतः क्षिपिकां चित्रामारुह्य नयनप्रियः । दिशो विलोकितुं गच्छन्मन्त्रालोक्य यदृच्छया ॥ १६० ॥  
 मृगारितमन्तो घोरां रुदित्वा करुणस्वनम् ६ । भ्रमनस्मृषितान् दीनदृष्टाननिभयाकुलान् ॥ १६१ ॥  
 किमर्थमिदमेकत्र निरुद्धं नृणभुक्कुलम् । इत्यन्वयुङ्क्त तद्रक्षानियुक्ताननुकम्पया ॥ १६२ ॥

अतः यह कार्य आपनो ही करना है—आप ही इसके नाथ है हम लोग कौन होते हैं १० हम प्रकार राजा उग्र नेने यत्न मुन कर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही दर्पित हुए । तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वह विवाहका उत्सव करना प्रारम्भ किया और गयने उत्सव तथा मनोहर पांच प्रकारके रत्नोंका विवाहमण्डप बनवाया । उसके बीचमें एक वेदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर रङ्गावलीसे सुशोभित थी, मङ्गलमय सुगन्धित फूलोंके उपहार तथा वृष्टिसे मनोहर थी, उस पर सुन्दर नवीन वस्त्र ताना गया था, और उसके बीचमें सुवर्णकी चौकी रखी हुई थी । उसी चौकी पर नेमिकुमारने वधु राजीमतीके साथ गीले चावलोंपर बैठनेका नैंग (दस्तर) किया ॥१४७-१५१॥ दूसरे दिन वरके हाथमें जलधारा देनेका समय था । उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गतिको जानेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्णका अभिप्राय लोभ कपायके तीव्र उदयसे कुम्भित हो गया । उन्हें इस बातकी आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इन्द्रोंके द्वारा पूजनीय भगवान् नेमिनाथ हमारा राज्य न ले लें । उसी क्षण उन्हें विचार आया कि 'ये नेमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे विरक्त हो जावेंगे ।' ऐसा विचार कर वे वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करने लगे । उनकी समझमें एक उपाय आया । उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियोंसे पकड़वाकर अनेक मृगोंका समूह बुलाया और उमे एक स्थानपर इकट्ठाकर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा वहाँ जो रक्त नित्युक्त किये थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान् नेमिनाथ दिशाओंका अवलोकन करनेके लिए आवें और इन मृगोंके विषयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ साफ कह देना कि आपके विवाहमें मारनेके लिए चक्रवर्तीने यह मृगोंका समूह बुलाया है । महापापका वन्ध करनेवाले श्रीकृष्णने ऐसा उन लोगोंको आदेश दिया ॥१५२-१५७॥ तदनन्तर जो नाना प्रकारके आभूषणोंसे देदीप्यमान हैं, जिनके शिरके बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अलङ्कृत हैं, घोड़ोंके खुंरोंसे उड़ी हुई धूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अग्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और जो समान अवस्था वाले, अनिश्चय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्वर राजाओंके पुत्रोंसे घिरे हुए हैं ऐसे नयनाभिराम भगवान् नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर दिशाओंका अवलोकन करनेके लिए निकले । वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए मृगोंको देख दयावश वहाँके रक्षकोंसे पूछा कि यह

१-मोद-ल० । २ सौमर्म-ल० । ३-धीशो ल० । ४ महापापोपलिम्पकः ल० । ५ भारभाक् ल० ।

६ करुणस्वरम् ल० ।

देवैतद्दामुदेवेन त्वद्विवाहमहोत्सवे । व्ययीकर्तुमिहानीतमित्यभापन्त<sup>१</sup> तेऽपि तम् ॥ १६३ ॥  
 वसन्त्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधकाः । किलैतांश्च स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीदृशान् ॥ १६४ ॥  
 किं न कुर्वन्त्यमी मूढाः प्रौढमिथ्यात्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितुं प्राणैर्निर्वृणाः स्वैर्विनश्वरैः ॥ १६५ ॥  
 स्वराज्यग्रहणे शङ्कां विधाय मयि दुर्मतिः । व्यधान्कपटमीदृशं कपटं दुष्टविचेष्टितम् ॥ १६६ ॥  
 इति निर्धाय निर्विद्य निर्बुध्य निजमन्दिरम् । प्रविश्याविर्भवद्वोधिस्तत्कालोपगतामरैः ॥ १६७ ॥  
 बोधितः समतीतात्मभवानुस्मृतिवेषितः । तदैवागत्य देवेन्द्रैः<sup>२</sup> कृतनिष्क्रमणोत्सवः ॥ १६८ ॥  
 शिविकां देवकुर्वाख्यामारुह्यामरवेष्टितः<sup>३</sup> । सहस्रान्नवणे पष्ठानशनः श्रावणे सिते ॥ १६९ ॥  
 पञ्च चित्राख्यनक्षत्रे पष्ठयां सायाह्नमाश्रितः । शतत्रयकुमारारुढव्यतीतौ सह भूभुजात् ॥ १७० ॥  
 सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपद्यत । चतुर्थज्ञानधारी च बभूवासन्नकेवलः<sup>४</sup> ॥ १७१ ॥  
 मन्थ्येव भानुमस्ताद्रावतु<sup>५</sup> राजीमतिश्च तम् । ययौ वाचापि दत्तानां न्यायोऽर्थं कुलयोषिताम् ॥ १७२ ॥  
 स्वदुःखेनापि निर्विण्णः श्रूयते न जनः परः । परदुःखेन सन्तोऽमी त्यजन्त्येव महाश्रियम्<sup>६</sup> ॥ १७३ ॥  
 बलकेशवमुख्यावनीशाः सम्पूज्य संस्तवैः । ससुरेशास्तमीशानं स्वं धाम समुपाश्रयन् ॥ १७४ ॥  
 पारणादिवसे तस्मै वरदत्तो महीपतिः । कनकाभः प्रविष्टाय पुरीं द्वारावतीं सते ॥ १७५ ॥  
 श्रद्धादिगुणसम्पन्नः प्रतीच्छादिनवक्रियः ।<sup>७</sup> अदितान्नं मुनिग्राह्यं पञ्चाश्रयाणि चाप सः ॥ १७६ ॥  
<sup>८</sup> कोटीर्द्वादशरत्नानां साधाः सुरकरच्युताः । वृष्टिं सौमनसी वायुं मान्धादित्रिगुणान्वितम् ॥ १७७ ॥

पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोक़ा गया है ? ॥ १५८-१६२ ॥ उत्तरमें रत्नकोने कहा कि 'हे देव ! आपके विवाहोत्सवमें व्यय करनेके लिए महाराज श्रीकृष्णने इन्हें बुलाया है' ॥ १६३ ॥ यह सुनते ही भगवान् नेमिनाथ विचार करने लगे 'दि. ये पशु जङ्गलमें रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हें अपने भोगके लिए पीडा पहुँचाते हैं । ऐसे लोगोंको धिक्कार है । अथवा जिनके चित्तमें गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ है ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणोंके द्वारा जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं ? देखो, दुर्बुद्धि कृष्णने मुझपर अपने राज्य-ग्रहणकी आशाङ्काकर ऐसा कपट किया है । यथार्थमें दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेवाली होती है' । ऐसा विचारकर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गये । रत्नत्रय प्रकट होनेसे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें समझाया, अपने पूर्व भवोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे । उसी समय इन्होंने आकर दीक्षाकल्याणकका उत्सव किया ॥ १६४-१६८ ॥ तदनन्तर देवकुरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देवोंके साथ चल पड़े । सहस्रान्नवनमें जाकर तेलाका नियम लिया और श्रावण शुक्ला षष्ठीके दिन सायंकालके समय, कुमार-कालके तीन सौ वर्ष बीत जानेपर एक हजार राजाओंके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हें चौथा-मनः-पर्यय ज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा ॥ १६९-१७१ ॥ जिस प्रकार संध्या सूर्यके पीछे-पीछे अस्ताचलपर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे तपश्चरणके लिए चली गई सो ठीक ही है क्योंकि शरीरकी बात तो दूर रही, वचन मात्रसे भी दी हुई कुलस्त्रियोंका यही न्याय है ॥ १७२ ॥ अन्य मनुष्य तो अपने दुखसे भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर देते हैं ॥ १७३ ॥ बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इन्द्र आदिदेव, सब अनेक स्तवनोंके द्वारा उन भगवान्की स्तुतिकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ १७४ ॥ पारणाके दिन उन सज्जनोंत्तम भगवान्ने द्वारावती नगरीमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न राजा वरदत्तने पडिगाहन आदि नवधा भक्तिकर उन्हें मुनियोंके ग्रहण करने योग्य-शुद्ध प्रासुक आहार दिया तथा पञ्चाश्रय्य प्राप्त किये ॥ १७५-१७६ ॥ उसके घर देवोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े

१-मित्यभाषत ल० । २ देवेन्द्राः ल० । ३-मरवेष्टिताम् ल० । ४ केवली ग० । ५ राजिमतिश्च म० । राजिमतिश्च ल० । राजिमती च ल०, ग० । ६ महोश्रियम् ल० । ७ अदितान्नं ल० । ८ कोटिदिश ल० ।

धनान्नरितकायामराभिनानडिनदुन्दुभि । ध्वानं मनोहरं साधुदानधर्यणपूर्वकम् ॥ ११० ॥  
 एवं तपस्यनमस्यस्य पदपञ्चागद्विनप्रसे । छगस्थनमये याने गिरौ रैवतकाभिने ॥ १११ ॥  
 पद्योपवास्युक्तस्य महावेणोरथः<sup>१</sup> स्थितेः ।<sup>२</sup> पूर्वोऽद्भ्यश्चयुजे मामि शुक्लपक्षादिमे दिने ॥ ११० ॥  
 चित्रायां केवलज्ञानमुदपद्यत सर्वगम् । पृजयन्ति मम तं देवाः केवलावगमोत्सवे ॥ १११ ॥  
 वरदनादयोऽभ्रुवञ्जेकादश रणेऽशिनः । चतुःशतानि पूर्वजाः श्रुतज्ञानाच्छिपारगाः ॥ ११२ ॥  
 अन्यद्विनयवस्वैकैकमिनामनस्य विभ्रकाः । अन्यद्विनयपञ्चैकमिनाम्निज्ञानलोचनाः ॥ ११३ ॥  
 नावन्तः पञ्चमज्ञाना विक्रियद्विममन्विनाः । शनाधिकसहस्रं तु मनःपर्ययबोधनाः ॥ ११४ ॥  
 शतानि नव विज्ञेया वादिनोऽष्टशतानि च । अप्टादशसहस्राणि ते सर्वेऽपि समुक्षिताः ॥ ११५ ॥  
 यक्षा राज्ञामितिः काल्यायन्यन्याश्चग्विलायिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि श्रावका लक्षयेक्षिताः<sup>३</sup> ॥ ११६ ॥  
 त्रिलक्षा श्राविका देवा देव्यश्चात्मह्वययादिनाः । निर्यञ्जः सङ्गाया प्रोक्ता गणैरेमिद्विपण्मनैः ॥ ११७ ॥  
 परीतो भव्यपद्मानां विकासं जनयन्सुहुः । धर्मोपदेशनाकाराशुप्रसरेणाघनशशिना ॥ ११८ ॥  
 विश्वान् देशान् विह्वन्त्यान्ते प्राप्य द्वारावतीं कूर्ता । स्थितो रैवतकोद्याने तद्विशम्यान्यकेशवः ॥ ११९ ॥  
 बलदेवश्च सम्प्राप्य स्वसर्वद्विसमन्वितौ । वन्दित्वा श्रुतधर्माणौ प्रान्तचर्त्ता ततो हरिः ॥ १२० ॥  
 प्राहुनांस्तानि थं केचिन् केचिन्नित्यं क्षणस्थितिम् । केचिकेचिदणुं चाणोः केचिच्छ्यामाकसम्मितम् ॥ १२१ ॥  
 केचिदङ्गुष्ठमानव्यं योजनानां समुच्छ्रितम् । केचिच्छतानि पञ्चैव केचिद्वगनवद्विभुम् ॥ १२२ ॥  
 केचिदेकं परेनाना परेऽज्ञमपरेऽन्यथा । तं जीवाच्च प्रतिप्रायः सन्देहोऽस्तीत्यधोश्चरम् ॥ १२३ ॥

बारह करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई, फूल चरमे, मन्दना आदि तीन गुणोंसे युक्त वायु चलने लगी, मेघोंके भीतर छिपे देवोंके द्वारा तान्दित दुन्दुभियोंका मुन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया यह घोषणा होने लगी ॥ १७७-१७८ ॥ इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्थ अवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन वे रैवतक ( गिरनार ) पर्वतपर तैलाका नियम लेकर किसी बड़े भारी वाँसके वृक्षके नीचे विराजमान हो गये । निदान, आसीज कृष्ण पद्मिकाके दिन चित्रा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थोंको विपय करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । देवोंने केवलज्ञान कल्याणका उत्सवकर उनकी पूजा की ॥ १७९-१८१ ॥ उनकी सभामें वरदत्तको आदि लेकर ग्यारह गणधर थे, चार सौ श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी पूर्वोंके जानकार थे, ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक थे, पन्द्रह सौ तीन ज्ञानके धारक थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, ग्यारह सौ विक्रियाच्छ्रिके धारक थे, नौ सौ मनःपर्ययज्ञानी थे और आठ सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे । यक्षी, राज्ञामती, कात्यायनी आदि सब मिला कर चालीस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात निर्यञ्ज थे । इस तरह बारह सभाओंसे घिरे हुए भगवान् नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेवाले, धर्मोपदेश रूपी सूर्यकी किरणोंके प्रसारसे भव्य जीव रूपी कमलोंको बार-बार विकसित करते हुए समस्त देशोंमें घूमे थे । अन्नमें कृतकृत्य भगवान् द्वारावती नगरीमें आकर रैवतक गिरिके उद्यानमें विराजमान हो गये । अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तब वे अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके पास गये । वहाँ जाकर उन दोनोंने वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया ॥ १८२-१८० ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि हे भगवन् ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुसे भी सूक्ष्म मानते हैं ? कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर मानते हैं, कोई एक अङ्गुष्ठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसौ योजन मानते हैं, कोई आकाशकी तरह व्यापक मानते हैं ? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई

१-रथः स्थितः ल०, म० । २ पूर्वोऽद्भ्यश्चयुजे ल० । ३ लक्षधोषिता घ०, ग० । ४ प्रीति-मन्तौ ल० ।



पप्रच्छ सांऽपि नैतेषु कांऽपि विद्वयस्य लक्षणम् । ध्रौव्यांत्पादव्ययात्सासौ गुणी सूक्ष्मः स्वकृत्यभुक् ॥ १९४ ॥  
 ज्ञातात्तद्देहसम्भेयः स्वसंवेद्यः सुखादिभिः । अनादिकर्मसम्बन्धः सरन् गतिचतुष्टये ॥ १९५ ॥  
 कालादिलब्धिमासाद्य भव्यो नष्टाष्टकर्मकः । सम्यक्त्वाद्यष्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणधत् ॥ १९६ ॥  
 उर्ध्वत्रय्यास्वभावत्वाज्जगन्मूर्धनि तिष्ठति । इति जीवस्य सद्भावं जगाद् जगतां गुरुः ॥ १९७ ॥  
 तच्चिन्मयास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे । अभव्या दूरभव्याश्च मिथ्यात्वोदयदूषिताः ॥ १९८ ॥  
 नासुञ्जन्केचनानादिवासनां भववर्धनीम् । देवकी च तथापृच्छद्वरदत्तागणेशिनम् ॥ १९९ ॥  
 भगवन्मद्गृहं द्वौ द्वौ भूत्वा भिक्षार्थमागताः । बान्धवेष्विव षट्स्वेषु ज्ञेहः किमिति जातवान् ॥ २०० ॥  
 इति सोऽपि कथामिथं वक्तुं प्रारब्धवान्गणी<sup>१</sup> । जम्बूपलक्षिते द्वीपे क्षेत्रेऽस्मिन्मथुरापुरे ॥ २०१ ॥  
 शौर्यदेशाधिपः शूरसेनो नाम महीपतिः । तत्रैव भानुदत्ताख्यश्रेष्ठिनः सप्त सूनवः ॥ २०२ ॥  
 मातैषां यमुनादत्ता सुभानुः सकलाग्रिमः । भानुकीतिस्ततो भानुषेणोऽभूज्जानुशूरवाक् ॥ २०३ ॥  
 पञ्चमः शूरदेवाख्यः शूरदत्तास्ततोऽप्यभूत् । सप्तमः शूरसेनाख्यः पुत्रैस्तैस्तावलङ्कृतौ ॥ २०४ ॥  
 स्वपुण्यफलसारेण जग्मनुर्गृहमेधिताम् । धर्ममन्येद्युरभ्यर्णादाचार्याभयनन्दिनः ॥ २०५ ॥  
 श्रुत्वा नृपो वणिङ्मुख्योऽप्यग्रहीष्टां<sup>२</sup> सुसंयमम् । जिनदत्तार्थिकाभ्यर्णे श्रेष्ठिभार्या च दीक्षिता ॥ २०६ ॥  
 सप्तव्यसनसम्पन्ना जाताः सप्तापि तत्सुताः । पापान्मूलहरा भूत्वा राज्ञा निर्वासिताः पुरात् ॥ २०७ ॥

अज्ञानी मानते है और कांई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं । इसलिए हे भगवन्, मुझे जीव तत्त्वके प्रति संदेह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवान्से पूछा । भगवान् उत्तर देने लगे कि जीव तत्त्वके विषयमें अब तक आप लोगोंने जो विकल्प उठाये हैं उनमेंसे इस जीवका एक भी लक्षण नहीं है यह आप निश्चित समझिए । यह जीव उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यसे युक्त है, गुणवान् है, सूक्ष्म है, अपने किये हुए कर्मोंका फल भोगता है, ज्ञाता है, ग्रहण किये शरीरके बराबर है, सुख-दुःख आदिसे इसका संवेदन होता है, अनादि कालसे कर्मबद्ध होकर चारों योनियोंमें भ्रमण कर रहा है । यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका क्षय हो जानेसे सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त कर लेता है और मुक्त होकर चरम शरीरके बराबर हो जाता है । चूँकि इस जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमनका है इसलिए वह तीन लोकके ऊपर विद्यमान रहता है । इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् नेमिनाथने जीवके सद्भावका निरूपण किया ॥ १९१-१९७ ॥ उसे सुन कर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा भगवान्ने कहा था वैसा ही मान लिया परन्तु जो अभव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यात्वके उदयसे दूषित होनेके कारण संसारको बढ़ानेवाली अपनी अनादि वासना नहीं छोड़ सके । तदनन्तर देवकीने वरदत्त गणधरसे पूछा कि हे भगवन् ! मेरे घर पर दो दो करके छह मुनिराज भिक्षाके लिए आये थे उन छहोंमें मुझे कुटुम्बियों जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था सो उसका कारण क्या है ? ॥ १९८-२०० ॥

इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी मथुरा नगरमें शौर्य देशका स्वामी शूरसेन नामका राजा रहता था । उसी नगरमें भानुदत्त सेठके सात पुत्र हुए थे । उनकी माताका नाम यमुनादत्ता था । उन सात पुत्रोंमें सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुशूर, पाँचवा शूरदेव, उससे छोटा शूरदत्त, सातवाँ शूरसेन था । इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दोनों ही सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्मके फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचार्य अभयनन्दीसे धर्मका स्वरूप सुन कर राजा शूरसेन और सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया । इसी प्रकार सेठकी स्त्री यमुनादत्ताने भी जिनदत्ता नामकी आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २०१-२०६ ॥ माता-पिताके चले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोमें आसक्त हो गये । उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राजाने भी उन्हें अपने देशसे बाहर निकाल दिया

अवन्निविपत्रं गन्वा विशालायाः<sup>१</sup> उमजानकं । शूरमेननवन्ध्याप्य शेरशोररिपुं पुरम् ॥ २०८ ॥  
 प्राविशन्प्रकृतं तन्मिद्धिमन्यदुर्पास्थितम् । तन्पुराधिपनिर्भूपो यभूव वृषभध्वजः ॥ २०९ ॥  
 शृण्वो दृढप्रतापारण्यः स महत्प्रभटः पटुः । वप्रश्रीरस्य जायाऽऽर्माद्रज्जसुष्टिभ्रमभोः सुतः ॥ २१० ॥  
 विमलायाः सुता मङ्गी विमलेन्दुविश्व सा । तन्प्रिया भूभुजा सार्द्धं वमन्त वनमन्यदा ॥ २११ ॥  
 विहर्तुमुद्यताः सर्वे तत्कालमुत्पलिपन्वया । वप्रश्रीः सह मालाभिः कालाहिं कलशेऽक्षिपन् ॥ २१२ ॥  
 क्षुपाभ्यम्यया कार्यं नाम नाम्नि हि धीर्मानस । मङ्गी चाप्यारदानार्थं जालादानसमुद्यता ॥ २१३ ॥  
 दष्टा वसन्तकालांश्रविपेण विपभर्तुना । प्रिवदासशरीत्यादम्पन्दाभूदूर्णा नदा ॥ २१४ ॥  
 पलालवन्द्यो सावेष्ट्य क्षुपां देनवनेऽन्यजन । वज्रमुष्टिचक्रक्रोडापिरामेऽन्धेभ्य गुष्टवाञ् ॥ २१५ ॥  
 मङ्गी क्रैत्याकुलो माताप्यसदा-र्ता न्यवेदयन् । नशोकः सममुत्त्वानतिशानकरालधृत् ॥ २१६ ॥  
 तामन्वेष्टुं वज्रभ्रात्री श्मशाने योऽमास्थितम् । वरधर्ममुनि दृष्ट्वा नमस्कृत्वा कृताञ्जलिः ॥ २१७ ॥  
 यदि पूज्य प्रियां प्रेक्षे सहस्रदलवारिजैः । स्यां समभ्यर्चयिष्यामीत्याशाम्य गन्वांश्रदा ॥ २१८ ॥  
 र्वीक्षते स्म विचार्यापञ्चनतां विपदूषिताम् । पलायवान् हुक्काशु समानांगान्तिकं मुनेः ॥ २१९ ॥  
 तेन तन्पादसंपर्शभेज्जनाविर्णकृता । सापि सद्यः समुत्थाय प्रीतिमानगतो ॥ २२० ॥  
 गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्नभोजार्थं गते सति । शूरमेनन्तदा सर्वं तत्कमान्तिदिनो द्रुमैः ॥ २२१ ॥  
 वीक्ष्य मङ्गयाः परीक्ष्यार्थं तद्भयर्णमुपागतः । स्वाङ्गसन्दर्शनं कृत्वा मधुरालारचिन्तैः ॥ २२२ ॥

॥ २०७ ॥ अथ वे अद्यन्निदेशं पहुचे और उज्जयिनी नगरीके श्मशानभे छोड़ आते शूरमेनको बैठा कर वार्की छह भाई चोरी करनेके लिए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २०८ ॥ उन छहों भाइयोंके चले जानेपर उस श्मशानमें एक बटना और घटी जो कि इस प्रकार है—उस समय उज्जयिनीका राजा वृषभध्वज था, उसके एक दृढप्रहार नामका चतुर सहस्रभट जोड़ा था, उसको वार्की नाम वप्रश्री था और उन दोनोंके वज्रमुष्टि नामका पुत्र था ॥ २०९-२१० ॥ उसी नगरमें विमलचन्द्र मेठकी विमला खासे उपज हुई मंगी नामकी पुत्री थी, वह वज्रमुष्टिकी प्रिया हुई थी । किसी एक दिन वसन्त ऋतुमें उस समयका मुख प्राप्त करनेकी इच्छामें सब लोग राजाके साथ वनमें जानेके लिए तैयार हुए । मंगी भी जानेके लिए तैयार हुई । उसने मालाके लिए कचशमें हाथ डाला परन्तु उसकी सास वप्रश्रीने वहकी ईर्ष्यासे एक काला साँप मालाके साथ उस कचशमें पहलेमें ही रख छोड़ा था सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे खिया नहीं कर सकें ॥ २११-२१३ ॥ वसन्त ऋतुके तीव्र विपवाले माँपने उम मंगीको हाथ डालते ही वाट प्याग जिममें उसके समस्त शरीरमें विप फैल गया और वह उसी समय निश्चेष्ट हो गई ॥ २१४ ॥ वप्रश्री, वहको पयालसे कपट कर श्मशानमें छोड़ आई । जब वज्रमुष्टि वनक्रोड़ा समाप्त होनेपर लौट कर आया तो उसने आशुत होकर अपनी माँसे पूछा कि मंगी कहाँ है ? मानाने भूठभूठ कुछ उत्तर दिया परन्तु उसमें वह संतुष्ट नहीं हुआ । मंगीके नहीं मिलनेसे वह बहुत दुःखी हुआ और मंगी नीक्षण लगवार लेकर वृद्धनेके लिए रात्रिमें ही चल पड़ा ॥ २१५-२१६ ॥ उस समय श्मशानमें वरधर्म नामके मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे । वज्रमुष्टिने भक्तिमें हाथ जोड़ कर उनको दर्शन किये और कहा कि हे पूज्य ! यदि मैं अपनी प्रियाको देख सकूँगा तो सहस्रदल वाने कमलोंमें आपकी पूजा करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमुष्टि आगे गया । आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी सी चैनना वार्की थी, ऐसी विपसे दूषित अपनी प्रिया देखी । वह शीघ्र ही पयाज हटाकर उसे मुनिराजके समीप ले आया ॥ २१७-२१८ ॥ और मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पर्श रूपी आपधिसे उसने उसे विपरहित कर लिया । मंगीने भी उठकर अपने पतिको आनन्द बढ़ाया ॥ २२० ॥ तदनन्तर गुरुदेवके ऊपर जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा वज्रमुष्टि इधर सहस्रदल कमल लानेके लिए चला गया । उधर वृद्धोंसे छिपा हुआ शूरसेन यह सब काग देख रहा था ॥ २२१ ॥ वह मंगीकी परीक्षा करनेके लिए उसके पास

लीलावलोकनैर्हासैर्व्यधाद्विस्मयभणं भृशम् । साप्याह भवता सार्धमागमिष्यामि मां भवान् ॥ २२३ ॥  
 गृह्णात्वा याचिन्ति व्यक्तं श्रुत्वा तत्त्वत्पतेरहम् । विभेमि तन्न वक्तव्यमिति तेनाभिलषिता ॥ २२४ ॥  
 मा भैषीस्त्वं वराकोऽसौ किं करिष्यति भीलुकः । तनो येन तवापायो न स्यात्तक्रियते मया ॥ २२५ ॥  
 इत्यन्योन्यकथाकाले हस्तार्त्तनसरोरुहः । वज्रमुष्टिः समागत्य करवालं प्रियाकरे ॥ २२६ ॥  
 नित्राय मुनिपादाब्जद्वयमभ्यर्च्य भक्तिः । आनमन्तं<sup>१</sup> प्रिया तस्य ग्रहर्तुमसिमुद्धरे ॥ २२७ ॥  
 करेण शूरसेनोऽहंस्नात्करासि तदैव सः । आच्छिद्य न्यपतद्भूमौ शूरसेनकराङ्गुलिम् ॥ २२८ ॥  
 वज्रमुष्टिस्तदालोक्य मा भैषीरित्यभापत । भीताहमिति सा शाठ्याददितास्मै वृथोत्तरम् ॥ २२९ ॥  
 तदैव शूरसेनोऽपि भानुमिल्लब्धवित्तकैः । चौथैणाङ्ग भवद्भागं गृहाणेत्युदितः पृथक् ॥ २३० ॥  
 स भव्योऽनिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनम् । संसारादतिर्भातोऽहं तद्ग्रह्णिष्यामि संयमम् ॥ २३१ ॥  
 इत्यब्रवीदयं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदेत्युक्तः स तैश्छिन्नं<sup>२</sup> निजहस्ताङ्गुलिम्रणम् ॥ २३२ ॥  
 दर्शयित्वाऽवदत्सर्वमात्ममङ्गीविचेष्टितम् । तत्सुभानुः समाकर्ण्य स्त्रीनिन्दामकरोदिति ॥ २३३ ॥  
 स्थानं ता एव निन्दायाः परत्रासक्तिमागताः । वर्णमात्रेण राजन्त्यो रज्जयन्त्योऽपरान् भृशम् ॥ २३४ ॥  
 आदाय कृत्रिमं रागं रागिणां नयनप्रियाः । विभ्रतीह भृशं भायारम्याश्चित्राकृतीः स्त्रियः ॥ २३५ ॥  
 सुखं विषयजं प्राप्तं प्रासमाशुष्यमालिकाः<sup>३</sup> । किंपाकफलमाला वा काञ्च हन्युर्मनोरमाः २३६ ॥  
 मातरः केवलं नैताः प्रजानामेव योपितः । दोषाणामपि दुःशिक्षा दुर्विद्या इव दुःखदाः ॥ २३७ ॥

आया और उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापूर्ण विलोकनों और हँसी मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने वश कर लिया। वह शूरसेनने कहने लगी कि मैं आपके साथ चल्दूंगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगीकी बान सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे पतिप्रे डरता हूँ इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उत्तरमें मंगीने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है? फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किये देती हूँ ॥ २२२-२२५ ॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर बात-चीत हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लिये वज्रमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगीके हाथमें दे दी और स्वयं वह भक्तिसे मुनिराजके दोनों चरण-कमलोंकी पूजा करनेके लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रियाने उसपर प्रहार करनेके लिए तलवार उठाई परन्तु शूरसेनने उसके हाथसे उसी वक्त तलवार छीन ली। इस कर्मसे शूरसेनके हाथकी अंगुलियों कट-कट कर जमीन पर गिर गई ॥ २२६-२२८ ॥ यह देखकर वज्रमुष्टिने कहा कि हे प्रिये! डरो मत। इसके उत्तरमें मंगीने भूठमूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गई थी ॥ २२९ ॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेनके छह भाई चोरीका धन लेकर आ गये और उससे कहने लगे कि हे भाई! तू अपना हिस्सा ले ले ॥ २३० ॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अतः कहने लगा कि मुझे धनसे प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसारसे बहुत ही डर गया हूँ इसलिए संयम धारण करूँगा ॥ २३१ ॥ उसकी बात सुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप ग्रहण करनेका क्या कारण है? सो कह। इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुई अंगुलियोंका घाव दिखाकर मङ्गी तथा अपने बीचकी सब चेष्टाएँ कह सुनाईं। उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियोंकी निन्दा करने लगा ॥ २३२-२३३ ॥ कि पर पुरुषमें आसक्तिको प्राप्त हुई स्त्रियाँ ही निन्दाका स्थान हैं। ये वर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं और दूसरे पुरुषोंको अत्यन्त राग युक्त कर लेती हैं। ये बनावटी प्रेमसे ही रागी मनुष्योंके नेत्रोंको प्रिय दिखती हैं और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र विचित्र वेष धारण करती हैं ॥ २३४-२३५ ॥ ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मधुर मालूम होती हैं परन्तु अन्तमें किंपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्त्रियाँ किन्हीं नहीं नष्ट कर सकती हैं अर्थात् सभीको नष्ट कर सकती हैं ॥ ३३६ ॥ ये स्त्रियाँ केवल अपने

मृदवः शीतलाः श्लक्ष्णाः प्रायः स्पर्शमुन्वप्रदाः । मुजङ्गयो वाङ्मनाः प्रागहारिण्यः पापरूपिकाः ॥ २३८ ॥  
हन्याहन्तान्ममकान्तं विषं विपभृतां न वा । <sup>१</sup>सर्वाङ्गं सहजाहार्यं कान्तानां हन्ति भन्ततम् ॥ २३९ ॥  
परंपरां प्राणपर्यन्ताः पापिनामप्यपक्रियाः । हिंस्रानामिव कान्तानामभन्तानां दयाद्विषाम ॥ २४० ॥  
जानिमात्रेण सर्वांश्च योपिनो विपमूर्तयः । न ज्ञानमेतन्नातिर्जः कुर्वद्भिषिकन्यकाः ॥ २४१ ॥  
कौटिल्यकोटयः क्रौर्यपर्यन्ताः पञ्चपानकाः । नायोंऽनाया<sup>२</sup> कथं न स्युरस्युद्यत<sup>३</sup>विचेष्टिताः ॥ २४२ ॥  
तनो निविद्य संसागःस्नानुजः स विज्ञाजिनस । धनं त्वा स्ववान्ताभ्यांश्च रधर्मात्तपोऽगमन ॥ २४३ ॥  
जिनदत्तायिकाभ्यांश्च तद्गाथांश्च तपो ययुः । हेतुरासन्नभ्यानां को वा न स्यात्तपोग्रहे ॥ २४४ ॥  
सप्तारिप काननेऽन्येद्युःकजगिन्याः प्रतिष्ठितान । पञ्चमुष्टिः समामाद्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ २४५ ॥  
हेतुना केन दीक्षेत्र्यं भवनामित्यसौ जगौ । तेऽपि <sup>४</sup>निर्वर्णयामासुर्दीक्षाहेतुं यथागतम् ॥ २४६ ॥  
आयिकाणाञ्च दीक्षायाः पृष्ट्वा मङ्गलपि कारणम् । उपावदे तमभ्यगं प्रव्रज्यामासर्वांधिका ॥ २४७ ॥  
वरधर्मयतेवैत्रमुष्टिः जिप्यन्वमेधिवान् । प्रान्तं मन्यन्म्य सप्तानंस्त्रायस्त्रिंशाः स्वरादिमे ॥ २४८ ॥  
द्विसागरोपमायुष्कास्तत्रच्युत्वा स्वपुण्यतः । <sup>५</sup>भरते धातकीगण्डे प्राच्यवाक्छ्रेणिविश्रुते ॥ २४९ ॥  
नित्यालोकपुरे श्रीमच्चन्द्र<sup>६</sup>चूलमर्षापतेः । ज्याथान्देव्यां मनोहर्या मृमुक्षित्राङ्गदोऽभवत् ॥ २५० ॥

पुत्रोंकी ही माताएँ नहीं हैं किन्तु दोनोंकी भी माताएँ हैं और जिन प्रकार बुरी शिक्षामें प्राप्त हुई बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उनी प्रकार दुःख देती हैं ॥ २३७ ॥ ये स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं, चिकनी हैं और प्रायः स्पर्शका मुन्व देनेवाली हैं तो भी सर्पिणियोंके समान प्रायः हरण करनेवाली तथा पाप रूप हैं ॥ २३८ ॥ मापोंका विष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी वह किसीको मारता है और किसीको नहीं मारता है किन्तु स्त्रीका विष उमकें सर्व शरीरमें रहता है वह उनका सहभागी होनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है ॥ २३९ ॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अवश्य है परन्तु उनके घ्राण रहते पर्यन्त ही करते हैं मरनेके बाद नहीं करते पर दयाके साथ द्वेष रखनेवाली स्त्रियाँ हिंसाके समान मरणान्तर कालमें भी अपकार करती रहती हैं ॥ २४० ॥ जिन नीतिकारोंने अलगसे विपकन्याओंकी रचना की है उन्हें यह मालूम नही रहा कि सभी स्त्रियाँ ऊपत्ति मात्रमें अथवा स्त्रीत्व जानि मात्रमें विपकन्याएँ होनी हैं ॥ २४१ ॥ ये स्त्रियाँ कुटिलताकी अन्तिम सीमा हैं, इनकी क्रूरताका पार नहीं है ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाये रखनेवाली पुरुषके समान दुष्टता पूर्ण रहती हैं फिर ये अनार्य अर्थान् म्लेच्छ क्यों न कही जावें ॥ २४२ ॥ इम प्रकार सुभानुने अपने भाइयोंके साथ संसारमें विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियोंके लिए दे दिया और उन्हीं वरधर्म मुनिराजसे दीक्षा धारण कर ली ॥ २४३ ॥ उनकी स्त्रियोंने भी जिनदत्ता नामक आर्यिकाके समीप तप ले लिया सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्य जीवोंके तप ग्रहण करनेमें कौन्सा हेतु नहीं हो जाता अर्थान् वे अनायास ही तप ग्रहण कर लेते हैं ॥ २४४ ॥ दूसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरीके उपवनमें पधारे तत्र वज्रमुष्टिने पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किम कारणसे ली है ? उन्होंने दीक्षा लेनेका जो यथार्थ कारण था वह बतला दिया । इसी प्रकार वज्रमुष्टिकी स्त्री मंगीने भी उन आर्यिकाओंने दीक्षाका कारण पूछा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्हींके समीप दीक्षा धारण कर ली । वज्रमुष्टि वरधर्म मुनिराजका शिष्य बन गया । सुभानु आदि सातों मुनिराज आयुके अन्तमें संन्यासमरण कर प्रथम स्वर्गमें त्रायस्त्रिंश जानिकें देव हुए ॥ २४५-२४८ ॥ वहाँ दो सागर प्रमाण उनकी आयु थी । वहाँसे चयकर, अपने पुण्य प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपमें भरतक्षेत्र स्रमन्धी विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जो नित्यालोक नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्राङ्गद नामका पुत्र हुआ

१ सर्वगं ख०, घ० । २ न आर्था अनार्याः म्लेच्छा इत्यर्थः । ३-रत्यद्भुत-ल० । ४ निवेदयामासु-ल० । ५ भारते ख०, ग०, घ० । ६ चित्रकूट ग०, ख० ।

इतरंऽपि तयोरेव त्रयन्ते जज्ञिरे यमाः । ध्वजवाहनशब्दान्तगरुडौ मणिचूलकः ॥ २५१ ॥  
 पुष्पचूलाह्वयो नन्दनचरो रगनादिकौ । तत्रैव दक्षिणश्रेण्यां नृपो मेघपुराधिपः ॥ २५२ ॥  
 धनञ्जयोऽस्य सर्वश्रीर्जाया तन्याः सुताऽभवन् । धनश्रीः श्रीरिचान्यैषा तत्रैवान्यो महीपतिः ॥ २५३ ॥  
 ख्यातो नन्दपुरार्थीशो हरिषेणो हरिद्रियाम् । श्रीकान्ताऽस्य प्रिया तस्यां सुतोऽभूद्धरिवाहनः ॥ २५४ ॥  
 धनश्रियोऽयं बन्धुनः मैथुनः प्रथितो गुणैः । तत्रैव भरतेऽथोध्यायां स्वयंवरकर्मणि ॥ २५५ ॥  
 मालां सम्प्रापयत्प्रत्या धनश्रीर्हरिवाहनम् । चक्रवास्तदयोध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥ २५६ ॥  
 तस्य प्रीतिहारी देवी तन्पुनः पापपण्डितः । धनश्रियं सुदत्तोऽलाक्षिहृत्य हरिवाहनम् ॥ २५७ ॥  
 तन्निर्वेगण चित्राङ्गदाचाः सप्तपि संयमम् । भूतानन्दाख्यतीर्थेशपादमूले समाश्रयन् ॥ २५८ ॥  
 ते कालान्तेऽभवन्कल्पे तुर्ये सामानिकाः सुराः । सप्ताब्ध्यायुः स्थितिप्रान्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥ २५९ ॥  
 कुरुजाङ्गलदेजेऽस्मिन् हस्तिनाख्यपुरेऽभवन् । बन्धुमत्यां सुतः श्वेतवाहनाख्यवर्णकपतेः ॥ २६० ॥  
 शङ्खो नाम धनद्वयासौ सुभानुर्धनदः स्वयम् । तन्पुराधिपतेर्गङ्गदेवनामधरोशिनः ॥ २६१ ॥  
 तदेव्या नन्दयशसः शेषास्ते यमलाख्यः । गङ्गाख्यो गङ्गदेवश्च गङ्गमित्रश्च नन्दवाक् ॥ २६२ ॥  
 सुनन्दो नन्दिपेणश्च जाताः स्निग्धाः परस्परम् । गर्भेऽन्यस्मिन् महीनाथस्तस्यामासीन्निरुत्सुकः ॥ २६३ ॥  
 तद्दासीन्यमुत्पन्नपुत्रहेतुकमित्यसौ । न्यदिशद्रेवतीं धार्त्रीं तदपत्यनिराकृतौ ॥ २६४ ॥  
 तं सा नन्दयशोऽप्यष्टबन्धुमत्यै समर्पयन् । निर्नामकाख्यां तत्राप्य परेद्युर्गन्दने वने ॥ २६५ ॥  
 प्रपश्यन् सहस्रजानान् पण्महीशसुतान् समम् । त्वमप्यमीभिर्भुञ्ज्वेति शङ्खेन समुदाहृतम् ॥ २६६ ॥

॥ २४६-२५० ॥ वाकी छह भाइयोंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनोहरी रानीके दो-दो करके तीन वारमें छह पुत्र हुए। गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन और गगनचर ये उनके नाम थे। उसी धातकीखण्डद्वीपके पूर्व भरत क्षेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मेघपुर नामका नगर है। उसमें धनञ्जय राजा राज्य करता था। उसकी रानीका नाम सर्वश्री था, उन दोनोंके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामें मानो दूसरी लक्ष्मी ही थी। उसी विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीमें एक नन्दपुर नामका नगर है उसमें शत्रुओंके लिए सिंहके समान राजा हरिषेण राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था और उन दोनोंके हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिवाहन नातेमें धनश्रीके भाईका साला था। उसी भरतक्षेत्र के अयोध्यानगरमें धनश्रीका स्वयंवर हुआ उसमें धनश्रीने बड़े प्रेमसे हरिवाहनके गलेमें वरमाला डाल दी। उसी अयोध्यामें पुष्पदन्त नामका चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रीतिकरी स्त्री थी और उन दोनोंके पापकार्यमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था। सुदत्तने हरिवाहनको मार कर धनश्रीको स्वयं ग्रहण कर लिया ॥ २५१-२५७ ॥ यह सब देखकर चित्राङ्गद आदि सातों भाई विरक्त हो गये और उन्होंने श्रीभूतानन्द तीर्थङ्करके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया। आयुका अन्त होने पर वे सब चतुर्थ स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। वहाँ सात सागरकी उनकी आयु थी। उसके बाद वहाँसे च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके कुरुजांगल देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेतवाहनके उसकी स्त्री बन्धुमतीसे सुभानुका जीव शङ्ख नामका पुत्र हुआ। वह सुभानु धन-सम्पदामें स्वयं लुबेर था। उसी नगरमें राजा गङ्गदेव रहता था। उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था, सुभानुके वाकी छह भाइयोंके जीव इन्हीं दोनोंके दो-दो कर तीन वारमें छह पुत्र हुए। गङ्ग, गङ्गदेव, गङ्गमित्र, नन्द, सुनन्द, और नन्दिपेण ये उनके नाम थे। ये छहों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे। नन्दयशाके जब सातवां गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गर्भमें आया बालक ही समझा इसलिए उसने रेवती धायको आह्ला दे दी कि तू इस पुत्रको अलग कर दे। ॥ २५८-२६४ ॥ रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बड़िन बन्धुमतीके लिए सौंप आई। उसका नाम निर्नामक रक्खा गया। किसी एक दिन ये सब लोग नन्दनवनमें गये, वहाँपर राजाके छहों पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्नामकसे कहा कि तू भी इनके साथ खा।

स्थितो भोक्तुमसौ नन्द्यशास्त्रं व्रीक्ष्य कोपितौ । कन्यायमिति पादेनाहंस्तावन्वीयतुः शुचम् ॥ २६७ ॥  
 शङ्कनितांभकौ राज्ञा कदाचिन्सह वन्दितुम् । द्रुमसेनमुनि यानाववधिज्ञानलोचनम् ॥ २६८ ॥  
 अभिवन्द्य ननो धर्मश्रवणानन्तरं पुनः । निर्नामिकाय किं नन्द्यशाः कुप्यत्यकारणम् ॥ २६९ ॥  
 इति गङ्गेन पृष्टांस्तौ मुनिरेवमभाषत । मुराष्टविपथे राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥ २७० ॥  
 अभूच्चित्ररथो नाम तन्म्यामृतरमायनः । स्पकारः पठं पत्रं कुशलोऽस्मै प्रतुष्टवान् ॥ २७१ ॥  
 भवितुं द्वादशप्रामान् सर्वाशो मांसलोलुपः । स कदाचिन्मृधमांग्ययन्यभ्याशे श्रुतागसः ॥ २७२ ॥  
 श्रद्धाय बोधिमामाद्य राज्यं मेघरथे सुते । निधोज्ञ संयतो जानः सुतांऽपि श्रावकोऽजनि ॥ २७३ ॥  
 ततः स्पकरप्रामानेकशेषं समाहरत् । सोऽन्येषुर्षुर्द्वैरः सन् सर्वसम्भारसंस्कृतम् ॥ २७४ ॥  
 १कोशातर्काफलं पङ्कं मुनीन्द्रं तमभोजयत् । ऊर्जयन्तगिरौ सोऽपि तन्निमित्तं गतासुकः ॥ २७५ ॥  
 सम्यगाराध्य सम्भृतः कदातीतेऽपरजितं । जघन्यतद्रुतायुः सन्नहमिन्द्रो महद्विकः ॥ २७६ ॥  
 स्पकारोऽपि कालान्ते तृतीयतरकं गतः । ततो निर्गम्य संसारं सुदुःखः सुचिरं भ्रमन् ॥ २७७ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते श्रेत्रे विपथे मङ्गलाङ्गये । पलाशकूटप्रामस्य यक्षदत्तगृहस्थिनः ॥ २७८ ॥  
 सुतां यक्षादिदत्तायां यक्षनामा बभूव सः । तयोर्यश्चिल्लम्पञ्चश्च सृनुन्योऽन्यजायत ॥ २७९ ॥  
 तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो नाम्ना निरनुकम्पनः । सानुकम्पोऽपरोऽजायि जनैरथानुसारिभिः ॥ २८० ॥  
 कदाचित्सानुकम्पेन वार्यभागोऽपि सोऽपरः । मार्गस्थितान्धमर्षम्य दयादूरो बृथोपरि ॥ २८१ ॥

शङ्कके कहनेमें निर्नामिक उनके साथ खानेके लिए दैठा ही था कि नन्द्यशा उमें देखकर क्रोध करने लगी और यह किसका लड़का है. यह कहकर उमें एक लान मार दी । इस प्रकरणसे शङ्क और निर्नामिक दोनोंका बहुत शोक हुआ । किसी एक दिन शङ्क और निर्नामिक दोनों ही राजाके साथ-साथ अवधिज्ञानी द्रुमसेन नामक मुनिराजकी वन्दनाके लिए गये । दोनोंने मुनिराजकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया और तदनन्तर शङ्कने मुनिराजमें पूछा कि नन्द्यशा निर्नामिकमें अकारण ही क्रोध क्यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे कि मुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है । उसके राजाका नाम चित्ररथ था । चित्ररथके एक अमृत-रमायन नामका रसोइया था । वह मांस पकानेमें बहुत ही हुशाल था इसलिए मांसलोभी राजाने सन्तुष्ट होकर उसे बारह गाँव दे दिये थे । एक दिन राजा चित्ररथने सुधम नामक मुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥ २६५-२७२ ॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको रत्नत्रयकी प्राप्ति हो गई । जिसके फलस्वरूप वह मेघरथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया और राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥ २७३ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथने रसोइयाके पास एकही गाँव बचने दिया, बाकी सब छीन लिये । 'इन मुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खाना छोड़ा है और उनके पुत्रने हमारे गाँव छीने हैं' ऐसा विचार कर वह रसोइया उक्त मुनिराजसे द्वेष रखने लगा । एकदिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार की हुई कड़वी तुमड़ीका आहार उन मुनिराजके लिए करा दिया । जिससे गिरिनगर पर्वत पर जाकर उनका प्राणान्त हो गया । वे समाधिभरण कर अपराजिन नामक कल्पार्तान विमानमें वहाँकी जघन्य आयु पाकर बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक अहमिन्द्र हुए । रसोइया आयुके अन्तमें तीसरे नरक गया और वहाँसे निकलकर अनेक दुःख भोगना हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥ २७४-२७७ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रसम्बन्धी मङ्गलदेशमें पलाशकूट नगरके यक्षदत्त गृहस्थके उसकी यक्षदत्ता नामकी स्त्रीसे यक्ष नामका पुत्र हुआ । कुछ समय बाद उन्हीं यक्षदत्त और यक्षदत्ताके एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उपन्न हुआ । उन दोनों भाइयोंमें बड़ा भाई अपने कर्मोंके अनुसार निरनुकम्प-निर्दय था इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओंके अनुसार निरनुकम्प कहते थे और छोटा भाई सानुकम्प था—दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे ॥ २७८-२८० ॥ किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ीमें बैठकर कहीं जा रहे थे । मार्गमें एक अन्धा साँप बैठा था । सानुकम्पके

राकटं भाण्डसम्पूर्णं बलीवर्द्धयोजयत् । सर्पस्तन्मदितोऽकामनिर्जरो विगतासुकः ॥ २८२ ॥  
 'पुरे श्वेतविकानाम्नि वासवस्य महीपतेः । वसुन्धर्या सुता नन्दयशाः समुदपाद्यसौ ॥ २८३ ॥  
 पुननिरनुकम्पश्च भ्रात्रा दुःखनिमित्तकम् । त्वयेदं न कर्तव्यमित्युक्तः शममागतः ॥ २८४ ॥  
 म्वायुरन्ते समुत्पन्नः सोऽयं निर्नामकाख्यया । ततः पूर्वभवोपात्तपापस्य परिपाकतः ॥ २८५ ॥  
 जायते नन्दयशसः क्रोपो निर्नामकं प्रति । इति तस्य वचः श्रुत्वा ते निर्वैगपरायणाः ॥ २८६ ॥  
 ३नरेन्द्रपदसुता दीक्षां शङ्को निर्नामकोऽप्ययुः । तथा नन्दयशा रेवतीनामादित संयमम् ॥ २८७ ॥  
 सुव्रताख्याधिकार्याश्रे पुत्रस्त्रेहाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चामीषामेव लाभे च वर्धने ॥ २८८ ॥  
 ते निदानं विमूढत्वादुभे चाकुरुतां समम् । ततः सर्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथोचितम् ॥ २८९ ॥  
 महाशुके समुत्पन्नाः प्रान्ते सामानिकाः सुराः । षोडशाब्ध्युपमायुष्का दिव्यभोगवशीकृताः ॥ २९० ॥  
 ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभृद्बलदेवो हलायुधः । मृगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपतेः ॥ २९१ ॥  
 देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देवकी । त्वं सा नन्दयशाः स्त्रीत्वमुपगम्य निदानतः ॥ २९२ ॥  
 भद्रिलाख्यपुरे देशे मलयेश्जनि रेवती । सुदृष्टेः श्रेष्ठिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठिनी सालकाख्यया ॥ २९३ ॥  
 प्राकनाः पटकुमाराश्च यथा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव शकस्य निदेशात्कंसतो भयात् ॥ २९४ ॥  
 ते नैगमर्षिणा नीताः श्रेष्ठिन्या न्वलकाख्यया । धृतिता देवदत्तश्च देवपालोऽनुजस्ततः ॥ २९५ ॥  
 अनीकदत्तश्चानीकपालः शत्रुघ्नसन्शकः । जितशत्रुश्च जन्मन्येवात्र निर्धृतिगामिनः ॥ २९६ ॥  
 नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागताः । त्वया दृष्टास्ततस्तेषु स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥ २९७ ॥

रोकनेपर भी दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्ये साँपपर बर्तनोंसे भरी गाड़ी बैलोंके द्वारा चला दी। उस गाड़ीके भारसे साँप कट गया और अकामनिर्जरा करता हुआ मर गया ॥ २८१-२८२ ॥ मरकर श्वेतविका नामके नगरमें वहाँके राजा वासवके उसकी रानी वसुन्धरासे नन्दयशा नामकी पुत्री हुआ ॥ २८३ ॥ छोटे भाई सातुकम्पने निरनुकम्प नामक अपने बड़े भाईको फिर भी समझाया कि आपके लिए इस प्रकार दूसरोंको दुःख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाये जानेपर वह शान्तिको प्राप्त हुआ ॥ २८४ ॥ वही निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निर्नामक हुआ है। पूर्वभ्रममें उपाज्जन किये हुए पापकर्मके उदयसे ही नन्दयशाका निर्नामकके प्रति क्रोध रहता है। राजा द्रुमसेनके यह वचन सुनकर राजाके छहों पुत्र, शङ्क तथा निर्नामक सब विरक्त हुए और सभीने दीक्षा धारण कर ली। इसी प्रकार पुत्रोंके स्नेहसे उत्पन्न हुई इच्छासे रानी नन्दयशा तथा रेवती धायने भी सुव्रता नामक आर्यिकाके समीप संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन उन दोनों आर्यिकाओंने मूर्खतावश निदान किया। नन्दयशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेरे पुत्र हों' और रेवतीने निदान किया कि 'मैं इनका पालन करूँ'। तदनन्तर तपश्चर्या कर और अपनी योग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधनाकर आयुके अन्तमें वे सब महाशुक्र स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। वहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके वशीभूत रहते थे ॥ २८५-२८६ ॥ वहाँसे च्युत होकर शङ्कका जीव हलका धारण करनेवाला बलदेव हुआ है और नन्दयशाका जीव मृगावती देशके दशार्णपुर नगरके राजा देवसेनके रानी धनदेवीसे देवकी नामकी पुत्री पैदा हुई है। निदान-बन्धके कारण ही नू स्त्रीपर्यायको प्राप्त हुई है ॥ २८७-२८८ ॥ रेवतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमें सुदृष्टि सेठकी अलका नामकी सेठानी हुई है। पहलेके छहों पुत्रोंके जीव दो दो करके तीन वारमें तेरे छह पुत्र हुए। उसी समय इन्द्रकी आज्ञासे कंसके भयके कारण नैगमर्षि देवने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही उन पुत्रोंका पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु ये उन छहों पुत्रोंके नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥ २८९-२९० ॥ ये सब नई अवस्थामें ही दीक्षा लेकर भिक्षाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्वजन्मसे चला

स्वयम्भूकेशवैश्वर्यं <sup>१</sup>तपःकाले निराश्रयः सः । निनामकमुत्सनेऽद्य कंसजशूरजायत ॥ २९८ ॥  
 त्वं कुतस्ते कुतः कोऽयं मन्वन्धो निनिघन्धनः । विधेविल्लमिन् चित्रमगम्यं योगिनामपि ॥ २९९ ॥  
 इति नैसांगिकाशेषमध्यानुग्रहभाष्यकः । न्यगद्वज्रगवानेवं भक्त्यावन्दन देवकी ॥ ३०० ॥  
 भधानन्तरमेवैतं सत्यभामापि <sup>२</sup>भक्तिकी । स्वपूर्वभवमन्वन्धमप्राज्ञादक्षरावधिम् ॥ ३०१ ॥  
 सोऽपि व्यापारयामास तद्भीष्टनिवेदने । न हेतुः कृतकृत्यानामस्यन्योऽनुग्रहाद्विना ॥ ३०२ ॥  
 शीतलाख्यजिनाधार्शनार्थं धर्मं विनङ्क्ष्यति । भद्रिलाख्यपुरार्धाज्ञो नाम्ना मेवयथा नृपः ॥ ३०३ ॥  
 प्रेयसी तस्य नन्दाख्या भूनिशमा द्विजाप्रणाः । तस्यासांगिकमला पत्नी मुण्डशालायनमनयोः ॥ ३०४ ॥  
 तनुजो वेदवेदाङ्गपारगो भांगसक्तर्थाः । वृथा तपःपरिक्रेशो मूर्खैरेव प्रकल्पितः ॥ ३०५ ॥  
 निर्धनैः परलोकार्थं स्वयं साहसशालिभिः । भूमिवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाप्यते ॥ ३०६ ॥  
 इतीत्यादिकुहण्टान्तकुहेतुनिपुणैर्नृपम् । कायकेशासहं वाक्यैरयथायथं वृथुयत ॥ ३०७ ॥  
 तथा परांश्च दुर्वृद्धीन् बोधयन् जीवितावधौ । भूत्वा सप्तम्वधोभूमिष्वनमिन्यर्थं च क्रमान् ॥ ३०८ ॥  
 गन्धमादनकुश्रोत्थं <sup>३</sup>महागन्धवतीनदी । सर्मीपगन्ध <sup>४</sup>हृङ्गानामपल्ल्यां स्वपापतः ॥ ३०९ ॥  
 जातां वनेचरः कालसञ्चलः स तु कदाचन । वरधर्मयतिं प्राप्य मध्वादिविनिवृत्तितः ॥ ३१० ॥  
 विजयार्थोऽलकापुर्याः पत्युः पुरुबलस्य च । ज्योतिर्मालाभिधायाम् सुतां हरिवलोऽभवत् ॥ ३११ ॥

आया स्नेह इनमें उत्पन्न हो गया है ॥ २९७ ॥ पूर्व जन्ममें जो तेरा निनामक नामका पुत्र था उसने तपश्चरण करते समय स्वयंभू नारायणका दिव्य देवकर निदान दिया था अतः वह कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुआ है ॥ २९८ ॥ गणधर देव देवकीमें कहते हैं कि 'हे देवकी ! तू कहाँ मे आई ? तेरे ये पुत्र कहाँसे आये ? और बिना कारण ही इनके माथ यह मन्वन्ध कैसे आ मिला ? इसलिए जान पड़ता है कि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है और योगियोंके द्वारा भी अगम्य है' । इस प्रकार स्वभावसे ही ममस्न भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणधर भगवानने यह सब कथा कही । कथा सुनकर देवकीने उन्हें बड़ी भक्तिमें बन्दना की ॥ २९९-३०० ॥

तदनन्तर—भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, अक्षरावधिको धारण करनेवाले गणधर भगवानमें अपने पूर्व भवोंका मन्वन्ध पूछा ॥ ३०१ ॥ तब गणधर भगवान भी उसका अभीष्ट कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि कृतकृत्य मनुष्योंका अनुग्रहको छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है ॥ ३०२ ॥ वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानके तीर्थमें जब धर्मका विच्छेद हुआ तब भद्रिलपुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करना था, उसकी रानीका नाम नन्दा था । उसी समय उम नगरमें भूनिशमा नामका एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसकी कमला नामकी स्त्री थी और उन दोनोंके मुण्डशालायन नामका पुत्र था । मुण्डशालायन यद्यपि वेदवेदाङ्गका पारगामी था परन्तु माथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगों । आसक्त रहती थी इसलिए वह कहा करना था कि तपका क्लेश उठाना व्यर्थ है, जिनके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्योंने ही परलोकके लिए इस तपके क्लेशकी कल्पना की है । वास्तवमें पृथिवी-दान, सुवर्ण-दान आदिसे ही इष्ट सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार उसने अनेक कुहण्टान्त और कुहेतुओंके बतलानेमें निपुण वाक्योंके द्वारा कायकेशके सहनेमें असमर्थ राजाको भूठमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नहीं, अन्य दुर्वुद्धि मनुष्योंके लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा । अन्नमें मर कर वह सातवें नरक गया । वहाँसे निकल कर तिर्यञ्च हुआ । इस तरह नरक और तिर्यञ्च गतिमें घूमता रहा ॥ ३०३-३०८ ॥ अनुक्रमसे वह गन्धमादन पर्वतसे निकली हुई गन्धवती नदीके सर्मीपवर्ती भलङ्की नामकी पहाड़ीमें अपने पापकर्मके उदयसे काल नामका भील हुआ । उस भीलने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास जाकर मधु आदि तीन भकारोंका त्याग किया था । उसके फलस्वरूप वह विजयार्थ पर्वत पर अलकानगरीके राजा पुरबल और उनकी रानी ज्योतिर्मालाके हरिवल नामका पुत्र हुआ । उसने अनन्तवीर्य नामके मुनिराजके पास



अनन्तर्वार्ययन्ते गृहीत्वा द्रव्यसंयमम् । सौधर्मकल्पे सम्भूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥ ३१२ ॥  
 सुकेतोर्विजयाधार्द्रौ रथनूपुरभूपतेः । सुता स्वयंप्रभायाश्च सत्यभामा त्वमित्यभूः ॥ ३१३ ॥  
 पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तोऽनुनिमित्तादिकुशलाख्योऽर्धचक्रिणः ॥ ३१४ ॥  
 भविष्यति महादेवीत्याख्यत्रैमित्तिकोत्तमः । इत्युदीरितमाकर्ण्य सत्यभामाऽनुपत्तराम् ॥ ३१५ ॥  
 हग्मिण्यथा महादेव्या प्रणम्य स्वभवान्तरम् । परिपृष्टः परार्थेहो व्याजहारेति तज्जवान् ॥ ३१६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे मगधान्तरवत्तिनि । लक्ष्मीग्रामे द्विजः सोमोऽस्याभूच्छक्ष्मीमतिः प्रिया ॥ ३१७ ॥  
 प्रसाधिताङ्गी सान्येद्युर्द्वर्षालोकनोद्यता । समाधिगुप्तमालोक्य मुनिं भिक्षार्थमागतम् ॥ ३१८ ॥  
 प्रस्वेदमलदिग्धाङ्गो दुर्गन्धोऽयमिति क्रुधा । विचिकित्सापरा साधिक्षोपात्युद्गारिणी तदा ॥ ३१९ ॥  
 सहस्रोद्गुम्बराख्येन कुष्ठेन व्याप्तदेहिका । शुनीव तर्ज्यमाना सा जनैः परुषभापितैः ॥ ३२० ॥  
 शून्यगोहेऽतिदुःखेन मृत्वा स्नेहाहिताशया । गोहेऽस्यैव द्विजस्याभूद् दुर्गन्धश्चिक्रराखुकः ॥ ३२१ ॥  
 तस्योपरि मुहुर्धाधंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो मृतान्धाऽहिरजायत ॥ ३२२ ॥  
 तत्रैवासी पुनर्मृत्वा गर्दभोऽभूत्स्वपापतः । मुहुर्मुहुर्गुहं गच्छंस्तदैव कुपितैर्द्विजैः ॥ ३२३ ॥  
 हतो लकुटपापाणैर्भग्नपादः क्रिमिब्रणैः । आकुलः पतितः कूपे दुःखितो मृतिमागतः ॥ ३२४ ॥  
 ततोऽन्धाऽहिः समुत्पन्नो मृत्वान्धश्चाथ सूकरः । ग्रामे यो भक्षितो मृत्वा सोऽपि श्वभिरतोऽमुतः ॥ ३२५ ॥  
 मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे नद्युत्तरणकारिणः । मण्डूक्याश्च सुता जाता पूतिका नाम पापिनी ॥ ३२६ ॥

द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावसे वह मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर उसी विजयार्ध पर्वत पर रथनूपुर नगरके राजा सुकेतुके उनकी स्वयंप्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई। एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निमित्तज्ञानीसे पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीने कहा था कि यह अर्धचक्रवर्तीकी महादेवी होगी। इस प्रकार गणधरके द्वारा कहे हुए अपने भव सुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट हुई ॥ ३०६-३१५ ॥

अथानन्तर—महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूछे और जिनकी समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐसे गणधर भगवान् कहने लगे ॥ ३१६ ॥ कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी मगध देशके अन्नर्गत एक लक्ष्मीग्राम नामका ग्राम है। उसमें सोम नामका एक ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्रीका नाम लक्ष्मीमति था। किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राह्मणी, आभूषणादि पहिन कर दर्पण देखनेके लिए उद्यत हुई ही थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आ पहुँचे। 'इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्त है और यह दुर्गन्ध दे रहा है' इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्ष्मीमतिने घृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कहे ॥ ३१७-३१८ ॥ मुनि-निन्दाके पापसे उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याप्त हो गया इसलिए वह जहाँ जाती थी वहाँ पर लोग उसे कठोर शब्द कह कर कुत्तीके समान ललकार कर भगा देते थे ॥ ३२० ॥ वह सूने मकानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह रख वड़े दुःखसे मरी और उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्ध युक्त झड़ूँ दर हुई ॥ ३२१ ॥ वह पूर्व पर्यायके स्नेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दौड़ती थी इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा और बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मर कर उसी ब्राह्मणके घर साँप हुई ॥ ३२२ ॥ फिर मरकर अपने पापकर्मके उदयसे वहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोंने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदिसे ऐसा मारा कि उसका पैर टूट गया, घावोंमें कीड़े पड़ गये जिनसे व्याकुल होकर वह कुएँमें पड़ गया और दुःखी होकर मर गया ॥ ३२३-३२४ ॥ फिर अन्धा साँप हुआ, फिर मरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुअरको गाँवके कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदी पार करानेवाले मत्स्य नामक धीवरकी मण्डूकी नामकी स्त्रीसे पूतिका नामकी पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते ही

स्वोत्पत्त्यनन्तरं लोकान्तरं यातः पिता नतः । माता च पोपिता मानामया नवांगुभाविचैः ॥ ३२७ ॥  
 त्रिचिकित्स्या नदीनारवर्तिनां मा कदाचन ! तनाधिगुप्तमात्रोस्य नदीनारे पुराननम् ॥ ३२८ ॥  
 काललब्ध्या समासाद्य प्रतिमायोगधारिगन । गृहानारजना योगिदेहमथमशकादिकम् ॥ ३२९ ॥  
 अपास्यन्ती प्रयत्नेन निशान्ते योगनिष्ठिता । उरविष्टस्य पादाटजमुगाधिन्योदितं मुनेः ॥ ३३० ॥  
 श्रुत्वा धर्मधियाङ्गन पवोपवसन्ति सुधाः । परेष्टुजिनपत्रार्थ गच्छन्ती वाश्य सार्थिकाम् ॥ ३३१ ॥  
 ग्रामान्तरं समं गत्वा तदानीतान्धसा सदा । प्रागमन्धारगं कृत्वा कन्मिश्रिद्धृष्टतो विले ॥ ३३२ ॥  
 उपविष्टा निजाचारं पालयन्ती भयाद्धान । सम्यग्ज्ञान्वाधिकान्यातान्भवृत्तान्तं सकौतुवान् ॥ ३३३ ॥  
 चिञ्चं नीचकुलोत्पन्नाप्येवंवृणोति सादरम् । पूजानिर्वर्तिकां द्रष्टुं स्वं वात्सल्यादुपागताम् ॥ ३३४ ॥  
 अभिधायाम् पापिष्ठां मां त्वं पुण्यवती कुतः । पश्यस्यति निजान्तमन्वान् ज्ञानान् यनांशरान् ॥ ३३५ ॥  
 तस्या व्यावर्णयन्सापि वयस्यास्याः पुरानती । नयैतद्ववुद्धयायान्नागं जैनमवक्ष्यात् ॥ ३३६ ॥  
 प्राग्जन्माजितपापस्य परिपाकाद्विरूपिता । रोगवस्वं कुगन्धन्वं निर्धनवादिक्ञ्च कैः ॥ ३३७ ॥  
 न प्राप्यतेऽत्र संसारे तत्त्वं भूर्माहिना शुचा । न्वयानं व्रनर्गाहोपवासादिपरजन्मने ॥ ३३८ ॥  
 पाथेयं दुर्लभं तस्मान्मा भैर्यास्त्वमतः परम् । इति प्रोत्साहिना सख्या सा मन्यस्य समाधिना ॥ ३३९ ॥  
 च्युतप्रागाच्युतेन्द्रस्य वल्लभाभूदनिप्रिया । पत्यानां पञ्चपञ्चाशत् नत्राच्छत्रमौग्यभाक् ॥ ३४० ॥  
 च्युत्वा ततो विद्वभोस्यविषये कुण्डलाह्वये । पुरे वासवभृन्नर्तुः श्रीमत्याश्च सुताऽभवः ॥ ३४१ ॥

उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी इसलिए मानामहो (नाता) ने उनका पोषण किया वह सब प्रकारसे अशुभ थी और मद्दलोग उमने घृणा करने थे । किमी एक दिन वह नदीके किनारे बैठी थी वहीपर उसे उद समाधिगुप्त मुनिराजके दर्शन हुए जिनकी कि उमने लक्ष्मीमनिपर्यायमें निन्दा की थी । वे मुनि प्रतिमायोगसे अवस्थित थे, पूतिकार्की काललब्धि अनुकूल थी इसलिए वह शान्तभावको प्राप्तकर रात्रिभर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर आदिका दूर हटानी रही । जब प्रातःकालके समय प्रतिमायोग समाप्तकर मुनिराज विराजमान हुए तब वह उनके चरणकमलोंके समीप जा पहुँची और उनका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनने लगी । धर्मोपदेशमें प्रभावित होकर उम बुद्धिमतीने पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया । दूसरे दिन वह जिनेंद्र भगवान्की पूजा (दर्शन) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आर्यिकाके दर्शन हो गये । वह उन्हीं आर्यिकाके साथ दूसरे गाँव तक चली गई । वहीपर उमें भोजन भी प्राप्त हो गया । इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामान्तरसे लाये हुए भोजनसे प्राण रक्षा करनी और पापके भयसे अपने आचारकी रक्षा करती हुई किसी पर्वतकी गुफामें रहने लगी । एक दिन एक श्राविका आर्यिकाके पास आई । आर्यिकाने उससे कहा कि पूतिका नीच कुलमें उपन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह आश्चर्यकी बात है । आर्यिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाको बड़ा कौतुक हुआ । जब पूतिका पूजा (दर्शन) कर चुकी तब वह खंहरा उसके पास आकर उमकी प्रशंसा करने लगी । इसके उत्तरमें पूतिकाने कहा कि हे माता ! मैं तो महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यवती क्यों कहती हैं ? यह कह, उसने समाधिगुप्त मुनिराजसे जो अपने पूर्वभव सुने थे वे सब कह सुनाये । वह श्राविका पूतिकाकी पूर्वभवकी सखी थी । पूतिकाके मुखसे यह जानकर उसने कहा कि 'यह जीव पापका भय होनेसे ही जैनमार्ग-जैनधर्मको प्राप्त होता है । इस संसारमें पूर्वभवसे अजित पापकर्मके उदयसे विरूपता, रोगीपना, दुर्गन्धता तथा निर्धनता आदि किन्हीं नहीं प्राप्त होती ? अर्थात् सभीको प्राप्त होती है इसलिए तू शोक मतकर, तेरे द्वारा ग्रहण किये हुए व्रत शील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए दुर्लभ पाथेय (संबल) के समान हैं, तू अब भय मत कर ।' इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूब उत्साह दिया । तदनन्तर-समाधिभरणकर वह अच्युतेन्द्रकी अतिशय प्यारी देवी हुई । पचपन पत्य तक वह अखण्ड मुखका उपभोग करती रही । वहाँसे च्युत होकर विदर्भ देशके कुण्डलपुर नगरमें राजा वासवकी रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई ॥ ३२५-३४१ ॥

रगिमण्यथ पुदः कौसलाख्यया भूपतेः सुतः । भेजजस्याभवन्मद्रयां शिशुपालखिलोचनः ॥ ३४२ ॥  
 अभूत्पूर्वमेतत्तु मनुष्येष्वन्य किं फलम् । इति भूपनिना पृष्टः स्पष्टं नैमित्तिकोऽवदत् ॥ ३४३ ॥  
 तृतीयं नयनं यस्य दर्शनादस्य नश्यति । अयं हनिष्यते तेन संशयो नेत्युद्विष्टवित् ॥ ३४४ ॥  
 कदाचिद्भेजो मद्रौ शिशुपालः परेऽपि च । गत्वा द्वारावतीं द्रष्टुं वासुदेवं समुत्सुकाः ॥ ३४५ ॥  
 अदृश्यतामगात्रेण जरासन्धारिवीक्षणान् । तृतीयं शिशुपालस्य विचित्रा द्रव्यशक्तयः ॥ ३४६ ॥  
 विज्ञातादेशया मद्रया तद्विलोक्य हरिर्भिया । ददस्व पूज्य मे पुत्रभिक्षामित्यभ्ययाचत ॥ ३४७ ॥  
 शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्ब मद्रथम् । नास्यास्तीति हरेर्लब्धवरासौ स्वां पुरीमगान् ॥ ३४८ ॥  
 विशुद्धमण्डलो नित्यसुग्रन् ध्वस्तद्विपत्तमाः । पद्माह्लादकरस्तीक्ष्णकरः क्रूरः प्रतापवान् ॥ ३४९ ॥  
 प्रच्छाद्य परतेजांसि भूभृन्मूर्धस्थपादकः । शैशवे शिशुपालोऽसौ भासते स्मेव भास्करः ॥ ३५० ॥  
 हरिं हरिरिवाक्रम्य विक्रमेणाक्रमेपिणा । राजकण्ठीरवत्वेन सोऽवाञ्छद्वर्तितुं स्वयम् ॥ ३५१ ॥  
 दापेणा यशसा विश्वसर्पिणा स्वयुरपिणा । शतं तेनापराधानां व्यधायि मधुविद्विपः ॥ ३५२ ॥  
 स्वमूर्ध्वाङ्कृत्य मूर्धन्यः कृत्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षजमधिक्षिप्य लक्ष्मीमाक्षेसुमुद्ययौ ॥ ३५३ ॥

नदनन्तर कोशल नामकी नगरीमें राजा भेज राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम मद्रौ था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामका पुत्र हुआ । मनुष्योंमें तीन नेत्रका होना अभूत्पूर्व था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्या फल है ? तब परोक्षकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेसे इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जावेगा यह उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है ॥ ३४२-३४४ ॥ किसी एक दिन राजा भेज, रानी मद्रौ, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताके साथ श्रीकृष्णके दर्शन करनेके लिए द्वारावती नगरी गये थे वहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिशुपालका तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियों विचित्र हुआ करती हैं ॥ ३४५-३४६ ॥ यह देख मद्रौको निमित्तज्ञानीकी बात याद आ गई इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णसे याचना की कि 'हे पूज्य ! मेरे लिए पुत्रभिक्षा दीजिये' ॥ ३४७ ॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 'हे अम्ब ! सौ अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है अर्थात् जब तक सौ अपराध नहीं हो जावेंगे तब तक मैं इसे नहीं माहूंगा' इसप्रकार श्रीकृष्णसे वरदान पाकर मद्रौ अपने नगरको चली गई ॥ ३४८ ॥ इधर वह शिशुपाल बाल-अवस्थामें ही सूर्यके समान देदीप्यमान होने लगा क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका मण्डल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी विशुद्ध था—विद्वेष रहित था, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित होते ही निरन्तर शत्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात् कमलोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी पद्मा अर्थात् लक्ष्मीको आनन्दित करता था, जिस प्रकार सूर्यकी किरण तीक्ष्ण अर्थात् उष्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीक्ष्ण अर्थात् भारी था, जिस प्रकार सूर्य क्रूर अर्थात् उष्ण होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी क्रूर अर्थात् दुष्ट था, जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान् अर्थात् तेजसे सहित होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान् अर्थात् सेना और कोशसे उत्पन्न हुए तेजसे युक्त था और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थोंके तेजको छिपाकर भूभृत अर्थात् पर्वतके मस्तकपर—शिखर पर अपने पाद अर्थात् किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी अन्य लोगोंके तेजको आच्छादितकर राजाओंके मस्तकपर अपने पाद अर्थात् चरण रखता था । वह आक्रमणकी इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे अपने आपको सब राजाओंमें श्रेष्ठ समझने लगा और सिंहके समान, श्रीकृष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलानेकी इच्छा करने लगा ॥ ३४९-३५१ ॥ इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फैलनेवाले यशसे उपलक्षित और अपनी आयुको समर्पण करनेवाले उस शिशुपालने श्रीकृष्णके सौ अपराध कर डाले ॥ ३५२ ॥ वह अपने आपको ऊँचा-श्रेष्ठ बनाकर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्योंकी

१ अदृष्टं परोक्षं दैवं वा वेत्ति जानातीति अदृष्टवित् ।

सङ्घः शान्तोऽपि शत्रूणां हन्येवेवाधसञ्चयः । विजिगीषुस्तमुत्क्षेप्तुं क्षेपकृत्तं मुसुक्षुवत् ॥ ३५४ ॥  
 एवं प्रयाति कालं त्वां शिशुपालाय ते पिता । दातुं समुद्यतः प्रीत्या तच्छ्रुत्वा युद्धकाङ्क्षिणा ॥ ३५५ ॥  
 नारदेन हरिः सर्वं नत्कार्यमवबोधितः । पद्भ्यलसम्पन्नो गत्वा हत्वा तमूजितम् ॥ ३५६ ॥  
 आदाय त्वां महादेवीपट्टयन्त्रे न्ययोजयत् । श्रुत्वा तद्वचनं तस्याः परितोपः परोऽजनि ॥ ३५७ ॥  
 हृन्थं वृषाकमाकर्ण्य कः करोति जुगुप्सन्मम् । मत्वा मलीमसाक्षो चेद्यदि दुर्धामुनीश्वरान् ॥ ३५८ ॥  
 अथ जाम्बवती नत्वा मुनि स्वभदमन्तनिम् । पृच्छति म्मादरादेचमुवाच भगवानपि ॥ ३५९ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहेऽग्नि विषयः पुष्कलावती । वीतशोकपुरं नत्र दमको वैश्यवंजजः ॥ ३६० ॥  
 पत्नी देवमतिस्तस्य सुतार्ताद्वैविला तयोः । दत्ताऽसौ वन्मुमित्राय विधवाऽभूदनन्तरम् ॥ ३६१ ॥  
 निविष्णा जिनदेवाख्ययनिमेत्याहितव्रता । अगाद्गन्तरदेवीत्वं मन्दरे नन्दने वने ॥ ३६२ ॥  
 ततश्चतुरशीत्युक्तसहस्रान्द्रायुपश्च्युता । विषये पुष्कलावत्यां पुरे विजयनामनि ॥ ३६३ ॥  
 मधुषेणाख्यवैश्यस्य बन्धुमत्याश्च बन्धुरा । सुता बन्धुयशा नाम बभूवाभ्युदयोन्मुखी ॥ ३६४ ॥  
 जिनदेवमुवा सख्या सहासौ जिनदत्तया । समुपोप्यादिमे कल्पे कुबेरस्याभवत्प्रिया ॥ ३६५ ॥  
 ततश्च्युत्वाऽभवत्पुण्डरीकिण्यां वज्रनामधृत् । वैश्यस्य सुप्रभायाश्च मुमतिः मुनसद्यमा ॥ ३६६ ॥  
 सा तत्र सुव्रताऽर्थिकार्याहारार्पणपूर्वकम् । रत्नावलीमुपोप्याभूद् ब्रह्मलोकैऽप्सरारवरा ॥ ३६७ ॥  
 चिरात्ततो विनिष्कस्य द्वीपेऽस्मिन् स्नेचराचले । उदक्छ्रेण्यां पुरं जाम्बवाख्ये जाम्बवभूपतेः ॥ ३६८ ॥  
 अभूत्स्वं जम्बुषेणायां सती जाम्बवती सुता । मनुः पवनवेगस्य श्यामलायाश्च कामुकः ॥ ३६९ ॥

पक्षसे सहित रहता था और श्रीकृष्णको भी ललकारकर उनकी लक्ष्मी छीननेका उद्यम करना था ॥ ३५३ ॥ शान्त हुआ भी शत्रुओंका समूह पापोंके समूहके समान नष्ट कर ही देता है इसलिए विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको मुसुक्षके समान, शत्रुको नष्ट करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ ३५४ ॥ गणधर भगवान्, महारानी रुक्मिणीसे कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीचमें तेरा पिता तुझे बड़ी प्रसन्नतासे शिशुपालको देनेके लिए उद्यत हो गया । जब युद्धकी चाह रखनेवाले नारदने यह बात सुनी तो वह श्रीकृष्णको सब समाचार बतला आया । श्रीकृष्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलवान् शिशुपालको मारा और तुझे लेकर महादेवीके पट्टपर नियुक्त किया । गणधर भगवान्के यह वचन सुनकर रुक्मिणीको बड़ा हर्ष हुआ । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणीकी कथा सुनकर दुर्बुद्धिके सिवाय ऐसा कौन मनुष्य होगा जो कि महामुनियोंको मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा ॥ ३५५-३५८ ॥

अथानन्तर-रानी जाम्बवतीने भी बड़े आदरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवान्से आपने पूर्वभव पूछे और गणधर भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसके वीतशोक नगरमें दमक नामका वैश्य रहता था ॥ ३५६-३६० ॥ उसकी स्त्रीका नाम देवमति था, और उन दोनोंके एक देविला नामकी पुत्री थी । वह पुत्री वसुमित्रके लिए दी गई थी परन्तु कुछ समय बाद विधवा हो गई जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिये और आयुके अन्तमें वह मरकर मेरु पर्वतके नन्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई ॥ ३६१-३६२ ॥ तदनन्तर वहाँकी चौरासी हजार वर्षकी आयु समाप्त होनेपर वह वहाँसे चयकर पुष्कलावती देशके विजयपुर नामक नगरमें मधुषेण वैश्यकी बन्धुमती स्त्रीसे अनिशय सुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हुई । उसका अभ्युदय दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था । वहाँपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी एक सखी थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें कुबेरकी देवाङ्गना हुई ॥ ३६३-३६५ ॥ वहाँसे चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें वज्रनामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्रीके सुमति नामकी उत्तम पुत्री हुई । उसने वहाँ सुव्रता नामकी आर्यिकाके लिए आहार दान देकर रत्नावली नामका उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्वर्गमें श्रेष्ठ अप्सरा हुई । बहुत दिन बाद वहाँसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमें राजा जाम्बव और रानी जम्बुषेणाके नू जाम्बवती

भवत्याः स नमिर्नाम्ना मैथुनोऽग्निथिलेच्छया । ज्योतिर्वनेऽन्यदा स्थित्वा देया जाम्बवती न चैत् ॥ ३७० ॥  
 आच्छिद्याहं ग्रहीष्यामीत्यवाचजाम्बवः क्रुधा । खादितुं प्रेषयामास विद्यां माक्षिकलक्षिताम् ॥ ३७१ ॥  
 तदा नमिर्कुमारस्य किन्नराख्यपुराधिपः । मातुलो यक्षमाली तामच्छैस्सीत्खेचरेश्वरः ॥ ३७२ ॥  
 सर्वविद्याच्छिदां श्रुत्वा तज्जाम्बवतनृद्धवे । बलेनाक्रम्य सम्प्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥ ३७३ ॥  
 पलायत निजस्थानान्नामिर्मात्वा समानुलः । अनालोचितकार्याणां किं मुक्त्वान्यत्पराभवम् ॥ ३७४ ॥  
 नारदन्तद्विदित्वाद्यु सम्प्राप्य कमलोदरम् । वर्णयामास जाम्बवतीरूपमतिसुन्दरम् ॥ ३७५ ॥  
 हठाङ्कृष्णस्तदाकर्ण्य हरिष्यामीति तां सतीम् । सन्नद्धबलसम्पत्त्या गत्वा <sup>१</sup>खगनगान्तिके ॥ ३७६ ॥  
 निविष्टो मनसालोच्य ज्ञात्वा तत्कर्मदुष्करम् । उपोष्याचिन्तयद्वात्रौ केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥ ३७७ ॥  
 प्रसाधितत्रिखण्डोऽपि तत्राभूत्खण्डितायतिः <sup>२</sup> । तद्विपक्षखगेन्द्रस्य पुण्यं किमपि तादृशम् ॥ ३७८ ॥  
 यक्षिलाख्योऽनुजस्तस्य प्राक्तनस्तपसावसन् । महाशुके तदैत्यैते विद्ये द्वे साधयेति ते ॥ ३७९ ॥  
 दत्त्वा तत्साधनोपायमभिधाय गतो दिवम् । स क्षीरसागरं कृत्वा तत्राहिश्यने स्थितः ॥ ३८० ॥  
 साधयामास मासांस्ते चतुरो विधिपूर्वकम् । सिंहाहिवैरिवाहिन्यौ विद्ये हलिहरी गतौ ॥ ३८१ ॥  
 आरुह्य जाम्बवं युद्धे विजित्यादाय तत्सुताम् । महादेवीपदे प्रीत्या त्वामकार्षींक्षितीडिति ॥ ३८२ ॥  
 श्रुतं वक्तृविशेषेण यद्यप्यस्पष्टतर्कणम् । तद्दृष्टमिव विस्पष्टं सर्वं तस्यास्तदाऽभवत् ॥ ३८३ ॥

नामर्का पुत्री हुई । उसी विजयार्थ पर्वतपर पवनवेग तथा श्यामलाका पुत्र नमि रहता था वह रिश्तेमें भाईका साला था और तुम्हे चाहता था । एक दिन वह ज्योतिर्वनमें बैठा था वहाँ तेरे प्रति तीव्र इच्छा होनेके कारण उसने कहा कि यदि जाम्बवती मुझे नहीं दी जावेगी तो मैं उसे छीनकर ले लूँगा । यह सुनकर तेरे पिता जाम्बवको बड़ा क्रोध आ गया । उसने उसे खानेके लिए माक्षिक-लक्षिता नामकी विद्या भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिर्कुमारका मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था उसने वह विद्या छेद डाली ॥ ३६६-३७२ ॥ अपनी सब विद्याओंके छेदी जानेकी बात सुनकर राजा जाम्बवने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा । सेनाके साथ आक्रमण करता हुआ जम्बुकुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह नमि डरकर अपने मामाके साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य बिना विचारके किये जाते हैं उनका फल पराभवके सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥ ३७३-३७४ ॥ नारद, यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास गया और जाम्बवतीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णन करने लगा । यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा कि मैं उस सतीको हठान् ( जबरदस्ती ) हरण करूँगा । यह कहकर वे अपनी सेना रूपी सम्पत्तिके साथ चल पड़े और विजयार्थ पर्वतके समीपवर्ती वनमें ठहर गये । बलदेव उनके साथ थे ही । यह कार्य अत्यन्त कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपवासका नियम लिया और रात्रिके समय मनमें विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा । देखो, जिसने तीन खण्ड वशकर लिये ऐसे श्रीकृष्णका भी भविष्य वहाँ खण्डित दिखने लगा परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी श्रीकृष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था ॥ ३७५-३७८ ॥ कि जिससे पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ था, आया और कहने लगा कि 'मैं ये दो विद्याएँ देता हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो' इस प्रकार कह कर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेकी विधि बतला कर वह स्वर्ग चला गया । इधर श्रीकृष्ण क्षीरसागर बनाकर उसमें नागशय्यापर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक चार माह तक विद्याएँ सिद्ध करते रहे । अन्तमें बलदेवको सिंहाहिनी और श्रीकृष्णको गरुडवाहिनी विद्या सिद्ध हो गई । तदनन्तर उन विद्याओं पर आरूढ़ होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बवको जीता और उसकी पुत्री तुम्हें जाम्बवती को ले आये । घर आकर उन्होंने तुम्हे बड़ी प्रीतिके साथ महादेवीके पद पर नियुक्त किया ॥ ३७९-३८२ ॥ यद्यपि पूर्व जन्मका वृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेषके मुखसे सुननेके कारण वह सबका सब जाम्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया ॥ ३८३ ॥

अथानन्तरमेवैनं मुनीन्द्रं गणनायकम् । सुसीमा भवसम्बन्धमात्मनः पृच्छति स्म सा ॥ ३८४ ॥  
 स्ववाकिरणजालेन बोधयन्स्तन्मनोऽभ्रजम् । इत्युवाच विनेयानां निनिमित्तैकबन्धवः ॥ ३८५ ॥  
 धातकीखण्डपूर्वार्ध-प्राग्विदेहेऽतिविश्रुतः । भोगाङ्गमङ्गिनामेको विपयो मङ्गलावती ॥ ३८६ ॥  
 रत्नसञ्चयनामात्र पुरं तत्प्रतिपालकः । विश्वदेवः प्रियास्यासीद्देवी श्रीमत्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥  
 तमयोध्यापनौ युद्धे हतवत्यनिशोकनः । सा मन्त्रिभिर्निषिद्धापि प्रविश्य हुनभोजिनम् ॥ ३८८ ॥  
 विजयार्धे सुरी भूत्वा व्यन्तरेष्वयुनायुषा । जीविन्वा तत्र नस्यान्ते भवे भ्रान्त्वा यथोचितम् ॥ ३८९ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते शालिग्रामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोर्यक्षदेवी जाता सुता सुधीः ॥ ३९० ॥  
 कदाचिद्द्वैर्मसेनाख्यमुनिं संश्रित्य सद्ब्रता । मासोपवासिने तस्मै दत्त्वा कायस्य सुस्थितिम् ॥ ३९१ ॥  
 सा कदाचिद्वने रन्तुं गत्वा चर्पभयाद् गुहाम् । प्रविष्टाऽजगरागीर्णा हरिवर्षे तनुं श्रिता ॥ ३९२ ॥  
 निर्विश्य तद्गतान् भोगान् नागी जाता ततश्च्युता । च्युता ततो विदेहेऽस्मिन् पुष्कलावत्युदीरिते ॥ ३९३ ॥  
 विपये पुण्डरीकिण्यामशोकाख्यमहीपतेः । सोमश्रियश्च श्रीकान्ता सुता भूत्वा कदाचन ॥ ३९४ ॥  
 जिनदत्तार्थिकोपान्ते दीक्षामादाय सुव्रता । तपस्यन्ती चिरं घोरमुपोष्य कनकावलीम् ॥ ३९५ ॥  
 माहेन्द्रे दिविजीभूत्वा भुक्त्वा भोगान्दिवौकसाम् । आयुरन्ते ततश्च्युत्वा सुज्येष्ठायां सुताऽभवः ॥ ३९६ ॥  
 सुराष्ट्रवर्धनाख्यस्य नृपस्य त्वं सुलक्षणा । हरेर्देवी प्रमोदेन वर्धसे वल्लभा सती ॥ ३९७ ॥  
 स्वभवान्तरसम्बन्धमाकर्ण्यैषाप संभद्रम् । को न गच्छति सन्नोषमुत्तरोत्तरवृद्धितः ॥ ३९८ ॥  
 लक्ष्मणापि मुनि नत्वा शुभ्रधुः स्वभवानभून् । अभापतैवमेतस्याश्रिकीर्षुः सोऽप्यनुग्रहम् ॥ ३९९ ॥

अथानन्तर—इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर सुसीमा नामकी पट्टरानी अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पूछने लगी ॥ ३८४ ॥ तब शिष्यजनोंके अकारण बन्धु गणधर भगवान् अपने वचन रूपी किरणोंके समूहसे उसके मनरूपी कमलको प्रफुल्लित करते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ ३८५ ॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वार्ध भागके पूर्व विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मङ्गलावती नामका देश है जो प्राणियोंके भोगोपभोगका एक ही साधन है । उसमें रत्नसंचय नामका एक नगर है । उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभासम्पन्न अनुन्दरी नामकी रानी थी ॥ ३८६-३८७ ॥ किसी एक दिन अयोध्याके राजाने राजा विश्वदेवको मार डाला इसलिए अत्यन्त शोकके कारण मंत्रियोंके निषेध करनेपर भी वह रानी अग्रिमे प्रवेश कर जल मरी । मर कर वह विजयार्ध पर्वत पर दश हजार वर्षकी आयु वाली व्यन्तर देवी हुई । वहाँकी आयु पूर्ण होनेपर वह अपने कर्मोंके अनुसार संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर किसी समय इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी शालिग्राममें यक्षकी स्त्री देवसेनाके यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई ॥ ३८८-३८९ ॥ किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनिके पास जाकर व्रत ग्रहण किये और एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजको उसने आहार दिया ॥ ३९० ॥ यक्षदेवी किसी दिन क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गई थी । वहाँ अचानक बड़ी वर्षा हुई । उसके भयसे वह एक गुफामें चली गई । वहाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिवर्ष नामक भोग-भूभिमें उत्पन्न हुई । वहाँके भोग भोगकर नागकुमारी हुई । फिर वहाँसे च्य कर विदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक और सोमश्री रानीके श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई । किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे व्रतोंका पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नामका घोर उपवास किया ॥ ३९१-३९५ ॥ इन सबके प्रभावसे वह माहेन्द्र त्वर्गमें देवी हुई, वहाँ देवोंके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राजाकी रानी सुज्येष्ठाके अच्छे लक्षणोंवाली तू पुत्री हुई है और श्रीकृष्णकी पट्टरानी होकर आनन्दसे बढ़ रही है ॥ ३९६-३९७ ॥ इस प्रकार अपने भवान्तरोंका सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी हर्षको प्राप्त हुई सो ठीक ही है क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धिको सुन कर कौन संतोषको प्राप्त नहीं होता ? ॥ ३९८ ॥

अथानन्तर—महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराजको नमस्कार कर अपने भव सुननेकी इच्छा

१ धीमत्य-त० । २-द्वर्मसेनाख्य त० ।

इह पूर्वविदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती । तत्रारिष्टपुराधीशो वासवस्य महीपतेः ॥४००॥  
 वसुमत्यामभूत्सुतः सुषेणाख्यो गुणाकरः । केनचिज्जातनिर्वैगो वासवो निकटेऽग्रहीत् ॥४०१॥  
 वीक्षां सागरसेनस्य तत्प्रिया सुनमोहिता । गृहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेष्टया ॥४०२॥  
 मृत्वा पुलिन्दी सञ्जाता सान्येद्युर्नन्दिवर्धनम् । मुनिं चारणमाश्रित्य गृहीतोपासकप्रता ॥४०३॥  
 मृत्वा जाताष्टमे कल्पे नर्तकीन्द्रस्य हृत्प्रिया । अवर्तार्यं ततो द्वीपे भरतेऽस्मिन् खगाचले ॥४०४॥  
 खगेशो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिनः । महेन्द्रस्य सुतानुन्दर्याश्च नेत्रमनोहरा ॥४०५॥  
 मालान्तकनका सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवरं । मालया स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम् ॥४०६॥  
 अन्येद्युः सिद्धकूटस्थगुरुं यमधराङ्गयम् । समुपेत्य समाकर्ण्य स्वभवान्तरसन्ततिम् ॥४०७॥  
 मुक्तावलीमुपोष्यासीत्तृतीयेन्द्रमनःप्रिया । नवपल्योपमायुष्का कालान्तेऽसौ ततश्च्युता ॥४०८॥  
 सुप्रकारपुराधीशः शम्बराख्यमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुताऽऽसीस्त्वं श्रीपद्मध्रुवसेनयोः ॥४०९॥  
 कनीयसी गुणैर्ज्येष्ठा लक्ष्मणा सर्वलक्षणा । तां त्वां पवनवेगाख्यखेचरः कमलोदरम् ॥४१०॥  
 समुपेत्य रथाङ्गेश वायुमार्गस्य निर्मला । लसन्ती चन्द्रलेखेव तव योग्या खगेशिनः ॥४११॥  
 तनया लक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद् सः । तद्वचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम् ॥४१२॥  
 प्रेपयामास कंसारिः सोऽपि गत्वा विलम्बितम् । त्वत्पित्रोरनुमित्या त्वामर्पयामास चक्रिणे ॥४१३॥  
 तेनापि पट्टबन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रुत्वात्मजन्मान्तरावलिं साऽगमन्मुदम् ॥४१४॥  
 गान्धारीगौरीपद्मावतीनां जन्मान्तरावलिम् । गणीन्द्रो वासुदेवेन पृष्टोऽसावित्यभाषत ॥४१५॥

करने लगी और इसका अनुग्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे । इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है । उसके अरिष्टपुर नगरमें राजा वासव राज्य करता था । उसकी वसुमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके समस्त गुणोंकी खान स्वरूप सुषेण नामका पुत्र था । किसी कारणसे राजा वासवने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेमसे मोहित होनेके कारण गृहवास छोड़नेके लिए समर्थ नहीं हो सकी इसलिए कुचेष्टासे मरकर भीलनी हुई । एक दिन उसने नन्दिवर्धन नामक चारण मुनिके पास जाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥३६६-४०३॥ मर कर वह आठवें स्वर्गमें इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी अनुन्दरीके नेत्रोंको प्रिय लगनेवाली कनकमाला नामकी पुत्री हुई और सिद्ध-विद्या नामके स्वयंवरमें माला डालकर उसने हरिवाहनको अपना पति बनाया ॥ ४०४-४०६ ॥ किसी एक दिन उसने सिद्धकूटपर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोंकी परम्परा सुनी । तदनन्तर मुक्तावली नामका उपवासकर तीसरे स्वर्गकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ जौ कल्पकी उसकी आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँसे चयकर सुप्रकारनगरके स्वामी राजा शम्बरकी श्रीमती रानीसे पुत्री हुई है । तू भी पद्म और ध्रुवसेनकी छोटी बहिन है, गुणोंमें ज्येष्ठ है, सर्व लक्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम है । किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर श्रीकृष्णके समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते ! विद्याधरोंके राजा शम्बरके एक लक्ष्मणा नामकी पुत्री है जो आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोभित है, कामको उद्दीपित करनेवाली है और आपके योग्य है । पवनवेगके वचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो तूही उसे ले आ' यह कहकर उसे ही भेजा और वह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीकृतिसे तुम्हे ले आया तथा श्रीकृष्णको समर्पित कर दी ॥ ४०७-४१३ ॥ कृष्णने भी महादेवीका पट्ट बाँधकर तुम्हे इस प्रकार सन्मानित किया है । इस तरह अपने भवान्तर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ ४१४ ॥

तदनन्तर—श्रीकृष्णने गान्धारी, गौरी और पद्मावतीके भवान्तर पूछे । तब गणधरदेव इ-

इह जम्बूमति द्वीपे विपयोऽस्ति सुकौशलः । तत्रायोध्यापुराधीशां रुद्रनाम्नो मनोरमा ॥४१६॥  
 विनयश्रीरिति ख्याता सिद्धार्थाख्यवनेऽन्यदा । बुद्धार्थमुनये दत्तादाना स्वायुःपरिक्षये ॥४१७॥  
 उदङ्कुरुषु निविष्टभोगा तन्मात्परिच्युता । इन्द्रोऽन्धवती देवी भूत्वाऽतोऽप्यायुषोवधौ ॥४१८॥  
 द्वीपेऽत्र खगभूमतुरपाक्त्रेण्यां खगंशिनः । विद्युद्वेगस्य सद्भासेः पुरे गगनवल्लभे ॥४१९॥  
 मुरूपाल्यमुना विद्युद्वेगायामजनिष्ट सा । नित्यालोकपुरार्धाग्रे विद्याविक्रमशालिने ॥४२०॥  
 महेन्द्रविक्रमायैषा दत्तान्येद्युर्मरुद्गिरिम् । नौ गतौ चैन्यगेहेषु जिनपूजार्थमुत्सुकौ ॥४२१॥  
 विनीतचारगास्थेन्दुस्रुतं धर्ममिवाभूतम् । पीत्वा श्रवणयुग्मेन परां नृसिमवापतुः ॥४२२॥  
 तयोर्नरपनिर्दक्षामादात्ताच्चारणान्तिके । सुभद्रापादमासाद्य सापि संयममाददे ॥४२३॥  
 सौधर्मकल्पे देवी त्वमुपगम्योपसन्वित- । स्वायुःपल्योपमप्रान्ते क्रमाच्चिक्रम्य तद्वृतेः ॥४२४॥  
 गान्धारविषये पुष्कलावतानगरेशितुः । नृपस्येन्द्रगिरेर्मैरुमत्याश्च तनयाऽभवन् ॥४२५॥  
 गान्धारीत्याख्यया ख्याता प्रदातुमैथुनाय ताम् । पितुः पापमतिः श्रुत्वा प्रारम्भं नारदस्तदा ॥४२६॥  
 सद्यस्तामेत्य तत्कर्म न्यगदजगदप्रियः । तदुक्तानन्तरं प्रेमवशः मन्त्रद्वसैन्यकः ॥४२७॥  
 युद्धे भङ्गं विधायेन्द्रगिरेश्चान्यमहीभुजाम् । आदाय तां महादेवीपट्टश्रैवं त्वया कृतः ॥४२८॥  
 अथ गौरीभवं चैवं वदामि श्रुणु माधव । अस्ति द्वीपेऽत्र विख्यातं पुष्पागाख्यपुरं पुरु ॥४२९॥  
 पालकस्तस्य हेमाभो देवी तस्य यशस्वती । साऽन्येद्युश्चारणं दृष्ट्वा यगोधरमुनीश्वरम् ॥४३०॥  
 स्मृतपूर्वभवा राज्ञा पृष्टैवं प्रत्यभाषत । स्वभवं दत्तनोद्दीप्यान्नापयन्ती (स्त्रपयन्ती) मनोरमम् ॥४३१॥

प्रकार कहने लगे ॥४१५॥ इसी जम्बूद्वीपमें एक सुकौशल नामका देश है । उसकी अयोध्या नगरीमें रुद्र नामका राजा राज्य करता था और उसकी विनयश्री नामकी मनोहर रानी थी । किसी एक दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक वनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे अपनी आयु पूरी होनेपर उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुई । वहाँके भोग भोगकर च्युत हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रवती नामकी देवी हुई । आयु समाप्त होनेपर वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर गगनवल्लभ नगरमें विद्याधरोंके कान्तिमान् राजा विद्युद्वेगकी रानी विद्युद्वेगाके मुरूपा नामकी पुत्री हुई । वह विद्या और पराक्रमसे सुशोभित, नित्यालोक पुरके स्वामी राजा महेन्द्रविक्रमके लिए दी गई । किसी एक दिन वे दोनों दम्पति चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वतपर गये ॥ ४१६-४२१ ॥ वहाँपर विराजमान किन्ही चारणऋद्धिधारी मुनिके मुखरूपी चन्द्रमासे भरे हुए अमृतके समान धर्मका दोनों कानोंसे पानकर वे दोनों ही परमवृत्तिको प्राप्त हुए ॥ ४२२ ॥ उन दोनोंमेंसे राजा महेन्द्रविक्रमने तो जन्हीं चारण मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली और रानी मुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया ॥ ४२३ ॥ आयु पूरीकर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई, जब वहाँकी एक पत्न्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहाँसे चयकर गान्धार देशकी पुष्करावती नगरीके राजा इन्द्रगिरि-की मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है । राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी बूआके लडकेको देना चाहता था, जब यह बात जगत्को अप्रिय पापबुद्धि नारदने सुनी तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी । सुनते ही तू भी प्रेमके वश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ा । युद्धमें राजा इन्द्रगिरि और उसके सहायक अन्य राजाओंको पराजितकर इस गान्धारीको ले आया और फिर इसे महादेवीका पट्टबन्ध प्रदान कर दिया—पट्टरानी बना लिया ॥ ४२४-४२८ ॥

अथानन्तर—गणधर भगवान् कहने लगे कि अब मैं गौरीके भव कहता हूँ सो हे कृष्ण तू सुन ! इसी जम्बू द्वीप में एक पुष्पागापुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है । उसकी रक्षा करनेवाला राजा हेमाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी । किसी एक दिन यशोधर नामके चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हो आया । राजाके पूछनेपर वह अपने दांतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्वभव कहने लगी ॥ ४२९-४३१ ॥



धातकीखण्डप्राङ्मन्दरापरस्थविदेहगम् । नाम्नाशोकपुरं तत्र वास्तव्यो वणिजां वरः ॥४३२॥  
 आनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्दयशःश्रुतिः । दत्त्वा जात्वमिताद्युक्तिसागराय तनुस्थितिम् ॥४३३॥  
 आश्वर्यपञ्चकं प्राप्य तत्पुण्याज्जीवितावधौ । उदन्कुरुषु सम्भूय भुक्त्वा तत्र सुखं ततः ॥४३४॥  
 भूत्वा भवनवासीन्द्रभार्येहास्मीति सम्मदात् । ततः कदाचित्सिद्धार्थवने सागरसञ्चकम् ॥४३५॥  
 गुरुमाश्रित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाताऽऽदिमे कल्पे तत्र निर्वर्तितस्थितिः ॥४३६॥  
 द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाम्ब्यां सुमतिश्रेष्ठिनोऽभवत् । सुभद्रायां सुता धार्मिकीति संशब्दिता जनैः ॥४३७॥  
 पुनर्जिनमतिक्षान्तिदत्तां जिनगुणादिकाम् । सम्पत्तिं साधु निर्माप्य महाशुक्रेऽभवत्सुरी ॥४३८॥  
 चिरारातो विनिर्गत्य वीतशोकपुरेशिनः । महीशो मेरुचन्द्रस्य चन्द्रवत्यामजायत ॥४३९॥  
 गौरीति रूपलावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः । विजयाख्यपुराधीशो विभुविजयनन्दनः ॥४४०॥  
 वत्सलस्तुभ्यमानीय तामदत्त त्वयापि सा । पट्टे<sup>१</sup> नियोजितेत्याख्यसतो हरिरगान्मुदम् ॥४४१॥  
 ततः पद्मावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदित्थं जनमनोहरम् ॥४४२॥  
 अस्मिन्नेवोज्जयिन्याख्यनगरीनायको नृपः । विजयस्तस्य विक्रान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥  
 विनयश्रीः सुता तस्या हस्तशीर्षपुरेशिनः । हरिषेणस्य देव्यासीहत्वा दानमसौ मुदा ॥४४४॥  
 समाधिगुप्तयोगीशो भूत्वा हैमवते चिरम् । भुक्त्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५॥  
 \*पल्योपमायुष्कालान्ते विषये मगधाभिधे । वसतः शाल्मलिग्रामे पद्मदेवी सुताऽजनि ॥४४६॥  
 सती विजयदेवस्य देविलायां कदाचन । वरधर्मयतेः सन्निधाने सा व्रतमग्रहीत् ॥४४७॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिमकी ओर जो विदेह क्षेत्र हैं उसमें एक अशोकपुर नामका नगर है । उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था उसकी स्त्रीके एक आनन्दयशा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । किसी समय आनन्दयशाने अमितसागर मुनिाजके लिए आहार दान देकर पञ्चाश्वर्य प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह आयु पूर्ण होनेपर उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुई, वहाँके सुख भोगनेके बाद भवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई और वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई हैं । इस प्रकार रानी यशस्वतीने अपने पति राजा हेमाभके लिए बड़े हर्षसे अपने पूर्वभव सुनायें । तदनन्तर, रानी यशस्वती किसी समय सिद्धार्थ नामक वनमें गई, वहाँ सागरसेन नामक मुनिराजके पास उसने उपवास ग्रहण किये । आयुके अन्तमें मरकर प्रथम स्वर्गमें देवी हुई । तदनन्तर वहाँकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूद्वीपकी कौशाम्बी नगरीमें सुमति नामक सेठकी सुभद्रा नामकी स्त्रीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई ॥ ४३२-४३७ ॥ यहाँपर उसने जिनमति आर्यिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके व्रतका अच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर महाशुक्र स्वर्गमें देवी हुई । बहुत समय बाद वहाँसे चयकर वीतशोकनगरके स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य और कान्ति आदिकी खान यह गौरी नामकी पुत्री हुई है । स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर तुम्हे दी है और तू ने भी इसे पट्टरानी बनाया है । इस प्रकार गणधर भगवान्ने गौरीके भवान्तर कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हर्षको प्राप्त हुए ॥ ४३८-४४१ ॥

तदनन्तर-गुणोंकी खान, गणधर देव, लोगोंका मन हरण करने वाले पद्मावती के पूर्व भवों का सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥ ४४२ ॥ इसी भरतक्षेत्रकी उज्जयिनी नगरीमें राजा विजय राज्य करता था उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी । उन स्त्रियोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी । वह हस्तशीर्षपुरके राजा हरिषेणको दी गई थी । विनयश्रीने एक बार समाधिगुप्त मुनिराजके लिए बड़े हर्षसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । चिरकाल तक वहाँके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वह चन्द्रमाकी रोहिणी नामकी देवी हुई । जब एक पल्य प्रमाण वहाँकी आयु समाप्त हुई तब मगध देशके शाल्मलि

अविज्ञानफलाभक्षणं कृच्छ्रेऽपि दृढव्रता । वनेचरैः कदाचित्स प्राप्नोऽवस्कन्दघातिभिः ॥ ४४८ ॥  
 विलोपितमन्दापद्मदेवीं सिंहरथाङ्गयान् । नीत्वा महादवीं सर्वे जनाः क्षुण्परिपीडिताः ॥ ४४९ ॥  
 विपवर्णाफलान्याशु भक्षयित्वा मृतिं ययुः । व्रतभङ्गभयात्तानि सा विहायाहतेविना ॥ ४५० ॥  
 मृत्वा हैमवते भूत्वा जीवितान्तं ततश्च्युता । द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सद्यः स्वयंप्रभा ॥ ४५१ ॥  
 स्वयंप्रभाख्यदेवस्य ततो निर्गन्त्य सा पुनः । द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपतेः ॥ ४५२ ॥  
 श्रीधरस्य सुता भूत्वा श्रीमत्यां सुन्दराकृतिः । विमलश्रीरभूत्पत्नी भद्रिलाख्यपुरेशिनः ॥ ४५३ ॥  
 नृपस्य मेघनादस्य सर्माप्सितसुखप्रदा । राजा धर्ममुनेस्त्यक्त्वा राज्यं प्रब्रज्य शुद्धर्थाः ॥ ४५४ ॥  
 जातो व्रतधरस्तस्मिन्सहस्रारपत्नौ सति । अष्टादशसमुद्रायुर्भाजिभासुरर्दाधितौ ॥ ४५५ ॥  
 साऽपि पद्मावतीक्षान्तिं सम्प्राप्यादाय संयमम् । आचाम्लवर्धनामानं समुपोप्यायुपावर्धौ ॥ ४५६ ॥  
 तत्रैव कल्पे देवीत्वं प्रतिपद्य निजायुषः । प्रान्तेऽरिष्टपुरार्धाशः श्रीमत्यां तनयाऽजनि ॥ ४५७ ॥  
 हिरण्यवर्मणः पद्मावतीत्येषा स्वयंवरे । सम्भाव्य सम्भृतस्नेहा भवन्तं रत्नमालया ॥ ४५८ ॥  
 १ शीलावहा महादेवीपदं प्रापदिति स्फुटम् । तास्तिस्त्रोपि स्वजन्मानि श्रुत्वा मुदमयुर्हरैः ॥ ४५९ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

इत्युच्छैर्गणनायको गुणनिधिः प्रस्पष्टमृष्टाक्षरैः

साक्षात्कृत्य भवावर्णाविलसितं व्यावर्णयन्निर्णयम् ।

१ साध्वाकर्ण्य चिरं सुखासुखमयीः २ स्वेष्टाष्टदेवीकथाः ३

सन्तुष्टिं स मुरारिरार ४ सुतरां प्रान्ते प्रवृद्धिप्रदाः ॥ ४६० ॥

गाँवमें रहनेवाले विजयदेवकी देविला र्क्षासे पद्मदेवी नामकी पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास 'मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं खाऊँगी' ऐसा दृढ़-व्रत लिया। किसी एक समय आक्रमणकर घात करनेवाले भीलोंने उस गाँवको लूट लिया। उस समय सब लोग, भीलोंके राजा सिहरथके डरसे पद्मदेवीको महाअटवीमें ले गये। वहाँ भूखसे पीड़ित होकर सब लोगोंने विपफल खा लिये जिससे वे शीघ्रही मर गये परन्तु व्रतभङ्गके डरसे पद्मदेवीने उन फलोंको छुआ भी नहीं इसलिए वह आहारके बिना ही मरकर हैमवत क्षेत्र नामक भोगभूमिमें उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे चयकर स्वयंप्रभद्वीपमें स्वयंप्रभ नामक देवकी स्वयंप्रभा नामकी देवी हुई। वहाँसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें वहाँके राजा श्रीधर और रानी श्रीमतीके सुन्दर शरीरवाली विमलश्री नामकी पुत्री हुई। वह भद्रिलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित सुख देनेवाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराजके समीप व्रत धारण कर लिया जिससे वह सहस्रार नामक स्वर्गमें अठारह सागरकी आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया। इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावती नामक आर्यिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आचाम्लवर्ध नामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह आयुके अन्तमें उसी सहस्रार स्वर्गमें देवी हुई और आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर अरिष्टपुर नगरके स्वामी राजा हिरण्यवर्माकी रानी श्रीमतीके यह पद्मावती नामकी पुत्री है। इसने स्नेहसे युक्त हो स्वयंवरमें रत्नमाला डालकर आपका सन्मान किया और तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद प्राप्त किया। इस प्रकार गण-धर भगवान्के मुखारविन्दसे अपने-अपने भव सुनकर श्रीकृष्णकी गौरी, गान्धारी और पद्मावती नामकी तीनों रानियाँ हर्षको प्राप्त हुईं ॥ ४४३-४५६ ॥ इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने स्पष्ट और मिष्ट अक्षरोंके द्वारा पूर्व भवावलीसे सुशोभित निर्णयका साक्षान् वर्णन कर दिखाया और श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुख-दुःखभरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमें

## वसन्ततिलका

देव्योऽपि दिव्यवचनं मुनिपुङ्गवस्य

भङ्गावहं बहुभवात्तनिजाहसां तन् ।

कृत्वा हृदि प्रमुदिताः पृथुशर्मसारे

धर्मोऽर्हतो हिततमे स्वमतिं प्रतेनूः ॥ ४६१ ॥

## मालिनी

नहि हितमिह किञ्चिद्धर्ममेकं विहाय

व्यवसितमसुमद्भ्यो धिग्विसुग्धात्मबुधसाम् ।

इति विहितवितर्काः सर्वसभ्याश्च धर्मं

समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम् ॥ ४६२ ॥


इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर-

व्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥ ७१ ॥

+०:❀:०+

प्रवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपको प्राप्त हुए ॥ ४६० ॥ वे देवियों भी अनेक जन्ममें कमाये हुए अपने पापोंका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवान्के दिव्य वचन हृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुईं और सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले अर्हन्त भगवान्के धर्ममें अपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६१ ॥ 'इस संसारमें एक धर्मको छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियोंका कल्याण करनेवाला नहीं है, धर्म रहित मूर्ख जीवोंका जो चरित्र है उसे धिक्कार है' इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदोंने पाप रहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवान्का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया ॥ ४६२ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके नेमि-  
चरित्र प्रकरणमें भवान्तरोंका वर्णन करनेवाला इकहत्तरवां पर्व समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥



## द्विसप्ततितमं पर्व

अथ <sup>१</sup>स्वज्ञातपूर्वञ्च जगत्त्रयसंभावनी । प्रकाशयितुकामेन बलदेवेन धीमता ॥ १ ॥  
 प्रद्युम्नशम्भवोत्पत्तिसम्बन्धः पृच्छयते स्म सः । नरदत्तग<sup>२</sup>णेंद्रोऽनु हन्द्रबुद्धयेत्थमब्रवीत् ॥ २ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्मगधे<sup>३</sup> देशे शालिग्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेवस्य भार्याऽभूदभिलाष्यया ॥ ३ ॥  
 अभिभूतिरभूत्सूनुर्वायुभूतिस्तयोरनु । नावन्येषुः पुरे नन्दिवर्धनाख्ये मनोहरे ॥ ४ ॥  
<sup>५</sup>नन्दने नन्दिघोषाख्ये वने मुनिमपश्यताम् । नन्दिवर्धननामानं "मुनिसङ्घविभूषणम् ॥ ५ ॥  
 दुप्यावुपागतौ दृष्ट्वा तौ मुनीन्द्रोऽब्रवीन्मुनीन् । विसंवदिनुमायातावेतौ मिथ्यात्वदूषितौ ॥ ६ ॥  
 भवद्भिः कैश्चिदप्याभ्यां न कार्या सह सङ्कथा । एतश्चिबन्धनो<sup>६</sup> भूयानुपसर्गो भविष्यति ॥ ७ ॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा गुरुशासनकारिणः । मौनव्रतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तदा ॥ ८ ॥  
 दृष्ट्वा तावेत्य सर्वेषां मूकीभूय व्यवस्थितिम् । कृतापहासौ स्वं ग्रामं गच्छन्नावशितुं गतम् ॥ ९ ॥  
 ग्रामान्तरात्समायातं मुनिमालोक्य सत्यकम् । तत्समीपमहङ्कारप्रेरितानुपगम्य तम् ॥ १० ॥  
 नास्त्याप्तो नागमो नैव पदार्थो<sup>७</sup> नन्न केवलम् । किं छिन्नासि वृथांन्मार्गं मूढो दृष्टविनाशिनि ॥ ११ ॥  
 इत्यध्यक्षिपतां सोऽपि जिनवक्त्रविनिर्गतम् । विवक्षिततरानेकस्वरूपान्तसमाश्रयम् ॥ १२ ॥  
 द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं कथयन्तं सहेतुकम् । स्याद्वाद्मवलम्ब्योच्चैस्तत्प्रणेनुप्रमाणताम् ॥ १३ ॥  
 प्रसाध्यादृष्टभागोऽपि तदुक्तागमं<sup>८</sup> सुस्थितिम् । निरूप्य वाक्कण्डूतिमपनीय दुरात्मनोः ॥ १४ ॥

अथानन्तर—तीनों जगन्की सभाभूमि अर्थात् समवसरणमें अपने पूर्वभव जानकर बुद्धिमान बलदेवेने सबको प्रकट करनेके लिए प्रद्युम्नकी उत्पत्तिका सम्बन्ध पूछा सो वरदत्त गणधर अनुग्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ इसी जन्मद्वीपके मगधदेश सम्बन्धी शालिग्राममें रहनेवाले सोमदेव ब्राह्मणकी एक अभिला नामकी स्त्री थी ॥ ३ ॥ उन दोनोंके अभिभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नन्दिवर्धन नामके दूसरे सुन्दर गाँवमें गये । वहाँ उन्होंने नन्दिघोष नामके वनमें, मुनि संघके आभूषणस्वरूप नन्दिवर्धन नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥ ४-५ ॥ उन दोनों दुष्टोंको आया हुआ देख, मुनिराजने संघके अन्य मुनियोंसे कहा कि 'ये दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं और विसंवाद करनेके लिए आये हैं अतः आप लोगोंमेंसे कोई भी इनके साथ बातचीत न करें । अन्यथा इस निमित्तसे भारी उपसर्ग होगा' ॥ ६-७ ॥ शासन करनेवाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गये ॥ ८ ॥ वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियोंको मौनी देखकर उनकी हँसी करते हुए अपने गाँवको जा रहे थे कि उन मुनियोंमेंसे एक सत्यक नामके मुनि आहार करनेके लिए दूसरे गाँवमें गये थे और लौटकर उस समय आ रहे थे । अहंकारसे प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे और कहने लगे कि 'अरे नंगे ! न तो कोई आप्र है, न आगम है, और न कोई पदार्थ ही है फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले इस उन्मार्गमें व्यर्थ ही क्लेश उठा रहा है' । इस प्रकार उन दोनोंने उक्त मुनिका बहुत ही तिरस्कार किया । मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवान्के मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविचक्षित रूपसे अनेक धर्मोंका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका हेतु सहित कथन करनेवाले अतिशय उत्कृष्ट स्याद्वाद्मका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले आप्रकी प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा परोक्ष तत्त्वके विषयमें भी उन्हीं आप्रके द्वारा कथित आगमकी समीचीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणोंकी वाद करनेकी खुजली दूर की एवं विद्वज्जनोंके

१ तद्ज्ञान-ल० । २ गणीन्द्रो ल० । ३ मगधे ल० । ४ नन्दान ल० । ५ मुनि सङ्घ ल० । ६ निबन्धतो ल० । ७ नाश ल० । ८ सुहेतुकम् ल० । ९ संस्थितिम् ल० ।

नयोर्जयध्वजं प्रापद्विद्वज्जनसमर्पितम् । तौ मानभङ्गस्सम्भूतक्रोधौ निशि शितायुधौ ॥ १५ ॥  
 परेद्यः पापकर्माणौ विजने शुद्धचेतसम् । प्रतिमायोगमापन्नं सत्यकं मुनिपुङ्गवम् ॥ १६ ॥  
 शस्त्रेणाहन्तुमुद्युक्तावन्यायोऽयमिति क्रुधा । द्विजौ <sup>१</sup> सुवर्णयक्षेण स्तम्भितौ कीलिताविव ॥ १७ ॥  
 तदा शरणमायातास्तन्मातृपितृबान्धवाः । मुनीनामाकुलीभूय यक्षस्तानवदत्सुधीः ॥ १८ ॥  
 हिंसाधर्मं परिग्यज्य यदि जैनेश्वरं मतम् । भवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्मोक्षोऽनयोरिति ॥ १९ ॥  
 तेऽपि भीनास्तथा बाढं करिष्याम इति द्रुतम् । मुनिं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ २० ॥  
<sup>२</sup>मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त धर्मं श्रावकपालितम् । ततस्तस्तम्भनापाये सति तैस्तावुदीरितौ ॥ २१ ॥  
 विरन्तम्यमितो धर्मादस्माद्धेतोरुपासितात् । इति नात्मात्तसन्मार्गाञ्छेलतुः काललब्धितः ॥ २२ ॥  
 तेन संक्रुध्य ते ताभ्यां सृत्वा पापविपाकतः । अध्याम्यन् कुगतीर्दीर्घं तौ च ब्राह्मणपुत्रकौ ॥ २३ ॥  
 मम्रतौ जीवितस्यान्ते कल्पे सौधर्मनामनि । पञ्चपल्योपमायुष्कौ जातौ पारिषदाग्निभौ ॥ २४ ॥  
 तत्रानुभूय सन्नोगान् द्वीपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिष्यो राजा सशौर्योऽभूदरिष्यः <sup>३</sup> ॥ २५ ॥  
 तथाहंदासवाक्छ्रेष्ठी वप्रश्रीस्तम्भनःप्रिया । अग्निभूतिस्तयोः पूर्णभद्रोऽन्यो माणिभद्रकः ॥ २६ ॥  
 सुतौ समुदभूतां तावन्त्येद्यः स महीपतिः । सिद्धार्थवनमध्यस्थमहेन्द्रगुरुसन्निधिम् ॥ २७ ॥  
 बहुभिः सह सम्प्राप्य श्रुत्वा धर्मं विशुद्धधीः । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभारं भरक्षमे ॥ २८ ॥  
 अहंदासादिभिः साहं संयमं प्रत्यपद्यत । तत्रैव पूर्णभद्रेण प्राक्तनं मदगुरुद्वयम् ॥ २९ ॥

द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय-पताका छीन ली। मान भंग होनेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीक्ष्ण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले। उस समय शुद्ध चित्तके धारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्रसे मारनेके लिए उद्यत हो गये। यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचारकर सुवर्णयक्षने क्रोधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान स्तम्भित कर दिया—  
 ज्योंका त्यों रोक दिया ॥ १६-१७ ॥ यह देखकर उनके माता, पिता, भाई आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंकी शरणमें आये। तब बुद्धिमान् यक्षने कहा कि 'यदि तुम लोग हिंसाधर्मको छोड़कर जैनधर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हो सकता है' ॥ १८-१९ ॥ यक्षकी बात सुनकर सब डर गये और कहने लगे कि हम लोग शीघ्र ही ऐसा करेंगे अर्थात् जैनधर्म धारण करेंगे। इतना कहकर उन लोगोंने मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और झूठमूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया। तदनन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनसे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिये क्योंकि कारण वश ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोंकी काललब्धि अनुकूल थी अतः वे अपने द्वारा ग्रहण किये हुए सन्मार्गसे विचलित नहीं हुए ॥ २०-२२ ॥ पुत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-पिता आदि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पापके उदयसे दीर्घकाल तक अनेक कुगतियोंमें भ्रमण करते रहे। उधर उन दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने व्रतसहित जीवन पूरा किया इसलिए मरकर सौधर्म स्वर्गमें पाँच पल्यकी आयुवाले पारिषद् जातिके श्रेष्ठ देव हुए ॥ २३-२४ ॥ वहाँ पर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भोगे। तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके कोशल देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाला अरिजय नामका पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसी नगरीमें एक अहंदास नामका सेठ रहता था उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था। वे अग्निभूति और वायुभूतिके जीव पाँचवें स्वर्गसे चयकर उन्हीं अहंदास और वप्रश्रीके क्रमशः पूर्णभद्र और मणिभद्र नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिजय, सिद्धार्थ नामक वनमे विराजमान महेन्द्र नामक गुरुके समीप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि अत्यन्त पवित्र हो गई और उसने भार धारण करनेमें समर्थ अरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार रखकर अहंदास आदिके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णभद्र नामक श्रेष्ठि-पुत्रने

१ सुधर्म इत्यपि क्वचित् । २ मिथ्या प्रत्यपद्यन्त त् ( छन्दोमङ्गलः ) । ३ अरि जयन् म०, त् ० ।

काच वर्तत इत्येतत्परिपृष्टो मुनिर्जगौ । जिनधर्मविरुद्धत्वात्कृतपापोऽभवन्मृतः ॥ ३० ॥  
 रत्नप्रभाविले सर्पावर्तनाम्नि ततोऽजनि । मातङ्गः काकजङ्घाल्यः सोमदेवो भवत्पिता ॥ ३१ ॥  
 माताम्रिला च तन्मयैव जायते स्म शुर्ना गृहे । इहेत्याकर्ण्य तत्प्रोक्तं तेन तौ परिवोधितौ ॥ ३२ ॥  
 सम्प्राप्त्योपशमं भावं सन्न्यस्य विधिना मृतः । काकजङ्घोऽभवन्नन्दीश्वरद्वीपे निधीश्वरः ॥ ३३ ॥  
 भत्पुराधीश्वरारिन्दमाख्यभूम्भृत्पतेः सुता । श्रीमत्याश्च शुर्ना सुप्रबुद्धाख्याजायत प्रिया ॥ ३४ ॥  
 सम्पूर्णयौवना यान्ती सा स्वयंवरमण्डपम् । यक्षेण बोधिता दीक्षामित्वाप्य प्रियदर्शनाम् ॥ ३५ ॥  
 जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिचूलेति रूपिणी । सौधर्माधिपतेः पूर्णभद्रस्तदनुजोऽपि च ॥ ३६ ॥  
 सप्तस्थानगतां ख्यानश्रावकौ तौ दृढव्रतां । प्रान्ते सामानिकौ देवौ जातौ सौधर्मनामनि ॥ ३७ ॥  
 द्विसागरोपमार्तातौ द्वीपेऽत्र कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्यपुराधीशस्यार्हद्वासमहीपतेः ॥ ३८ ॥  
 काश्यपायाश्च पुत्रौ तौ मधुक्कीडवनामकौ । समभूतां तयो राजा राजत्वयुवराजते ॥ ३९ ॥  
 विधाथ विमलां प्रापद्विमलप्रभश्चित्यताम् । कण्ठान्तामलकाख्यस्य पुरस्येशः कदाचन ॥ ४० ॥  
 रथान्तकनकस्य स्वं समायातस्य सेवितम् । कान्तां कनकमालाख्यां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥  
 स्वीचकारमधुः शोकाद्रथान्तकनकाङ्घ्रयः । पार्श्वे <sup>१</sup>द्विजटिसञ्ज्ञस्य तापसव्रतमाददे ॥ ४२ ॥  
 मधुक्कीडवयोरेवं काले गच्छत्यथान्यदा । सम्यगाकर्ण्य सद्भ्रमं मधुविमलवाहनात् ॥ ४३ ॥  
 गर्हणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंयुतः । संयमं समवाप्यान्ते संश्रित्याराधनाविधिम् ॥ ४४ ॥

मुनिराजसे पृच्छा कि हमारे पूर्वभवके माता-पिता इस समय कहाँ पर हैं ? उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेवने जिनधर्मसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः वह मरकर रत्नप्रभा पृथिवीके सर्पावर्त नामके विलमें नारकी हुआ था और वहाँसे निकलकर अब इसी नगरमें काकजंघ नामका चाण्डाल हुआ है । इसी तरह तेरी माता अम्रिलाका जीव मरकर उसी चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है । मुनिराजके वचन सुनकर पूर्णभद्रने उन दोनों जीवोंको संबोधा जिससे उपशम भावको प्राप्त होकर दोनोंने विधिपूर्वक संन्यास धारण किया और उसके फलस्वरूप काकजङ्घ तो नन्दीश्वर-द्वीपमें कुबेर नामका व्यन्तर देव हुआ । और कुत्ती उसी नगरके स्वामी अरिन्दम नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हुई ॥ २५-३४ ॥ जब वह पूर्ण यौवनवती होकर स्वयंवर-मण्डपकी ओर जा रही थी तब उसके पूर्वजन्मके पति कुबेर नामक यत्ने उसे समझाया जिससे उसने प्रियदर्शना नामकी आर्थिकाके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली और आयुके अन्तमें वह सौधर्म इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपवती देवी हुई । इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी दृढ़तासे श्रावकके व्रत पालन किये, सात क्षत्रोमें धन खर्च किया और आयुके अन्तमें दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए ॥ ३५-३७ ॥ वहाँ उनकी दो सागरकी आयु थी, उसके पूर्ण होने पर वे इसी जम्बूद्वीपके कुरुजांगल देश सम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अर्हद्वासकी काश्यपा नामकी रानीसे मधु और क्रीडव नामके पुत्र हुए । किसी एकदिन राजा अर्हद्वासने मधुको राज्य और क्रीडवको युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनिकी निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था वहाँ उसकी कनकमाला नामकी स्त्रीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो गया । निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया—अपनी स्त्री बना लिया । इस घटनासे राजा कनकरथको बहुत निर्वेद हुआ जिससे उसने द्विजटि नामक तापसके पास व्रत ले लिये । इधर मधु और क्रीडवका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी एक दिन मधुने विमल-वाहन नामक मुनिराजसे अच्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निन्दा की और क्रीडवके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । आयुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधना कर मधु और क्रीडव दोनों ही महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर बड़ा भाई मधुका

१ द्विजादि-म० । जटिला इत्यपि क्वचित् ।

अन्वभूत्स महाशुक्रस्याधिपत्यं सहानुजः । स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा स्वावशेषशुभोदयात् ॥ ४५ ॥  
 सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो रुक्मिण्यामभवत्सुनः । दुराचाराजितं पापं सच्चरित्रेण नदयति ॥ ४६ ॥  
 द्वितीयेऽहनि तद्बालसञ्चितोप्रायसञ्चिमः । देवो ज्योतिर्गणे जातो धूमकेतुसमाह्वयः ॥ ४७ ॥  
 गच्छन्त्यहच्छया ग्योमिन् विद्वत् वातरहसा । विमाने स्वे धृते वान्यैः प्रद्युम्नस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥  
 चरमाङ्गस्य केनेदं कृतमित्युपयुक्तवान् । विभङ्गादात्मनः शत्रुं ज्ञात्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥  
 रथान्तकनकस्यायं दर्पाद्वारान्ममाहरत् । तत्फलं प्रापयाम्येनमिनि वैराग्निनाऽज्वलन् ॥ ५० ॥  
 विधाय स महानिद्रामन्तःपुरनिवासिनाम् । तमुद्धृत्याब्दमार्गेण दूरं नीत्वा यथाचिरम् ॥ ५१ ॥  
 अनुभूय महादुःखं कुर्यात्प्राणविमोचनम् । करिष्यामि तथेत्यस्य पुण्येनैवं प्रचोदितः ॥ ५२ ॥  
 भवत्सु नभोभागाद्वने खदिरनामनि । शिलायास्तक्षकाख्यायाः क्षिप्त्वाधस्तादशुं गतः ॥ ५३ ॥  
 तदैव विजयार्थाद्विदक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयेऽमृतवत्याख्ये मेघकूटपुराधिपः ॥ ५४ ॥  
 १ कालसंवरविद्याधरेशः काञ्चनमालया । सह जैनीश्वरीरर्चाः प्रियथा प्राञ्चितुं प्रयान् ॥ ५५ ॥  
 महाशिलालिखलाङ्गातिचलनं वीक्ष्य विस्मयान् । समन्ताद्वीक्षमाणोऽसौ दृष्ट्वा बालं ज्वलत्प्रभम् ॥ ५६ ॥  
 प्राकृतोऽर्थं न केनापि कोपात्प्राग्जन्मवैरिणा । निक्षिप्तः पापिनाऽमुष्मिन् पश्य बालार्कभास्वरः २ ॥ ५७ ॥  
 तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽर्थं गृहाणानुं मनोरमे । इत्याहोवाच साप्यरमै यौवराज्यं ददासि चेत् ॥ ५८ ॥  
 अद्वीश्यामीति तेनापि प्रतिपद्य तथास्त्विति । तत्कर्णगतसौवर्णपत्रेणारचि पट्टकः ॥ ५९ ॥  
 तौ तं बालं समादाय पुरमाविष्कृतोत्सवम् । प्रविश्य देवदत्ताख्यां व्यधातां विधिपूर्वकम् ॥ ६० ॥

जीव आपने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयसे शुभ स्वप्न पूर्णक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक् चरित्रके द्वारा नष्ट हो ही जाना है ॥३५-४६॥

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्चरणकर धूमकेतु नामका ज्योतिपी देव हुआ था । वह बालक प्रद्युम्नके पूर्वभवमें संचित किये हुए तीव्र पापके समान जान पड़ता था । किसी दूसरे दिन वह इच्छानुसार विहार करनेके लिए आकाशमें वायुके समान वंगसे जा रहा था कि जब उसका विमान चरमशरीरी प्रद्युम्नके ऊपर पहुँचा तब वह ऐसा रुक गया मानो किन्हीं दूसरोंने उसे पकड़कर रोक लिया हो । यह कार्य किसने किया है ? यह जाननेके लिए जब उसने उपयोग लगाया तब विभङ्गाधि ज्ञानसे उमे मालूम हुआ कि यह हमारा पूर्वजन्मका शत्रु है । जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी स्त्रीका अपहरण किया था । अब इसे उसका फल अवश्य ही चखाता हूँ । ऐसा विचारकर वह बैर रूपी अग्निसे प्रज्वलित हो उठा ॥ ४७-५० ॥ वह अन्तःपुरमें रहनेवाले लोगोंको महानिद्रासे अचेतकर बालक प्रद्युम्नको उठा लाया और आकाशमार्गसे बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा करूँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोड़ दे—मर जावे । ऐसा विचारकर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ आकाशसे नीचे उतरा और खदिर नामकी अटवीमें तक्षक शिलाके नीचे बालकको रखकर चला गया ॥ ५१-५३ ॥

उसी समय विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके आभूषण स्वरूप मृतवती नामक देशके कालकूट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राजा अपनी काञ्चनमाला नामकी स्त्रीके साथ जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-५५ ॥ वह उस बड़ी भारी शिलाके समस्त अङ्गोंको जोरसे हिलता देख आश्चर्यमें पड़ गया । सब ओर देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया । देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि 'यह सामान्य बालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका वैरी पापी जीव क्रोधवरा इसे यहाँ रख गया है । हे प्रिये ! देख, यह कैसा बालसूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा है । इसलिए हे सुन्दरी ! यह तेरा ही पुत्र हो, तू इसे ले ले' । इस प्रकार बालकको उठाकर विद्याधरने अपनी स्त्रीसे कहा । विद्याधरीने उत्तर दिया कि 'यदि आप इसे युवराजपद देते हैं तो ले लूँगी' । राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली और रानीके कानमें पड़े हुए सुवर्णके पत्रसे ही उसका पट्टबंध कर दिया ॥ ५६-५९ ॥ इस प्रकार

नद्वाललालनालीलाविलामैर्हृष्टचेतसोः । तयोर्गच्छति निर्व्याजं काले सुसुखभोगिनोः ॥ ६१ ॥  
 इतः सुतवियोगेन रुक्मिणीं शोकवह्निना । दग्धमाना स्थलाभोजवर्द्धा वनवह्निना ॥ ६२ ॥  
 सम्पत्तिर्वा चरित्रम्य दयाभावविवर्जिता । कार्याकार्यविचारेषु मन्दमन्दैव शोभुषां ॥ ६३ ॥  
 मेघमालेव कालेन निर्गलजलसंचया । नाबभामे गते प्राणे क भवेन्सुप्रभा तनोः ॥ ६४ ॥  
 तथैव वासुदेवोऽपि तद्वियोगाद्गच्छुवम् । पृथक्तरुलतायांगे न वज्रपरिताडनम् ॥ ६५ ॥  
 जलाशयमृपार्नस्य केकिनो जलदागमः । यथा तथास्य सन्तुष्यै सन्निधिं नारदाऽगमन् ॥ ६६ ॥  
 नं वीक्ष्य बालवृत्तान्तं हरिरुक्चान्यधादिदम् । स्वया केनाप्युपायेन कापि सोऽन्विष्यतामिति ॥ ६७ ॥  
 नारदस्तत्समाकर्ण्य शृणु पूर्वविदं हजे । नगरे पुण्डरीकिण्यां मया तीर्थकृतो गिरा ॥ ६८ ॥  
 स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि वार्ता बालस्य पृच्छता । भवान्तराणि तद्वृद्धिस्थानं लाभो महानपि ॥ ६९ ॥  
 सहयोगो युवाभ्याञ्च तस्य योऽशक्तस्सैः । इत्यसौ वासुदेवञ्च रुक्मिणीञ्च यथाश्रुतम् ॥ ७० ॥  
 प्राबोधयत्तयोस्तस्मान्मुसेनानृलोकयोः । प्रादुर्भावाज्जिनस्यैव प्रसोदः परमाऽभवत् ॥ ७१ ॥  
 क्रमेण कूनपुण्याऽसौ तत्र सम्पूर्णयौवनः । कदाचिदाज्ञया राज्ञः प्रद्युम्नः सखलो बली ॥ ७२ ॥  
 गत्वा द्विपांडुराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम् । निष्प्रतापं विधायनं युद्धे जित्वापर्यत्पितुः ॥ ७३ ॥

राजा कालसंवर और रानी काञ्चनमालाने उस बालकको लेकर अनेक उत्सवोंसे भरं हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और बालकका विधिपूर्वक देवदत्त नाम रक्खा ॥ ६० ॥ उस बालकके लालन-पालन तथा लीलाके विलासोंसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है और जो सदा उत्तमोत्तम सुखोंका अनुभव करते रहे हैं ऐसे राजा-रानीका समय बिना किसी छलसे व्यतीत होने लगा ॥ ६१ ॥

इधर जिस प्रकार दावानलसे गुलाबकी वेल जलने लगती है उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण रुक्मिणी शोकाग्निसे जलने लगी ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी दयाभावसे रहित सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकार्यके विचारमें शिथिल बुद्धि मुशो-भित नहीं होती और जिस प्रकार काल पाकर जिसका पानी बरस चुका है ऐसी मेघमाला मुशोभित नहीं होती उसी प्रकार वह रुक्मिणी भी मुशोभित नहीं हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है ? ॥ ६३-६४ ॥ रुक्मिणीकी भांति श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियोगसे शोकको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि जब वृक्ष और लताका संयोग रहता है तब उन्हें नष्ट करनेके लिए अलग-अलग वज्रपातकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए जलाशयका मिलना सुखदायक होना है और मयूरके लिए मेघका आना सुखदायी होना है उसी प्रकार श्रीकृष्णको सुख देनेके लिए नारद उनके पास आया ॥ ६६ ॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णने बालकका सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपायसे जहाँ कहीं भी संभव हो आप उस बालकी खोज कीजिये ॥ ६७ ॥ यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनो 'पूर्व-विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वयंप्रभ तीर्थकरसे मैंने बालककी बान पछी थी । अपने प्रश्नके उत्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकके पर्व भव जान लिये हैं, वह बुद्धिका स्थान है अर्थात् सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा और सोलह वर्ष बाद उसका आप दोनोंके साथ समागम हो जावेगा' । इस प्रकार नारदने जैसा सुना था वैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीको समझा दिया ॥ ६८-७० ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार नारदके वचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हर्ष उत्पन्न हुआ ॥ ७१ ॥

उधर पुण्यात्मा देवदत्त ( प्रद्युम्न ) क्रम-क्रमसे नवयौवनको प्राप्त हुआ । किसी एक समय अतिशय बलवान् प्रद्युम्न पिताकी आज्ञासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अभिराज-शत्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिताको सौप



तदा दृष्टापदानस्य प्रद्युम्नस्य खगाधिपः । परार्भ्यवस्तुदानेन महतीं माननां व्यधात् ॥ ७४ ॥  
 अवतीर्णमिव स्वर्गाद्यौवनैकविभूषणम् । भुवं कदाचिराद्रूपमाहार्यैश्चातिभास्वरम् ॥ ७५ ॥  
 अवलोक्य स्मराक्रान्तबुद्ध्या काञ्चनमालया । जन्मान्तरागतस्त्रेहकृतानेक<sup>१</sup> विकारया ॥ ७६ ॥  
 प्रकाशयन्त्या स्वान्तस्थं भावं पापपरीतया । कुमार तुभ्यं महेयां गुहाण विधिपूर्वकम् ॥ ७७ ॥  
<sup>२</sup>प्रज्ञसि विद्यामित्युक्तस्तया मायामयेहया । सांसिपि मातस्तथैवाहं करिष्यामीति<sup>३</sup> सम्मदात् ॥ ७८ ॥  
 आदाय धीमांस्तां विद्यां सिद्धकूटमुपागमत् । कृत्वा तत्र नमस्कारं चारणौ मुनिपुङ्गवौ ॥ ७९ ॥  
 श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्मं ज्ञात्वा विद्याप्रसाधने । हेतुं तदुपदेशेन सञ्जयन्तं समाश्रयत् ॥ ८० ॥  
 आकर्ण्य तत्पुराणञ्च तदर्चापादसंश्रयात् । विद्यां सम्पाद्य सञ्जातसम्मदः पुरमागमत् ॥ ८१ ॥  
 दृष्ट्वा द्विगुणितकारशोभं तं कामकातरा । प्रार्थयन्ती बहूपायैरनिच्छन्तं महामतिम् ॥ ८२ ॥  
 पुरुषव्रतसम्पन्नमतिद्वेषादबुद्धयत् । कुमारः सहवासस्य योग्यो नायं कुचेष्टितः ॥ ८३ ॥  
 जानाम्यनभिजातत्वमस्येति खचराधिपम् । विचारविकलः सोऽपि तदुक्तं तत्पतीतवान् ॥ ८४ ॥  
 विद्युद्दंष्ट्रादिकान्पञ्चशतानि तनुजान्मिथः । आहूय देवदत्तोऽयं<sup>४</sup> दौष्ट्योपांशुवधोचितः ॥ ८५ ॥  
 ततः केनाप्युपायेन भवद्भिः क्रियतां व्यसुः । इत्याह खचराधीशो<sup>५</sup> लब्धाज्ञास्तेऽपि कोपिनः ॥ ८६ ॥  
 स्वयं प्रागपि तं<sup>६</sup> हन्तुं कृतमन्त्राः परस्परम् । तथेति प्रतिपद्यातां निययुस्तच्चिकीर्षवः ॥ ८७ ॥

दिया ॥ ७२-७३ ॥ उस समय राजा कालसंवरने, जिसका पराक्रम देख लिया है ऐसे प्रद्युम्नका श्रेष्ठ वस्तुएँ देकर बहुत भारी सन्मान किया ॥ ७४ ॥ यौवन ही जिसका आभूषण है, जो स्वर्गसे पृथिवीपर अवतीर्ण हुएके समान जान पड़ता है, और जो आभूषणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान है ऐसे प्रद्युम्नको देखकर किसी समय राजा कालसंवरकी रानी काञ्चनमालाकी बुद्धि कामसे आक्रान्त हो गई, वह पूर्वजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगी, तथा पापसे युक्त हो अपने मनका भाव प्रकट करती हुई कुमारसे कहने लगी कि 'हे कुमार' मैं तेरे लिए प्रज्ञप्ति नामकी विद्या देना चाहती हूँ उसे तू विधि पूर्वाक ग्रहण कर' । इस प्रकार माया पूर्व चेष्टासे युक्त रानीने कहा । बुद्धिमान् प्रद्युम्नने भी 'हे माता ! मैं वैसा ही करूँगा' यह कहकर बड़े हर्षसे उससे वह विद्या ले ली और उसे सिद्ध करनेके लिए सिद्धकूट चैत्यालयकी ओर गमन किया । वहाँ जाकर उसने चारण-ऋद्धि धारी मुनियोंको नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना और तदनन्तर उनके कहे अनुसार विद्या सिद्ध करनेके लिए सञ्जयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥ ७५-८० ॥ उसने सञ्जयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आश्रयसे विद्या सिद्ध की और तदनन्तर हर्षित होता हुआ वह अपने नगरको लौट आया ॥ ८१ ॥ विद्या सिद्ध होनेसे उसके शरीरकी शोभा दूनी हो गई थी अतः उसे देखकर रानी काञ्चनमाला कामसे कातर हो उठी । उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारसे प्रार्थना की परन्तु महाबुद्धिमान् कुमारने उसको इच्छा नहीं की । जब उसे इस बातका पता चला कि यह कुमार पुरुषव्रत सम्पन्न है और हमारे सहवासके योग्य नहीं है तब उसने अपने पति कालसंवरसे कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त है अतः जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं है—उत्सुकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है । विचार रहित कालसंवरने स्त्रीकी बातका विश्वास कर लिया । उसने उसी समय विद्युद्दंष्ट्र आदि अपने पाँच सौ पुत्रोंको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि 'यह देवदत्ता अपनी दुष्टताके कारण एकान्तमें बध करनेके योग्य है अतः आप लोग इसे किसी उपायसे प्राणरहित कर डालिये' । इस प्रकार विद्याधरोंके राजा कालसंवरसे आज्ञा पाकर वे पाँच सौ कुमार अस्यन्त कुपित हो उठे । वे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाकी आज्ञा प्राप्त हो गई । 'ऐसा ही करूँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और सबके

१ देहविकारया ल० । २ प्रज्ञप्त ग० । प्रज्ञप्ति ल० । म० पुस्तके तु एष श्लोकः परिभ्रष्टः । ३ संमुदा ख०, घ० । ४ दोष्युपांशु ल० । ५ खचराधीशलब्धा ल० । खचराधीशाज्ञलब्धा ल०, ग०, घ०, म० । ६ ते हन्तुं ग० ।

हिंसा प्रधानशास्त्राद्वा राज्याद्वा नयवजिनात् । तपसा<sup>१</sup> वापमार्गस्थाहुक्लत्राद् ध्रुवं क्षतिः ॥ ८८ ॥  
 चालयन्ति स्थिरामृज्वीं नयन्ति विपरीतताम् । छादयन्ति मतिं दीप्तां स्त्रियो वा दोषविक्रियाः ॥ ८९ ॥  
 नद्वैव तोषो रंशश्च पापिनीनां प्रियान्प्रति । न हेनुमन्न कांऽप्यन्यां लाभालाभद्वयाद्दिना ॥ ९० ॥  
 अकार्यमवशिष्टं यत्तन्नास्तीह कुर्यापिताम् । मुक्त्वा पुत्राभिलाषित्वमेतदप्येतया कृतम् ॥ ९१ ॥  
 योषिन्मु व्रनशालादिस्त्रियाश्चाप्रवन्ति चेत् । न शुद्धिं ताः स्वपर्यन्तं कथं नायान्वसन्क्रियाः ॥ ९२ ॥  
 अम्भो वाम्भोजपत्रेषु चित्तं तासां न केपुचिन् । स्थाञ्चु निष्ठदपि स्पृष्ट्वाप्यस्पृष्टवदनः पृथक् ॥ ९३ ॥  
 सर्वदोषमयो भावो दुर्लक्ष्यः सर्वयोपिताम् । दुःसाध्यश्च महामोहावहोऽसां सन्निपातवन् ॥ ९४ ॥  
 कः कं किं वक्ति केनेति विचार्य कार्यकारिणा । गृहिकामुष्मिकार्येषु ततोऽयं नैति वञ्चनाम् ॥ ९५ ॥  
 प्रमाणवचनः किं वा नेति वक्ता<sup>२</sup> परीक्ष्यताम् । विदुषा तस्य वृत्तेन परिज्ञानेन च स्फुटम् ॥ ९६ ॥  
 एतस्मिन्सम्भवेदेतन्न वेति नयवेदिना । तदाचारैः परीक्ष्यः प्राग्यमुद्दिश्य वचस्स च ॥ ९७ ॥  
 किं प्रत्येयमिदं नेति शब्दनाथेन च ध्रुवम् । उक्तं व्यक्तं परीक्ष्यं तत्समीक्षापूर्वकारिभिः ॥ ९८ ॥  
 भिया स्नेहेन लोभेन मात्सर्येण<sup>३</sup> क्रुधा द्विया । किमवाधेन बोधेन परेषां प्रेरणेन वा<sup>४</sup> ॥ ९९ ॥  
 वक्तव्येतन्निमित्तानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एवं प्रवर्तमानोऽयं विद्वान्विद्वत्सु चेष्यते ॥ १०० ॥

सब उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े। यही आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसा प्रधान शास्त्रसे, नीति रहित राज्यसे और मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित हानि होती है उसी प्रकार दुष्ट स्त्रीसे निश्चित ही हानि होती है ॥ ८२—८८ ॥ दोषोंके विकारोंसे युक्त स्त्रियाँ मनुष्यकी स्थिर बुद्धिको चञ्चल बना देती है, सीधीका कुटिल बना देती है और देदीप्यमान बुद्धिको ढक लेती हैं ॥ ८९ ॥ ये पापिनी स्त्रियाँ अपने पतियोंके प्रति उसी समय सन्तुष्ट हो जाती हैं और उसी समय क्रोध करने लगती हैं और इनके ऐसा करनेमें लाभ वा हानि इन दोके सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है ॥ ९० ॥ संसारमें ऐसा कोई कार्य वाकी नहीं जिसे खोटी स्त्रियाँ नहीं कर सकती हों। हाँ, पुत्रके साथ व्यभिचारकी इच्छा करना यह एक कार्य वाकी था परन्तु काञ्चनमालाने वह भी कर लिया ॥ ९१ ॥ जिन किन्हीं स्त्रियोंमें व्रत शील आदि सत्क्रियाएँ रहती है वे भी शुद्धिका प्राप्त नहीं होतीं फिर जिनमें सत्क्रियाएँ नहीं है वे अपनी अशुद्धताके परम प्रकर्षको क्यों न प्राप्त हों ? ॥ ९२ ॥ जिस प्रकार कमलके पत्तोंपर पानी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन स्त्रियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता। वह स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करनेवालेके समान उनसे पृथक् रहता है ॥ ९३ ॥ सब स्त्रियोंके सब दाँषोंसे भरे भाव दुर्लक्ष्य रहते हैं—कष्टसे जाने जा सकते हैं। ये सन्निपातके समान दुःसाध्य तथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ ९४ ॥ कौन किसके प्रति किस कारणसे क्या कहता है ? इस बातका विचार कार्य करनेवाले मनुष्यको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो इस प्रकारका विचार करता है वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कर्मोंमें कभी प्रतारणा को प्राप्त नहीं होता—ठगाया नहीं जाता ॥ ९५ ॥ 'यह वक्ता प्रामाणिक वचन बोलता है या नहीं ? इस बातकी परीक्षा विद्वान् पुरुषको उसके आचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए ॥ ९६ ॥ नयोंके जाननेवाले मनुष्यको पहले यह देखना चाहिये कि इसमें यह बात संभव है भी या नहीं ? इसी प्रकार जिसे लक्ष्यकर वचन कहे जावें पहिले उसके आचरणसे उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। विचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यको शब्द अथवा अर्थके द्वारा कहे हुए पदार्थका 'यह विश्वास करनेके योग्य है अथवा नहीं ?' इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥ ९७—९८ ॥ 'यह जो कह रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सर्यसे कह रहा है, या क्रोधसे कह रहा है, या लज्जासे कह रहा है, या अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा है, और या दूसरोंकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान् मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा

सा र्क्षान्वाशावबुध्येत दुष्टा कष्टमयञ्च तत् । १शिष्टाशिष्टानुसंशिष्टौ शिष्टः संमोसुहीति यत् ॥ १०१ ॥  
 तदैव तं समुत्साह्य विहर्तुं ते वनं गताः । अमिकुण्डं प्रदर्श्यास्य पतन्त्यस्मिन्नभीरवः ॥ १०२ ॥  
 इत्याहुः सोऽपि तच्छ्रुत्वा न्यपतत्तत्र निर्भयः । विचारयन् धीर्मांश्च न कार्यं दैवचोदितः ॥ १०३ ॥  
 देव्यैषांऽत्र निवासिन्या प्रतिगृह्याभिपूजितः । कनकाम्बरभूपादिदानेनास्माद्विनिर्ययौ ॥ १०४ ॥  
 तस्माद्विस्मयमापन्ना गत्वा तेऽन्यत्र तं पुनः । प्रोत्साह्य मेषभूभ्रमोर्मध्यं प्रावेशयन्खलाः ॥ १०५ ॥  
 पर्वतौ मेषरूपेण पतन्तौ भुजशालिनम् । तन्निरुध्य स्थितं दृष्ट्वा तुष्टा तद्गतदेवता ॥ १०६ ॥  
 तस्मै दिव्ये ददौ रत्नकुण्डले मकराङ्किते । ततो निर्गतवान्भूयस्तन्निर्देशाद्विशान् बिलम् ॥ १०७ ॥  
 वराहादेरसावुग्रमापतन्तं वराहकम् । करेणैकेन द्रंश्यां श्रुत्वान्येनास्य मस्तकम् ॥ १०८ ॥  
 प्रहृत्य हेलया तस्थौ तस्यासाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवतान्रस्था रुग्मिणीप्रियसूनुवे ॥ १०९ ॥  
 गङ्गं विजयघोषार्ख्यं महाजालमपि द्वयम् । ददाति स्म सपुण्यानां क्व वा लाभो न जायते ॥ ११० ॥  
 तथा कालगुहायाञ्च महाकालाख्यराक्षसात् । वृषभाख्यं रथं रत्नकवचं चाप निजितात् ॥ १११ ॥  
 विद्याधरेण केनापि खचरः कोऽपि कीलितः । तरुद्वये स कामस्य १ दृष्टिगोचरमापत् ॥ ११२ ॥  
 असह्यवेदनात्स्य खेटकस्य च वीक्षणत् । इङ्कितज्ञो हरेः पुत्रोऽङ्गुलिकां ३ बन्धमांचनीम् ॥ ११३ ॥  
 खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विलोचने । कृतोपकारः ४ सम्प्रापत्समाद्विद्यात्रयं महत् ॥ ११४ ॥

करनी चाहिण । जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति करता है वह विद्वानोंमें भी विद्वान् माना जाता है ॥ ६६-१०० ॥ 'अच्छी और बुरी आज्ञा देनेमें जो शिष्ट (उत्तम) पुरुष भी भूलकर जातं है वह बड़े कष्टकी बात है' यह बात दुष्टा स्त्री अपने स्त्रीस्वभावके कारण नहीं समझ पाती है ॥ १०१ ॥

अथानन्तर—वे विशुद्ध आदि पाँच सौ राजकुमार प्रद्युम्नको उत्साहित कर उसी समय विहार करनेके लिए वनकी ओर चल दिये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रद्युम्नके लिए अमिकुण्ड दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भय कहलाते हैं । उनकी बात सुनकर प्रद्युम्न निर्भय हो उस अमिकुण्डमें कूद पड़ा । सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यसे प्रेरित हुआ बुद्धिमान् मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ॥ १०२-१०३ ॥ उस कुण्डमें कूदते ही वहाँकी रहनेवाली देवीने उसकी अगवाणी की तथा सुवर्णमय वस्त्र और आभूषणादि देकर उसकी पूजा की । इस तरह देवीके द्वारा पूजित होकर प्रद्युम्न उस कुण्डसे बाहर निकल आया ॥ १०४ ॥ इस घटनासे उन सबको आश्चर्य हुआ तदनन्तर वे दुष्ट उसे उत्साहितकर फिरके चले और मेषके आकारके दो पर्वतोंके बीचमें उसे घुसा दिया ॥ १०५ ॥ वहाँ दो पर्वत मेषका आकार रख दोनों ओरसे उस पर गिरने लगे तब भुजाओंसे सुशोभित प्रद्युम्न उन दोनों पर्वतोंको रोककर खड़ा हो गया । यह देख वहाँ रहनेवाली देवीने संतुष्ट होकर उसे मकरके चिह्नसे चिह्नित रत्नमयी दो दिव्य कुण्डल दिये । वहाँसे निकलकर प्रद्युम्न, भाइयोंके आदेशानुसार वराह पर्वतकी गुफामें घुसा । वहाँ एक वराह नामका भयंकर देव आया तो प्रद्युम्नने एक हाथसे उसकी दाढ़ पकड़ ली और दूसरे हाथसे उसका मस्तक ठोकना शुरू किया इस तरह वह दोनों जबड़ोंके बीचमें लीलापूर्वक खड़ा हो गया । रुग्मिणीके पुत्र प्रद्युम्नकी चेष्टा देखकर वहाँ रहनेवाली देवीने उसे विजयघोष नामका शङ्ख और महाजालमें दो वस्तुएँ दी । सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंको कहीं लाभ नहीं होता है ? ॥ १०६-११० ॥

इसी तरह उसने काल नामक गुहामें जाकर महाकाल नामक राक्षसको जीता और उससे वृषभ नामका रथ तथा रत्नमय कवच प्राप्त किया ॥ १११ ॥ आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी विद्याधरको दो वृक्षोंके बीचमें कीलित कर दिया था वह प्रद्युम्नको दिखाई दिया, वह कीलित हुआ विद्याधर असह्य वेदनासे दुःखी हो रहा था । यद्यपि उसके पास बन्धनसे छुड़ानेवाली गुटिका थी परन्तु कीलित होनेके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था । उसे देखते ही प्रद्युम्न उसके

१ 'इष्टशिष्टानुसंशिष्टशिष्टः' ल० । इष्टं शिष्टानुसंशिष्टौ शिष्टः' म० । इष्टशिष्टानुसंशिष्टाविष्टः ल० । ग० पुस्तके वृत्तितोऽयं श्लोकः । २ प्रद्युम्नस्य । ३ गुटिकां म०, ख० । गुलिकां ग०, घ० । ४ कृतोपकारसंप्रापत्—क० ।

सुरेन्द्रजालं जालान्तनरेन्द्रं प्रस्तरञ्च सः । पुनः सहस्रवक्त्राहिभवने शङ्खपुरगान् ॥ ११५ ॥  
 विलासिगान्य नागश्च नागी च मकरध्वजम् । चित्रवर्णं धनुर्नन्दकाश्यासि कामरूपिणीम् ॥ ११६ ॥  
 मुद्रिकाञ्च प्रसन्नौ तौ समं तस्मै विनैरनुः । कम्पनेन कपिस्थात्रिपस्यासं पादुकद्वयम् ॥ ११७ ॥  
 तेनानर्घ्यं नभोयायि<sup>१</sup> देवतायान्ताश्रितः<sup>२</sup> । सुवर्णककुभे पञ्चफणाहिपतिनापितान् ॥ ११८ ॥  
 तर्पणन्तापनो मांहानाभिधानो<sup>३</sup> विलापनः । मारणश्चेति पञ्चैतान् शरान् सप्रप्राप्य पुण्यभाक् ॥ ११९ ॥  
 मौलिमौपधिमालाञ्च छत्रं चामरयुगमकम् । दत्तं क्षीरवने मर्कटं नामैः परितोषिणा ॥ १२० ॥  
 स<sup>४</sup> कदम्बमुखीवाप्यां नागपाशमवाप्तवान् । अस्य वृद्धैरसांढारः सर्वैः तं स्वगसूनुवः ॥ १२१ ॥  
 यः पातालमुखीवाप्यां पतेत्स सकलेश्वरः । भवेदित्यत्रदन्कामोऽप्यवगम्य तदिक्रितम् ॥ १२२ ॥  
 प्रज्ञप्तिं निजरूपेण तस्यां वाप्यामपीपतत । स्वयं पार्श्वे निरोधाय स्वरूपं नयविस्थितः ॥ १२३ ॥  
 महाशिलाभिस्तैः सर्वैर्विवेयं<sup>५</sup> वधवात्मनः । विदित्वा कोपसन्नसो विद्युद्दंष्ट्रादिविद्विषः ॥ १२४ ॥  
 गाढं पाशेन ब्रध्वाध्रो मुवान् प्रक्षिप्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानञ्च प्रहिय नगरं प्रति ॥ १२५ ॥  
 ज्योतिष्प्रभं कनीयांसं तेष्वक्रम्य शिलां स्थितः । पापिनां हि स्वपापेन प्रामुवन्ति पराभवम् ॥ १२६ ॥  
 अथात्र नारदं कामचारिणं<sup>६</sup> नभसस्तलान् । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिपृचुरलोकन ॥ १२७ ॥  
 यथाविधि प्रतीक्ष्यैनमभ्युत्थानपुरस्सरम् । कृतसम्भाषणस्तेन प्रणीतात्मप्रपञ्चकः ॥ १२८ ॥

पाश गया और उसके संवेतको समझ गया । उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी आँखों पर फेरा और उसे बन्धनमें मुक्त कर दिया । इस तरह उपकार करनेवाले प्रद्युम्नने उस विद्याधरसे सुरेन्द्र जान, नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्त कीं । तदनन्तर—वह प्रद्युम्न, सहस्रवक्त्र नामक नागपुरमारके भवनमें गया वहाँ उसने शङ्ख वजाया जिससे नाग और नागी दोनों ही बिलसे बाहर आये और प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह्नसे चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, नन्दक नामका खड्ग और कामरूपिणी नामकी अंगूठी दी । वहाँ में चलकर उसने एक कैथका वृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे आकाशमें चलनेवाली दो अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त कीं ॥ ११२-११७ ॥ वहाँसे चलकर सुवर्णाजुन नामक वृक्षके नीचे पहुँचा और वहाँ पञ्च फणवाले नागराजके द्वारा दिये हुए तपन, तापन, भौदन, विलापन और मारण नामके पांच वाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए ॥ ११८-११९ ॥ तदनन्तर वह क्षीरवनमें गया वहाँ सन्तुष्ट हुए मर्कट देवने उसे मुकुट, औपधिमाला, छत्र और दो चमर प्रदान किये ॥ १२० ॥ इसके बाद वह कदम्बमुखी नामकी बावड़ीमें गया और वहाँके देवसे एक नागपाश प्राप्त किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिको नहीं सहनेवाले सब विद्याधरपुत्र इसे पातालमुखी बावड़ीमें ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कूदना है वह सबका राजा होता है । नीतिका जाननेवाला प्रद्युम्न उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसने प्रज्ञप्ति विद्याको अपना रूप बनाकर बावड़ीमें कूदा दिया और स्वयं अपने आपको छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ॥ १२१-१२३ ॥ जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी-बड़ी शिलाओं के द्वारा मुझे मारना चाहते थे तब वह क्रोधसे संतप्त हो उठा, उसने उसी समय विद्युद्दंष्ट्र आदि शत्रुओंको नागपाशसे मज्जवृत्तीके साथ बांधकर तथा नीचेकी ओर मुख कर उसी बावड़ीमें लटका दिया और ऊपरसे एक शिला टुक दी । उन सब भाइयोंमें ज्योतिष्प्रभ सबसे छोटा था सो प्रद्युम्नने उसे समाचार देनेके लिए नगरकी ओर भेज दिया और स्वयं वह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको प्राप्त करते ही हैं ॥ १२४-१२६ ॥

अथानन्तर—प्रद्युम्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाले नारदजी आकाश-स्थलसे अपनी ओर आ रहे हैं ॥ १२७ ॥ वह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया उसने विधिपूर्वक उनकी पूजा की, उनके साथ बातचीत की तथा नारदने उसका सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर प्रद्युम्न बहुत

१-गामि ल० । २ तदाश्रितः ल० । तपःश्रियः इत्यपि क्वचित् । ३ विलोपनः ख०, ग०, घ० ।  
 ४ कदम्बमुखी ल० । ५ वधवात्मनः ल० । ६ नभसः स्थलात् इत्यपि क्वचित् ।

सम्यक्श्रद्धाय तत्सर्वं प्रहृष्टोऽरिबलागमम् । १दृष्ट्वाऽऽस्त विस्मितस्तावद्वलं तं खेचरेशितुः ॥ १२९ ॥  
 सहसावेष्टितेवार्कं प्रावृद्धभोदजालकम् । कालशम्बरमुख्यं तत्स युद्ध्वा भङ्गमापयत् ॥ १३० ॥  
 तं स्रुतकृतवृत्तान्तं बोधयित्वा खगाधिपम् । अपनीय शिलां नागपाशं चैतान्यपाशयत् ॥ १३१ ॥  
 नारदागमहेतुञ्च ज्ञापयित्वा सविस्तरम् । आपृच्छयानुमतस्तेन रथं वृषभनामकम् ॥ १३२ ॥  
 नारदेन समारुह्य १प्रायात् द्वारावतीं प्रति । स्वपूर्वभवसम्बन्धं शृण्वंस्तेन निरूपितम् ॥ १३३ ॥  
 हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य दुर्योधनमहीभृतः । जलधेश्च सुतां कन्यां मान्यामुदधिसञ्ज्ञया ॥ १३४ ॥  
 द्रानुं भानुकुमाराय महाभिषवणोत्सवम् । विधीयमानं वाक्ष्यासौ रथे प्रस्तरविद्यया ॥ १३५ ॥  
 नारदं शिलयाच्छाद्य तस्मादुत्तरीयं भूतलम् । बहुप्रकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १३६ ॥  
 मथुराया बहिर्भागे पाण्डवान् स्वप्रियां सुताम् । प्रदित्सून् गच्छतो भानुकुमाराय निर्वीक्ष्य ३ सः ॥ १३७ ॥  
 समारोपितकोदण्डहस्तो व्याधाकृतिं दधत् । तेषां कदर्थनं कृत्वा नाना द्वारवतीमितः ॥ १३८ ॥  
 विद्याय विद्यया ५प्रावृद्धारदं स्यन्दनस्थितम् । एकाकी स्वयमागत्य विद्याशाखासृगाकृतिः ॥ १३९ ॥  
 बसञ्ज सत्यभामाया नन्दनं वा वनं वनम् । तत्पानवापीनिःशेषजलपूर्णकमण्डलुः ॥ १४० ॥  
 ततो गत्वान्तरं किञ्चित्स्यन्दनोरभरासभान् । विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४१ ॥  
 पुरगोपुरनिर्याणप्रवेशनगतान् जनान् । सप्रहासान् समापाद्य प्रविश्य नगरं पुनः ॥ १४२ ॥  
 १शालाख्यवैद्यवेषेण स्वं प्रताप्य स्वविद्यया । विच्छिन्नकर्णसन्धानवेदित्वादि प्रघोषयन् ॥ १४३ ॥

संतुष्ट हुआ और उसपर विश्वास कर वहीं बैठ गया। शत्रुकी सेनाका आगमन देखकर वह आश्चर्यमें पड़ गया। थोड़े ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें बादलोंका समूह सूर्यको घेर लेता है उसी प्रकार अकस्मात् विद्याधर राजाकी सेनाने प्रद्युम्नको घेर लिया परन्तु प्रद्युम्नने युद्ध कर उन कालसंवर आदि समस्त विद्याधारोंको पराजित कर दिया। तदनन्तर—उसने राजा कालसंवरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया और सबको बन्धन रहित किया, इसी तरह नारदके आनेका कारण भी विस्तारके साथ कहा। तत्पश्चात् वह राजा कालसंवरकी अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना हुआ। बीचमें नारदजीके द्वारा कहे हुए अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध सुनता हुआ वह हास्तिनापुर जा पहुँचा। वहाँके राजा दुर्योधनकी जलधि नामकी रानीसे उत्पन्न हुई एक उदधिकुमारी नामकी उत्तम कन्या थी। भानुकुमारको देनेके लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे देख प्रद्युम्नने प्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एक शिलाके द्वारा नारदजीको तो रथपर ही ढक दिया और आप स्वयं रथसे उतर कर पृथिवी तलपर आ गया और उन लोगोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर वहाँसे आगे बढ़ा ॥ १२८—१३६ ॥ चलते-चलते वह मथुरा नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डव लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारको देनेके लिए जा रहे थे उन्हें देख, उसने धनुष हाथमें लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया। तदनन्तर वहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा ॥ १३७—१३८ ॥ वहाँ उसने नारदजीको तो पहलेके ही समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रक्खा और स्वयं अकेला ही नीचे आया। वहाँ आकर उसने विद्याके द्वारा एक वानरका रूप बनाया और नन्दन वनके समान सत्यभामाका जो वन था उसे तोड़ डाला, वहाँकी बावड़ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर लिया। फिर कुछ दूर जाकर उसने अपने रथमें उल्टे मेढे तथा गधे जोते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया ॥ १३९—१४१ ॥ इस क्रियासे उसने नगरके गोपुरमें आने जानेवाले लोगोंको खूब हँसाया। तदनन्तर नगरके भीतर प्रवेश किया ॥ १४२ ॥ और अपनी विद्याके बलसे शाल नामक वैद्यका रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता

१ 'आप्त उपवेशने' इत्यस्य लङ्गिरूपम् । २ प्रयान् इत्यपि क्वचित् । ३ कुमारयाभिवीक्ष्य सः ल०, कुमारयातिवीक्ष्य ग० । ४ नारदस्यन्दनस्थितम् इत्यपि क्वचित् । ५ स्यन्दनोऽरवि रासभान् ल० । ६ आलोक्य वैद्यवेषेण संप्रत्येयं ल० ।

प्राप्य भानुकुमाराय दातुमानीतकन्यकाः । तन्नाविर्भावितानेकधाहास्योऽनु द्विजाकृतिः ॥ १४४ ॥  
 सत्यभामागृहं गत्वा भोजनावसरे द्विजान् । विप्रकृत्य स्वधाख्येन मुक्त्वा स्वीकृतदक्षिणः ॥ १४५ ॥  
 ततः क्षुल्लकवेषेण समुपेत्य स्वमातरम् । बुभुक्षितोऽहं सदृष्टे ! सम्यग्भोज्य मामिति ॥ १४६ ॥  
 सम्प्रार्थ्यं त्रिविधाहारान् मुक्त्वा तृप्तिमनासवान् । कुरु मे देवि सन्तुष्टिमिति व्याकुलतां नयन् ॥ १४७ ॥  
 तद्वितीर्णमहामोदकोपयोगास्स<sup>१</sup> तृप्तवान् । ईषच्छान्तमनास्तत्र सुखं समुपविष्टवान् ॥ १४८ ॥  
 भ्रकाले चम्पकाशोकपुष्पाण्यभिसमीक्ष्य सा । कलालिकोक्किलालापवाचालितवनान्तरे ॥ १४९ ॥  
 तदा विस्मयमापन्ना मुदा पप्रच्छ किं भवान् । भद्रासौ मत्सुतो नारदोक्ककाले समागतः ॥ १५० ॥  
 इति तस्याः परिप्रश्ने स्वं रूपं सम्प्रकाशयन् । कृत्वा शिरसि तत्पादुनखदीधितिमञ्जरीः ॥ १५१ ॥  
 भविष्याय स्वकृत्तान्तमशेषं परिबोधयन् । जननीं सह<sup>२</sup> समुज्य तथा तदभिवाञ्छितैः ॥ १५२ ॥  
 बालक्रीडाविशेषैस्तां परां प्रीतिमवापयन् । प्राग्जन्मोपाजितापूर्वपुण्योदय इव स्थितः ॥ १५३ ॥  
 तदा नापितकः कोऽपि रुक्मिणीं समुपागतः । हरिप्रदनास्तुतोत्पत्तिं विश्रय्य विनयन्धरात् ॥ १५४ ॥  
 मुनीन्द्रादावयोर्थस्थाः प्राग्जः स्वोपयमेऽलकान् । ज्ञात्वन्यस्याः स हृत्वेति युवाभ्यां विहिता स्थितिः ॥ १५५ ॥  
 तस्माद्देव्यलकाली ते दीयतां तन्निबन्धनम् । स्मृत्वा भानुकुमारस्य स्नानार्थं सत्यभामया ॥ १५६ ॥  
 प्रहितोऽहं विषाहेऽथ<sup>३</sup> द्रुतमित्यब्रवीदिदम् । किमेतदिति सम्पृष्टा<sup>४</sup> कामेन तव जन्मना ॥ १५७ ॥  
 समं भानुश्च सञ्जातस्तदावाभ्यां युवां हरेः । नीतौ दर्शयितुं सुप्तं तस्मिन्स्वं पादसन्निधौ ॥ १५८ ॥

हूँ ॥ १४२-१४३ ॥ इसके बाद भानुकुमारको देनेके लिए कुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारसे हँसी की । पश्चात् एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यभामाके महलमें पहुँचा वहाँ भोजनके समय जो ब्राह्मण आये थे उन सबको उसने अपनी घृष्टतासे बाहर कर दिया और स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली ॥ १४४-१४५ ॥ तदनन्तर लुल्लकका वेष रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यहाँ पहुँचा और कहने लगा कि हे सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली ! मैं भूखा हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा । इस तरह प्रार्थना कर अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुलताको प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुझे संतुष्ट कर, पेट भर भोजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया । भोजनके पश्चात् वह कुछ शान्तचित्त होकर वहीं पर सुखसे बैठ गया ॥ १४६-१४८ ॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें ही चम्पक तथा अशोकके फूल फूल गये हैं और साराका सारा वन भ्रमरों तथा कोकिलान्नाओंके मनोहर कूजनसे शब्दाद्यमान हो रहा है । यह देख वह आश्चर्यसे चकित बड़े हर्षसे पूछने लगी कि हे भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र हैं और नारदके द्वारा कहे हुए समय पर आये हैं । माताका ऐसा प्रश्न सुनते ही प्रद्युम्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उसके चरण-नखोंकी किरण रूप मंजरीको शिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । माताके साथ भोजन किया, उसकी इच्छानुसार बाल-कालकी क्रीडाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त कराई और पूर्व जन्ममें उपाजित अपूर्व पुण्य कर्मके उदयके समान वहीं ठहर गया ॥ १४९-१५३ ॥

उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया और कहने लगा कि श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर श्रीविनयन्धर नामके मुनिराजसे सत्यभामा और तुम दोनोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्तकी थी कि हम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके शिरके बाल हरणकर स्नान करेगा । इसलिए हे देवी ! आप उस शर्तका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके लिए अपने केश मुझे दीजिये । आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुझे शीघ्र ही भेजा है' । नाईकी बात सुनकर प्रद्युम्नने मातासे पूछा कि 'यह क्या बात है ?' वह कहने लगी कि 'तुम्हारा और भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था । हम दोनोंने श्रीकृष्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था और वह

१ सुतुप्तवान् ल० । २ संतुष्टतया ल० । ३ ब्रूत ल० ( ? ) । ४ प्रद्युम्नेन ।

स्थापितः स शिरोभागे प्रबुध्य त्वां पुरा हरिः । विलोक्य ज्येष्ठतां तेऽदाविति माताऽभ्यधाततः ॥ १५९ ॥  
 स नापितं विकाराणामकरोदाकरं पुनः । आगतांश्च व्यधाद् भृत्यान् गोपुरेऽन्नःस्थितानानान् ॥ १६० ॥  
 वासुदेवस्य रूपेणार्जयञ्च विदूषकम् । दीर्घीकृतस्वपादेन जराख्यञ्च महत्तरम् ॥ १६१ ॥  
 मेषरूपेण सम्पातात्पातयन् स्वपितामहम् । हलिनञ्च हरिभूत्वा निगीर्थं त्वमददयताम् ॥ १६२ ॥  
 गत्वात्र सुखमास्वाभ्येत्यभिधाय स्वविद्यया । रुक्मिणीरूपमापाद्य निर्विशेषं मनोहरम् ॥ १६३ ॥  
 विमाने स्थापयित्वाश्चु गच्छन्स सबलं हरिम् । प्राप्तवन्तं 'समाहर्तुमाकालिकयमोपमम् ॥ १६४ ॥  
 जित्वा नरेन्द्रजालाख्यविद्याविहितमायया । तस्थौ निष्पतिपक्षः सन्वीक्षणाभीलविग्रहः ॥ १६५ ॥  
 नारदः स तदागत्य तनूजस्याद्य वीक्षणम् । युवयोरीदृशं लब्धविद्यस्येत्यभ्यधाद्दत्तम् ॥ १६६ ॥  
 सोपि प्रकटितात्मीयरूपः 'पञ्चशरो बलम् । हरिञ्च स्वशिरोन्यस्ततत्क्रमाब्जोऽत्यमानयत् ॥ १६७ ॥  
 ततश्चक्रधरोऽनङ्गं प्रेमालिङ्गितविग्रहः । आरोप्य स्वगजस्कन्धं प्रहृष्टः प्राविशत्पुरम् ॥ १६८ ॥  
 सत्यभामासुतोद्दिष्टकन्यकाभिः सह स्मरः । कल्याणाभिपवं दिग्ध्या सम्प्रापत्सर्वसम्मतः ॥ १६९ ॥  
 एवं प्रयाति कालेऽस्य स्वर्गादागत्य कश्चन । तनूजः कामसोदर्यो हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥ १७० ॥  
 इत्यादेशं समाकर्ण्य सत्यभामात्मनः पतिम् । यथा स्यात्तत्समुत्पत्तिः स्वस्यास्तादृगयाचत ॥ १७१ ॥  
 तच्छ्रुत्वा रुक्मिणी चह कामं जाम्बवती यथा । लप्स्यते तेऽनुजं प्राच्यं तथा कुर्विति सादरम् ॥ १७२ ॥  
 सोप्यदान्मुद्रिकां कामरूपिणीं तामवाप्य सा । सत्यभामाकृतिं गत्वा पतिसंयोगतः सुखम् ॥ १७३ ॥

उनके शिरके समीप रखा गया था । जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुम्हपर पड़ी इसलिये उन्होंने तुम्हें ही जेठापन प्रदान किया था—तू ही बड़ा है यह कहा था । माताके वचन सुनकर प्रद्युम्नने उस नाईको विकृतिकी खान बना दी—उसकी बुरी चेष्टा कर दी और उसके साथ जो सेवक आये थे उन सबको नीचे शिरकर गोपुरमें उल्टा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदूषकको खूब डाटा । तदनन्तर मार्गमें सो रहा और जगानेपर अपने पैर लम्बेकर जर नामक प्रतीहारीको खूब ही धौंस दी ॥ १५४-१६१ ॥ फिर मेषका रूप बनाकर बाबा वासुदेवको टक्कर द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्रको निगलकर अदृश्य कर दिया । तदनन्तर—माताके पास आकर बोला कि 'हे माता ! तू यहीं पर सुखसे रह' यह कहकर उसने अपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणी के ही समान मनोहर रूप बनाया और उसे विमानमें बैठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूँ, यदि सामर्थ्य हो तो लुड़ा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजकी उपमा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उसे लुड़ानेके लिए सामने जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप धारण करनेवाले प्रद्युम्नने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥ १६२-१६५ ॥ उसी समय नारदने आकर हँसते हुए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त हैं ऐसे पुत्रका आज आप दोनोंको दर्शन हो रहा है ॥ १६६ ॥ उसी समय प्रद्युम्नने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंमें अपना शिर झुकाकर नमस्कार किया ॥ १६७ ॥ तदनन्तर चक्रवर्ती श्रीकृष्ण महाराजने बड़े प्रेमसे प्रद्युम्नका आलिङ्गन किया, उसे अपने हाथीके स्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े प्रेमसे नगरमें प्रवेश किया ॥ १६८ ॥ वहाँ जाकर प्रद्युम्नने अपने पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्याएँ आई थी उनके साथ सर्वाकी सम्मतिसे विवाह किया ॥ १६९ ॥ इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन सबने सुना कि प्रद्युम्नका पूर्वजन्मका भाई स्वर्गसे आकर श्रीकृष्णको पुत्र होगा । यह सुनकर सत्यभामाने अपने पतिसे याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न कीजिये ॥ १७०-१७१ ॥ जब रुक्मिणीने यह सुना तो उसने बड़े आदरके साथ प्रद्युम्नसे कहा कि तुम्हारे पूर्वजन्मके छोटे भाई-के जाम्बवती प्राप्त कर सके ऐसा प्रयत्न करो ॥ १७२ ॥ प्रद्युम्नने भी जाम्बवतीके लिए इच्छानुसार

क्रीडवं जाम्बवत्याप १ शम्भवाख्यं दिवश्च्युतम् । सुभानुं सत्यभामा च जातमत्सरयोस्तयोः ॥ १७३ ॥  
गान्धर्वादिविवादेषु सुभानुं शम्भवोऽजयन् । सर्वत्र २ पूर्वपुण्यानां विजयो नैव दुर्लभः ॥ १७५ ॥  
रुक्मिणी सत्यभामा च गतमात्सर्यबन्धने । परस्परगतां प्रीतिमन्वभूतामतः परम् ॥ १७६ ॥  
इत्यशेषं गणेशोक्तमाकर्ण्य सकलं सद् । ननाम मुकुलीभूतकराब्जं तत्क्रमाब्जयोः ॥ १७७ ॥  
अथान्यदा जिनं नेमिं सीरपाणिः कृताञ्जलिः । अवनम्यान्वयुंक्तैवं हरिञ्चेहासमानसः ॥ १७८ ॥  
भगवन् वासुदेवस्य राज्यं प्राज्यमहोदयम् । प्रवर्ततेऽप्रतीपं मे ब्रूहीदञ्च कियच्चिरम् ॥ १७९ ॥  
भद्रं द्वादशवपान्ते नश्येन्मघनिमित्तकम् । द्वीपायनेन निर्मूलमियं द्वारावती पुरी ॥ १८० ॥  
विष्णोर्जरत्कुमारेण गत्यन्तरगतिर्भवेत् । स एष प्रथमां पृथ्वीं प्रविश्याब्ध्युपमायुषः ॥ १८१ ॥  
प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य तीर्थेशोऽत्र भविष्यति । त्वमप्येतद्वियोगेन पण्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥  
सिद्धार्थसुरसम्बोधनापास्ताखिलदुःखकः । दीक्षामादाय माहेन्द्रकल्पे देवो जनिष्यसे ॥ १८३ ॥  
उत्कृष्टायुःस्थितिस्तत्र भुक्तभोगोऽत्र तीर्थकृत् । भूत्वा निर्दग्धकर्मारिर्देहमुक्तो भविष्यसि ॥ १८४ ॥  
इति तीर्थेशिना प्रोक्तं श्रुत्वा द्वीपायनाङ्गयः । सद्यः संयममादाय प्रायाज्जनपदान्तरम् ॥ १८५ ॥  
तथा जरत्कुमारश्च कौशाम्बीराण्यमाश्रयत् । प्राग्बद्धनरकायुष्यो हरिरन्वासददर्शनः ॥ १८६ ॥  
३ भाव्यमानान्यनामासौ नाहं शक्नोमि दीक्षितुम् । शक्ताञ्च प्रतिबध्नामीत्यास्त्रीबालमघोषयत् ॥ १८७ ॥  
प्रद्युम्नादिसुता देव्यो रुक्मिण्याद्याश्च चक्रिणम् । बन्धूंश्चापृच्छय तैर्मुक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥ १८८ ॥

रूप बनाने वाली अंगूठी दे दी उसे पाकर जाम्बवतीने सत्यभामाका रूप बनाया और पतिके साथ संयोगकर स्वर्गसे च्युत हुए क्रीडवके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न होने पर उसका शम्भव नाम रक्खा गया। उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया। इधर शम्भव और सुभानुमें जब परस्पर ईर्ष्या बढ़ी तो गान्धर्व आदि विवाहोंमें शम्भवने सुभानुको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य उपार्जन किया है उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है ॥ १७२-१७५ ॥ इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईर्ष्या छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करने लगीं ॥ १७६ ॥ इस प्रकार गणधर भगवान्के द्वारा कहा हुआ सब चरित सुनकर समस्त सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार किया ॥ १७७ ॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके स्नेहने जिनका चित्त वशकर लिया है ऐसे बलदेवने हाथ जोड़कर भगवान् नेमिनाथको नमस्कार किया और पूछा कि हं भगवन्! श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्ठक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा? कृपाकर आप यह बात मेरे लिए कहिये ॥ १७८-१७९ ॥ उत्तरमें भगवान् नेमिनाथने कहा कि भद्र! बारह वर्षके बाद सदिराका निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जायगी। जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णका मरण होगा। यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथमभूमिमें उत्पन्न होगा और अन्तमें वहाँसे निकलकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थकर होगा। तू भी इसके वियोगसे छह माह तक शोक करता रहेगा और अन्तमें सिद्धार्थदेवके सम्बोधनसे समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा माहेन्द्र स्वर्गमें देव होगा ॥ १८०-१८३ ॥ वहाँपर सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका इपभोगकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थकर होगा तथा कर्मरूपी शत्रुओंको जलाकर शरीरसे मुक्त होगा ॥ १८४ ॥ श्री तीर्थकर भगवान्का यह उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारणकर दूसरे देशको चला गया तथा जरत्कुमार कौशाम्बीके वनमें जा पहुँचा। जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णने सम्यग्दर्शन प्राप्तकर तीर्थकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाश्रोंका चिन्तन किया तथा स्त्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेनेमें समर्थ नहीं हूँ परन्तु जो समर्थ हों उन्हें मैं रोकता नहीं हूँ ॥ १८५-१८७ ॥ यह सुनकर प्रद्युम्न आदि पुत्रों तथा रुक्मिणी आदि देवियोंने चक्रवर्ती श्रीकृष्ण एवं अन्य बन्धुजनोंसे पूछकर उनकी



द्वीपायननिदानावसाने जाम्बवतीसुतः । अनिरुद्धश्च कामस्य सुतः सन्प्राप्य संयमम् ॥ १८९ ॥  
 प्रद्युम्नमुनिना सार्धमूर्जयन्ताचलाप्रतः । कृदन्नयं समारुह्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥  
 शुक्लध्यानं समापूर्य त्रयस्ते घातिघातिनः । कैवल्यनवकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥ १९१ ॥  
 पुण्यघोषणकृद्यक्षधृतचक्रपुरस्सरः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजैः सप्तभिः पृथक् ॥ १९२ ॥  
 कृतशंभो जगन्नाथश्छात्रादिप्रातिहार्यकः । मरुन्मार्गागताशेषसुरखेचरसेवितः ॥ १९३ ॥  
 दृष्ट्वीपथप्रवृत्तान्यविनेयजनतानुगः । पवनामरनिर्धूतधूलीकण्टकभूतलः ॥ १९४ ॥  
 मेघामरकुमारोपसिक्तगन्धान्धुसक्षितिः । इत्याद्याश्चर्यसम्पन्नः सर्वप्राणिमनोहरः ॥ १९५ ॥  
 धर्माभूतमयीं दृष्टिमभिपिञ्चन् जिनेश्वरः । विश्वान्देशान्विहृत्यायात्स देशं पल्लवाह्वयम् ॥ १९६ ॥  
 अत्र पाण्डुतनूजानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । ग्रन्थविस्तरंभीरूणामायुर्मेधानुरोधतः ॥ १९७ ॥  
 काम्पिल्यायां धराधीशो नगरे द्रुपदाह्वयः । देवी दृढरथा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥ १९८ ॥  
 स्त्रीगुणैः सकलैः शस्या बभूव भुवनप्रिया । तां पूर्णयौवनां वीक्ष्य पित्रा कस्मै समर्प्यताम् ॥ १९९ ॥  
 इयं कन्येति समृष्टा मन्त्रिणो मन्त्रचर्चया । प्राभाषन्त प्रचण्डेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम् ॥ २०० ॥  
 एतान् सहजशत्रुत्वाद् दुर्योधनमहीपतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन लाक्षालयमवीविशत् ॥ २०१ ॥  
 हन्तुं तनेऽपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिताः । प्रद्रुताः पयसि क्षमाजस्याधस्तात्किंस्वियं स्वयम् ॥ २०२ ॥  
 अपहृत्य सुरङ्गापातेन देशान्तरं गताः । स्वसम्बन्धादिदुःखस्य वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०३ ॥

आङ्गानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८ ॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान अर्थात् कारण था जब वहांसे अन्त्यत्र चला गया तब जाम्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्धने भी संयम धारण कर लिया और प्रद्युम्नमुनिके साथ गिरनार पर्वतकी ऊँची तीन शिखरोंपर आरूढ होकर सब प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥ १८९-१९० ॥ उन तीनोंने शुक्लध्यानको पूराकर घातिया कर्माका नाश किया और नव कैवल्यलब्धियों पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १९१ ॥ अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान् नेमिनाथने वहाँसे विहार किया । उस समय पुण्यकी घोषणा करनेवाले यज्ञके द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक्र उनके आगे चल रहा था, पैर रखनेकी जगह तथा आगे और पीछे अलग-अलग सात सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहार्य अलग सुशोभित हो रहे थे, आकाशमार्गमें चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे, देव और विद्याधरोंके सिवाय अन्य शिष्य जन पृथिवीपर ही उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पवन-कुमार देवोंने पृथिवीकी सब धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे और मेघकुमार देवोंने सुगन्धित जल बरसाकर भूमिको उत्तम बना दिया था, इत्यादि अनेक आश्चर्योंसे सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनेवाले भगवान् नेमिनाथ धर्माभूतकी वर्षा करते हुए समस्त देशोंमें विहार करनेके बाद पल्लव देशमें पहुँचे ॥ १९२-१९६ ॥

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँ पर ग्रन्थके विस्तारसे डरनेवाले शिष्योंकी आयु और बुद्धिके अनुरोधसे पाण्डवोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है ॥ १९७ ॥ कम्पिला नामकी नगरीमें राजा द्रुपद राज्य करता था उसकी देवीका नाम दृढरथा था और उन दोनोंके द्रौपदी नामकी पुत्री थी । वह द्रौपदी स्त्रियोंमें होनेवाले समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी तथा सबको प्यारी थी । उसे पूर्ण यौवनवती देखकर पिताने मन्त्रचर्चके द्वारा मन्त्रियोंसे पूछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये । मन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान् पाण्डवोंके लिए देनी चाहिये ॥ १९८-२०० ॥ पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है उसने इन लोगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लाक्षाभवन ( लाखके बने घर ) में प्रविष्ट कराया था ॥ २०१ ॥ परन्तु अपने पुण्यके उदयसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाकी जान गये इसलिए जलमें खड़े हुए किसी वृक्षके नीचे रहनेवाले पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये और अपने कुटुम्बी जनोसे

पोदनाख्यपुरे चन्द्रदत्तनाममर्हापतेः । देविलायाश्च <sup>१</sup>पुत्रन्ते कलागुणविशारदम् ॥ २०४ ॥  
 विधाय <sup>२</sup>निहतस्थूणगन्धा राज्यं व्यनारिपुः । अथेन्द्रवर्मणे प्रीत्येत्येया वार्ता श्रुता चरान् ॥ २०५ ॥  
 दृहाप्यवश्यमेप्यन्ति विधेयस्तत्स्वयंवरः । न केनचिद्विराघोऽयमिति तद्ब्रुचनश्रुतेः ॥ २०६ ॥  
 वसन्तऽर्चाकरद्राजा स स्वयंवरमण्डपम् । तत्र सर्वमर्हापालाः सम्प्रापन् पाण्डवेषु च ॥ २०७ ॥  
 भीमस्य भोजनाद्गन्धगजस्य करतर्जनान् । पार्थस्य मत्स्यनिर्भेदाच्चापरोहणसाहसात् ॥ २०८ ॥  
 नारदागमनाच्चापि लक्ष्यमाणेषु निश्चितम् । समागतेषु सत्स्वर्हन्महापूजापुरस्सरम् ॥ २०९ ॥  
 प्रविश्य भूपिता रत्नैः सा स्वयंवरमण्डपम् । भूमिपान् <sup>३</sup>कुलरूपादिगुणैः सिद्धार्थनामनि ॥ २१० ॥  
 पुरोधसि क्रमात्सर्वान् कथयत्यतिलङ्घ्य तान् । कन्या सम्भावयामास मालयोज्ज्वलयाऽर्जुनम् ॥ २११ ॥  
 द्रुपदाद्युग्रवंशोत्थमहीशाः कुरुवंशजाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिति तुष्टिं समागमन् ॥ २१२ ॥  
 एवं सम्प्राप्तकल्याणाः प्रविश्य पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौख्येन कालं दार्ढमिव क्षणम् ॥ २१३ ॥  
 ततः पार्थात्सुभद्रायामभिमन्युरभूत्सुतः । द्रौपद्यां पञ्च पाञ्चालनामानोऽन्वभवन्क्रमात् ॥ २१४ ॥  
 द्यूतं युधिष्ठिरस्यात्र दुर्योधनमर्हायुजा । भुजङ्गशैलपुर्या <sup>४</sup> यत्कीचकानां विनाशनम् ॥ २१५ ॥  
 विराटभूपतेर्भूरिगोमण्डलनिवर्तनम् । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुशर्मणः ॥ २१६ ॥  
 अल्पगोमण्डलस्यार्जुनोत्तराभ्यां निवर्तनम् । पुराणवेदिभिर्वाच्यं विस्तरेण यथाश्रुतम् ॥ २१७ ॥  
 अथ युद्धे कुरुक्षेत्रे प्रवृत्ते कौरवैः समम् । <sup>५</sup>पाण्डवानां विनिजित्य दुर्योधनधराधिपम् ॥ २१८ ॥

प्राप्त दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरको चले गये हैं । इधर गुप्तचरके मुखसे इनके विपयकी यह बात सुनी गई है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत्त और उनकी रानी देविलाके इन्द्रवर्मा नामक पुत्रको पाण्डवोंने समस्त कलाओं और गुणोंमें निपुण बनाया है तथा उसकी प्रतिद्वन्द्वी स्थूणगन्धको नष्टकर उसके लिए राज्य प्रदान किया है । सो वे पाण्डव यहाँ भी अवश्य ही आवेंगे । अतः अपने लिए द्रौपदीका स्वयंवर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे किसीके साथ विरोध नहीं होगा । मन्त्रियोंके उक्त वचन सुनकर राजाने वसन्त ऋतुमें स्वयंवर-मण्डप बनवाया जिसमें सब राजा लोग आये । पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदनोत्त हाथीको हाथसे ताड़ित करनेसे प्रकट हुआ, अर्जुन मत्स्यभेद तथा धनुष चढ़ानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारदके आगमनसे प्रकट हुए । जब सब लोग निश्चित रूपसे स्वयंवर-मण्डपमें आकर विराजमान हो गये तब अर्हन्त भगवान्की महा पूजाकर रत्नोंसे सजी हुई द्रौपदी स्वयंवर-मण्डपमें प्रविष्ट हुई । सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल-रूप आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समस्त राजाओंका अनुक्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-क्रमसे द्रौपदी समस्त राजाओंको उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गई । अन्तमें उसने अपनी निर्मल मालाके द्वारा अर्जुनको सन्मानित किया ॥ २०२-२११ ॥ यह देखकर द्रुपद आदि उग्रवंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा अन्य अनेक राजा 'यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध है' यह कहते हुए संनोषको प्राप्त हुए ॥ २१२ ॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको प्राप्तकर वे पाण्डव अपने नगरमें गये और मुख पूर्वक बड़े लम्बे समयको क्षणभरके समान व्यतीत करने लगे ॥ २१३ ॥

तदनन्तर अर्जुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामका पुत्र हुआ और द्रौपदीके अनुक्रमसे पाञ्चाल नामके पाँच पुत्र हुए ॥ २१४ ॥ यहाँ युधिष्ठिरका राजा दुर्योधनके साथ जुआ खेला जाना, भुजंगशैल नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका सेवक बनकर रहना, अर्जुनके द्वारा राजा विराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका लौटाया जाना, तथा अर्जुनके अनुज सहदेव और नकुलके द्वारा उसी मुख-सम्पन्न राजा विराटकी कुछ गायोंका वापिस लौटाना, आदि जो घटनाएँ हैं उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेवाले लोगोंको विस्मयसे कथन करना चाहिए ॥ २१५-२१७ ॥ अथानन्तर-कुरुक्षेत्रमें पाण्डवोंका कौरवोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्ठिर

युधिष्ठिरः समस्तस्य विषयस्याभवद्विभुः । विभज्य स्वानुजैर्लक्ष्मीं भुञ्जानोऽरञ्जयजनम् ॥ २१९ ॥  
 एवं स्वकृतपुण्यस्य ते सर्वे परिपाकजम् । सुखं निखिलमव्यग्रमन्वभूवन्नारतम् ॥ २२० ॥  
 नदा द्वारावतीदाहः कौशाम्बीगहनान्तरे । मृतिर्जरत्कुमारेण विष्णोर्ज्यैष्ठस्य संयमः ॥ २२१ ॥  
 भविष्यतीति यद्योक्तं द्वारावत्यां जिनेशिना । निर्घृत्तं तत्र तत्सर्वं न मिथ्यावादिनो जिनाः ॥ २२२ ॥  
 तादृशं तादृशामासीद्विग्धदुष्कर्मणां गतिम् । निर्मूलयन्ति कर्माणि तत एव हि धीधनाः ॥ २२३ ॥  
 यत्सर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा तदायन्मधुराधिपाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निर्विद्य त्यक्तराज्यकाः ॥ २२४ ॥  
 महाप्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम् । तत्कालोचितसत्कर्म सर्वं निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ ॥  
 स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृच्छन्संसृतेर्भयात् । अवोचद्भगवानित्थमप्रतर्क्यमहोदयः ॥ २२६ ॥  
 जम्बूसम्भाविते द्वीपे भरतेऽङ्गे पुरी परा । चम्पाख्या कौरवस्तत्र महीशो मेघवाहनः ॥ २२७ ॥  
 सोमदेवो द्विजोऽत्रैव ब्राह्मणी तस्य सोमिला । तयोः सुतास्त्रयः सोमदत्तासोमिलनामकः ॥ २२८ ॥  
 सोमभूतिश्च वेदाङ्गपारगाः परमद्विजाः । अर्मायां मातुलस्याग्निभूतेस्तिष्ठोऽभवन्सुताः ॥ २२९ ॥  
 अग्निलायां धनश्रीमित्रश्रीनागश्रियः प्रियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दत्तास्ताः पितृभ्यां सुलक्षणाः ॥ २३० ॥  
 सोमदेवः सुनिविद्य सुधीः केनापि हेतुना । प्रात्राजीदन्यदा धर्मरुचिनामतपोधनम् ॥ २३१ ॥  
 प्रविशन्तं गृहं भिक्षाकालं वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदत्तः प्रतीक्ष्यैनमाह पत्नीं कनीयसः ॥ २३२ ॥  
 नागश्रीवितरास्मै त्वं भिक्षामिति कृतादरम् । मामेव सर्वदा सर्वमेव प्रेषयतीति सा ॥ २३३ ॥  
 कुपिता विषसस्मिंश्च ददावन्नं तपोभृते । स सन्न्यस्य समाराध्य प्रापदन्त्यमनुचरम् ॥ २३४ ॥

दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशका स्वामी हो गया और छोटे भाइयोंके साथ विभागाकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न करने लगा ॥ २१८-२१९ ॥ इस प्रकार वे सब पाण्डव अपने द्वारा किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे उत्पन्न सम्पूर्ण सुखका विना किसी आकुलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥ २२० ॥

तदनन्तर—द्वारावती जलेगी, कौशाम्बी-वनमें जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यु होगी और उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे' इस प्रकार द्वारावतीमें नेमिनाथ भगवान्ने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् अन्यथावादी नहीं होते हैं ॥ २२१-२२२ ॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लोकोत्तर पुरुषोंकी वैसी दशा हुई इसलिए अशुभ कर्मोंकी गतिको बार-बार धिक्कार हो और निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष इन कर्मोंको निर्मूल करते हैं— उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं ॥ २२३ ॥ मथुराके स्वामी पाण्डव, यह सब समाचार सुनकर वहाँ आये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा अन्य बन्धुजनोके वियोगसे बहुत विरक्त हुए और राज्य छोड़कर मोक्षके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोगोंने नेमिनाथ भगवान्के पास जाकर उस समयके योग्य नमस्कार आदि सत्कर्म किये तथा संसारसे भयभीत होकर अपने पूर्वभव पूछे । उत्तरमें अचिन्त्य वैभवके धारक भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे ॥ २२४-२२६ ॥ उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी अङ्गदेशमें एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कुरुवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था । उसी नगरीमें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था । उन दोनोंके सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति ये वेदांगोंके पारगामी परम ब्राह्मण तीन पुत्र हुए थे । इन तीनों भाइयोंके मामा अग्निभूति थे उसकी अग्निना नामकी स्त्रीसे धनश्री, मित्रश्री और नागश्री नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं । अग्निभूति और अग्निनाने शुभ लक्षणोंवाली ये तीनों कन्याएँ अपने तीनों भानेजोंके लिए यथा क्रमसे दे दीं ॥ २२७-२३० ॥ तदनन्तर—बुद्धिमान् सोमदेवने किसी कारणसे विरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली । किसी एक दिन भिक्षाके समय धर्मरुचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमें प्रवेश करते देखकर दयालुता वश सोमदत्तने उनका पङ्क्तिगाहन किया और छोटे भाईकी पत्नीसे कहा कि हे नागश्री ! तू इनके लिए बड़े आदरके साथ भिक्षा दे दे । नागश्रीने मनमें सोचा कि 'यह सदा सभी कार्यके लिए मुझे ही भेजा करता है' यह सोचकर वह बहुत ही क्रुद्ध हुई और उसी क्रुद्धावस्थामें उसने उन तपस्वी

नागश्रीविहिताकृत्यं ज्ञात्वा ते भ्रातरश्चयः । समीपे वरुणार्थस्य दीक्षां मौक्षीं समाययुः ॥ २३५ ॥  
 गुणवत्यार्थिकान्याशे ब्राह्मण्यावितरे तदा । ईयतुः संयमं वृत्तमीदृक्सदसतामिदम् ॥ २३६ ॥  
 पञ्चाप्याराध्य तेऽभूवन्नारणाच्युतकल्पयोः । सामानिकामरा द्वाविंशतिसागरर्जाविनः ॥ २३७ ॥  
 भन्वभूर्वाश्विरं भोगास्तत्र सप्रविचारकान् । नागश्रीरपि पापेन पञ्चमीं पृथिवीमगात् ॥ २३८ ॥  
 दुःखं तत्रानुभूयान्ते स्वायुषोऽसौ ततश्च्युता । अभूत्स्वयम्प्रभद्वीपे सर्पो दृष्टिविषो मृतः ॥ २३९ ॥  
 द्वितीयनरकं गत्वा त्रिसमुद्रोपमायुषा । भुक्त्वा दुःखं विनिर्गत्य त्रसस्थावरयोनिषु ॥ २४० ॥  
 द्विसागरोपमं कालं परिभ्रम्य भवार्णवे । चम्पापुरे समुत्पन्ना मातङ्गी मन्दपाततः ॥ २४१ ॥  
 समाधिगुप्तनामानं मुनिमासाद्य सान्यदा । वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्य मधुमांसनिवृत्तितः ॥ २४२ ॥  
 तस्मिन्नेव पुरे मृत्वा <sup>१</sup>सुतेभ्यस्याभवत्सती । सुबन्धोर्धनदेव्याश्च सुदुर्गन्धशरीरिका ॥ २४३ ॥  
 सुकुमारीति सन्नास्या विहितार्थानुयायिनी । पुरेऽस्मिन्नेव वैश्यस्य धनदेवस्य पुत्रताम् ॥ २४४ ॥  
 प्राप्तावशोकदृष्ट्यायं देवदत्तौ जिनादिकौ । सम्प्रधार्य स्वबन्धनामादानं स्वस्य वेदिता ॥ २४५ ॥  
 सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्याजिनदेवो जगुप्सयन् । सुव्रताख्यमुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः ॥ २४६ ॥  
 कनीयान् जिनदत्तोऽथ प्रेरितो बन्धुभिर्मुहुः । आसबन्धुसुता नावमानयोग्येति तद्गयात् ॥ २४७ ॥  
 गृहीत्वा तामसौ क्रुद्धफणिनीमिव नागमन् । स्वप्नेऽप्यस्य विरक्तवाञ्छिन्दन्ती स्वां विपुण्यताम् ॥ २४८ ॥  
 गृहीतानशनान्येष्टुरार्थिकाभिः <sup>२</sup>सहागताम् । स्वगेहं सुव्रतां क्षान्तिमभिवन्ध <sup>३</sup>वदार्थिके ॥ २४९ ॥

मुनिराजके लिए विप मिला हुआ आहार दे दिया जिससे संन्यास धारण कर तथा चारों आराधनाओं की आराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थसिद्धि नामक अतुत्तर विमानमें जा पहुँचे ॥ २३१-२३४ ॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा धिये हुए इस अकृत्यका पता चला तो उन्होंने वरुणार्थके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥ २३५ ॥ यह देख, नागश्रीको छोड़कर शेष दो ब्राह्मणियोंने भी गुणवती आर्थिकाके समीप संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन और दुर्जनोका चरित्र ऐसा ही होता है ॥ २३६ ॥ इस प्रकार ये पाँचों ही जीव, आयुके अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण और अच्युत स्वर्गमें वाईस सागरकी आयुवाले सामानिक देव हुए ॥ २३७ ॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवीचार सहित भोगोंका उपभोग किया । इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, वहाँके दुःख भोगकर आयुके अन्तमें निकली और वहाँसे च्युत होकर स्वयंप्रभ द्वीपमें दृष्टिविष नामका सर्प हुई । फिर मरकर दूसरे नरक गई वहाँ तीन सागरकी आयु पर्यन्त दुःख भोगकर वहाँसे निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियोंमें भ्रमण करती रही । इस प्रकार संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तब चम्पापुर नगरमें चाण्डाली हुई ॥ २३८-२४१ ॥ किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धर्म-श्रवण किया, और मधु-मांसका त्याग किया । इनके प्रभावसे वह मरकर उसी नगरमें सुबन्धु सेठकी धनदेवी स्त्रीसे अत्यन्त दुर्गन्धित शरीरवाली पुत्री हुई । माता-पिताने उसका 'सुकुमारी' यह सार्थक नाम रक्खा । इसी नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता स्त्रीसे जिनदेव और जिनदत्त नामके दो पुत्र हुए थे । जिनदेवके कुटुम्बी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुव्रत नामक मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात् उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥ २४२-२४६ ॥ तदनन्तर छोटे भाई जिनदत्तको उसके बन्धुजनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े लोगोंकी कन्याका अपमान करना ठीक नहीं है । इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु क्रुद्ध सर्पिणीके समान वह कभी स्वप्नमें भी उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा निन्दा करती रहती थी ॥ २४७-२४८ ॥ किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया, उसी दिन उसके

इमे द्वे दीक्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुक्तताम् । अथ साप्यब्रवीदेवं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥ २५० ॥  
 शृण्वते जन्मनि प्राचि सौधर्माधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देव्यौ सौधर्मसंयुते ॥ २५१ ॥  
 गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे जिनगोहार्चनाविधेः । तत्र संविभ्रचित्वात्सम्प्राप्यात्मान्मनुष्यताम् ॥ २५२ ॥  
 आवां तपः करिष्याव इत्यन्योन्यं व्यवस्थितिम् । अकुर्वतां ततश्च्युत्वा साकेतनगरेक्षिनः ॥ २५३ ॥  
 श्रीषेणाख्यमहीशस्य श्रीकान्तायाश्च ते सुते । हरिश्रीपूर्वसेनाख्ये सम्भूय प्राप्तयौवने ॥ २५४ ॥  
 स्वयंवरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । निजपूर्वभवं स्मृत्वा संस्थाञ्च प्राक्तनी कृताम् ॥ २५५ ॥  
 विसर्ज्य बन्धुवर्गेण समं नृपकुमारकान् । इते दीक्षामिति क्षान्तिवचनाकर्णनेन सा ॥ २५६ ॥  
 सुकुमारी च निर्विण्णा सम्मता निजबान्धवैः । तत्समीपेऽगमद्दीक्षामन्येद्युर्वनमागताम् ॥ २५७ ॥  
 वेद्यां वसन्तसेनाख्यामावृत्य बहुभिर्विद्वैः । सम्प्रार्थ्यमानामालोक्य ममाप्येवं भवेदिति ॥ २५८ ॥  
 निदानमकरोज्जीवितान्ते प्राक्तनजन्मनः । सोमभूतेरभूद्देवी प्रान्तकल्पनिवासिनः ॥ २५९ ॥  
 उत्कृष्टजीवितं तत्र गमयित्वा त्रयोऽपि ते । सोदर्याः प्रच्युता यूयं जाता स्तनत्रयोपमाः ॥ २६० ॥  
 धर्मजो भीमसेनश्च पार्थश्चाख्यातपौरुषः । धनमिन्द्रश्रियौ चास्मिन्नभूतां स्तुतविक्रमौ ॥ २६१ ॥  
 नकुलः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमप्रभौ । सुकुमारी च काम्पिल्यपुरे द्रुपदभूपतेः ॥ २६२ ॥  
 सुता दृढरथायाश्च द्रौपद्याख्याजनिष्ठ सा । इति नेमीश्वरप्रोक्तमाकर्ण्य बहुभिः समम् ॥ २६३ ॥  
 पाण्डवाः संयमं प्रापन् सतामेषा हि बन्धुता । कुन्ती सुभद्रा द्रौपद्यश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥ २६४ ॥  
 निकटे राजिमत्याख्यगणिन्या गुणभूषणाः । तास्तिस्रः षोडशे कल्पे भूत्वा तस्मात्परिच्युताः ॥ २६५ ॥

घर अन्य अनेक आर्थिकाओके साथ सुव्रता और क्षान्ति नामकी आर्थिकाएँ आईँ उसने उन्हें वन्दना कर प्रधान आर्थिकासे पूछा कि इन दोनों आर्थिकाओंने किस कारण दीक्षा ली है ? यह बात आप मुझे कहिए । सुकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्थिका कहने लगी कि हे शुभ नामवाली ! सुन, ये दोनों ही पूर्वजन्ममें सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोंकी विमला और सुप्रभा नामकी प्रिय देवियाँ थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इन्द्रके साथ जिनन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए नन्दीश्वर द्वीपमें गई थीं । वहाँ इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए इन दोनोंने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्यायके बाद मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा और श्रीषेणा नामकी पुत्रियाँ हुई हैं । यौवन अवस्था प्राप्तकर ये दोनों विवाहके लिए स्वयम्बर-मंडपके भीतर खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हें अपने पूर्वभव तथा पूर्वभवमें की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया । उसी समय इन्होंने समस्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका त्यागकर दीक्षा धारण कर ली । इस प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके वचन सुनकर सुकुमारी बहुत विरक्त हुई और अपने कुटुम्बीजनोंकी संमति लेकर उसने उन्हीं आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी दूसरे दिन वनमें वसन्तसेना नामकी वेश्या आई थी, उसे बहुतसे व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे । यह देखकर सुकुमारीने निदान किया कि मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो । आयुके अन्तमें मरकर वह, पूर्वजन्ममें जो सोमभूति नामका ब्राह्मण था और तपश्चरणके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमें देव हुआ था उसकी देवी हुई ॥ २४६-२५६ ॥ वहाँकी उत्कृष्ट आयु बिताकर उन तीनों भाइयोंके जीव वहाँसे च्युत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुषार्थके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन हुए हो । तथा धनश्री और मित्रश्रीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं । इनकी क्षान्ति चन्द्रमा और सूर्यके समान है । सुकुमारीका जीव काम्पिल्य नगरमें वहाँके राजा द्रुपद और रानी दृढरथाके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है । इस प्रकार नेमिनाथ भगवान्के द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर पाण्डवोंने अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका बन्धुपना यही है । गुणरूपी आभूषणको धारण करनेवाली कुन्ती सुभद्रा तथा द्रौपदीने भी राजिमति गणिनीके पास उत्कृष्ट दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें तीनोंके जीव सोलहवें स्वर्गमें उत्पन्न हुए और वहाँसे च्युत होकर निःसन्देह समस्त कर्ममलसे रहित हो मोक्ष

विश्वकर्ममलैर्मुक्ता मुक्तिमेप्यन्त्यसंशयम् । पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितर्क्षयः ॥ २६६ ॥  
 विहृत्य भाक्तिकाः काश्चित्समाः सम्प्राप्य भूधरम् । शशुञ्जयं समादाय योगमातपमान्धिनाः ॥ २६७ ॥  
 तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तान् । क्रूरः कुर्यवरः स्मृत्वा स्वमातुलवधं क्रुधा ॥ २६८ ॥  
 आयसान्बभ्रिनस्तानि मुकुटादीनि पापभाक् । तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥  
 उपसर्गं व्यधात्तेषु कौन्तेयाः श्रेणिमाश्रिताः । शुक्लध्यानाग्निनिदग्धकर्मैधाः सिद्धिमाप्नुवन् ॥ २७० ॥  
 नकुलः सहदेवश्च पञ्चमानुत्तरं ययौ । भट्टारकोऽपि सम्प्रापदूर्जयन्तं धराधरम् ॥ २७१ ॥  
 नवरन्ध्रतुर्वेषु चतुर्दिवससंयुतैः । युनेषु नवभिर्मासैर्विहारविधिविच्युतां ॥ २७२ ॥  
 पश्चात्पञ्चशतैः सार्धं संयनैस्त्रिंशता त्रिभिः । मासं योगं निरुध्यासौ हताघानिचतुष्ककः ॥ २७३ ॥  
 आपाढमासि ज्योत्स्नायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतान्गोः सप्तमीपूर्वरात्रौ निवाणमाप्तवान् ॥ २७४ ॥  
 नदा सुराधिपोः प्राप्य कल्याणं पञ्चमं परम् । विधाय विधिवद्गङ्गायां त्वं स्वमांकः पुनर्ययुः ॥ २७५ ॥

### स्रग्धरा

शक्राद्या व्योम्नि दूरादमरपरिवृढा वाहनेभ्योऽवर्ताणां-

स्पूर्णं मूर्धावनम्राः स्तुतिमुत्तरमुखाः कुङ्कुमलान्भूतहस्ताः ।

ध्वन्तान्भ्रान्तधात्रः प्रणिहितमनसो यम्य पादां प्रणमः

क्षेमं श्रीमान् स नेमिर्ज्ञातिनि घटयन् प्रान्नबोधप्रसिद्धयै ॥ २७६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

प्राक्चिन्नागनिराबभावानु ततः कल्पे चतुर्थेऽमरो

जज्ञेऽस्मादपराजितः क्षितिपतिजातोऽच्युतेन्द्रस्ततः ।

तस्मात्सोऽजनि सुप्रतिष्ठनृपतिर्देवो जयन्तेऽन्वभू-

दासीदन्न महोदयो हरिकुलव्योमामलेन्दुजिनः ॥ २७७ ॥

प्राप्त करेंगे । जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम ऋद्धिर्यो प्राप्त हुई है और जो अतिशय भक्तिसे युक्त हैं ऐसे पाँचों पाण्डव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवान्के साथ विहार करते रहे और अन्तमें शशुञ्जय पर्वतपर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गये । दैवयोगसे वहाँ दुर्योधनका भानजा 'कुर्यवर' आ निकला वह अतिशय दुष्ट था, पाण्डवोंको देखते ही उसे अपने मामाके वधका स्मरण हो आया जिससे क्रुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर अग्निसे तपाये हुए लोहेके मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसर्ग किया । उन पाँचों भाइयोंमें कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो क्षपकश्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी ईन्धनको जलाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए । इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्वतपर जा विराजमान हुए ॥ २६०-२७१ ॥ उन्होंने छह सौ नित्यानवे वर्ष नौ महीना और चार दिन विहार किया । फिर विहार छोड़कर पांच सौ तैनीस मुनियोंके साथ एक महीने तक योग निरोधकर आपाढ शुक्ल सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रमें रात्रिके प्रारम्भमें ही चार अघातिया कर्मोका नाशकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ २७२-२७४ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वक उनके पंचम कल्याणका उत्सव किया और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २७५ ॥

जो दूरसे ही आकाशमें अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ्र ही अपने मस्तक मुक्ता लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दांनों हाथ जोड़ लिये हैं और जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेव जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे हृदयका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्रीमान् नेमिनाथ भगवान् केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें ॥ २७६ ॥ श्रीनेमि-

सा लक्ष्मीः सकलामराचितपदाभोजं ययार्थं विभु-  
स्तत्कौमारममेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः ।  
भीमान्सर्वमिदं जरत्तणसमं मत्वाग्रहीत्संयमं  
धरां केन न धर्मचक्रमभितो नेमीश्वरो नेमिताम् ॥ २७८ ॥

### पृथ्वी

सुभानुरभवत्ततः प्रथमकल्पजोऽस्माच्च्युतः  
खगाधिपतिरन्वतोऽजनि चतुर्थकल्पेऽमरः ।  
वणोच्चजनि शङ्खवागनु सुरो महाशुक्रज-  
स्तनोऽपि नवमो बलोऽनु दिविजस्ततस्तीर्थकृत् ॥ २७९ ॥

### प्रहर्षिणी

प्रागासीदमृतरसायनस्तृतीये  
श्वभ्रेऽभूदनु भववारिचौ भमिस्था ।  
भूयोऽभूद्गृहपतिरत्र यक्षनामा  
निर्नामा नृपतिसुतस्तनोऽमृताशी ॥ २८० ॥

### वसन्ततिलका

तस्मादभूत्सुररिपुः कृतदुर्निदाना-  
द्यक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिसन्धः ।  
धर्मोन्नवादनुभवन् बहुदुःखमस्मा-  
न्निर्गत्य तीर्थकृदनर्थविघातकृत्सः ॥ २८१ ॥  
द्रोहान्मुनेः १पलपचः स कुधीरधोऽगा-  
सद्दीज एव तपसाऽऽप्य च चक्रिलक्ष्मीम् ।

नाथ भगवान्का जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, वहाँसे आकर सुप्रतिष्ठ राजा हुआ, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुआ और उसके बाद इसी जम्बूद्वीपमें महान् वैभवको धारण करनेवाला, हरिवंशरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीर्थकर हुआ ॥ २७७ ॥ यद्यपि भगवान् नेमिनाथकी वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी वह कुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दर्यरूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, और वह कन्या राजीमति थी कि जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धिमान् भगवान्ने इन सबको जीर्ण तृणके समान छोड़कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान् नेमिनाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करें ? ॥ २७८ ॥ बलदेवका जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, इसके बाद शङ्ख नामका सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर नौवाँ बलभद्र हुआ, उसके बाद देव हुआ, और फिर तीर्थकर होगा ॥ २७९ ॥ कृष्णका जीव पहले अमृतरसायन हुआ, फिर तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ हुआ फिर निर्नामा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ और उसके पश्चात् बुरा निदान करनेके कारण अपने शत्रु जरासन्धको मारनेवाला, चक्ररत्नका स्वामी कृष्ण नामका नारायण हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुःखोंका अनुभव कर रहा है और अन्तमें वहाँसे निकलकर समस्त अनर्थोंका विघात करनेवाला तीर्थकर होगा ॥ २८०-२८१ ॥

ध्वंसं समाप नदपान्तपरिग्रहाणां

माकृध्वमल्पमपि पापधियापकारम् ॥ २८२ ॥

चाणूरमेर्णामिव यो हतवान् हरिवा

कंसञ्च कंसमिव दाशानिरन्वमैत्सनात् ।

मृत्युग्रंथाह्न शिशुं शिशुपालमाजौ

नेत्रन्विनां कथमिहास्तु न सोऽग्रगण्यः ॥ २८३ ॥

### शिखरिणी

जरासन्धं हत्वोजितमिव गजं शौर्यजलधि-

गंजारिवां गर्जन् प्रतिरिपुजयाद्विश्वविजयी ।

त्रिखण्डां निखण्डां करविधत्तदण्डोऽप्रतिहतां

यथापाद्वाह्यं गाः किल खलु स गोपोऽन्वपि ततः ॥ २८४ ॥

### मालिनी

क सकलपृथुशत्रुध्वंसनात्सानुतश्रीः

क च स भुवनबाह्यो हां हरर्मूलनाशः ।

स्वकृन्विधिविधानात्कस्य किं वात्र न स्याद्-

भमति हि भवचक्रं चक्रनेमिक्रमेण ॥ २८५ ॥

### वसन्ततिलका

बध्वायुराप इक्षमग्र्यमथान्त्यनाम

चास्मादधोऽगमदसौ धतराज्यभारः ।

तर्द्धाधनाः कुस्त यस्मन्खण्डमायु-

बन्धं प्रति प्रतिपदं सुखलिप्सवश्चेत् ॥ २८६ ॥

कृष्णकं जीवने चाण्डाल अवस्थामें मुनिके साथ द्रोह किया था इसलिए वह दुर्बुद्धि नरक गया और उसी कारणसे तपश्चरणके द्वारा राज्यलक्ष्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुआ इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिग्रहका त्याग करनेवाले मुनियोंका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी अपकार मत करो ॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणको मार डालता है उसी प्रकार जिसने चाणूरमल्लको मार डाला था, जिस प्रकार वज्र कंस ( काँसे ) के टुकड़े-टुकड़े कर डालता है उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराके राजाके ) टुकड़े-टुकड़े कर डाले थे और जिसप्रकार मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार जिसने युद्धमें शिशुपालका हरण किया था—उसे पराजित किया था । ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्योंमें सबसे मुख्य क्यों न हो ? ॥ २८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान् हाथीको जीतकर गरजता है उसी प्रकार शूरवीरताके सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलवान् जरासन्धको जीतकर गरजना की थी, इन्होंने अपने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयी कहलायें थे तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कहलायें थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण अवस्थामें भी हाथमें केवल एक दण्ड धारणकर किसीके द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी अखण्ड भूमिकी रक्षा की थी इसलिए बादमें भी वे गोप ( पृथिवीके रक्षक ) कहलाते थे ॥ २८४ ॥ देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णको बड़े-बड़े समस्त शत्रुओंका नाश करनेसे उस आश्चर्यकारी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी और कहाँ समस्त जगत्से जुदा रहकर निर्जन वनमें उनका समूल नाश हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार फलसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? यथार्थमें संसाररूपी चक्र पहियेकी हालकी तरह घूमा ही करता है ॥ २८५ ॥ देखो, श्रीकृष्णने



## अनुष्टुप्

अस्त्यैव तीर्थसन्ताने ब्रह्मणो धरणीगितुः । चूडादेव्याश्च संजज्ञे ब्रह्मदशो निर्धाशिनाम् ॥ २८७ ।  
 द्वादशो नामतः सप्तचापः सप्तशताब्दकैः । परिच्छिन्नप्रमाणायुस्तदन्ताश्चक्रवर्तिनः ॥ २८८ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिर्थाकर-पद्मनाम-  
 बलदेव-कृष्णनामार्धचक्रि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्मदत्तसकलचक्रवर्तिपुराणं  
 नाम द्विसप्ततितमं पर्व ॥ ७२ ॥

+०:ॐ:०+

पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यग्दर्शन तथा तीर्थकर नाम-कर्म प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नरक जाना पड़ा । आचार्य कहते हैं कि हे दुद्धिमान जन ! यदि आप लोग सुखके अभिलाषी हैं तो पद-पदपर आयु बन्धके लिए अखण्ड प्रयत्न करो अर्थात् प्रत्येक समय इस बातका विचार रखो कि अशुभ आयुका बन्ध ना नहीं हो रहा है ॥ २८६ ॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवान्के तीर्थमें ब्रह्मदत्त नामका वारहवाँ चक्रवर्ती हुआ था वह ब्रह्मा नामक राजा और चूडादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात धनुष ऊँचा था और सात सौ वर्षकी उसकी आयु थी । वह सब चक्रवर्तियोंमें अन्तिम चक्रवर्ती था—उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ ॥ २८७-२८८ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें नेमिनाथ तीर्थकर, पद्म नामक बलभद्र, कृष्ण नामक अर्धचक्रवर्ती, जरासन्ध प्रतिनारायण और ब्रह्मदत्त नामक सकल चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करने वाला बहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—+ + + +—

## त्रिसप्ततितमं पत्र

१ स पातु पार्श्वनाथोऽस्मान् यन्महिम्नैव भूधरः । न्यपेधि केवलं भक्तिभांगिनीछत्रधारणम् ॥ १ ॥  
 धर्मश्वेतातपत्रं ते सूते विश्वविसर्पिणीम् । छायां पापातपहुष्टान्तथापि किल केचन ॥ २ ॥  
 सर्वभाषां भवद्भाषां सत्यां सर्वोपकारिणीम् । सन्तः शृण्वन्ति सन्तुष्टाः खलास्तान् न जातुचिन् ॥ ३ ॥  
 अनभिव्यक्तमाहात्म्या देव<sup>१</sup> तीर्थकराः परे । त्वमेव व्यक्तमाहात्म्यो वाच्या ते साधु तत्कथा ॥ ४ ॥  
 कुमार्गचारिणी यस्माद्यस्मान्सन्मार्गधारिणी । तत्रे धर्म्या कथां वक्ष्ये भव्यानां मोक्षगामिनाम् ॥ ५ ॥  
 जम्बूविशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान् । सुरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्णं पोदनं पुरम् ॥ ६ ॥  
 रक्षितास्यारविन्द्राख्यो विख्यातो विक्रमादिभिः । पित्रियुत्सं समाश्रित्य प्रजापतिमिव प्रजाः ॥ ७ ॥  
 तत्रैव विश्वभूत्याख्यो<sup>२</sup> ब्राह्मणः श्रुतिशास्त्रवित् । ब्राह्मण्यनुन्धरी तस्य प्रीत्यै श्रुतिरिवापरा ॥ ८ ॥  
 अभूतामेतयोः पुत्रौ विषामृतकृतोपमौ । कमठो मरुभूतिश्च पापधर्माविवापरौ ॥ ९ ॥  
 वरुणा ज्यायसो भार्या द्वितीयास्य वसुन्धरी । मन्त्रिणौ तौ महोपस्य कर्नायाक्रीतिविशयोः ॥ १० ॥

अथानन्तर-धरणेन्द्र और भक्तिवश पद्मावतीके द्वारा किया हुआ छत्रधारण-इन दोनों का निषेध जिनकी केवल महिमासे ही हुआ था वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। भावार्थ-तपश्चरणके समय भगवान् पार्श्वनाथके ऊपर कमठके जीवने जो उपसर्ग किया था उसका निवारण धरणेन्द्र और पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके बीच उन्हें केवलज्ञान हो गया उसके प्रभावसे उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा बढ़ गई। केवलज्ञानके समय होनेवाले माहात्म्यसे धरणेन्द्र और पद्मावतीका कार्य अपने आप समाप्त हो गया था ॥ १ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका धर्मरूपी श्वेत छत्र समस्त संसारमें फैलनेवाली छायाको उपन्न करना है तो भी आश्चर्य है कि कितने ही लोग पाप रूपी घामसे संतप्त रहते हैं ॥ २ ॥ सर्व भाषा रूप परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सबका उपकार करनेवाली आपकी दिव्यध्वनिको संतुष्ट हुए सज्जन लोग ही सुनते हैं—दुर्जन लोग उसे कभी नहीं सुनते ॥ ३ ॥ हे देव ! अन्य तीर्थकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ॥ ४ ॥ आचार्य कहते हैं कि हे प्रभो ! चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्गका निवारण और सन्मार्गका प्रसारण करनेवाली है अतः मोक्षगामी भव्य जीवोंके लिए उसे अवश्य कहूंगा ॥ ५ ॥

इसी जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है और उसमें बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है ॥ ६ ॥ उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरविन्द नामका राजा राज्य करता था उसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापति भगवान् आदिनाथको पाकर संतुष्ट थी। उसी नगरमें वेद-शास्त्रको जाननेवाला एक विश्वभूति नामका ब्राह्मण रहता था उसे प्रसन्न करनेवाली दूसरी श्रुतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी ब्राह्मणी थी ॥७-८॥ उन दोनोंके कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विष और अमृतसे बनाये हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप और धर्मके समान जान पड़ते थे ॥ ९ ॥ कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम वसुन्धरी था। ये दोनों राजाके मन्त्री थे और इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार

१ ख० पुस्तके निम्नाङ्कितौ श्लोकावधिकौ—‘एकपञ्चुत्तमनराः सारारयां भरतावनौ । अपरा गुण-गम्भीरा यन्तु भव्यवृणां भियः ॥१॥ आदीश्वराद्या अर्हन्तो भरताद्याश्च चक्रिणः । विष्णुप्रतिविष्णुबलाः पान्तु भव्यात् भवावर्णात् ॥ २ ॥ पार्श्वकेऽन्योऽप्ययं श्लोको निबद्धः ‘एकषष्टिमहानां पुराणं पूर्णतामगात् । द्वाषष्टेः पार्श्वनाथस्य वदाम्बस्मिन् पुराणकम् ॥ २ देवास्तीर्थकराः ख० । ३-भूताख्यो ख०, ग० ।

वसुन्धरीनिमिषेन सदाचारं ज्ञानं मतम् । मरुभूतिं दुराचारो जघान कमठोऽधमः ॥ ११ ॥  
 मलये कुञ्जकाख्याने विपुले सल्लकीवने । मरुभूतिरभून्मृत्वा वज्रघोषो द्विपाधिपः ॥ १२ ॥  
 वरुणा च मृता तस्य करेणुरभवत्प्रिया । तयोस्तस्मिन्वने प्रीत्या काले गच्छत्यतुच्छके ॥ १३ ॥  
 अरविन्दमहाराजस्त्यक्त्वा राज्यं विरज्य सः । सम्प्राप्य संयमं सार्धेनामा सम्मेदमीडितुम् ॥ १४ ॥  
 ब्रजन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगमागमत् । नोल्लङ्घते नियोगं स्वं मनागपि मनस्विनः ॥ १५ ॥  
 विलोक्य तं महानागच्छि<sup>१</sup> प्रस्तुतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १६ ॥  
 वीक्ष्य वक्षःस्थले साक्षान्मंक्षु श्रीवत्सलाल्छनम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षीकृत्य<sup>२</sup> श्वेतसा ॥ १७ ॥  
 तस्मिन्प्राक्तनसौहार्दात्प्रतोषी जोषमास्त सः । तिर्यञ्चोऽपि सुहृद्भावं पालयन्त्येव बन्धुषु ॥ १८ ॥  
 धर्मतत्त्वं मुनेः सम्यग्ज्ञात्वा तस्मात्सहेतुकम् । स प्रोषधोपवासादि श्रावकव्रतमग्रहीत् ॥ १९ ॥  
 तदा प्रभृति नागेन्द्रो भग्नशाखाः परैर्द्विपैः । खादंस्तृणानि शुष्काणि पत्राणि च भयादघात् ॥ २० ॥  
 उपलास्फालनाक्षेपद्विपसङ्घातघटितम् । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महाबलः ॥ २१ ॥  
 चिरमेवं तपः कुर्वन् क्षीणदेहपराक्रमः । कदाचित्पातुमायातो वेगवत्या हृद्देऽपतत् ॥ २२ ॥  
 पङ्के पुनः समुत्थातुं विहितेहोऽप्यशक्नुवन् । कमठेन कुवृत्तेन कुक्कुटाहित्वमीयुषा<sup>३</sup> ॥ २३ ॥  
 पूर्ववैरानुबन्धेन<sup>४</sup> दष्टो निर्नष्टजीवितः । अभूत्कल्पे सहस्रारे षोडशाब्ध्युपमायुषा ॥ २४ ॥  
 तत्र भोगान्यथायोग्यं मुक्त्वा प्रान्ते ततश्च्युतः । द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती ॥ २५ ॥

था ॥ १० ॥ नीच तथा दुराचारी कमठने वसुन्धरीके निमित्तासे सदाचारी एवं सज्जनोके प्रिय मरु-  
 भूतिको मार डाला ॥ ११ ॥ मरुभूति मर कर मलय देशके कुञ्जक नामक सल्लकीके बड़े भारी वनमें  
 वज्रघोष नामका हाथी हुआ । वरुणा मरकर उसी वनमें हथिनी हुई और वज्रघोषके साथ क्रीडा  
 करने लगी । इस प्रकार दोनोंका बहुत भारी समय प्रीतिपूर्वक व्यतीत हो गया ॥ १२-१३ ॥ किसी  
 एक समय राजा अरविन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारणकर सब संघके साथ  
 वन्दना करनेके लिए सम्मेद शिखरकी ओर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी वनमें पहुँचे और  
 सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हो गये सो ठीक ही है क्योंकि  
 तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लङ्घन नहीं करते हैं ॥ १४-१५ ॥ उन्हें देखकर, जिसके  
 दोनों कपोल तथा ललाटसे मद भर रहा है ऐसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमायोगके धारक  
 अरविन्द मुनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ १६ ॥ परन्तु उनके वक्षःस्थल पर जो वत्सका  
 चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पूर्वभवका सम्बन्ध साक्षात् दिखाई देने लगा ॥ १७ ॥  
 मुनिराजमें पूर्वजन्मका स्नेह होनेके कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो गया सो ठीक ही है  
 क्योंकि तिर्यञ्च भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीभावका पालन करते हैं ॥ १८ ॥ उस हाथीने उन मुनिराजसे  
 हेतु पूर्वक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपवास आदि श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ १९ ॥  
 उस समयसे वह हाथी पापसे डरकर दूसरे हाथियोंके द्वारा तोड़ी हुई वृक्षकी शाखाओं और सूखे  
 पत्तोंको खाने लगा ॥ २० ॥ पथरोंपर गिरनेसे अथवा हाथियोंके समूहके संघटनसे जो पानी  
 प्राप्त हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोषधोपवासके बाद पारणा करता था । इस प्रकार  
 चिरकाल तक तपश्चरण करता हुआ वह महाबलवान् हाथी अत्यन्त दुर्बल हो गया । किसी एक  
 दिन वह पानी पीनेके लिए वेगवती नदीके दहमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया । यद्यपि  
 कीचड़से निकलनेके लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थ नहीं हो सका । वहाँपर  
 दुराचारी कमठका जीव मर कर कुक्कुट साँप हुआ था उसने पूर्व पर्यायके वैरके कारण उस  
 हाथीको काट खाया जिससे वह मरकर सहस्रार स्वर्गमें सोलह सागरकी आयु वाला देव  
 हुआ ॥ २१-२४ ॥ यथायोग्य रीतिसे वहाँके भोग भोग कर वह आयुके अन्तमें वहाँ  
 से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें जो पुष्कलावती देश है उसके

तस्त्वेचराचले राजा त्रिलोकोत्तमनामनि । पुरे विद्युद्गतिविद्याधरेशस्तस्य बल्लभा ॥ २६ ॥  
 विद्यन्माला तयोः सूनू रश्मिवेगाख्यया<sup>१</sup> जनि । सम्पूर्णयौवनो धोमान्प्रत्यासन्नभवावधिः ॥ २७ ॥  
 समाधिगुप्तमासाद्य मुनिं सम्प्राप्य संयमम् । गृहीतसर्वतोभद्रभृद्युप्रोपवासकः ॥ २८ ॥  
<sup>१</sup>परेद्युर्हिमगिर्यद्रिगुहायां योगमादधन् । प्राप्तधूमप्रभादुःखकुक्कुटोरगपापिना ॥ २९ ॥  
 ततदच्युतेन भूत्वाजगरेणालोक्य कोपिना । निगीर्णोऽच्युतकल्पस्थे विमाने पुष्करेऽभवन् ॥ ३० ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपेऽपरे विदेहेऽस्मिन् विषये पद्मसञ्ज्ञके ॥ ३१ ॥  
 महीशोऽश्वपुराधीशो वज्रवीर्यम्य भूपतेः । विजयायाश्च तद्देव्या वज्रनाभिः सुनोऽभवन् ॥ ३२ ॥  
 स चक्रलक्षितां लक्ष्मीमक्षुणां पुण्यरक्षितः । भुक्त्वाप्यतृप्तुवन्भोक्तुं मोक्षलक्ष्मीं समुद्यतः ॥ ३३ ॥  
 क्षेमङ्कराख्यभट्टारकस्य वक्त्राब्जनिर्गतम् । धर्माभ्युत्तरमं पीत्वा त्यक्ताशेषरसस्पृहः ॥ ३४ ॥  
 सुतं स्वराज्ये सुस्थाप्य राजभिर्बहुभिः समम् । संयमं समगात्सम्यक्सर्वसत्त्वानुकम्पनम्<sup>२</sup> ॥ ३५ ॥  
 प्राक्तनोऽजगरः पद्मनरके तनुमाश्रितः । द्वाविंशत्यब्धिसङ्ख्यानजीवितेनातिदुःखितः ॥ ३६ ॥  
 चिरात्तास्माद्विनिर्गत्य कुरङ्गाख्यां वनेचरः । कम्पयन्वनसम्भूतान् सम्भूतः सर्वदेहिनः ॥ ३७ ॥  
 विवर्जितार्तध्यानस्य विद्यतातपनस्थितेः । तस्य त्यक्तशरीरस्य शरीरबलशालिनः ॥ ३८ ॥  
 तपोधनस्य चक्रेशो<sup>३</sup> धोरं कातरदुस्सहम् । उपसर्गं स्फुरद्वैरः स पापी बहुधा व्यधात् ॥ ३९ ॥  
 धर्मध्यानं प्रविश्यासौ समाराध्य सुरोत्तमः । समुत्पन्नः सुभद्राख्ये सहङ्गमध्यममध्यमे ॥ ४० ॥

विजयार्थं पर्वत पर विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगरमें वहाँके राजा विद्युद्गति और रानी विद्यन्माला के रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ। जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गई है ऐसे उस बुद्धिमान् रश्मिवेगने सम्पूर्ण यौवन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर ली तथा सर्वतोभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किये ॥ २५-२८ ॥ किसी एक दिन वह हिमगिरि पर्वतकी गुहामें योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सर्पने वज्रघोष हाथी को काटा था वही पापी धूमप्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला और वहाँ पर अजगर हुआ था। उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे उनका जीव अच्युत स्वर्गके पुष्कर विमानमें वाईस सागरकी आयुवाला देव हुआ। वहाँकी आयु समाप्त होने पर वह पुण्यात्मा, जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पद्मनाभक देश सम्बन्धी अश्वपुर नगरमें वहाँके राजा वज्रवीर्य और रानी विजयाके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ ॥ २९-३२ ॥ पुण्यके द्वारा रक्षित हुआ वज्रनाभि, चक्रवर्तीकी अखण्ड लक्ष्मीका उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्षलक्ष्मीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ ॥ ३३ ॥ उसने क्षेमकर भट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए धर्मरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्य पर पुत्रको स्थापित कर अनेक राजाओंके साथ समस्त जीवोंपर अनुकम्पा करनेवाला संयम अच्छी तरह धारण कर लिया ॥ ३४-३५ ॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था मरकर छठवें नरकमें उत्पन्न हुआ और वहाँ वाईस सागर तक अत्यन्त दुःख भोगता रहा ॥ ३६ ॥ चिरकाल बाद वहाँ से निकल कर कुरङ्ग नामका भील हुआ। यह भील उस वनमें उत्पन्न हुए समस्त जीवोंको कम्पित करता रहता था ॥ ३७ ॥ किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरसे स्नेह छोड़ने वाले तपस्वी चक्रवर्ती वज्रनाभि आर्तध्यान छोड़कर उस वनमें आतापन योगसे विराजमान थे। उन्हें देखने ही जिसका वैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराज पर कायर जनोंके द्वारा असहनीय अनेक प्रकारका भयंकर उपसर्ग किया ॥ ३८-३९ ॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें प्रवेशकर तथा अच्छी तर आराधनाओंकी आराधना कर सुभद्र नामक मध्यमप्रवैयकके मध्यम

१-रश्मिवेगाख्योऽजनि ल०, (छन्दोभङ्गः)।-रश्मिवेगाख्ययाजनि म०, ल०। २ हरिगिर्यद्रि ल०। ३ कम्पकम् ल०। ४ चक्रेशौ ल०।

सप्तविंशतिवारशिमेयायुर्दिव्यभोगभाक् । ततश्च्युतोऽस्मिन् द्वीपेऽसौ जम्बूद्वीपे भूपिते ॥ ४१ ॥  
 कौशले विषयेऽग्रोऽध्यानगरे काश्यपान्वये । इक्ष्वाकुवंशजातस्य वज्रबाहुमहीभृतः ॥ ४२ ॥  
 सुतो देव्यां प्रभङ्कर्यामानन्दाख्योऽजनि प्रियः । स सम्प्राप्तमहामण्डलिकस्थानो महोदयः ॥ ४३ ॥  
 स्वम्य स्वामिहिताख्यस्य महतो मन्त्रिणोऽन्यदा । वाचा वसन्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाष्टके ॥ ४४ ॥  
 पूजा निर्वर्तयन्द्रुदुकामं तत्र समागतम् । विपुलादिमतिं दृष्ट्वा गणेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ४५ ॥  
 अभिवन्द्य समाकर्ण्य सद्धर्मं सर्वशर्मदम् । भगवन् किञ्चिदिच्छामि श्रोतुं मे संशयात्पदम् ॥ ४६ ॥  
 अचेतने कथं पूजा निग्रहानुग्रहच्युते । जिनबिम्बे कृता भक्तिमतां पुण्यं फलन्यसौ ॥ ४७ ॥  
 इत्यष्टच्छदसौ चाह सहैत्विति वचस्तदा । शृणु राजन् जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादि<sup>५</sup> च ॥ ४८ ॥  
 भवत्यचेतनं किन्तु भव्यानां पुण्यबन्धने । परिणामसमुत्पत्तिहेतुत्वात्कारणं भवेत् ॥ ४९ ॥  
 रागादिदोषहीनत्वादायुधाभरणादिकात् । विमुखस्य प्रसन्नेन्दुकान्तिहासिमुखश्रियः ॥ ५० ॥  
 अर्चिताक्षसूत्रस्य लोकालोकावलोकितः । कृतार्थत्वात्परित्यक्तजटादेः<sup>६</sup> परमात्मनः ॥ ५१ ॥  
 जिनेन्द्रस्यालयास्तस्य प्रतिमाश्च प्रपश्यताम् । भवेच्छुभाभिसन्धानप्रकर्षो नान्यतस्तथा ॥ ५२ ॥  
 कारणद्वयसाक्षिभ्यात्सर्वकार्यसमुद्भवः । तस्मात्तत्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम् ॥ ५३ ॥  
 तत्कथावसरे लोकत्रयचैत्यालयाकृतीः । सम्यग्वर्णयितुं वाञ्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥  
 जिनेन्द्रभवने भूतां विभूतिं सोऽन्ववर्णयत् । तामसाधारणीं श्रुत्वानन्दः श्रद्धां परां वहन् ॥ ५५ ॥  
 दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुङ्कुमलः । स्तुवन्नान्नमुकुटो जिनेशान् मण्डले रवेः ॥ ५६ ॥

विमानमें सम्यग्दर्शन का धारक श्रेष्ठ अहमिन्द्र हुआ ॥४०॥ वहाँ वह सत्ताईस सागरकी आयु तक दिव्य भोग भोगता रहा । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके कौशल देश देश सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काश्यप गोत्री इक्ष्वाकुवंशी राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकरीके आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ । बड़ा होनेपर वह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ ॥ ४१-४३ ॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे वसन्तऋतुकी अष्टाहिकाओंमें पूजा कराई । उसे देखनेके लिए वहाँ पर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे । आनन्दने उनकी बड़ी विनयसे वन्दना की तथा उनसे सब जीवोंको सुख देनेवाला समीचीन धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर कहा कि हे भगवन् ! मुझे कुछ संशय हो रहा है उसे आपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ४४-४६ ॥ उसने पूछा कि जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा तो अचेतन है उसमें भला बुरा करनेकी शक्ति नहीं है फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनोंको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है ॥ ४७ ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार वचन कहे कि हे राजन् ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा और जिनेन्द्र मन्दिर अचेतन हैं तथापि अन्य जीवोंके पुण्य-बन्धके ही कारण हैं । यथार्थमें पुण्य बन्ध परिणामोंसे होता है और उन परिणामोंकी उत्पत्तिमें जिनेन्द्रकी प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पड़ते हैं । जिनेन्द्र भगवान् रागादि दोषोंसे रहित हैं, शास्त्र तथा आभूषण आदिसे विमुख हैं, उसके मुखकी शोभा प्रसन्न चन्द्रमाके समान निर्मल है, लोक अलोकके जाननेवाले हैं, कृतकृत्य हैं, जटा आदिसे रहित हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका दर्शन करनेवाले लोगोंके शुभ परिणामोंमें जैसी प्रकर्षता होती है वैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि समस्त कार्योंकी उत्पत्ति अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा पुण्यबन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है ॥ ४८-५३ ॥ इसी उपदेशके समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके आकार आदिका वर्णन करना चाहा और सबसे पहले उन्होंने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी विभूतिका अच्छी तरह वर्णन किया भी । उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको बहुत ही श्रद्धा हुई । वह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर तथा

१ वचसा, इत्यपि क्वचित् । २ राजा, इत्यपि क्वचित् । ३ फाल्गुन इत्यपि क्वचित् । ४ वा ल० । ५ विमुखस्य ल० । ६ जपादेः ल० ।

शिल्पिभिः कारयित्वा क्वविमानं मणिकाञ्चनैः । क्रोडीकृतजिनाधीशभवनं विततद्युति ॥ ५७ ॥  
 शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या पूजामाष्टाह्निकीं व्यधात् । चतुर्मुखं रथावर्तं सर्वतोभद्रमूर्जितम् ॥ ५८ ॥  
 कल्पवृक्षञ्च दीनेभ्यो ददद्दानमवारितम् । तद्विलोक्य जनाः सर्वे तत्प्रामाण्यास्त्वयञ्च तत् ॥ ५९ ॥  
 म्नोतुमारंभरे भक्त्या मण्डलं चण्डरोचिषः । तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन् बभूवार्कोपसेवनम् ॥ ६० ॥  
 अथान्यदा किलानन्दं मर्हीट् शिरसि बुद्धवान् । पलितं दलयधौवनाथिनां हृदयं द्विधा ॥ ६१ ॥  
 तन्निमित्तसमुद्भूतनिर्वेगो ज्येष्ठमूनवे । साभिषेकं निजं राज्यं दत्त्वा दत्तास्पृहं तपः ॥ ६२ ॥  
 यतेः समुद्रगुप्तस्य समीपे बहुभिः समम् । राजर्षी राजसं भावं परिन्यज्य सुलेदयथा ॥ ६३ ॥  
 साराधनाचतुष्कः सन्विशुद्धयैकादशाङ्गुलम् । प्रत्ययांस्तीर्थकृन्नान्नो भावयामास षोडश ॥ ६४ ॥  
 यथोक्तं भावयित्वैतान्नाम बद्ध्वान्तिमं शुभम् । चिरं घोरं तपः कृत्वा प्रान्ते शान्तान्तरात्मकः ॥ ६५ ॥  
 प्रायोपगमनं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने धर्मध्यानार्थिनो निराकुलः ॥ ६६ ॥  
 कमठः प्राक्तनः पापी प्रच्युतो नरकक्षितेः । कण्ठीरवत्वमासाद्य तन्मुनेः कण्ठमग्रहीत् ॥ ६७ ॥  
 सोढसिंहोपसर्गोऽसौ चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशो विमाने प्राणतेऽभवत् ॥ ६८ ॥  
 तत्र विंशतिवाराशिविहितोपमजीवितः । साधारणनित्रयोन्मेषशरीरः शुक्लेशयथा ॥ ६९ ॥  
 दशमासान्तनिश्वासी मनसाऽमृतमाहरन् । खचतुष्कद्विवर्षान्ते मनसा स्त्रीप्रचारवान् ॥ ७० ॥  
 आपञ्चमक्षितिर्व्यासन्तीयावगमेक्षणः । स्वावधिक्षेत्रमानाभाविक्रियाबलसङ्गतः ॥ ७१ ॥  
 सामानिकादिसर्वद्विषुधाशनसमचित्तः । कान्तकामप्रदानेकदेवीकृतसुधाकरः ॥ ७२ ॥

मुकुट भुकाकर सूर्यके विमानमें स्थित जिन प्रतिमाओंकी स्तुति करने लगा। यही नहीं, उसने कारी-  
 गरोंके द्वारा मणि और सुवर्णका एक सूर्य-विमान भी बनवाया और उसके भीतर फैलती हुई कान्तिका  
 धारक जिन-मन्दिर बनवाया। तदनन्तर उसने शास्त्रोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक आष्टाह्निक पूजा की।  
 चतुर्मुख, रथावर्त, सबसे बड़ी सर्वतोभद्र और दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली कल्पवृक्ष-  
 पूजा की। इस प्रकार उस राजाको सूर्यकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी  
 स्वयं भक्तिपूर्वक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस लोकमें उसी समयसे  
 • • की उपासना चल पड़ी है ॥ ५४-६० ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा आनन्दने यौवन चाहनेवाले लोगोंके हृदयको दो टूक  
 करनेवाला सफेद बाल अपने शिर पर देखा। इस निमित्तसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त  
 होते ही उसने बड़े पुत्रके लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराजके  
 समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओंके साथ निःस्पृह (निःस्वार्थ) तप धारण कर लिया।  
 शुभ लेश्याके द्वारा उसने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अङ्गोंका  
 अध्ययन किया, तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन किया,  
 शास्त्रानुसार सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया  
 और चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया। आयुके अन्तमें, जिसकी अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हो  
 गई है, जो धीर वीर है, धर्मध्यानेके अधीन है और आङ्गुलतारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि  
 प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हुआ ॥ ६१-६६ ॥ पूर्व जन्मके  
 पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी वनमें सिंह हुआ था सो उसने आकर उन मुनिका कण्ठ  
 पकड़ लिया ॥ ६७ ॥ इस प्रकार सिंहका उपसर्ग सहकर चार आराधना रूपी धनको धारण करने-  
 वाला वह मुनि प्राणरहित हो अच्युत स्वर्गके प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ ॥ ६८ ॥ वहाँपर उसकी  
 बीस सागरकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वह दश माह बाद र्वास  
 होता था, और बीस हजार वर्ष बाद मानसिक अमृताहार ग्रहण करता था। उसके मानसिक स्त्रीप्रवीचर था,  
 पांचवीं पृथिवी तक अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दूरी तक ही उसकी कान्ति, विक्रिया और बल था,  
 सब ऋद्धियोंके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान  
 करने वाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था। इस प्रकार समस्त विषय-भोग

विश्वान्वैपयिकान्भोगान् शश्वत्सम्प्राप्य निर्विशन् । तल्लोलो लीलया कालमला<sup>१</sup>वीकलयन्कलाम् ॥७३॥  
 पम्मासैरन्वित्रैस्तस्मिन्नागमिष्यत्यमूं महीम् । द्वीपेऽस्मिन् भरते काशीविषये नगरेऽधिपः ॥ ७४ ॥  
 वाराणस्यामभूद्विश्वसेनः काश्यपगोत्रजः । <sup>२</sup>ब्राह्मणस्य देवी सम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ ७५ ॥  
 वैशाखकृष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशात्यये । विद्यालक्ष्णे शुभस्वमाञ्जिरीक्ष्य तदनन्तरम् ॥ ७६ ॥  
 स्ववक्त्राब्जप्रविष्टोरुगजरूपविलोकिनी<sup>३</sup> । प्रभातपटहध्वानसमुन्मीलितलोचना ॥ ७७ ॥  
 मङ्गलाभिपवाविष्टतुष्टिः<sup>४</sup> पुण्यप्रसाधना । विभावरीव सज्ज्योत्स्ना <sup>५</sup>राजानं समुपेत्य सा ॥ ७८ ॥  
 कृतोपचारा संविश्य विष्टरार्धे<sup>६</sup> महीपतेः । स्वदृष्टसकलस्वप्नान्यथाक्रममभाषत ॥ ७९ ॥  
 श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रवीक्षणान्पुत्रो वृषभालोकनात्पतिः ॥ ८० ॥  
 त्रिविष्टपस्य सिंहेन दृष्टेनानन्तवीर्यकः । मन्दराभिषवप्राप्तिः पद्माभिषवदर्शनान् ॥ ८१ ॥  
 दामद्वयावलोकेन धर्मद्वितयतीर्थकृत् । शशाङ्कमण्डलालोकात् त्रैलोक्यकुमुदप्रियः ॥ ८२ ॥  
 तेजस्वी भास्वतां मत्स्ययुगलेन सुखाविलः । निधीनामधिपः कुम्भवीक्षणात्सर्वलक्षणः ॥ ८३ ॥  
 सरसः सागरात्सर्वज्ञाता सिंहासनेक्षणान् । <sup>७</sup>सर्वलोकैकसम्मान्यः स्वर्गादध्यावतीर्णवान् ॥ ८४ ॥  
 अवताराद्दिमानरथ भवनात्पवनाशिनः । त्रिबोधदीधिति रत्नराशिनालिङ्गितो<sup>८</sup> गुर्णः ॥ ८५ ॥  
 विधूमधूमकेतूपलक्षणाद्दाहकांऽहसाम् । वक्त्राम्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेशात्ते कृशोदरि ॥ ८६ ॥  
 अवस्थितिं स सम्प्रापदुदरंऽमरपूजितः । इति श्रुत्वाऽतुषद्वार्षीं पत्युरेणीविलोचना ॥ ८७ ॥

प्राप्तकर वह निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था और उन्हींमें सत्पुत्र रहकर लीला पूर्वक बहुत लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥ ६९-७३ ॥ जिस समय उसकी आयुके अन्तिम छह माह रह गये और वह इस पृथिवी पर आनेके लिए सन्मुख हुआ उस समय इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था । उसमें काश्यपगोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था । देवोंने रत्नोंकी धारा बरसाकर उसकी पूजा की थी । रानी ब्राह्मीने वैशाखकृष्ण द्वितीयाके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःकालके समय बजनेवाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख खुल गई और मङ्गलाभिषेकसे संतुष्ट होकर तथा वस्त्राभरण पहिन कर वह राजाके समीप इस प्रकार पहुँची मानो चाँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ॥७४-७८॥ आदरपूर्वक वह महाराजके आधे सिंहासन पर बैठी और अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रमसे कहने लगी ॥ ७९ ॥ महाराज विश्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे । वे बोले कि हाथीके स्वप्नसे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे वह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, सिंहके देखनेसे अनन्त वीर्यका धारक होगा, लक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्वतपर अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंको देखनेसे वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म-रूप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके देखनेसे तेजस्वी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा, सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंसे युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वज्ञ होगा, सिंहासनके देखनेसे समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतार लेनेवाला होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंसे आलिङ्गित होगा, निर्धूम अग्निके देखनेसे पार्ष्णीको जलानेवाला होगा और हे कृशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश देखनेसे सूचित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित होनेवाला वह पुत्र आज तेरे उदरमें आकर विराजमान हुआ है । इस प्रकार वह मृगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई ॥ ८०-८७ ॥

१ अञ्जैसीत् म०, टि० । कालमालामैकलयन् ल० ( ? ) । २ ब्रह्मास्य ल० । ३ विलोकनी ल० ।

४ पुष्टिः घ०, ग० । ५ 'राजानं नृपं चन्द्रं वा । 'पञ्चा प्रभौ नृपे चन्द्रे यत्ने क्षत्रियशक्रयोः' इति कोशः' ।

६ विष्टरार्धे ल० । ७ स्वर्गं ल० । ८ लिङ्गतो ल० ।

तदाखिलामराश्रीशाः समागत्य व्यधुमुदा । स्वगावतरणे पित्रोः कल्याणाभिषेकवत्सवम् ॥ ८८ ॥  
 स्वर्गलोकञ्च तद्देहमतिशेते स्म सम्पदा । किं करोति न कल्याणं कृतपुण्यसमागमः ॥ ८९ ॥  
 नवमे मासि सम्पूर्णं पौषे मास्यसितं सुतः । पक्षे योगेऽनिले प्रादुरासीदिकादशीतिथौ ॥ ९० ॥  
 तदा निजासनाकम्पाद् ज्ञात्वा तीर्थकरोदयम् । सौधर्मप्रमुखाः सर्वे मन्दराचलमस्तके ॥ ९१ ॥  
 जन्माभिषेककल्याणपूजानिर्वृत्यनन्तरम् । पार्श्वभिधानं कृत्वास्य पितृभ्यां तं समर्पयन् ॥ ९२ ॥  
 नेत्र्यन्तरे खपञ्चस्वराग्न्यष्टमिनवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ॥ ९३ ॥  
 पार्श्वनाथः समुत्पन्नः शतसंवत्सरायुषा । बालशालितनुच्छायः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ ९४ ॥  
 नवारत्नितनूत्सेधो लक्ष्मीवानुप्रवंशजः । षोडशाब्दावसानेऽयं कदाचिन्नवयौवनः ॥ ९५ ॥  
 क्रीडार्थं स्वबलेनामा निर्यायाद्याद्रहिः पुरम् । आश्रमादिवने मानुर्महीपालपुराधिपम् ॥ ९६ ॥  
 पितरं तं महीपालनामानममराचिताः । महादेवीविश्रोगेन दुःखारापसदीक्षितम् ॥ ९७ ॥  
 तपः कुर्वन्तमालोक्य पञ्चपावकमध्यगम् । तत्समीपे कुमारोऽस्थादनत्वेनमनादरः<sup>१</sup> ॥ ९८ ॥  
 अविचार्य तदाविष्टः कोपेन कुमुनिर्गुरुः । कुलीनोऽहं तपोवृद्धः पिता मानुर्मस्त्रिक्याम् ॥ ९९ ॥  
 अकृत्वा मे कुमारोऽज्ञः स्थितवान्मदविह्वलः । इति प्रक्षोभमागत्य प्रशान्ते पावके पुनः ॥ १०० ॥  
 निक्षेप्तुं स्वयमेवोच्चैर्हृत्क्षिप्य परशुं घनम् । भिन्दन्निघनमज्ञोऽसौ मा भैस्तीरत्र विद्यते ॥ १०१ ॥  
 प्राणीति वार्यमाणोऽपि कुमारेणावधित्विषा । भन्वतिष्ठदयं कर्म तस्याभ्यन्तरवतिनौ ॥ १०२ ॥

उसी समय समस्त इन्द्रोंने आकर बड़े हर्षसे स्वर्गावतरणकी वेलामें भगवान्के माता-पिताका कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ॥ ८८ ॥ उस समय महाराज विश्वसेनका राजमन्दिर अपनी सम्पदाके द्वारा स्वर्गलोकका भी उल्लङ्घन कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंका समागम कौन-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थान् सभी कल्याण करता है ॥ ८९ ॥ नौ माह पूर्ण होनेपर पौषकृष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९० ॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे सौधर्म आदि सभी इन्द्रोंने तीर्थकर भगवान्के जन्मका समाचार जान लिया तथा सर्भोंने आकर सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उनके जन्मकल्याणककी पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रक्खा और फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥ ९१-९२ ॥ श्री नेमिनाथ भगवान्के वाद तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत जानेपर मृत्युको जीतनेवाले भगवान् पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु सौ वर्षकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त अन्नरालमे शामिल थी। उनके शरीरकी कान्ति धातके छोटे पौषेके समान हरे रङ्गकी थी, वे समस्त लक्षणोंसे मुशोभित थे, नौ हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीवान् थे और उग्र वंशमें उत्पन्न हुए थे, सोलह वर्ष बाद जब भगवान् नव यौवनसे युक्त हुए तब वे किसी समय क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके साथ नगरसे बाहर गये। वहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका पिता, महीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपस्वी होकर तप कर रहा था, वह पञ्चाग्नियोंके बीचमें बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था। देवोंके द्वारा पूजित भगवान् पार्श्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये बिना ही अनादरके साथ खड़े हो गये। यह देख, वह खोटा साधु, बिना कुछ विचार किये ही क्रोधसे युक्त हो गया। वह मनमें सोचने लगा कि 'मैं कुलीन हूँ—उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूँ—तपके द्वारा बड़ा हूँ, और इसकी माताका पिता हूँ फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विह्वल हुआ मुझे नमस्कार किये बिना ही खड़ा है' ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ और बुझती हुई अप्रिमें ढालनेके लिए वहाँ पर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान् पार्श्वनाथने 'इसे मत काटो, इसमें जीव है' यह कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट ही डाली। इस कर्मसे उस लकड़ीके भीतर रहनेवाले सर्प और सर्पिणीके दो दो टुकड़े हो गये। यह देखकर सुभौम कुमार



नागी नागश्च तच्छेदाद् द्विधा खण्डमुपागतौ । तन्निरिक्ष्य सुभौमाख्यकुमारः समभापत ॥ १०३ ॥  
 अहं गुरुस्तपस्वीति गर्वं दुर्वहमुद्रहन् । पापास्त्रयो भवत्यस्मान्न वेत्येतच्च वेस्सि न ॥ १०४ ॥  
 अज्ञानतपसानेन दुःखं तेऽत्र परत्र च । इति तद्वचनात्कोपी मुनिरित्थं तमब्रवीत् ॥ १०५ ॥  
 अहं प्रभुर्ममार्यं किं वा करोतीत्यवज्ञया । तपसां मम माहात्म्यमबुद्धवैवं ब्रवीषि किम् ॥ १०६ ॥  
 पञ्चाग्निमध्यवर्तित्वं पवनाहारजीवनम् । ऊर्ध्वबाहुतया पादनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥ १०७ ॥  
 स्वयंपतितपर्णादिरुपवासेन पारणम् । इत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुर्धरम् ॥ १०८ ॥  
 तपो नाधिकमस्त्यस्मादिति तद्वचनश्रुतेः । सुभौमः सस्मितोऽवादीन्न भवन्तमहं गुरुम् ॥ १०९ ॥  
 अवमन्ये पुनः किन्तु सन्त्यज्यास्नागमादिकम् । मिथ्यात्वादित्यनुष्केण पृथिव्यादिषु षट्स्वपि ॥ ११० ॥  
 वाचा कायेन मनसा कृतकादिक्रिकेण च । वधे प्रवर्तमानानामनासमतसंश्रयात् ॥ १११ ॥  
 निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्डुलावासिवाञ्छया । तुषखण्डनखेदो वा घृतेच्छा वाम्बुमन्थनात् ॥ ११२ ॥  
 हेमोपलब्धिबुद्धिर्वा दाहादन्धादमसंहतेः । अन्धस्येवामिसम्पातो दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३ ॥  
 ज्ञानहीनपरिक्षेपो भाविदुःखस्य कारणम् । इति प्ररूप्यते युष्मत्क्षेहेन महता मया १ ॥ ११४ ॥  
 इत्येतदुक्तं ज्ञात्वापि पूर्ववैरानुबन्धनात् । निजपक्षानुरागित्वाद् दुःसंसारादिहागतेः ॥ ११५ ॥  
 प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वादनादाय विरुद्धधीः । सुभौमको भवानत्र सस्मयोऽयं कुमारकः ॥ ११६ ॥  
 पराभवति मामेवमिति तस्मिन् प्रकोपवान् । सशल्यो ऋतिमासाद्य शम्बरो ज्योतिषामरः ॥ ११७ ॥  
 नान्नाभवत्सकोपानां तपसाऽपीदृशी गतिः । नागी नागश्च सप्रशन्नमभावौ कुमारतः ॥ ११८ ॥

कहने लगा कि तू 'मैं गुरु हूँ, तपस्वी हूँ' यह समझकर यद्यपि भारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुतपसे पापास्त्रव होता है या नहीं । इस अज्ञान तपसे तुझे इस लोकमें दुःख हो रहा है और परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा । सुभौमकुमारके यह वचन सुनकर वह तपस्वी और भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा ॥ ६३-१०५ ॥ कि 'मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है' इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे तपका माहात्म्य बिना जाने ही तू ऐसा क्यों बक रहा है ? पञ्चाग्निके मध्यमें बैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैरसे खड़े रहना, और उपवास कर अपने आप गिरे हुए पत्ते आदिसे पारण करना । इस प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपस्वियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण ही नहीं सकता । उस तपस्वीके ऐसे वचन सुन सुभौमकुमार हँसकर कहने लगा कि मैं न तो आपकी गुरु मानता हूँ और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप तथा आगम आदिको छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोधादि चार कषायोंके वशीभूत हो पृथिवीकायिक आदि छह कायके जीवोंकी हिंसामें मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करते हैं और इस तरह अनाप्तके कहे हुए मतका आश्रय लेकर निर्वाणकी प्रार्थना करते हैं—मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं सो उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिलके कूटनेके प्रयासके समान है, अथवा जल मथकर घी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपाषाणके समूहको जलाकर सुवर्ण करनेकी इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य दावानलके डरसे भागकर अग्निमें जा पड़े उसके समान है । ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्लेश भावी दुःखका कारण है । यह बात मैं, आप पर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हूँ ॥ १०६-११४ ॥ इस प्रकार सुभौमकुमारके कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तपसने समझ तो लिये परन्तु पूर्व वैरका संस्कार होनेसे, अथवा अपने पक्षका अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभौम-कुमार अहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान् पार्वनाथ पर अधिक क्रोध करने लगा । इसी शल्यसे वह मरकर शम्बर नामका ज्योतिषी देव हुआ सो ठीक ही है क्योंकि क्रोधी मनुष्योंकी तपसे ऐसी ही गति होती है । इधर सर्प और सर्पिणी कुमारके

यभूवतुरर्हान्द्रश्च तत्पत्नी च पृथुश्रियौ । ततस्त्रिशत्समामानकुमारसमये<sup>१</sup> गते ॥ ११९ ॥  
 साकेतनगराधीशो<sup>२</sup> जयसेनो महीपतिः । भगर्लीदेशसञ्जातहयादिप्राभृतान्वितम् ॥ १२० ॥  
 अन्यदासौ निम्नप्यार्थं प्राहिणोत्पार्श्वसन्निधिम् । गृहान्वापायनं पूजयित्वा दूतोत्तमं मुदा ॥ १२१ ॥  
 साकेतस्य विभूतिं तं कुमारः परिपृष्टवान् । सोऽपि भट्टारकं पूर्वं वर्णयित्वा<sup>३</sup> पुरं पुरम् ॥ १२२ ॥  
 पश्चाद्द्वयावर्णयामास<sup>४</sup> प्राज्ञा हि क्रमवेदिनः । श्रुत्वा तत्र किञ्जातस्तीर्थकृन्नामबन्धनान् ॥ १२३ ॥  
 एष एव<sup>५</sup> पुरमुक्तिमापदित्युपयोगवान् । साक्षात्कृतनिजातीतसर्वप्रभवसन्ततिः ॥ १२४ ॥  
 विजृम्भितमतिज्ञानक्षयापशमवैभवान्<sup>६</sup> । लब्धवोधिः पुनर्लौकान्तिकदेवप्रबोधितः ॥ १२५ ॥  
 तत्क्षणागतदेवेन्द्रप्रसुखामरनिमित्त- । प्रसिद्धमध्यकल्याणरूपनादिमहोत्सवः ॥ १२६ ॥  
 श्लेषयुक्तिमद्वाग्भिः कृतबन्धुविसर्जनः । आरुह्य शिविकां रूढां विमलाभिधया विभुः ॥ १२७ ॥  
 विधायाप्टममाहारत्यागमश्ववने महा- । शिलातले महासत्त्वः पत्यङ्कासनमास्थितः ॥ १२८ ॥  
 उत्तराभिमुखः<sup>७</sup> पौषे मापे पक्षे सितेतरे । एकादश्यां सुपूर्वाङ्के समं त्रिशतभूभुजैः ॥ १२९ ॥  
 कृतसिद्धनमस्करो दीक्षाक्षर्या समाददे । दूतिकां मुक्तिकन्याया मान्यां कृत्यप्रसाधिकाम् ॥ १३० ॥  
 केशान्विमोचितास्तस्य मुष्टिभिः पञ्चभिः सुरेत् । समभ्यर्च्यादराशीत्वा न्यक्षिपत्क्षीरवारिधौ ॥ १३१ ॥  
 भात्स्यमधिकः शुद्धया चतुर्थज्ञानभास्वरः<sup>८</sup> । गुल्मखेटपुरं कायस्थित्यर्थं समुपेयिवान् ॥ १३२ ॥  
 तत्र धन्याख्यभूपालः श्यामवर्णोऽप्यमङ्गलैः । प्रतिशुद्धाशनं शुद्धं दत्त्वापराक्तियोचितम् ॥ १३३ ॥

उपदेशसे शान्ति भावको प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। तदनन्तर भगवान् पार्ष्वनाथका जव तीस वर्ष प्रमाण कुमारकाल वीत गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देशमे उत्पन्न हुए घोड़े आदिका भेंटके साथ अपना दूत भगवान् पार्ष्वनाथके समीप भेजा। भगवान् पार्ष्वनाथने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दूतका हर्षपूर्वक बड़ा सम्मान किया और उससे अयोध्याकी विभूति पूछी। इसके उत्तरमें दूतने सबसे पहले भगवान् वृषभदेवका वर्णन किया और उसके पश्चात् अयोध्या नगरका हाल कहा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् लोग अनुक्रमको जानते ही हैं। दूतके वचन सुनकर भगवान् विचारने लगे कि मुझे तीर्थकर नामकर्मका बन्ध हुआ है इससे क्या लाभ हुआ ? भगवान् वृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भवोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया—पिछले सब देख लिये ॥ ११५-१२४ ॥ मतिज्ञानावरण कर्मके बढ़ते हुए त्रयोपशमके वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधित किया। उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महोत्सव मनाया ॥ १२५-२२६ ॥ तदनन्तर भगवान्, विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त वचनोंके द्वारा भाई-बन्धुओंको विदाकर विमला नामकी पालकीपर सवार हो अश्ववनेमें पहुँचे। वहाँ अतिशय धीर वीर भगवान् तैलाका नियम लेकर एक बड़ी शिलातल पर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए। इस प्रकार पौषकृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय उन्होंने सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर तीन सौ राजाओंके साथ दीक्षारूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली। वह दीक्षा-लक्ष्मी क्या थी ? मानो कार्य सिद्ध करनेवाली मुक्ति रूपी कन्याकी माननीय दूती थी ॥ १२७-१३० ॥ भगवान्ने पञ्च मुष्टियोंके द्वारा उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पूजा की तथा बड़े आदरसे ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥ १३१ ॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है और विशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थ—मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हैं ऐसे भगवान् पारणाके दिन आहार लेनेके लिए गुल्मखेट नामके नगरमें गये ॥ १३२ ॥ वहाँ श्यामवर्ण वाले धन्य नामक राजाने अष्ट मङ्गल द्रव्योंके द्वारा पद्मगाहक उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रियाके

१ कुमारे ल० । २ जयसेनमही-ल० । ३ वृषभदेवम् । ४ प्रज्ञा क०, ख०, ग० । ५ पुनर्मुक्ति ल० । ६ साक्षात्कृतविजानीत ल० (१) । ७ वैभवः क०, ख०, घ० । ८ उत्तराभिमुखे ल० । ९ भास्वरः ल० ।

नयन्स चतुरां मामान् छाद्यस्थेन विशुद्धिभाक् । दीक्षाग्रहवने देवदारुभूरिमहीरुहः ॥ १३४ ॥  
 अधस्तादप्युत्साहारत्यागादात्तविशुद्धिकः । प्रत्यासन्नभवप्रान्तो योगं सप्तदिनावधिम् ॥ १३५ ॥  
 गृहीत्वा सत्त्वसारोऽस्थाद् धर्मध्यानं प्रवर्तयन् । शम्बरोऽन्नाम्बरे गच्छन्नगच्छस्त्वं विमानकम् ॥ १३६ ॥  
 लोकमानो विभङ्गेन स्पष्टप्राग्वैरबन्धनः । रोषात्कृतमहाघोषो महावृष्टिमपातयत् ॥ १३७ ॥  
 व्यधात्तद्वैव सप्ताहान्यन्यांश्च विविधान्विधीः । महोपसर्गान् शैलोपनिपानान्तानिवान्तकः ॥ १३८ ॥  
 १<sup>तं</sup> ज्ञात्वाऽवधिबोधेन धरणीशो विनिर्गतः । धरण्याः प्रस्फुरद्गत्तफणामण्डपमण्डितः ॥ १३९ ॥  
 २<sup>भद्रं</sup> तमस्थादावृत्य तत्पत्नी च फणाततेः । उपर्युच्चैः समुद्धृत्य स्थिता वज्रातपच्छिदम् ॥ १४० ॥  
 भ्रू कुरौ प्रकृत्यैव नागौ सस्मरतुः कृतम् । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्त्यार्द्रचेतसः ॥ १४१ ॥  
 ततो भगवतो ध्यानमाहात्म्यान्मोहसंक्षये । विनाशमगमद्विश्वो विकारः कमठद्विषः ॥ १४२ ॥  
 द्वितीयशुद्धध्यानेन मुनिर्निजित्य कर्मणाम् । त्रितयं चैत्रमासस्य काले<sup>३</sup> पक्षे दिनादिमे ॥ १४३ ॥  
 भागे विशाखनक्षत्रे चतुर्दश्यां महोदयः । सम्प्रापत्केवलज्ञानं लोकालोकावभासनम् ॥ १४४ ॥  
 तदा केवलपुजाञ्च सुरेन्द्रा निरवर्तयन् । शम्बरोऽप्यात्तकालादिलब्धिः शममुपागमत् ॥ १४५ ॥  
 प्रापत्सम्यक्त्वशुद्धिञ्च दृष्ट्वा तद्वनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वाः शतानां सप्त संथमम् ॥ १४६ ॥  
 गृहीत्वा शुद्धसम्यक्त्वाः पार्श्वनाथं कृतादराः । सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्राणेषुः पादयोर्द्वयोः ॥ १४७ ॥

योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥ १३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्ने छद्मस्थ अवस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस वनमें दीक्षा ली थी उसी वनमें जाकर वे देवदारु नामक एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहां तेलाका नियम लेनेसे उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धर्मध्यानको बढ़ाते हुए विराजमान थे । इसी समय कमठका जीव शम्बर नामका असुर आकाशमार्गसे जा रहा था कि अकस्मात् उसका विमान रुक गया । जब उसने विभङ्गावधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्वभवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा । फिर क्या था, क्रोधवशा उसने महा गर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया । इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट उस दुर्बुद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकार के महा उपसर्ग किये । यहाँ तक कि छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ॥ १३४-१३८ ॥ अवधिज्ञानसे यह उपसर्ग जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ पृथिवीतलसे बाहर निकला, उस समय वह, धरणेन्द्र जिसपर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था । धरणेन्द्रने भगवान्को सब ओरसे घेरकर अपने फणाओंके ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तानकर खड़ी हो गई ॥ १३९-१४० ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, स्वभावसे ही क्रूर रहनेवाले सर्प-सर्पिणीने अपने ऊपर किया उपकार याद रक्खा सो ठीक ही है क्योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किये उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥ १३९-१४१ ॥

तदनन्तर भगवान्के ध्यानके प्रभावसे उनका मोहनीय कर्म क्षीण होगया इस लिए वैरी कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥ १४२ ॥ मुनिराज पार्श्वनाथने द्वितीय शुद्धध्यानके द्वारा अवशिष्ट तीन घातिया कर्मोंको और भी जीत लिया जिससे उन्हें चैत्रकृष्ण त्रयोदशीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें लोक-अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया और इस कारण उनका अभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥ १४३-१४४ ॥ उसी समय इन्द्रोंने केवलज्ञानकी पूजा की । शम्बर नामका ज्योतिषीदेव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी विशुद्धता प्राप्त कर ली । यह देख, उस वनमें रहनेवाले सात सौ तपस्वियोंने मिथ्यादर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यग्दृष्टि हो गये और बड़े आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान्

१ तद् ज्ञात्वा ल० । २ भदन्तमस्थादावृत्य ल० । भद्रारमस्था—इति क्वचित् । भर्तारमस्थादावृत्य ल० । ३ कालपक्षे ल० ।

क तद्वैरं वृथा शान्तिरीदृशी कास्य पापिनः । सख्यमास्तां विरोधश्च वृद्धये हि महात्मभिः ॥ १४८ ॥  
 १ गणेशा दश तस्यासन् विधायादि स्वयम्भुवम् । साधानि त्रिशतान्युक्ता मुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥ १४९ ॥  
 ग्नयोऽयुतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः । चतुःशतौत्तरं प्राक्ताः सहस्रमवधित्विपः ॥ १५० ॥  
 सहस्रमन्तिमज्ञानास्तावन्तो विक्रियद्विकाः । शतानि सस्रपञ्चाशच्चतुर्थावगमाश्रिताः ॥ १५१ ॥  
 वादिनः पटशतान्येव ते सर्वेऽपि समुच्चिताः । अभ्यर्णाकृतनिर्वाणाः स्युः सहस्राणि षोडश ॥ १५२ ॥  
 सुलोचनाद्याः पटत्रिंशत्सहस्राण्यायिका विभोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ १५३ ॥  
 देवा<sup>२</sup> देव्याऽप्यसङ्ख्याताः सङ्ख्यातास्तिर्यग्जिनः । एवं द्वादशभिर्युक्तो गणैर्धर्मोपदेशनम् ॥ १५४ ॥  
 कुवाणः पञ्चभिर्मासैर्विरहीकृतसप्ततिः । संवत्सराणां मासं स संहृत्य विहृतिक्रियाम् ॥ १५५ ॥  
 पटत्रिंशन्मुनिभिः सार्धं प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सप्तन्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ १५६ ॥  
 भागे विशान्नक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयान् । गुणस्थानद्वये स्थित्वा सम्मेदाचलमस्तके ॥ १५७ ॥  
 तत्कालोचितकार्याणि वर्तयित्वा यथाक्रमम् । निःशेष कर्मनिर्णाशाश्रिवाणे<sup>३</sup> निश्चलं स्थितः ॥ १५८ ॥  
 कृतनिर्वाणकल्याणाः सुरेन्द्रास्तं ववन्दरे । वन्दामहे वयञ्चैनं नन्दितुं सुन्दरैर्गुणैः ॥ १५९ ॥  
 आदिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽम्भोनिधिसन्निभाः । उदाहरणमेतेषां पार्श्वो गण्यः क्षमावनाम् ॥ १६० ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

त्वद्ब्रह्माभिपत्रोत्सवे सुरगिरौ स्वोच्छ्वासनिःश्वासजैः

स्वर्गेशान्भृशमानयस्त्वमनिलैरान्दोललीलां मुहुः ।

किं कुर्यात्तव तादृशोऽयममरस्वत्क्षान्तिलब्धोदयः

पाठीनो जलधेरिवेत्यभिनृतः पार्श्वो जिनः पातु नः ॥ १६१ ॥

पार्श्वनाथके चरणोंमें नमस्कार करने लगे । आचार्य कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो निष्कारण वैर और कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा है कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही शत्रुता भी वृद्धिका कारण होती है ॥ १४५-१४८ ॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें स्वयंभूको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सौ पचास मुनिराज पूर्वके ज्ञाता थे, दश हजार नौ सौ शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिज्ञानी थे, एक हजार केवलज्ञानी थे, इतने ही विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, सात सौ पचास मनःपर्यय ज्ञानी थे, और छह सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेवाले सोलह हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ॥ १४६-१५२ ॥ सुलोचनाको आदि लेकर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार बारह सभाओंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवान्ने पांच माह कम सत्तर वर्ष तक विहार किया । अन्तमें जब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तब वे विहार बन्दकर सम्मेदाचलकी शिखर पर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये । श्रावणशुक्ला सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें शुक्लध्यानके तीसरे और चौथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य कार्य कर समस्त कर्मोंका क्षय हो जानेसे मोक्षमें अविचल विराजमान हो गये । उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निर्वाण कल्याणकका उत्सव कर उनकी वन्दना की । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे समृद्ध हानेके कारण हम भी इन भगवान् पार्श्वनाथको नमस्कार करते हैं ॥ १५३-१५६ ॥ जो समुद्रके समान आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सज्जनोंका यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो क्षमावानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान् पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं ॥ १६० ॥ 'भगवन् ! जन्माभिषेकके समय सुमेरुपर्वत पर अपने उच्छ्वास और निःश्वाससे उत्पन्न वायुके द्वारा आपने इन्द्रोंको

निष्कम्पं तव शुक्लतामुपगतं बोधं पयोधिर्महा-

वातोद्भूततनुविनीलसलिलः प्राप्नोति दूरात् तम् ।

ध्यानं ते वत वाचलस्य मरुतां श्वासानिलाद्वामरात्

क्षोभः कः कथमित्यभीष्टुतिपतिः पार्श्वप्रभुः पातु नः ॥ १६२ ॥

तीर्थेशाः सदृशो गुणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः

सन्यप्येवमधीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणनाः ।

तत्सर्वं कमठात्तथाहि महतां शत्रोः कृतापक्रियात्

ख्यातिर्या महती न जातुचिदसौ मित्रात्कृतोपक्रियात् ॥ १६३ ॥

दूरस्थामरविक्रियस्य भवतो बाधा न शान्तात्मनो

न क्रोधो न भयञ्च तेन न बुधैः सोढेति संस्तूयसे ।

माहात्म्यप्रशमौ तु विस्मयकरौ तौ तेन तीर्थेशिनः

स्तोतव्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पार्श्वो भवोच्छित्तये ॥ १६४ ॥

पश्यैतौ कृतवेदिनौ हि धरणौ धर्म्यावितीढाङ्गतौ

तावेवोपकृतिर्न ते त्रिभुवनक्षेमैकभूमेस्ततः ।

भृष्टत्पातनिषेधनं ननु कृतं चेत्प्राक्तनोपद्रवाः

कैर्नासन्निति सारसंस्तुतिकृतः पार्श्वो जिनः पातु नः ॥ १६५ ॥

भी अच्छी तरह बार-बार भूला भुला दिया था फिर भला यह शम्बर जैसा लुद्रदेव आपका क्या कर सकता है ? जिस प्रकार मच्छ समुद्रमें उल्लूक-कूदकर उसे पीड़ित करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता है—उससे अलग होते ही छटपटाने लगता है उसी प्रकार इस लुद्रदेवने आपको पीड़ा पहुँचाई है तो भी यह अन्तमें आपकी ही शान्तिसे अभ्युदयको प्राप्त हुआ है इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १६१ ॥ हे प्रभो ! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त है उसे समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्योंकि समुद्र तो महावायुके चलनेपर चंचल हो जाता है और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार समुद्र दूरसे ही आपके ज्ञानको नहीं पा सकता है । इसी तरह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुक्लताको प्राप्त है उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है । हे नाथ ! आप सुमेरु पर्वतके समान अचल हैं फिर भला श्वासोच्छ्वासकी वायुके समान इस लुद्रदेवसे आपको क्या क्षोभ हो सकता है ?” इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके स्वामी पार्श्वनाथ भगवान् हमारी रक्षा करें ॥ १६२ ॥ हे स्वामिन् ! धैर्य आदि बड़े-बड़े गुणोंसे यद्यपि सभी तीर्थेश समान हैं तथापि सबको संतुष्ट करनेवाले आपके जो गुण संसारमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं । सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है वह उपकार करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती ? ॥ १६३ ॥ हे देव ! आपने शान्तचित्त रहकर शम्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई बाधा हुई, न क्रोध आया और न भय ही उत्पन्न हुआ इस कारण ‘आप सहनशील हैं’ इस प्रकार विद्वज्जन आपकी स्तुति नहीं करते किन्तु आपका माहात्म्य और शान्ति आश्चर्यजनक है इसलिए आपकी स्तुति की जानी चाहिये । इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई थी वे पार्श्वनाथ भगवान् हम सबके संसारका उच्छेद करनेवाले हों ॥ १६४ ॥ देखो, ये धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं, और बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संसारमें स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके कल्याणकी एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा समझना चाहिये । यदि ऐसा न माना जाय और दोनोंने ही पर्वतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाय तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है वे पार्श्वनाथ भगवान् हम सबकी रक्षा करें ॥ १६५ ॥ हे विभो ! पर्वतका

\*भेदोऽद्रेः फणिमण्डपः फणिवधूच्छत्रं क्षतिर्घातिनां  
 कैवल्यासि \*रघातुदेहमहिमा हानिर्भवस्यामरी ।  
 भातिस्तीर्थकृदुद्गमोऽपगमनं विघ्नस्य चासन्समं  
 भर्तुर्यस्य स सन्ततान्तकभयं हन्तुप्रवंशाग्रणीः ॥ १६६ ॥  
 किं ध्यानात्फणिनः फर्णान्द्रयुवतेः क्षान्तेर्महेन्द्रात्स्वत-  
 स्तन्त्रान्मन्त्रविजृम्भणाद् वत रिपोर्भातिरथस्योद्बयान् ।  
 कालाद्घातिहतेरिदं शममभूर्दित्यर्घ्यहस्तैः सुरै-  
 ३राशङ्कयामरविघ्नविच्युतिरिदं हन्यात्स धीराग्रणीः ॥ १६७ ॥  
 श्रुत्वा यन्य वचोऽमृतं श्रुतिसुखं हृद्यं हितं हेतुम-  
 न्मिथ्यात्वं दिविजोऽवमीद्विपमिव व्याविद्धर्वरोद्भुरम् ।  
 यं स्तौति\* स्म च तादृशोऽप्युपनतश्रेयः स पार्श्वो विभु-  
 विघ्नौघं हरिसन्धतासनशिखामध्यास्य सिद्धो हतान् ॥ १६८ ॥  
 जानः प्राङ्मरुभूतिरन्विभपतिर्देवः सहस्रारजो  
 विघोशोऽच्युतकल्पजः क्षितिभृतां श्रीवज्रनाभिः पतिः ।  
 देवो मध्यममध्यमे नृपगुणैरानन्दनामाऽऽनते\*  
 देवेन्द्रां हतघातिसंहतिरवत्वस्मान्स पार्श्वेश्वरः ॥ १६९ ॥

फटना, धरणेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्मावर्णाके द्वारा छत्र लगाया जाना, घातिया कर्मोका क्षय होना, केवलज्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरहित परमौदारिक शरीरकी प्राप्ति होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, आपके तीर्थकर नामकर्मका उदय होना और समस्त विघ्नोका नष्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे ऐसे उग्र वंशके शिरोमणि भगवान् पार्श्वनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें—जन्ममरणसे हमारी रक्षा करें ॥ १६६ ॥ 'यह शान्ति, क्या भगवान्के ध्यानसे हुई है ? वा धरणेन्द्रसे हुई है ? अथवा पद्मावतीसे हुई है ? अथवा भगवान्की क्षमासे हुई है ? अथवा इन्द्रसे हुई है ? अथवा स्वयं अपनेआप हुई है ? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई है ? अथवा शत्रुके भयभीत हो जानेसे हुई है ? अथवा भगवान्के पुण्योदयसे हुई है ? अथवा समय पाकर शान्त हुई है ? अथवा घातिया कर्मोका क्षय होनेसे हुई है' इस प्रकार अर्घ्य हाथमें लिये हुए देव लोग, शंवरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विघ्नोकी शान्तिकी आशंका कर रहे हैं ऐसे धीर वीरोमें अग्रगण्य भगवान् पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें ॥ १६७ ॥ कानोंको सुख देनेवाले, हृदयको प्रिय लगनेवाले, हित करनेवाले और हेतुसे युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट मिथ्यात्वको विपके समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और उस प्रकारका क्रूर होनेपर भी वह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो इन्द्रके द्वारा धारण किये हुए सिंहासनके अग्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे भगवान् पार्श्वनाथ हमारे विघ्नोके समूहको नष्ट करें ॥ १६८ ॥ पार्श्वनाथका जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर विद्याधर हुआ, फिर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम प्रवैयकमें अहमिन्द्र हुआ, वहाँसे आकर राजाओंके गुणोंसे सुशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनन्द स्वर्गमें इन्द्र हुआ और तदनन्तर घातिया

१ भेदोहेः ल० । २-रघातु ल० । ३-राशङ्कयोऽमर ल० । ४ नौति स्म ल० । ५ नतो घ०, म०, क०, । ततो ख० ।

## आर्या

कमठः कुक्कुटसर्पः पञ्चमभूजोऽहिरभवदथ नरके ।

ध्याधोऽधोगः सिंहो नरकी नरपोऽनु शम्बरो दिविजः ॥ १७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पार्श्वतीर्थकरपुराणं नाम  
त्रिसप्ततितमं पर्वं ॥ ७३ ॥

—:ॐ०ॐ:—

कर्मोंके समूहको नष्ट करनेवाला भगवान् पार्श्वनाथ हुआ ॥ १६६ ॥ कमठका जीव पहले कमठ था, फिर कुक्कुट सर्प हुआ, फिर पाँचवें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुआ ॥ १७० ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें पार्श्वनाथ तीर्थकरके पुराणका वर्णन करनेवाला तिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७३ ॥

—:ॐ०ॐ:—

## चतुःसप्ततितमं पर्व

१वर्धमानो जिनः श्रीमाम्नामान्वर्थं समुद्रहन् । देवान्मे वृद्धिसुद्धतधानिकर्मविनिर्मिताम् ॥ १ ॥  
 तत्त्वार्थनिर्णयान्प्राप्य सन्मतित्वं सुब्राधवाक् । पूज्यो देवागमाद्भूत्वात्राकलङ्को बभूवधि ॥ २ ॥  
 वीरसेनो महावीरो वीरसेनेन्द्रतां गतः । वीरसेनेन्द्रवन्धाधिर्वीरसेनेन भावितः ॥ ३ ॥  
 देवालोकस्तवैवैको लोकालोकावलोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनाभवलोकितम् ॥ ४ ॥  
 रूपमेव तव ब्रूते नाथ कोपाद्यपोहनम् । मणेर्मलस्य वैकल्यं महतः केन कथ्यते ॥ ५ ॥  
 भतिक्रम्य कुतीर्थानि तव तीर्थं प्रवर्तते । सम्प्रत्यर्पाति नुत्वानु पुराणं तन्प्रवक्ष्यते ॥ ६ ॥  
 महापुराणवाराशिपारावारप्रतिष्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिर्निर्विबुधभिः ॥ ७ ॥  
 अगाधोऽयं पुराणाब्धिपरारश्च मतिर्भम । पश्योत्ताना सपारा च तं तितोर्पुः किलैतया ॥ ८ ॥  
 मतिरस्तु ममैपाल्या पुराणं महदस्तिवदम् । नावेवाम्भोनिधेरस्य प्राप्नोहं<sup>२</sup> पारमेतया ॥ ९ ॥  
 कथाकथकयोस्तावद्वर्णना<sup>३</sup> प्राग्विधीयते । दोषं ताभ्यामदोषाभ्यां पुराणं नोपबैकते ॥ १० ॥  
 सा कथा यां समाकर्ण्य हेयांपादेयनिर्णयः । कर्णकट्वाभिरन्याभिः किं कथाभिर्हितार्थिनाम् ॥ ११ ॥  
 रागादिदोषनिर्मुक्तो निरपेक्षोपकारकृत् । भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥

अथानन्तर—सार्थक नामको धारण करनेवाले श्रीमान् वर्धमान जिनेन्द्र, यातिया कर्मोके नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दें ॥ १ ॥ जिनके वचनोंसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होना है ऐसे आप तत्त्वार्थ का निर्णय करनेसे सन्मति नामको प्राप्त हुए और देवोंके आगमनसे पूज्य होकर आप अकलङ्क हुए हैं ॥ २ ॥ आपका नाम वीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप महावीर कहलाये हैं, ऋद्धिधारी मुनियोंकी सेनाके नायक हैं । गणधरदेव आपके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं ॥ ३ ॥ हे देव ! लोक और अलोकके देखनेमें आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ॥ ४ ॥ हे नाथ ! आपका रूप ही आपके क्रोधादिकके अभावको सूचित करता है सो ठीक ही है क्योंकि बहुमूल्य मणियोंकी कालिमाके अभावको कौन कहता है ? भावार्थ—जिस प्रकार मणियोंकी निर्मलता स्वयं प्रकट हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! अन्य अनेक कुतीर्थोंका उल्लङ्घनकर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर आपका पुराण कहा जाता है ॥ ६ ॥ यह महापुराण एक महासागरके समान है इसके पार जानेके लिए कुछ कहनेकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंको श्रीजिनसेन स्वामीका अनुगामी होना चाहिये ॥ ७ ॥ यह पुराण रूपी महासागर अगाध और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी और पारसहित है फिर भी मैं इस बुद्धिके द्वारा इस पुराणरूपी महासागरको पार करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है और यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस प्रकार छोटी-सी नावसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हो जाऊँगा ॥ ९ ॥ सबसे पहले कथा और कथाके कहनेवाले वक्ताका वर्णन किया जाता है क्योंकि यदि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ॥ १० ॥ कथा वही कहलाती है कि जिसके सुननेसे हेय और उपादेयका निर्णय हो जाता है । हित चाहनेवाले पुरुषोंके कानोंको कड़वी लगनेवाली अन्य कथाओंसे क्या प्रयोजन है ? ॥ ११ ॥ कथक—कथा कहनेवाला वह कहलाता है जो कि रागादि दोषोंसे रहित हो और अपने दिव्य वचनोंके द्वारा निरपेक्ष होकर भव्य

१ ख० पुस्तकेऽयं श्लोकाऽर्थकः 'वन्दारुन् वर्धमानोऽस्तु वर्धमानशिखप्रदः । दितकमानैकविधैः परीषह-गणैर्यकः' ॥ २ प्रासाहं ल० । ३ वर्णनं ल० ।



एतद्द्वितयमत्रैव पुराणे जिनभाषिते । नान्येषु तुष्टपुराणेषु तस्माद् ग्राह्यमिदं बुधैः ॥ १३ ॥  
 अथ जम्बूद्वीपमाख्ये द्वीपानां मध्यवर्तिनि । द्वीपं विदेहे पूर्वस्मिन् सीतासरिदुदकटे ॥ १४ ॥  
 विषये पुष्कलावल्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाख्ये<sup>१</sup> वने तस्या नाम्ना व्याधाधिपोऽभवत् ॥ १५ ॥  
 पुरुरवाः प्रियाभ्यासीत्कालिकाख्यानुरागिणी । अनुरूपं विधत्ते हि वेधाः सङ्गममङ्गिनाम् ॥ १६ ॥  
 कदाचिक्कानने तस्मिन् दिग्विभागविमोहनात् । मुनिं सागरसेनाख्यं पर्यटन्तमितस्ततः ॥ १७ ॥  
 विलोक्य तं मृगं मत्वा हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्ररन्तीमे मावधीरिति वारितः ॥ १८ ॥  
 तदैव स प्रसन्नात्मा समुपेत्य पुरुरवाः । प्रणम्य तद्वचः श्रुत्वा सुशान्तः श्रद्धयाहितः ॥ १९ ॥  
 शीतलाभस्तद्राजं वा निदाधे कृपितो जनः । संसारदुःखहेतोर्वा भीरुजैनेश्वरं मतम् ॥ २० ॥  
 शास्त्राभ्यासनशीलो वा ख्यातं गुरुकुलं महत् । मध्वादिप्रितयत्यागलक्षणं व्रतमासदत् ॥ २१ ॥  
 ऋषितावसितौ सम्यक्पालयित्वादराद् व्रतम् । सागरापमदिव्यायुः सौधर्मेऽनिमिषोऽभवत् ॥ २२ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते देशः कोसलाख्योऽस्ति<sup>२</sup> विश्रुतः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सौस्थित्यं सर्वदा भजन् ॥ २३ ॥  
 बाधाभावादरक्षात् रक्षकेभ्यो विना न सा । अदातारो न<sup>३</sup> कैनाशस्य तृप्या ग्राहकैर्विना ॥ २४ ॥  
 काठिन्यं कुत्रपारेव नैव चेतसि कस्यचित् । देहि पाहीति सम्प्रैषो नाथित्वेन भयेन वा ॥ २५ ॥  
 कलङ्कक्षीणते शशि चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपोधनेष्वेव विनाहारात्परेषु न ॥ २६ ॥

जीवांका उपकार करता हों ॥ १२ ॥ ये दोनों ही अर्थात् कथा और कथक, जिनेन्द्र भगवान्‌कें द्वारा कहे हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए विद्वानोंके द्वारा यही पुराण ग्रहण करनेके योग्य है ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेवाले इस जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर किनारेपर पुष्कलावली नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें एक मधु नामका वन है । उसमें पुरुरवा नामका एक भीलोंका राजा रहता था । उसकी कालिका नामकी अनुराग करनेवाली स्त्री थी सो ठीक ही है क्योंकि विधाता प्रणियोंका अनुकूल ही समागम करता है ॥ १४-१६ ॥ किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे । उन्हें देख, पुरुरवा भील मृग समझकर उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुआ परन्तु उसकी स्त्रीने यह कहकर मना कर दिया कि 'ये वनके देवता घूम रहे हैं इन्हें मत मारो' ॥ १७-१८ ॥ वह पुरुरवा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके पास गया और श्रद्धाके साथ नमस्कारकर तथा उनके वचन सुनकर शान्त हो गया ॥ १६ ॥ जिस प्रकार ग्रीष्मऋतुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे भरे हुए तालाबको पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोंसे डरनेवाला जीव, जिनेन्द्र भगवान्‌का मत पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शास्त्राभ्यास करनेवाला विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध गुरुकुलको पाकर शान्त होता है उसी प्रकार वह भील भी सागरसेन मुनिराजको पाकर शान्त हुआ था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यन्त उसका बड़े आदरसे अच्छी तरह पालन किया । आयु समाप्त होनेपर वह सौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी उत्तम आयुको धारण करनेवाला देव हुआ ॥ २०-२२ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी आर्यक्षेत्रके मध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी स्थितिको धारण करनेवाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥ २३ ॥ उस देशमें कभी किसीको बाधा नहीं होती थी इसलिए अरक्षा थी परन्तु वह अरक्षा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी । इसी तरह वहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव कृपणतासे नहीं था परन्तु संतुष्ट रहनेके कारण कोई लेनेवाले नहीं थे इसलिए था ॥ २४ ॥ वहाँ कठोरता स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी, वहाँ रहनेवाले किसी मनुष्यके चित्तमें कठोरता-क्रूरता नहीं थी । इसी तरह मुझे कुछ देओ, यह शब्द माँगनेके लिए नहीं निकलता था । और हमारी रक्षा करो यह शब्द भयसे निकलता था ॥ २५ ॥ इसी प्रकार कलङ्क

पीडा निलातसीक्षुणां नान्यप्राणिषु केषुचिन् । नान्यत्र शिरसश्छेदः प्रवृद्धेष्वेव शालिषु ॥ २० ॥  
 वन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते श्रूयते नापराधिषु । विना विमुक्तरागेभ्यो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहः<sup>१</sup> ॥ २१ ॥  
 जाड्यं जलेषु नान्येषु<sup>२</sup> सूच्यादिष्वेव तीक्ष्णता । नान्यत्र कुञ्जिकास्वेव कृत्यं नान्यत्र वक्रता ॥ २२ ॥  
 नाविदग्धाश्च गोपाला न र्बाबालाश्च<sup>३</sup> भीलुकाः । शठा न वामनाश्चाक्ताश्चण्डालाश्च न दुश्चराः ॥ २३ ॥  
 नानिक्षुशालिका भूमिर्न क्षमाभृदचन्दनः । नानरभोजं जलस्थानं नैवास्वादुफलं वनम् ॥ २४ ॥  
 मध्ये तस्य विनीताख्या हृदयग्राहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सत्सुखप्रदा ॥ २५ ॥  
 प्रकाशयितुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशलम् । भक्तिञ्च तीर्थकृत्स्वादी सा शक्रेणैव निमिता ॥ २६ ॥  
 मुनेर्धोविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिता मध्ये सा सालेन व्यभासन्<sup>४</sup> ॥ २७ ॥  
 भूषणार्थं सालोऽस्याः खानिकापरिवेष्टितः । शक्रः कर्ता पतिश्चक्री यदि कौतस्कुतं भयम् ॥ २८ ॥  
 वर्तते जिनपूजास्या दिनं प्रति गृहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वत्वाद् गृहेशिनाम् ॥ २९ ॥  
 विद्याभ्यासाद्विना बाल्यं विना भोगेन यौवनम् । वार्धक्यं न विना धर्माद्विनान्तोऽपि समाधिना ॥ ३० ॥  
 नावबोधः क्रियाशून्यो न क्रिया फलवजिता । अभुक्तं न फलं भोगो नार्थधर्मद्वयच्युतः ॥ ३१ ॥  
 प्रधानप्रकृतिः प्रायः स्वामित्वेनैव साधिका । जनेभ्यस्तन्निवासिभ्यो न भूपादिपरिच्छेदः ॥ ३२ ॥

और क्षीणता ये दां शब्द चन्द्रमाके वाचक राजामें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं पाये जाते थे । निराहार रहना तपस्वियोंमें ही था अन्यमें नहीं ॥ २६ ॥ पीड़ा अर्थान् पला जाना तिल अलसी तथा ईखमे ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात् कष्ट नहीं था । शिरका काटना बड़ी हुई धानके पौधोंमें ही था किसी दूसरेमें नहीं । वन्ध और मोक्षकी चर्चा आगममें ही सुनाई देती थी किसी अपराधीमें नहीं । इन्द्रियोंका निग्रह विरागी लोगोंमें ही था किन्हीं दूसरे लोगोंमें नहीं । जड़ता जलमें ही थी किन्हीं अन्य मनुष्योंमें जड़ता—मूर्खता नहीं थी, तीक्ष्णता सुई आदिमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें उग्रता नहीं थी, वक्रता तालियोंमें ही थी किसी अन्य कार्यमें कुटिलता—मायाचारिता नहीं थी । वहाँके गोपाल भी अचतुर नहीं थे, स्त्रियाँ तथा बालक भी डरपोक नहीं थे, बौने भी धूर्त नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं थे ॥ वहाँ ऐसी कोई भूमि नहीं थी जो कि ईखांसे सुशोभित नहीं हो, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिसपर चन्दन न हों, ऐसा कोई सरोवर नहीं था जिसमें कमल न हों और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मीठे फल न हों ॥ २७-३१ ॥

उस देशके मध्यभागमें हृदयका ग्रहण करनेवाली विनीता (अयोध्या) नामकी नगरी थी जो कि विनीत स्त्रीके समान मनुष्योंको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥ ३२ ॥ वह नगरी अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीर्थकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करनेके लिए इन्द्रने ही सबसे पहले बनाई थी ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि सुशोभित होती है, स्वामीसे सेना शोभायमान होती है और मणिसे मेखला सुशोभित होती है, उसी प्रकार मध्यभागमें बने हुए परकोटसे वह नगरी सुशोभित थी ॥ ३४ ॥ खाईसे घिरा हुआ इस नगरीका कोट, केवल इसकी शोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेवाला इन्द्र था और स्वामी चक्रवर्ती था फिर भला इसे भय किससे हो सकता था ? ॥ ३५ ॥ वहाँ पर प्रतिदिन घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि गृहस्थोंके सव माङ्गलिक कार्य जिन-पूजापूर्वक ही होते थे ॥ ३६ ॥ वहाँपर विना विद्या-भ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, विना भोगोंके यौवन व्यतीत नहीं होता था, विना धर्मके बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था और विना समाधिके मरण नहीं होता था ॥ ३७ ॥ वहाँपर किसीका भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, क्रिया फलरहित नहीं थी, फल विना उपभोगके नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनोंसे रहित नहीं था ॥ ३८ ॥ यदि वहाँके रहनेवाले लोगोंसे मन्त्री आदि प्रधान प्रकृतिका प्रथक्करण होता था तो केवल स्वामित्वसे ही होता था आभूषणादि उप-

१ विग्रहः ल० । २ शुण्ठ्यादिष्वेव इति कश्चित् । मुंठादिष्वेव ल० । ३ भीरुकाः ल० । ४ तृतीयचतुर्थ पादौ ल० पुस्तके द्रुष्टितौ । ५ ह्यभासन ल० ।

सुरान्तत्र समागत्य स्वगांयातैर्नरोत्तमैः । स्वर्गसम्भूतसौहादाद् रमन्ते सन्ततं मुदा ॥ ४० ॥  
 मुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे रूपादिभिः समाः । इत्यागताः खगाधीशाः मोमुह्यन्ते विवेचने ॥ ४१ ॥  
 तत्र पण्यस्त्रियो वीक्ष्य बाढं सुरकुमारकाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते ताभिर्जातिविशेषतः ॥ ४२ ॥  
 करणानामभीष्टा<sup>१</sup> ये विपयास्तत्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तत्र<sup>२</sup> नाकिपूज्यसमुद्भवः ॥ ४३ ॥  
 भक्तृनिर्माणि निर्जेतुं विमानानि स्वकौशलान् । सुरैः कृतगृहाण्यत्र चेत्कान्या तेषु वर्णना ॥ ४४ ॥  
 बभूवास्याः पतिः पंक्तेः स्वर्गस्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोस्तुनुरिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥ ४५ ॥  
 भक्तम्पनाद्या भूपाला नमिमुख्याश्च खेचराः । मागधाद्याश्च देवेशास्त्यक्तमानाः समुत्सुकाः ॥ ४६ ॥  
 यस्याज्ञां मालतीमालामिव स्वानन्नमौलयः । भूपाधिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते ॥ ४७ ॥  
 सत्कर्मभावितैर्भावैः क्षायोपशमिकैश्च सः । भव्यभावविशेषाच्च श्रेष्ठकाष्ठामधिष्ठितः ॥ ४८ ॥  
 आदितीर्थकृतो ज्येष्ठपुत्रो राजसु षोडशः<sup>३</sup> । ज्यायांश्चक्रौ मुहूर्तेन मुक्तोऽयं कैस्तुलां व्रजेत् ॥ ४९ ॥  
 तस्यानन्तमतिर्देवी प्रथ्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कमलावासं रेजे<sup>४</sup> श्रीरिव चागता ॥ ५० ॥  
 प्रज्ञाविक्रमयोर्लक्ष्मीविशेषो वा पुरुरवाः । मरुद्भूतस्तयोरसीन्मरीचिः सुनुरप्रणीः ॥ ५१ ॥  
 स्वपितामहसन्त्यागो स्वयञ्च गुरुभक्तिः । राजभिः सह कच्छाद्यैः परित्यक्तपरिग्रहः ॥ ५२ ॥  
 चिरं सोढ्वा तपःक्लेशं क्षुच्छीतादिपरीयहान् । दीर्घसंसारवासित्वात्पश्चात्सोढुमशक्नुवन् ॥ ५३ ॥

करणसे नहीं होता था ॥ ३६ ॥ वहाँके उत्तम मनुष्य स्वर्गसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वर्गमें हुई मित्रताके कारण बहुतसे देव स्वर्गसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे ॥ ४० ॥ इनमें देव कौन हैं ? और मनुष्य कौन हैं ? क्योंकि रूप आदिसे सभी समान हैं इस प्रकार आये हुए विद्याधरोंके राजा उनको अलग-अलग पहिचाननेमें मोहित हो जाते थे ॥ ४१ ॥ वहाँकी वेश्याओंको देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे परन्तु जाति भिन्न होनेके कारण उनके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे ॥ ४२ ॥ इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले जो विषय वहाँ थे वे विषय चूँकि स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओंके द्वारा पूज्य तीर्थकर भगवान्का जन्म वहीं होता था ॥ ४३ ॥ देवोंने अपने कौशलसे जो घर वहाँ बनाये थे वे अकृत्रिम विमानोंको जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका और क्या वर्णन हो सकता है ? ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार स्वर्गकी पंक्तिका स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि इक्ष्वाकुवंशको बढ़ानेवाला था और भगवान् वृषभदेवका पुत्र था ॥ ४५ ॥ अकम्पन आदि राजा, नमि आदि विद्याधर और मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उत्कण्ठित होकर अपना मस्तक झुकाते हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी आज्ञाको 'यह हमारा सबसे अधिक आभूषण है' यह विचारकर धारण करते थे ॥ ४६-४७ ॥ अपने सत्कर्मकी भावनासे तथा कर्मोंके ज्योपशमसे उत्पन्न होनेवाले भावोंसे और भव्यत्व भावकी विशेषतासे वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी अन्तिम सीमाको प्राप्त था अर्थात् सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥ ४८ ॥ वह भरत भगवान् आदिनाथका ज्येष्ठ पुत्र था, सोलहवाँ मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्तमें ही मुक्त हो गया था ( केवल ज्ञानी हो गया था ) इसलिए वह किनके साथ सादृश्यको प्राप्त हो सकता था ? अर्थात् किसीके साथ नहीं, वह सर्वथा अनुपम था ॥ ४९ ॥ उसकी अनन्तमति नामकी वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी मानो शरीरधारिणी कीर्ति हो अथवा कमल रूपी निवासस्थानको छोड़कर आई हुई मानो लक्ष्मी ही हो ॥ ५० ॥ जिसप्रकार बुद्धि और पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन दोनोंके पुरुरवा भीलका जीव देव, मरीचि नामका ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ५१ ॥ अपने बाबा भगवान् वृषभदेवकी दीक्षाके समय स्वयं ही गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाओंके साथ सब परिग्रहका त्यागकर दीक्षा धारण कर ली थी । उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका क्लेश सहा और जुधा शीत

स्वयं गृहीतुमारब्धः फलं प्रावरणादिकम् । इष्ट्वा तं देवता नार्यं क्रमो नैर्ग्रन्थ्यधारिणाम् ॥ ५४ ॥  
 गृहाण वेपमन्थं त्वं यथेष्टमिति चाब्रुवन् । श्रुत्वा तद्वचनं सोऽपि गाढमिथ्यात्वचोदितः ॥ ५५ ॥  
 परित्राजकदीक्षायाः प्राथम्यं प्रत्यपद्यत । दीर्घाजवज्जवानां तत्कर्म दुर्मारगदिशनम् ॥ ५६ ॥  
 तच्छास्त्रचुञ्चुताप्यस्य स्वयमेव किलाजनि । सतामिवासनां च स्याद्बोधः स्वविषये स्वयम् ॥ ५७ ॥  
 श्रुत्वापि तीर्थं कृद्वाचं सद्धर्मं नाग्रहीदसौ । पुरुर्यथात्मनैवात्र सर्वसङ्गविमोचनान् ॥ ५८ ॥  
 भुवनत्रयसंक्षोभं कारिसामर्थ्यमाप्तवान् । मद्गुपज्ञं तथा लोके व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥  
 अहञ्च तन्निमित्तो ह्यप्रभावात्त्रिदिवप्रभोः । प्रतीक्षां प्राप्तुमिच्छामि तन्मेऽवश्यं भविष्यति ॥ ६० ॥  
 इति मानोदयात्पापी न व्यरंसीच्च दुर्मतात् । तमेव वेपमादाय तस्थिवान् दोषदूषितः ॥ ६१ ॥  
 त्रिदण्डधारकोऽप्येव सहण्डपरिवर्जितः । प्राप्ता कुराजवहण्डान् वहून्नत्नप्रभादिषु ॥ ६२ ॥  
 सम्यग्ज्ञानविहीनत्वात्सकमण्डलुरप्यसौ । अशौचवृत्तिरेवासीज्जलैः किं शुद्धिरात्मनः ॥ ६३ ॥  
 प्रातः शीतजलस्नानात्कन्दमूलफलाशनान् । परिग्रहपरिन्यागात्कुर्वन्प्रख्यातिमात्मनः ॥ ६४ ॥  
 महेन्द्रजालकानीतचन्द्रार्काम्भोधिसन्निभम् । तत्त्वाभासमिदं तत्त्वमिति सन्दृष्टमात्मना ॥ ६५ ॥  
 कपिलादिस्वशिष्याणां यथार्थं प्रतिपादयन् । सूनुर्भरतराजस्य धरिण्यां चिरमभ्रमत् ॥ ६६ ॥  
 स जीवितान्ते सम्भूय ब्रह्मकल्पेऽमृताशनः । दशान्युपमदेवायुरनुभूय सुखं ततः ॥ ६७ ॥

आदि परीपह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीर्घताके कारण पीछे चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वस्त्रादि ग्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख वन-देवताओंने कहा कि निर्ग्रन्थ वेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है । यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा वेप ग्रहण कर लो । वन-देवताओंके उक्त वचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए मरीचिने भी सबसे पहले परित्राजककी दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है उनके लिए वह मिथ्यात्व कर्म मिथ्यामार्ग ही दिखलाता है ॥ ५२-५६ ॥ उस समय उसे परित्राजकोके शास्त्रका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके समान दुर्जनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ॥ ५७ ॥ उसने तीर्थकर भगवान्की दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था । वह सोचता रहता था कि जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवने अपने आप ममस्त परिग्रहोंका त्याग कर तीनों लोकोंमें क्षांभ उत्पन्न करनेवाली सामर्थ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमें अपने द्वारा चलाये हुए दूसरे मतकी व्यवस्था करूँगा और उसके निमित्तसे होनेवाले बड़े भारी प्रभावके कारण इन्द्रकी प्रतीक्षा प्राप्त करूँगा—इन्द्र द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे यह सब अवश्य होगा ॥ ५८-६० ॥ इस प्रकार मानकर्मके उदयसे वह पापी खोटे मतसे विरत नहीं हुआ और अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी वही वेप धारण कर रहने लगा ॥ ६१ ॥ यद्यपि वह तीन दण्ड रखता था परन्तु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थात् इन्द्रिय दमन रूपी समीचीन दण्ड उसके पास नहीं था । जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंको, सजाओंको पाता है उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेवाला था ॥ ६२ ॥ वह सम्यग्ज्ञानसे रहित था अतः कमण्डलु सहित होनेपर भी शौच जानेके वाद शुद्धि नहीं करता था और कहता था कि क्या जलसे आत्माकी शुद्धि होती है ॥ ६३ ॥ वह यद्यपि प्रातःकाल शीतल जलसे स्नान करता था और कन्दमूल तथा फलोंका भोजन करता था फिर भी परिग्रहका त्याग बतलाकर अपनी प्रसिद्धि करता था, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता था कि मैं परिग्रहका त्यागी हूँ ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार इन्द्रजालियाके द्वारा लाये हुए सूर्य चन्द्रमा तथा समुद्र अवास्तविक होते हैं—आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तरव अवास्तविक थे—तत्त्वाभास थे ॥ ६५ ॥ इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अपने कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ सम्राट् भरतका पुत्र मरीचि चिरकाल तक इस पृथिवीपर भ्रमण करता रहा ॥ ६६ ॥ आयुके अन्तमें मरकर वह ब्रह्म स्वर्गमें दश सागरकी

प्रस्थुत्यागत्य साकेते कपिलब्राह्मणप्रभोः । कात्याञ्च तनयो जज्ञे जटिलो नाम वेदवित् ॥ ६८ ॥  
 परिव्राजकमार्गस्थस्तन्मार्गं सम्प्रकाशयन् । पूर्ववत्सुचिरं मृत्वा सौधर्मैः भूत्सुरः पुनः ॥ ६९ ॥  
 द्विसमुद्रोपमं कालं तत्र भुक्त्वोचितं सुखम् । प्रान्ते ततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरोत्तमे ॥ ७० ॥  
 स्थूणागाराभिधानेऽभूद्भारद्वाजद्विजस्य सः । तनूजः पुष्पदपायां पुष्यमित्राह्वयः पुनः ॥ ७१ ॥  
 स्वीकृत्य प्राक्तनं वेपं प्रकृत्यादिप्ररूपितम् । पञ्चविंशतिदुस्तत्त्वं मूढानां मतिमानयत् ॥ ७२ ॥  
 निष्कपायतया बद्ध्वा देवायुरभवत्सुरः । सौधर्मकल्पे तत्सौख्यमेकवाधुर्धुपमायुषा ॥ ७३ ॥  
 भुक्त्वा ततः समागत्य भरते <sup>१</sup>सूतिकाह्वये । पुरेऽग्निभूतेगौतम्यामभूदग्निसहः सुतः ॥ ७४ ॥  
 परिव्राजकदीक्षायां नीत्वा कालं सपूर्ववत् । सनत्कुमारकल्पेऽल्पं देवभूयं प्रपन्नवान् ॥ ७५ ॥  
 सप्ताब्ध्युपमितायुष्को भुक्त्वा तन्नामरं सुखम् । आयुषोऽन्ते ततश्च्युत्वा विषयेऽस्मिन् पुरेऽभवत् ॥ ७६ ॥  
 मन्दिराख्येऽग्निमित्राख्यो गौतमस्य तनूजवः । <sup>२</sup>कौशिक्यां दुःश्रुतेः पारं गत्वागत्य पुरातनीम् ॥ ७७ ॥  
 दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य ततश्च्युत्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शालङ्कायनस्य सुतोऽभवत् ॥ ७८ ॥  
 मन्दिरायां जगत्स्यातो भारद्वाजसमाह्वयः । त्रिदण्डमण्डितां दीक्षामक्षुणां च समाचरन् ॥ ७९ ॥  
 सप्ताब्ध्युपमितायुः सन् कल्पे माहेन्द्रनामनि । भूत्वा ततोऽवतीर्यात्र दुर्मार्गप्रकटीकृतेः ॥ ८० ॥  
 फलेनाधोगतीः सर्वाः प्रविश्य गुरुदुःखभाक् । त्रसस्थावरवर्गेषु सङ्ख्यातीतसमाश्रितम् ॥ ८१ ॥  
 परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तदन्ते मगधाह्वये । देवो राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥ ८२ ॥  
 शाण्डिलाख्यस्य <sup>३</sup>मुख्यस्य पारशर्यां स्वसञ्ज्ञया । स्थावरो वेदवेदाङ्गपारगः पापभाजनम् ॥ ८३ ॥  
 मतिः श्रुतं तपः शान्तिः समाधिस्तत्त्ववीक्षणम् । सर्वं सम्यक्त्वश्चून्यस्व मरीचेरिव निष्फलम् ॥ ८४ ॥

आयुवाला देव हुआ । वहाँसे च्युत हुआ और अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली नामकी स्त्रीसे वेदोंको जाननेवाला जटिल नामका पुत्र हुआ ॥ ६७-६८ ॥ परिव्राजकके मतमें स्थित होंकर उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । दो सागर तक वहाँके सुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरत क्षेत्रके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भारद्वाज नामक ब्राह्मणकी पुष्पदत्ता स्त्रीसे पुष्यमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६९-७१ ॥ उसने वड़ी पहला पारिव्राजकका वेष धारणकर प्रकृति आदिके द्वारा निरूपित पञ्चीस मिथ्यातत्त्व मूर्ख मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात् मूर्ख मनुष्योंकी पञ्चीस तत्त्वोंका उपदेश दिया । यह सब होनेपर भी उसकी कषाय मन्द थी अतः देवायुका बन्धकर सौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥ ७२-७३ ॥ वहाँके सुख भोगकर वहाँसे आया और इसी भरत क्षेत्रके सूतिका नामक गाँवमें अग्निभूति नामक ब्राह्मणकी गौतमी नामकी स्त्रीसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७४ ॥ वहाँ भी उसने परिव्राजककी दीक्षा लेकर पहलेके समान ही अपनी आयु बिताई और आयुके अन्तमें मरकर देवपदको प्राप्त हुआ । वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी । देवोंके सुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके मंदिर नामक गाँवमें गौतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामकी ब्राह्मणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ । वहाँपर भी उसने वही पुरानी परिव्राजककी दीक्षा धारणकर मिथ्याशास्त्रोंका पूर्णज्ञान प्राप्त किया । अबकी बार वह माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर उसी मंदिर नामक नगरमें शालङ्कायन ब्राह्मणकी मंदिरा नामकी स्त्रीसे भारद्वाज नामका जगत्प्रसिद्ध पुत्र हुआ और वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित अखण्ड दीक्षाका आचरण किया । तदनन्तर वह माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयु वाला देव हुआ । फिर वहाँसे च्युत होकर कुमार्गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे । इस प्रकार त्रस स्थावर योनियोंमें असंख्यात वर्ष तक परिभ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रान्त हो गया—खेद खिन्न हो गया । तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर मगधदेशके इसी राजगृह नगरमें वेदोंके जानने वाले शाण्डिल्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी स्त्रीसे स्थावर नामका पुत्र हुआ । वह वेद वेदाङ्गका पारगामी था, साथ ही अनेक पापोंका पात्र भी था ॥ ७५-८३ ॥ वह सम्यग्दर्शनसे शून्य

१ श्वेतिकाह्वये इत्यपि क्वचित् । २ कौशाभ्यां ज० । ३ विप्रस्य ष० । मुखे भवो मुखो विप्रस्तस्य ।

परिव्राजकदीक्षायामासक्तिं पुनरादधत् । सप्ताब्ध्युपमितायुष्को माहेन्द्रे समभून्मरुत् ॥ ८५ ॥  
 ततोऽवतीर्य देशेऽस्मिन् मगधाख्ये पुरोत्तमे । जातो राजगृहे विश्वभूतिनाममहीपतेः ॥ ८६ ॥  
 जैन्याश्च तनयो विश्वनन्दी विख्यातपौरुषः । विश्वभूतिमर्हामर्तुरनुजातो महोदयः ॥ ८७ ॥  
 विशाखभूतिरेतन्य लक्ष्मणायामभूद्विधीः<sup>१</sup> । पुत्रो विशाखनन्दाख्यस्ते सर्वे सुखमास्थिताः ॥ ८८ ॥  
 अन्येद्युः शरदभ्रस्य विभ्रंशं वाक्ष्य शुभ्रधीः । निविण्णो विश्वभूत्याख्यः स्वराज्यमनुजन्मनि ॥ ८९ ॥  
 विधाय यौवराज्यञ्च स्वसूनौ महदग्रणीः । सात्त्विकैस्त्रिधातैः साङ्गं राजभिर्जातरूपताम् ॥ ९० ॥  
 श्रीधराख्यगुरोः पार्श्वे समादाय समत्वभाक् । बाह्यमाभ्यन्तरञ्चोपक्रमकरोत्स तपश्चिरम् ॥ ९१ ॥  
 अथान्यदा कुमारोऽसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोद्याने समं स्वाभिर्देवीभिः क्रीडया स्थितः ॥ ९२ ॥  
 विशाखनन्दस्तं दृष्ट्वा तदुद्यानं मनोहरम् । स्वीकर्तुं मतिमादाय गत्वा स्वपितृसन्निधिम् ॥ ९३ ॥  
 मह्यं मनोहरोद्यानं दीयतां भवतान्यथा । कुर्यां देशपरित्यागमहमित्यभ्यधादसौ ॥ ९४ ॥  
 सत्सु सत्स्वपि भोगेषु विरुद्धविषयप्रियः । भवेन्नाविभवे भूयो भविष्यद्दुःखभारधत् ॥ ९५ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं चित्ते निधाय स्नेहनिर्भरः । कियसत्ते ददामीति सन्तोष्य तनुजं निजम् ॥ ९६ ॥  
 विश्वनन्दिनाहूय राज्यभारस्त्वयाधुना । गृह्यतामहमाक्रम्य प्रत्यन्तप्रतिभूतः ॥ ९७ ॥  
 कृत्वा तज्जनितक्षोभप्रशांतिं गणितैर्दिनैः । प्रत्येष्यामीति सोऽवोचच्छ्रुत्वा तत्प्रत्युवाच तम् ॥ ९८ ॥  
 पूज्यपाद त्वयात्रैव निश्चिन्तमुपविश्यताम् । गत्वाहमेव तं प्रैषं करोमीति सुतोत्तमः ॥ ९९ ॥

था अतः उसका मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि और तत्त्वावलोकन—सभी कुछ मरीचिके समान निष्फल था ॥ ८४ ॥ उसने फिर भी परिव्राजक मतकी दीक्षामें आसक्ति धारण की और मरकर माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥ ८५ ॥ वहांसे च्युत होकर वह इसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जैनी नामकी स्त्रीसे प्रसिद्ध पराक्रमका धारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ । इसी राजा विश्वभूतिका विशाखभूति नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था । उसकी लक्ष्मणा नामकी स्त्रीसे विशाखनन्द नामका मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ था । ये सब लोग सुखसे निवास करते थे ॥ ८६-८८ ॥

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विश्वभूति, शरदऋतुके मेघका नाश देखकर विरक्त हो गया । महापुरुषोंमें आगे रहनेवाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया । तदनन्तर उसने सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले तीन सौ राजाओंके साथ श्रीधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली और समता भावसे युक्त हो चिरकाल तक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप किये ॥ ८९-९१ ॥

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा कर रहा था । उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने आधीन करनेकी इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाय अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूंगा—आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा । आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए भी विरुद्ध विषयोंमें प्रेम करता है वह आगामीभवमें होनेवाले दुःखोंका भार ही धारण करता है ॥ ९२-९५ ॥ पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयमें धारणकर स्नेहसे भरे हुए पिताने कहा कि 'वह वन कितनी-सी वस्तु है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ' इस प्रकार अपने पुत्रको सन्तुष्टकर उसने विश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि 'इस समय यह राज्यका भार तुम ग्रहण करो, मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमणकर उनके द्वारा किये हुए चोभको शान्तकर कुछ ही दिनोंमें वापिस आ जाऊंगा' । राजाके वचन सुनकर श्रेष्ठपुत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि 'हे पूज्यपाद ! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिये, मैं ही जाकर उन राजाओंको दास

१ विगता धीर्यस्य सः । २ कियत् ते प्रददामीति ल० ।

राज्यमस्यैव मे स्नेहाद् भ्रात्राऽदार्थीत्यतर्कयन् । वनार्थमतिसन्धिसुरभूतं धिगदुराशयम् ॥ १०० ॥  
 ततः स्वानुमते तस्मिन् स्वबलंन समं रिपून् । निर्जेतुं विहितोद्योगं गते विक्रमशालिनि ॥ १०१ ॥  
 वनं विशाखनन्दाय स्नेहादन्यायकाक्षिणे । विशाखभूतिरुल्लङ्घ्य क्रमं गतमतिर्ददौ ॥ १०२ ॥  
 विश्वनन्दी तदाकर्ण्य सद्यः क्रोधाग्निदीपितः । पश्य मामतिसन्धाय प्रत्यन्तनृपतीन्प्रति ॥ १०३ ॥  
 प्रहिल्य मद्भनं दूरं पितृव्येनात्मसूनवे । देहीति वचनान्नाहं किं ददामि क्रियद्वनम् ॥ १०४ ॥  
 विदधान्यस्य दुश्चेष्टा मम सौजन्यभङ्गनम् । इति मत्वा निवृत्त्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम् ॥ १०५ ॥  
 प्रारब्धवान् भयाद्रत्वा स कपित्थमहीरुहम् । कृत्वावृतिं स्थितः स्फीतं कुमारोऽपि महीरुहम् ॥ १०६ ॥  
 समुन्मूल्य निहन्तुं तं तेनाधावत्ततोऽप्यसौ । अपसृत्य भिलास्तम्भस्यान्तर्धानं ययौ पुनः ॥ १०७ ॥  
 बली तलप्रहारेण स्तम्भश्चाहस्य स द्रुतम् । पलायमानमालोक्य तस्मादप्यपकारिणम् ॥ १०८ ॥  
 मा भैपीरिति सौहार्दकारुण्याभ्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दत्त्वा संसारदुःस्थितिम् ॥ १०९ ॥  
 भावयित्वा ययौ द्वीकान् सम्भूतगुरुसन्निधौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥ ११० ॥  
 तदा विशाखभूतिश्च सञ्जातानुशयो भया । कृतं पापमिति प्रायश्चित्तं वा प्राप संयमम् ॥ १११ ॥  
 कुर्वन् घोरं तपो विश्वनन्दी वेशान्परिभ्रमन् । कृशीभूतः क्रमात्प्राप्य मथुरां स्वतनुस्थितेः ॥ ११२ ॥  
 प्रविष्टवान् विनष्टात्मबलश्चलपदस्थितिः । तदा न्यसनसंसर्गाद् भ्रष्टराज्यो महीपतेः ॥ ११३ ॥  
 कस्यचिद्भूतभावेन मथुरां पुरमागतः । विशाखनन्दो वेश्यायाः प्रासादतलमाश्रितः ॥ ११४ ॥

वनाय लाता हूँ ॥ ६६-६६ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, आईने स्नेह वश ही मुझे दिया है। केवल वनके लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्रको ठगनेके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायको धिक्कार है ॥ १०० ॥

तदनन्तर पराक्रमसे सुरोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुआ चला गया तब बुद्धिहीन विशाखभूतिने क्रमका उल्लंघनकर वह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया ॥ १०१-१०२ ॥ विश्वनन्दीको इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया। वह क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो कहने लगा कि देखो काकाने मुझे तो धोखा देकर शत्रु राजाओंके प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देओ' इतना कहनेसे ही मैं नहीं दे देता ? वन है कितनी-सी चीज ? इसकी दुश्चेष्टा मेरी सज्जनताका भङ्ग कर रही है। ऐसा विचारकर वह लौट पड़ा और अपना वन हरण करनेवालेको मारनेके लिए उद्यत हो गया। इसके भयसे विशाखनन्द बाड़ी लगाकर किसी ऊँचे कँथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने वह कँथाका वृक्ष जड़से उखाड़ डाला और उसीसे मारनेके लिए वह उद्यत हुआ। यह देख विशाखनन्द वहाँसे भागा और एक पत्थरके खम्भाके पीछे छिप गया परन्तु बलवान् विश्वनन्दीने अपनी हथेलियोंके प्रहारसे उस पत्थरके खम्भाको शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखनन्द वहाँसे भी भागा। यद्यपि वह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमारको सौहार्द और करुणा दोनोंने प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो मत। यही नहीं, उसे बुलाकर वह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसारकी दुःखमय स्थितिका विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि नीचजनोंके द्वारा किया हुआ अपकार भी सज्जनोंका उपकार करनेवाला ही होता है ॥ १०३-११० ॥ उस समय विशाखभूतिको भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 'यह मैंने बड़ा पाप किया है' ऐसा विचारकर उसने प्रायश्चित्त स्वरूप संयम धारण कर लिया ॥ १११ ॥

इधर विश्वनन्दी सब देशोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसका शरीर अत्यन्त कृश होगया। अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुँचा और आहार लेनेके लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पड़ रहे थे। व्यसनोके

मधुप्रसूतसंकुङ्कगाधेनुप्रतिपातनात् । प्रखलन्त समीक्ष्यैर्न मुनि कोपपरायणः ॥ ११५ ॥  
 नवाद्य तच्छिलास्तम्भभङ्गदृष्टः पराक्रमः । क यात इति दुश्चिराः परिहासं व्यधादसौ ॥ ११६ ॥  
 मुनिश्च तद्वचश्चेतस्यवधार्थं प्रकोपवान् । परिहासफलं प्राप्स्यसीति स्वान्तर्गतं वदन् ॥ ११७ ॥  
 सनिदानोऽभवत्प्रान्ते कृतसन्न्यासनक्रियः । स्वयं विशाखभूतिश्च महाशुकमुपाश्रितौ ॥ ११८ ॥  
 तत्र षोडशवारशिमानमेयायुषौ चिरम् । भोगान्भुक्त्वा ततश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन्नेव भारते ॥ ११९ ॥  
 सुरम्यविषये रम्ये पोदनाख्यपुरे नृपः । प्रजापतिमहाराजोऽजनि देवी जयावती ॥ १२० ॥  
 तस्यासीदनयोः मूनुः पितृव्यो विश्वनन्दिनः । विजयाख्यस्ततोऽस्यैव विश्वनन्धप्यनन्तरम् ॥ १२१ ॥  
 मृगावत्यामभूत्पुत्रस्त्रिपृष्ठो भाविचक्रभृत् । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूर्वगणनां गतः ॥ १२२ ॥  
 उद्गमेनैव निर्धूतरिपुचक्रोऽयमक्रमान् । अर्कस्यैव प्रतापोऽस्य व्याप्य विश्वमनुस्थितः ॥ १२३ ॥  
 अनन्यगोचरा लक्ष्मीरसङ्ख्येयसमाः स्वयम् । इममेव प्रतीक्ष्यास्त गाढात्सुक्यार्थचक्रिणम् ॥ १२४ ॥  
 लक्ष्मीलान्छनमेवास्य चक्रं विक्रमसाधितम् । मागधाद्यामरारक्ष्यं ससमुद्रं महीतलम् ॥ १२५ ॥  
 सिंहशौर्योऽयमित्येषोऽशेमुर्पाकैरभिष्टुतः । किं सिंह इव शनिर्धाको नमितामरमस्तकः ॥ १२६ ॥  
 जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्रीं वृद्धिहानिमतीं चिरम् । कीर्तिरस्याखिलं व्याप्य ज्ञातिवां वेधसः स्थिता ॥ १२७ ॥  
 उदक्छ्रेण्यां खगार्धाशां मयूरप्रीवनामभाक् । नीलाञ्जना प्रिया तस्याभूत्सयोरलकापुरं ॥ १२८ ॥  
 विशाखनन्दः संसारे चिरं भ्रान्त्वातिदुःखितः । अश्वप्रीवाभिधः सतुरजनिप्टापचारवान् ॥ १२९ ॥

संसर्गसे जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशाखनन्द भी उस समय किसी राजाका दूत बनकर उसी मथुरा नगरीमें आया हुआ था। वहाँ एक वेश्याके मकानकी छत्र पर बैठा था। दैव योगसे वही हालकी प्रसूना एक गायने क्रुद्ध होकर विश्वनन्दी मुनिको धक्का देकर गिरा दिया उन्हें गिरता देख, क्रोध करता हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि 'तुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था वह आज कहाँ गया?' इस प्रकार उसने खोटे परिणामोंसे उन मुनिकी हँसी की ॥ ११२-११६ ॥ मुनि भी उसके वचन चित्तमें धारणकर क्रुद्ध कुपित हुए और मन ही मन कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अवश्य ही पावेगा ॥ १७ ॥ अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक स्वर्गमें देव हुए और विशाखभूतिका जीव भी वही देव हुआ ॥ ११७-११८ ॥ वहाँ उन दोनोंकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी। चिर काल तक वहाँके सुख भोग कर दोनों ही वहाँसे च्युत हुए। उनमेसे विश्वनन्दीके काका विशाखभूतिका जीव सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयावती रानीसे विजय नामका पुत्र हुआ और उसके बाद ही विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी मृगावतीके त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार अर्ध चक्रवर्ती था ॥ ११९-१२२ ॥ उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था ॥ १२३ ॥ अर्ध चक्रवर्तियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखनेवाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके ऐसी लक्ष्मी असंख्यात वर्षसे स्वयं इस त्रिपृष्ठकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥ १२४ ॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न क्या था मानो लक्ष्मीका चिह्न ही था और मगधादि जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त महीतल उसके आधीन था ॥ १२५ ॥ यह त्रिपृष्ठ 'सिंहके समान शूर वीर है' इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समझसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोंके भी मस्तकको नम्रीभूत करनेवाला यह त्रिपृष्ठ क्या सिंहके समान निर्बुद्धि भी था? ॥ १२६ ॥ उसकी कान्तिने परिमित क्षेत्रमें रहनेवाली और हानि वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चाँदनी भी जीत ली थी तथा वह ब्रह्माकी जातिके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गई थी ॥ १२७ ॥

इधर विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीके अलकापुर नगरमें मयूरप्रीव नामका विद्याधरोंका राजा रहता था। उसकी रानीका नाम नीलाञ्जना था। विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक संसारमें



ते सर्वेऽपि पुरोपात्तपुण्यपाकविशेषतः<sup>१</sup> । अर्भाष्टकामभोगोपभोगैस्तृप्ताः स्थिताः सुखम् ॥ १३० ॥  
 इतः खेचरभूर्तुर्दक्षिणश्रेण्यलंकृतिः । रथनूपुरशब्दादिचक्रवालपुरी परा ॥ १३१ ॥  
 ज्वलनादिजटी पाति तां स वा पाकशासनः । कुलसाधितसम्प्राप्तविद्यात्रयविभूषितः ॥ १३२ ॥  
 प्रतापोपनताशेषावाक्छ्रेणीखचरोशिनाम् ।<sup>२</sup> विनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १३३ ॥  
 वायुवेगा प्रिया तस्य चन्द्राभखचरोशिनः । सुभद्रायाश्च तनया पुरे द्युतिलकाङ्क्षये ॥ १३४ ॥  
 अर्ककीर्तिस्तयोः सूनुः प्रतापेनार्कजित्सुधीः । सुता स्वयम्प्रभाख्याभूत्प्रभयेव महामणिः ॥ १३५ ॥  
 स्त्रीलक्षणानि सर्वाणि शस्यान्यापादमस्तकम् । उदाहरणतामापन्न्याप्य व्यक्तानि तरानुम् ॥ १३६ ॥  
 सम्प्राप्य यौवनं तन्वी भूषणानाञ्च भूषणम् । योचित्सर्गे कृतार्थत्वं स्वयासावनयद्विधिम् ॥ १३७ ॥  
 तां वीक्ष्यापूर्णसौन्दर्यां समीपीकृतचिराजाम् । पिता वितरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन् ॥ १३८ ॥  
 तदैवाहूय सम्भिन्नश्रोतारं तत्प्रयोजनम् । अपृच्छत्स निमित्तेषु कुशलः समभाषत ॥ १३९ ॥  
 केशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । त्वमप्याप्त्यसि तद्दत्तां खगानां चक्रवर्तिताम् ॥ १४० ॥  
 इति तद्वचनं चित्तो प्रत्येयमवधार्य सः । अमात्यमिन्द्रनामानं<sup>३</sup> भक्तिर्क<sup>४</sup> सुश्रुतं श्रुचिम् ॥ १४१ ॥  
 सखेखं प्राश्रुतं दत्त्वा प्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वाऽविलम्बितं सोऽपि वने पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥  
 पोदनाधिपतिं सप्रणाममालोक्य पत्रकम् । संप्राश्रुतं प्रदायास्मै यथास्थानमुपाविशत् ॥ १४३ ॥  
 विलोक्य मुद्रामुद्दिध्व तदन्तःस्थितपत्रकम् । प्रसार्य वाचयामास नियुक्तः सन्धिविग्रहे ॥ १४४ ॥

भ्रमणकर तथा अत्यन्त दुखी होकर अनेक दुराचार करनेवाला उन दोनोंके अश्वघ्रीव नामका पुत्र हुआ ॥ १२८-१२९ ॥ वे सब, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए इच्छित काम भोग तथा उपभोगोंसे संतुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥ १३० ॥ इधर विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीको अलंकृत करनेवाला 'रथनूपुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था ॥ १३१ ॥ इन्द्रके समान ज्वलनजटी नामका विद्याधर उसका पालन करता था । वह ज्वलनजटी, कुल परम्परासे आई हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्याओंसे विभूषित था ॥ १३२ ॥ उसने अपने प्रतापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको वश कर लिया था इसलिए उनके नग्रीभूत मुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा सुशोभित रहते थे ॥ १३३ ॥ उसकी रानीका नाम वायुवेगा था जो कि द्युतिलक नगरके राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥ १३४ ॥ उन दोनोंके अपने प्रतापसे सूर्यको जीतनेवाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ था और स्वयंप्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे महामणिके समान सुशोभित थी ॥ १३५ ॥ उस स्वयंप्रभाके शरीरमें शिरसे लेकर पैर तक स्त्रियोंके समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके शरीरमें व्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहे थे ॥ १३६ ॥ आभूषणोंको भी सुशोभित करनेवाले यौवनको पाकर उस स्वयंप्रभाने अपने आपके द्वारा, विधाताको स्त्रियोंकी रचना करनेके कार्यमें कृतकृत्य बना दिया था ॥ १३७ ॥ उसे पूर्ण सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेवाली देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिये ? किसके देनेके योग्य है ? ॥ १३८ ॥ उसी समय उसने संभिन्नश्रोता नामक पुरोहितको बुलाकर उससे वह प्रयोजन पूछा । वह पुरोहित निमित्तशास्त्रमें बहुत ही कुशल था इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायणकी महादेवी होगी और आप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे ॥ १३९-१४० ॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य वचन चित्तमें धारणकर उसने पवित्र हृदयवाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त इन्द्र नामक मन्त्रीको लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरकी ओर भेजा । वह शीघ्रतासे जाकर पोदनपुर जा पहुँचा । उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक वनमें विराजमान थे । मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की और वह यथास्थान बैठ गया ॥ १४१-१४३ ॥ राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर

१ पुण्यपाकविशेषितम् क० । २ विनम-म०, ल० । ३-मिन्दुनामानं इत्यपि क्वचित् । ४ भक्तिर्क  
 ल० । ५ पुण्यकरण्डके ल० ।

श्रीमानितः खगार्धाशो जिनलोकशिखामणिः । स्वानुरक्तप्रजो राजा नगराद्रथनूपुरात् ॥ १४५ ॥  
 ज्वलनादिजटी <sup>१</sup>ख्यातो नमिवंशाम्बरांशुमान् । पोदनाख्यपुराधीशं प्रजापतिमहानूपुरम् ॥ १४६ ॥  
 आदिभट्टारकोत्पन्नबाहुवलयन्वयोद्भवम् । प्रणम्य शिरसा ज्ञेहात्कुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥ १४७ ॥  
 सप्रश्रयं प्रजानाथमित्थं विज्ञापयत्यसौ । वैवाहिकः स सम्बन्धो विधेयो नाधुना मया ॥ १४८ ॥  
 त्वया वास्त्यावधोरत्र पारम्पर्यसमागतः । न कार्यं वंशयोरथ गुणदोषपरीक्षणम् ॥ १४९ ॥  
 विशुद्धयोः प्रसिद्धत्वात्प्राक्चन्द्रादित्योरिव । पूज्य मङ्गागिनेयस्य त्रिपृष्ठस्य स्वयम्प्रभा ॥ १५० ॥  
 मत्सुता भामिनीवास्य लक्ष्मीः खण्डन्नयोद्भवा । आतनोतु रतिं स्वस्यां स्वमताङ्गयसीमिति ॥ १५१ ॥  
 प्रजापतिमहाराजः श्रुत्वा तद्वन्धुभाषितम् । मया तेनेष्टमेवेष्टमित्यमात्यमतोषयत् ॥ १५२ ॥  
 सोऽपि सम्प्राप्तसम्मानदानस्तेन विसर्जितः । सद्यः सम्प्राप्य तत्सर्वं स्वमहार्हात्रं न्यवेदयत् ॥ १५३ ॥  
 ज्वलनादिजटी चाशु सार्ककीर्तिः स्वयम्प्रभाम् । आनीय सर्वसम्पत्त्या त्रिपृष्ठाय समर्पयत् ॥ १५४ ॥  
 यथोक्तविधिना सिंहवाहिनीं गरुडादिकाम् । वाहिनीञ्च ददौ सिद्धविद्ये विदितशक्तिके ॥ १५५ ॥  
<sup>२</sup>चरोपनीततद्वातीज्वलनज्वलितशाशयः । विद्यात्रितयसम्पन्नैविद्याधरधराधिपैः ॥ १५६ ॥  
 अध्वन्यैरभ्यमित्रीणैरायुधीयैर्भट्टैर्वृतः । रथावर्ताचलं प्रापदक्षग्रीवो युयुत्सया ॥ १५७ ॥  
 तदागमनमाकर्ण्य चतुरङ्गबलान्वितः । प्रागेवागत्य तत्रास्थात्त्रिपृष्ठो रिपुनिष्ठुरः ॥ १५८ ॥  
 क्रुध्वा तौ युद्धसन्नद्धावुद्धतौ रुद्धभास्करौ । स्वयं स्वधन्वभिः सार्धं शरसङ्घातवर्णैः ॥ १५९ ॥  
<sup>३</sup>अञ्चै रथैर्गजेन्द्रैश्च पदातिपरिवारितैः । यथोक्तविहितव्यूहैरयुध्येतां <sup>४</sup>महाबलौ ॥ १६० ॥

रखा हुआ पत्र निकालकर वाँचा । उसमें लिखा था कि सन्धि विग्रहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी, अपने लोकका शिखामणि, अपनी प्रजाको प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका सूर्य, श्रीमान्, प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनूपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान् ऋषभ-देवके पुत्र बाहुबलीके वंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापतिको शिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे कुशल प्रश्न पूछता हुआ बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा और आपका वैवाहिक सम्बन्ध आजका नहीं है क्योंकि हम दोनोंकी वंश-परम्परासे वह चला आ रहा है। हम दोनोंके विशुद्धवंश सूर्य और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं अतः इसकार्यमें आज दोनों वंशोंके गुण-दोषकी परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है। हे पूज्य ! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मीके समान है वह मेरे भानेज त्रिपृष्ठकी स्त्री हो और अपनेगुणोंके द्वारा अपने आपमें इसकी बड़ी प्रीतिको बढ़ानेवाली हो ॥ १४४-१५१ ॥ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीको यह कहकर सन्तुष्ट किया, कि जो बात ज्वलनजटीको इष्ट है वह मुझे भी इष्ट है ॥ १५२ ॥ प्रजापति महाराजने बड़े आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीको विदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन कर दिये ॥ १५३ ॥ ज्वलनजटी अर्ककीर्तिके साथ शीघ्र ही आया और स्वयं-प्रभाको लाकर उसने बड़े वैभवके साथ उसे त्रिपृष्ठके लिए सौंप दी—विवाह दी ॥ १५४ ॥ इसके साथ-साथ ज्वलनजटीने त्रिपृष्ठके लिए यथोक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध हैं ऐसी सिंहवाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ भी दीं ॥ १५५ ॥

इधर अश्वघ्रीवने अपने गुप्तचरोंके द्वारा जब यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाग्निसे जलने लगा । वह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्याओंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, शत्रुके सन्मुख चढ़ाई करनेवाले मार्ग कुशल एवं अनेक अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित योद्धाओंसे आवृत होकर रथावर्त नामक पर्वतपर आ पहुँचा ॥ १५६-१५७ ॥ अश्वघ्रीवकी चढ़ाई सुनकर शत्रुओंके लिए अत्यन्त कठोर त्रिपृष्ठकुमार भी अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ पहलेसे ही आकर वहाँ आ बटा ॥ १५८ ॥ जो युद्धके लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं, स्वयं तथा अपने साथी अन्य धनुषधारियोंके साथ बाण-वर्षाकर जिन्होंने सूर्यको ढक लिया है और जो यथोक्त व्यूहकी रचना करनेवाले, पैदल सिपाहियोंसे

गजः कर्णारवेणेव वज्रेणेव महाचलः । भास्करेणान्वकारो वा त्रिपृष्ठेन पराजितः ॥ १६१ ॥  
 स बिलक्षो हयग्रीवो मायायुद्धेऽपि निजितः । चक्रं सम्प्रेषयामास त्रिपृष्ठमभि निष्ठुरम् ॥ १६२ ॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य मङ्क्षु तदक्षिणे भुजे । तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपुं प्रस्थक्षिपक्रुधा ॥ १६३ ॥  
 खण्डद्वयं हयग्रीवग्रीवां सद्यो व्यधाददः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन त्रिपृष्ठञ्चार्धचक्रिणम् ॥ १६४ ॥  
 विजयेनात्र लब्धेन विजयेनेव चक्रभृत् । विजयार्धं समं गत्वा रथनूपुरभूपतिम् ॥ १६५ ॥  
 श्रेणिद्वयाधिपत्येन प्रापयश्चक्रवर्तिताम् । प्रभोरभूत्फलस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसादयोः ॥ १६६ ॥  
 राज्यलक्ष्मीं चिरं भुक्त्वाप्यनुत्पत्या भोगकांक्षया । मृत्वागात्ससर्मीं पृथ्वीं बह्वारम्भपरिग्रहः ॥ १६७ ॥  
 परस्परकृतं दुःखमनुभूय चिरायुषा । स्वधात्रीकृतदुःखञ्च तस्माच्छिर्गत्य दुस्तरात् ॥ १६८ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते गङ्गानदीतटसमीपगे । वने सिंहगिरौ सिंहो भूत्वाऽसौ वृंहिताहसा ॥ १६९ ॥  
 रत्नप्रभां प्रविश्यैव प्रज्वलद्ब्रह्मिमासवान् । दुःखमेकाधिमेयायुस्ततश्च्युत्वा पुनश्च सः ॥ १७० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् 'सिन्धुकूटस्य प्राग्भागे हिमवद्रिरे । सानावभून्मृगाधीशो ज्वलत्केसरभासुरः ॥ १७१ ॥  
 तीक्ष्णद्रंष्ट्राकरालाननः कदाचिद्विभीषणः । कञ्चिन्मृगमवष्टभ्य भक्षयन् स समीक्षितः ॥ १७२ ॥  
 अत्रेऽमितगुणेनामा गच्छतातिकृपालुना । अजितक्षयनामाप्रचारणेन मुनीशिना ॥ १७३ ॥  
 स मुनिस्तीर्थनाथोक्तमनुस्मृत्यानुकम्पया । अवतीर्थं नभोमार्गात्समासाद्य मृगाधिपम् ॥ १७४ ॥  
 शिलातले निविश्योच्चैर्धर्म्या वाचमुदाहरत् । 'भो भो भव्यमृगाधीश त्वं त्रिपृष्ठभवे पुरा ॥ १७५ ॥  
 परार्थं पञ्चधा प्रोक्तं मृदुशय्यातले चिरम् । स्वैरं कान्ताभिरिष्टाभिरभीष्टं सुखमन्वभूः ॥ १७६ ॥

घिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियोंसे महाबलवान् हैं ऐसे वे दोनों योद्धा क्रुद्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥ १५६-१६० ॥ जिस प्रकार सिंह हाथीको भगा देता है, वज्र महापर्वतको गिरा देता है और सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार त्रिपृष्ठने अश्वग्रीवका पराजित कर दिया ॥ १६१ ॥ जब अश्वग्रीव मायायुद्धमें भी पराजित हो गया तब उसने लज्जित होकर त्रिपृष्ठके ऊपर कठोर चक्र चला दिया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर आकर स्थिर हो गया । त्रिपृष्ठने भी उसे लेकर क्रोधवश शत्रुपर चला दिया ॥ १६२-१६३ ॥ उसने जाते ही अश्वग्रीवकी ग्रीवाके दो टुकड़े कर दिये । त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिपृष्ठको अर्धचक्रवर्तीका पद मिला ॥ १६४ ॥ युद्धमें प्राप्त हुई विजयके समान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ, विजयार्ध पर्वतपर गया और वहाँ उसने रथनूपुर नगरके राजा ज्वलनजटीको दोनों श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके क्रोध और प्रसन्न होनेका फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥ १६५-१६६ ॥ उस त्रिपृष्ठने चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपयोग किया परन्तु तृप्त न होनेके कारण उसे भोगोंकी आकांक्षा बनी रही । फलस्वरूप बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहका धारक होनेसे वह मरकर सातवें नरक गया ॥ १६७ ॥ वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखको तथा पृथिवी सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक भोगता रहा । अन्तमें उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह तीव्र पापके कारण इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें गङ्गानदीके तटके समीपवर्ती वनमें सिंहगिरि पर्वतपर सिंह हुआ । वहाँ भी उसने तीव्र पाप किया अतः जिसमें अग्नि जल रही है ऐसी रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमें गया । वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपमें सिन्धुकूटकी पूर्व दिशामें हिमवत् पर्वतकी शिखरपर देदीप्यमान बालोंसे सुशोभित सिंह हुआ ॥ १६८-१७१ ॥ जिसका मुख पैनी दाढ़ोंसे भयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करनेवाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खा रहा था । उसी समय अतिशय दयालु अजितंजयनामक चारण मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे । उन्होंने उस सिंहको देखा, देखते ही वे तीर्थकरके वचनोंका स्मरण कर दयावश आकाशमार्गसे उतर कर उस सिंहके पास पहुँचे और शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय वचन कहने लगे । उन्होंने कहा कि हे भव्य मृगराज ! तूने पहले त्रिपृष्ठके भवमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयोंका अनुभव

दिव्यं सर्वरसं भोग्यं रसनेन्द्रियतर्पणम् । स्पर्धमानमशुद्धाः प्राक्सुधाभृतरसायनैः ॥ १७७ ॥  
 धूपानुलेपनैर्मात्स्यैश्चूर्णैर्वासैः<sup>१</sup> सुगन्धिभिः । तापितं सुचिरं तत्र त्वया प्राणपुटद्वयम् ॥ १७८ ॥  
 रसभावसमाविष्टं विचित्रकरणोचितम् । नृचं निरीक्षितं चित्रमङ्गनाभिः प्रयोजितम् ॥ १७९ ॥  
 शुद्धदेशजभेदं तत् पट्टजादिस्वरससकम् । चेतनेतरमिश्रोत्थं पूरितं कर्णयोर्द्वयोः ॥ १८० ॥  
 त्रिखण्डमण्डिते<sup>२</sup> क्षेत्रे जातं सर्वं ममैव तत् । इत्याभिमानीकं सौख्यं मनसा चिरमन्वभूः ॥ १८१ ॥  
 एवं वैषयिकं सौख्यमन्वभूयाप्यतृप्तवान् । श्रद्धापञ्चव्रतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥ १८२ ॥  
 भीमां वैतरणीं तत्र प्रज्वलद्धारिपूरिताम् । प्रवेशितोऽसि पापिष्ठैः प्राक्शक्तया कृतसज्जनः ॥ १८३ ॥  
 ज्वलज्ज्वालाकरालो<sup>३</sup> स्थाखण्डगण्डोपलाचले ।<sup>४</sup> प्रधावितोऽसि तद्दृक्छिन्नच्छिन्नाखिलाङ्गकः ५ १८४ ॥  
 कदम्बवालुकातापट्टुष्टाष्टावयवोऽप्यभूः । प्रज्वलच्चितिकाक्षिसो भस्मसान्नावमागतः ॥ १८५ ॥  
 तस्मात्स्विण्डनिर्घातैश्चण्डैः सञ्चूर्णितोऽप्यभूः । निस्त्रिंशच्छदसंछन्नवनेषु भ्रान्तवान्मुहुः ॥ १८६ ॥  
 नानापक्षिमृगैः कालकौलेयककुलैरलम् । परस्पराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥ १८७ ॥  
 बद्धो बहुविधैर्बन्धैर्निष्ठुरं निष्ठुराशयैः । कर्णोष्ठनासिकादीनां छेदनैर्बाधितो भृशम् ॥ १८८ ॥  
 पापैः समानशूलानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःखमवशोऽनुभवश्चिरम् ॥ १८९ ॥  
 प्रलापाक्रन्दरोदादिवाङ्मिरुद्धहरिद्रथा । शरणं प्रार्थयन्दैन्यादप्राप्यातीव दुःखितः ॥ १९० ॥

किया है। तूने कोमल शय्यातलपर मनोभिलापित स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक मनचाहा सुख स्वच्छन्दता पूर्वक भोगा है ॥ १७२-१७६ ॥ रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसोंसे परिपूर्ण तथा अमृतरसायनके साथ स्पर्धा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है ॥ १७७ ॥ उसी त्रिपुष्टके भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाओंसे, चूर्णोंसे तथा अन्य सुवासोंसे चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट संतुष्ट किये हैं ॥ १७८ ॥ रस और भावसे युक्त, विविध करणोंसे संगत, स्त्रियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा है ॥ १७९ ॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, और जो चेतन-अचेतन एवं दोनोंसे उत्पन्न होते हैं ऐसे षड्ज आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं ॥ १८० ॥ तीन खण्डसे सुशोभित क्षेत्रमें जो छुड्ड उत्पन्न हुआ है वह सब मेरा ही है इस अभिमानसे उत्पन्न हुए मानसिक सुखका भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है ॥ १८१ ॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख भोगकर भी संतुष्ट नहीं हो सका और सम्यग्दर्शन तथा पाँच व्रतोंसे रहित होनेके कारण सप्तम नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १८२ ॥ वहाँ खौलते हुए जलसे भरी वैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुझे पापी नारकियोंने घुसाया और तुझे जवर्दस्ती स्नान करना पड़ा ॥ १८३ ॥ कभी उन नारकियोंने तुझे जिसपर जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर उल्लल-उल्ललकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही थीं ऐसे पर्वतपर दौड़ाया और तेरा समस्त शरीर टांकीसे छिन्न-भिन्न हो गया ॥ १८४ ॥ कभी माड़की बालूकी गर्मोंसे तेरे आठों अङ्ग जल जाते थे और कभी जलती हुई चितामें गिरा देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था ॥ १८५ ॥ अत्यन्त प्रचण्ड और तपाये हुए लोहके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलधार-जैसे पत्तोंसे आच्छादित वनमें बार-बार घुमाया जाता था ॥ १८६ ॥ अनेक प्रकारके पक्षी वनपशु और कालके समान कुत्तोंके द्वारा तू दुःखी किया जाता था तथा परस्पर की मारकाट एवं ताडनाके द्वारा तुझे पीड़ित किया जाता था ॥ १८७ ॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुझे बड़ी निर्दयताके साथ अनेक प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते थे और कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुझे बहुत दुःखी करते थे ॥ १८८ ॥ पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकारके तीक्ष्ण शूलोंपर चढ़ा देते थे। इस तरह तूने परवश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे ॥ १८९ ॥ वहाँ तूने प्रलाप आक्रन्द तथा रोना आदिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाओंको व्याप्त कर बड़ी दीनतासे शरणकी

१ वामाः ल० । २ मण्डितक्षेत्रे ल० । ३ करालोग्रा-म० । करालोच्चा-इति क्वचित् ।

४ प्रबोधितोऽसि इत्यपि क्वचित् ।

न्वायुरन्ते विनिर्याय ततो भूत्वा मृगाधिपः । क्षुत्पिपासादिभिर्वातासपवर्षादिभिश्च धिक् ॥ १९१ ॥  
 १वाध्यमानः पुनः प्राणिहिंसया मांसमाहरन् । क्रूरः पापं समुच्चित्य पृथिवीं प्रथमामगाः ॥ १९२ ॥  
 ततोऽपीह समुद्भूय क्रौर्यमेवं समुद्रहन् । महदंहः समावर्ज्य दुःखायोस्त्वहसे पुनः ॥ १९३ ॥  
 अहो प्रवृद्धमज्ञानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पापिस्तत्त्वे न जानासीत्याकर्ण्य तदुदीरितम् ॥ १९४ ॥  
 सद्यो जातिस्मृतिं गत्वा घोरसंसारदुःखजात् । भयाच्चलितसर्वाङ्गो गलद्वाष्पजलोऽभवत् ॥ १९५ ॥  
 लोचनाभ्यां हरेर्बाष्पसलिलं न्यगलच्चिरम् । सम्यक्त्वाय हृदि स्थानं मिथ्यात्वमिब दिंत्सु तत् ॥ १९६ ॥  
 प्रत्यासन्नविनेयानां स्मृतप्राणजन्मजन्मिनाम् । पश्चात्तापेन यः शोकः संसृती स न कस्यचित् ॥ १९७ ॥  
 हरिं शान्तान्तरङ्गत्वात्स्वस्मिन्बद्धनिरीक्षणम् । विलोक्यैष हितग्राहीत्याहैवं स मुनिः पुनः ॥ १९८ ॥  
 पुरा पूरुखा भूत्वा धर्मात्सौधर्मकल्पजः । जातस्ततोऽवतीर्यान्न मरीचिरतिदुर्मतिः ॥ १९९ ॥  
 सन्मार्गदूषणं कृत्वा कुमार्गमतिवर्षयन् । बृषभस्वामिनो वाक्यमनाहत्याजवञ्जवे ॥ २०० ॥  
 भ्रान्तां जातिजरामृत्युसन्ततेः पापसञ्चयात् । विप्रयोगं प्रियैर्योगमप्रियैरामुर्वन्धिरम् ॥ २०१ ॥  
 अपरञ्च महादुःखं बृहत्पापोदयोदितम् । त्रसस्थावरसम्भूतावसङ्ख्यातसमा भ्रमन् ॥ २०२ ॥  
 केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दिस्वमाप्तवान् । संयमं त्वं निदानेन त्रिपृष्ठत्वमुपेयिवान् ॥ २०३ ॥  
 इतोऽस्मिन्दशमे भावी भवेऽन्यस्तीर्थकृद्भवान् । सर्वमश्रावि तीर्थैशान्मयेदं श्रीधराह्वयात् ॥ २०४ ॥  
 अद्यप्रभृति संसारघोरारण्यप्रपातनात् । भीमन्विरम दुर्मागद्वारमात्महिते मते ॥ २०५ ॥  
 क्षेमञ्चेदासुमिच्छास्ति कामं लोकाग्रधामनि । आसागमपदार्येषु श्रद्धां धत्स्वेति तद्ब्रुचः ॥ २०६ ॥

प्रार्थना की परन्तु तुम्हें कहीं भी शरण नहीं मिली जिससे अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ १९० ॥ अपनी  
 आयु समाप्त होनेपर तू वहाँसे निकलकर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख-प्यास वायु गर्मी वर्षा आदि  
 की बाधासे अत्यन्त दुःखी हुआ । वहाँ तू प्राणिहिंसाकर मांसका आहार करता था इसलिए क्रूरताके  
 कारण पापका संचयकर पहले नरक गया ॥ १९१-१९२ ॥ वहाँसे निकलकर तू फिर सिंह हुआ है  
 और इस तरह क्रूरता कर महान् पापका अर्जन करता हुआ दुःखके लिए फिर उत्साह कर रहा है  
 ॥ १९३ ॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीके प्रभावसे तू तत्त्वको नहीं जानता है ।  
 इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जातिस्मरण हो गया । संसारके भयंकर  
 दुःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा आँखोंसे आँसू गिरने लगे ॥ १९४-  
 १९५ ॥ सिंहकी आँखोंसे बहुत देर तक अश्रुरूपी जल गिरता रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो  
 हृदयमें सम्यक्त्वके लिए स्थान देनेकी इच्छासे मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥ १९६ ॥ जिन्हें  
 पूर्व जन्मका स्मरण हो गया है ऐसे निकटभव्य जीवोंको पश्चात्तापसे जो शोक होता है वह शोक  
 संसारमें किसीको नहीं होता ॥ १९७ ॥ मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया  
 है और यह मेरी ही ओर देख रहा है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना  
 हित ग्रहण करेगा, ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरुषवा भील था फिर  
 धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रमें अत्यन्त दुर्मति मरीचि  
 हुआ ॥ १९८-१९९ ॥ उस पर्यायमें तूने सन्मार्गको दूषित कर कुमार्गकी वृद्धि की । श्री ऋषभदेव  
 तीर्थकरके वचनोंका अनादर कर तू संसारमें भ्रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और  
 मरणके दुःख भोगता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट  
 संयोगका तीव्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रसस्थावर योनियोंमें असंख्यात वर्ष तक भ्रमण  
 किया ॥ २००-२०२ ॥ किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान  
 कर त्रिपृष्ठ नारायणका पद प्राप्त किया ॥ २०३ ॥ अब इस भवसे तू दशवें भवमें अन्तिम तीर्थकर  
 होगा । यह सब मैंने श्रीधर तीर्थकरसे सुना है ॥ २०४ ॥ हे बुद्धिमान् ! अब तू आजसे लेकर  
 संसाररूपी अटवीमें गिरानेवाले मिथ्यामार्गसे विरत हो और आत्माका हित करनेवाले मार्गमें रमण  
 कर—उसीमें लीन रह ॥ २०५ ॥ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा है और लोकके अग्रभाग पर तू

विधाय हृदि योगीन्द्रयुग्मं भक्तिभराहितः । मुहुः प्रदक्षिणीकृत्य प्रप्रणम्य मृगाधिपः ॥ २०७ ॥  
 तत्त्वश्रद्धानमासाद्य सद्यः कालादिलब्धितः । प्रणिधाय मनःश्रावकव्रतानि समाददे ॥ २०८ ॥  
 दया मुनिगिरास्यन्ती क्रूरतां तन्मनोऽविशद् । कालस्य बलमप्राप्य को विपक्षं निरस्यति ॥ २०९ ॥  
 स्थिररौद्ररसः सद्यः स शर्मं समधारयत् । यच्छैल्यसमो मोहक्षयोपशमभावतः ॥ २१० ॥  
 व्रतं नैतस्य सामान्यं निराहारं यतो विना । क्रव्यादन्यस्य नाहारः साहसं किमतः परम् ॥ २११ ॥  
 व्रतं प्राणव्ययात्तेन यन्निर्युद्धमखण्डितम् । ततोऽभूत्फलितं शौर्यं प्राच्यं तस्यैव घातकम् ॥ २१२ ॥  
 तमस्तमःप्रभायाञ्च खलु सम्यक्त्वमादिमम् । निसर्गादेव गृह्णन्ति तस्मादस्मिन्न विस्मयः ॥ २१३ ॥  
 निरुद्धसर्वदुर्वृतः सर्वसङ्गरासंमुखः । प्रावर्तत चिरं धीरः समीप्युः परमं पदम् ॥ २१४ ॥  
 संयमासंयमादूर्ध्वं तिरश्चां नेति सूनुते । रुद्धस्तेनान्यथा मोक्तेत्युक्तेरासीत्स गोचरः ॥ २१५ ॥  
 तच्छौर्यं क्रौर्यसन्दीप्यं किल सप्रति सङ्क्षयम् । कलधौतमिवातसं निक्षिप्तं शीतलेऽम्भसि ॥ २१६ ॥  
 स्वार्थं मृगारिशाब्दोऽसौ जहौ तस्मिन् दयावति । प्रायेण स्वामिशीलस्य संश्रितानां प्रवर्तते ॥ २१७ ॥  
 लिखितो वा सजीवानां वपुषैव न चेतसा । अभयाय तथा शान्तो दयामाहात्म्यमीदृशम् ॥ २१८ ॥  
 एवं व्रतेन सन्न्यस्य समाहितमतिर्भ्रूसुः । सद्यः सौधर्मकल्पेऽसौ सिंहकेतुः सुरोऽजनि ॥ २१९ ॥  
 ततो द्विसागरायुष्को<sup>३</sup> निविष्टामरसौख्यकः । निष्क्रम्य घातकीखण्डपूर्वमन्दरपूर्वगे ॥ २२० ॥

स्थिर रहना चाहता है तो आप आगम और पदार्थोंकी श्रद्धा धारण कर ॥ २०६ ॥

इस प्रकार उस सिंहने मुनिराजके वचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजोंकी भक्तिके भारसे नम्र होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि लब्धियोंके मिल जानेसे शीघ्र ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ २०७-२०८ ॥ मुनिराजके वचनोंसे क्रूरता दूरकर द्याने सिंहके मनमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि कालका बल प्राप्त किये बिना ऐसा कौन है जो शत्रुको दूर हटा सकता है ? ॥ २०९ ॥ मोहनीय कर्मका क्षयोपशम होनेसे उस सिंहका रौद्र रस स्थिर हो गया और उसने नटकी भौंति शीघ्र ही शान्तरस धारण कर लिया ॥ २१० ॥ निराहार रहनेके सिवाय उस सिंहने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया क्योंकि मांसके सिवाय उसका और आहार नहीं था । आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है ? ॥ २११ ॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चूँकि उसने अपने व्रतका अखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरता सफल हुई थी और उसकी वह पुरानी शूरता उसीका घात करनेवाली हुई थी ॥ २१२ ॥ तमस्तमःप्रभा नामक सातवें नरकके नारकी उपशम सम्यग्दर्शनको स्वभावसे ही ग्रहण कर लेते हैं इसलिए सिंहके सम्यग्दर्शन ग्रहण करनेमें आश्चर्य नहीं है ॥ २१३ ॥ परमपदकी इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छोड़कर सब सदाचारोंके सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥ २१४ ॥ 'तिर्यञ्चोके संयमासंयमके आगेके व्रत नहीं होते ऐसा आगममें कहा गया है इसी लिए वह रुक गया था अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता' वह इस कहावतका विषय हो रहा था ॥ २१५ ॥ जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुवर्ण शीतल जलमें डालनेसे ठंडा हो जाता है उसी प्रकार क्रूरतासे बड़ी हुई उसकी शूरवीरता उस समय बिल्कुल नष्ट हो गई थी ॥ २१६ ॥ दयाको धारण करनेवाले उस सिंहमें मृगारि शब्दने अपनी सार्थकता छोड़ दी थी अर्थात् अब वह मृगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठीक ही है क्योंकि आश्रित रहनेवाले मनुष्योंका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान ही हो जाता है ॥ २१७ ॥ वह सिंह सब जीवोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे भी वह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक ही है क्योंकि दयाका माहात्म्य ही ऐसा है ॥ २१८ ॥ इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाग्र चित्तसे मरा और शीघ्र ही सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका देव हुआ ॥ २१९ ॥ वहाँ उसने दो सागरकी

१ प्रवर्तितम् घ० । २ लिखितः सोऽन्यजीवानां क०, म० । ३ द्विसागरायुष्यः ल० ।

विदेहे मङ्गलावत्यां विषये <sup>१</sup>खेचराचले । परार्ध्यमुत्तरश्रेण्यां नगरं कनकप्रभम् ॥ २२१ ॥  
 पतिः कनकपुङ्खाख्यस्तस्य विद्याधराभिपः । प्रिया कनकमालाभूरायोस्तुक्कनकोज्ज्वलः ॥ २२२ ॥  
 सार्धं कनकवत्यासौ मन्दरं क्रीडितुं गतः । समीक्ष्य प्रियमित्राख्यमवधिज्ञानवीक्षणम् ॥ २२३ ॥  
 भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य कृती कृतनमस्कृतिः । ब्रूहि धर्मस्य सज्जावं <sup>२</sup>पूज्येति परिगृष्टवान् ॥ २२४ ॥  
 धर्मो दयामयो धर्मं श्रय धर्मेण नीयसे । मुक्तिं धर्मेण कर्माणि छिन्धि <sup>३</sup>धर्माय सन्मतिम् ॥ २२५ ॥  
 देहि <sup>४</sup>नापेहि धर्मात्वं याहि धर्मस्य भृत्यताम् । धर्मे तिष्ठ चिरं धर्मं पाहि मामिति <sup>५</sup>चिन्तय ॥ २२६ ॥  
 इति धर्मं विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम् । सन्ततं चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणैः ॥ २२७ ॥  
 इत्यब्रवीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तद्ब्रुवः । वृषितो वा जलं तस्मात् पीतधर्मरसायनः ॥ २२८ ॥  
 भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रहः । चिरं संयम्य सन्न्यस्य कल्पेऽभूत्सप्तमेऽमरः ॥ २२९ ॥  
 त्रयोदशाब्धिमानायुरात्मसात्कृततत्सुखः । सुखेनास्मात्समागत्य सुसमाहितचेतसा ॥ २३० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्कोसले देशे साकेतनगरेऽशिनः । वज्रसेनमहीपस्य शीलवत्यामजायत ॥ २३१ ॥  
 हरिवेणः कृताशेषहर्षो नैसर्गिकैर्गुणैः । वशीकृत्य श्रियं स्वस्य चिरं कुलवधूमिव ॥ २३२ ॥  
 मालां वा लुप्तसारां तां परित्यज्य ययौ शमम् । <sup>६</sup>सुव्रतं <sup>७</sup>सुश्रुतं श्रित्वा सद्गुरुं श्रुतसागरम् ॥ २३३ ॥  
 वर्षमानव्रतः प्रान्ते महाशुक्रेऽजनिष्ट सः । षोडशाभोधिमैयायुराविर्भूतसुखोदयः ॥ २३४ ॥  
 अस्तमभ्युद्यताको वा प्रान्तकालं समासवान् । धातकीखण्डपूर्वाशा विदेहे पूर्वभागे <sup>८</sup> ॥ २३५ ॥

आयु तक देवोंके सुख भोगे । तदनन्तर वहाँसे चयकर वह, धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पूर्वकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसके मङ्गलावती देशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनक-प्रभ नगरके राजा कनकपुङ्ख विद्याधर और कनकमाला रानीके कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥ २२०-२२२ ॥ किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्दर-गिरि पर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिके दर्शन किये ॥ २२३ ॥ उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको नमस्कार किया और 'हे पूज्य! धर्मका स्वरूप कहिये' इस प्रकार उनसे पूछा ॥ २२४ ॥ उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, तू धर्मका आश्रय कर, धर्मके द्वारा तू मोक्षके निकट पहुंच रहा है, धर्मके द्वारा कर्मका बन्धन छेद, धर्मके लिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, धर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह और 'हे धर्म मेरी रक्षकर' सदा इस प्रकारकी चिन्ता कर ॥ २२५-२२६ ॥ इस प्रकार धर्मका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका निरन्तर चिन्तवन किया कर । ऐसा करनेसे तू कुछ ही समयमें मोक्षको प्राप्त हो जावेगा ॥ २२७ ॥ इस तरह मुनिराजने कहा । मुनिराजके वचन हृदयमें धारण कर और उनसे धर्मरूपी रसायनका पानकर वह ऐसा सन्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर संतुष्ट होता है ॥ २२८ ॥ उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया और चिर-काल तक संयम धारणकर अन्तमें सन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे वह सातवें स्वर्गमें देव हुआ ॥ २२९ ॥ वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने वहाँके सुख भोगे और सुखसे काल व्यतीतकर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े । वहाँ से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेत नगरके स्वामी राजा वज्रसेनकी शीलवती रानीसे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सबको हर्षित करने वाला हरिवेण नामका पुत्र हुआ । उसने कुलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने वश कर ली ॥ २३०-२३२ ॥ अन्तमें उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी और उत्तम व्रत तथा उत्तम शास्त्र-ज्ञानसे सुशोभित श्रीश्रुतसागर नामके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ २३३ ॥ जिसके व्रत निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिवेण आयुका अन्त होनेपर महाशुक्र स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ । वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा ॥ २३४ ॥ जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको

१ खेचराचले ज० । २ ममेति ज० । ३ हन्ता ज० । ४ मावेहि ज० । ५ चार्थय इति कश्चित् ।

६ सव्रतं । ७ सभुतं इति कश्चित् । ८ पूर्वसागरे ज० ।

विषये पुष्कलावत्यां धरेशः पुण्डरीकिणी । पतिः सुमित्रविख्यातिः सुव्रतास्य<sup>१</sup> मनोरमा ॥ २३६ ॥  
 प्रियमित्रस्तयोरासीचनयो नयभूषणः । नात्रैव नमिताशेषविद्विषश्चक्रवर्तिताम् ॥ २३७ ॥  
 सम्प्राप्य भुक्तभोगाङ्गो भङ्गुरान्सर्वसङ्गमान् । क्षेमङ्करजिनाधीशवक्त्राम्भोजविनिर्गतात्<sup>२</sup> ॥ २३८ ॥  
 तत्त्वगर्भगभीरार्थवाक्यान्मत्वा विरक्तवान् । सर्वमित्राख्यसूनौ स्वं राज्यभारं निधाय सः ॥ २३९ ॥  
<sup>३</sup>भन्यभूपसहस्रेण सह संयममाददे । प्रतिष्ठानं यमास्तस्मिन्नवा<sup>४</sup>पंस्तेऽष्टमातृभिः ॥ २४० ॥  
 प्रान्ते प्राप्य सहस्रारमभूत्सूर्यप्रभोऽमरः<sup>५</sup> । सुखाष्टादशवाध्यायुर्बृद्धिर्भुक्तभोगकः ॥ २४१ ॥  
 मेघाद्विद्युद्विशेषो वा ततः स्वर्गाद्विनिर्गतः । छत्राकारपुरेऽत्रैव नन्दिवर्धनभूसुजः ॥ २४२ ॥  
 वीरवत्याश्च नन्दाख्यस्तनूजः सुजनोऽजनि । निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स श्रेष्ठं प्रोष्ठिलं गुरुम् ॥ २४३ ॥  
 सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्य<sup>६</sup> निर्णीतासागमार्थकः । संयमं सम्प्रपद्याशु स्वीकृतैकादशाङ्गकः ॥ २४४ ॥  
 भावयित्वा भवध्वंसि तीर्थकृत्नामकारणम् । बध्वा तीर्थकरं नाम सहोच्चैर्गोत्रकर्मणा ॥ २४५ ॥  
 जीवितान्ते<sup>७</sup> समासाद्य सर्वमाराधनाविधिम् । पुष्पोत्तरविमानेऽभूदच्युतेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ २४६ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमेयायुररत्नित्रयदेहकः । शुक्लेऽद्याद्वयोपेतो द्वाविंशत्या स निःश्वसन् ॥ २४७ ॥  
 पक्षैस्तावत्सहस्राब्दैराहरन् मनसामृतम् । सदा मनःप्रवीचारो भोगसारेण तृप्तवान् ॥ २४८ ॥  
<sup>८</sup>आषष्ठपृथिवीभागाद्वाधासावधिविलोचनः । स्वावधिक्षेत्रसंमेयबलाभाविक्रियावधिः ॥ २४९ ॥

प्राप्त हुआ और वहाँसे चलकर धातकीखण्डद्वीपकी पूर्व दिशा सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके पूर्वभागमें स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरमें राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नामकी रानीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ । वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूषित था, उसने अपने नामसे ही समस्त शत्रुओंको नष्टीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्तकर समस्त प्रकारके भोगोंका उपभोग किया था । अन्तमें वह क्षेमङ्कर नामक जिनेन्द्र भगवान्के मुखारविन्दसे प्रकट हुए, तत्त्वों से भरे हुए और गम्भीर अर्थको सूचित करने वाले वाक्योंसे सब पदार्थोंके समागमको भङ्गुर मानकर विरक्त हो गया तथा सर्वमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार देकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गया । पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप आठ प्रवचन-मातृकाओंके साथ-साथ अहिंसा महाव्रत आदि पाँच महाव्रत उन मुनिराजमें पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए थे ॥ २३५-२४० ॥ आयुका अन्त होनेपर वे सहस्रार स्वर्गमें जाकर सूर्यप्रभ नामके देव हुए । वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियाँ बढ़ रही थीं और वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे ॥ २४१ ॥ जिस प्रकार मेघसे एक विशेष प्रकारकी बिजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वर्गसे च्युत हुआ और इसी जन्मद्वीपके छत्रपुर नगरके राजा नन्दिवर्धन तथा उनकी वीरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र हुआ । इष्ट अनुष्ठानको पूरा कर अर्थात् अभिलषित राज्यका उपभोग कर वह प्रोष्ठिल नामके श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा । वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थका निर्णय किया, संयम धारण कर लिया और शीघ्र ही ग्यारह अङ्गोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ २४२-२४४ ॥ उसने तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कारण भूत और संसारको नष्ट करने वाली दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनान्नोंका चिन्तवनकर उच्चगोत्रके साथ-साथ तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया ॥ २४५ ॥ आयुके अन्त समय सब प्रकारकी आराधनाओं को प्राप्तकर वह अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ॥ २४६ ॥ वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और अन्न दोनों ही शुकुल लेश्याएँ थीं, बाईस पक्षमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें एक बार अपनसिक अमृतका आहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचार करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा तृप्त रहता था ॥ २४७-२४८ ॥ उसका अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छठवीं पृथिवी तककी बात जानता था और उसके

१ सुव्रताख्या ल० । २ विनिर्गतात् ल० । ३ राजकेन सहस्रेण इत्यपि कश्चित् । ४ नवापुस्तं ल० । नवापन नष्ट ल० । ५ सूर्यप्रभामरः ल० । ६ निर्णीतासागमार्थकः ल० । ७ समासाद्य क०, ल०, म० । ८ आषष्ठपृथिवी भागात्विधावधि ल० ।



सामानिकादिभिर्देवैर्देवीभिश्च परिष्कृतः । पुण्योदयविशेषेण मज्जति स्म सुखाम्बुधौ ॥ २५० ॥  
 तस्मिन्पन्मासशेषायुष्यानाकादागमिष्यति । भरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये भवनाङ्गणे ॥ २५१ ॥  
 राज्ञः कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतपृथुः । सप्तकोटिर्मणिः सार्धां सिद्धार्थस्य दिनप्रति ॥ २५२ ॥  
 आषाढस्य सिते पक्षे षष्ठ्यां शशिनि चोत्तरा । षाढे सप्ततलप्रासादस्याभ्यन्तरवर्तिनि ॥ २५३ ॥  
 नन्द्यावर्तगृहे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते । रत्नपर्यङ्गके हंसतूलिकादिविभूषिते ॥ २५४ ॥  
 रौद्रराक्षसगन्धर्वयामप्रितयनिर्गमे । मनोहराख्यतुर्यस्य यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २५५ ॥  
<sup>१</sup>दरनिद्रावलोकिष्ट विशिष्टफलदायिनः । स्वमान् षोडशविच्छिन्नान् प्रियास्य प्रियकारिणां ॥ २५६ ॥  
 तदन्तेऽपश्यदन्त्यञ्च गजं वक्त्रप्रवेशिनम् । प्रभातपदहृच्चानैः पठितैर्विन्दिमागधैः ॥ २५७ ॥  
 मङ्गलैश्च प्रबुद्धगान्धु ज्ञात्वा पुण्यप्रसाधना । सा सिद्धार्थमहाराजमुपगम्य कृतानतिः ॥ २५८ ॥  
 सम्प्राप्तार्थासना स्वमान्यथाक्रममुदाहरत् । सोऽपि तेषां फलं भावि <sup>२</sup>यथाक्रममबुद्धुधत् ॥ २५९ ॥  
 श्रुतस्वप्नफला देवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फलम् । अथामराधिपाः सर्वे तयोरभ्येत्य सम्पदा ॥ २६० ॥  
 कल्याणाभिपत्रं कृत्वा नियोगेण यथोचितम् । देवान् देवीश्च संयोज्य स्वं स्वं धाम ययुः पृथक् ॥ २६१ ॥  
 नवमे मासि सम्पूर्णे चैत्रे मासि त्रयोदशी- । दिने शुक्ले शुभे योगे सत्यर्थमणि नामनि ॥ २६२ ॥  
<sup>३</sup>अलङ्कारः कुलस्याभूच्छीलानामालयो महान् । आकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्रुतश्रियः<sup>४</sup> ॥ २६३ ॥

बल, कान्ति तथा विक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर ही थी ॥ २४६ ॥ सामानिक देव और देवियोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे सुख रूपी सागरमें सदा निमग्न रहता था ॥ २५० ॥ जब उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गई और वह स्वर्गसे आनेको उद्यत हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थके भवनके आंगनमें प्रतिदिन साढ़े सातकरोड़ रत्नोंकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी ॥ २५१-२५२ ॥ आषाढ़ शुक्ल षष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तराषाढा नक्षत्रमें था तब राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि वाली रानी प्रियकारिणी, सातखण्ड वाले राजमहलके भीतर रत्नमय दीपकोंसे प्रकाशित नन्द्यावर्त नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुशोभित रत्नोंके पलंगपर सो रही थी । जब उस रात्रिके रौद्र, राक्षस और गन्धर्व नामके तीन पहर निकल चुके और मनोहर नामक चौथे पहरका अन्त होनेको आया तब उसने कुछ खुली-सी नींदमें सोलह स्वप्न देखे । सोलह स्वप्नोंके बाद ही उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा । तदनन्तर सबेरके समय बजने वाले नगाड़ोंकी आवाजसे तथा चारण और मागधजनोंके द्वारा पढ़े हुए मङ्गलपाठोंसे वह जाग उठी और शीघ्र ही स्नान कर पवित्र वस्त्राभूषण पहन महाराज सिद्धार्थके समीप गई । वहाँ नमस्कार कर वह महाराजके द्वारा दिये हुए अर्धासनपर विराजमान हुई और यथाक्रमसे स्वप्न सुनाने लगी । महाराजने भी उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥ २५३-२५६ ॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया हो । तदनन्तर सब देवोंने आकर बड़े वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, देव और देवियोंको यथायोग्य कार्योंमें नियुक्त किया और यह सब करनेके बाद वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ २६०-२६१ ॥ तदनन्तर नौवाँ माह पूर्ण होनेपर चैत्र-शुक्ल त्रयोदशीके दिन अर्थमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूर्व दिशामें बाल सूर्य उत्पन्न होता है, रात्रिमें चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक हृदमें गङ्गाका प्रवाह उत्पन्न होता है, पृथिवीमें धनका समूह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दोंका समूह उत्पन्न होता है और लक्ष्मीमें सुखका उदय उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें वह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह पुत्र अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर था, गुणरूपी रत्नोंकी खान था, प्रसिद्ध

१ दरसुता ख०, ग०, घ० । २ यथाचिन्त्य-घ० । यथावका-इति कचित् । ३ अलङ्कारः कुलस्यर्ह-  
 त्पद्मामालयो महान् ख० । ४ विश्रुतश्रियाम् ख० ।

भानुमान् बन्धुपद्मानां भुवनत्रयनायकः । दायको मुक्तिसौख्यस्य प्रायकः सर्वदेहिनाम् ॥ २६४ ॥  
 भर्मद्युतिर्भवध्वंसी भर्मभिल्कर्मविद्विपाम् । धर्मतीर्थस्य धौरेयो निर्मलः १ शर्मवारिधिः ॥ २६५ ॥  
 प्राच्यां दिशीव बालाकौ यामिन्यामिव चन्द्रमाः । पद्मयामिव गङ्गौघो धान्यामिव धनोत्करः ॥ २६६ ॥  
 वाग्वधामिव वाप्राशिल्क्ष्यामिव सुखोदयः । तस्यां सुतोऽच्युताधीशो लोकालोकैकभास्करः ॥ २६७ ॥  
 मानुषाणां सुराणाञ्च तिरश्चाञ्च चकार सा । तत्प्रसूत्या पृथुं प्रीतिं तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥ २६८ ॥  
 सुखाम्भोजानि सर्वेषां तद्राकस्माद्बुधः श्रियम् । प्रमुक्तानि प्रसूनानि प्रमोदास्त्राणि वा दिवा ॥ २६९ ॥  
 ननादानकसङ्घातो ननाट प्रमदागणः । २ जगाद् गायकार्णाकः पपाठौघोऽपि वन्दिनाम् ॥ २७० ॥  
 अवातरन्सुराः सर्वेऽप्युद्गास्यावासमात्मानः । मायाशिशुं पुरोधाय मातुः सौधर्मनायकः ॥ २७१ ॥  
 नागेन्द्रस्कन्धमारोप्य बालं भास्करभास्वरम् । ततो जसा दिशो विश्वाः काशयन्नमरावृतः ॥ २७२ ॥  
 सम्प्राप्य मेरुमारोप्य शिलायां सिंहविष्टरम् । अभिषिच्य ज्वलत्कुम्भैः क्षीरसागरवारिभिः २७३ ॥  
 विशुद्धपुद्गलारब्धदेहस्य विमलात्मनः । शुद्धिरेतस्य कान्भोभिर्दूर्ब्यैरशुचिभिः स्वयम् ॥ २७४ ॥  
 चोदितास्तीर्थकृन्नाम्ना स्वाम्नायोऽयं समागतः । इति कैङ्कर्यमस्यैत्य कृताभिषवणा वयम् ॥ २७५ ॥  
 अलं तदिति तं भक्त्या विभूष्योद्घविभूषणैः । वीरः श्रीवर्धमानोऽश्चेत्यस्याख्याद्वितयं व्यधात् ॥ २७६ ॥  
 ततस्तं स समानीय सर्वाभिरसमन्वितः । सातुरङ्गे निवेश्योच्चैर्विहितानन्दनाटकः ॥ २७७ ॥  
 विभूष्य पितरौ चास्य तयोर्विहितसंमदः । श्रीवर्धमानमानस्य ३ स्वं धाम समगात्सुरैः ॥ २७८ ॥

लक्ष्मीका आधार था, भाईरूपी कमलोको विकसित करनेके लिए सूर्य था, तीनों लोकोंका नायक था, मोक्षका सुख देनेवाला था, समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला था, सूर्यके समान कान्तिवाला था, संसारको नष्ट करनेवाला था, कर्मरूपी शत्रुके मर्मको भेदन करनेवाला था, धर्मरूपी तीर्थका भार धारण करनेवाला था, निर्मल था, सुखका सागर था, और लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेके लिए एक सूर्यके समान था ॥ २६२-२६७ ॥ रानी प्रियकारिणीने उस बालकको जन्म देकर मनुष्यों, देवों और तिर्यञ्चोंको बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम सार्थक हुआ था ॥ २६८ ॥ उस समय सबके मुख-कमलोंने अकस्मात् ही शोभा धारण की थी और आकाशसे आनन्दके आँसुओंके समान फूलोंकी वर्षा हुई थी ॥ २६९ ॥ उस समय नगाड़ोंका समूह शब्द कर रहा था, स्त्रियोंका समूह नृत्य कर रहा था, गानेवालोंका समूह गा रहा था और बन्दीजनोंका समूह मङ्गल पाठ पढ़ रहा था ॥ २७० ॥ सब देव लोग अपने-अपने निवासस्थान को ऊँड़ बनाकर नीचे उतर आये थे । तदनन्तर, सौधर्मन्द्रने मायामय बालकको माताके सामने रखकर सूर्यके समान देदीप्यमान उस बालकको ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया । बालकके तेजसे दशों दिशाओंको प्रकाशित करता और देवोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र सुमेरु पर्वतपर पहुँचा । वहाँ उसने जिनबालकको पाण्डुकशिलापर विद्यमान सिंहासनपर विराजमान किया और क्षीरसागरके जलसे भरे हुए देदीप्यमान कलशोंसे उनका अभिषेककर निम्न प्रकार स्तुति की । वह कहने लगा कि हे भगवन् ! आपकी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, तथा आपका यह शरीर विशुद्ध पुद्गल परमाणुओंसे बना हुआ है इसलिए स्वयं अपवित्र निन्दनीय जलके द्वारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती है ? हम लोगोंने जो अभिषेक किया है वह आपके तीर्थकर नामकर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही किया है अथवा यह एक आम्नाय है—तीर्थकरके जन्मके समय होनेवाली एक विशिष्ट क्रिया ही है इसीलिए हम लोग आकर आपकी किङ्करताको प्राप्त हुए हैं ॥ २७१-२७५ ॥ अधिक कहनेसे क्या ? इन्द्रने उन्हें भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषितकर उनके वीर और श्रीवर्धमान इस प्रकार दो नाम रखे ॥ २७६ ॥ तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें विराजमान किया, बड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता पिताको आभूषण पहिनाये, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकनेके बाद श्रीवर्धमान स्वासीका नमस्कारकर देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥ २७७-२७८ ॥

पार्श्वे शतीर्थसन्ताने पञ्चाशद्विंशताब्दके । तदभ्यन्तरवर्त्यायुर्महावीरोऽत्र जातवान् ॥ २७९ ॥  
 द्वासप्ततिसमाः किञ्चिद्वनास्तस्यायुषः स्थितिः । सप्तारलिमितोत्सेधः सर्वलक्षणभूषितः ॥ २८० ॥  
 निःस्वेदश्वादिनिर्दिष्टदशात्मजगुणोदयः ॥ १ भयसप्तकनिर्मुक्तः सर्वचेष्टाविराजितः ॥ २८१ ॥  
 सञ्जयस्यार्थसन्देहे सञ्जाते विजयस्य च । जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्यालोकमाश्रितः ॥ २८२ ॥  
 तत्सन्देहे<sup>१</sup> गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । अस्वेष सन्मतिर्देवो भावीति समुदाहृतः ॥ २८३ ॥  
 अथिनः किं पुनर्वाच्याः शब्दाश्च गुणगोचराः । अप्राप्तार्थाः परेष्वस्मिन्नर्थवन्तोऽभवन् यदि ॥ २८४ ॥  
 १त्यागोऽयमेव दोषोऽस्य शब्दा २दोषाभिधायिनः । पुष्कलार्थाः परत्रास्माद्रता दूरमनर्थकाः ॥ २८५ ॥  
 न गोमिन्यां न कीर्त्या वा प्रीतिरस्याभवद्विभोः । गुणेष्विव सुलेख्यानां प्रायेण हि गुणाः प्रियाः ॥ २८६ ॥  
 तस्य कालवयोवाञ्छावशेनैलबिलः स्वयम् । भोगोपभोगवस्तूनि स्वर्गसाराण्यहर्दिवम्<sup>४</sup> ॥ २८७ ॥  
 शक्राज्ञया समानीय व्यथं प्रावर्तयत्सदा । अन्येद्युः स्वर्गनाथस्य सभायामभवत्कथा ॥ २८८ ॥  
 देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तच्छ्रुतेः । देवः सङ्गमको नाम सन्प्रासस्तं परीक्षितुम् ॥ २८९ ॥  
 इष्टोद्यानवने राजकुमारैर्बहुभिः सह । काकपक्षधरैरकवथोभिर्बाल्यचोदितम् ॥ २९० ॥  
 कुमारं भास्वराकारं क्रमक्रीडापरायणम् । स विभीषयितुं वाञ्छन् महानागाकृतिं दधत् ॥ २९१ ॥  
 मूलात्प्रभृति भूजस्य यावत्स्कन्धमवेष्टत<sup>३</sup> । विटपेभ्यो निपत्याञ्चु धरित्रीं भयविह्वलाः ॥ २९२ ॥  
 प्रपलायन्त तं इष्ट्वा बालाः सर्वे यथायथम् । महाभये समुत्पन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति ॥ २९३ ॥

श्री पार्श्वनाथ तीर्थकरके बाद दो सौ पचास वर्ष बीत जानेपर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे उनकी आयु भी इस्तीमें शामिल है । कुछ कम बहत्तर वर्षकी उनकी आयु थी, वे सात हाथ ऊँचे थे, सब लक्षणोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना आदि दशगुण उनके जन्म से ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशोभित थे ॥ २७९-२८१ ॥ एक बार सञ्जय और विजय नामके दो चारणमुनियोंको किसी पदार्थमें संदेह उत्पन्न हुआ था परन्तु भगवान्के जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये और उनके दर्शन मात्रसे ही उनका संदेह दूर हो गया इसलिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थकर होनेवाला है, अर्थात् उन्होंने उनका सन्मति नाम रक्खा था ॥ २८२-२८३ ॥ गुणोंको कहनेवाले सार्थक शब्दोंकी तो बात ही क्या थी श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथमें प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे ॥ २८४ ॥ उन भगवान्के त्यागमें यही दोष था कि दोषोंको कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खूब सार्थक हो जाते थे वहाँ वे ही शब्द उन भगवान्के पास आकर दूरसे ही अनर्थक हो जाते थे ॥ २८५ ॥ उन भगवान्की जैसी प्रीति गुणोंमें थी वैसी न लक्ष्मीमें थी और न कीर्तिमें ही थी । सो ठीक ही है क्योंकि शुभलेश्याके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं ॥ २८६ ॥ इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन उन भगवान्के समय आयु और इच्छाके अनुसार स्वर्गकी सारभूत भोगोपभोगकी सब वस्तुएँ स्वयं लाया करता था और सदा खर्च करवाया करता था । किसी एक दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्रीवर्धमान स्वामी ही हैं । यह सुनकर एक सङ्गम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ॥ २८७-२८८ ॥ आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके धारक बालक वर्धमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेवाले तथा समान अवस्थाके धारक अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें तत्पर हैं । यह देख संगम नामका देव उन्हें बरवानेकी इच्छासे किसी बड़े सांपका रूप धारणकर उस वृक्षकी जड़से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया । सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे और शीघ्र ही डालियोंपरसे नीचे जमीनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही है क्योंकि महाभय उपस्थित होनेपर महापुरुषके सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥ २९०-२९३ ॥

१ मद्सप्तक-ख० । २ तत्सन्देहगते ल० । ३ त्यागोऽयमेव ल० । ४ दोषोऽभिधायिनः क०, म० । ५-प्यहर्निशम् ल०, ख० । ६-मभिष्ठितः ख० ।

ललजिह्वाशतास्युग्रमारुह्य तमहिं विभीः । कुमारः क्रीडयामास <sup>१</sup>मातृपर्यङ्कवत्तदा ॥ २९४ ॥  
 विजम्भमाणहर्षाम्भोनिधिः सङ्गमकोऽमरः । स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ २९५ ॥  
 त्रिशच्छरत्रिस्तस्यैवं कौमारभगमद् वयः । ततोऽन्येषुर्मतिज्ञानक्षयोपशमभेदतः ॥ २९६ ॥  
 समुत्पन्नमहाबोधिः स्मृतपूर्वभवान्तरः । लौकान्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः २९७ ॥  
 सकलामरसन्दोहकृतनिष्क्रमणक्रियः । स्ववाक्प्रीणितसद्बन्धुसम्भावितविसर्जनः ॥ २९८ ॥  
 चन्द्रप्रभाख्यशिबिकामधिरूढो दृढव्रतः । ऊढां परिवृद्दैनूणां ततो विद्याधराधिपैः ॥ २९९ ॥  
 ततश्चानिनिषाधीशैश्चलन्नामरसंहतिः । प्रभ्रमद्भ्रमरारावैः कोकिलालापनैरपि ॥ ३०० ॥  
 आङ्गयद्वा प्रसूनौषैः प्रहसद्वा प्रमोदतः । पल्लवैरनुरागं वा स्वकीयं सम्प्रकाशयत् ॥ ३०१ ॥  
 नाथः षण्डवनं प्राप्य स्वयानादवरुह्य सः । श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन <sup>२</sup>स्वप्रभापटलावृते ॥ ३०२ ॥  
 निविद्योदङ्मुखो वीरो हन्द्ररश्मिलालले । दशम्यां मार्गशीर्षस्य कृष्णायां शशिनि श्रिते ॥ ३०३ ॥  
 हस्तोत्तरर्क्षयोर्मध्यं भागं <sup>३</sup>चापास्तलक्ष्मणि । दिवसावसितौ धीरः संयमाभिमुखोऽभवत् ॥ ३०४ ॥  
 वस्त्राभरणमाल्यानि <sup>४</sup> स्वयं शक्रः समाददे । मुकान्येतेन पूतानि मत्वा माहात्म्यमीदृशम् ॥ ३०५ ॥  
 अङ्गरागोऽङ्गलप्रोऽस्य सगन्धोऽहं कथं मया । मोच्योऽयमिति मत्त्वेव स्थितः शोभां समुद्रहन् ॥ ३०६ ॥  
 मलिनाः कुटिला मुग्धैः पूज्यास्त्याज्या मुमुक्षुभिः । केशाः छेशसमास्तेन यूना मूलात्समुद्धृताः ॥ ३०७ ॥

जो लहलहाती हुई सौ जिह्वाओंसे अत्यन्त भयंकर दिख रहा था ऐसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार महावीरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया करते थे ॥ २९४ ॥ कुमारकी इस क्रीड़ासे जिसका हर्षरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम देवने भगवान्की स्तुति की और 'महावीर' यह नाम रक्खा ॥ २९५ ॥ इस प्रकार तीस वर्षोंमें भगवान्का कुमार काल व्यतीत हुआ । तदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमविशेषसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूर्वभवका स्मरण हो उठा । उसी समय स्तुति पढ़ते हुए लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥ २९६-२९७ ॥ समस्त देवोंके समूहने आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर वचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्नकर उनसे विदाली । तदनन्तर व्रतोंको दृढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान् चन्द्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार हुए । उस पालकीको सबसे पहले भूमिगोचरी राजाओंने, फिर विद्याधर राजाओंने और फिर इन्द्रोंने उठाया था । उनके दोनों ओर चामरोंके समूह दुल रहे थे । इस प्रकार वे षण्ड नामके उस वनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरोंके शब्दों और कोकिलाओंकी कमनीय कृकसे ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, फूलोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हर्षसे हँस ही रहा हो, और लाल-लाल पल्लवोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २९८-३०१ ॥ अतिशय श्रेष्ठ भगवान् महावीर, षण्डवनमें पहुँचकर अपनी पालकीसे उतर गये और अपनी ही कान्तिके समूहसे घिरी हुई रत्नमयी बड़ी शिलापर उत्तरकी ओर मुँहकर तैलाका नियम ले विराजमान हो गये । इस तरह मंगसिर वदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब संध्याके समय अतिशय धीर-वीर भगवान् महावीरने संयम धारण किया ॥ ३०२-३०४ ॥ भगवान्ने जो वस्त्र, आभरण तथा माला, आदि उतारकर फेंक दिये थे उन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्का माहात्म्य ही ऐसा था ॥ ३०५ ॥ उस समय भगवान्के शरीरमें जो सुगन्धित अङ्गराग लगा हुआ था वह सोच रहा था कि मैं इन उराम भगवान्को कैसे छोड़ दूँ ? ऐसा विचारकर ही वह मानो उनके शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ ३०६ ॥ मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा पूज्य होते हैं परन्तु मुमुक्षु लोग उन्हें त्याज्य समझते हैं ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण भगवान्ने मलिन और कुटिल ( काले और घुंघुराले ) केश जड़से उखाड़कर दूर फेंक दिये

सुराधीशः स्वहस्तेन तान्प्रतीक्ष्य महामणि । ज्वलत्पटलिकामध्ये विन्यस्याभ्यर्च्य मानितान् ॥ ३०८ ॥  
 विचित्रकरवक्षेण पिपाय विष्टतान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं क्षीरवारिराशौ न्यवेशयत् ॥ ३०९ ॥  
 तपोलक्ष्म्या निगूढोऽभूद्बाढं बाढममूढधीः । अभ्येत्य मोक्षलक्ष्मीष्टान्फल्येव विदधया ॥ ३१० ॥  
 अन्तर्ग्रन्थपरित्यागात्तस्य नैर्ग्रन्थ्यमाबभौ । भोगिनोऽन्यस्य निर्मोकत्यागवशावभासते ॥ ३११ ॥  
 चतुर्थोऽप्यवबोधोऽस्य संयमेन समर्पितः । तदैवान्यावबोधस्य सत्यङ्कार इवेशितुः ॥ ३१२ ॥  
 अप्रमत्तागुणस्थाने मुक्तिसाम्राज्यकण्ठिका । १तपस्तेन २तदालम्बि तत्कथं स्यात्प्रमादिनः ॥ ३१३ ॥  
 चतुर्थज्ञाननेत्रस्य निसर्गबलशालिनः । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रमादिनाम् ॥ ३१४ ॥  
 सिंहेनैव मया प्राप्तं वने मुनिमताद् व्रतम् । मत्वेवेत्येकर्ता तत्र सैर्हीं वृत्तिं समाप सः ॥ ३१५ ॥  
 अतीक्ष्णनखदंष्ट्रोऽयमक्रूरोऽरक्तकेशरः । शौचैकत्ववनस्थानैरन्वयान्मृगविद्विषम् ॥ ३१६ ॥  
 सुराः सर्वेऽपि नत्वनमेतत्साहसस्तवे । सक्ताः समगमन् स्वं स्वमोकः सन्तुष्टचेतसः ॥ ३१७ ॥  
 अथ भट्टारकोप्यस्मादगात्कायस्थितिं प्रति । कूलग्रामपुरीं<sup>३</sup> श्रीमान्<sup>४</sup> न्योगमामिपुरोपमम् ॥ ३१८ ॥  
 कूलनाम महीपालो दृष्ट्वा तं भक्तिभावितः । प्रियङ्गुसुमाङ्गाभक्तिःपरीत्य प्रदक्षिणम् ॥ ३१९ ॥  
 प्रणम्य पादयोर्मुखां<sup>५</sup> निधिं वा गृहमागतम् । प्रतीक्ष्यार्घ्यादिभिः १पूज्यस्थाने सुस्थाप्य सुव्रतम् ॥ ३२० ॥  
 गन्धादिभिविभूष्यैतत्पादोपान्तमहीतलम् । परमाञ्च<sup>६</sup> त्रिशुद्धयास्मै सोऽदितेष्टार्थसाधनम् ॥ ३२१ ॥

थे ॥ ३०७ ॥ इन्द्र ने वे सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंके देदीप्यमान पिटारमें रखकर उनकी पूजा की, आदर सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वस्त्रसे उन्हें लपेटकर रखवा और फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरमें पधरा दिया ॥ ३०८-३०९ ॥ मोक्षलक्ष्मीकी इष्ट और चतुर दूतीके समान तपोलक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आलिङ्गन किया था ॥ ३१० ॥ अंतरङ्ग परिग्रहोका त्याग कर देनेसे उनका निर्ग्रन्थपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार सौंपका केवल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्य परिग्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता ॥ ३११ ॥ उसी समय संयमने उन भगवान्को केवलज्ञानके वयानेके समान चौथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥ ३१२ ॥ अप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर उन भगवान्ने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था वह प्रमादी जीवको कहाँ सुलभ है ? ॥ ३१३ ॥ मनःपर्ययज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले और स्वाभाविक बलसे सुशोभित उन भगवान्के पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापनाचरित्र प्रमादी जीवोंके ही होता है ॥ ३१४ ॥ मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही वनमें मुनिराजके उपदेशसे व्रत धारण किये थे यही समझकर मानो उन्होंने सिंहके साथ एकताका ध्यान रखते हुए सिंहवृत्ति धारणकी थी ॥ ३१५ ॥ यद्यपि उनके सिंहके समान तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दाँड़े नहीं थीं, वे सिंहके समान क्रूर नहीं थे और न सिंहके समान उनकी गरदनपर लाल बाल ही थे फिर भी शूरवीरता, अकेला रहना तथा वनमें ही निवास करना इन तीन विशेषताओंसे वे सिंहका अनुकरण करते थे ॥ ३१६ ॥ सब देव, उन भगवान्को नमस्कारकर तथा उनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन हो संतुष्टचित्त हो कर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३१७ ॥

अथानन्तर पारणाके दिन वे भट्टारक महावीर स्वामी आहारके लिए वनसे निकले और विद्याधरोंके नगरके समान सुशोभित कूलग्राम नामकी नगरीमें पहुँचे । वहाँ प्रियङ्गुके फूलके समान कान्ति वाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, चरणों में शिर झुकाकर नमस्कार किया और घर पर आई हुई निधिसे समान माना । उत्तम व्रतोंको धारण करने वाले उन भगवान्को उस राजाने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया, अर्घ्य आदिके द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समीपवर्ती भूतलको गन्ध आदिकसे विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अर्थको सिद्ध करने वाला परमाञ्च ( खीरका आहार ) समर्पण किया ।

१ तपस्विना ल० । तपःस्थेन इत्यपि क्वचित् । २ सतालम्बि ल० । समालम्बि ल० । ३ पुरम् इति क्वचित् । ४ श्रीमद् ल० । ५ विधिना इति क्वचित् । ६ पूज्यं घ०, क० । ७ विशुद्धया ल० ।

आनुपङ्गिकमेतत्से फलं भाषि महत्तरम् । इति वक्तुमिवाश्चर्यपञ्चकं तद्गृहेऽभवत् ॥ ३२२ ॥  
 पुण्यहेतुर्धिनियानां वीरां निर्गत्य तद्गृहात् । विहितेच्छो १विविक्तेषु विधातुं २विविक्तपः ॥ ३२३ ॥  
 विषयद्रुमसङ्काणं करणाटविकोक्तम् ३ । परीषहमहाघोरविश्वश्चापदसङ्कुलम् ॥ ३२४ ॥  
 कषायमत्तमातङ्गसङ्घातशतसन्ततम् । विवृतास्यान्तकानन्तकुम्भीनसविभीषणम् ॥ ३२५ ॥  
 चतुर्विधोपसर्गोप्रकण्ठीरवकठोरितम् । विघ्नौघतस्करारुद्धं त्यक्त्वा भववनं शनैः ॥ ३२६ ॥  
 तपोवनं सतां सेव्यमव्याहृतसुखावहम् । महाजनसमाकीर्णं विस्तीर्णमनुपप्लुतम् ॥ ३२७ ॥  
 महाव्रतमहासामन्तान्वितः सुनयानुगः । दर्शनज्ञानचारित्र्यं ४कशक्तित्रयोजितः ॥ ३२८ ॥  
 शीलायुधो गुणव्रातकवचः शुद्धमार्गः । सद्भावनासहायः सन् प्रविश्य परमः पुमान् ॥ ३२९ ॥  
 ५भावस्तत्र निश्चङ्कं नानायोगान्प्रवर्तयन् । धर्म्यध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन् दशविधं मुहुः ॥ ३३० ॥  
 उज्जयिन्यामथान्येद्युस्तं श्मशानेऽतिमुक्तके । वर्धमानं महासत्त्वं प्रतिमायोगधारिणम् ॥ ३३१ ॥  
 निरीक्ष्य स्थ।पुरेतस्य दौण्ड्याद्धैर्यं परीक्षितुम् । उत्कृत्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविष्टजठराण्यलम् ॥ ३३२ ॥  
 ६व्यात्ताननाभिभीष्माणि नृत्यन्ति विविधैर्लयैः । तर्जयन्ति स्फुरद्ध्वानैः साहृहासैर्दुरीक्षणैः ॥ ३३३ ॥  
 स्थूलवेतालरूपाणि निशि कृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीन्द्रेभस्तिहवङ्गथानिलैः समम् ॥ ३३४ ॥  
 किरातसैन्यरूपाणि ७पापैकार्जनपण्डितः । विद्याप्रभावसम्भावितोपसर्गैर्भयावहैः ॥ ३३५ ॥  
 स्वयं स्वलयितुं चेतः समाधेरसमर्थकः । स महतिमहावीराख्यां कृत्वा विविधाः स्तुतीः ॥ ३३६ ॥

यह तो तुम्हारे दानका आनुपङ्गिक फल है परन्तु इसका होनहार फल बहुत बड़ा है यही कहनेके लिए मानो उसके घर पञ्चाश्रयोकी वर्षा हुई ॥ ३१८-३२२ ॥ तदनन्तर शिष्योंका पुण्य बढ़ाने वाले वे भगवान् एकान्त स्थानोंमें विधिपूर्वक तप करनेकी इच्छासे उसके घरसे निकले ॥ ३२३ ॥ जो विषयरूपी वृत्तोंसे सङ्कीर्ण है, इन्द्रिय रूपी व्याधोंसे भरा हुआ है, परीषह रूपी महाभयंकर सब प्रकारके दुष्ट जीवोंसे सहित है, कषाय रूपी मदान्मत्त हाथियोंके सैकड़ों समूहसे व्याप्त है, मुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहोंसे कठोर है, और विघ्नोंके समूह रूपी चोरोसे घिरा हुआ है ऐसे संसार रूपी वनको धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगवान्ने, जो सज्जनोंके द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्याबाध—बाधा रहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्योंसे व्याप्त है, विस्तीर्ण है और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित है ऐसे तपोवनमें, महाव्रत रूपी महा सामन्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलता धारणकर, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलवान्, शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समूहका कवच पहिनकर, शुद्धता रूपी मार्गसे चलकर और उत्तम भावनाओं की सहायता लेकर प्रवेश किया ॥ ३२४-३२६ ॥ वहाँपर निःशङ्क रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की और एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दश प्रकारके धर्म्यध्यानका चिन्तन किया ॥ ३३० ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान् उज्जयिनीके अतिमुक्तक नामक श्मशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे । उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्रने अपनी दुष्टतासे उनके धैर्यकी परीक्षा करनी चाही । उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े वेतालोंका रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीक्ष्ण चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उदरमें प्रवेश करना चाहते थे, खोले हुए मुँहोंसे अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, अट्टहास और विकराल दृष्टिसे डरा रहे थे । इनके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, अग्नि और वायुके साथ भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया । इस प्रकार एक पापका ही अर्जन करनेमें निपुण उस रुद्रने, अपनी विद्याके प्रभावसे किये हुए अनेक भयंकर उपसर्गोंसे उन्हें समाधिसे विचलित करनेका प्रयत्न

१ विभक्तेषु कचित् । २ विविधं तपः कचित् । ३ करणाटविकोक्तम् ल० । ४ व्यक्ति ल० । ५ भाव संस्तत्र क०, ल०, ग०, घ०, म० । ६ व्यात्ताननानि भीष्माणि कचित् । ७ पापोपार्जनपण्डितः कचित् ।

उमया सममाख्याय नतिस्वागादमत्सरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दृष्टसाहसाः ॥ ३३७ ॥  
 कदाचिच्छेटकाख्यस्य नृपतेश्चन्दनाभिधाम् । सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासक्तां कामशरतुरः ॥ ३३८ ॥  
 कृतोपायो गृहीत्वैनां कश्चिद्ब्रह्मभक्षरः । पश्चाद्गीत्वा स्वभार्याया महादृष्ट्या व्यसर्जयत् ॥ ३३९ ॥  
 वनेचरपतिः कश्चित्तन्नालोक्य धनेच्छया । पुनां वृषभदत्तस्य <sup>१</sup>वाणिजस्य समर्पयत् ॥ ३४० ॥  
 तस्य भार्या सुभद्राख्या तया सम्पर्कमात्मनः । घण्टिजः <sup>२</sup>शङ्कमानोऽसौ पुराणं <sup>३</sup>कोद्रवौदनम् ॥ ३४१ ॥  
 आरनालेन सन्मिश्रं शरावे निहितं सदा । दिशती शृङ्खलाबन्धभागिनीं तां व्यधाद्रुपा ॥ ३४२ ॥  
 परेद्युर्वत्सदेशस्य कौशाम्बीनगरान्तरम् । कायस्थित्यै विशन्तं तं महावीरं विलोक्य सा ॥ ३४३ ॥  
 प्रत्युद्ब्रजन्ती विच्छिन्नशृङ्खलाकृतबन्धना । लोलालिकुललीलोरुकेशभाराच्चलाचलान् ॥ ३४४ ॥  
 विगलन्मालतीमालादिव्याम्बरविभूषणा । नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ ३४५ ॥  
 शीलमाहात्म्यसम्भूतपृथुहेमशराविका । शाख्यन्नभाववत्कोद्रवौदनं<sup>४</sup> विधिवत्सुधीः ॥ ३४६ ॥  
 भ्रममाश्राणयत्तस्मै तेनाप्याक्षर्यपञ्चकम् । बन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥ ३४७ ॥  
 भगवान्वर्धमानोऽपि नीत्वा द्वादशवत्सरान् । छाद्यस्थयेन जगद्बन्धुजुम्भिकग्रामसन्निधौ ॥ ३४८ ॥  
 ऋजुकूलानदीतीरे मनोहरवनान्तरे । महारत्नशिलापट्टे प्रतिमायोगमावसन् ॥ ३४९ ॥  
 स्थित्वा षष्ठोपवासेन <sup>५</sup>सोऽधस्तात्सालभूरुहः । वैशाखे मासि सज्योत्सवदशम्यामपरारुहे ॥ ३५० ॥  
 हस्तोत्तरान्तरं याते शशिन्यारूढशुद्धिकः । क्षपकश्रेणिमारुह्य शुक्लध्यानेन सुस्थितः ॥ ३५१ ॥

किया परन्तु वह उसमें समर्थ नहीं हो सका । अन्तमें उसने भगवान्के महति और महावीर ऐसे दो नाम रख कर अनेक प्रकारकी स्तुति की, पार्वतीके साथ नृत्य किया और सब मात्सर्यभाव छोड़ कर वह वहाँसे चला गया सो ठीक ही है क्योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखने वाले पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ३३१-३३७ ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वनक्रीडामें आसक्त थी, उसे देख कोई विद्याधर कामबाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायसे लेकर चलता बना । पीछे अपनी स्त्रीसे डरकर उसने उस कन्याको महाटवीमें छोड़ दिया ॥ ३३८-३३९ ॥ वहाँ किसी भीलने देख कर उसको धनकी इच्छासे वृषभदत्त सेठको दी ॥ ३४० ॥ उस सेठकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गई कि कहीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाय । इस शङ्कासे वह चन्दनाको खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कांजीसे मिला हुआ कोदौका भात दिया करती थी और क्रोध वशा उसे सदा सांकलसे बाँधे रहती थी ॥ ३४१-३४२ ॥ किसी दूसरे दिन वत्स देशकी उसी कौशाम्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान् महावीर स्वामी गये । उन्हें नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगी । उसी समय उसके सांकलके सब बन्धन टूट गये, चञ्चल भ्रमर-समूहके समान काले उसके बड़े-बड़े फेश चञ्चल हो उठे और उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे गिरने लगी, उसके वस्त्र आभूषण सुन्दर हो गये, वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गई, भक्तिभावके भारसे झुक गई, शीलके माहात्म्यसे उसका मिट्टीका शकोरा सुवर्णपात्र बन गया और कोदौका भात शाली चाँवलका भात हो गया । उस बुद्धिमतीने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगवान्को आहार दिया इसलिए उसके यहाँ पञ्चाश्रयोकी वर्षा हुई और भाई-बन्धुओंके साथ उसका समागम हो गया ॥ ३४३-३४७ ॥

इधर जगद्बन्धु भगवान् वर्धमानने भी छद्मस्थ अवस्थाके बारह वर्ष व्यतीत किये । किसी एक दिन वे जम्भिक ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक वनके मध्यमें रत्नमयी एक बड़ी शिलापर सालवृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान हुए । वैशाख शुक्ला दशमीके दिन अपराहण कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीचमें चन्द्रमाके आ जाने पर परिणामोकी विशुद्धताको बढ़ाते हुए वे क्षपकश्रेणीपर आरूढ हुए । उसी समय उन्होंने

१. वणिजोऽपत्यं पुमान् वाणिजः तस्य । २. शङ्कमानोऽसौ ल० । ३. कोद्रवोदनम् ल० । ४. कोद्रवोदनं क०, ल०, ग०, घ०, म० । ५. सोऽधस्तात् ल० ।

घातिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम् । चतुर्विंशदतीशेषव्याभासिमहिमालयः ॥ ३५२ ॥  
सयोगभावापर्यन्ते स्वपरार्थप्रसाधकः । परमौदारिकं देहं बिभ्रदब्राह्मणे बभौ ॥ ३५३ ॥  
चतुर्विंशत्सर्वैः सार्धं सौधर्मेन्द्रस्तदागतः । तुर्यकल्याणसत्पूजाविधिं सर्वं समानयत् ॥ ३५४ ॥  
अपापप्राप्तितन्विषयास्थायिकातिशयोक्तिः । १परमात्मपदं २प्रापत्परमेष्ठी स सन्मतिः ॥ ३५५ ॥  
अथ दिव्यध्वनेर्हेतुः को<sup>३</sup>भावीत्युपयोगवान् । तृतीयज्ञाननेत्रेण ज्ञात्वा मां परितुष्टवान् ॥ ३५६ ॥  
तदेवागत्य मद्ग्रामं गौतमाख्यं शचीपतिः । तत्र गौतमगोत्रोत्थमिन्द्रभूतिं द्विजोत्तमम् ॥ ३५७ ॥  
महाभिमानमादित्यविमानादेत्य<sup>५</sup>भास्वरम् । शेषैः पुण्यैः समुत्पन्नं वेदवेदाङ्गवेदिनम् ॥ ३५८ ॥  
इष्ट्वा केनाप्युपायेन समानीयान्तिकं विभोः । स्वपिष्टृच्छिषितं जीवभावं पृच्छेत्यचोदयत् ॥ ३५९ ॥  
अस्ति किं नास्ति वा जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम् । इत्यप्राक्षमतो मह्यं भगवान्भव्यवत्सलः ॥ ३६० ॥  
अस्ति जीवः स चोपात्तदेहमात्रः सदादिभिः । किमादिभिश्च निर्देश्यो नोत्पन्नो न विनश्यति ॥ ३६१ ॥  
द्रव्यरूपेण पर्यार्थः परिणामी प्रतिक्षणम् । चैतन्यलक्षणः कर्ता भोक्ता सर्वैकदेशवित् ॥ ३६२ ॥  
संसारी निर्बृत्तश्चेति द्वैविध्येन निरूपितः । अनादिरस्य संसारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥ ३६३ ॥  
न निर्बृत्तस्य संसारो नित्य कस्यापि संसृतिः । अनन्ताः संसृतौ मुक्तास्तदनन्ताः ५सुछक्षिताः ॥ ३६४ ॥  
सति व्ययेऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यमेव तद्धेतुः शक्तीनामिव वस्तुनः ॥ ३६५ ॥

शुक्लध्यानके द्वारा चारों घातिया कर्मोंको नष्टकर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये और चौतीस अतिशयोंसे सुशोभित हो कर वे महिमाके घर हो गये ॥ ३४८-३५२ ॥ अब वे सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गये, निज और परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिक शरीरको धारण करते हुए आकाशरूपी आंगनमें सुशोभित होने लगे ॥ ३५३ ॥ उसी समय सौधर्म स्वर्गका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पूर्ण की ॥ ३५४ ॥ पुण्यरूप परमौदारिक शरीरकी पूजा तथा समवसरणकी रचना होना आदि अतिशयोंसे सम्पन्न श्रीवर्धमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे और परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥ ३५५ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवान्की दिव्यध्वनिका कारण क्या होना चाहिये इस बातका विचार किया और अधिज्ञानसे मुझे उसका कारण जानकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ ॥ ३५६ ॥ वह उसी समय मेरे गोंबमें आया । मैं वहाँ पर गोतमगोत्रीय इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष बचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था, मेरा शरीर अतिशय देदीप्यमान था, और मैं वेद-वेदाङ्गका जानने वाला था ॥ ३५७-३५८ ॥ मुझे देखकर वह इन्द्र मुझे किसी उपायसे भगवान्के समीप ले आया और प्रेरणा करने लगा कि तुम जीव तत्त्वके विषयमें जो कुछ पूछना चाहतै थे सो पूछ लो ॥ ३५९ ॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैंने भगवान्से पूछा कि हे भगवन् ! जीव नामका कोई पदार्थ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिये । इसके उत्तरमें भव्यवत्सल भगवान् कहने लगे कि जीव नामका पदार्थ है और वह ग्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदि सदादिक और निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप कहा जाता है । वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिक्षण परिणमन करता है । चेतना उसका लक्षण है, वह कर्ता है, भोक्ता है, और पदार्थोंके एकदेश तथा सर्वदेशका जानकार है ॥ ३६०-३६२ ॥ संसारी और मुक्तके भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका संसार अनादि कालसे चला आ रहा है और मोक्ष सादि माना जाता है ॥ ३६३ ॥ जो जीव मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अर्थात् वह लौटकर संसारमें नहीं आता । किसी-किसी जीवका संसार नित्य होता है अर्थात् वह अभय या दूरादूर भव्य होनेके कारण सदा संसारमें रहता है । इस संसारमें अनन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त जीव ही अभी बाकी हैं । कर्मबन्धनमें बंधे हुए जीवोंमेंसे

१ परमात्मा-इति क्वचित् । २ प्राप म०, ल० । ३ कोऽसावीत्युप-ल० । ४-दित्यभासुरं ल० । ५ सच्छिक्षिता क०, ल०, ग०, घ०, म० ।



इति जीवस्य याथात्म्यं युक्त्या व्यक्तं न्यवेदयत् । द्रव्यहेतुं विधायास्य वचः कालादिसाधनः ॥३६६ ॥  
 विनेयोऽहं कृतश्राद्धो जीवतत्त्वविनिश्चये । सौधर्मपूजितः पञ्चशतब्राह्मणसूनुभिः ॥ ३६७ ॥  
 श्रीवर्धमानमानस्य संयमं प्रतिपन्नवान् । तदैव मे समुत्पन्नाः परिणामविशेषतः ॥ ३६८ ॥  
 ऋद्धयः सप्तसर्वाङ्गानामप्यर्थपदान्यतः । भट्टारकोपदेशेन श्रावणे बहुले तिथौ ॥ ३६९ ॥  
 पक्षादावर्थरूपेण सद्यः पर्याणमन् स्फुटम् । पूर्वाह्णे पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्यनुक्रमात् ॥ ३७० ॥  
 इत्यनुज्ञातसर्वाङ्गपूर्वार्थो धीचतुष्कवान् । अङ्गानां ग्रन्थसन्दर्भं पूर्वरात्रौ व्यधामहम् ॥ ३७१ ॥  
 पूर्वाणां पश्चिमे भागे ग्रन्थकर्ता ततोऽभवम् । इति श्रुतद्धिभिः पूर्णोऽभूवं गणभृदादिभिः ॥ ३७२ ॥  
 ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यग्निभूतिकौ । सुधर्ममौर्यौ मौन्द्राख्यः पुत्रमैत्रेयसञ्ज्ञकौ ॥ ३७३ ॥  
 अकम्पनोऽन्धवेलाख्यः<sup>१</sup> प्रभासश्च मया सह । एकादशेन्द्रसम्पूज्याः सन्मतेर्गणनायकाः ॥ ३७४ ॥  
 शतानि त्रीणि पूर्वाणां<sup>२</sup> धारिणः शिक्षकाः परे । शून्यद्वितयरन्धादिरन्ध्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥ ३७५ ॥  
 सहस्रमेकं त्रिज्ञानलोचनास्त्रिशताधिकम् । पञ्चमावगमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः ॥ ३७६ ॥  
 शतानि नवविज्ञेया विक्रियद्धिविद्विताः । शतानि पञ्च सम्पूज्याश्चतुर्थज्ञानलोचनाः ॥ ३७७ ॥  
 चतुःशतानि सम्प्रोक्तास्तत्रानुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिताः स्युर्मुनीश्वराः ॥ ३७८ ॥  
 चन्दनाधारिकाः शून्यत्रयषड्वह्निसम्मिताः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ३७९ ॥  
 देवा देव्योप्यसंख्यातास्तिर्थञ्चः कृतसङ्ख्यकाः । गणैर्द्वादशभिः प्रोक्तैः परीतेन जिनेशिना ॥ ३८० ॥  
 सिंहाविष्टरम्यस्थेनार्धमागधभाषया । षड्द्रव्याणि पदार्थाश्च सप्तसंस्मृतिमोक्षयोः ॥ ३८१ ॥

मुक्त हो जानेपर हानि अवश्य होती है परन्तु उनका क्षय नहीं होता और उसका कारण जीवोंका अनन्तपना ही है । जिस प्रकार पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें अनन्त जीव रहते हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता ॥ ३६४-३६५ ॥ इस प्रकार भगवान् ने युक्ति पूर्वक जीव तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप कहा । भगवान् के वचनको द्रव्यहेतु मानकर तथा काललब्धि आदिकी कारण सामग्री मिलनेपर मुझे जीवतत्त्वका निश्चय हो गया और मैं उसकी श्रद्धाकर भगवान् का शिष्य बन गया । तदनन्तर सौधर्मेन्द्रने मेरी पूजा की और मैंने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कारकर संयम धारण कर लिया । परिणामोंकी विशेष शुद्धि होनेसे मुझे उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गईं । तदनन्तर भट्टारक वर्धमान स्वामीके उपदेशसे मुझे श्रावण वदी प्रतिपदाके दिन पूर्वाह्ण कालमें समस्त अङ्गोंके अर्थ और पद स्पष्ट जान पड़े । इसी तरह उसी दिन अपराह्ण कालमें अनुक्रमसे पूर्वोंके अर्थ तथा पदोंका भी स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-३७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वोंका ज्ञान हुआ है और जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है ऐसे मैंने रात्रिके पूर्व भागमें अङ्गोंकी और पिछले भागमें पूर्वोंकी ग्रन्थ-रचना की । उसी समयसे मैं ग्रन्थकर्ता हुआ । इस तरह श्रुतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ मैं भगवान् महावीर स्वामीका प्रथम गणधर हो गया ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मौन्द्रय, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्धवेला तथा प्रभास ये गणधर और हुए । इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीवर्धमान स्वामीके इन्द्रों द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥ ३७३-३७४ ॥ इनके सिवाय तीन सौ ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वोंके धारक थे, नौ हजार नौ सौ यथार्थ संयमको धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार तीन सौ अवधिज्ञानी थे, सात सौ केवलज्ञानी परमेष्ठी थे, नौ सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, पाँच सौ पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तरवादी थे इस प्रकार सब मुनीश्वरोंकी संख्या चौदह हजार थी ॥ ३७५-३७८ ॥ चन्दनाको आदि लेकर छत्तीस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव देवियाँ थीं, और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार ऊपर कहे हुए बारह गणोंसे परिवृत भगवान् ने सिंहासनके मध्यमें स्थित हो अर्धमागधी भाषाके द्वारा छह द्रव्य, सात तत्त्व, संसार और मोक्षके

१ प्रत्ययस्तत्फलञ्चैतत्सर्वमेव प्रपञ्चतः । प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपायैः सुनिरूपितम् ॥ ३८२ ॥  
 २ औत्पत्तिक्यादिधीयुक्ताः श्रुतवन्तः सभासदाः । केचित्संयमापन्नाः संयमासंयमं परे ॥ ३८३ ॥  
 सम्यक्त्वमपरे सद्यः स्वभगव्यत्वविशेषतः । एवं श्रीवर्धमानेशो विद्वद्भ्रमवैशनाम् ॥ ३८४ ॥  
 क्रमाद्राजगृहं प्राप्य तस्थिवान् विपुलाचले । श्रुत्वैतदागमं सद्यो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥  
 इति सर्वं समाकर्ण्यं प्रतुष्टः प्रणतो मुहुः । जातसंवेगनिर्वेदः स्वपूर्वभवसन्ततिम् ॥ ३८६ ॥  
 अन्वयुक्तं गणाधीशं सोऽपीति प्रत्यब्रुवधत् । त्रिषष्टिलक्षणं पूर्वं पुराणं पृष्टमादितः ॥ ३८७ ॥  
 निर्दिष्टञ्च मया स्पष्टं श्रुतञ्च भवता स्फुटम् । शृणु चित्तं समाधाय श्रेणिकं श्रावकोत्तमं ३ ॥ ३८८ ॥  
 वृत्तकं तव वक्ष्यामो भवन्नयनिबन्धनम् । इह जम्बूमति द्वीपे विन्ध्याद्रौ १ कुटजाह्वये ॥ ३८९ ॥  
 वने खदिरसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा मुनिम् । समाधिगुप्तनामानं समीक्ष्य व्यनमन्मुदा ॥ ३९० ॥  
 धर्मलाभोऽस्तु तेऽद्येति चाकृतावासानं मुनिः । २ स धर्मो नाम किरूपस्तेन किं कृत्यमङ्गिनाम् ॥ ३९१ ॥  
 किरातेनेति सम्पृष्टः सोऽपीति प्रत्यभाषत । निवृत्तिर्मधुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ॥ ३९२ ॥  
 स धर्मस्तस्य लाभो यो धर्मलाभः स उच्यते । तेन कृत्यं परं पुण्यं पुण्यास्वर्गो सुखं परम् ॥ ३९३ ॥  
 श्रुत्वा तन्नाहमस्य स्यामित्युवाच वनेचरः । ४ तदाकूर्तं वितर्क्याह मुनिः किं काकमांसकम् ॥ ३९४ ॥  
 भव्यं भक्षितपूर्वं ते न वेति सुधियां वरः । तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याख्यत्कदापि न भक्षितम् ॥ ३९५ ॥  
 मयेत्येवं यदि त्याज्यं तत्त्वयेत्यब्रवीन्मुनिः । सोऽपि तद्वाक्यमाकर्ण्यं प्रतुष्टो दीयतां व्रतम् ॥ ३९६ ॥  
 तदित्यादाय वन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । व्याधावसाध्ये सम्भूते काकमांसस्य भक्षणत् ॥ ३९७ ॥

कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय और निक्षेप आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण किया। भगवान्का उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदोंने संयम धारण किया, कितनों ही ने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी विशेषतासे शीघ्र ही सम्यग्दर्शन धारण किया। इस प्रकार श्रीवर्धमान स्वामी धर्मदेशना करते हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आये और वहाँ विपुलाचल नामक पर्वतपर स्थित हो गये। हे मगधेश ! जब तुमने भगवान्के आगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये ॥ ३७६-३८५ ॥ यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने बार-बार, उन्हें प्रणाम किया, तथा संवेग और निर्वेदसे युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे। उसके उत्तरमें गणधर स्वामी भी समझाने लगे कि तूने पहले तिरसठशालाका पुरुषोंका पुराण पूछा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे तुम्हे कहा है और तूने उसे स्पष्ट-रूपसे सुना भी है। हे श्रावकोत्तम श्रेणिक ! अब मैं तेरे तीन भवका चरित कहता हूँ सो तू चित्तको स्थिरकर सुन। इसी जम्बूद्वीपके विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज नामक वन है उसमें किसी समय खदिरसार नामका भील रहता था। एक दिन उसने समाधिगुप्त नामके मुनिराजके दर्शनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ३८६-३९० ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने 'आज तुम्हे धर्म लाभ हो' ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उस भीलने पूछा कि हे प्रभो ! धर्म क्या है ? और उससे लाभ क्या है ? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे विरक्त होना धर्म कहलाता है। उस धर्मकी प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता है। उस धर्मसे पुण्य होता है और पुण्यसे स्वर्गमें परम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३९१-३९३ ॥ यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता। मुनिराज उसका अभिप्राय समझ कर कहने लगे कि, हे भव्य ! क्या तूने कभी पहले कौआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भील, मुनिराजके वचन सुनकर और विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है। इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिये। मुनिराजके वचन सुनकर उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह व्रत मुझे दिया जाय ॥ ३९४-३९६ ॥ तदनन्तर

१ प्रत्ययः ल० । २ उत्पत्तिकादि ल० । ३ श्रावकोत्तमः ल० । ४ कुटजाह्वये ल० । ५ किरातः कीदृशो धर्मस् ल० । ६ तदा कुल-ल० ।

शान्तिरस्येति निर्दिष्टे भिषग्भिः स वनेचरः । प्रयान्त्वमी मम प्राणाः किं कृत्यमिव तैश्चलैः ॥ ३९८ ॥  
 व्रतं तपोधनान्याशे गृहीतं धर्ममिच्छता । कृतसङ्कल्पभङ्गस्य कुतस्तस्त्वरुषव्रतम् ॥ ३९९ ॥  
 पापेनानेन मांसेन नाद्य प्राणिषाम्यहम् । इति नैच्छत्तदुक्तं तच्छ्रुत्वा तन्मैथुनः पुरात् ॥ ४०० ॥  
 सारसौख्यात्समागच्छन् शूरवीराभिधानकः । महागहनमध्यस्थान्यप्रोधपृथिवीरुहः ॥ ४०१ ॥  
 अधस्ताद्योषितं काञ्चिद्रुदतीमभिवीक्ष्य सः । रोदिषीत्थं कुतो ब्रूहीत्यब्रवीत्साप्युवाच तम् ॥ ४०२ ॥  
 शृणु चिरां समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम् । वने खदिरसारस्ते मैथुनो व्याधिपीडितः ॥ ४०३ ॥  
 काकमांसनिवृत्त्यासौ पतिर्मम भविष्यति । गच्छस्त्वं तं परित्यक्तमांसं भोजयितुं पुनः ॥ ४०४ ॥  
 नरके घोरदुःखानां भाजनं कर्तुमिच्छसि । ततो मे रोदनं तस्मात्त्यज भद्रं तवाग्रहम् ॥ ४०५ ॥  
 इति तद्देवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः<sup>१</sup> । सम्प्राप्यातुरमालोक्य भिषक्कथितमौषधम् ॥ ४०६ ॥  
 त्वया मयोपनोदार्थमुपयोक्तव्यमित्यसौ । जगाद सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छन्नेवमब्रवीत् ॥ ४०७ ॥  
 त्वं मे प्राणसमो बन्धुर्मां जिजीवयिषुः स्निहा । ब्रवीष्येवं हितं नैवं जीवितं व्रतभङ्गनात् ॥ ४०८ ॥  
 दुर्गतिप्राप्तिहेतुत्वादिति तद्व्रतनिश्चितम् । ज्ञात्वा यक्षीप्रपञ्चं तं शूरवीरोऽप्यभोधयत् ॥ ४०९ ॥  
 तद्व्रतान्तं विचार्यासौ श्रावकव्रतपञ्चकम् । समादायाखिलं जीवितान्ते सौधर्मकल्पजः ॥ ४१० ॥  
 देवोऽभवदनिर्देश्यः शूरवीरोऽपि दुःखितः । परलोकक्रियां कृत्वा स्वावासं समुपव्रजन् ॥ ४११ ॥  
 वटद्रुमसमीपस्थो यक्षि किं मे स मैथुनः । पतिस्तवाभवञ्चेति यक्षीमाहावदन्न सा ॥ ४१२ ॥  
 समस्तव्रतसम्पन्नो व्यन्तरत्नपराङ्मुखः । अभूत्सौधर्मकल्पेऽसौ पतिर्मम कथं भवेत् ॥ ४१३ ॥

वह भील व्रत लेकर चला गया । किसी एक समय उस भीलको असाध्य बीमारी हुई तब वैद्योंने  
 बतलाया कि कौआका मांस खानेसे यह बीमारी शान्त हो सकती है । इसके उत्तरमें भीलने हड़ता-  
 के साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जावें ? मुझे इन चञ्चल प्राणोंसे क्या प्रयोजन है,  
 मैंने धर्मकी इच्छासे तपस्वी- मुनिराजके समीप व्रत ग्रहण किया है । जो गृहीत व्रतका भङ्ग कर  
 देता है उससे पुरुष व्रत कैसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज जीवित नहीं रहना  
 चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कौआका मांस खाना स्वीकृत नहीं किया । यह सुनकर उसका  
 साला शूरवीर जो कि सारसौख्य नामक नगरसे आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने  
 सघन वनके मध्यमें स्थित वट वृक्षके नीचे किसी स्त्रीको रोती हुई देखा । उसे रोती देख, मैंने  
 पूछा कि तू क्यों रो रही है ? इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन । मैं  
 बनकी यक्षी हूँ और इसी वनमें रहती हूँ । तेरा बहनोई खदिरसार रोगसे पीडित है  
 और कौआका मांस त्याग करनेसे वह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे त्याग किया हुआ मांस  
 खिलानेके लिए जा रहा है और उसे नरक गतिके भयंकर दुःखोंका पात्र बनाना चाहता है । मैं  
 इसीलिए रो रही हूँ । हे भद्र ! अब तू अपना आग्रह छोड़ दे ॥ ४९७-४०५ ॥ इस प्रकार देवीके  
 वचन सुनकर शूरवीर, बीमार-खदिरसारके पास पहुँचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैद्यने जो  
 औषधि बतलाई है वह और नहीं तो मेरी प्रसन्नताके लिए ही तुझे खाना चाहिये । खदिरसार  
 उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणोंके समान मेरा भाई है । स्नेह वश मुझे  
 जीवित रखनेके लिए ही ऐसा कह रहा है परन्तु व्रत भंगकर जीवित रहना हितकारी नहीं है क्योंकि  
 व्रत भंग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका कारण है । जब शूरवीरको निश्चय हो गया कि यह अपने व्रतमें  
 हड़ है तब उसने उसे यक्षीका वृत्तान्त बतलाया ॥ ४०६-४०९ ॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचारकर  
 खदिरसारने श्रावकके पाँचों व्रत धारण कर लिये जिससे आयु समाप्त होनेपर वह सौधर्मस्वर्गमें अनु-  
 पम देव हुआ । शूर शूरवीर भी बहुत दुखी हुआ और पारलौकिक क्रिया करके अपने घर की  
 ओर चला । मार्गमें वह उसी वटवृक्षके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने लगा कि हे यक्षि !  
 क्या हमारा वह बहनोई तेरा पति हुआ है ? इसके उत्तरमें यक्षीने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतोंसे

प्रकृष्टदिव्यभोगानां भोक्तेति वननायकः । तत्त्वार्थं तद्वचो ध्यायन्नहो माहात्म्यमीदृशम् ॥ ४१४ ॥  
 व्रतस्याभीप्सितं सौख्यं प्रापयेदिति भावयन् । समाधिगुप्तमभ्येत्य श्रावकव्रतमग्रहीत् ॥ ४१५ ॥  
 भक्त्योऽयमिति तं मत्वा यक्षी तत्पक्षपाततः । उपायेनानयज्जैनं धर्मं सा हि हितैषिता ॥ ४१६ ॥  
 स्वर्गात्खदिरसारोऽपि द्विसागरमित्तायुषा । दिव्यं भोगोपभोगान्ते निदानात्प्रच्युतस्ततः ॥ ४१७ ॥  
 सन्तुः कुणिकभूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसौ । अथान्यदा पिता तेऽसौ<sup>१</sup> मत्पुत्रेषु भवेत्पतिः ॥ ४१८ ॥  
 राज्यस्य कतमोऽत्रेति निमित्तैः सकलैरपि । सम्यक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसर्गात्सोहितस्त्वयि ॥ ४१९ ॥  
 राज्यस्याहोऽयमेवेति निश्चित्यापायशङ्कया । दायादेभ्यः परित्रातुं त्वां सुधीः कृत्रिमक्रुधा ॥ ४२० ॥  
 निराकरोत्पुराशास्माद्देशान्तरमभीयुषः ।<sup>२</sup>अप्रकाशनृपादेशभयात्ताः सकलाः प्रजाः ॥ ४२१ ॥  
 नन्दिग्रामनिवासिन्यः प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । ज्ञानभोजनशय्यादिक्रियावैमुख्यमागमन् ॥ ४२२ ॥  
 ततस्त्वमपि केनापि ब्राह्मणेन समं व्रजन् । देवताजातिपाष<sup>३</sup>ण्डिमोहप्रतिविधायिनीः ॥ ४२३ ॥  
 कथाः प्ररूपयन्प्रीत्या तदीयस्थानमापिवान् । त्वद्वाग्मित्वयुवत्वादिगुणरक्तमतिद्विजः ॥ ४२४ ॥  
 वितीर्णवान् सुतां तुभ्यं निजामापूर्णयौवनाम् । तत्पाणिग्रहणं कृत्वा चिरं<sup>४</sup> तत्रावसः "सुखम् ॥ ४२५ ॥  
 कदाचित्केनचिद्धेतुनायं राज्यं परित्यजन् । भवन्तं ब्राह्मणप्रामादानीयं कुणिकक्षितिम् ॥ ४२६ ॥  
 स्वं राज्यं दत्तावांस्तुभ्यं त्वञ्च तत्प्रतिपालयन् । अनभिव्यक्तकोपः सन् पूर्वावज्ञानसंस्मृतेः ॥ ४२७ ॥  
 विधिस्सुनिग्रहं सुग्रं नन्दिग्रामनिवासिनाम् । आदिष्टवान् करं तेषां निर्वाहुमतिदुष्करम् ॥ ४२८ ॥

सम्पन्न हो गया था अतः व्यन्तर योनिसे पराङ्मुख होकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ है वह मेरा पति कैसे हो सकता था ॥ ४१०-४१३ ॥ वह तो स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है। इस प्रकार बनका स्वामी शरवीर, यक्षीके यथार्थ वचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि अहो ! व्रतका ऐसा माहात्म्य है ? अवश्य ही वह इच्छित सुख को प्राप्त कराता है। ऐसा विचारकर उसने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप जाकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये ॥ ४१४-४१५ ॥ इस प्रकार उस यक्षीने उसे भव्य समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म धारण कराया सो ठीक ही है क्योंकि हितैषिता—पर हितकी चाह रखना, यही है ॥ ४१६ ॥ उधर खदिरसारका जीव भी दो सागर तक दिव्य भोगोंका उपभोगकर स्वर्गसे च्युत हुआ और यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है। अथानन्तर किसी दिन तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें राज्यका स्वामी कौन होगा ? उसने निमित्तज्ञानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्तोंसे तेरी अच्छी तरह परीक्षा की और वह इस बातका निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुआ कि राज्यका स्वामी तू ही है। तुझपर वह स्वभावसे ही स्नेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुझपर कोई संकट न आ पड़े इस भयसे दायादोंसे तेरी रक्षा करनेके लिए उस बुद्धिमान्ने तुम्हें बनावटी क्रोधसे उस नगरसे निकाल दिया। तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दिग्राममें पहुँचा। राजाकी प्रकट आज्ञाके भयसे नन्दिग्राममें रहने वाली समस्त प्रजा तुम्हें देखकर न उठी और न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे विमुख रही ॥ ४१७-४२२ ॥

तदनन्तर तू भी किसी ब्राह्मणके साथ आगे चला और देवमूढ़ता, जातिमूढ़ता तथा पाषण्डिमूढ़ताका खण्डन करने वाली कथाओंको कहता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा। तेरे वचनकौशल और यौवन आदि गुणोंसे अनुरक्षित हो कर उस ब्राह्मणने तेरे लिए अपनी यौवनवती पुत्री दे दी और तू उसके साथ विवाहकर वहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा ॥ ४२३-४२५ ॥ किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने उस ब्राह्मणके गाँवसे तुम्हें बुलाकर अपना सब राज्य तुम्हें दे दिया और तू भी राज्यका पालन करने लगा। यद्यपि तूने अपना क्रोध बाह्यमें प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर

१ ते स ल० । २ सुप्रकाशनृपादेशभयान्न सकलाः ल० । ३ पाषण्ड-ल० । ४ तत्रावसत्सुखी ल० ।  
 ५ सुखी म०, ल० ।

भवतो विप्रकन्यायां सुतोऽभूदभयाह्वयः । स कदाचिन्नजस्थानादागच्छंस्त्वां समीक्षितुम् ॥ ४२९ ॥  
 समं जनन्या सन्नन्दिग्रामे त्वत्तः समाकुलाः । प्रजाः समीक्ष्य ते कोपमुपायैः <sup>१</sup>समशीशमत् ॥ ४३० ॥  
 नानोपायप्रवीणोयमभयाह्वयोऽस्तु पण्डितः । नाम्नेति विद्मिराहूतः स तदा तेन धीमता ॥ ४३१ ॥  
 पुत्रेणानेन सार्धं त्वमिहाद्यैनमुपस्थितः । शृण्वन्पुराणसंज्ञावमित्याह्वारुण्यं तद्वचः ॥ ४३२ ॥  
 सर्वं निधाय तच्चित्ते श्रद्धाभूमन्महती मते । जैने कुतस्तथापि स्यान्न मे व्रतपरिग्रहः ॥ ४३३ ॥  
 हृत्यनुश्रेणिकप्रश्नाद्वादीद्विगणनायकः । भोगसञ्जननाद्वाढमित्याह्वानुभवोदयात् ॥ ४३४ ॥  
 दुश्चरित्रान्महारम्भात्सञ्चित्यैनो निकाचितम् । नारकं बद्धवानायुस्त्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥ ४३५ ॥  
 बद्धदेवायुषोऽन्यायुर्नाङ्गी स्वीकुरुते व्रतम् । श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्त्वं नाग्रहीर्ष्वतम् ॥ ४३६ ॥  
 पुराणश्रतसम्भूतविशुद्धया करणत्रयात् । सम्यक्त्वमादिमं प्राप्य शान्तसप्तमहारजाः ॥ ४३७ ॥  
 अन्तर्मुहूर्तकालेन सम्यक्त्वोदयभाषिते । क्षायोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने सञ्चलात्मके ॥ ४३८ ॥  
 सप्तप्रकृतिनिर्मूलक्षयात्क्षायिकमागतः । आज्ञामार्गोपदेशोत्थं सूत्रबीजसमुद्भवम् ॥ ४३९ ॥  
 सङ्क्षेपाद्विस्तृतेरर्थाच्चावासमवगाढकम् । परमाद्यवगाढञ्च सम्यक्त्वं दशधोदितम् ॥ ४४० ॥  
 सर्वज्ञानानिमित्तेन षड्द्रव्यादिषु या रुचिः । साज्ञा निस्सङ्गनिश्चेलपाणिपात्रत्वलक्षणः ॥ ४४१ ॥  
 मोक्षमार्ग इति श्रुत्वा या रुचिर्मार्गजा त्वसौ । त्रिपष्टिपुरुषादीनां या पुराणप्ररूपणान् ॥ ४४२ ॥

की याद आनेसे तू नन्दिग्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निग्रह करना चाहता था इसी इच्छासे तू ने वहाँ रहने वाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे ॥ ४२६-४२८ ॥ तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अभयकुमार नामका पुत्र हुआ था वह किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके लिए माताके साथ आ रहा था । जब वह नन्दिग्राममें आया तब उसने वहाँकी प्रजाको तुझसे अत्यन्त व्यग्र देखा, इसलिए उसने वहाँ ठहर कर योग्य उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥ ४२६-४३० ॥ तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा था ॥ ४३१ ॥ हे राजन् ! आज तू इहाँ उसी बुद्धिमान् पुत्रके साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण कर रहा है । इस प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें धारण किये और कहा कि हे भगवन् ! यद्यपि मेरी जैनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं व्रत ग्रहण क्यों नहीं कर पाता ? ॥ ४३२-४३३ ॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगोंकी आसक्ति, तीव्र मिथ्यात्वका उदय, दुश्चरित्र और महान् आरम्भके कारण, जो बिना फल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया है । ऐसा नियम है कि जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर लिया है वह उस पर्यायमें व्रत धारण नहीं कर सकता । हाँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है । यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है ॥ ४३४-४३६ ॥ इस प्रकार पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपशमकर प्रथम अर्थात् उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ॥ ४३७ ॥ अन्तर्मुहूर्तके बाद उसके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमें आ गया और उसके कुछ ही बाद सातों प्रकृतियोंका निर्मूल नाशकर वह ज्ञायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो गया । सम्यग्दर्शन उत्पत्तिकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है—आज्ञा, मार्ग, उपदेशोत्थ, सूत्रसमुद्भव, बीजसमुद्भव, संक्षेपज्ञ, विस्तारज्ञ, अर्थज्ञ, अवगाढ और परमावगाढ ॥ ४३८-४४० ॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं । मोक्षमार्ग परिग्रह रहित है, वस्त्र रहित है और पाणिपात्ररूप है इस प्रकार मोक्षमार्गका स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज सम्यक्त्व है । तिरसेठ शालाका पुरुषोंका

श्रद्धा सद्यः समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्भवा<sup>१</sup> । आचाराख्यादिमाङ्गोक्तपोभेदश्रुतेर्दुःतम् ॥ ४४३ ॥  
 प्रादुर्भूता रुचिस्तज्जैः सूत्रजेति निरूप्यते । या तु बीजपदादान<sup>२</sup>पूर्वसूक्ष्मार्थजा रुचिः ॥ ४४४ ॥  
 बीजजासौ पदार्थानां सङ्क्षेपोक्त्या समुद्भवा । या सा साङ्क्षेपजा यान्या तस्या विस्तारजा तु सा ॥ ४४५ ॥  
 प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपायैरतिविस्तृतैः । अवगाह्य परिज्ञानात्त्वस्याङ्गादिभाषितम् ॥ ४४६ ॥  
 वाग्विस्तरपरित्यागादुपदेशदुर्महामतेः । अर्थमात्र<sup>३</sup>समादानसमुत्था रुचिरर्थजा ॥ ४४७ ॥  
 अङ्गाङ्गबाह्यसङ्गावभावनातः समुद्भवा । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढेति कथ्यते ॥ ४४८ ॥  
 केवलावगमालोकिताखिलार्थगता रुचिः । परमाद्यवगाढाऽसौ श्रद्धेति परमर्षिभिः ॥ ४४९ ॥  
 पृतास्त्वपि महाभाग तव सन्त्यद्य काश्चन । दर्शनाद्यागमप्रोक्तशुद्धबोधशकारणैः ॥ ४५० ॥  
 भव्यो व्यस्तैः समस्तैश्च नामात्मीकुरुतेऽन्तिमम् । तेषु श्रद्धादिभिः कैश्चिद्भवा तन्नामकारणैः ॥ ४५१ ॥  
 रत्नप्रभं प्रविष्टः सन् तत्फलं मध्यमायुषा । भुक्त्वा निर्गत्य भव्यास्मिन् महापद्माख्यतीर्थकृत् ॥ ४५२ ॥  
 आगाम्युत्सर्पिणीकालस्यादिमः क्षेमकृत्सताम् । तस्मादासन्नभव्योऽसि मा मैषीः संघतेरिति ॥ ४५३ ॥  
 स्वस्य रत्नप्रभावाप्तैर्विषण्णः श्रेणिकः पुनः । अप्राक्षीद्वीधनान्योऽपि पुरेऽस्मिन्पुण्यधामनि ॥ ४५४ ॥  
 किमस्यधोगतिं यास्यन्नित्यतो मुनिरादिशत् । कालसौकरिकस्यात्र शुभायाश्च प्रवेशनम् ॥ ४५५ ॥  
 अस्ति द्विजतन्जायास्तत्कुतश्चेन्निसन्म्यताम् । कालसौकरिकोऽत्रैव पुरे नीचकुले नृशम् ॥ ४५६ ॥  
 भवस्थितिवशाद्बद्धनरायुः पापकर्मणा । ससकृत्वोऽधुना जातिस्मरो भूत्वैवमस्मरत् ॥ ४५७ ॥

पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्थ सम्यग्दर्शन है। आचाराङ्ग आदि शास्त्रोंमें कहे हुए तपके भेद सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्यग्दर्शन कहलाता है। बीजपदोंके ग्रहण पूर्वक सूक्ष्मपदार्थोंसे जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यग्दर्शन कहते हैं। पदार्थोंके संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यग्दर्शन है, जो विस्तारसे कहे हुए प्रमाण नय विक्षेप आदि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर अङ्ग पूर्व आदिमें कहे हुए तत्त्वोंकी श्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यग्दर्शन कहलाता है। वचनोंका विस्तार छोड़कर मद्बुद्धिमान् उपदेशकसे जो केवल अर्थमात्रका ग्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थज सम्यग्दर्शन है। जिसका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया है ऐसे मनुष्यको अङ्ग तथा अङ्गबाह्य ग्रन्थोंकी भावनासे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाह्य सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ ४४१—४४८ ॥ केवल-ज्ञानके द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थोंकी जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाह्य सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा परमर्षियोंने कहा है ॥ ४४९ ॥ हे महाभाग ! इन श्रद्धाओंमेंसे आज तेरे कितनी ही श्रद्धाएँ—सम्यग्दर्शन विद्यमान हैं। इनके सिवाय आगममें जिन दर्शन-विशुद्धि आदि शुद्ध सोलह कारण भावनाओंका वर्णन किया गया है उन सभीसे अथवा यथा सम्भव प्राप्त हुई पृथक्-पृथक् कुछ भावनाओंसे भव्य जीव तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करता है। उनमेंसे दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू तीर्थकर नामकर्मका बन्धकर रत्नप्रभा नामक पहिली पृथिवीमें प्रवेश करेगा, मध्यम आयुसे वहाँका फल भोगकर निकलेगा और तदनन्तर हे भव्य ! तू इसी भरतक्षेत्रमें आगामो उत्सर्पिणी कालमें सज्जनोंका कल्याण करनेवाला महापद्म नामका पहला तीर्थकर होगा। तू निकट भव्य है अतः संसारसे भय मत कर ॥ ४५०—४५३ ॥ तदनन्तर अपने आपको रत्नप्रभा पृथिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद हो रहा है ऐसे राजा श्रेणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले गुरुदेव ! पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक जानेवाला है ? उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसौकरिक और ब्राह्मणकी पुत्री शुभाका भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा ? यदि यह जानना चाहता है तो सुन मैं कहता हूँ। कालसौकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था। वह यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके वशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया था। अबकी बार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है

१ समुद्भवा ल० । २ पूर्वा ख०, घ० । ३ अर्थमात्रं समादाय म०, ल० । अर्थमात्रसमाधान इति क्वचित् ।

पुण्यपापफलेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम् । मया कथमिवालम्बि मनुष्यभवसम्भवः ॥ ४५८ ॥  
 ततः पुण्यं न पापं वा यथेष्टं वर्तनं सुखम् । इति कृत्वानु निरुशङ्कं पापी हिंसादिपञ्चकम् ॥ ४५९ ॥  
 मांसाद्याहारसंस्को बह्वारम्भपरिग्रहैः<sup>१</sup> । अनुबद्धोऽपि<sup>२</sup> बद्ध्वायुर्नारकं परमावधि ॥ ४६० ॥  
 तेन यास्यत्यसौ पृथ्वीं सप्तमीं घोरदुःखदाम् । शुभा चोभानुभागोत्थस्त्रीवेदोदयभाविता ॥ ४६१ ॥  
 प्रवृद्धरागप्रद्वेषैश्चुन्यादिप्रदूषिता । गुणशीलसदाचारान् श्रुत्वा लोक्य च कोपिनी ॥ ४६२ ॥  
 सङ्क्षेपेन सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युतौ । तमःप्रभामहादुःखभागिनीयं भविष्यति ॥ ४६३ ॥  
 इति तद्वचनप्रान्ते प्रणिपत्य मुनीश्वरम् । कुमारोऽप्यभयोऽपृच्छस्त्वभवान्तरसन्ततिम् ॥ ४६४ ॥  
 तदनुग्रहबुद्धयैवमाहासौ भव्यवत्सलः । इतोऽभवत्तृतीयेऽन्न भवे भव्योऽपि सन्सुधीः<sup>३</sup> ॥ ४६५ ॥  
 कश्चिद्विप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभ्रमन् । देशान्तराणि पाषण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥  
 शोकेन च विमुग्धाकुलीभूतस्तत्प्रज्ञानम् । तदाचरितमप्युच्चैरनुतिष्ठत्येच्छया ॥ ४६७ ॥  
 केनचित्पथिकेनामा जैनेन पथि स भ्रजन् । पाषाणराशिसंलक्ष्य भूताधिष्ठितभूरुहः ॥ ४६८ ॥  
 सर्मायं प्राप्य भक्तयातो दैवमेतदिति<sup>४</sup> द्रुमम् । परित्यज्य प्राणमदृष्ट्वा तच्चेष्टां श्रावकः स्मिती ॥ ४६९ ॥  
 तस्यावमतिविध्यर्थं तद्द्रुमादात्तपल्लवैः । परिमृज्य स्वपादात्कधूलिं ते पश्य देवता ॥ ४७० ॥  
 नार्हतानां विधाताय समर्थत्ववदद्विजम् । विप्रेणानु तथैवास्तु को दोषस्तव देवताम् ॥ ४७१ ॥  
 परिभूतिपदं नेष्याम्युपाध्यायस्त्वमत्र मे । इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमाप्तवान् ॥ ४७२ ॥

॥४५४-४५७॥ किं यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीवोंका सम्बन्ध रहता है तो फिर मुझ जैसे पापी-को मनुष्य-भव कैसे मिल गया ? इसलिए जान पड़ता है कि नपुण्य है और न पाप है—इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ही सुख है। ऐसा विचारकर वह पापी निःशङ्क हो हिंसादि पाँचों पाप करने लगा है, मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है और बहुत आरम्भ तथा परिग्रहोंके कारण नरककी उत्कृष्ट आयुका बन्ध भी कर चुका है। अब वह मरकर भयंकर दुःख देनेवाली सातवीं पृथिवीमें जावेगा। इसी प्रकार शुभा भी तीव्र अनुभागजन्य स्त्रीवेदके उदयसे युक्त है, अतिशय बढ़े हुए रागद्वेष पैशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दूषित है, गुण शील तथा सदाचारकी बात सुनकर और देखकर बहुत क्रोध करती है। निरन्तर संक्लेश परिणाम रखनेसे वह नरकायुका बन्ध कर चुकी है और शरीर छूटनेपर तमःप्रभा पृथिवी सम्बन्धी घोर दुःख भोगेगी ॥ ४५८-४६३ ॥ इस प्रकार गणधरके वचन समाप्त होनेपर अभयकुमारने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवान्तरोंका समूह पूछा ॥ ४६४ ॥

भव्य जीवों पर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवान्, अभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भवमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था और भव्य होनेपर भी दुर्बुद्धि था। वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घूमता-फिरता था, पाषण्डिमूढता, देवमूढता, तीर्थमूढता, जातिमूढता और लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल रहता था, उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंकी बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी इच्छासे उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंका स्वयं आचरण करता था ॥ ४६५-४६७ ॥ एक बार वह किसी जैनी पथिकके साथ मार्गमें कहीं जा रहा था। मार्गमें पत्थरोंके ढेरके समीप दिखाई देने वाला भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष था। उसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझकर ब्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया। उसकी इस चेष्टाको देखकर श्रावक हँसने लगा तथा उसका अनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षके कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पैरोंकी धूलि म्लाड़ ली और ब्राह्मणसे कहा कि देख, तेरा देवता जैनिर्दोंका कुछ भी विधात करनेमें समर्थ नहीं है। इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोष है ? मैं भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर लूँगा, इस विषयमें तुम मेरे गुरु ही सही। इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक

१ परिग्रहः ल० । २ अनुबद्धोऽस्ति ल० । ३ इतो भवत्तृतीयेऽन्न ल० । ४ कुधीः ल० ।

५ द्रुतम् ल० ।

श्रावकः कपिरोमाख्यवल्लीजालं समीक्ष्य मे । दैवमेतदिति व्यक्तमुक्त्वा भक्त्या परीत्य तत् ॥ ४७३ ॥  
 प्रणम्य स्थितवान् विप्रोऽप्याविष्कृतरुषाञ्जकः<sup>१</sup> । कराम्भ्यां तत्समुच्छिन्दन् विमृद्नश्च समन्ततः ॥ ४७४ ॥  
 तच्छ्रुतासह्यकण्डूयाविशेषेणातिबाधितः । एतत्सन्निहितं दैवं त्वदीयमिति भीतवान् ॥ ४७५ ॥  
 सहासो विद्यते नान्यद्विधा तु सुखदुःखयोः । प्राणिनां प्राक्तनं कर्म मुक्त्वास्मिन्मूलकारणम् ॥ ४७६ ॥  
 श्रेयोऽवाप्तुं ततो यत्नं तपोदानादिकर्मभिः । कुरु त्वं मतिमन्मौढ्यं हित्वा दैवनिबन्धनम् ॥ ४७७ ॥  
 देवाः खलु सहायत्वं यान्ति पुण्यवतां नृणाम् । उन ते किञ्चित्कराः पुण्यविलये भृत्यसन्निभाः ॥ ४७८ ॥  
 इत्युक्त्वास्तद्विजोद्भूतदैवमुद्ब्यस्ततः क्रमात् । श्रावकस्तेन विप्रेण गङ्गातीरं समागमत् ॥ ४७९ ॥  
 बुभुक्षुस्तत्र विप्रौऽसौ मणिगङ्गाख्यसुरामम् । तीर्थमेतदिति ज्ञात्वा तीर्थमूढं समागमत् ॥ ४८० ॥  
 अथास्मै भोक्तुकामाय मुक्त्वा स श्रावकः स्वयम् । स्वोच्छिष्टं सुरसिन्ध्वम्भुमिश्रितं पावनं त्वया ॥ ४८१ ॥  
 भोक्तव्यमिति विप्राय ददौ ज्ञापयितुं हितम् । तदष्टाहं कथं भुञ्जे तवोच्छिष्टं विशिष्टताम् ॥ ४८२ ॥  
 किं न वेत्सि भमैवं त्वं वक्तोति स तमब्रवीत् । कथं तीर्थजलं पापमलापनयने क्षमम् ॥ ४८३ ॥  
 पथद्योच्छिष्टदोषञ्चेत्पानेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां<sup>२</sup> प्रत्येयां मुग्धचेतसाम् ॥ ४८४ ॥  
 त्यज दुर्वासनां पापं प्रक्षाल्यमिति वारिणा । तथैव चेत्तपोदानाद्यनुष्ठानेन किं वृथा ॥ ४८५ ॥  
 तेनैव पापं प्रक्षाल्यं सर्वत्र सुलभं जलम् । मिथ्यात्वादिचतुष्केण ब्रह्मते पापमूर्जितम् ॥ ४८६ ॥  
 सम्यक्त्वादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निर्बृतिः । एतज्जैनेश्वरं तत्त्वं गृह्येत्यवदत्पुनः ॥ ४८७ ॥

स्थानमे जा पहुँचे । वहाँ करेचकी लताओंका समूह देखकर श्रावकने कहा कि 'यह हमारा देवता है' यह कहकर श्रावकने उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और यह सबकर वह वहीं खड़ा हो गया । ब्रह्मानी ब्राह्मणने कुपित होकर दोनों हाथोंसे उस लतासमूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रङ्ग सब शरीरमें लगा लिया । लगाते देर नहीं हुई कि वह, उस करेचके द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने लगा तथा डरकर श्रावकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है ॥ ४६८-४७५ ॥ ब्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, श्रावक हँसता हुआ कहने लगा कि जीवोंको जो सुख-दुःख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्मको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है ॥ ४७६ ॥ इसलिए तू तप दान आदि सत्कार्योंके द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर और हे बुद्धिमन् ! इस देवविषयक मूढताको छोड़ दे । निश्चयसे देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं वे भृत्यके समान हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ॥ ४७७-४७८ ॥ इस प्रकार कहकर श्रावकने उस ब्राह्मणकी देवमूढता दूर कर दी । तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्मणके साथ चलता हुआ श्रावक गङ्गा नदीके किनारे पहुँचा ॥ ४७९ ॥ भूख लगनेपर उस ब्राह्मणने 'यह मणिगङ्गा नामका उत्तम तीर्थ है' यह समझकर वहाँ स्नान किया और इस तरह वह तीर्थमूढताको प्राप्त हुआ ॥ ४८० ॥ तदनन्तर जब वह ब्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने लगा तब उस श्रावकने पहले स्वयं भोजनकर अपनी जूँठमें गङ्गाका जल मिला दिया और हितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि 'यह पवित्र है तुम खाओ' । यह देख ब्राह्मणने कहा कि 'मैं तुम्हारी जूँठन कैसे खाऊँ ? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते ? ब्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थजल यदि आज जूँठनका दोष दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलको दूर हटानेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनोंके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या वासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है । यदि जलके द्वारा पाप धोये जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदिके करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ४८१-४८५ ॥ जल सब जगह सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिये । यथार्थमें बात यह है कि मिथ्यात्व, अचिरति, प्रमाद तथा कषाय इन चारके द्वारा तीव्र पापका बन्ध होता है और सम्यक्त्व,

१ रुषोयुक्तः ल० । २ मूढ इत्यपि क्वचित् । ३ तके किञ्चित्कराः पुण्यविलये क० ।  
 ४ प्रत्येयां ल० ।



श्रुत्वा तद्वचनं विप्रस्तीर्थमौढ्यं निराकरोत् । अथ तत्रैव पञ्चाग्निमध्येऽन्यैर्दुस्सहं तपः ॥ ४८८ ॥  
 कुर्वतस्तापसस्योषैः प्रज्वलद्बह्विसंहतौ । व्यञ्जयन्प्राणिनां घातं पद्भेदानामनारतम् ॥ ४८९ ॥  
 तस्य पाषण्डमौढ्यञ्च युक्तिभिः स<sup>१</sup> निराकृत । गोमांसभक्षणगागम्यागमाद्यैः पतितेक्षणात् ॥ ४९० ॥  
 वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्नप्यदर्शनात् । ब्राह्मण्यादिषु शूद्राद्यैर्गर्भधानप्रदर्शनात् ॥ ४९१ ॥  
 नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्प्यते ॥ ४९२ ॥  
 जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लध्यानस्य हेतवः । येषु ते स्युस्त्रयो वर्णाः शेषाः शूद्राः प्रकीर्तिताः ॥ ४९३ ॥  
 अच्छेदो मुक्तियोग्याया विदेहे जातिसन्ततेः । तद्धेतुनामगोत्राख्यजीवाविच्छिन्नसम्भवात् ॥ ४९४ ॥  
 शेषयोस्तु चतुर्थे स्यात्काले तज्जातिसन्ततिः । एवं वर्णविभागः स्यान्मनुष्येषु जिनागमे ॥ ४९५ ॥  
 इत्यादिहेतुभिर्जातिमौढ्यमस्य निराकरोत् । वटेऽस्मिन् खलु वितेशो वसतीत्येवमादिकम् ॥ ४९६ ॥  
 वाक्यं श्रद्धाय तद्योग्यमाचरन्तो महीभुजः । किं न जानन्ति लोकस्य मार्गोयं प्रथितो महान् ॥ ४९७ ॥  
 न स्यक्तुं शक्य इत्यादि न प्राह्यं लौकिकं वचः । आसोक्तागमबाह्यत्वा<sup>२</sup>न्मत्तोन्मत्तकवाक्यवत् ॥ ४९८ ॥  
 इति तल्लोकमौढ्यञ्च<sup>३</sup> निरास्थदथ सोऽब्रवीत् । आसोक्तागमवैमुख्यादिति हेतुर्न मां प्रति ॥ ४९९ ॥  
 साङ्ख्याद्यासप्रवादानां पौरुषेयत्वदोषतः । दूषिताः पुरुषाः सर्वे बाढं रागाद्यविद्यया ॥ ५०० ॥

ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है । और अन्तमें इन्हींसे मोक्ष प्राप्त होता है । यह जिनेन्द्र देवका तत्त्व है—मूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर । ऐसा उस श्रावकने ब्राह्मणसे कहा ॥ ४८६-४८७ ॥ श्रावकके उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणने तीर्थमूढता छोड़ दी । तदनन्तर वहीं एक तापस, पञ्चाग्नि्योंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह—कठिन तप कर रहा था । वहाँ जलती हुई अग्निके बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पाषण्डमूढता भी दूर कर दी । तदनन्तर जातिमूढता दूर करनेके लिए वह श्रावक कहने लगा कि गोमांस भक्षण और अगम्यस्त्रीसेवन आदिसे लोग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें वर्ण तथा आकृतिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं आता और ब्राह्मणी आदिमें शूद्र आदिके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्योंमें गाय और घोड़ेके समान जाति कृत कुछ भी भेद नहीं है यदि आकृतिमें कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शूद्रमें आकृति भेद नहीं है अतः उनमें जातिकी कल्पना करना अन्यथा है । जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्ण कहलाते हैं और बाकी शूद्र कहे गये हैं । विदेह क्षेत्रमें मोक्ष जानेके योग्य जातिका कौी विच्छेद नहीं होता क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रसे सहित जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्थकालमें ही जातिकी परम्परा चलती है अन्य कालोंमें नहीं । जिनागममें मनुष्योंका वर्णविभाग इस प्रकार बतलाया गया है ॥ ४८८-४९५ ॥ इत्यादि हेतुओंके द्वारा श्रावकने ब्राह्मणकी जातिमूढता दूर कर दी । 'इस वटवृक्षपर कुबेर रहता है' इत्यादि वाक्योंका विश्वासकर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो क्या कुछ जानते नहीं है । कुछ सचाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं । यह लोकका मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता—लोकमें जो रुढ़ियाँ चली आ रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये इत्यादि लौकिक जनोके वचन, आप्त भगवान्के द्वारा कहे इस आगमसे बाह्य होनेके कारण नशेसे मस्त अथवा पागल मनुष्यके वचनोंके समान ग्राह्य नहीं हैं ॥ ४९६-४९८ ॥ इस प्रकार श्रावकने उस ब्राह्मणकी लोकमूढता भी दूर कर दी । तदनन्तर ब्राह्मणने श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्त भगवान्के द्वारा कहे हुए आगमसे बाह्य होनेके कारण लौकिक वचन ग्राह्य नहीं हैं सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योंकि सांख्य आदि आप्तजनोके जो भी आगम विद्यमान हैं वे पौरुषेयत्व दोषसे प्रमाणभूत नहीं

हृद्यनालोचितार्थस्य वचस्तेनैति सारताम् । यतां रागाद्यविद्यानां क्वचिन्मूर्खसंक्षयः ॥ ५०१ ॥  
 सर्वज्ञस्य विरागस्य प्रयोगः साधनं प्रति । क्रियते युक्तिवादानुसारिणो विदुषस्तव ॥ ५०२ ॥  
 क्वचिदात्यन्तिकीं पुंसि यान्ति सार्धमविद्यया । रागाद्यस्तिरोभूर्तिं तारतम्यावलोकनात् ॥ ५०३ ॥  
 सामग्रीसन्निधानेन कनकाश्मकलङ्कवत् । तत्तथावन्न जायेत तारतम्यञ्च नो भवेत् ॥ ५०४ ॥  
 दृष्टेस्तदस्तु चेन्मूलहानिः केन निवार्यते । सर्वशास्त्रकलाभिज्ञे सर्वज्ञोक्तिर्जनोदिता ॥ ५०५ ॥  
 मुख्यसर्वज्ञसंसिद्धिं गौणत्वात्साधयेदियम् । चैत्रे सिंहाभिधानेन मुख्यसिंहस्य सिद्धिवत् ॥ ५०६ ॥  
 न मां प्रति प्रयोगोऽयं मुक्तिहेतोर्निराकृतेः । अवस्थादेशकालादिभेदाङ्गिज्ञासु शक्तिसु ॥ ५०७ ॥  
 भावानामनुमानेन प्रतीतिरतिदुर्लभा । यत्नेन साधितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ॥ ५०८ ॥  
 अभियुक्ततरैरन्वैरन्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पर्शादिवान्धस्य विपमे पथि धावतः ॥ ५०९ ॥  
 अनुमानप्रधानस्य विनिपातो न दुर्लभः । इति चेद्विप्र नैतेन गृह्यते महतां मनः ॥ ५१० ॥  
 हेतुवादोऽप्रमाणं चेद्यथाश्रुतिरकृत्रिमा । इतीदं सत्यमेवं किं कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥ ५११ ॥  
 वाक्प्रयोगो न तथ्यः स्याद्धेतुभावविशेषतः । मृत्वा शीर्त्वापि तद्धेतुरेषितव्यस्त्वयापि सः ॥ ५१२ ॥  
 इष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो विश्वविक्रिं न सिध्यति । ततस्तत्प्रोक्तसूक्तेन विरुद्धं नेष्यते बुधैः ॥ ५१३ ॥

हैं। पुरुषकृत रचना होनेसे प्राह्य नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि अविद्यासे दूषित हैं अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं ? ॥ ४६६-५०० ॥ इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूंकि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है इसलिए तुम्हारे वचन सारताको प्राप्त नहीं हैं—ठीक नहीं हैं। तुमने जो कहा है कि संसारके सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दूषित हैं यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी पुरुषमें राग आदि अविद्याओंका निर्मूल क्षय हो जाना संभव है। तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्वान् हो अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है ॥ ५०१-५०२ ॥ रागादिक भावों और अविद्यामें तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुषमें अविद्याके साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा अभावको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलनेसे सुवर्ण पाषाणकी कीट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री मिलनेपर पुरुषके रागादिक दोष भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य—हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोषोंकी निर्मूल हानिको कौन रोक सकता है ? समस्त शास्त्रों और कलाओंके जानने वाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सो उनकी यह सर्वज्ञकी गौण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञको सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषको सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है ॥ ५०३-५०६ ॥ 'कदाचित् यह कहा जाय कि सर्वज्ञ सिद्ध करनेका यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका निराकरण किया जा चुका है ॥ अवस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए रागादि दोषोंकी हीनाधिकता तो संभव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है। अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता यत्न पूर्वक जिस पदार्थको सिद्ध करते हैं अन्यप्रवादियोंकी ओरसे वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे विषय-मार्गमें दौड़ने वाले अन्धे मनुष्यका मार्गमें पड़जाना दुर्लभ नहीं है उसीप्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलने वाले पुरुषका भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। हे विप्र ! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन आकर्षित नहीं हो सकता ॥ ५०७-५१० ॥ इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवादको अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार 'वेद अकृत्रिम हैं—अपौरुषेय हैं' आपका यह कहना सत्य है तो उसी प्रकार 'वेद कृत्रिम हैं—पौरुषेय हैं' हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिये ? हेतुके अभावकी बात कहो तो वह दोनों ओर समान है। इस प्रकार मर-सड़ कर भी आपको हेतुवाद स्वीकृत करना ही पड़ेगा और जब आप इस तरह हेतुवाद स्वीकृत कर लेते हैं तब मेरे द्वारा

विप्रस्त्वं षट्प्रमाणादी न चार्वाको न मां प्रति । प्रयोगोऽनभ्युपेतत्वादित्युक्तिर्घटते न ते ॥ ५१४ ॥  
 साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुश्चाध्यक्षगोचरः । ऊहाद्वयासिः कथं न स्यात्प्रयोगस्त्वां प्रति प्रमा ॥ ५१५ ॥  
 क्वाचित्कव्यभिचाराच्चेत्प्रत्यक्षेऽपि न सोऽस्ति किम् । नानुमानं प्रमेत्यार्थं मुच्यतामयमाग्रहः ॥ ५१६ ॥  
 प्रत्यक्षमविसंवादि प्रमाणमिति चेत्कुतः । अनुमानेऽपि तन्नेष्टमनिष्टं किं क्षितीशिभिः ॥ ५१७ ॥  
 अस्तु साङ्ग्यादिवादानामप्रामाण्यं विरोधतः । दृष्टेन तेन संवादसिद्धेर्वादस्य नाहंतः ॥ ५१८ ॥  
 इत्याहंतोक्तं तत्रार्थं श्रुत्वा सर्वं द्विजात्मजः । त्वद्गृहीतो ममाप्यस्तु धर्मोऽद्य प्रभृतीति सः ॥ ५१९ ॥  
 तदाज्ञयाऽग्रहीद्धर्मं निर्मलं जिनभाषितम् । सद्ब्रह्मो हितमन्ते स्यादातुरायेव भेषजम् ॥ ५२० ॥  
 अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परिभ्रष्टमार्गो दिङ्मूढताङ्गतौ ॥ ५२१ ॥  
 देशकोऽस्ति न मार्गस्य वनमेतदमानुषम् । नास्ति कश्चिदुपायोऽत्र विहाय जिनभाषितम् ॥ ५२२ ॥  
 परिच्छेदो हि पाण्डित्यं शूरस्याहारदेहयोः । इति सन्न्यस्य सद्ब्रह्मनेनासीनं श्रावकं द्विजः ॥ ५२३ ॥  
 विलोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन 'शुद्धधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राप्तसमाधिर्जीवितावधौ ॥ ५२४ ॥  
 सौधर्मकल्पे देवोऽभ्युक्त्वा तत्रामरं सुखम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥

अभीष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है । इसलिए विद्वान् लोग सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहे हुए वचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते हैं ॥ ५११-५१३ ॥ इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंको मानने वाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यक्षको मानने वाले चार्वाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है । संगत नहीं बैठता ॥ ५१४ ॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते हैं वह प्रत्यक्षका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है फिर आप अनुमानको प्रमाण क्यों नहीं मानते ? ॥ ५१५ ॥ यदि यह कहा जाय कि अनुमानमें कदाचित् व्यभिचार ( दोष ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं होता ? अवश्य होता है । इसलिए हे आर्य ! 'अनुमान प्रमाण नहीं है' यह आग्रह छोड़िये ॥ ५१६ ॥ यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष विसंवादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है तो अनुमानमें भी तो विसंवादका अभाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो । युक्तिकी समानता रहते हुए एकको प्रमाण माना जाय और दूसरेको अप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पक्ष है तो फिर राजाओंकी क्या आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दर्शनोंमें अप्रामाणिकता भले ही रहे क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है परन्तु अरहन्त भगवान्के दर्शनमें अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है । इस प्रकार साधके जैनी-श्रावकके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्त्वको सुनकर ब्राह्मणने कहा कि जिस धर्मको आपने ग्रहण किया है वही धर्म आजसे मेरा भी हो ॥ ५१७-५१९ ॥ श्रावककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार औषधि, बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषके वचन भी अन्तमें हित ही करते हैं ॥ ५२० ॥

अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सघन अटवीके बीचमें पापके उदयसे मार्ग भूल कर दिशाभ्रान्त हो गये ॥ ५२१ ॥ उस समय श्रावकने विचार किया कि चूँकि यह वन मनुष्य रहित है अतः वहाँ कोई मार्गका बतलानेवाला नहीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए उपायको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है । ऐसी दशामें आहार तथा शरीरका त्याग कर देना ही शूरवीरकी पण्डिताई है, ऐसा विचार कर वह संन्यासकी प्रतिज्ञा लेकर उत्तमध्यानके लिए बैठ गया । श्रावकको बैठ देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है ऐसा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया । आयु पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण

अभयाख्यः सुतो धीमानजनिष्ठास्त्वमीदृशः । अतः परं तपः कृत्वा जिनैर्द्वादशधोदितम् ॥ ५२६ ॥  
 अप्यासि पदं मुक्तेरित्यसौ चावबुध्य तत् । अभिवन्द्य जिनं राज्ञा सह तुष्टोऽविशस्युरम् ॥ ५२७ ॥  
 अथान्येद्युर्महाराजः श्रेणिकः सदसि स्थितः । अभयं सर्वशास्त्रज्ञं कुमारं वरवाग्मिनम् ॥ ५२८ ॥  
 तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं तत्त्वं पप्रच्छ वस्तुनः । सोऽप्यासन्नविनेयत्वाद्बस्तुयाथात्म्यदर्शिधीः ॥ ५२९ ॥  
 स्वद्विजोत्सर्पिभाभारविभासितसभान्तरः । एवं निरूपयामास स्पष्टसृष्टेःशरीरुणः ॥ ५३० ॥  
 यस्य जीवादिभावानां याथात्म्येन प्रकाशनम् । तं पण्डितं बुधाः प्राहुः परे नामैव पण्डिताः ॥ ५३१ ॥  
 जीवाद्याः कालपर्यन्ताः पदार्थां जिनभाषिताः । द्रव्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावकाः ॥ ५३२ ॥  
 सर्वथात्मादितत्त्वानां मोहान्नित्यत्वकल्पने । सर्वद्रव्येषु सम्भूतिः परिणामस्य नो भवेत् ॥ ५३३ ॥  
 क्षणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकञ्च न । न फलञ्च तथालोकव्यवहारविलोपनम् ॥ ५३४ ॥  
 नित्यत्वस्थोपचारेण सत्त्वात्तस्य विलोपनम् । नो चेन्मित्योपचारेण कथं तथ्यस्य साधनम् ॥ ५३५ ॥  
 धर्मद्वयोपलम्भाभ्यां दृष्ट्वाऽप्यर्थक्रियां भ्रुवन् । भ्रान्तमन्यतरं ब्रूयादन्यस्याभ्रान्ततां कुतः ॥ ५३६ ॥  
 एकधर्मात्मकं सर्वं वान्छतोऽञ्चितवादिनः । सामान्येतरसम्भूतौ कुतः संशयनिर्णयौ ॥ ५३७ ॥  
 प्रतीयमानज्ञानाभिधानासत्याभिधायिनः । तयोरसत्यज्ञानाभिधानयोः केन सत्यता ॥ ५३८ ॥

सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहां देवोंके सुख भोग कर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके उदयसे यहां राजा श्रेणिकके तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ है । आगे तू श्री जिनेन्द्र-देवका कहा हुआ बारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद प्राप्त करेगा । यह सब जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रीजिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ नगरमें चला गया ॥ ५२९-५२७ ॥

अथानन्तर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बैठे हुए थे वहां उन्होंने समस्त शास्त्रोंके जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छासे तत्त्वका यथार्थ स्वरूप पूछा । अभय कुमार भी निकटभव्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थ स्वरूपको देखने बाला था तथा स्पष्ट मिष्ट और इष्टरूप वाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए अपने दाँतोकी फैलने वाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यभागको सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा ॥ ५२८-५३० ॥ आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थोंका ठीक-ठीक बोध होता है विद्वान् लोग उसे ही पण्डित कहते हैं बाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते हैं ॥ ५३१ ॥ अभय-कुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवान्ने जीवसे लेकर काल पर्यन्त अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं । ये सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभाव वाले हैं ॥ ५३२ ॥ यदि जीवादि पदार्थोंको अज्ञान वश सर्वथा नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रव्योंमें जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा ॥ ५३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको सर्वथा क्षणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रियाका फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहार का सर्वथा नाश हो जावेगा ॥ ५३४ ॥ कदाचित् यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकव्यवहारका सर्वथा नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? आखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदार्थका निर्णय होना संभव नहीं है ॥ ५३५ ॥ जब कि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे ही पदार्थकी अर्थ क्रिया होती देखी जाती है तब दो धर्मोंमेंसे एकको भ्रान्त कहने वाला पुरुष दूसरे धर्मको अभ्रान्त किस प्रकार कह सकता है ? भावार्थ—जब अर्थ क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनों ही अभ्रान्त हैं यह मानना चाहिये ॥ ५३६ ॥ जो वादी समस्त पदार्थोंको एक धर्मात्मक ही मानते हैं उनके मतमें सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होने वाले संशय और निर्णय, सामान्य और विशेष धर्मके आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थको सामान्य विशेष—दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति असंभव हो जायगी ॥ ५३७ ॥ पदार्थ उभय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान

गुणगुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानवस्थाभ्युपेतहान्यनिवारणम् ॥ ५३९ ॥  
 तत्त्वक्त्वैकान्तदुर्वादागर्भं सर्वज्ञभाषितम् । नित्यानित्यात्मकं तत्त्वं प्रत्येतद्व्यं मनीषिणा ॥ ५४० ॥  
 १ सर्वविरामतश्रद्धा सम्यग्दर्शनमिष्यते । ज्ञातिस्तत्प्रोक्तवस्तुनां सम्यग्ज्ञानमुदाहृतम् ॥ ५४१ ॥  
 तदागमोपदेशेन योगत्रयनिषेधनम् । चारित्रं तत्रयं युक्तं मुक्तेर्भवन्यस्य साधनम् ॥ ५४२ ॥  
 समेतमेव सम्यक्त्वज्ञानाभ्यां चरितं मतम् । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥ ५४३ ॥  
 काल्त्सेन कर्मणां कृत्वा संवरं निर्जरां पराम् । २ प्राप्नोतु परमस्थानं विनेयो विश्वदक्\*ततः ॥ ५४४ ॥  
 इति सर्वं मनोहारिं श्रुत्वा तस्य निरूपणम् ३ । वस्तुतत्त्वोपदेशेऽयं कुशलोऽभयपण्डितः ॥ ५४५ ॥  
 इति सर्वं समासीनास्तन्माहात्म्यं समस्तुवन् । समास्तर्यां न चेल्ले वा न स्तुवन्ति ४ गुणांस्तताम् ॥ ५४६ ॥

### पृथिवीच्छन्दः

धियोऽस्य सहजन्मना कुशलिनः कुशाप्रीयता

श्रुतेन कृतसंस्कृतेनिशिततानु चान्धैव सा ।

होता है और ऐसा ही कहने में आता है फिर भी जो उसे असत्य कहता है सो उसके उस असत्य ज्ञान और असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ? भावार्थ—जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोकव्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होता है ? प्रतीयमान पदार्थको असत्य और अप्रतीयमान पदार्थको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है ॥ ५३८ ॥ पदार्थोंमें गुणगुणी सम्बन्ध विद्यमान है उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतमें सम्बन्धका अभाव होनेसे अभ्युपेत—स्वीकृत मतकी हानि होती है और अनवस्था दोषकी अनिवार्यता आती है । भावार्थ—गुणगुणी सम्बन्धके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव कहलाया और ऐसा माननेसे 'तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं है' उस पक्षमें बाधा आती है । इससे बचनेके लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न-होता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे तो उस दूसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दोष अनिवार्य हो जावेगा ॥ ५३९ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिथ्या-वादका गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥ ५४० ॥ सर्वज्ञ और सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए पदार्थोंका जानना सो सम्यग्ज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोंका रोकना सम्यक्चारित्र कहलाता है । ये तीनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥ ५४१-५४२ ॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान चतुर्थगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके विना भी होते हैं ॥ ५४३ ॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि भव्य जीवको समस्त कर्मोंका उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५४४ ॥ इस प्रकार मनको हरण करने वाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामे बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें बहुत ही कुशल पण्डित है । इस तरह सभी लोगोंने उसके माहात्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईर्ष्या रहित ऐसे कौन मनुष्य हैं जो सज्जनोंके गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४५-५४६ ॥ इस बुद्धिमानकी बुद्धि जन्मसे ही कुशाग्र थी फिर शास्त्रके संस्कार और भी तेज होकर अनोखी हो गई

१ सर्ववित् तन्मते श्रद्धा क०, ख०, ग०, घ० । २ प्राप्नोति इत्यपि क्वचित् । ३ प्ररूपणम् इत्यपि क्वचित् । ४ गुणात्मताम् ल० ।

ततः स निखिलां सभामभयपण्डितो वाग्गुणै-

रुपायनिपुणेषु लब्धविजयध्वजोऽरक्षणत् ॥ ५४७ ॥

मालिनीच्छन्दः

६ स सुविदिततत्त्वः श्रावकः कायमज्ञः

स्फुरितदुरितदूरास्त्वमौख्यौर्द्वीयान् ।

अमरपरिवृढत्वं प्राप्य<sup>१</sup> तस्योपदेशा-

दभयविभुरभूत्सत्सङ्गमः किं न कुर्यात् ॥ ५४८ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

स्याद्धीस्तत्त्वविमर्शिनी कृतधियः श्रद्धानुविद्धा तथा

हित्वा हेयमुपेयमाप्य विचरन् विच्छिद्य बन्धास्ततः ।

सत्कर्माणि च सन्ततं बहुगुणं संचावपन् सन्ततेः

प्रान्तं प्राप्य भवेदिवाभयविभुर्निर्वाणसौख्यालयः ॥ ५४९ ॥

इत्याप्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अन्तिमतीर्थकर-श्रेणिकाभय-

कुमारचरितव्यावर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं पर्वः ॥ ७४ ॥

—:ॐ०ॐ:—

थी इसीलिए अनेक उपायोंमें निपुण मनुष्योंमें विजयपताका प्राप्त करने वाले उस अभयकुमार पण्डितने अपने वचनके गुणोंसे समस्त सभामें प्रसन्न कर दिया था ॥ ५४७ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्त्वोंको जानने वाला वह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके कारण बहुत दूरतक बढ़ी हुई मूढ़ताओंसे अत्यन्त दृढ यह अज्ञानी ब्राह्मण ? फिर भी उसके उपदेशसे देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका समागम क्या नहीं करता है ? अर्थात् सब बुद्ध करता है ॥ ५४८ ॥ जिस शुराल पुरुषकी बुद्धि तत्त्वोंका विचार करने वाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है वह उस बुद्धिके द्वारा छोड़ने योग्य तत्त्वको छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तत्त्वको ग्रहण कर विचरता है । मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति करता है, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर असंख्यातगुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान मोक्षसुखका स्थान बन जाता है ॥ ५४९ ॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें अन्तिम तीर्थकर वर्धमान स्वामी, राजा श्रेणिक और अभयकुमारके चरितका वर्णन करने वाला चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—:ॐ०ॐ:—

## पञ्चसप्ततितमं पर्व

अथान्येद्युः समासीनं गणेन्द्रं विपुलाचले । श्रेणिकः प्रीणिताशेषभयं सुव्यक्ततेजसम् ॥ १ ॥  
गणिन्याश्चन्दनार्यायाः सम्बन्धमिह जन्मनः । अन्वयुङ्क्त गणी चैवमाहाहितमहर्दिकः ॥ २ ॥  
सिन्ध्वाख्यविषये भूभृद्वैशाली नगरेऽभवत् । चेटकाख्योऽतिविख्यातो विनीतः परमार्हतः ॥ ३ ॥  
तस्य देवी सुभद्राख्या तयोः पुत्रा दशाभवन् । धनाख्यौ दशभद्रान्तातुपेन्द्रोऽन्यः सुदत्तवाक् ॥ ४ ॥  
सिंहभद्रः सुकम्भोजोऽकम्पनः सपतङ्गकः । प्रभञ्जनः प्रभासश्च धर्मा इव सुनिर्मलाः ॥ ५ ॥  
सप्तर्धयो वा पुण्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी । ततां मृगावती पश्चात्सुप्रभा च<sup>१</sup> प्रभावती ॥ ६ ॥  
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा पञ्ची चान्त्या च चन्दना । विदेहविषये कुण्डसञ्ज्ञायां पुरि भूपतिः ॥ ७ ॥  
नाथो नाथकुलस्थैकः सिद्धार्थाख्यस्त्रिसिद्धिभाक्<sup>२</sup> । तस्य पुण्यानुभावेन<sup>३</sup> प्रियासीदियकारिणी ॥ ८ ॥  
विषये वत्सवासाख्ये कौशाम्बीनगराधिपः । सोलवंशे शतानीको देव्यस्यासीन्मृगावती ॥ ९ ॥  
दशार्णविषये राजा हेमकच्छपुराधिपः । सूर्यवंशाम्बरे राजसमो दशरथोऽभवत् ॥ १० ॥  
तस्याभूत्सुप्रभा देवी भास्वतो वा प्रभामला । कच्छाख्यविषये रोरुकाख्यायां पुरि भूपतिः ॥ ११ ॥  
महानुदयनस्तस्य<sup>४</sup> प्रेमदाऽभूत्प्रभावती । प्राप शीलवतीख्यातिं सा सम्बन्धीलधारणात् ॥ १२ ॥  
गान्धारविषये ख्यातो महीपालो महीपुरे । याचित्त्वा सत्यको ज्येष्ठामलब्ध्वा क्रुद्धवान् विधीः ॥ १३ ॥  
युद्धं वा रणाङ्गणे प्राप्तमानभङ्गः स सत्रपः । सद्यो दमवरं प्राप्य ततः संयममग्रहीत् ॥ १४ ॥

अथानन्तर—किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके धारक गौतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे । उदके समीप जाकर राजा श्रेणिकने समस्त आर्यिकाओंकी स्वामिनी चन्दना नामकी आर्यिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी सो अनेक बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ सिन्धु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र देवका अतिशय भक्त राजा था । उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकम्भोज, अकम्पन, पतङ्गक, प्रभञ्जन और प्रभास नामसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंके समान जान पड़ते थे ॥ ३-५ ॥ इन पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्धियोंके समान सात पुत्रियां भी थीं । जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी, सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलिनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्दना थी । विदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ वंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे । पुण्यके प्रभावसे प्रियकारिणी उन्हींकी स्त्री हुई थी ॥ ६-८ ॥ वत्सदेशकी कौशाम्बीनगरीमें चन्द्रवंशी राजा शतानीक रहते थे । मृगावती नामकी दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी ॥ ९ ॥ दशार्ण देशके हेमकच्छ नामक नगरके स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यवंश रूपी आकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे । सूर्यकी निर्मलप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छदेशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक बड़ा राजा था । प्रभावती नामकी चौथी पुत्री उसीकी हृदयवत्लभा हुई थी । अच्छी तरह शीलव्रत धारण करनेसे इसका दूसरा नाम शीलवती भी प्रसिद्ध हो गया था ॥ १०-१२ ॥ गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक रहता था । उसने राजा चेटकसे उसकी ज्येष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं दी इससे उस दुर्बुद्धि मूर्खने क्रुपित होकर रणाङ्गणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें वह हार गया जिससे मानभङ्ग होनेसे लज्जित होनेके कारण उसने शीघ्र ही दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर

स चेटकमहाराजः स्नेहाद्रूपमलीलिखत्<sup>१</sup> । पट्टके सप्तपुत्रीणां विशुद्धं शश्वदीक्षितुम् ॥ १५ ॥  
 निरीक्ष्य तत्र चेलिन्या रूपस्य पतितं मनाक् । बिन्दुमुरौ विधात्रेऽस्य नृपं कुपितवत्यसौ ॥ १६ ॥  
 पूज्यद्विस्त्रिर्मया बिन्दुः प्रमृष्टः<sup>२</sup> संस्तथापि सः । तथैव पतितस्तस्मिन्भाव्यमङ्केन तादृशा<sup>३</sup> ॥ १७ ॥  
 इति मत्वानुमानेन पुनर्न तमगार्जिपम् । इत्यत्रवीचदुक्तेन भूपतिः प्रीतिमीयिवान्<sup>४</sup> ॥ १८ ॥  
 स देवार्चनवेलायां जिनविम्बोपकण्ठके । तत्पट्टकं प्रसार्थेज्यां निर्वर्तयति सर्वदा ॥ १९ ॥  
 कदाचिच्चेटको गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम् । "राजा राजगृहं बाह्योद्याने स्नानपुरस्सरम् ॥ २० ॥  
 जिनप्रतिनिधीन्पूर्वमभ्यर्च्यभ्यर्णपट्टकम् । आनर्चं तद्विलोक्य स्वमप्राक्षीः पार्श्ववर्तिनः ॥ २१ ॥  
 किमेतदिति तेऽवोचन् राज्ञः सप्तापि पुत्रिकाः । लिखितास्तासु कल्याणं चतस्रः समवापिताः ॥ २२ ॥  
 तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते तत्र द्वे प्रासथौवने । कनिष्ठा बालिका राजन्निति तद्वचनश्रुतेः ॥ २३ ॥  
<sup>५</sup>भवान् रक्तं तयोश्चित्तं मन्त्रिणः समजिज्ञपत् । तेऽपि तत्कार्यमभ्येत्य कुमारमवदञ्चिति ॥ २४ ॥  
 चेटकाख्यमहीशस्य सुतयोरनुरक्तवान् । पिता ते याच्यमानोऽसौ न दत्ते वयसश्च्युतेः ॥ २५ ॥  
 इदञ्चावश्यकर्तव्यं कोऽप्युपायांऽत्र कथ्यताम् । सांऽपि मन्त्रिवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ॥ २६ ॥  
<sup>६</sup>जोषमाध्वमहं कुर्वे तत्समर्थनमित्यमून् । सन्तोष्य मन्त्रिणः सांऽपि तत्स्वरूपं विलासवत् ॥ २७ ॥  
 पट्टके सम्यगालिख्य वस्त्रेणाच्छाद्य यन्ततः । तत्पार्श्ववर्तिनः सर्वान्<sup>८</sup> स्वीकृत्योक्तोचदानतः ॥ २८ ॥

दीक्षा धारण कर ली ॥ १३-१४ ॥ तदनन्तर महाराज चेटकने स्नेहके कारण सदा देखनेके लिए पट्टकपर अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये । चेलिनीके चित्रमें जाँघपर एक छोटा-सा बिन्दु पड़ा हुआ था उसे देखकर राजा चेटक बनानेवालेपर बहुत रुपित हुए । चित्रकारने नम्रतासे उत्तर दिया कि हे पूज्य ! चित्र बनाते समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो तीन बार साफ किया परन्तु वह फिर-फिरकर पड़ता जाता था इसलिए मैंने अनुमानसे विचार किया कि यहाँ ऐसा चिह्न होगा ही । यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है । चित्रकारकी बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए ॥ १५-१६ ॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिन-प्रतिमाके समीप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फैलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥ १६ ॥ किसी एक समय राजा चेटक अपनी सेनाके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमें गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य उपवनमें डेरा दिया । स्नान करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमाओंकी पूजा की और उसके बाद समीपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की । यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह क्या है ? तब उन लोगोंने कहा कि हे राजन् ! ये राजाकी सातों पुत्रियोंके चित्रपट हैं इनमेसे चार पुत्रियों तो विवाहित हो चुकी हैं परन्तु तीन अविवाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है । इन तीनमें दो तो यौवनवती हैं और छोटी अभी बालिका है ! लोगोंके उक्त वचन सुनकर तूने अपने मन्त्रियोंको बतलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंमें अनुरक्त हो रहा है । मन्त्री लोग भी इस कार्यको ले कर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियोंमें अनुरक्त हैं उन्होंने वे पुत्रियाँ माँगी भी हैं परन्तु अवस्था ढल जानेके कारण वह देता नहीं है ॥ २०-२५ ॥ यह कार्य अवश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइये । मन्त्रियोंके वचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमें चतुर अभयकुमारने कहा कि आप लोग चुप बैठिये, मैं इस कार्यको सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार संतुष्ट कर अभयकुमारने मन्त्रियोंको बिदा किया और स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विलास पूर्ण चित्र बनाया । उसे वस्त्रसे ढककर बड़े यत्नसे ले गया । राजाके समीपवर्ती लोगोंको घूस दे कर उसने अपने वश कर लिया और स्वयं वोदक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके घरमें प्रवेश

१ व्यलीलिखत् ख० । रूपावलीलिखत् ग०, क०, घ० । २ सप्त चापि सः ल० । ३ तादृशम् क०, ग०, घ० । ४-मासवान् ल० । ५ राजद्वारागृहं ल० । ६ भवद् ल० । ७ योष-ल० । ८ स्वीकृत्योक्तोचदान-तः ल०, म०, स्वीकृत्योक्तदानतः ग०, घ०, क० । 'उक्तोचो दौकनं तथा । उपप्रदानमुपदोपहारोपायने समे' इति नामकोशे यतीन्द्राः ( ख०, टि० ) ।



स्वयञ्च वोद्रको नाम वणिगभूत्वा तदालयम् । प्राविक्षत्पट्टके रूपां कन्ये ते तत्करस्थिते<sup>१</sup> ॥ २९ ॥  
 विलोक्य भवति प्रीत्या<sup>२</sup> सौरङ्गादतिसाहसान् । कुमारविहितान्मार्गाद्वत्वा किञ्चित्गतोऽन्तरे ॥ ३० ॥  
 चेलिनी कुटिला ज्येष्ठा मुक्त्वा त्वं गच्छ विस्मृता । न्यानयाभरणातीति स्वयं तेन सहागमत् ॥ ३१ ॥  
 साप्यात्ताभरणाऽऽगत्य तामहध्वातिसन्धिता । तथाहमिति शोकार्ता निजमार्मी यशस्वतीम् ॥ ३२ ॥  
 इष्टा क्षान्तिं सगीपेऽस्याः श्रुत्वा धर्मं जिनोदितम् । निर्विद्य संसृतेर्दीक्षां प्राप पापविनाशिनीम् ॥ ३३ ॥  
 भवतापि महाप्रीत्या चेलिनीयं यथाविधि । गृहीतानुमहादेवी पट्टबन्धात्तुष सा ॥ ३४ ॥  
 चन्दना च यशस्वत्या गणिन्याः सन्निधौ स्वयम् । सम्यक्त्वं श्रावकाणाञ्च व्रतान्यादत्त सुव्रता ॥ ३५ ॥  
 ततः खगाद्द्वयवाक्श्रेणीसुवर्णाभपुरेश्वरः । मनोवेगः खगाधीशः स मनोवेगया समम् ॥ ३६ ॥  
 स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य प्रत्यायाँश्चन्दनां वने । अशोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥ ३७ ॥  
 विलोक्यानङ्गनिर्मुक्तहारजर्जरिताङ्गकः । प्रापच्य स्वप्रियां गेहं रूपिणी विद्यया स्वयम् ॥ ३८ ॥  
 विकृत्य रूपं त्वं तत्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनमध्येत्य गृहीत्वा चन्दनां द्रुतम् ॥ ३९ ॥  
 प्रत्यागतो मनोवेगाप्येतं<sup>३</sup> विहितवञ्चनम् । ज्ञात्वा कोपारुणीभूतविभीषणविलोचना ॥ ४० ॥  
 तां विद्यादेवतां वामपादेनाक्रम्य सावधीत् । कृतादृहासा सा विद्याप्यगालिहासनात्तदा ॥ ४१ ॥  
 \*चेष्टामालोकिनीविद्यातो ज्ञात्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यर्धपथे इष्ट्वा विस्त्रेमां स्वजीवितम् ॥ ४२ ॥  
 यदि वाञ्छेरिति क्रोधात्तं निर्भर्त्सयति स्म सा । स भूतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिभीलुकः ॥ ४३ ॥

किया। वहाँ वे दोनों कन्याएं वोद्रकके हाथमें स्थित पटियंपर लिखा हुआ आपका रूप देखकर आपमें प्रेम करने लगीं। कुमारने एक सुरङ्गका मार्ग पहलेसे ही तैयार करवा लिया था अतः वे कन्याएं बड़े साहसके साथ उस मार्गसे चल पड़ीं। चेलिनी कुटिल थी इसलिए कुछ दूर जानेके बाद ज्येष्ठसे बोली कि मैं आभूषण भूल आई हूँ तू जाकर उन्हें ले आ। यह कहकर उसने ज्येष्ठाको तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ आ गई ॥ २६-३१ ॥ जब ज्येष्ठा आभूषण ले कर लौटी तो वहाँ चेलिनी तथा अभयकुमारको न पाकर बहुत दुःखी हुई और कहने लगी कि चेलिनीने मुझे इस तरह ठगा है। अन्तमें उसने अपनी मामी यशस्वती नामकी आर्यिकाके पास जाकर जैन धर्मका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त हो कर पापोंका नाश करने वाली दीक्षा धारण कर ली ॥ ३२-३३ ॥ आपने भी बड़ी प्रीतिसे विधिपूर्वक चेलिनाके साथ बियाह कर उसे महादेवीका पट्ट बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥ ३४ ॥

इधर उत्तम व्रत धारण करने वाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर सम्यग्दर्शन और श्रावकोंके व्रत ग्रहण कर लिये ॥ ३५ ॥ किसी एक समय वह चन्दना अपने परिवारके लोगोंके साथ अशोक नामक वनमें क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय दैवयोगसे विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानीके साथ स्वच्छन्द क्रीडा करता हुआ वहाँसे निकला और क्रीड़ा करती हुई चन्दनाको देखकर कामके द्वारा छोड़ हुए बाणोंसे जर्जरशरीर हो गया। वह शीघ्र ही अपनी स्त्रीको घर भेजकर रूपिणी विद्यासे अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बैठा आया और अशोक वनमें आकर तथा चन्दनाको लेकर शीघ्र ही वापिस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान गई जिससे क्रोधके कारण उसके नेत्र लाल हो कर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवताको बायें पैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे वह अट्टहास करती हुई सिंहासनसे उसी समय चली गई ॥ ३६-४१ ॥ तदनन्तर वह मनोवेगा रानी आलोकिनी नामकी विद्यासे अपने पतिकी सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी और आधे मार्गमें चन्दना सहित लौटते हुए पतिकी देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार क्रोधसे उसने उसे बहुत ही डौंटा। मनोवेग अपनी स्त्रीसे बहुत

१ करस्थितम् ल० । २ सौमत्या-ष०, ग०, क० । ३-येतविहितवञ्चनाम् म०, ल० ।  
 ४-प्राभोगिनी ल० ।

ऐरावतीसरिदक्षिणान्ते साधितविद्यया । पर्णलब्ध्या तदैवान्तःकृतशोको विसृष्टवान् ॥ ४४ ॥  
सापि पञ्चनमस्कारपरिवर्तनतत्परा । निनाय शर्वरीं कृच्छ्राङ्गानुमत्युदिते स्वयम् ॥ ४५ ॥  
तत्र सन्निहितो दैवात्कालकाख्यो वनेचरः । तस्मै निजपराध्यांरुस्फुरिताभरणान्यदात् ॥ ४६ ॥  
धर्मञ्च कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः । भीमकूटाचलोपान्तनिवासी सिंहसञ्ज्ञकः ॥ ४७ ॥  
भयङ्कराख्यपल्लीशस्तस्य तां स समर्पयत् । सोऽपि पापो<sup>१</sup> विलोक्यैनां कामग्यामोहिताशयः ॥ ४८ ॥  
निग्रहेण ग्रहः क्रूरो वात्मसात्कर्तुमुद्यतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं कृथाः प्रत्यक्षदेवता ॥ ४९ ॥  
यदि कुप्येदियं तापशापदुःखप्रदायिनी । इति मानुक्तिभीत्या तां दुर्जनोऽपि व्यसर्जयत् ॥ ५० ॥  
तत्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्यग्विधानतः । पोष्यमाणा विनिश्चिन्ता कञ्चित्कालमजीगमत ॥ ५१ ॥  
अथ वत्साह्वये देशे कौशाम्ब्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी वृषभसेनाख्यस्तस्य कर्मकरोऽभवत् ॥ ५२ ॥  
मित्रवीरो वनेशस्य मित्रं तस्य वनाधिपः । चन्दनामर्पयामास सोऽपि भक्त्या वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥  
धनेन महता सार्धं नीत्वा कन्यां न्यवेदयत् । कदाचिच्छ्रेष्ठिनः पातुं जलमुद्धृत्य यत्नतः ॥ ५४ ॥  
आवर्जयन्त्याः केशानां कलापं मुक्तबन्धनम् । लम्बमानं करेणादात्सजलाद् धरातले ॥ ५५ ॥  
चन्दनायास्तदालोक्य तद्रूपादतिशङ्किनी<sup>२</sup> । श्रेष्ठिनी तस्य भद्राख्या स्वभर्तुरनया समम् ॥ ५६ ॥  
सम्पर्कं मनसा मत्वा कोपात्स्फुरिताधरा । निक्षिप्तशृङ्खलां कन्यां दुराहारेण दुर्जना ॥ ५७ ॥  
प्रतर्जनादिभिश्चैनां निरन्तरमबाधत् । सापि मत्कृतपापस्य विपाकोऽयं वराकिका ॥ ५८ ॥

ही डर गया । इसलिए उसने हृदयमें बहुत ही शोककर सिद्ध की हुई पर्णतर्ध्वी नामकी विद्यासे उस चन्दनाको भूतरमण नामक वनमें ऐरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ॥ ४२-४४ ॥ पञ्चनमस्कार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहने वाली चन्दनाने वह रात्रि बड़े कष्टसे बिताई । प्रातःकाल जब सूर्यका उदय हुआ तब भाग्यवश एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ पहुँचा । चन्दनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये और धर्मका उपदेश भी दिया जिससे वह भील बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्वतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका भीलका राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्लीका स्वामी था । उस कालक नामक भीलने वह चन्दना उसी सिंह राजाको सौंप दी । सिंह पापी था अतः चन्दनाको देखकर उसका हृदय कामसे मोहित हो गया ॥ ४५-४८ ॥ वह क्रूर ग्रहके समान निग्रह कर उसे अपने आधीन करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख उसकी माताने उसे समझाया कि हे पुत्र ! तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है, यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुःख देने वाली होगी । इस प्रकार माताके कहनेसे डरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह चन्दना छोड़ दी ॥ ४९-५० ॥ तदनन्तर चन्दनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया । वहाँ भीलकी माता उसका अच्छी तरह भरण-पोषण करती थी ॥ ५१ ॥

अथानन्तर-वत्स देशके कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृषभसेन नामका सेठ रहता था । उसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराज का मित्र था । भीलोंके राजाने वह चन्दना उस मित्रवीरके लिए दे दी और मित्रवीरने भी बहुत भारी धनके साथ भक्तिपूर्वक वह चन्दना अपने सेठके लिए सौंप दी । किसी एक दिन वह चन्दना उस सेठके लिए जल पिला रही थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था और जलसे भीगा हुआ पृथिवीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यत्नसे एक हाथसे संभाल रही थी ॥ ५२-५५ ॥ सेठकी स्त्री भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाका वह रूप देखा तो वह शङ्कासे भर गई । उसने मनमें समझा कि हमारे पतिका इसके साथ सम्पर्क है । ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई । क्रोधके कारण उसके अँठ काँपने लगे । उस दुष्टाने चन्दनाको साँकलसे बाँध दिया तथा खराब भोजन और ताड़न मारण आदिके द्वारा वह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने लगी । परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किये हुए पाप-कर्मका फल है यह बेचारी सेठानी क्या कर सकती है ? ऐसा विचारकर वह निरन्तर

श्रेष्ठिर्ना किं करोतीति कुर्वन्त्यात्मविगर्हणम् । स्वाप्रजाया मृगावत्या अप्येतन्न न्यवेदयत् ॥ ५९ ॥  
 अन्यदा नगरे तस्मिन्नेव वीरस्तनुस्थितेः । प्रविष्टवान्निरीक्षयासौ तं भक्त्या मुक्तशृङ्खला ॥ ६० ॥  
 सर्वाभरणदृश्याङ्गी<sup>१</sup> तद्भारणेन भूतलम् । शिरसा स्पृश्य नत्वोच्चैः प्रतिगृह्य यथाविधि ॥ ६१ ॥  
 भोजयित्वाप तद्दानान्मानिनी मानितामरैः । वसुधारां मरुत्पुष्पवृष्टिं सुरभिमास्तम् ॥ ६२ ॥  
 सुरदुन्दुभिनिर्घोषं दानस्तवनघोषणम् । तदैवोत्कृष्टपुण्यानि फलन्ति विपुलं फलम् ॥ ६३ ॥  
 अप्रजास्यास्तदागत्य पुत्रेणामा मृगावती । तद्ज्ञात्वोदयनाख्येन स्नेहादालिङ्ग्य चन्दनाम् ॥ ६४ ॥  
 पृष्ठा तां प्राक्कनं वृत्तं श्रुत्वा शोकाकुला भृशम् । निजगोहं समानीय सुस्थिता भयविह्वलौ ॥ ६५ ॥  
 स्वपादशरणौ भद्रां श्रेष्ठिनञ्च दयावती<sup>२</sup> । चन्दनापादपङ्केजयुगलं तावनीननमत् ॥ ६६ ॥  
 क्षमा मूर्तिमतीवेयं कृत्वाह्लादं तयोस्ततः । तद्भार्ताकर्णनोदीर्णरागादागतबन्धुभिः ॥ ६७ ॥  
 प्रापितैतत्पुरं वीरं वन्दितुं निजबान्धवान् । विसृज्य जातनिर्वेगा गृहीत्वात्रैव संयमम् ॥ ६८ ॥  
 तपोवगममाहात्म्यादध्यस्थाद्गणिनीपदम् । इतीहजन्मसम्बन्धं श्रुत्वा तत्रानुचेतकः ॥ ६९ ॥  
 प्राक्किं कृत्वागता चन्दनात्रैतत्स च पृष्टवान् । सोऽप्यवादीदिहैवास्ति मगधे नगरी पृथुः ॥ ७० ॥  
 वस्तेति पालयत्येनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तत्राग्निमित्राख्यस्तस्यैका ब्राह्मणी प्रिया ॥ ७१ ॥  
 परा वैश्यसुता<sup>४</sup> सुनुर्बाह्मण्यां शिवभूतिवाक् । दुहिता चित्रसेनाख्या<sup>५</sup> विदुसुतायामजायत ॥ ७२ ॥

आत्मनिन्दा करती रहती थी। उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहिन मृगावतीके लिए भी कहलाकर नहीं भेजे थे ॥ ५६-५९ ॥

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान् महावीर स्वामीने आहारके लिए उसी नगरीमें प्रवेश किया। उन्हें देख चन्दना बड़ी भक्तिसे आगे बढ़ी। आते बढ़ते ही उसकी साँकल टूट गई और आभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा। उन्हींके भारसे मानो उसने मुककर शिरसे पृथिवी तलका स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया और विधिपूर्वक पङ्गाह कर उन्हें भोजन कराया। इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, देवोंने उसका सन्मान किया, रत्नधारा की वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुभियोंका शब्द हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो ठीक ही है क्योंकि उत्कृष्ट पुण्य अपने बड़े भारी फल तत्काल ही फलते हैं ॥ ६०-६३ ॥ तदनन्तर चन्दनाकी बड़ी बहिन मृगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उदयनके साथ उसके समीप आई और स्नेहसे उसका आलिङ्गन कर पिछला समाचार पूछने लगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई। तदनन्तर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई। यह देख भद्रा सेठानी और वृषभसेन सेठ दोनों ही भयसे धबड़ाये और मृगावतीके चरणोंकी शरणमें आये। दयालु रानीने उन दोनोंसे चन्दनाके चरण-कमलोंमें प्रणाम कराया ॥ ६४-६६ ॥ चन्दनाके क्षमाकर देनेपर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही है। इस समाचारके सुननेसे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण चन्दनाके भाई-बन्धु भी उसके पास आ गये। उसी नगरमें सबलोग महावीर स्वामीकी चन्दनाके लिए गये थे, चन्दना भी गई थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न होनेसे उसने अपने सब भाई-बन्धुओंको छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरण तथा सम्यग्ज्ञानके माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार चन्दना वर्तमानके भवकी बात सुनकर राजा चेतकने फिर प्रश्न किया कि चन्दना पूर्व जन्ममें ऐसा कौन-सा कार्य करके यहाँ आई है। इसके उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे—इसी मगध देशमें एक बत्सा नामकी विशाल नगरी है। राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी नगरीमें एक अग्निमित्र नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी दो स्त्रियाँ थीं एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्यकी पुत्री। ब्राह्मणीके शिवभूति नामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की

१ सर्वाभरणदृश्याङ्गी ल० । २ निजगोहं य० । ३ मृगावती ल० । ४ सुनुर्बाह्मण्यां ल० । ५ वैश्य-पुत्र्या इति कचित् ।

शिवभूतेरभूद्भार्या सोमिला सोमशर्मणः । सुता दुग्देवशर्माख्यश्चित्रसेनास्य च प्रिया ॥ ७३ ॥  
 अभिभूतौ गतप्राणे तन्जस्तत्पदेऽभवत् । विधवा चित्रसेनापि पोष्यत्वं सह सूनुभिः ॥ ७४ ॥  
 शिवभूतेः समापन्ना दैवस्य कुटिला गतिः । सोमिला चित्रसेनायास्तस्सुतानां च पोषणम् ॥ ७५ ॥  
 पापिष्ठाऽसहमानाऽसौ तर्जिता शिवभूतिना । क्रुध्वा जीवत्यमा चित्रसेनयायं स चेत्यसत् ॥ ७६ ॥  
 अकरोद्दूषणं धिग्धिङ्नाकार्यं नाम योषिताम् । चित्रसेनापि मामेया रुषैवादूपयन्मृपा ॥ ७७ ॥  
 निग्रहीष्यामि मृत्वैनां निदानमकरोदिति । अन्यदामन्त्रणे पूर्वं शिवगुप्तमुनीश्वरम् ॥ ७८ ॥  
 सोमिलाभोजयत्तस्यै शिवभूतिः स्म कुप्यति । तत्तपोधनमाहात्म्यकथनेन तथा पतिः ॥ ७९ ॥  
 प्रसादितस्ततः साधु तद्दानं सोऽन्वमन्यत । स कालान्तरमाश्रित्य लोकान्तरगतः सुतः ॥ ८० ॥  
 जातोत्र विषये <sup>१</sup>वङ्गे कान्ते कान्तपुरेशिनः । सुवर्णवर्मणो विद्युल्लेखायाश्च महाबलः ॥ ८१ ॥  
 देशेऽङ्गैश्चैव चम्पायां श्रीपेणाख्यमहर्षिपतं । सुवर्णवर्मसोदर्या धनश्रीः प्रेमदायिनी ॥ ८२ ॥  
 सोमिलाभूतयोः पुत्री कनकादिलताभिधा । महाबलकुमाराय दातव्येयमिति स्वयम् ॥ ८३ ॥  
 जन्मन्येवाभ्युपेतैषा मात्रा पित्रा च सम्मदात् । वर्धमानः पुरे तस्मिन्नेव बालिकया समम् ॥ ८४ ॥  
 अभ्यर्णे यौवने यावद्विवाहसमयो भवेत् । <sup>२</sup>तावत्पृथग्वसेदस्मादिति मानुलवाक्यतः ॥ ८५ ॥  
 बहिः स्थितः कुमारोऽसौ ऋणायामतिसक्तवान् । तयोर्योगोऽभवत्कामावस्थामसहमानयोः ॥ ८६ ॥  
 ततः कान्तपुरं लज्जाप्रेरितौ तौ गतौ तदा । <sup>३</sup>दृष्ट्वा तत्र कुमारस्व <sup>४</sup>मात्रा पित्रा च शोकतः ॥ ८७ ॥

उत्पन्न हुई ॥ ६७-७२ ॥ शिवभूतिकी स्त्रीका नाम सोमिला था जो कि सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री थी और उसी नगरमें एक देवशर्मा नामका ब्राह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना व्याही गई थी ॥ ७३ ॥ कितने ही दिन बाद जब अभिभूति ब्राह्मण मर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिरूढ हुआ । इधर चित्रसेना विधवा हो गई इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूतिके घर आकर रहने लगी सो ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी गति बड़ी टेढ़ी है । शिवभूति, अपनी बहिन चित्रसेना और उसके पुत्रोंका जो भरण-पोषण करता था वह पापिनी सोमिलाको सह्य नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिने उसे ताड़ना दी तब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भर्ता चित्रसेनाके साथ जीवित रहता है अर्थात् इसका उसके साथ अनुराग है । यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्त्रियोंको कोई भी कार्य अकार्य नहीं है अर्थात् वे बुरासे बुरा कार्य कर सकती हैं इसलिए इन स्त्रियोंको बार-बार धिक्कार हो । चित्रसेनाने भी क्रोधमें आकर निदान किया कि इसने मुझे मिथ्या दोष लगाया है । इसलिए मैं मरनेके बाद इसका निग्रह करूंगी—बदला लूंगी । तदनन्तर किसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक मुनिराजको पड़गाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया परन्तु उन मुनिराजका माहात्म्य कह कर सोमिलाने शिवभूतिको प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यन्त रमणीय वङ्ग देशके कान्तपुर नगरमें वहाँके राजा सुवर्णवर्मा तथा रानी विद्युल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ ॥ ७४-८१ ॥ इसी भरतक्षेत्रके अङ्ग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीषेण राज्य करते थे । इनकी रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर नगरके राजा सुवर्णवर्माकी बहिन थी । सोमिला उन दोनोंके कनकलता नामकी पुत्री हुई । जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पिताने बड़े हर्षसे अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमारके लिए देनी चाहिये और उसके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था । महाबलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाके घर बालिका कनकलताके साथ होता था । जब वह क्रमसे वृद्धिको प्राप्त हुआ और यौवनका समय निकट आ गया तब मामाने कहा कि जबतक तुम्हारे विवाहका समय आता है तबतक तुम यहाँसे पृथक् रहो । मामाके यह कहनेसे महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा तो भी वह कन्यामें सदा आसक्त रहता था । वे दोनों ही कामकी अवस्था को सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया ॥ ८२-८६ ॥ इस कार्यसे वे दोनों स्वयं

तयोर्विहङ्गधारित्वाद्प्रियावावयोरपि । यातं देशान्तरं नात्र स्थातव्यमिति जल्पितौ ॥ ८८ ॥  
 तदैवाकुस्तां तौ च प्रत्यन्तनगरे स्थितिम् । विहरन्तावथान्येद्युरुद्याने मुनिपुङ्गवम् ॥ ८९ ॥  
 मुनिगुप्ताभिर्भ्रं वीक्ष्य भक्त्या भिक्षागवेषिणम् । प्रत्युत्थाय परीत्याभिवन्द्याभ्यर्च्य यथाविधि ॥ ९० ॥  
 स्वोपयोगनिमित्तानि तानि खाद्यानि मोदतः । स्वादूनि लड्डुकादीनि दत्त्वा तस्मै तपोभृते ॥ ९१ ॥  
 नवभेदं जिनोद्दिष्टमदृष्टं स्वेष्टमापतुः । वनेऽन्यदा कुमारोऽसौ मधुमासे विषाहिना ॥ ९२ ॥  
 दृष्टो नष्टासुको जातो दृष्ट्वा तं देहमात्रकम् । तस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम् ॥ ९३ ॥  
 अगात्तदनुमार्गेण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्ठामवासस्य भवेद्धि गतिरीदृशी ॥ ९४ ॥  
 अस्मिन्नेवोज्जयिन्याख्यमवन्तिविषये पुरम् । प्रजापतिमहाराजः पालकस्तस्य हेलयाम् ॥ ९५ ॥  
 तत्रैव धनदेवाख्यश्रेष्ठी तद्देहिनी सती । धनमित्रा तयोः सूनुर्नागदत्तो महाबलः ॥ ९६ ॥  
 तनूजा चानुजास्यासीदर्थस्वामिन्यभिरुच्यया । पलाशद्वीपमध्यस्थपलाशनगरेक्षिनः ॥ ९७ ॥  
 महाबलमहीशस्य कनकादिलताऽभवत् । काञ्चनादिलतायाश्च ख्याता पद्मलता सुता ॥ ९८ ॥  
 उपयम्यापरां श्रेष्ठी श्रेष्ठिनीं विससर्ज ताम् । सापि देशान्तरंगत्वा ससुता जातसंविदा ॥ ९९ ॥  
 शीलदत्तगुरोः पार्श्वे गृहीतश्रावकव्रता । सूनुमप्यर्पयामास शास्त्राभ्यासनिमिरतः ॥ १०० ॥  
 सोऽपि कालान्तरे बुद्धिनौनिस्तीर्णश्रुताम्बुधिः<sup>१</sup> । सत्कविश्च स्वयम्भूत्वा शास्त्राभ्याख्याससद्यशाः ॥ १०१ ॥  
 नानालङ्कारमयोक्तिसुप्रसन्नसुभाषितैः । विशिष्टजनचेतस्सु प्रह्लादमुदपादयत् ॥ १०२ ॥

ही लज्जित हुए और कान्तपुर नगरको चले गये । उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बड़े शोकसे कहा कि चूँकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करने वाले हो अतः हम लोगोंको अच्छे नहीं लगते । अब तुम किसी दूसरे देशमें चले जाओ यहाँ मत रहो । माता-पिताके ऐसा कहनेपर वे उसी समय वहाँसे चले गये और प्रत्यन्तनगरमें जाकर रहने लगे । किसी एक दिन वे दोनों उद्यानमें विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी । वे मुनिराज भिक्षाकी तलाशमें थे । महाबल और कनकलताने भक्तिपूर्वक उनके दर्शन किये, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और विधिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर उन दोनोंने अपने उपयोगके लिए तैयार किये हुए लड्डू आदि मिष्ठ खाद्य पदार्थ, हर्ष पूर्वक उन मुनिराजके लिए दिये जिससे उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया । किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चैत्रमासमें वनमें घूम रहा था वहाँ एक विधैले साँपने उसे काट खाया जिससे वह शीघ्र ही मर गया । पतिको शरीर मात्र (मृत) देखकर उसकी स्त्री कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मघात कर लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीकी पीछे ही चल पड़ी हो । आचार्य कहते हैं कि जो स्नान अन्तिम सीमाको प्राप्त हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है ॥ ८७-९४ ॥

इसी भरत क्षेत्रके अवनति देशमें एक उज्जयिनी नामका नगर है । प्रजापति महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे ॥ ९५ ॥ उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था । उसकी धन-मित्रा नामकी पतिव्रता सेठानी थी । महाबलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र हुआ ॥ ९६ ॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी छोटी बहिन थी । पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । कनकलता, इसी महाबल राजाकी काञ्चनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई ॥ ९७-९८ ॥ किसी एक समय उज्जयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी स्त्रीके साथ विवाहकर पहिली स्त्री धनमित्राको छोड़ दिया इसलिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चली गई । एक समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शील-दत्त गुरुके पास श्रावकके व्रत ग्रहण किये और शास्त्रोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं मुनिराजको साँप दिया ॥ ९९-१०० ॥ समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरूपी नौकाके द्वारा शास्त्र रूपी समुद्रको पार कर गया । वह उत्तम कवि हुआ और शास्त्रोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने लगा ॥ १०१ ॥ वह नाना अलंकारोंसे मनोहर वचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे विशिष्ट

तत्रैवारक्षिपुत्रेण दृढरक्षेण संगतिम् । कृत्वा तत्पुरशिष्टानां शास्त्रव्याख्यानकर्मणा ॥ १०३ ॥  
 उपाध्यायत्वमध्यास्य तत्राप्तवसुना निजाम् । जननीं स्वस्वसारञ्च स्वयञ्च <sup>१</sup>परिपोषयन् ॥ १०४ ॥  
 स्वमातुलानीपुत्राय नन्दिग्रामनिवासिने । कुलवाणिजनान्ने स्वामनुजामदितादरात् ॥ १०५ ॥  
 स कदाचिदुपश्लोकपूर्वकं क्षितिनायकम् । विलोक्य तत्प्रसादात्सम्मानधनसम्पदः ॥ १०६ ॥  
 कृतमातृपरिप्रश्नः पितुरागत्य सन्निधिम् । प्रणमत्तत्पदान्भोजं धनदेवः समीक्ष्य तम् ॥ १०७ ॥  
 जीव पुत्रात्र तिष्ठेति प्रियैः प्रीणयति स्म सः । सोऽपि रत्नादितद्वस्तुभारं देहीत्ययाचत ॥ १०८ ॥  
 पिता तु पुत्रं मद्गस्तु पलाशद्वीपमध्यगे । <sup>२</sup>स्थितं पुरे पलाशाख्ये तत्त्वयानीय गृह्यताम् ॥ १०९ ॥  
 इत्याख्यञ्चकुलेनामा भ्रात्रा दायादकेन सः । सहदेवेन चासेष्टसिद्धिर्यदि भवेदहम् ॥ ११० ॥  
 प्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेश्वरीमिति । आशास्थानु जिनाश्रुत्वा <sup>३</sup>कृतात्मगुरुवन्दनः <sup>४</sup> ॥ १११ ॥  
 आरुह्य नावमम्भोधिमवगाह्य ब्रजन् द्रुतम् । पलाशपुरमासाद्य तत्र स्थापितपोतकः ॥ ११२ ॥  
 पुरं <sup>५</sup>विनरसञ्चारं किमेतदिति विस्मयात् । ततः प्रसारितायामिरज्जुभिस्तदवाप्तवान् ॥ ११३ ॥  
 प्रविश्य तत्पुरं तत्र कन्यामेकाकिर्णीं स्थिताम् । एकत्रालोक्य तामाह वदैतन्नगरं कुतः ॥ ११४ ॥  
 जातमीदृक्स्वयं का वेत्यादरात्साश्रवीदलम् । प्रागेतन्नगरेशस्य दायादः कोऽपि कोपतः <sup>६</sup> ॥ ११५ ॥  
 सिद्धराक्षसविद्यत्वात्सम्प्राप्तो राक्षसाभिधाम् । पुरं पुराधिनाथञ्च स निर्मूलं व्यनीनशत् ॥ ११६ ॥  
 तद्वंशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना । कृतरक्षं तदैवैतत्स्थापितं नगरं पुनः ॥ ११७ ॥

मनुष्योंके हृदयोंमें आह्लाद उत्पन्न कर देता था ॥ १०२ ॥ वहाँ के कोटपालके पुत्र दृढरक्षके साथ मित्रताकर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद प्राप्तकर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहिन और अपने आपको पोषण किया ॥ १०३-१०४ ॥ नन्दी नामक गाँवमें रहने वाले कुलवाणिज नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़े आदरसे अपनी छोटी बहिनका विवाह कर दिया ॥ १०५ ॥ किसी एक दिन उसने बहुतसे श्लोक सुनाकर राजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, धन तथा हर्ष प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ किसी एक दिन मातासे पूछकर वह अपने पिताके पास आया और उनके चरण-कमलोंको प्रणामकर खड़ा हो गया । सेठ धनदेवने उसे देखकर 'हे पुत्र चिरंजीव रहो, यहाँ बैठो' इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर नागदत्तने अपने भागकी रत्नादि वस्तुएं माँगी ॥ १०७-१०८ ॥ इसके उत्तरमें पिताने कहा कि 'हे पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाशद्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक नगरमें रखी हैं सो तू लाकर ले ले' । पिताके ऐसा कहनेपर वह अपने हिस्सेदार नकुल और सहदेव नामक भाइयोंके साथ नाथपर बैठकर समुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टसिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा करूँगा । ऐसी इच्छाकर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की और पिताको नमस्कारकर चला । वह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने अपना जहाज खड़ाकर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारसे रहित है । यह देख वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी रस्सी फेंककर उनके आशयसे वह उस नगरके भीतर पहुँचा ॥ १०९-११३ ॥ नगरके भीतर प्रवेशकर उसने एक जगह अकेली बैठी हुई एक कन्याको देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? तथा तू स्वयं कौन है ? सो कह । इसके उत्तरमें वह कन्या आदरके साथ कहने लगी कि 'पहले इस नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके कारण 'राक्षस' इस नामको ही प्राप्त हो गया था । उसीने क्रोधवश नगरको और नगरके राजाको समूल नष्ट कर दिया था । तदनन्तर उसके वंशमें होने वाले किसी पुरुषने मन्त्र-पूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरको सुरक्षित कर फिरसे

१ परितोषयन् ख०, म० । २ स्थिते ल० । ३-तत्त्वा ख०, म० । ४ वन्दनम् म० । ५ विगतस-  
 ञ्चारं ल० । ६ कोपनः ल० ।

पतिर्महाबलोऽथास्य<sup>१</sup> काञ्चनादिलता प्रिया । तस्यै<sup>२</sup> तयोरहं पद्मलताऽभूवं सुताख्यया ॥ ११८ ॥  
 कदाचिन्मत्पिता मन्त्रसाधितं खड्गमात्मनः । प्रमादाच्च करोति स्म करे तत्रन्ध्रवीक्षणात् ॥ ११९ ॥  
 राक्षसेन हतस्तस्मात्पुरं शून्यमभूदिदम् । मत्सुता निर्विशेषेति मां मत्वामारयन् गतः ॥ १२० ॥  
 आगन्तासौ पुनर्नेतुमिति तद्वचनश्रुतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तहितः खगम् ॥ १२१ ॥  
 आयान्तभवधीत्सोपि पठन् पञ्चनमस्कृतिम् । न्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमतिस्तदा ॥ १२२ ॥  
 श्रुत्वा श्रीनागदत्तोऽपि नमस्कारपदावलीम् । मिथ्या मे दुष्कृतं सर्वमित्यपास्यायुधं निजम् ॥ १२३ ॥  
 कुतो धर्मस्तवेत्येतमब्रवीत्सत्रणं खगम् । सोऽपि श्रावकपुत्रोऽहं क्रोधादेतत्कृतं मया ॥ १२४ ॥  
 क्रोधान्मित्रं भवेच्छत्रुः क्रोधाद्धर्मो विनश्यति । क्रोधाद्वाज्यपरिभ्रंशः क्रोधान्मोमुच्यतेऽमुभिः ॥ १२५ ॥  
 क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्क्रोधाद्दधोगतिः । ततः श्रेयोधिनां त्याज्यः स सदेति जिनोदितम् ॥ १२६ ॥  
 तज्जानन्नपि पापेन कोपेनाहं वशीकृतः । प्राप्तं तत्फलमद्यैव परलोके किमुच्यते ॥ १२७ ॥  
 इत्यात्मानं विनिन्द्यैनं कृतस्तत्त्वं ब्रजेः क्व वा । इत्यवोचन्नभोगस्तं वैश्योऽप्येवमुदाहरत् ॥ १२८ ॥  
 प्राधुणिकोऽहं<sup>३</sup> दृष्टेमां कन्याकां शोकविह्वलाम् । स्वन्नयाञ्जय<sup>४</sup> पास्यामीत्याविष्कृतपराक्रमः ॥ १२९ ॥  
 भ्रतुधवा धर्मभक्तं<sup>५</sup> तत् कृतवान्कार्यमीदृशम् । त्यक्तं सद्धर्मवात्सल्यं सारं जैनेन्द्रशासने ॥ १३० ॥  
 जैनशासनमर्यादामतिलङ्घयतो मम । अपराधं क्षमस्वेति तदुक्तमवगम्य सः ॥ १३१ ॥  
 किं कृतं भवता पूर्वं मधुपाजितकर्मणः । परिपाकविशेषोऽयमिति पञ्चनमस्क्रियाम् ॥ १३२ ॥

बसाया है ॥ ११४-११७ ॥ इस समय इस नगरका राजा महाबल है और उसकी रानीका नाम काञ्चनलता है । मैं इन्हीं दोनोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी ॥ ११८ ॥ मेरा पिता उस मन्त्र-साधित तलवारको कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षसने उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसे सूना हो गया है । उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया । अब वह मुझे लेनेके लिए फिर आवेगा । कन्याकी बात सुनकर वह वैश्य उस तलवारको लेकर नगरके गोपुर ( मुख्य द्वार ) में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया । वह विद्याधर भी उसी समय पञ्चनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिरकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ११९-१२२ ॥ पञ्चनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यर्थ ही किया है । उसने मठ अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधरसे पूछा कि तेरा धर्म क्या है ? इसके उत्तरमें विद्याधरने कहा कि, मैं भी श्रावकका पुत्र हूँ, मैंने यह कार्य क्रोधसे ही किया है ॥ १२३-१२४ ॥ देखो क्रोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, क्रोधसे धर्म नष्ट हो जाता है, क्रोधसे राज्य भ्रष्ट हो जाता है और क्रोधसे प्राण तक छूट जाते हैं । क्रोधसे माता भी क्रोध करने लगती है और क्रोधसे अधोगति होती है इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिये ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है । मैं जानता हुआ भी क्रोधके वशीभूत हो गया था सो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया अब परलोककी बात क्या कहना है ? इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्याधर नागदत्तसे बोला कि आप यहाँ कहाँसे आये हैं ? इसके उत्तरमें वैश्यने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ और इस कन्याको शोकसे विह्वल देखकर तेरे भयसे इसकी रक्षा करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ॥ १२५-१२६ ॥ तू 'धर्म भक्त है' यह जाने बिना ही मैं यह ऐसा कार्य कर बैठा हूँ और मैंने जिनेन्द्रदेवके शासनमें कहे हुए सारभूत धर्म-वात्सल्यको छोड़ दिया है ॥ १३० ॥ हे भव्य ! जैन शासनकी मर्यादाका उल्लङ्घन करने वाले मेरे इस अपराधको तू क्षमा कर । नागदत्तकी कही हुई यह सब समझकर वह विद्याधर कहने लगा

१ महाबलोप्यस्य इति क्वचित् । २ तस्मै तयोरहं इति क्वचित् । ३ दृष्टेमां क्व० । ४ दास्यामी-क्व० । ५ धर्मभक्तं ते ।

श्रीनागदत्तसम्प्रोक्तं भावयन्नाकमापिवान् । ततः पद्मलतां कन्यां धनञ्ज पितृसञ्चितम् ॥ १३३ ॥  
समाकर्षणरज्जावतार्यं भ्रातुर्निजस्य तौ । नकुलः सहदेवश्च रज्जुमाकर्षणोचिताम् ॥ १३४ ॥  
अदत्त्वा पापबुद्ध्यास्मान्मङ्गुल्यु स्वपुरमीयतुः । छिद्रमासाद्य तन्नास्ति दायादा यत्र कुर्वते ॥ १३५ ॥  
तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि युवाभ्यां सह यातवान् । किञ्जायादिति भूपेन साशङ्केन जनेन च ॥ १३६ ॥  
पृष्टौ सहैव गत्वासौ पृथक्क्वापि गतस्ततः । नाविद्वेति व्यधत्तां तावनुजावप्यपह्ववम् ॥ १३७ ॥  
श्रीनागदत्तमातापि व्याकुलीकृतचेतसा । शीलदत्तं गुरुं प्राप्य समपृच्छत्तजः कथाम् ॥ १३८ ॥  
सोऽपि तत्सम्भ्रमं दृष्ट्वा कारुण्याहितमानसः । निर्विघ्नं ते तनूजो द्राक् मा भैषीरागमिष्यति ॥ १३९ ॥  
इत्याश्वासं मुनिस्तस्या व्यघात्सन्ज्ञानलोचनः । इतः श्रीनागदत्तोऽपि विलोक्य जिनमन्दिरम् ॥ १४० ॥  
किञ्चित्प्रदक्षिणीकृत्य निषीदाम्यहमित्यदः । प्रविश्य विहितस्तोत्रः सचिन्तस्तत्र संस्थितः ॥ १४१ ॥  
तदा विद्याधरः कश्चित्तं दृष्ट्वा ज्ञातवृत्तकः । जैनः सवित्तं नीत्वास्माद् द्वीपमध्यान्मनोहरे ॥ १४२ ॥  
वनेऽवतार्यं सुस्थाप्य समापृच्छथादरान्वितः । यथेष्टमगमत्सा हि धर्मवत्सलता सताम् ॥ १४३ ॥  
तत्समीपेऽनुजा प्राप्ते वसन्त्यस्यैत्य सादरम् । प्रत्यग्रहीद्वनं तत्र सोऽपि निक्षिप्य सुस्थितः ॥ १४४ ॥  
अथोपगम्य तं स्नेहात् स्वानुजादिसनाभयः । कुमाराभिनवां कन्यां नकुलस्याजिघृक्षुणा ॥ १४५ ॥  
श्रीष्टिना वयमाहूता निस्सत्त्वाद्रिक्पाणयः । कथं तत्र ब्रजिष्याम इत्यात्याकुलचेतसः ॥ १४६ ॥  
अथ सर्वेऽपि जाताः स्म इति ते न्यगदन्नसौ । तच्छ्रुत्वा साररत्नानि निजरत्नकदम्बकात् ॥ १४७ ॥

कि इसमें आपने क्या किया है यह मेरे ही पूर्वोपाजित कर्मका विशिष्ट उदय है। इस प्रकार नागदत्तके द्वारा कहे हुए पञ्चनमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्गको प्राप्त हुआ। तदनन्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए धनको खींचनेकी रस्सीसे उतारकर जहाजपर पहुँचाया तथा सहदेव और नकुल भाईको भी जहाजपर पहुँचाया। नकुल और सहदेवने जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तको नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे दायाद-भागीदार न कर सकें ॥ १३१-१३५ ॥ उन दोनों भाइयोंको देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंको कुछ शङ्का हुई और इसीलिए उन सबने पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हमलोगोंके साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दोनोंने भाई होकर भी नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा ली ॥१३६-१३७॥ पुत्रके न आनेकी बात सुनकर नागदत्तकी माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरुके पास जाकर अपने पुत्रकी कथा पूछी ॥ १३८ ॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर आया अतः उन्होंने सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्रसे देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विघ्नके बिना शीघ्र ही आवेगा। इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा दी और मैं यहाँ बैठूँगा इस विचारसे उसके भीतर प्रवेश किया। भीतर जाकर उसने भगवान्की स्तुति पढ़ी और फिर चिन्तातुर हो कर वह वहीं बैठ गया ॥ १३९-१४१ ॥ दैवयोगसे वहीं पर एक जैनी विद्याधर आ निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये और फिर उसे धन सहित इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा। तदनन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह ठहराकर और बड़े आदरसे पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थानपर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी धर्म-वत्सलता यही कहलाती है ॥१४२-१४३॥

उस मनोहर वनके समीप ही नन्दीग्राममें नागदत्तकी छोटी बहिन रहती थी इसलिए वह वहाँ पहुँचा और अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा ॥ १४४ ॥ कुछ समय बाद उसकी बहिनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि हे कुमार ! नई आई हुई कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए ग्रहण करना चाहता है इसलिए उसने हम सबको बुलाया है परन्तु निर्धन होनेसे हम सब खाली हाथ वहाँ कैसे जावेंगे ? यह विचारकर हम सभी



तेभ्यो नाना मुदा दत्त्वा यूयमागमनं मम । ददध्वं सन्निवेद्यैतां कन्यायै रत्नमुद्रिकाम् ॥ १४८ ॥  
 इत्युक्त्वा स्वयमित्त्वानु शीलदत्तागुरुं मिथः । वन्दित्वा रक्षिसूनुञ्च दृष्ट्वा सन्मित्रमात्मनः ॥ १४९ ॥  
 आमूलाकार्यमाख्याय सह तेन ततो गतः । साररत्नैर्महीपालं सानुरागं व्यलोकत ॥ १५० ॥  
 दृष्ट्वा भवानहो नागदत्त कस्मात्समागतः । क्व वा गतं त्वयेत्येष तुष्टः पृष्टो महीभुजा ॥ १५१ ॥  
 भागयाचनयात्रादि सर्वमामूलतोऽब्रवीत् । तदाकर्ण्य नृपः क्रुध्वा प्रवृत्तः श्रेष्ठिनिग्रहे ॥ १५२ ॥  
 न युक्तमिति निर्बन्धाज्ञागदत्तेन वारितः । दत्त्वा श्रेष्ठिपदं तस्मै सारवित्तसमन्वितम् ॥ १५३ ॥  
 विवाहविधिना पद्मलतामपि समर्पयत् । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ १५४ ॥  
 पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं राक्षसाद्यन्तरायतः । व्यपेत्यार्यं महारत्नान्यात्मीकृत्यागतः सुखम् ॥ १५५ ॥  
 पुण्याज्जलायते वह्निर्विषमप्यमृतायते । मित्रायन्ते द्विषः पुण्यात्पुण्याच्छाम्यन्ति भीतयः<sup>१</sup> ॥ १५६ ॥  
 दुर्विधाः सधनाः पुण्यात् पुण्यात्स्वर्गश्च लभ्यते । तस्मात्पुण्यं विचिन्वन्तु<sup>२</sup> हतापत्सम्पदेपिणः ॥ १५७ ॥  
 जिनोक्तधर्मशास्त्रानुयानेन विहितक्रियाः । इति सभ्याश्च तद्वाक्यं बहवश्चेतसि व्यधुः ॥ १५८ ॥  
 अथ श्रीनागदत्तोऽपि सञ्जातानुशयं तदा । क्षमस्व मे कुमारेति प्रणमन्तं<sup>३</sup> स्वपुत्रकम् ॥ १५९ ॥  
 सभार्यं श्रेष्ठिनं मैवमित्युत्थाप्य प्रियोक्तिभिः । सन्तोष्य जिनपूजाञ्च प्राक्प्रोक्तमकरोत्कृतां ॥ १६० ॥  
 एवं श्रावकसद्धर्ममधिगम्य परस्परम् । जातसौहार्दचित्तानां दानपूजादिकर्मभिः ॥ १६१ ॥

लोग आज अत्यन्त व्याकुलचित्त हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर नागदत्तने अपने रत्नोंके समूहमेंसे निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नतासे उन्हें दिये और साथ ही यह कहकर एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खबर देकर उस कन्याके लिए यह अंगूठी दे देना ! यही नहीं, नागदत्त, स्वयं भी उनके साथ गया। वहाँ जाकर उसने पहले शीलदत्त मुनिराजकी वन्दना की। तदनन्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र दृढरक्षके पास पहुँचा। वहाँ उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा दृढरक्षको कह सुनाई। फिर उसीके साथ जाकर अच्छे-अच्छे रत्नोंकी भेंट देकर बड़ी प्रसन्नतासे राजाके दर्शन किये ॥ १४५-१५० ॥ उसे देखकर महाराजने पूछा कि अहो नागदत्त ! तुम कहाँसे आ रहे हो और कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपना हिस्सा मांगने और उसके लिए यात्रा करने आदिके सब समचार आदिसे लेकर अन्ततक कह सुनाये। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही क्रुपित हुआ और सेठका निग्रह करनेके लिए तैयार हो गया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कह कर आप्रहपूर्वक नागदत्तने राजाको मना कर दिया। राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया और विधिपूर्वक विवाहकर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दी। तदनन्तर राजाने अपनी सभामें स्पष्ट रूपसे कहा कि देखो, पुण्यका कैसा माहात्म्य है ? यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विघ्नोंसे बचकर और श्रेष्ठ रत्नोंको अपने आधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है ॥ १५१-१५५ ॥ इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्यसे अग्नि जल हो जाती है, पुण्यसे विष भी अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते हैं, पुण्यसे निर्धन मनुष्य भी धनवान् हो जाते हैं और पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है इसलिए आपत्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करने वाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए धर्मशास्त्रके अनुसार सब क्रियाएँ कर पुण्यका बन्ध करना चाहिये ! राजाका यह उपदेश सभाके सब लोगोंने अपने हृदयमें धारण किया ॥ १५६-१५८ ॥ तदनन्तर सेठको भी बहुत पश्चात्ताप हुआ वह उसी समय 'हे कुमार ! क्षमा करो' यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा स्त्री सहित प्रणाम करने लगा परन्तु नागदत्तने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे सन्तुष्ट कर दिया। तदनन्तर उस बुद्धिमान्ने यात्राके पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की ॥ १५९-१६० ॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृदयोंमें परस्पर मित्रता

काले गच्छति जीवान्ते सन्न्यासविधिमाश्रितः । श्रीनागदत्तः सौधर्मकल्पेऽनल्पामरोऽभवत् ॥ १६२ ॥  
तत्र निर्विष्टदिव्योरुभोगश्च्युत्वा ततोऽजनि । द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचराचलं नगरे वरे ॥ १६३ ॥  
शिवङ्करे तदीशस्य विद्याधरधरेशिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥ १६४ ॥  
मनोवेगोऽन्यजन्मोद्यत्स्नेहेन विवशीकृतः । अनैपीञ्चन्दनामेनामतिस्त्रेहोऽपथं नयेत् ॥ १६५ ॥  
स एषोऽभ्यर्णभयत्वाद्मुष्मिन्नेव जन्मनि । जिनाकृतिं समादाय सम्प्राप्यत्यग्रिमं पदम् ॥ १६६ ॥  
ततः श्रीनागदत्तस्य नाकलोकात्कनीयसी । इहागत्याभवञ्चान्ना मनोवेगा महाद्युतिः ॥ १६७ ॥  
पलाशनगरे नागदत्तहस्तमृतः खगः । सुरलोकाद्भूः सोमवंशे त्वं चेटको नृपः ॥ १६८ ॥  
माता श्रीनागदत्तस्य धनमित्रा दिवङ्गता । ततश्च्युत्वा तवैवासीत्सुभद्रेयं मनःप्रिया ॥ १६९ ॥  
यासौ पद्मलता सापि कृतोपवसना दिवम् । गत्वागत्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तव ॥ १७० ॥  
नकुलः संसृतौ भान्त्वा सिंहाख्यांऽभूद्भनेचरः । प्रागजन्मस्त्रेहवैराभ्यामबाधिष्ट च चन्दनाम् ॥ १७१ ॥  
सहदेवोऽपि सम्भ्रम्य संसारे सुचिरं पुनः । कौशाम्ब्यां वैश्यतुग्भूत्वा मित्रवीराह्वयः सुधीः ॥ १७२ ॥  
भृत्यो वृषभसेनस्य चन्दनां स समर्पयत् । पिता श्रीनागदत्तस्य धनदेवो वणिग्वरः ॥ १७३ ॥  
स्वर्लोकं शान्तचित्तेन गत्वैत्य श्रेष्ठिताङ्गतः । श्रीमान्वृषभसेनाख्यः कौशाम्ब्यां कलितो गुणैः ॥ १७४ ॥  
सोमिलायां<sup>१</sup> कृतद्वेषा चित्रसेना चतुर्गतिम् । परिभ्रम्य चिरं शान्त्वा मनाक् तत्रैव विट्सुता ॥ १७५ ॥  
भूत्वा वृषभसेनस्य पत्नी भद्राभिधाऽभवत् । निदानकृतवैरेण न्यगृह्णाञ्चन्दनामसौ ॥ १७६ ॥  
चन्दनैषाच्युतात्कल्पात्प्रत्यागत्य शुभोदयात् । द्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमात्म्यमवाप्स्यति ॥ १७७ ॥

हो गई और दान पूजा आदि उत्तम कार्योंसे सबका समय व्यतीत होने लगा । आयुके अन्तमें नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़े जिससे वह सौधर्म स्वर्गमें वड़ा देव हुआ ॥ १६१-१६२ ॥ स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोंका उपभोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वत पर शिवंकर नगरमें विद्याधरोंके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी सुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है । दूसरे जन्मके बढ़ते हुए स्नेहसे विवश होकर ही इसने चन्दनाका हरण किया था सो ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमागमें ले ही जाता है ॥ १६३-१६४ ॥ यह निकटभव्य है और इसी जन्ममें दिगम्बर मुद्रा धारणकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा ॥ १६६ ॥ नागदत्तकी छोटी बहिन अर्थस्वामिनी स्वर्गलोके आकर यहाँ महाकान्तिको धारण करने वाली मनोवेगा हुई है ॥ १६७ ॥ जो विद्याधर पलाशनगरमें नागदत्तके हाथसे मारा गया था वह स्वर्गसे आकर तू सोमवंशमें राजा चेटक हुआ है ॥ १६८ ॥ धनमित्रा नामकी जो नागदत्तकी माता थी वह स्वर्ग गई थी और वहाँसे च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई है ॥ १६९ ॥ जो नागदत्तकी स्त्री पद्मलता थी वह अनेक उपवासकर स्वर्ग गई थी और वहाँसे आकर यह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है ॥ १७० ॥ नकुल संसारमें भ्रमणकर सिंह नामका भील हुआ है उसने पूर्व जन्मके स्नेह और वैरेके कारण ही चन्दनाको तंग किया था ॥ १७१ ॥ सहदेव भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमणकर कौशाम्बी नगरीमें मित्रवीर नामका बुद्धिमान् वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभसेनका सेवक है और उसीने यह चन्दना वृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थी । नागदत्तका पिता सेठ धनदेव शान्तचित्तेसे मरकर स्वर्ग गया था और वहाँसे आकर कौशाम्बी नगरीमें अनेक गुणोंसे युक्त श्रीमान् वृषभसेन नामका सेठ हुआ है ॥ १७२-१७४ ॥ चित्रसेनाने सोमिलासे द्वेष किया था इसलिए वह चिरकालतक संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कौशाम्बी नगरीमें वैश्यपुत्री हुई और भद्रा नामसे प्रसिद्ध होकर वृषभसेनकी पत्नी हुई है । निदानके समय जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निग्रह किया था—उसे कष्ट दिया था ॥ १७५-१७६ ॥ यह चन्दना अच्युत स्वर्ग जायगी और वहाँसे वापिस आकर शुभ कर्मके उदयसे पुंवेदको पाकर

एवं बन्धविधानोक्तमिथ्याभावादिपञ्चकात् । सञ्चितैः कर्मभिः प्राप्य द्रव्यादिपरिवर्तनम् ॥ १७८ ॥  
 संसारे पञ्चधा प्रोक्तं दुःखान्मुप्राण्यनारतम् । प्राप्नुवन्तः कृतान्तास्ये हन्त सीदन्ति जन्तवः ॥ १७९ ॥  
 त एव<sup>१</sup> लब्धकालादिसाधना मुक्तिसाधनम् । सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोरूपमनुत्तरम् ॥ १८० ॥  
 अभ्येत्य पुण्यकर्माणः परमस्थानसप्तके । सम्प्राप्तपरमैश्वर्या भवन्ति सुखभागिनः ॥ १८१ ॥  
 इति तद्व्रतमाधीशश्रीमद्वन्धनिरसायनात् । सभा सर्वा बभूवासौ तदैवेवाजरामरा ॥ १८२ ॥  
 अन्यदाऽसौ महाराजः श्रेणिकाख्यः परिभ्रमन् । प्रीत्या गन्धकुटीबाह्यभास्वद्वनचतुष्टये ॥ १८३ ॥  
 स्थितं पिण्डीद्रुमस्याधो जीवन्धरमुनीश्वरम् । ध्यानारूढं विलोक्यैतद्रूपादिषु विषक्तधीः ॥ १८४ ॥  
 सकौतुकः समभ्येत्य सुधर्मगणनायकम् । भाक्तिकोऽभ्यर्च्य वन्दित्वा यथास्थानं निविश्य तम् ॥ १८५ ॥  
 प्राञ्जलिर्भगवन्नेष यतीन्द्रः सर्वकर्मणा<sup>२</sup> । मुक्तो वाचैव को वेत्ति पप्रच्छ प्रथयाश्रयः ॥ १८६ ॥  
 अवबोधचतुष्कात्मा सोप्येवं समभाषत । खेदो न हि सतां वृत्तेर्वक्तुः श्रोतुश्च चेतसः ॥ १८७ ॥  
 शृणु श्रेणिक जम्बूभुजविभूषितभूतले । अत्र हेमाङ्गदे देशे राजन् राजपुराधिपः ॥ १८८ ॥  
 अराजेव रक्षिताशेषः सत्यन्धरमहीपतिः । विजयास्य महादेवी विजयश्रीरिवापरा ॥ १८९ ॥  
 सर्वकर्मचणोऽमात्यः काष्ठाङ्गारिकनामभृत् । षहन्ता दैवोपघातानां रुद्रदत्तः पुरोहितः ॥ १९० ॥  
 कदाचिद्विजया देवी सुसा गर्भगृहे सुखम् । मुकुटं भूभुजा हेमघण्टाष्टकविराजितम् ॥ १९१ ॥  
 दशं स्वस्यै श्रिताशोकतरोर्भूलञ्च केनचित् । छिन्नं परशुना जातं पुनर्बालमहीरुहम् ॥ १९२ ॥

अवश्य ही परमात्मपद—मोक्षपद प्राप्त करेगी ॥ १७७ ॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिथ्यादर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निमित्तसे संचित हुए कर्मोंके द्वारा ये जीव द्रव्य क्षेत्र आदि परिवर्तनोंको प्राप्त होते रहते हैं । ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे भयंकर दुःख हैं । खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पञ्च प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यमराजके मुंहमें जा पड़ते हैं ॥ १७८-१७९ ॥ फिर ये ही जीव, काललब्धि आदिका निमित्त पाकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और सम्यकृतप रूप मोक्षके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य कर्म करते हुए सात परमस्थानोंमें परम ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं और यथा क्रमसे अनन्त सुखके भाजन होते हैं ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्ष्मीसे युक्त ध्वनि रूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गई ॥ १८२ ॥

अथानन्तर—किसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों वनोंमें बड़े प्रेमसे घूम रहे थे । वहीं पर एक अशोक वृक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानारूढ हो कर विराजमान थे । महाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो गये और कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधर्म गणधरदेवकी बड़ी भक्तिसे पूजा बन्दना की तथा यथायोग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन् ! जो मानो आज ही समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जावेंगे ऐसे ये मुनिराज कौन हैं ? ॥ १८३-१८६ ॥ इसके उत्तरमें चार ज्ञानके धारक सुधर्माचार्य निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके चरित्रको कहने वाले और सुनने वाले—दोनोंके ही चित्तमें खेद नहीं होता है ॥ १८७ ॥ वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, इसी जम्बू वृक्षसे सुशोभित होने वाली पृथिवीपर एक हेमाङ्गद नामका देश है और उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है । उसमें चन्द्रमाके समान सबको आनन्दित करने वाला सत्यन्धर नामका राजा था और दूसरी विजयलक्ष्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥ १८८-१८९ ॥ उसी राजाके सब कामोंमें निपुण काष्ठाङ्गारिक नामका मन्त्री था और दैवजन्य उपद्रवोंको नष्ट करने वाला रुद्रदत्त नामका पुरोहित था ॥ १९० ॥ किसी एक दिन विजया रानी घरके भीतर सुखसे सो रही थी वहाँ उसने बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न देखा कि

१ एवं ज० । २ सर्वकर्मभिः ज० । ३ चन्द्र इव । 'राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यत्ने क्षत्रियशक्रयोः'  
 इति कोशः । ४ भङ्गा ज० ।

निशायाः पश्चिमे यामे स्वप्नावेतौ प्रसन्नधीः । विलोक्य सा तयोर्जातुं फलमभ्येत्य भूपतिम् ॥ १९३ ॥  
सप्रश्रयं समीक्ष्यैनमन्वयुं क मदत्यये । अष्टौ लाभान्नवाप्यान्ते क्षितेर्भोक्तारमात्मजम् ॥ १९४ ॥  
आप्त्यस्याशु त्वमित्याह महीपालः प्रियाप्रियम् । श्रुत्वा शोकप्रमोदाभ्यां तामाविर्भूतचेतसम् ॥ १९५ ॥  
राज्ञीं राजा समालोक्य सदुक्तया समतर्पयत् । सुखेनैवं तयोः काले याति कश्चित्समागतः ॥ १९६ ॥  
देवलोकात्स्थितिं लेभे देवीगर्भगृहे सुखम् । स पुण्यो राजहंसो वा शारदाब्जसरोवरे ॥ १९७ ॥  
अथान्येद्युर्वाणिग्वर्यो वास्तव्यस्तत्पुरान्तरे । धनी गन्धोक्तो नाम शीलगुप्तमहामुनिम् ॥ १९८ ॥  
मनोहरवनोद्याने ज्ञानत्रयविलोचनम् । विलोक्य विनयास्नत्वा प्राप्राक्षीद्गवन्मम ॥ १९९ ॥  
बहवोऽल्पायुषोऽभूर्वस्तनयाः पापपाकतः । दीर्घायुषो भविष्यन्ति सुता मे किमतः परम् ॥ २०० ॥  
इति सोऽपि दयालुत्वान्मुनीनाः प्रत्यभाषत । बाढं समुपलप्स्यन्ते त्वया सुचिरजीविनः ॥ २०१ ॥  
अभिज्ञानमिदं तस्य सत्यकच्छृणु वणिग्वर । लप्स्यमानं सुतं सद्यो मृतं त्यक्तुं वनं गतः ॥ २०२ ॥  
तत्र कश्चितनूजं त्वं लप्स्यसे पुण्यभाजनम् । स समस्तां महीं भुक्त्वा नृप्तो वैषयिकैः सुखैः ॥ २०३ ॥  
प्रान्ते विध्वंस्य कर्माणि मोक्षलक्ष्मीमवाप्स्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा काचित्सस्त्रिधौ स्थिता ॥ २०४ ॥  
यक्षी भविष्यतो राजसूनोः पुण्यप्रचोदिता । तस्योत्पत्तौ स्वयं मातुरुपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥  
गत्वा राजकुलं वैनतेययन्त्रगताभवत् । प्रायः प्राक्कृतपुण्येन सन्निधित्सन्ति देवताः ॥ २०६ ॥  
अथागते मधौ मासे सर्वसत्त्वसुखावहे । पुरोहितोऽहितोऽन्येद्युः प्रातरेव समागतः ॥ २०७ ॥

राजाने सुवर्णके आठ घंटोंसे सुशोभित अपना मुकुट मेरे लिए दे दिया है और दूसरा स्वप्न देखा कि मैं अशोक वृक्षके नीचे बैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसिने कुल्हाड़ीसे काट डाली है और उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उरपन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उनका फल जाननेके लिए वह राजाके पास गई ॥ १९१-१९३ ॥ और बड़ी विनयके साथ राजाके दर्शन कर स्नानोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मरनेके बाद शीघ्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ लाभोंको पाकर अन्तमें पृथिवीका भोक्ता होगा। स्वप्नोंका प्रिय और अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्र शोक तथा दुःखसे भर गया। उसकी व्यग्रता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोंसे संतुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लगा। इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवकी जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके गर्भरूपी गृहमें आया और इस प्रकार सुखसे रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके सरोवरमें राजहंस रहता है ॥ १९४-१९७ ॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमें रहनेवाले गन्धोक्त नामके धनी सेठने मनोहर नामक उद्यानमें तीन ज्ञानके धारी शीलगुप्त नामक मुनिराजके दर्शनकर विनयसे उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन्! पाप कर्मके उदयसे मेरे बहुतेसे अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होंगे? ॥ १९८-२०० ॥ इस प्रकार पूछनेपर दयालुतावश मुनिसजने कहा कि हाँ तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करोगे ॥ २०१ ॥ हे वैश्य वर! चिरजीव पुत्र प्राप्त होनेका चिह्न यह है, इसे तू अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह भी सुन। तरे एक मृत पुत्र होगा उसे छोड़नेके लिए तू वनमें जायगा। वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा। वह पुत्र समस्त पृथिवीका उपभोगकर विषय सम्बन्धी सुखोंसे संतुष्ट होगा और अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्टकर मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करेगा। जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोक्त सेठसे ऊपर लिखे वचन कह रहे थे उस समय वहाँ एक पक्षी भी बैठी थी। मुनिराजके वचन सुनकर पक्षीके मनमें होन हार राजपुत्रकी माताका उपकार करनेकी इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह यक्षी उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजकुलमें गई और एक गरुड यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची। सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं ॥ २०१-२०६ ॥ तदनन्तर

महीपतिगृहं देवीं वीक्ष्य वीतविभूषणाम् । उपविष्टां क्र राजेति समपृच्छत्स सादरम् ॥ २०८ ॥  
 साप्याह सुप्तवान् राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम् । इति तद्वचनं सोऽपि दुर्निमित्तं विभावयन् ॥ २०९ ॥  
 ततो निवृत्तः सम्प्राप्य काष्ठाङ्गारिकमन्त्रिणः । भास्करोदयवेलायां गेहं तन्नावलोक्य तम् ॥ २१० ॥  
 पापबुद्धिमिथोऽवादीद्राज्यं तव भविष्यति । महीपतिर्निहन्तव्यस्त्वथेति तदुदीरितम् ॥ २११ ॥  
 श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत् । राजायमकृतज्ञो वा कथं वापकरोम्यहम् ॥ २१२ ॥  
 रुद्रदत्त त्वया प्रज्ञावताप्येतस्सुदुर्नयम् । निरूपितमिति श्रोत्रपिधानं सभयो व्यधात् ॥ २१३ ॥  
 पुरोहितस्तदाकर्ण्य भविष्यत्सुतुरस्य ते । प्राणहारी भवेत्तन्न प्रतीकारं ततः कुरु ॥ २१४ ॥  
 इत्येतदभिधायाशु गत्वा नत्पापपाकतः । तृतीयदिवसे व्याधिपीडितो विगतासुकः ॥ २१५ ॥  
 रुद्रदत्तोऽगमत्सर्वाङ्गीं गतिं सुचिरदुःखदाम् । काष्ठाङ्गारिकमन्त्री च रुद्रदत्तनिरूपितात् ॥ २१६ ॥  
 नृपं स्वमृत्युमाशाङ्क्य प्रजिघांसुर्दुराशयः । द्विसहस्रमहीपालैर्दानभिर्भैर्भटोक्तैः ॥ २१७ ॥  
 राजगेहं समुद्दिश्य सन्नद्धगजवाजिभिः । समं समाभियाति स्म तद्विदित्वा महीपतिः ॥ २१८ ॥  
 देवीं गरुडयन्त्रस्थामपसार्य प्रयत्नतः । प्राङ्मन्त्रिस्वीकृतात्मीयमहीपालैः स्वदर्शनात् ॥ २१९ ॥  
 विमुक्तमन्त्रिभिः सार्वं क्रुध्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम् । युद्धे सद्यः स निजित्य भयोन्मार्गाम्भ्रीनवत् ॥ २२० ॥  
 तुक्कालाङ्गारिकस्तस्य सङ्गरे भङ्गवार्तया । सक्रोधो बहुसन्नद्धबलेन सहसागतः ॥ २२१ ॥  
 काष्ठाङ्गारिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । हत्वा युद्धे महीपालं तस्मिन् राज्येऽप्यवस्थितः १ ॥ २२२ ॥

सत्र जीवोंको सुख देने वाला वसन्तका महीना आ गया । किसी एक दिन अहित करने वाला रुद्र-  
 दत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया । वहाँ रानीको आभूषणरहित बैठी  
 देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ? ॥ २०७-२०८ ॥ रानीने भी उत्तर दिया कि  
 राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते । रानीके इन वचनोंको ही अपशकुन  
 समझता हुआ वह वहाँसे लौट आया और सूर्योदयके समय काष्ठाङ्गारिक मन्त्रीके घर जाकर उससे  
 मिला । उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काष्ठाङ्गारिकसे कहा कि यह राज्य तेरा हो जावेगा तू  
 राजाको मार डाल । पुरोहितकी बात सुनकर काष्ठाङ्गारिकने कहा कि मैं तो राजाका नौकर हूँ,  
 राजाने ही मुझे मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया है । यद्यपि यह राजा अकृतज्ञ है—मेरा किया हुआ  
 उपकार नहीं मानता है तो भी मैं यह अपकार कैसे कर सकता हूँ ? ॥ २०९-२१२ ॥ हे रुद्रदत्त !  
 तू ने बुद्धिमान् हो कर भी यह अन्यायकी बात क्यों कही । यह कहकर उसने भयभीत हो अपने  
 कान ढक लिये ॥ २१३ ॥ काष्ठाङ्गारिकके ऐसे वचन सुनकर पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र  
 होने वाला है वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर ॥ २१४ ॥ इतना कह कर  
 रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इस पापके उदयसे रोगपीडित हो तीसरे दिन मर गया  
 तथा चिरकाल तक दुःख देने वाली नरकगतिमें जा पहुँचा । इधर दुष्ट आशयवाले काष्ठाङ्गारिक  
 मन्त्रीने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृत्युकी आशांका कर राजाको मारनेकी इच्छा की । उसने धन देकर  
 दो हजार शूरवीर राजाओंको अपने आधीन कर लिया था । वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार  
 किये हुए हाथियों और घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी ओर चला । जब राजाको इस बातका पता-  
 चला तो उसने शीघ्र ही रानीको गरुडयन्त्र पर बैठाकर प्रयत्न पूर्वक वहाँसे दूर कर दिया । काष्ठाङ्ग-  
 ारिक मन्त्रीने पहले जिन राजाओंको अपने वश कर लिया था उन राजाओंने जब राजा सत्यन्धरको  
 देखा तब वे मन्त्रीको छोड़कर राजाके आधीन हो गये । राजाने उन सब राजाओंके साथ छुपित  
 होकर मन्त्रीपर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही युद्धमें जीतकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया—  
 भयभीत बना दिया ॥ २१५-२२० ॥ इधर काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने जब युद्धमें अपने  
 पिताकी हारका समाचार सुना तब वह बहुत ही छुपित हुआ और युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत  
 सी सेना लेकर अकस्मात् आ पहुँचा । पापी काष्ठाङ्गारिक भी उसीके साथ जा मिला । अन्तमें वह

सविषं वाहानं मित्रं कृतज्ञं था सहिसकम् । धर्मं वाहानमर्दं राज्यं तद्वैयः<sup>१</sup> सचिवाधमः ॥ २२३ ॥  
 अतो विजयदेवी च यन्त्रमारुह्य गारुडम् । शोकाग्निदह्यमानाङ्गी रुदन्ती यक्षिरक्षिता ॥ २२४ ॥  
 ब्रणवकन्नगालद्वारालोहिताक्रान्तशूलकैः । शूलनिर्भेदसम्भूतवेदनालुलितासुकैः ॥ २२५ ॥  
 कम्पमानैरधोवक्त्रैः स्तेनैर्नानाविधै रवैः । सामिदग्धं शवं वह्नैराकृष्याच्छिद्य खण्डशः ॥ २२६ ॥  
 कृत्तिकाभिनिशाताभिर्दाकिनीभिः समन्ततः । खादन्तीभिश्च सङ्कीर्णं पितृणामगमद् वनम् ॥ २२७ ॥  
 तत्र रात्रौ कृतारक्षा यक्ष्या विगतबाधिका । अलब्ध तनयं कान्तं धौरिवाभृतदीधितिम् ॥ २२८ ॥  
 नाभूदस्यास्ततोऽल्पोऽपि पुत्रोत्पत्तिसमुत्सवः । शोकः प्रस्युत सम्भूतो विलोमविधिवधितः ॥ २२९ ॥  
 सद्यो यक्षी च सुस्थाप्य समन्तान्मणिदीपिकाः । शोकाकुलां विलोक्यैनां दावालीडलतोपमाम् ॥ २३० ॥  
 सर्वस्थानानि दुःस्थानि गस्वर्यो यौवनश्रियः । विध्वंसी बन्धुसम्बन्धो जीवितं दीपसञ्चलम् ॥ २३१ ॥  
 कायः सर्वाङ्गुचिप्रायो हेयोऽयमिह धीमताम् । राज्यं सर्वजगत्पूज्यं विश्वदुद्योतसचिभम् ॥ २३२ ॥  
 पर्यायेष्वेव सर्वेषां प्रीतिः सर्वेषु वस्तुषु । तेऽवश्यं नश्वरास्तस्मात्प्रीतिः पर्यन्ततापिनी ॥ २३३ ॥  
 सत्यप्यर्थे रतिर्न स्यात् स्वर्थं वासति चेप्सिते । सति स्वस्मिन्नतौ वासौ भ्रयाणां वा स्थिते क्षतिः ॥ २३४ ॥  
 यस्य निष्कममाक्रम्य<sup>४</sup> विश्वं विश्वसिरीक्षते । नेक्षितं स्थासु तेनापि कापि किञ्चिदकाचन ॥ २३५ ॥  
 सत्सु भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । वृथा प्रथयति प्रीतिं विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥  
 इति संसारसद्भावं विचिन्त्य विजये प्रिये । शुचं मा गा व्यतीतेषु कृथाः प्रीतिञ्च मा वृथा ॥ २३७ ॥

युद्धमें राजाको मारकर उसके राज्य पर आरूढ हो गया ॥ २२१-२२२ ॥ उस नीच मन्त्रीने विप मिले हुए भोजनके समान, कृतघ्न मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देने वाला वह राज्य प्राप्त किया था ॥ २२३ ॥ इधर विजया महादेवी गरुड़ यन्त्रपर बैठकर चली । शोक रूपी अग्निसे उसका सारा शरीर जल रहा था और वह रो रही थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी ॥ २२४ ॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस श्मशानभूमिमें जा पहुँची जहाँ घावोंके अग्रभागसे निकलती हुई खूनकी धाराओंसे शूल भीग रहे थे, शूल छिड़ जाने से उत्पन्न हुई वेदनासे जिनके प्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नीचेकी ओर लटक गये हैं ऐसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे । कहींपर ढाकिनियाँ अधजले मुरदेको अग्निमेंसे खींचकर और तीक्ष्ण छुरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं । ऐसी ढाकिनियोंसे वह श्मशान सब ओरसे व्याप्त था ॥ २२५-२२७ ॥ उस श्मशानमें यक्षी रातभर उसकी रक्षा करती रही जिससे उसे रक्षमात्र भी कोई बाधा नहीं हुई । जिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी रात्रिमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥ २२८ ॥ उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ था किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतासे बढ़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था । यक्षीने सब ओर शीघ्र ही मणिमय दीपक रख दिये और दावानलसे झुलसी हुई लताके समान महारानीको शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया । वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःखसे भरे हैं, यौवनकी लक्ष्मी नश्वर है, भाई-बन्धुओंका समागम नष्ट हो जाने वाला है, जीवन दीपकके समान चञ्चल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है अतः बुद्धिमान् पुरुषोंके द्वारा हेय हैं-छोड़ने योग्य है । जिसकी समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यह राज्य विजलीकी चमकके समान है । सब जीवोंकी समस्त वस्तुओंकी पर्यायोंमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्ताप करने वाली होती है । अनिष्ट पदार्थके रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती और इष्ट पदार्थके रहते हुए उस पर अपना अधिकार नहीं होता तथा अपने आपमें प्रीति होनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थितिका क्षय हो जाता है । जिनका ज्ञान विना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थोंको देखता है उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है । यदि विद्यमान और होनहार वस्तुओंमें प्रेम होता है तो भले ही हो परन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओंमें भी प्रेम करता है उसे बुद्धिमान् कैसे कहा जा सकता है ?

<sup>१</sup> राज्यमादेवे ल० । २-मासाय ज० ।

श्रीमानामुक्तिपर्यन्तं सुतोऽयमुदितोदितः । निहत्यारातिदुर्बुतं मोदं ते जनयिष्यति ॥ २३८ ॥  
 ज्ञाहि चित्तं समाधेहि योग्यमाहारमाहार । किं वृथानेन शोकेन भिन्नदेहक्षयकारिणा ॥ २३९ ॥  
 गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता न हि शोकेन लभ्यते । गतया भिन्नवल्मानः कर्मभेदेन देहिनाम् ॥ २४० ॥  
 इत्यादियुक्तिमद्वाग्भिः संविधाय विशोकिकाम् । पार्श्वे तस्याः स्वयं सास्थात्सतां सौहार्दमीदृशम् ॥ २४१ ॥  
 तत्र गन्धोक्तः स्वस्य स्वयं शिशुशवं तदा । गच्छन्निक्षिप्य गम्भीरमाकर्ण्यार्भकसुस्वरम् ॥ २४२ ॥  
 जीव जीवेति जीवन्धराख्यां वा भाविनीं वदन् । सत्यं मुनिसमादिष्टमिति तुष्टोऽवगम्य तम् ॥ २४३ ॥  
 करौ प्रसार्य सच्चोहं बालं समुदतिष्ठिपत् । देवी तत्स्वरमाकर्ण्य बुध्वा गन्धोक्तदाह्वयम् ॥ २४४ ॥  
 भवबोधय तमात्मानं भद्रं त्वं तनयं मम । वर्धयान्यैरविज्ञातमिति तस्मै शर्मर्पयत् ॥ २४५ ॥  
 सोऽपि तं प्रतिगृह्णीवं करोमीति कृतस्वरः । गत्वा गृहं स्वकान्तायै नन्दायै तत्प्रवृत्ताकम् ॥ २४६ ॥  
 किमप्यप्रतिपाद्यास्यै क्रुध्यन्निव गतस्मृते । सप्राणमपरीक्ष्यैव भवत्या तदपत्यकम् ॥ २४७ ॥  
 विसर्जनाय मङ्गलं निर्विचारं समर्पितम् । आयुष्मान्पुण्यवानेष गृहाणेति वित्तीर्णवान् ॥ २४८ ॥  
 प्रत्यैच्छत्साऽपि सन्तुष्टा कराभ्यां बालभास्करम् । विराजितं पराजित्य बालं लोलविलोचना ॥ २४९ ॥  
 तस्यान्यदा वणिगवर्यः कृतमङ्गलसङ्क्रियः । अन्नप्राशनपर्यन्ते व्यधाजीवन्धराभिधाम् ॥ २५० ॥  
 अथेत्वा तेन यन्त्रेण तस्मात्सा विजयाह्वया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम् ॥ २५१ ॥  
 तत्राप्राशानमेवैषा व्रसति स्म समाकुलाम् । तां यक्षी समुपागत्य तच्छोकापनुदेच्छया ॥ २५२ ॥

इसलिए हे विजये ! संसारके स्वरूपका विचारकर शोक मत कर, और अतीत पदार्थोंमें व्यर्थ ही प्रीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान् है और मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त इसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता ही रहेगा । यह दुराचारी शत्रुको नष्टकर अवश्य ही तुझे आनन्द उत्पन्न करेगा । तू स्नान कर, चित्तको स्थिर कर और योग्य आहार ग्रहण कर । शरीरका क्षय करने वाला यह शोक करना घृथा है, इस शोकको धिक्कार है, शोक करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि अपने-अपने कर्मोंमें भेद होनेसे जीवोंकी गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं । इत्यादि युक्ति भरे वचनोंसे यक्षीने विजया रानीको शोक रहित कर दिया । इतना ही नहीं वह स्वयं रात्रिभर उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी मित्रता ऐसी ही होती है ॥ २२६-२४१ ॥ इतनेमें ही गन्धोक्त सेठ, अपने मृत पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयं पहुँचा । वह शवको रख कर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द सुनते ही उसने “ जीव जीव ” ऐसे आशीर्वादात्मक शब्द कहे मानो उसने आगे प्रचलित होने वाले उस पुत्रके ‘जीवन्धर’ इस नामका ही उच्चारण किया हो । मुनिराजने जो कहा था वह सच निकला यह जान कर गन्धोक्त बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने दोनों हाथ फैला कर बड़े स्नेहसे उस बालकको उठा लिया । विजया देवीने गन्धोक्तकी आवाज सुनकर ही उसे पहिचान लिया था । इसलिए उसने अपने आपका पारंचय देकर उससे कहा कि हे भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन करना जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके । यह कह कर उसने वह पुत्र गन्धोक्तके लिए सौंप दिया ॥ २४२-२४५ ॥ सेठ गन्धोक्तने भी ‘मैं ऐसा ही करूँगा’ यह कह कर वह पुत्र ले लिया और शीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्दा नामकी स्त्रीके लिए दे दिया । देते समय उसने स्त्रीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कुपित-सा होकर कहा कि हे मूर्ख ! वह बालक जीवित था, तू ने बिना परीक्षा किये ही श्मशानमें छोड़ आनेके लिए मेरे हाथमें विचार किये बिना ही रख दिया था । ले, यह बालक चिरजीवी है और पुण्यवान् है, यह कह कर उसने वह पुत्र अपनी स्त्रीके दिया था ॥ २४६-२४८ ॥ सुनन्दा सेठानीने संतुष्ट हो कर वह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया । वह बालक प्रातः कालके सूर्यको पराजित कर सुशोभित हो रहा था और सेठानी की आँखें उसे देख-देख कर सतुष्ट हो रही थीं ॥ २४९ ॥ किसी एक दिन उस सेठने अनेक माङ्गलिक क्रियाएँ कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका ‘जीवन्धर’ नाम रक्खा ॥ २५० ॥

अथानन्तर—विजया रानी उसी गरुडमन्त्र पर बैठकर दण्डके मध्यमें स्थित तपस्विणोंके

सद्वस्थोचितश्रव्यकथाभिः संसृतेः स्थितिम् । प्ररूप्य धर्ममार्गञ्च प्रत्यहं समरीरमत् ॥ २५३ ॥  
 इतः सत्यन्धराख्यस्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । भारतिः परानङ्गपताका च ममोरमे ॥ २५४ ॥  
 मधुरं वकुलञ्चान्यमलमेतां सुताद्युभौ । ज्ञात्वा तद्धर्मसद्भावं गृहीतश्रावकप्रते ॥ २५५ ॥  
 तौ च गन्धोत्कटेनैव पोषितौ वृद्धिमापतुः । तत्रैव श्रावको जातो मयन्तविजयाङ्गयः ॥ २५६ ॥  
 सागरो धनपालाख्यश्चतुर्थो मतिसागरः । सेनापतिः पुरोधाश्च श्रेष्ठी मन्त्री च भृशुजः ॥ २५७ ॥  
 भार्या जयावती श्रीमती श्रीदत्ता यथाक्रमम् । चतुर्थ्यनुपमा तेषां देवसेनः सुतोऽपरः ॥ २५८ ॥  
 बुद्धिषेणो वरादिश्च दत्तो मधुमुखः क्रमात् । षट् ते जीवन्धराख्येन मधुराद्याः सुताः समम् ॥ २५९ ॥  
 अवधन्त कुमारेण बालकेलीपरायणाः । जीवाद्यः पदार्था वा लोकात्सामान्यमाहाशयात् ॥ २६० ॥  
 नक्तं दिवं निजप्राणसमाः क्वाप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाह्यं क्रमेणाप्तवती सुतम् ॥ २६१ ॥  
 अन्येद्युर्नगरोद्याने कोऽपि तापसरूपधृत् । कुमारं गोलकाद्युक्तबालक्रीडानुषङ्गिणम् ॥ २६२ ॥  
 विलोक्यास्मात्किञ्चिद्दूरं पुरं ब्रूहीति पृष्टवान् । वृद्धस्यापि तवाज्ञत्वं बालोऽप्यत्र न मुञ्चति ॥ २६३ ॥  
 बाह्यं पुरवरोद्याने बालक्रीडावलोकनात् । पुरस्यासन्नवर्तित्वं केन वा नानुमीयते ॥ २६४ ॥  
 भ्रमोपलम्भनादाभिर्द्रव्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदत्तस्य चेष्टालयास्वरादिकम् ॥ २६५ ॥  
 दृष्ट्वा श्रुत्वा विविच्यैष सामान्यो नैव बालकः । राजवंशसमुद्भूतिः चिह्नैरस्यानुमीयते ॥ २६६ ॥  
 इति केनाप्युपायेन तद्दंशं स परीक्षितुम् । वाञ्छन्नयाचतैनं मे भोजनं दीयतामिति ॥ २६७ ॥

किसी बड़े आश्रममें पहुँची और वहाँ गुप्त रूपसे—अपना परिचय दिये बिना ही रहने लगी । जब वह विजया रानी शोकसे व्याकुल होती थी तब वह यक्षी आकर उसका शोक दूर करनेकी इच्छासे उसकी अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे संभारकी स्थिति वतलाती थी, धर्मका मार्ग बतलाती थी और इस तरह प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रहती थी ॥ २५१—२५३ ॥ इधर महाराज सत्यन्धरकी भारति और अनंगपताका नामकी दो छोटी स्त्रियाँ और थीं । उन दोनोंने मधुर और वकुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये । इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप जानकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये थे । इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोत्कटके यहाँ ही पालन-पोषण प्राप्तकर बढ़े हुए थे । उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामके चार श्रावक और थे जो कि अनुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मन्त्री थे ॥ २५४—२५७ ॥ इन चारोंकी स्त्रियोंके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदत्ता और अनुपमा थे । इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिषेण, वरदत्ता और मधुमुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे । मधुरकी आदि लेकर वे छहों पुत्र, जीवन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिको प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके साथ ही बालक्रीडा करनेमें तत्पर रहते थे और जिस प्रकार जीवाजीवादि छह पदार्थ कभी भी लोकाकाशको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छहों पुत्र उच्छुद्ध अभिप्रायके धारक जीवन्धर कुमारको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ ही रहते थे और उनके प्राणोंके समान थे । तदनन्तर गन्धोत्कटकी स्त्री सुनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्दाह्य नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २६८—२६९ ॥

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोली बंटा आदि बालकोंके खेल खेलनेमें व्यस्त थे कि इतनेमें एक तपस्वी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे नगर कितनी दूर है ? तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि 'आप वृद्ध तो हो गये परन्तु इतना भी नहीं जानते । अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते । नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंको खेलता देख भला कौन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार कि धूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी क्रीडा देख नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है' इस प्रकार मुस्कराते हुए जीवन्धर कुमारने कहा । कुमारकी चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिको देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्नोंसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंशमें हुई है । ऐसा विचार कर उस तपस्वीने किसी उपायसे उसके वंशकी परीक्षा करनी चाही । अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए उसने जीवन्धर



कुमारोऽपि प्रतिज्ञाय नीत्वा साधुं तमात्मना । पितुः सन्निधिमाहारो मयास्मै स्म प्रदीयते ॥ २६८ ॥  
 भवान्प्रमाणमित्याख्यच्छ्रुत्वा तदास्पिता मुदा । विनीतोऽयं सुतः श्लाघ्यो ममेत्याश्लिष्य तं मुहुः ॥ २६९ ॥  
 पुत्रं ज्ञानावसानेऽयं मयासा साधु भोक्ष्यते । त्वया व्यपगताशङ्कं भोक्तव्यमिति सोऽभ्यधात् ॥ २७० ॥  
 सहायैः सह संविद्य भोक्तुं प्रारब्धवानसौ । अथार्भकस्वभावेन सर्वमुष्णमिदं कथम् ॥ २७१ ॥  
 भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा जननीमकदर्थयत् । रुदन्तं तं समालोक्य भद्रैरपत्ते न युज्यते ॥ २७२ ॥  
 अपि त्वं बयसात्पीयान् धीस्थो वीर्यादिभिर्गुणैः । अधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिषि ॥ २७३ ॥  
 इति तापसवेषेण भाषितः स कुमारकः । शृणु पूज्य न वेत्सि त्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥ २७४ ॥  
 निर्याति संहतश्लेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयोः । शीतीभवति चाहारः कथमेतन्निवार्यते ॥ २७५ ॥  
 इत्याख्यत्तस्माकर्ण्य मातास्य मुदिता सती । यथाविधि सहायैस्तं सह सम्यग्भोजयत् ॥ २७६ ॥  
 ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा सन्निविष्टो यथासुखम् । तेन तापसवेषोऽपि मुक्त्वात्मैवमभाषत् ॥ २७७ ॥  
 कुमारोऽस्मिन्मम ज्ञेहोऽभूद्वेक्ष्यास्य योग्यताम् । मया शास्त्राब्धिसन्धौतमतिरेष करिष्यते ॥ २७८ ॥  
 इति तज्जापितं श्रुत्वा वरिष्ठः श्रावकेष्वहम् । नान्यलिङ्गिनमस्कारं कुर्वे केनापि हेतुना ॥ २७९ ॥  
 एयाद्वैमनस्यं तेऽवश्यं तद्भावेऽस्तिमानिनः । इति श्रेष्ठयाह तच्छ्रुत्वा स्वसन्नावमथाब्रवीत् ॥ २८० ॥  
 राजा सिंहपुरस्याहमार्यवर्माभिधानकः । वीरनन्दिमुनेः श्रुत्वा धर्मं संशुद्धदर्शनः ॥ २८१ ॥  
 धृतिषेणाय मद्राज्यं प्रदायादाय संयमम् । तीव्रोदराग्निसम्भूतमहादाहासहिष्णुकः ॥ २८२ ॥

कुमारेसे याचना की कि तुम मुझे भोजन दो ॥२६२-२६७॥ जीवन्धरकुमार उसे भोजन देना स्वीकृत कर अपने साथ ले पिताके पास पहुँचे और कहने लगे कि मैंने इसे भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी-ज्याप आज्ञा दें । कुमारकी बात सुनकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही विनम्र और प्रशंसनीय है । यह कहकर उन्होंने उसका बार-बार आलिङ्गन किया और कहा कि हे पुत्र ! यह तपस्वी ज्ञान करनेके बाद मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर लेगा । तू निःशङ्क होकर भोजन कर ॥ २६८-२७० ॥ तदनन्तर जीवन्धरकुमार अपने मित्रोंके साथ बैठकर भोजन करनेके लिए तैयार हुए । भोजन गरम था इसलिए जीवन्धर कुमार रोकर कहने लगे कि यह सब भोजन गरम रखा है मैं कैसे खाऊँ ? इस प्रकार रोकर उन्होंने माताको तंग किया । उन्हें रोता देख तपस्वी कहने लगा कि भद्र ! तुम्हें रोना अच्छा नहीं लगता । यद्यपि तू अवस्थासे छोटा है तो भी बड़ा बुद्धिमान् है, तूने अपने वीर्य आदि गुणोंसे सबको नीचा कर दिया है । फिर तू क्यों रोता है ? ॥ २७१-२७३ ॥ तपस्वीके ऐसा कह चुकने पर जीवन्धरकुमारने कहा कि हे पूज्य ! आप जानते नहीं हैं । सुनिये, रोनेमें ये गुण हैं—पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुआ कफ निकल जाता है, दूसरा गुण यह है कि नेत्रोंमें निर्मलता आ जाती है और तीसरा गुण यह है कि भोजन ठण्डा हो जाता है । इतने गुण होनेपर भी आप मुझे रोनेसे क्यों रोकते हैं ? ॥ २७४-२७५ ॥ पुत्रकी बात सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने मित्रोंके साथ उसे विधिपूर्वक अच्छी तरह भोजन कराया ॥ २७६ ॥ तदनन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर सुखसे बैठा और तपस्वी भी उसीके साथ भोजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोत्कटसे कहा कि इस बालककी योग्यता देखकर इसपर मुझे क्रोध हो गया है अतः मैं इसकी बुद्धिको शास्त्र रूपी समुद्रमें अवगाहन कर निर्मल बनाऊँगा ॥२७७-२७८ ॥ तपस्वीकी बात सुनकर गन्धोत्कटने कहा कि मैं श्रावकोंमें श्रेष्ठ हूँ—श्रावकके श्रेष्ठ व्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिङ्गियोंको किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं करता हूँ और नमस्कारके अभावमें अतिशय अभिमानि आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा । सेठकी बात सुनकर वह तापस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥ २७९-२८० ॥

मैं सिंहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीरनन्दी मुनिसे धर्मका स्वरूप सुनकर मैंने निर्मल स्वच्छदर्शन धारण किया था । तदनन्तर धृतिषेण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर मैंने संयम धारण कर लिया था—मुनिव्रत अंगीकृत कर लिया था परन्तु जठराग्निकी तीव्र बाधासे उत्पन्न

सम्यग्दृष्टिर्गृह्यतेहन्वेषस्ते धर्मबान्धवः । इति तद्वचनं सम्यक्परीक्ष्य वणिजां वरः ॥ २८३ ॥  
सुतं समर्पयामास तस्मै <sup>१</sup>तं सखिभिः समम् । क्षेत्रे बीजमिन् स्थाने योग्ये किं नार्पयेत्सुध्याः ॥ २८४ ॥  
<sup>१</sup>स सद्दृष्टिस्तमादाय निसर्गमतिविस्तृतिम् । अचिरेणैव कालेन विश्वविद्यान्तमानयत् ॥ २८५ ॥  
कुमारोऽपि रविर्वाग्भोदान्ते विद्याभिरद्युतत् । प्राप्तैश्चर्यो द्विपो वानु सम्प्राप्तनवयौवनः ॥ २८६ ॥  
उपाध्यायोऽपि कालान्तरेणापत्संयतः शिवम् । तत्काले कालकूटाख्यो मुख्यो वननिवासिनाम् ॥ २८७ ॥  
मर्त्याकारं प्रपन्नो वा सूर्यरदिमभयास्त्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डशरहस्तं दुरीक्षकम् ॥ २८८ ॥  
केनाप्यसह्यमापाते कटुकं वा महौषधम् । निर्घृणं बलमादाय त्रिषाणोद्धोषभीषणम् ॥ २८९ ॥  
तमालारामनिर्भासिभूगोचरमुपागतः । गोप्तो विघ्नं स साधूनां गोमण्डलजिघृक्षया ॥ २९० ॥  
तां किंवदन्तीमाकर्ण्य कन्यां गोदावरीं सतीम् । पुत्रीं गोपेन्द्रगोपश्रीसम्भूतां गोविमोक्षणम् ॥ २९१ ॥  
विद्यास्यते ददामीति काष्ठाङ्गारिकभूभुजा । घोषणां कारितां श्रुत्वा कालाङ्गारिकसङ्गतः ॥ २९२ ॥  
जीवन्धरः सहायैः स्वैः परीतो व्याधसञ्चिधिम् । सम्प्राप्त्याकृष्टकोदण्डनिशातशरसन्ततिम् ॥ २९३ ॥  
सन्धस्सन्ततिं मुञ्चंस्त्रु शिक्षाविशेषतः । धनुर्वेदसमादिष्टं स्थानकं सर्वमात्रजम् ॥ २९४ ॥  
बाणपातान्परेषाञ्च वञ्चयन्मंशु सञ्चरन् । विक्रान्तन् शत्रुबाणौघं रुद्रश्चाणि भीरुपु ॥ २९५ ॥  
इति युध्वा चिरं व्याधान् जित्वा वा दुर्नयान्नयः । जयश्रिया समालीढः सर्वाशा यशसा भृशम् ॥ २९६ ॥  
पूर्यन्शशिहंसासकुन्दप्रसवहासिना । समागमत्पुरं चञ्चद्वैजयन्ती विराजितम् ॥ २९७ ॥

हुई महादाहको सहन नहीं कर सका इसलिए मैंने यह ऐसा वेष धारण कर लिया है, मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, तुम्हारा धर्मबन्धु हूँ । इस प्रकार तपस्वीके वचन सुनकर और अच्छी तरह परीक्षा कर सेठने उसके लिए मित्रों सहित जीवन्धरकुमारको सौंप दिया सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम खेतमें बीजकी तरह योग्य स्थानमें बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात् सभी बुद्धि अर्पित कर देता है ॥ २८१-२८४ ॥ उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत बड़ा विस्तार था ऐसे जीवन्धर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी बना दिया ॥ २८५ ॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुमें सूर्य देदीप्यमान होता है और ऐश्वर्य पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी प्रकार नव यौवनको पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्याओंसे देदीप्यमान होने लगे ॥ २८६ ॥ वह उपाध्याय भी समयानुसार संयम धारण कर मोक्षको प्राप्त हुआ । अथानन्तर—उस समय कालकूट नामका एक भीलोंका राजा था जो ऐसा काला था मानो सूर्यकी किरणोंसे डरकर स्वयं । अन्धकारने ही मनुष्यका आकार धारण कर लिया था, वह पशुहिंसक था और साधुओंके विघ्नके समान जान पड़ता था । जो धनुष-बाण हाथमें लिया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, युद्धमें जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, जो महौषधिके समान कटुक है, द्यारहित है और सींगोंके शब्दोंसे भयंकर है ऐसी सेना लेकर वह कालकूट गोमण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमाखुओंके वनसे सुशोभित नगरके बाह्य मैदानमें आ डटा ॥ २८७-२८८ ॥ इस समाचारको सुनकर काष्ठाङ्गारिक राजाने घोषणा कराई कि मैं गायाँ छुड़ानेवालेके लिए गोपेन्द्रकी स्त्री गोपश्रीसे उत्पन्न गोदावरी नामकी उत्तम कन्या दूंगा । इस घोषणाको सुनकर जीवन्धर कुमार काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिक तथा अपने अन्य मित्रोंसे युक्त होकर उस कालकूट भीलके पास पहुंचे । वहाँ जाकर उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया, उसपर तीक्ष्ण बाण रक्खे, वे अपनी विशिष्ट शिद्दाके कारण जल्दी-जल्दी बाण रखते और छोड़ते थे, धनुर्वेदमें बतलाये हुए सभी पैतरा बदलते थे, दूसरोंकी बाण-वर्षाको बचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शत्रुओंके बाणोंके समूहको काटते थे और कायर लोगोंपर अस्त्र छोड़नेसे रोकते थे, अर्थात् कायर लोगोंपर अस्त्रोंका प्रहार नहीं करते थे । इस तरह जिस प्रकार नय मिथ्या नयोंको जीत लेता है उसी प्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलोंको जीत लिये । जयलक्ष्मीने उनका आलिङ्गन किया और वे चन्द्रमा, हंस, तूल तथा कुन्दके फूलके समान सुशोभित यश के द्वारा समस्त दिशाओंको व्याप्त करते हुए फहराती हुई पताकाओंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए ।

देहचूते कुमारस्य शौर्याद्विप्रसवाचिते । जननेत्रालयः पेतुः कीर्तिगन्धवकषिताः ॥ ३९८ ॥  
 तदा कुमारसन्देशादेकवाक्येन विट्सुताः । गोविमोक्षणमेतेन कृतं युध्वेति भूपतिम् ॥ ३९९ ॥  
 विज्ञाप्यादापयन् कन्यां नन्दाढ्याय पुरोदिताम् । गोदावरीं विवाहेन विचित्राः कार्यवृत्तयः ॥ ३०० ॥  
 अधात्र भारते खेचरादौ दक्षिणभागगम् । गगनाच्छ्रीरिवाभाति पुरं गगनवल्लभम् ॥ ३०१ ॥  
 तत्पुराधिपतिः खेचरेन्द्रो गरुडवेगकः । दायादास्ताभिमानः सन्नलद्वीपे परं पुरम् ॥ ३०२ ॥  
 रमणीयाभिधं कृत्वा नाम्नादौ मनुजोदये । निविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्धारिणी प्राणवल्लभा ॥ ३०३ ॥  
 तत्सुतामुपवासेन परिम्लानशरीरिकाम् । गन्धर्वदत्तामन्येष्टुः पूजयित्वा जिनेश्वरान् ॥ ३०४ ॥  
 शेषमालां समादाय दातुं स्वस्मै समागताम् । आपूर्णयौवनां वीक्ष्य कस्मै देयेयमित्यसौ ॥ ३०५ ॥  
 अपृच्छस्खेचराधीशो मन्त्रिणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राक्कृतमित्याह सिद्धादेशमपारधीः ॥ ३०६ ॥  
 जिनेन्द्रानहमन्येष्टुर्वन्दितुं मन्दरं गतः । नन्दने पूर्वदिग्भागे वने जिननिकेतनम् ॥ ३०७ ॥  
 भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा विधिपुरस्सरम् । तत्रस्थचारणं नत्वा मत्त्यन्तविपुलादिकम् ॥ ३०८ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं जगत्पूज्य सती मस्वामिनः सुता । कस्य गन्धर्वदत्ताख्या भोगभोग्या भविष्यति ॥ ३०९ ॥  
 इत्यप्राक्षं तदावोचत्सोऽप्येवमवधीक्षणः । द्वीपेऽस्मिन्भारते हेमाङ्गदेशे मनोहरे ॥ ३१० ॥  
 राजा राजपुरे सत्यधरः सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवी तयोः श्रीमान्मुधीः सुतः ॥ ३११ ॥  
 वीणास्वर्यवरे तस्य दत्ता भार्या भविष्यति । इति मन्त्रिवचः श्रुत्वा खगेशः किञ्चिदाकुलः ॥ ३१२ ॥

उस समय शूरवीरता आदि गुण रूपी फूलोसे सुशोभित कुमारके शरीर-रूपी आमके वृक्षपर कीर्ति रूपी गन्धसे लिंचे हुए मनुष्योंके नेत्ररूपी भौरे पड़ रहे थे ॥ २९८ ॥ तदनन्तर जीवन्धर कुमारने सब वैश्यपुत्रोंसे कहा कि तुम लोग एक स्वरसे अर्थात् किसी मतभेदके बिना ही राजासे कहो कि इस नन्दाढ्यने ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है । इस प्रकार राजाके पास संदेश भेजकर पहले कही हुई गोदावरी नामकी कन्या विवाहपूर्वक नन्दाढ्यके लिए दिलवाई । सो ठीक ही है क्योंकि कार्योकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है । अर्थात् कोई कार्यको बिना किये ही यश लेना चाहते हैं और कोई कार्य करके भी यश नहीं लेना चाहते ॥ २९९-३०० ॥

अथानन्तर—इसी भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें एक गगनवल्लभ नामका नगर है जो आकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान जान पड़ता है । उसमें विद्याधरोंका स्वामी गरुडवेग राज्य करता था । दैवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका अभिमान नष्ट कर दिया इसलिए वह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया और वहाँ मनुजोदय नामक पर्वत पर रमणीय नामका सुन्दर नगर बसा कर रहने लगा । उसकी रानीका नाम धारिणी था ॥ ३०१-३०३ ॥ किसी दिन उसकी गन्धर्वदत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरझा गया । वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर शेष बची हुई माला लेकर पिताको देनेके लिए गई । गन्धर्वदत्ता पूर्ण यौवनवती हो गई थी । उसे देख पिताने अपने मतिसागर नामक मन्त्रीसे पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिये । इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी थी वह कह सुनाई ॥ ३०४-३०६ ॥ उसने कहा कि हे राजन् ! किसी एक दिन मैं जिनेन्द्र-भगवान्की वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर गया था । वहाँ नन्दन वनकी पूर्वा दिशाके वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर तथा विधिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति कर मैं बैठा ही था कि मेरा दृष्टि वहाँ पर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजपर पड़ी । मैंने उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश सुना । तदनन्तर मैंने पूछा कि हे जगत्पूज्य । हमारे स्वामीके एक गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री है वह किसके भोगने योग्य होगी ? मुनिराज अर्थात्-ज्ञानी थे अतः कहने लगे कि इसी भरतक्षेत्रके हेमाङ्ग देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर है । उसमें सत्यरूपी आभूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है । उसकी

महाराज-नाम विजया है उन दोनोंके एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है । वीणाके स्वर्यवरमें वह

भविता कथमस्माकं सम्बन्धो भूमिगोचरैः । इत्यप्राक्षीत्पुनश्चैनं मन्त्रिणं मतिसागरम् ॥ ३१३ ॥  
 सोऽप्यन्यच्च मुनेर्ज्ञातं स्पष्टमेवमभाषत । श्रेष्ठी वृषभदत्ताख्यस्तस्मिन् राजपुरे प्रिया ॥ ३१४ ॥  
 तस्य पद्मावतीसुजिनदत्तास्तयोरभूत् । स कदाचित्पुरे तस्मिन्नुद्याने प्रीतिवर्धने ॥ ३१५ ॥  
 जिनं सागरसेनाख्यं केवलज्ञानपूजने । भक्त्या वन्दितुमायातस्तच्च तद्गुरुणा समम् ॥ ३१६ ॥  
 इष्ट्वा तं तत्र तेनामा प्रीतिस्ते समजायत । देहभेदाद्विनान्येन भेदो न युवयोरभूत् ॥ ३१७ ॥  
 एवं दिनेषु गच्छत्सु केषुचिद्विजिज्ञां वरः । जिनदत्तामवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥ ३१८ ॥  
 गुणपालाभिधानस्य लब्धबोधिरदीक्षत । सुव्रताक्षान्तिसान्निध्यं सम्प्राप्यादाय संयमम् ॥ ३१९ ॥  
 पद्मावती च कौलीन्यं सुव्रता सान्त्वपालयत् । जिनदत्तोऽपि चित्तेशः पितुः पदमधिष्ठितः ॥ ३२० ॥  
<sup>१</sup>मनोहरादिरामाभिः कामं कामान्समन्वभूत् । स रत्नद्वीपमर्थार्थं स्वयमेवागमिष्यति ॥ ३२१ ॥  
 तेनैवात्मदभिप्रेतकार्यसिद्धिर्भविष्यति । इत्यसौ चागमत्केषुचिदिनेषु तदन्तिकम् ॥ ३२२ ॥  
 ततस्तुष्टः खगाधीशः कृतप्राधूणिकक्रियः । मित्र गन्धर्वदत्तायाः मत्सुतायाः स्वयंवरम् ॥ ३२३ ॥  
 त्वत्पुरे कारयेत्येनमभ्यधादधिकान्तरः । जिनदत्तोऽपि तां नीत्वा सह राजपुरं खगैः ॥ ३२४ ॥  
 स्वयंवरं <sup>२</sup>समुद्घोष्य मनोहरवनान्तरे । मनोहरं समुत्पाद्य स्वयंवरमहागृहम् ॥ ३२५ ॥  
<sup>३</sup>कलाविदग्धविद्येशभूगोचरमहीशिषु । <sup>४</sup>कुमारेषु प्रयातेषु जिनपूजां न्यवर्तयत् ॥ ३२६ ॥

गन्धर्वदत्ताको जीतेगा और इस तरह गन्धर्वदत्ता उसीकी भार्या होगी । मन्त्रीके इस प्रकारके वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ और उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम लोगोंका भूमि-गोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? ॥ ३०७-३१३ ॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीने मुनिराजसे जो कुछ अन्य बातें मालूम की थीं वे सब स्पष्ट कह सुनाईं । उसने कहा कि उसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम पद्मावती था । उन दोनोंके एक जिन-दत्त नामका पुत्र हुआ था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिवर्धन नामक उद्यानमें सागरसेन नामक जिनराज पधारे थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिसे पूजा-वन्दना करनेके लिए वह अपने पिताके साथ आया था । आप भी वहाँ पर गये थे इसलिए उसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था । इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीरभेदको छोड़ कर और किसी बातकी अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था ॥ ३१४-३१७ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन वृषभदत्त सेठ अपने स्थान पर जिनदत्ताको बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेसे गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया और उसकी स्त्री पद्मावतीने भी सुव्रता नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर वह अपनी कुलीनता की रक्षा करने लगी । इधर जिनदत्त भी धनका मालिक होकर अपने पिताके पद पर आरूढ़ हुआ और मनोहरा आदि स्त्रियोंके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा । वह जिनदत्त धन कमानेके लिए स्वयं ही इस रत्नद्वीपमें आवेगा ॥ ३१८-३२१ ॥ उसीसे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । इस तरह कितने ही दिन बीत जानेपर वह जिनदत्त गरुड़वेगके पास आया । इससे गरुड़वेग बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया । तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तसे कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धर्वदत्ताका स्वयंवर करा दो । उसकी आज्ञानुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धर्वदत्तको राजपुर नगर ले गया ॥ ३२२-३२४ ॥ वहाँ जाकर उसने मनोहर नामके वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा कराई और एक बहुत सुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-गृह बनवाया ॥ ३२५ ॥ जब अनेक कलाओंमें चतुर विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कराई ॥ ३२६ ॥

१ मनोरमादि-ल० । २ समुद्घुष्य ल० । ३ कलाविद्याविदग्धेषु ल० । ४ सुकुमारेषु यतिषु ल०, ग०, म० ।

तदा गन्धर्वदत्तापि स्वयंवरसभागृहम् । प्रविश्य <sup>१</sup>वीणाञ्चादाय सुघोषाख्यां सुलक्षणाम् ॥ ३२७ ॥  
 स्वरग्रामादिसद्वाद्यं शुद्धदेशजलक्षणम् । गीतमिश्रं विधायैतानधरीकृत्य भूशुभजः ॥ ३२८ ॥  
<sup>२</sup>स्थिता जीवन्धरस्तस्या वीणाविद्याकृतं मदम् । निराचिकीर्षुरागत्य स्वयंवरसभागृहम् ॥ ३२९ ॥  
 अपक्षपतितान् प्राज्ञान् वीणाविद्याविशारदान् । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसम्मतान् ॥ ३३० ॥  
 निर्दोषा दीयतां वीणेत्यभ्यधात्तन्नियोगिनः । वीणास्त्रिचतुरास्तस्मै तदानीय समर्पयन् ॥ ३३१ ॥  
 केशरोमलवादीनां दोषाणां तासु दर्शनात् । स ताः सर्वा निराकृत्य कन्यकां प्रत्यपादयत् ॥ ३३२ ॥  
 यदि निर्मत्सरासि त्वं त्वद्वीणा दीयतामिति । अदितासौ च तां वीणां स्वकरस्थां कृतादरम् ॥ ३३३ ॥  
 तामादाय कुमारेण शास्त्रमार्गानुसारिणा । गीतमिश्रितवाद्येन मन्द्रतारेण हारिणा ॥ ३३४ ॥  
 मधुरेण मृगाणाञ्च मनोविभ्रमकारिणा । गीतञ्च साधुवाद्दोद्घप्रसूनार्चनभासिना ॥ ३३५ ॥  
 हृदि गन्धर्वदत्तैर्न पञ्चबाणप्रचोदिता । मालयालञ्चकाराये<sup>३</sup> सम्मुखे किं न जायते ॥ ३३६ ॥  
 हीनभासोऽभवन्केचिद्दिनदीपोपमाः परे । निशाप्रदीपसङ्काशा भासमानाननास्तदा ॥ ३३७ ॥  
 सुघोषाद्देतुना प्राप्तकुमारा परितोषिणी । गन्धर्वदत्ता तां वीणामात्मन्येवमभाषत ॥ ३३८ ॥  
 कुलोचिता सुघोषा त्वं मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसङ्गमे हेतुर्वृत्तीव कुशला मम ॥ ३३९ ॥  
 काष्ठाङ्गारिकपुत्रेण चोदितेन सुदुर्जनैः । गन्धर्वदत्तामाहर्तुमुद्यमो विहितस्तदा ॥ ३४० ॥  
 कुमारोऽपि विदित्वैतद्द्वलाधिकपुरस्सरैः । विद्याधरैः समं गन्धगजं जयगिरिश्रुतिम् ॥ ३४१ ॥

उसी समय गन्धर्वदत्ताने भी सुघोषा नामकी उत्तम लक्षणों वाली वीणा लेकर स्वयंवरके सभागृहमें प्रवेश किया ॥ ३२७ ॥ वहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोके समूहसे वीणा बजाई और सब राजाओंको नीचा दिखा दिया । तदनन्तर उसका वीणासम्बन्धी मद दूर करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंवर-समाभवनमें आये । आते ही उन्होंने उन लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसीके पक्षपाती नहीं थे, बुद्धिमान् थे, वीणाकी विद्यामें निपुण थे और दोनों पक्षके लोगोंको इष्ट थे ॥ ३२८-३३० ॥ इसके बाद उन्होंने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषोंसे 'निर्दोष वीणा दी जाय' यह कहा । नियोगी पुरुषोंने तीन-चार वीणाएं लाकर उन्हें सौंप दीं परन्तु जीवन्धर कुमारने उन सबमें केश रोम लव आदि दोष दिखाकर उन्हें वापिस कर दिया और कन्या गन्धर्वदत्तासे कहा कि 'यदि तू ईर्ष्या रहित है तो अपनी वीणा दे' । गन्धर्वदत्ताने अपने हाथकी वीणा बड़े आदरसे उन्हें दे दी । कुमारने उसकी वीणा ले कर गायी, उनका वह गाना शास्त्रके मार्गका अनुसरण करने वाला था, गीत और बाजेकी आवाजसे मिला हुआ था, गंभीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोंके मनमें विभ्रम उत्पन्न करनेवाला था और उस विद्याके जानकार लोगोंके धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलोंकी पूजासे सुशोभित था ॥ ३३१-३३५ ॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धर्वदत्ता हृदयमें कामदेवके बाणोंसे प्रेरित हो उठी । इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंकृत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता है ? अर्थात् सब कुल्ल होता है ॥ ३३६ ॥ उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दीपके समान कान्तिहीन हो गये और कितने ही लोग रात्रिमें जलाये हुए दीपके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये । भावार्थ—जो ईर्ष्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देख कर मलिनमुख हो गये और जो गुणप्राही थे उनके मुख सुशोभित होने लगे ॥ ३३७ ॥ गन्धर्वदत्ता सुघोषा नामक वीणाके द्वारा ही जीवन्धर कुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए वह सन्तुष्ट हो कर अपने मनमें इस प्रकार कह रही थी कि हे सुघोषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर है, और मनको हरण करने वाली है, कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू ही चतुर दूतीके समान कारण हुई है ॥ ३३८-३३९ ॥ उस समय दुर्जनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने गन्धर्वदत्ताने ~~इस~~ करनेका उद्यम किया । जब जीवन्धर कुमारको इस बातका पता चला तब वे अधिक

भारुह्य शत्रुसैन्यस्य प्रतीपमगमत्कुधा । तदा गरुडवेगालयविद्याधरधराधिपः ॥ ३४२ ॥  
 पिता गन्धर्वदत्ताया गत्वा मध्यस्थतां तयोः । उपायकुशलः शत्रुबलं प्रशममानयत् ॥ ३४३ ॥  
 ततस्तयोर्विवाहेन विद्यायासौ समागमम् । कृतार्थोऽभूत्पितुर्नान्यत्कार्यं कन्यासमर्पणात् ॥ ३४४ ॥  
 तयोः परस्परप्रेमप्रवृद्धसुखयोरगात् । निर्बृतिः परमां काष्ठां समसंयोगसम्भवा ॥ ३४५ ॥  
 अधान्यदा मधौ मासे मदनांदयसाधने । सुरादिमलयोद्याने वनक्रीडानिमित्तकम् ॥ ३४६ ॥  
 चूपेण सह सर्वेषु पौरैषु सुखलिप्सया । आविष्कृतस्वसम्पत्सु यातेषु परमोत्सवात् ॥ ३४७ ॥  
 पुरे नस्मिन्वणिङ्गसुख्योऽभूद्द्वैश्रवणदत्तावाक् । तनूजा चूतमञ्जरीं तस्यासीत्सुरमञ्जरी ॥ ३४८ ॥  
 तस्याः श्यामलता चेटक्यसौ चन्द्रोदयाह्वयः । चूर्णवासोऽयमस्त्यन्यो नास्माद्गन्धेन बन्धुरः ॥ ३४९ ॥  
 इत्यात्मरामिनीदाक्ष्यप्रकाशनपरायणा । इतस्ततः समुद्धृत्य विचचार जनान्तरे ॥ ३५० ॥  
 कुमारवत्तावैश्यस्य विमलायां सुताभवत् । गुणमालामला तस्याश्चेदकी पटुभाषिणी ॥ ३५१ ॥  
 विद्युलताभिधा चूर्णवासोऽयं षट्पदाकृतः । वर्धः सूर्योदयो नाम नेदक्स्वर्गोऽपि विद्यते ॥ ३५२ ॥  
 इति विद्वत्सभामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम् । विद्योतयन्ती बभ्राम सुभूर्गर्वप्रहाहिता ॥ ३५३ ॥  
 एवं तयोः समुद्भूतमात्सर्याहितचेतसोः । विवादे सति तद्विद्यावेदिनस्तत्परीक्षितुम् ॥ ३५४ ॥  
 अभूवन्नक्षमास्तत्र जीवन्धरयुवेश्वरः । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यक्छ्रेष्ठश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥ ३५५ ॥  
 प्रत्ययः क्रोऽस्य चेद्भवत् दर्शयामीति तद्द्वयम् । अवष्टभ्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षेप ततो द्रुतम् ॥ ३५६ ॥  
 चन्द्रोदयमलिभ्रातो गन्धात्कर्णात्परीतवान् । दृष्ट्वा सर्वेऽपि तन्नस्थ्यास्तत्तमेवास्तुवन्निदः ॥ ३५७ ॥

बलवान् विद्याधरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बड़े क्रोधसे शत्रु-सेनाके सम्मुख गये । उसी समय उपाय करनेमें निपुण गन्धर्वदत्ताके पिता गरुडवेग नामक विद्याधरोंके राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर शत्रुकी सेनाको शान्त कर दिया ॥ ३४०-३४३ ॥ तदनन्तर विवाहके द्वारा जीवन्धर कुमार और गन्धर्वदत्ताका समागम कराकर गरुडवेग कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताको कन्या समर्पण करनेके सिवाय और कुछ काम नहीं है ॥ ३४४ ॥ परस्परके प्रेमसे जिनका सुख बढ़ रहा है ऐसे उन दोनोंकी सम संयोगसे उत्पन्न होने वाली वृत्ति परम सीमाको प्राप्त हो रही थी ॥ ३४५ ॥

अथानन्तर—कामदेवको उत्तेजित करने वाला वसन्त ऋतु आया । उसमें सब नगर-निवासी लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवसे राजाके साथ सुरमलय उद्यानमें वन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥ ३४६-३४७ ॥ उसी नगरमें वैश्रवणदत्त नामक एक सेठ रहता था । उसकी आम्रमञ्जरी नामकी स्त्रीसे सुरमञ्जरी नामकी कन्या हुई थी । उस सुरमञ्जरीकी एक श्यामलता नामकी दासी थी । वह भी सुरमञ्जरीके साथ उसी उद्यानमें आई थी । उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूर्ण था उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस चूर्णसे बढ़कर दूसरा चूर्ण है ही नहीं । इस प्रकार वह अपनी स्वाभिनीकी चतुराईको प्रकट करती हुई लोगोंके बीच घूम रही थी ॥ ३४८-३५० ॥ उसी नगरमें एक कुमारदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी विमला स्त्रीसे अत्यन्त निर्मल गुणमाला नामकी पुत्री हुई थी । गुणमालाकी विद्युलता नामकी दासी थी जो बात-चीत करनेमें बहुत ही चतुर थी । अच्छी भौंहोंको धारण करने वाली तथा अभिमान रूपी पिशाचसे प्रती वह विद्युलता विद्वानोंकी सभामें बार-बार अपनी स्वाभिनीके गुणोंको प्रकाशित करती और यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नामका श्रेष्ठ चूर्ण है और इतना सुगन्धित है कि इस पर भौरे आकर पड़ रहे हैं ऐसा चूर्ण स्वर्गमें भी नहीं मिल सकता है ॥ ३५१-३५३ ॥ इस दोनों दासियोंमें जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्याके जानकार लोग जब इसकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सके तब वहीं पर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परीक्षा कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णोंमें चन्द्रोदय नामका चूर्ण श्रेष्ठ है । 'इसका क्या कारण है ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ' ऐसा कह कर जीवन्धर कुमारने उन दोनों चूर्णोंको दोनों हाथोंसे लेकर ऊपरकी फेंक दिया । फेंकते

तदा प्रभृति ते कन्ये परस्परनिबन्धनम् । विद्याविहितसङ्घर्षं त्यजतः १स्मास्तमस्सरे ॥ ३५८ ॥  
 अथात्र नागरेष्वात्मवान्छया क्रीडनं वने । कुर्वत्स्वेकं समालोक्य कुक्कुरं खलबालकाः ॥ ३५९ ॥  
 भर्त्सयन्ति स्म चापल्यासोऽपि धावन् भयाकुलः । हृदे निपत्य तत्रैव प्राणमोक्षोन्मुखोऽभवत् ॥ ३६० ॥  
 भृत्यैस्ततस्तमानाय्य जीवन्धरकुमारकः । कर्णौ तस्य नमस्कारपदैः सम्पर्यपूरयत् ॥ ३६१ ॥  
 प्रतिगृह्य नमस्कारं चन्द्रोदयगिरावभूत् । यक्षः सुदर्शनो नाम स्मृतपूर्वभवस्तदा ॥ ३६२ ॥  
 प्रत्यागत्य कुमारं तं त्वत्प्रसादान्मयेदृशी । लब्धा विभूतिरित्युच्चैः स्तुत्या सम्पाद्य विस्मयम् ॥ ३६३ ॥  
 सर्वेषां १दिव्यभूषाभिः कृतवित्तमपूजयत् । इतः प्रभृत्यहं स्मर्यो व्यसनोत्सवयोत्सव्या ॥ ३६४ ॥  
 कुमारेति ३तमभ्यर्थ्य स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवश्यंभावि तत्फलम् ॥ ३६५ ॥  
 चिरं वने विद्वत्सैवं निवृत्तौ गन्धवारणः । तन्महीशस्य नाम्नाशनिघोषो जनघोषतः ॥ ३६६ ॥  
 समुद्धान्तो निवार्योऽन्यैरधावत्स्यन्दनं प्रति । सुदृप्तः सुरमञ्जर्याः स कुमारो विलोक्य तम् ॥ ३६७ ॥  
 विनयोन्नयनिर्णीतक्रियः सम्प्राप्य हेलया । कृत्वा परिश्रमं तस्य द्वात्रिंशत्केलिभिः स्वयम् ॥ ३६८ ॥  
 वीतश्रमस्तमस्पन्दं हेलयालानभापयत् । इष्ट्वास्य गजविज्ञानं पुरं शंसन् जनोऽविशत् ॥ ३६९ ॥  
 तदा प्रभृत्यगत्कामव्यामोहे सुरमञ्जरी । जीवन्धरकुमारावलोकनाकुलिताशया ॥ ३७० ॥  
 इङ्गितैश्चेष्टितैस्तस्याः सङ्कथाभिश्च युक्तितः । माता पिता च जीवन्धराभिलाषपरायणाम् ॥ ३७१ ॥

देर नहीं लगी कि सुगन्धिकी अधिकताके कारण भौरोंके समूहने चन्द्रोदय चूर्णको घेर लिया । यह देख, वहाँ जो भी विद्वान् उपस्थित थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करने लगे ॥३५४-३५७॥ उस समयसे उन दोनों कन्याओंने विद्यासे उत्पन्न होनेवाली परस्परकी ईर्ष्या छोड़ दी और दोनों ही मात्सर्यरहित हो गईं ॥ ३५८ ॥ तदनन्तर—उधर नगरवासी लोग वनमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे इधर कुछ दुष्ट बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलता वश मारना शुरू किया । भयसे व्याकुल हो कर वह कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्मुख हो गया । जब जीवन्धर कुमारने यह हाल देखा तो उन्होंने अपने नौकरोंसे उस कुत्तेको वहाँसे निकलवाया और उसके दोनों कान पञ्चनमस्कार मन्त्रसे भर दिये । नमस्कार मन्त्रको ग्रहण कर वह कुत्ता चन्द्रोदय पर्वत पर सुदर्शन नामका यक्ष हुआ । पूर्व भक्ता स्मरण होते ही वह जीवन्धर कुमारके पास वापिस आया और कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पाई है । इस प्रकार दिव्य आभूषणोंके द्वारा उस कृतज्ञ यज्ञने सबको आश्चर्यमें डालकर जीवन्धर कुमारकी पूजा की और कहा कि हे कुमार ! आलसे लेकर दुःख और सुखके समय आप मेरा स्मरण करना । इस प्रकार कुमारसे प्रार्थना कर वह अपने स्थान पर चला गया । आचार्य कहते हैं कि बिना कारण ही जो उपकार किये जाते हैं उनका फल अवश्य होता है ॥ ३५९-३६५ ॥

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका अशनिघोष नामका मद्दोन्मत्त हाथी लोगोंका हल्ला सुन कर बिगड़ उठा । वह अहंकारसे भरा हुआ था और साधारण मनुष्य उसे वश नहीं कर सकते थे । वह हाथी सुरमञ्जरीके रथकी ओर दौड़ा चला आ रहा था । उसे देख कर जीवन्धर कुमारने हाथीकी बिनय और उन्नय क्रियाका शीघ्र ही निर्णय कर लिया, वे लीला पूर्वक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी क्रीड़ाओंके द्वारा उसे खेद खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खेद नहीं होने दिया । अन्तमें वह हाथी निश्चेष्ट खड़ा हो गया और उन्होंने उसे आलानसे बाँध दिया । यह सब देख नगरवासी लोग जीवन्धर कुमारके हस्ति-विज्ञानकी प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ३६६-३६९ ॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्याकुलित हो रहा है ऐसी सुरमञ्जरी उसी समयसे कामसे मोहित हो गई ॥ ३७० ॥ सुरमञ्जरीके माता-पिताने, उसकी ईगितोंसे, चेष्टाओंसे तथा बात-चीतसे युक्ति पूर्वक यह जान लिया कि इसकी

विज्ञाय तां निवेद्यैतत्पित्रे तदनुज्ञया । विभूतिमकुमाराय शुभयोगे वितेरतुः ॥ ३७२ ॥  
तनः समुचितप्रेम्णा स कामं सुखमन्वभूत् । तत्र तच्छौर्यं<sup>१</sup>सौभाग्यसङ्गथां सन्ततं जनैः ॥ ३७३ ॥  
क्रियमाणां दुरात्माऽसौ काष्ठाङ्गारिकभूपतिः । कोपादशक्रुवन्सोढुं गन्धगजबाधनम् ॥ ३७४ ॥  
कृत्वा जीवन्धरस्तस्य परिभूतिं व्यधादधीः । पथ्यामलकञ्जुण्ड्यादिदानग्रहणकर्मणः ॥ ३७५ ॥  
निजजात्यनुरूपाधो विमुखः सुष्ठु गर्वितः । राजपुत्रोचिते वृत्ते विषक्तोऽथं वराटजः ॥ ३७६ ॥  
कृतान्तवदनं सद्यः प्रापयेमं कुचेष्टितम् । इत्याख्यचण्डदण्डाख्यं मुख्यं तत्पुररक्षणम्<sup>२</sup> ॥ ३७७ ॥  
स सन्नद्धबलोऽधावदभि जीवन्धरं क्रुधा । स कुमारोऽपि तज्ज्ञात्वा ससहायो युयुत्सया ॥ ३७८ ॥  
तमभ्येत्य तदेवास्मै ददौ भङ्गमभङ्गुरः । पुनः कुपितवान्काष्ठाङ्गारिकः स्वबलं बहु ॥ ३७९ ॥  
प्राहिणोरभिरीक्ष्याद्द्रवितो जीवन्धरो वृथा । क्षुद्रप्राणिविधातेन किमनेन दुरात्मकम् ॥ ३८० ॥  
काष्ठाङ्गारिकमेवैनमुपायैः प्रशमं नये । इति यक्षं निजं मित्रमस्मरत्सोऽप्युपागतः ॥ ३८१ ॥  
ज्ञातजीवन्धराकृतस्तत्सर्वं शान्तिमानयत् । ततो विजयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम् ॥ ३८२ ॥  
कुमारं तदनुज्ञानात्स्वावासासनयत्सुहृत् । स्वगेहदर्शनं नाम सज्जावः सुहृदां स हि ॥ ३८३ ॥  
सहाया बान्धवाश्चास्य प्रवृत्तेरनिभ्रजकाः । पवनान्दोलितालोलबालपल्लवलीलया ॥ ३८४ ॥  
अकम्पिषत सर्वेऽपि स्वान्सन्धर्तुमशक्तकाः । गन्धर्वदत्ता तद्याननिमित्तज्ञा निराकुला ॥ ३८५ ॥  
कुमारस्य न भीरस्ति तद्विभीत स्म मात्र भोः । स मङ्क्ष्वेतीति तान् सर्वान् प्रशान्तिं प्रापयत्सुधीः ॥ ३८६ ॥  
जीवन्धरोऽपि यक्षस्य वसतौ सुचिरं सुखम् । स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याज्ञापयन्नक्षमिङ्गितैः ॥ ३८७ ॥

जीवन्धर कुमारमें लग रही है । तदनन्तर उन्होंने जीवन्धर कुमारके माता-पितासे निवेदन किया और उनकी आज्ञानुसार शुभ योगमें ऐश्वर्यको धारण करने वाले जीवन्धर कुमारके लिए वह कन्या समर्पण कर दी ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमञ्जरीके साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे । तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर कुमारकी शूर-वीरता और सौभाग्य-शीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्ठाङ्गारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रोधमें आकर लोगोंसे कहा कि इस मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथी का बाधा पहुँचा कर उसका तिरस्कार किया है । यह वैश्यका पुत्र है इसलिए हरद, आँवला, शोंठ आदि चीजोंका क्रय-विक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जातिके कार्योंसे तो विमुख रहता है और अहंकारसे चूर हो कर राजपुत्रोंके करने योग्य कार्यमें आसक्त होता है । इसलिए खोटी चेष्टा करने वाले इस दुष्टको शीघ्र ही यमराजके मुखमें भेज दो । इस प्रकार उसने चण्ड दण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्षकको आज्ञा दी ॥ ३७३-३७७ ॥ चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रोधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दौड़ा । इधर जीवन्धर कुमारको भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मित्रोंको साथ ले युद्ध करनेकी इच्छासे उसके सम्मुख गये और स्वयं सुरक्षित रह कर उसे उसी समय पराजित कर दिया ॥ इससे काष्ठाङ्गारिक और भी कुपित हुआ और उसने बहुत-सी सेना भेजी । उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयार्द्धचिन्ता होकर विचार करने लगे कि इन क्षुद्र प्राणियोंको व्यर्थ मारनेसे क्या लाभ है ? मैं किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्ठाङ्गारिकको ही शान्त करता हूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका उपकार किया और उसने भी आकर तथा जीवन्धर कुमारका अभिप्राय जान कर सब उपद्रव शान्त कर दिया ॥ तदनन्तर वह यक्ष, जीवन्धर कुमारकी सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथी पर बैठा कर अपने घर ले गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सद्भाव रहना ही है ॥ ३७८-३८३ ॥ जीवन्धर कुमारकी प्रवृत्तिको नहीं जानने वाले उनके साथी और भाई-बन्धुलोग हवासे हिलते हुए चञ्चल छोटे पत्तोंके समान कँपने लगे और वे सब अपने आपको संभालनेमें समर्थ नहीं हो सके । परन्तु गन्धर्वदत्ता जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए वह निराकुल रही । 'कुमारको कुछ भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग डरिये नहीं, वे शीघ्र ही आज्ञावेंगे, ऐसा कह कर उस बन्धि-मतीने सबको शान्त कर दिया ॥ ३८४-३८६ ॥ उधर जीवन्धर कुमार भी यक्षके घरमें बहुत दिन



तदभिप्रायमालक्ष्य यक्षो दत्त्वा स्फुरत्प्रभाम् । साधनीमीप्सितार्थानां मुद्रिकां कामरूपिणीम् ॥ ३८८ ॥  
 तद्वेद्वेवतार्येन न भीरस्य कुतश्चन । इति किञ्चिदनुव्रज्य तममुञ्चत्कृताञ्चनः ॥ ३८९ ॥  
 कुमारोऽपि ततः किञ्चिद्भ्रूत्वान्तरमुपेयिवान् । पुरं चन्द्राभनामानं सज्योत्स्वं वा सुधागृहैः ॥ ३९० ॥  
 नृपो धनपतिस्तस्य पालको लोकपालवत् । देवी तिलोत्तमा तस्य तयोः पद्मोत्तमा सुता ॥ ३९१ ॥  
 सा विहर्तुं वनं याता दष्टा दुष्टाहिना तदा । य इमां निर्विषीकुर्यान्मणिमन्त्रौषधादिभिः ॥ ३९२ ॥  
 मयेयं कन्यका तस्मै सार्धंराज्या प्रदास्यते । घोपणामिति भूपालः पुरे तस्मिन्नचीकरत् ॥ ३९३ ॥  
 फणिवैद्यास्तदाकर्ण्य प्रागप्यादिष्टमीदृशम् । मुनिनादित्यनात्रेति कन्यालोभाच्चिकित्सितुम् ॥ ३९४ ॥  
 सम्प्राप्य बहवो नोपसंहर्तुं तदशक्नुवन् । राजाज्ञया पुनर्वैद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९५ ॥  
 धावन्तो दैवसंयोगात्कुमारमवलोक्य ते । किमस्ति विषविज्ञानमित्यपृच्छंस्तमाकुलाः ॥ ३९६ ॥  
 सोऽपि तज्ज्ञायते किञ्चिन्मयेति प्रत्यभाषत । तद्वचःश्रुतिसन्तुष्टास्ते नयन्ति स्म तं मुदा ॥ ३९७ ॥  
 सोऽपि यक्षमनुस्मृत्य 'फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्याकरोद्वीतविषवेगां नृपात्मजाम् ॥ ३९८ ॥  
 जाततोपो नृपस्तस्य सत्त्वच्छायादिलक्षणैः । अवश्यं राजवंशोऽयमिति निश्चित्य पुत्रिकाम् ॥ ३९९ ॥  
 अर्धराज्यञ्च पूर्वोक्तं तस्मै वितरति स्म सः । ततः स लोकपालादिकन्यकाभ्रातृभिः समम् ॥ ४०० ॥  
 द्वात्रिंशता चिरं रेमे तद्गुणैरनुरक्षितः । दिनानि कानिचिच्चित्र स्थिरत्वा दैवप्रचोदितः ॥ ४०१ ॥  
 कदाचिन्नशि केनापि जनैरानुपलक्षितः । गत्वा गन्धूतिकाः काश्चित्क्षेमाख्यविषये पुरम् ॥ ४०२ ॥

तक मुखसे रहे । तदनन्तर चेष्टाओंसे उन्होंने यक्षसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ॥ ३८७ ॥ उनका अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध करने वाली है, और इच्छानुसार रूप बना देने वाली है ऐसी एक अंगूठी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार दिया और उन्हें किसीसे भी भयकी आशंका नहीं है यह विचार कर वह यक्ष कुछ दूर तो उनके पीछे आया और बादमें पूजा कर चला गया ॥ ३८८-३८९ ॥ कुमार भी वहाँसे कुछ दूर चल कर चन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे । वह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ता था मानों चाँदनीसे सहित ही हो ॥ ३९० ॥ वहाँ के राजाका नाम धनपति था जो कि लोकपालके समान नगरकी रक्षा करता था । उसकी रानीका नाम तिलोत्तमा था और उन दोनोंके पद्मोत्तमा नामकी पुत्री थी ॥ ३९१ ॥ वह कन्या विहार करनेके लिए वनमें गई थी, वहाँ दुष्ट साँपने उसे काट खाया, यह यह देख राजाने अपने नगरमें घोषणा कराई कि जो कोई मणि मन्त्र औषधि आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या और आधा राज्य दूंगा ॥ ३९२-३९३ ॥ आदित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ही कह रक्खी थी इसलिए राजाकी यह घोषणा सुनकर साँपके काटनेका दवा करने वाले बहुत से वैद्य, कन्याके लोभसे चिकित्सा करनेके लिए आये परन्तु उस विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सके । तदनन्तर राजाकी आज्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी वैद्यको ढूँढ़नेके लिए निकले और इधर-उधर दौड़-धूप करनेवाले उन सेवकोंने भाग्यवश जीवन्धर कुमारको देखा । देखते ही उन्होंने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि क्या आप विष उतारना जानते हैं ? ३९४-३९६ ॥ जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया कि हाँ, कुछ जानता हूँ । उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्हें बड़े हर्षसे साथ ले गये ॥ ३९७ ॥ साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उस यक्षका स्मरण किया और मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-वेगासे रहित कर दिया ॥ ३९८ ॥ इससे राजाको बहुत सन्तोष हुआ उसने तेज तथा कान्ति आदि लक्षणोंसे निश्चय कर लिया कि यह अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कहा हुआ आधा राज्य उन्हें समर्पण कर दिया । उस कन्याके लोकपाल आदि बत्तीस भाई थे उनके गुणोंसे अनुरक्षित होकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे । तदनन्तर वहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे वे किसीसे कुछ कहे बिना ही रात्रिके समय चुपचाप वहाँसे

क्षेमाङ्गयमवाप्यास्य वने बाह्ये मनोरमे । सहस्रकूटै राजन्तं जिनालयमलोकत ॥ ४०३ ॥  
लोकनानन्तरं नत्वा कृताञ्जलिपुटः पुनः । त्रिःपरीत्य स्तुतिं कर्तुं विधिनारब्धधास्तदा ॥ ४०४ ॥  
सहसैवात्मनो रागं व्यक्तं बहिरिवार्पयन् । चम्पकानोकहः प्रादुरासीद्विको निजोद्गमैः ॥ ४०५ ॥  
कोकिलाश्च पुरा मूकीभूतास्तथानभेपजैः । चिकित्सिता इव श्राव्यमकूजन्मधुरस्वरम्<sup>१</sup> ॥ ४०६ ॥  
तज्जैनभवनाभ्यर्णवर्तिन्यच्छाम्बुसम्भृते । स्फटिकद्रवपूर्णे वा व्यकसन् सरसि स्फुटम् ॥ ४०७ ॥  
सर्वाणि जलपुष्पाणि सम्भ्रमद्भ्रमरारवम् । तद्गोपुरकवाटानामुद्घाटनमभूत्स्वयम् ॥ ४०८ ॥  
तद्विलोक्य समुत्पन्नभक्तिः स्नानविशुद्धिभाक् । तत्सरोवरसम्भूतप्रसवैर्बहुभिर्जिनान् ॥ ४०९ ॥  
अभ्यर्च्यार्थैर्मुदाव्यग्रमस्तोष्टैरभिष्टवैः । सुता तत्र सुभद्राख्यश्रेष्ठिनो निर्वृतेश्च सा ॥ ४१० ॥  
साक्षाच्छमीरिवाक्षूणाभूक्षाम्ना क्षेमसुन्दरी । तद्भावि भर्तृसाक्षिध्ये चम्पकप्रसवादिकम् ॥ ४११ ॥  
समादिशात्पुरा गर्वमुनीन्द्रो विनयन्धरः । तत्रस्थास्तत्परीक्षार्थं नियुक्तरुपुहास्तदा ॥ ४१२ ॥  
जीवन्धरकुमारावलोकनाज्जातसम्भवाः । सफलोऽस्मन्नियोगोऽभृदिति तत्क्षणमेव ते ॥ ४१३ ॥  
न्यबोधयन् समस्तं तत्सम्प्राप्य स्वामिनं निजम् । सोऽपि सन्नुष्य नासत्यं मुनीनां जातुचिद्वचः ॥ ४१४ ॥  
इति तस्मै सुतां योग्यां विधिना श्रीमतेऽदित । तथा प्राङ्मे मुदा राजपुरे निवसते नृपः ॥ ४१५ ॥  
सत्यन्धरोऽददादेतद्धनुरेतान् शरान्श्च ते । योग्यांस्तत्त्वं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभाषितः ॥ ४१६ ॥  
गृहीत्वा सुष्टु सन्तुष्टस्तत्पुरं सुखमावसत् । एवं गच्छति कालेऽस्य कदाचिन्नजविद्यया ॥ ४१७ ॥

चल पड़े और कितने ही कोरा चलकर क्षेत्र देशके क्षेम नामक नगरमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ॥ ३६६-४०३ ॥ जिन-मन्दिरको देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसी समय विधिपूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया ॥ ४०४ ॥ उसी समय अकस्मात् एक चम्पाका वृक्ष मानो अपना अनुराग बाहिर प्रकट करता हुआ अपने फूलोंसे युक्त हो गया ॥ ४०५ ॥ जो कोकिलाएँ पहले गूँगीके समान हो रही थीं वे उन कुमारके शुभागमन रूप औषधिसे चिकित्सा की हुईके समान ठीक होकर सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ॥ ४०६ ॥ उस जैन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो स्वच्छ जलसे भरा हुआ था और ऐसा जान पड़ता था मानो स्फटिक मणिके द्रवसे ही भरा हो । उस सरोवरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये और उनपर भ्रमर मँडराते हुए गुंजार करने लगे । इसके सिवाय उस मन्दिरके द्वारके किवाड़ भी अपने आप खुल गये ॥ ४०७-४०८ ॥ यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति और भी बढ़ गई उन्होंने उसी सरोवरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की और फिर उसी सरोवरमें उत्पन्न हुए बहुतसे फूल लेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की तथा अर्थोंसे भरे हुए अनेक इष्ट स्तोत्रोंसे निराकुल होकर उनकी स्तुति की । उस नगरमें सुभद्र सेठकी निर्वृति नामकी स्त्रीसे उत्पन्न हुई एक क्षेमसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात् लक्ष्मीके समान सुशोभित थी । पहले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजने कहा था कि क्षेमसुन्दरीके पतिके समीप आनेपर चंपाका वृक्ष फूल जायगा, आदि चिह्न बतलाये थे । उसी समय सेठने उसकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये थे ॥ ४०६-४१२ ॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे वे पुरुष बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ । उन लोगोंने उसी समय जाकर यह सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन किया । उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका वचन कभी असत्य नहीं होता ॥ ४१३-४१४ ॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान् जीवन्धर कुमारके लिए विधिपूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्पित कर दी । तदनन्तर वही सेठ जीवन्धर कुमारसे कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरने मुझे यह धनुष और ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं इसलिए इन्हें आपही ग्रहण करें—इस प्रकार कहकर वह धनुष और बाण भी दे दिये ॥ ४१५-४१६ ॥ जीवन्धर कुमार धनुष और बाण लेकर

गन्धर्वदत्ता सम्प्राप्य जीवन्धरकुमारकम् । तं सुखासीनमालोक्य केनाप्यविदितं पुनः ॥ ४१८ ॥  
 आयाद्राजपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोत्सवः । ततः कतिपयैरेव दिनैः प्रागिव तत्पुरात् ॥ ४१९ ॥  
 चापबाणधरो गत्वा विषये सुजनाङ्गये । हेमाभनगरं प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥ ४२० ॥  
 तत्पतिर्दृढमित्राख्यो नलिना तस्य वल्लभा । हेमाभाख्या तयोः पुत्री तज्जन्मन्येव केनचित् ॥ ४२१ ॥  
 कृतः किलैवमादेशो मनोहरवनान्तरे । खलूरिकायां धानुष्कन्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ ॥  
 लक्ष्याभ्यर्णाञ्चिद्वृत्तः सन् शरः पश्चात्समेव्यति । वल्लभा तस्य बालेयं भवितेति सुलक्षणा ॥ ४२३ ॥  
 धनुर्विद्याविदः सर्वे तदादेशश्रुतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूवंस्तदाशया ॥ ४२४ ॥  
 जीवन्धरकुमारोऽपि तत्प्रदेशमुपागमत् । धानुष्कास्तं विलोक्याहुरादेशोक्तधनुःश्रमः ॥ ४२५ ॥  
 किमङ्गास्तीति सोऽप्याह किञ्चिदस्तीति तैरिदम् । विध्यतां लक्ष्यमित्युक्तः सज्जीकृतधनुः शरम् ॥ ४२६ ॥  
 आदाय विद्ववान् लक्ष्यमप्राप्यैव न्यवर्तत । तं तदालोक्य तत्रस्था महीपतिमबोधयन् ॥ ४२७ ॥  
 मृग्यमाणो हि मे वल्लीविशेषश्ररणेऽसजत् । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम् ॥ ४२८ ॥  
 अश्राणयद्विभूत्यास्मै तदिदं पुण्यमुच्यते । आदिमो गुणमित्रोऽन्यो बहुमित्रस्ततः परः ॥ ४२९ ॥  
 सुमित्रो धनमित्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । तान् सर्वान् सर्वविज्ञानकुशलान् विदधच्चिरम् ॥ ४३० ॥  
 तत्र पूर्वकृतं पुण्यं कुमारोऽनुभवन् स्थितः । इतो जीवन्धराभ्यर्णमप्रकाशं मुहुर्मुहुः ॥ ४३१ ॥  
 गत्वा गमनमालोक्य नन्दाढ्येन कदाचन । अज्ञाता केनचिद्यासि क्व यियासुरहश्च तत् ॥ ४३२ ॥  
 वदेति पृष्ट्वा गन्धर्वदत्ता स्मित्वाब्रवीदिदम् । मया प्राप्त्यं प्रदेशं चैत्त्वञ्च गन्तुं यदीच्छसि ॥ ४३३ ॥

बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उसी नगरमें सुखसे रहने लगे । इस तरह कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी समझ गन्धर्वदत्ता अपनी विद्याके द्वारा जीवन्धर कुमारके पास गई और उन्हें सुखसे बैठा देख, किसीके जाने बिना ही फिरसे राजपुर वापिस आ गई सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका उत्सव ही प्रेमी जनोंका प्रेम कहलाता है । तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस नगरसे भी वे पुण्यवान् जीवन्धर कुमार धनुष बाण लेकर चल पड़े और सुजन देशके हेमाभ नगरमें जा पहुँचे ॥ ४१७-४२० ॥ वहाँके राजाका नाम दृढमित्र और रानीका नाम नलिना था । उन दोनोंके एक हेमाभा नामकी पुत्री थी । हेमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-ज्ञानीने कहा था कि मनोहर नामके वनमें जो आयुधशाला है वहाँ धनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके द्वारा चलाया हुआ बाण लक्ष्य स्थानसे लौटकर पीछे वापिस आ जावेगा यह उत्तम लक्ष्णोंवाली कन्या उसीकी वल्लभा होगी ॥ ४२१-४२३ ॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्याके जाननेवाले थे वे सभी उक्त कन्याकी आशासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमें लग रहे थे ॥ ४२४ ॥ भाग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थान पर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि हे भाई ! राजाके आदेशानुसार क्या आपने भी धनुष चलानेमें कुछ परिश्रम किया है ॥ ४२५ ॥ इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने कहा कि हाँ, कुछ है तो । तब उन धनुषधारियोंने कहा कि अच्छा तो यह लक्ष्य बेधो— यहाँ निशाना मारो । इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैयार किया हुआ धनुष-बाण लेकर उस लक्ष्यको बेध दिया और उनका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करनेके पहले ही लौट आया । यह सब देख, वहाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने राजाको खबर दी ॥ ४२६-४२७ ॥ राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको ढूँढ़ रहा था वह स्वयं आकर पैरोंमें लग गई । तदनन्तर उसने विवाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी । आचार्य कहते हैं कि देखो, पुण्य यह कहलाता है । गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा और भी कितने ही जीवन्धर कुमारके साले थे उन सबको वे समस्त विद्याओंमें निपुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्यका ~~पुण्य~~ ~~पुण्य~~ करते हुए वहाँ चिरकाल तक रहे आये । इधर गन्धर्वदत्ता बार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आती जाती थी उसे देख एक समय नन्दाढ्यने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने हँसकर कहा कि जहाँ मैं जाया करती हूँ उस

देवताधिष्ठिता नाम्ना शय्या स्मरतरङ्गिणी । तत्राप्रजं तव स्मृत्वा स्वप्यास्वं विधिपूर्वकम् ॥ ४३४ ॥  
 तथा प्रामोषि सन्तोषासत्समीपमिति स्फुटम् । तदुक्तमवधार्यासौ रात्रौ तच्छयनेऽस्वपत् ॥ ४३५ ॥  
 तं तदा भोगिनीविद्या शय्ययानयदप्रजम् । तदा कुमारनन्दाढ्यौ मुदा वीक्ष्य परस्परम् ॥ ४३६ ॥  
 समाश्लिष्य सुखप्रभपूर्वकं तत्र तस्थतुः । नाधिकं प्रीतयेऽत्रान्यप्रीतसोदर्यसङ्गमात् ॥ ४३७ ॥  
 राट्टेऽस्मिन्नेव विख्याते सुजनेऽस्ति परं पुरम् । नाम्ना नगरशोभाख्यं दृढमित्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥  
 धाता तस्य सुमित्राख्यो राज्ञी तस्य वसुन्धरा । रूपविज्ञानसम्पन्ना श्रीचन्द्रा तनया तयोः ॥ ४३९ ॥  
 आपूर्णयौवनारम्भा सा कदाचिद्गृहाङ्गणे । वीक्ष्य पारावतद्वन्द्वं स्वैरं क्रीडधरच्छया ॥ ४४० ॥  
 जातजातिस्मृतिमूर्च्छां सहसा समुपागमत् । तद्दशालोकनन्याकुलीकृतास्तत्समीपगाः ॥ ४४१ ॥  
 कुशलाश्चन्दनोशीरशीतलाम्भोनिषेचिताम् । व्यजनापादिताह्लादिपवनाश्रसिताशयाम् ॥ ४४२ ॥  
 तां सम्बोध्य सुखालापैविभावितविबोधनाम् । विदधुः किं न कुर्वन्ति कृच्छ्रेषु सुहृदो हिताः ॥ ४४३ ॥  
 श्रुत्वैतत्पितरौ कन्याप्रियामलकसुन्दरीम् । पुत्रीं तिलकशब्दादिचन्द्रिकाया विमूर्च्छिताम् ॥ ४४४ ॥  
 कन्यां गवेषयेत्वेति तदा जगदतुः श्रुत्वा । सापि सम्प्राप्य सल्लापनिपुणा कन्यकां मिथः ॥ ४४५ ॥  
 भट्टारिके वदैतत्ते किं मूर्च्छाकारणं मम । इति पृष्टवती मूर्च्छाहेतुं चेच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ४४६ ॥  
 न ह्यस्यकथनीयं मे तव प्राणाधिकप्रिये । शृणु चेतः समाधायेत्यसौ सम्यगनुस्मृतिः ॥ ४४७ ॥  
 स्वपूर्वभवसम्बन्धमशेषं प्रत्यपीपदत् । तत्सर्वमवधार्यांशु सुधीरलकसुन्दरी ॥ ४४८ ॥  
 तदैवागत्य तन्मूर्च्छाकारणं प्राग्यथाश्रुतम् । प्रस्पष्टमधुरालापैस्तयोरेवमभाषत् ॥ ४४९ ॥

स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरङ्गिणी नामक शय्यापर अपने बड़े भाईका स्मरण कर त्रिधि-पूर्वक सो जाना । इस प्रकार संतोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच जायगा । गन्धर्वदत्ताकी बातका निश्चय कर नन्दाह्य रात्रिके समय स्मरतरङ्गिणी शय्यापर सो गया और भोगिनी नामकी विद्याने उसे शय्या सहित बड़े भाईके पास भेज दिया । तदनन्तर जीवन्धर कुमार और नन्दाह्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख-समाचार पूछकर वहीं रहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो भाइयोंके समागमसे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नहीं है ॥ ४२८-४३७ ॥

अथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें दृढमित्र राजा राज्य करता था । उसके भाईका नाम सुमित्र था । सुमित्रकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा था और उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥ ४३८-४३९ ॥ जिसके यौवनका आरम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने भवनके आँगनमें इच्छानुसार क्रीड़ा करो हुए कबूतर और कबूतरीका जोड़ा देखा ॥ ४४० ॥ देखते ही उसे जातिस्मरण हुआ और वह अकस्मात् ही मूर्च्छित हो गई । उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ घबड़ा गईं, उनमें जो कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पङ्कासे उत्पन्न हुई आनन्ददायी हवासे उसके हृदयको सन्तोष पहुंचाया और मीठे वचनोंसे सम्बोधकर उसे सचेत किया सो ठीक ही है क्योंकि हितकारी मित्रगण कष्टके समय क्या नहीं करते हैं ? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥ ४४१-४४३ ॥ यह समाचार सुनकर उसके माता-पिताने तिलकचन्द्राकी पुत्री और श्रीचन्द्राकी सखी अलकसुन्दरीसे शोकवशा कहा कि तू जाकर कन्याकी मूर्च्छाका कारण तलाश कर । माता-पिताकी बात सुनकर बात-चीत करनेमें निपुण अलकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राके पास गई और एकान्तमें पूछने लगी कि हे भट्टारिके! मुझे बतला कि तेरी मूर्च्छाका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सखि ! यदि तू मेरी मूर्च्छाका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमसे कहने योग्य न हो । इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभवका समस्त सम्बन्ध अलकसुन्दरीको कह सुनाया । अलकसुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी वह शीघ्र ही सब बातको अच्छी तरह समझकर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गई और स्पष्ट तथा मधुर शब्दोंमें उसकी मूर्च्छाका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी ॥ ४४४-४४९ ॥

इतस्तृतीये कन्यैषा बभूव किल जन्मनि । देशे हेमाङ्गदे राजपुरे वैश्यकुलाग्रणीः ॥ ४५० ॥  
 रत्नतेजाः प्रिया तस्य रत्नमाला तयोः सुता । सुरूपानुपमा नाम्ना नाम्नैव न गुणैरपि ॥ ४५१ ॥  
 तस्मिन्नेव पुरे वंशे विशां कनकतेजसः । तनूजश्चन्द्रमालायामभवद्दुविधो विधीः ॥ ४५२ ॥  
 सुवर्णतेजा नाम्नाभूतास्मै प्राक्परिभाषिताम् । पुनस्तदवमानेन तन्मातापितरौ किल ॥ ४५३ ॥  
 समश्राणयतां वैश्यपुत्राय मणिकारिणे । गुणमित्राय तत्रेयं स्तोत्रं कालमगात्सुखम् ॥ ४५४ ॥  
 कदाचिज्जलयात्रायामभोनिधिनदीमुखात् । निर्गमे विषमावर्ते गुणमित्रे मृतिङ्गते ॥ ४५५ ॥  
 स्वयं चेत्वा प्रदेशं तं मृत्युमेवा समाश्रयत् । ततो राजपुरे गन्धोत्कटवैश्यसुधालये ॥ ४५६ ॥  
 पतिः पवनवेगाख्यो रतिवेगेयमप्यभूत् । पारावतकुले द्वन्द्वं तद्बालाक्षरशिक्षणे ॥ ४५७ ॥  
 स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः श्रावकव्रतम् । तयोर्दृष्ट्वा प्रश्नान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात् ॥ ४५८ ॥  
 स्नेहादन्योन्यसंसक्तं सुखं तत्रावसच्चिरम् । सुवर्णतेजास्तद्वद्वैरेण पुरुर्वंशताम् ॥ ४५९ ॥  
 मृत्वा सम्प्राप्य तद्द्वन्द्वं दृष्ट्वा कापि यदृच्छया । अग्रहीद्वतिवेगाख्यां<sup>१</sup> राहुर्मूर्तिमिवैन्दवीम् ॥ ४६० ॥  
 जानकोपः कपोतोऽसुं नखपक्षप्रताडनैः । तुण्डघातैश्च<sup>२</sup> हत्वाशु निजभामाममूमुचत् ॥ ४६१ ॥  
 कदाचित्तापुर<sup>३</sup>प्रत्यासन्नभूध्रबिलान्तरे । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतिते सति ॥ ४६२ ॥  
 स्वयं गृहं समागत्य रतिवेगात्मनो मृतिम् । पत्युस्तुण्डेन संल्लिख्य<sup>४</sup> तान्सर्वानवबोधयत् ॥ ४६३ ॥  
 तद्वियोगमहादुःखपीडिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा भवतोः सुता ॥ ४६४ ॥

इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हेमाङ्गदे देशके राजपुर नगरमें वैश्य-कुल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम रत्नमाला था। यह कन्या उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी। अनुपमा केवल नामसे ही अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अनुपमा (उपमा रहित) थी। उसी नगरमें वैश्यवंशमें उत्पन्न हुए कनक-तेजकी स्त्री चन्द्रमालासे उत्पन्न हुआ सुवर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिहीन और भाग्यहीन था। अनुपमाके मातापिताने पहले इसी सुवर्णतेजको देनी कही थी परन्तु पीछे उसे दरिद्र और मूर्खताके कारण अपमानितकर जवाहरातका काम जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास कुछ समय तक सुखसे रही ॥ ४५०-४५४ ॥ किसी एक समय गुणमित्र जलयात्राके लिए गया था अर्थात् जहाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नदीके मुँहानेसे जब निकल रहा था तब किसी बड़ी भँवरमें पड़कर मर गया। उसकी स्त्री अनुपमाने जब यह खबर सुनी तब यह भी स्वयं उस स्थानपर जाकर डब मरी। तदनन्तर उसी राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणमित्रका जीव पवनवेग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा रतिवेगा नामकी कबूतरी हुई। गन्धोत्कटके घर उसके वालक अक्षराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अच्छर लिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट और उसकी स्त्री, दोनों ही श्रावकके व्रत पालन करते थे इसलिए उन्हें देखकर कबूतर-कबूतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त हो गया था। इस प्रकार जन्मान्तरसे आये हुए स्नेहसे वे दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसे रहे आये। सुवर्णतेजको अनुपमा नहीं मिली थी इसलिए वह गुणमित्र और अनुपमासे वैर बाँधकर मरा तथा मरकर बिलाव हुआ। एक दिन वह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा था उसे देखकर उस बिलावने रतिवेगा नामकी कबूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि राहु चन्द्रमाके विम्बको ग्रस लेता है ॥ ४५५-४६० ॥ यह देख कबूतरको बड़ा क्रोध आया, उसने नख और पंखोंकी ताड़नासे तथा चोंचके आघातसे बिलावको मारकर अपनी स्त्री छुड़ा ली ॥ ४६१ ॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपवर्ती पहाड़की गुफाके समीप पापी लोगोंने एक जाल बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरीने स्वयं घर आकर और चोंचसे लिखकर सब लोगोंको अपने पतिके मरनेकी खबर समझा दी ॥ ४६२-४६३ ॥ तदनन्तर उसका वियोगरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरी भी मर गई और यह आप दोनोंकी

अथ पारावतद्वन्द्वं वीक्ष्य जमान्तरस्मृतेः । 'व्यमुद्धान् नियमेनैतद्वयक' सर्वं ममावधीत् ॥ ४६५ ॥  
 'इत्यतोऽलकसुन्दर्या वचः श्रुत्वाकुलाकुलौ । सुता पतिसमन्वेषणेच्छया पितरौ तदा ॥ ४६६ ॥  
 तद्भवान्तरवृत्तान्तं पट्टके लिखितं स्फुटम् । रङ्गतेजोभिधानस्य नटवर्गो पटीयसः ॥ ४६७ ॥  
 मदनादिलतायाश्च दानसम्मानपूर्वकम् । तत्कर्तव्यं समाख्याय यत्नेनाकुस्तां करे ॥ ४६८ ॥  
 पुष्पकाख्ये वने तौ च कृतपट्टप्रसारणौ । स्वयं नटितुमारब्धौ नानाजनसमाकुलम् ॥ ४६९ ॥  
 पितास्यास्तद्वने रन्तुं गतस्तत्र मुनीश्वरम् । समाधिगुप्तमालोक्य परीत्य कृतवन्दनः ॥ ४७० ॥  
 धर्मसद्भावमाकर्ण्य पप्रच्छ तदनन्तरम् । पूज्य मत्पुत्रिकापूर्वभवभर्ता क्व वर्तते ॥ ४७१ ॥  
 कथ्यतामिति दिव्यावधीक्षणः सोऽप्यथावदत् । स हेमाभपुरे वैश्यतनयोऽद्यासयौवनः ॥ ४७२ ॥  
 इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं तदैव स महीपतिः । सनटः ससुहृत्सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४७३ ॥  
 गत्वा तन्न मनोहारि नृत्तं चित्रमयोजयत् । नागरैः सह नन्दाह्यो नृत्तमालोकितुं गतः ॥ ४७४ ॥  
 जन्मान्तरस्मृतेर्मूर्च्छां सहसा सावपद्यत । शीतक्रियाविशेषापनीतमूर्च्छं तदग्रजः ॥ ४७५ ॥  
 जीवन्धरोऽवदन्मूर्च्छांकारणं कथयेति तम् । पट्टकालिखितं सर्वमभिधायाम्यधादिदम् ॥ ४७६ ॥  
 सोऽप्यद्य तव सोदर्योऽजनिधीत्यग्रजं प्रलि । तुष्ट्यासौ च विवाहार्थं प्रागारब्ध महामहम् ॥ ४७७ ॥  
 इदं प्रकृतमत्रान्यच्छ्रयतां समुपस्थितम् । किराताधीश्वरो नाम्ना विश्रुतो हरिविक्रमः ॥ ४७८ ॥  
 सदायादभयाद्गत्वा कपिस्थाख्यवनेऽकरोत् । दिशागिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥ ४७९ ॥  
 प्रिया तुग्वनराजोऽस्याप्यजायत वनेशिनः । वटवृक्षाङ्गयो मृत्युश्चित्रसेनः ससैन्धवः ॥ ४८० ॥

प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥ ४६४ ॥ आज कबूतरोंका युगल देखकर पूर्वभवका स्मरण हो आनेसे ही यह मूर्च्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुझे साफ-साफ बतलाई है ॥ ४६५ ॥ इस प्रकार अलकसुन्दरीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे बहुत ही व्याकुल हुए ॥ ४६६ ॥ उन्होंने अपनी पुत्रीके पूर्वभवका वृत्तान्त एक पट्टियेपर साफ-साफ लिखवाया और नटोंमें अत्यन्त चतुर रङ्गतेज नामका नट तथा उसकी स्त्री मदनलताको बुलाया, दान देकर उनका योग्य सम्मान किया, करने योग्य कार्य समझाया और 'यज्ञसे यह कार्य करना' ऐसा कहकर वह चित्रपट उनके हाथमें दे दिया ॥ ४६७-४६८ ॥ वे नट और नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक वनमें गये और उसे वहीं फैलाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने लगे ॥ ४६९ ॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी वनमें क्रीड़ा करनेके लिए गया था वहाँ उसने समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रवक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर पूछा कि हे पूज्य ! मेरी पुत्रीका पूर्वभवका पति कहाँ है ? सो कहिये । मुनिराज अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहने लगे कि वह आज हेमाभनगरमें है तथा पूर्ण यौवनको प्राप्त है ॥ ४७०-४७२ ॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर वह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमाभनगर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आश्चर्यकारी नृत्यका आयोजन किया । उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके अन्य लोगोंके साथ नन्दाह्य भी गया था ॥ ४७३-४७४ ॥ परन्तु वह जन्मान्तरका स्मरण हो आनेसे सहसा मूर्च्छित होगया । तदनन्तर विशेष-विशेष शीतलोपचार करनेसे जब उसकी मूर्च्छा दूर हुई तब बड़े भाई जीवन्धर कुमारने उससे कहा कि मूर्च्छा आनेका कारण बतला । इसके उत्तरमें नन्दाह्यने चित्रका सब हाल कहकर जीवन्धरसे कहा कि वही गुणमित्रका जीव आज मैं तेरा छोटा भाई हुआ हूँ । यह सुनकर जीवन्धर कुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुए और विवाहके लिए पहलेसे ही महामह पूजा प्रारम्भ करने लगे ॥ ४७५-४७७ ॥ इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भीलोंका राजा था । उसने भाई, बन्धुओंसे डरकर कपित्थ नामक वनमें दिशागिरि नामक पर्वतपर वनगिरि नामक नगर बसाया था । उस वनके स्वामी भीलके सुन्दरी नामकी स्त्री थी और वनराज नामका पुत्र था । वटवृक्षाङ्गो मृत्युश्चित्रसेनो

१ विमुद्धान्यमेवैतत् ल० । २ इत्यथालक-इति क्वचित् ।

अरिभयाह्वयः शत्रुमर्दनोऽतिबलोऽप्यमी । श्रुत्यास्तस्यात्मजस्यापि लोहजङ्घः सखापरः ॥ ४८१ ॥  
 श्रीषेणश्चान्यदा गत्वा पुरं तौ तद्वनान्तरे । रममाणं समालोक्य श्रीचन्द्रां चन्द्रिकोपमाम् ॥ ४८२ ॥  
 प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्यान्नु पातुं यातं सुरङ्गमम् । रक्षकाभिभवाच्चीत्वा दत्वास्मै तोषमापतुः ॥ ४८३ ॥  
 हरिविक्रमतः पश्चात्तावभ्येत्य हितैषिणौ । मिथो ऽवनेचरेशात्मजस्यान्यायानुसारिणः ॥ ४८४ ॥  
 वनराजस्य तत्कान्सारूपकान्त्यादिसम्पदम् । सम्यग्वर्णयतः स्मैतच्छ्रुत्वा तदभिलाषिणा ॥ ४८५ ॥  
 सुवर्णतेजसा प्रीतिमतास्यां पूर्वजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥ ४८६ ॥  
 प्रेषितावनु तेनेत्वा महाभटपरिष्कृतौ । तत्कन्याशयनागारं ज्ञात्वा कृतसुरङ्गकौ ॥ ४८७ ॥  
 निष्कृष्य कन्यां श्रीषेणलोहजङ्घौ सपौरुषौ । गतौ कन्यां गृहीत्वैति तस्मिन्लिखितपत्रकम् ॥ ४८८ ॥  
 सुरङ्गं समवस्थाप्य वनराजस्य सन्निधिम् । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥ ४८९ ॥  
 आदित्योद्गमवेलायां विदित्वा लेखवाचनात् । कन्यापहरणं तस्या भ्रातरौ नृपचोदितौ ॥ ४९० ॥  
 अनुसृत्य द्रुतं ताभ्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मित्रान्तकिञ्चरं यक्षमित्रं चाकुलिताशया ॥ ४९१ ॥  
 श्रीचन्द्राहं न भोक्ष्येऽस्मन्नगरास्मज्जिनालयम् । अदृष्ट्वा किञ्चिदप्यस्मिन्निति मौनं समादधे ॥ ४९२ ॥  
 सखायौ वनराजस्य विनिर्जित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददतुः प्राप्तसम्मदौ ॥ ४९३ ॥  
 सुविरक्तां वनेशोऽसौ प्रत्यात्मानं विबुध्य ताम् । प्रौढास्तद्योजनापाये स्वाः समाह्वय दूतिकाः ॥ ४९४ ॥  
 कुर्वते मां मयि प्रीतामुपायैरित्यभाषत । ताश्च तत्प्रेषणं लब्ध्वा श्रीचन्द्राभ्याशमागताः ॥ ४९५ ॥

सैन्यव, अरिभय, शत्रुमर्दन और अतिबल ये उस भीलके सेवक थे। लोहजङ्घ और श्रीषेण ये दोनों उसके पुत्र वनराजके मित्र थे। किसी एक दिन लोहजङ्घ और श्रीषेण दोनों ही हेमाभनगरमें गये। वहाँके वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी। उसे देखकर उन दोनोंने उसकी प्रशंसा की। वहाँपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके रक्षकका तिरस्कार कर वह घोड़ा छीन लिया और ले जाकर हरिविक्रम भीलको देकर उसे सन्तुष्ट किया। तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय मार्गका अनुसरण करनेवाले उसके पुत्र वनराजके समीप गये और श्रीचन्द्राके रूप कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह वर्णन करने लगे। यह सुनकर वनराजकी उसमें अभिलाषा जागृत हो गई। वनराज पूर्वभवमें सुवर्णतेज था और श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। उस समय सुवर्णतेज अनुपमाको चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी। उसी अनुरागसे उसने अपने दोनों मित्रोंसे कहा कि किसी भी उपायसे उसे मेरे पास लाओ ॥ ४७८-४८६ ॥ कहा ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया। दोनों मित्रोंने हेमाभ नगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोनेके घरका पता लगाया और फिर सुरङ्ग लगाकर कन्याके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन दोनोंने इस आशयका एक पत्र लिखकर सुरङ्गमें रख दिया कि पुरुषार्थी श्रीषेण तथा लोहजङ्घ कन्याको लेकर गये हैं और जिस प्रकार रात्रिके समय चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और मङ्गल जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याको लेकर वनराजके समीप जाते हैं। यह पत्र तो उन्होंने सुरङ्गमें रक्खा और श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये। दूसरे दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कन्याके दोनों भाइयोंको उसे वापिस लानेके लिए प्रेरित किया। दोनों भाई शीघ्र ही गये और उनके साथ युद्ध करने लगे। अपने भाई किन्नरमित्र और यक्षमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्रा को बहुत दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनालयके दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक कुछ भी नहीं खाऊँगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन धारण कर लिया ॥ ४८७-४९२ ॥ इधर वनराजके मित्र श्रीषेण और लोहजङ्घने युद्धमें राजाके पुत्रोंको हरा दिया और बहुत ही प्रसन्न होकर वह कन्या वनराजके लिए सौंप दी ॥ ४९३ ॥ जब वनराजने देखा कि श्रीचन्द्रा मुझसे विरक्त है तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें चतुर अपनी

सामभेदविधानज्ञाः प्रवेष्टुं हृदयं शनैः । किमेवं तिष्ठसि ज्ञाहि परिधत्स्व विभूषणैः ॥ ४९६ ॥  
 अलङ्कुरु सजं धं हि सुंक्ष्वाहारं मनोहरम् । ब्रूहि विश्वब्धमस्माभिः श्रीचन्द्रे सुखसङ्कथाम् ॥ ४९७ ॥  
 मनुष्यजन्म सम्प्राप्तं दुःखेनानेकयोनिषु । दुर्लभं भोगवैमुख्यादेतन्मानीनशो वृथा ॥ ४९८ ॥  
 वनराजात्परो नास्ति वरो रूपादिभिर्गुणैः । लोकेऽस्मिन्लोचने सम्यक्तवोन्मील्य न पश्यसि ॥ ४९९ ॥  
 लक्ष्मीरिवादिचक्रेशं भूषेवाभरणद्रुमम् । सम्पूर्णैन्दुमिव ज्योत्स्ना वनराजमुपाश्रय ॥ ५०० ॥  
 प्राप्य चूडामणिं मूढः को नामात्रावमन्यते । इत्यन्यैश्च भयप्रायैर्वचनैरकदर्थयन् ॥ ५०१ ॥  
 तदुपद्रवमाकर्ण्य प्रच्छन्नैर्हरिविक्रमः । विपत्तिर्निग्रहेणासां कन्यायाः प्रतिपत्स्यते ॥ ५०२ ॥  
 कदाचिदिति सञ्चिन्त्य निर्भर्त्स्य वनराजकम् । तस्या निजतनूजाभिः सहवासं चकार सः ॥ ५०३ ॥  
 हृदमिन्नादयः सर्वे तदा सम्प्राप्य बान्धवाः । सञ्जडबलसम्पन्नास्तस्थुरावेष्ट्य तत्पुरम् ॥ ५०४ ॥  
 युयुत्सवो विपक्षाश्च जीवन्धरकुमारकः । तद्दृष्ट्वा स्पष्टकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत् ॥ ५०५ ॥  
 किमनेनेति यक्षेशं स्वं सुदर्शनमस्मरत् । अनुस्मरणमात्रेण यक्षोप्यानीय कन्यकाम् ॥ ५०६ ॥  
 कुमारार्यापयामास कस्याप्यकृतपीडनम् । संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः ॥ ५०७ ॥  
 ते सर्वे सिद्धसाध्यत्वाद्युद्धं संहार्यं सम्मुखम् । नगरस्यागमज्ञेताञ्जन्वसौ वनराजकः ॥ ५०८ ॥  
 युयुत्सया ययौ वीक्ष्य तं यक्षो दुष्टचेतसम् । परिगृह्य हठात्सद्यः कुमाराय समर्पयत् ॥ ५०९ ॥  
 वन्द्यकृत्य कुमारोऽपि वनराजं निविष्टवान् । ससेनः सरसि श्रीमान्सेनारम्याभिधानके ॥ ५१० ॥

दूतियाँ बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो । वनराजकी प्रेरणा पाकर वे दूतियाँ श्रीचन्द्राके पास गईं और साम-भेद आदि अनेक विधानोंको जाननेवाली वे दूतियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि 'हे श्री चन्द्रे ! तू इस तरह क्यों बैठी है ? ज्ञान कर, कपड़े पहिन, आभूषणोंसे अलंकार कर, माला धारण कर, मनोहर भोजन कर और हम लोगोंके साथ विश्वास पूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥ ४९४-४९७ ॥ अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करते-करते यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विमुखतासे व्यर्थ ही नष्ट मत कर ॥ ४९८ ॥ इस संसारमें रूप आदि गुणोंकी अपेक्षा वनराजसे बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं देखती है ? ॥ ४९९ ॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीके साथ लक्ष्मी रहती थी, आभूषण जातिके वृत्तोंके समीप शोभा रहती है और पूर्ण चन्द्रमाके साथ चाँदनी रहती है उसी प्रकार तू वनराजके समीप रह । चूडामणि रत्नको पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसका तिरस्कार करता हो, इस प्रकारके तथा भय देनेवाले और भी वचनोंसे उन दूतियोंने श्रीचन्द्राको बहुत तङ्ग किया ॥ ५००-५०१ ॥ वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यह उपद्रव सुनकर विचार किया कि ये दूतियाँ इसे तंग करती हैं इसलिए संभव है कि कदाचित् यह कन्या आत्मघात कर ले इसलिए उसने वनराजको डाँटकर वह कन्या अपनी पुत्रियोंके साथ रख ली ॥ ५०२-५०३ ॥ इधर हृदमित्र आदि सब भाई-बन्धुओंने मिलकर सेना तैयार कर ली और उस सेनाके द्वारा वनराजका नगर घेरकर सब आ डटे ॥ ५०४ ॥ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले । यह देख दयालु जीवन्धर कुमारने विचार किया कि युद्ध अनेक जीवोंका विघात करनेवाला है इसलिए इससे क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने उसी समय अपने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया । स्मरण करते ही यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए सौंप दी सो ठीक ही है क्योंकि पापसे डरनेवाले पुरुष योग्य उपायसे ही कार्य सिद्ध करते हैं ॥ ५०५-५०७ ॥ हृदमित्र आदि सभी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे युद्ध-बन्द कर नगरकी ओर चले गये परन्तु वनराज युद्धकी इच्छासे वापिस नहीं गया । यह देख, यक्षने उसे दुष्ट अभिप्रायवाला समझकर जबर्दस्ती पकड़ लिया और जीवन्धर कुमारको सौंप दिया । श्रीमान् जीवन्धर कुमार भी वनराजको कैदकर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरोवरके किनारे ठहर



तत्रैकं चारणं वीक्ष्य सहसा महसां निधिम् । भिक्षाहेतोर्विति प्राप्तमभ्युत्थाय यथोचितम् ॥ ५११ ॥  
 कृताभिवन्दनो योग्यं भाक्तिकोऽदात्सुभोजनम् । तद्दानावजितायोऽयमथादाश्वर्यपञ्चकम् ॥ ५१२ ॥  
 तद्दानफलमालोक्य वनराजः स्वजन्मनः । सम्बन्धं यद्यथावृत्तं स तत्सर्वमवागतम् ॥ ५१३ ॥  
 बलेन महता योद्धुं हरिविक्रममागतम् । यक्षस्तञ्च समादाय कुमारस्य करेऽकरोत् ॥ ५१४ ॥  
 वनराजस्तदाशेषं सर्वेषामित्यथाव्रवीत् । जन्मनीतस्तृतीयेहं बभूव वणिजां सुतः ॥ ५१५ ॥  
 सुवर्णतेजास्तस्माच्च मृत्वा मार्जारं तांगतः । कपोतीं प्राग्भवे कन्यामिमां हन्तुं समुद्यतः ॥ ५१६ ॥  
 केनचिन्मुनिनाधीतञ्चतुर्गतिगतश्रुतेः । मुक्तवैरोऽत्र भूत्वैतत्स्नेहादेनामनीनयम् ॥ ५१७ ॥  
 तदुक्तं ते समाकर्ण्य नायं कन्यामनीनयत् । दर्पेण किन्तु सम्प्रीत्ये त्यधधार्यं शमङ्गता ॥ ५१८ ॥  
 पितरं वनराजस्य तञ्च निर्मुक्तबन्धनम् । कृत्वा विसर्जयाञ्चक्रुर्धार्मिकत्वं हि तत्सताम् ॥ ५१९ ॥  
 ततो राज्ञः पुरं गत्वा स्थित्वा द्वित्रिदिनानि ते । गत्वा नगरशोभाख्ये श्रीचन्द्रां बन्धभागिनीम् ॥ ५२० ॥  
 नन्दाढ्याय ददुर्भूरिभृत्या युने धनेशिने । एवं विवाहनिर्वृत्तौ हेमाभं बन्धुभिः समम् ॥ ५२१ ॥  
 पुरं प्रत्यागमे सत्यन्धरसूनुं निवेद्य तम् । कस्यचित्सरसस्तीरे तन्नानेतुं जलं गताः ॥ ५२२ ॥  
 परिवारजना दृष्ट्वा दुष्टैर्गन्धिलमाक्षिकैः । तद्गयाद्बोधयन्ति स्म जीवन्धरकुमारकम् ॥ ५२३ ॥  
 तदाकर्ण्य विचिन्त्यैतत्कुमारोऽपि सविस्मयः । हेतुरस्यत्र कोऽपीति तज्जातुं यक्षमस्मरत् ॥ ५२४ ॥  
 सोऽपि सन्निहितस्तत्र विद्यां विश्वस्य खेचरीम् । तं खेचरं कुमारस्य पुरस्तादकरोद्भ्रुतम् ॥ ५२५ ॥

गये ॥५०८-५१०॥ वहीं उन्होंने तेजके निधि स्वरूप एक चारण मुनिराजके अकस्मात् दर्शन किये,। वे मुनिराज भिक्षाके लिए आ रहे थे इसलिए जीवन्धर कुमारने उठकर उन्हें योग्य रीतिसे नमस्कार किया और बड़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया। इस दानके फलसे उन्हें भारी पुण्यबन्ध हुआ और उसीसे उन्होंने पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५११-५१२ ॥ उस दानका फल देखकर वनराजको अपने पूर्व जन्मका सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥ ५१३ ॥ उधर हरिविक्रम अपने पुत्र वनराजको कैद हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ रहा था सो यक्षने उसे भी पकड़कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया ॥ ५१४ ॥ तदनन्तर वनराजने सबके सामने अपना समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया कि 'मैं इस जन्मसे तीसरे जन्ममें सुवर्णतेज नामका वैश्य-पुत्र था। वहाँसे मरकर बिलाव हुआ। उस समय इस श्रीचन्द्राका जीव कबूतरी था इसलिए इसे मारनेका मैंने उद्यम किया था। किसी समय एक मुनिराज चारों गतियोंके भ्रमणका पाठ कर रहे थे उसे सुनकर मैंने सब वैर छोड़ दिया और मरकर यह वनराज हुआ हूँ। पूर्व भवके स्नेहसे ही मैंने इस श्रीचन्द्राका हरण किया था' ॥ ५१५-५१७ ॥ वनराजका कहा सुनकर सब लोगोंने निश्चय किया कि इसने अहंकारसे कन्याका अपहरण नहीं किया है किन्तु पूर्वभवके स्नेहसे किया है ऐसा सोचकर सब शान्त रह गये ॥ ५१८ ॥ और वनराज तथा उसके पिताको बन्धनरहित कर छोड़ दिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका धार्मिकपना यही है ॥ ५१९ ॥ इसके बाद वे सब लोग राजाके नगर (हेमाभनगर) में गये वहाँ दो तीन दिन ठहरकर फिर नगरशोभा नामक नगरमें गये। वहाँ कल्याण-रूप भाग्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी विभूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाढ्यको प्रदान की। इस प्रकार विवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्धुओंके साथ फिर सब लोग हेमाभनगरको लौटे। मार्गमें किसी सरोवरके किनारे ठहरे। वहाँपर परिवारके लोग जीवन्धर कुमारको बैठाकर उस सरोवरमें जल लेनेके लिए गये। वहाँ जाते ही मधु-मन्त्रियोंने उन लोगोंको काट खाया तब उन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसकी खबर जीवन्धर कुमारको दी। यह सुनकर तथा विचारकर जीवन्धर कुमार आश्चर्यमें पड़ गये और कहने लगे कि इसमें कुछ कारण अवश्य है ? कारणका पता चलानेके लिए उन्होंने उसी समय यज्ञका स्मरण किया ॥ ५२०-५२४ ॥ यज्ञ शीघ्र ही आ गया और ~~नगरे जन्मपी~~ सब खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ्र ही उस विद्याधरको जीवन्धर कुमारके आगे

इदं सरस्वत्या केन रक्ष्यते हेतुनेति सः । परिपृष्टः कुमारैण खेचरः संन्यगब्रवीत् ॥ ५२६ ॥  
 श्रुणु भद्र प्रवक्ष्यामि मत्कथां कृतचेतनः । अभवत्पुष्पदन्ताख्यमालाकारधनेशिनः ॥ ५२७ ॥  
 सुतो राजपुरे जातिभट्टाहः कुसुमश्रियः । तत्रैव धनदरास्य नन्दिन्यां तनयोऽभवत् ॥ ५२८ ॥  
 चन्द्रामो मे सखा तस्य कदाचिद्धर्ममभ्यधात् । भवानहञ्च धर्मेण तेन रक्षाशयस्तदा ॥ ५२९ ॥  
 विधाय मद्यमांसादिनिवृत्तिं तत्फलान्मृतः । इह विद्याधरो भूत्वा सिद्धकूटजिनालये ॥ ५३० ॥  
 विलोक्य चारणद्वन्द्वं विनयेनोपसृत्य तत् । आवयोर्भवसम्बन्धमाकर्ण्य त्वां निरीक्षितुम् ॥ ५३१ ॥  
 रक्षित्वैतत्सरोऽन्येषां प्रवेशाद्विद्यया स्थितः । वक्ष्ये त्वद्भवसम्बन्धं दिव्यावधिनिरूपितम् ॥ ५३२ ॥  
 धातकीखण्डप्रागभागेरुपूर्वविदेहगे । विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ५३३ ॥  
 पतिर्जयन्धरस्तस्य तनूजोऽभूजयद्रथः । जयवत्यास्त्वमन्येद्युर्वनं नाम्ना मनोहरम् ॥ ५३४ ॥  
 विहृतुं प्रस्थितस्तस्य सरस्यां हंसशावकम् । विलोक्य चेटकैर्दक्षैस्तमानाख्य सकौतुकः ॥ ५३५ ॥  
 स्थितस्तत्पोषणोद्योगे तन्मातापितरौ तदा । सशोकौ करुणाक्रन्दं नभस्यकुहतां मुहुः ॥ ५३६ ॥  
 चेटकस्ते तदाकर्ण्य कर्णान्ताकृष्टचापकः । शरेणापायचातं तस्याकार्यं न पापिनाम् ॥ ५३७ ॥  
 तन्निरिक्ष्य भवन्माता कारुण्याद्भ्रुकृताश्रया । किमेतदिति सम्पृच्छथ प्रबुद्धा परिचारकात् ॥ ५३८ ॥  
 कुपित्वा चेटकायै न वृथा विद्वद्वते सती । निर्भर्त्स्य त्वाञ्च ते पुत्र न युक्तमिदमाश्रिमम् ॥ ५३९ ॥  
 मात्रा संयोजयेत्याह त्वञ्चाज्ञानादिदं मया । कृतं कर्मेति निन्दित्वा गहित्वात्मानमाद्र्ध्वीः ॥ ५४० ॥

लाकर खड़ा कर दिया ॥ ५२५ ॥ तब जीवन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरोवरकी रक्षा किस-  
 लिए करता है ? इस प्रकार कुमारके पूछने पर वह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र !  
 मेरी कथाको चित्त लगाकर सुनिये, मैं कहता हूँ । पहले जन्ममें मैं राजपुर नगरमें अत्यन्त धनी  
 पुष्पदन्त मालाकारकी स्त्री कुसुमश्रीका जातिभट्ट नामका पुत्र था । उसी नगरमें धनदत्तकी स्त्री  
 नन्दिनीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था । वह मेरा मित्र था, किसी एक समय आपने उस  
 चन्द्राभके लिए धर्मका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धर्मप्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ५२६-  
 ५२८ ॥ और मैंने उसी समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे मरकर मैं यह विद्या-  
 धर हुआ । किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनालयमें दो चारण मुनियोंके दर्शन किये । मैं बड़ी विनयसे  
 उनके पास पहुँचा और उनके समीप अपने तथा आपके पूर्वभवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन  
 करनेके लिए ही अन्य लोगोंके प्रवेशसे इस सरोवरकी रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ । उन मुनिराजने  
 अपने दिव्य अवधिज्ञानसे देखकर जो आपके पूर्वभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब मैं कहता  
 हूँ ॥ ५३०-५३२ ॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरु सम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसकी  
 पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा जयधर राज्य करता था । उसकी जयवती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र  
 हुआ था । किसी एक समय वह जयद्रथ क्रीड़ा करनेके लिए मनोहर नामके वनमें गया था वहाँ उसने  
 सरोवरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कौतुक वश चतुर सेवकोंके द्वारा उसे बुला लिया और  
 उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा । यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोक सहित होकर  
 आकाशमें बार-बार करुण क्रन्दन करने लगे । उसका शब्द सुनकर तेरे एक सेवकने कान तक धनुष  
 खींचा और एक बाणसे उस बच्चेके पिताको नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्योंको  
 नहीं करने योग्य कार्य क्या है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ५३३-५३७ ॥ यह देख जयद्रथकी माताका  
 हृदय दयासे आर्द्र हो गया और उसने पूछा कि यह क्या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती  
 व्यर्थ ही पक्षीके पिताको मारनेवाले सेवक पर बहुत कुपित हुई तथा तुझे भी डाँटकर कहने लगी  
 कि हे पुत्र ! तेरे लिए यह कार्य उचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे इसकी मातासे मिला दे । इसके  
 उत्तरमें तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञान वश किया है । इस प्रकार आर्द्र परिणाम होने पर जयधरने

तदादानदिनाङ्गसशावकं षोडशे दिने । चातकं घनकालो वा सजलाम्भोदमालया ॥ ५४१ ॥  
 प्रसवं मधुमासो वा लतया चूतसञ्ज्ञया । पश्चिन्यार्कोदयो वाङ्घ्रिं तं मात्रा समजीगमः ॥ ५४२ ॥  
 एवं विनांदैरन्यैश्च काले याते निरन्तरम् । सुखेन केनचिद् भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥ ५४३ ॥  
 राज्यभारं परित्यज्य तपोभारं समुद्रहन् । जीवितान्ते तनुं त्यक्त्वा सहस्रारे सुरोऽभवः ॥ ५४४ ॥  
 तत्राष्टादशवाध्यायुर्दिव्यभोगाभितर्पितः । ततश्चुत्वेह सम्भूतः शुभाशुभविपाकतः ॥ ५४५ ॥  
 चेतकेन हतो हंसः स काष्ठाङ्गारिकोऽभवत् । तेनैव त्वत्पिता युद्धे हतः प्राक्तव जन्मनः ॥ ५४६ ॥  
 मन्दसानशिशोः पित्रोर्विप्रयोगकृतैः सः । फलात्षोडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्धुभिः ॥ ५४७ ॥  
 सह सञ्जात इत्येतद्विद्याधरनिरूपितम् । श्रुत्वा कल्याणबन्धुस्त्वं ममेत्येनमपूजयत् ॥ ५४८ ॥  
 तस्मादागत्य हेमाभनगरं प्राप्य सम्मदात् । कामभोगसुखं स्वैरमिष्टैरनुभवन् स्थितः ॥ ५४९ ॥  
 इदं प्रकृतमत्रान्यत्संविधानमुदीर्यते । नन्दाढ्यस्य पुरास्वस्माभिर्याणानन्तरे दिने ॥ ५५० ॥  
 गन्धर्वदत्ता सम्पृष्टा स्नेहितैर्मथुरादिभिः । वदास्माकं विवेत्सि त्वं कुमारी क्व गताविति ॥ ५५१ ॥  
 साप्याह सुजनं देशे हेमाभनगरे सुखम् । वसतस्तत्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरम् ॥ ५५२ ॥  
 ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सर्वे तद्दिदक्षया । आपृच्छथ स्वजनान् सर्वान् सन्तोषारौर्विवेचिताः ॥ ५५३ ॥  
 गच्छन्तो दण्डकारण्ये व्यश्रान्यस्तापसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान् पश्यन्तीषु कौतुकात् ॥ ५५४ ॥  
 महादेवी च तान् दृष्ट्वा यूयं कस्मात्समागताः । गमिष्यथ क्व वेत्येतदपृच्छस्नेहनिर्भरा ॥ ५५५ ॥  
 यथावृत्तान्तमेवैषु कथयत्सु प्रतोषिणी । मत्पुत्रपरिवारोऽयं सङ्घो यूनामिति स्फुटम् ॥ ५५६ ॥

आपकी बहुत ही निन्दा की और जिस दिन उस बालकको पकड़वाया था उसके सोलहवें दिन, जिस प्रकार वर्षाकाल चातकको सजल मेघमालासे मिला देता है, वसन्त ऋतु फूलको आमकी लताके साथ मिला देता है और सूर्योदय भ्रमरको कमलिनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी माताके साथ मिला दिया ॥ ५३८-५४२ ॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही विनोदोंसे जयद्रथका काल निरन्तर सुखसे बीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवशा भोगोंसे वैराग्य हो गया फल-स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया और जीवनके अन्तमें शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गमें देव पर्याय प्राप्त कर ली ॥ ५४३-५४४ ॥ वहाँ वह अठारह सागरकी आयु तक दिव्य भोगोंसे सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पुण्य पापके उदयसे यहाँ उत्पन्न हुआ है ॥ ५४५ ॥ जिस सेवकने हंसको मारा था वह काष्ठाङ्गारिक हुआ है और उसीने तुम्हारा जन्म होनेके पहले ही युद्धमें तुम्हारे पिताको मारा है । तुमने हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रक्खा था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह वर्ष तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ है । इस प्रकार विद्याधरकी कही कथा सुनकर जीवन्धरकुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है ऐसा कह कर उन्होंने उसका खूब सत्कार किया ॥ ५४६-५४८ ॥ तदनन्तर वे बड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमाभ नगर आय और इष्ट जनोंके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ ५४९ ॥

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! यह तुम्हें प्रकृत बात बतलाई । अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही जाती है । जिस दिन नन्दाढ्य राजपुर नगरसे निकल गया उसके दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंने गन्धर्वदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कहाँ गये हैं ? तू सब जानती है, बतला । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने बड़े आदरसे कहा कि आप लोग उनकी चिन्ता क्यों करते हैं वे दोनों भाई सुजन देशके हेमाभ नगरमें सुखसे रहते हैं ॥ ५५०-५५२ ॥ इस प्रकार गन्धर्वदत्ता से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मित्रोंको उनके देखनेकी इच्छा हुई और वे सब अपने आत्मीय जनोंसे पूछकर तथा उनसे बिदा लेकर सन्तोषके साथ चल पड़े ॥ ५५३ ॥ चलते-चलते उन्होंने दण्डक वनमें पहुँचकर तपस्वियोंके आश्रममें विश्राम किया । कौतुकवशा वहाँकी तापसी स्त्रियों आकर उन्हें देखने लगीं । उन स्त्रियोंमें महादेवी विजया भी थी, वह उन सबको देखकर कहने लगी कि आप लोग कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? और कहाँ जावेंगे ? विजयाने यह सब बड़े स्नेहके साथ पूछा ॥ ५५४-५५५ ॥ जब मधुर आदिने अपना सब वृत्तान्त कहा तब वह, यह स्पष्ट

विज्ञायाद्यात्र विश्रम्य भवद्भिर्गम्यतां पुनः । समागमनकालेऽसाविहैवानीयतामिति ॥ ५५७ ॥  
 सम्यक्प्रार्थयतैतांस्तेऽप्येषा जीवन्धरश्रुतेः । रूपेण निविशेषा किं तन्मातेत्यासत्संशयाः ॥ ५५८ ॥  
 कुर्मस्तथेति सन्तोष्य तां प्रियानुगतोक्तिभिः । गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित्त्रय व्याधैः कदर्थिताः ॥ ५५९ ॥  
 युद्धे पुरुषकारेण क्रभ्यादानभिभूय तान् । यान्तो यद्दृच्छया व्याधैर्मार्गोऽन्यैर्योगमागमन् ॥ ५६० ॥  
 हेमाभपुरसार्थापहरणारम्भसम्भ्रमे । तत्कर्म नागरैरुर्ध्वन्यस्तहस्तैर्निवेदितः<sup>१</sup> ॥ ५६१ ॥  
 आक्रोशद्भिः सकारुण्यो जीवन्धरसमाह्वयः । गत्वा व्याधबलं युद्धे निरुध्यातर्क्यविक्रमः ॥ ५६२ ॥  
 तद्गृहीतं धनं सर्वं वणिग्भ्यो ह्यार्पयन्पुनः । युद्ध्वा चिरं विमुक्तात्मनामाङ्गशरदर्शनात् ॥ ५६३ ॥  
 जीवन्धरकुमारेण विदिता मधुरादयः । सङ्गतास्ते कुमारस्य वार्ता राजपुरोद्भवाम् ॥ ५६४ ॥  
 सर्वां निर्वर्ण्य विश्रम्य कञ्चिकालं स्थिताः सुखम् । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥ ५६५ ॥  
 अरण्यमप्रयाणार्थं दण्डकाख्यमुपागमन् । तत्र स्नेहान्महादेवी क्षीरापूर्णाङ्गतस्तनी ॥ ५६६ ॥  
 बाष्पाविलविलालाक्षी क्षामक्षामाङ्गयष्टिका । चिन्तासहजसन्तसजटीभूतशिरोरुहा ॥ ५६७ ॥  
 निरन्तरोष्णनिःश्वासवैवर्ण्यगमिताधरा । ताम्बूलादिव्यपायोरुमलदिग्धद्विजावली ॥ ५६८ ॥  
 अशोचत्पुत्रमालोक्य हकिमणीव मनोभवम् । दृष्टकालान्तरालोकस्तत्क्षणे दुःखकारणम् ॥ ५६९ ॥  
 तन्जस्पर्शसम्भूतमस्पृशन्तीं सुखामृतम् । ज्ञापयित्वा पत्न्यादपन्नयोः सकृताब्जलिः ॥ ५७० ॥  
 कुमारोत्तिष्ठ कल्याणशतभागी भवेत्यसौ । तमाशिषां शतैः स्नेहादभिनन्द्यान्ववीदिति ॥ ५७१ ॥

जानकर बहुत ही सन्तुष्ट हुई कि यह युवाओंका सङ्घ मेरे ही पुत्रका परिवार है । उसने फिर कहा कि आज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइये और आते समय उसे यहाँ ही लाइये ॥ ५५६-५५७ ॥ इस प्रकार उसने उन लोगोंसे अच्छी तरह प्रार्थना की । वह देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह जीवन्धरकी माता ही हो । तदनन्तर उन लोगोंने प्रिय और अनुकूल वचनोंके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट किया और कहा कि हमलोग ऐसा ही करेंगे । इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर जाने पर उन्हें भीलोंने दुःखी किया परन्तु वे अपने पुरुषार्थसे युद्धमें भीलोंको हराकर इच्छालुसार आगे बढ़े । आगे चलकर मार्गमें ये सब लोग दूसरे भीलोंके साथ मिल गये और सबने हेमाभ नगरमें जाकर वहाँके सेठोंको लूटना शुरू किया । इससे क्षुभित हुए नगरवासी लोगोंने हाथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारको इस कार्यकी सूचना दी । निदान, अचिन्त्य पराक्रमके धारक दयालु जीवन्धर कुमारने जाकर युद्धमें वह भीलोंकी सेना रोकी और उनके द्वारा हरण किया हुआ सब धन छीनकर वैश्योंके लिए वापिस दिया । इधर मधुर आदिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित बाण चलाये थे उन्हें देखकर जीवन्धर कुमारने उन सबको पहिचान लिया । तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप हो गया और सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक सुखसे रहे । इसके बाद वे कुमारको लेकर अपने नगरकी ओर चले । विश्राम करनेके लिए वे उसी दण्डक वनमें आये । वहाँ उन्हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूधसे भरकर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र आँसुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यष्टि अत्यन्त कृश थी, वह हजारों चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके शिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर गरम श्वास निकलनेसे उसके ओठोंका रङ्ग बदल गया था और पान आदिके न खानेसे उसके दाँतों पर बहुत भारी मैल जमा हो गया था । जिस प्रकार रुक्मिणी प्रद्युम्नको देखकर दुखी हुई थी उसी प्रकार विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थका बहुत समय बाद देखना तत्कालमें दुःखका कारण होता ही है ॥ ५५५-५६६ ॥ पुत्रके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुख रूपी अमृतका जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी माताको उस सुखका अनुभव कराते हुए जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलोंमें गिर पड़े ॥ ५७० ॥ हे कुमार ! उठ, सैकड़ों

प्रतिपक्षाद्भवदृष्टिसम्भृतसुखसङ्गमात् । कुमार भीतभीतं वा मद्दुःखं सहसा गतम् ॥ ५७२ ॥  
 पूर्वं देव्यां तुजा साकं निगदन्त्यां तदन्तरे । सम्प्राप्य सत्वरं यक्षो दक्षः जेहाकुमारजात् ॥ ५७३ ॥  
 ज्ञानन्मग्लेपनाशेषभूषावस्त्राशनादिभिः । सम्पूज्य जैनसङ्घमवात्सल्यात्सकलान्पृथक् ॥ ५७४ ॥  
 अपास्य मधुरालापैस्तत्त्वगर्भैः सयुक्तिभिः । मदनादिकथाभिश्च शोकं मातुः सुतस्य च ॥ ५७५ ॥  
 जगाम सम्मुखं धान्नः स्वस्येत्यापाद्य सत्क्रियाम् । तत्सौहार्दं यदापत्सु सुहृद्भिरनुभूयते ॥ ५७६ ॥  
 राज्ञी चैव महापुण्यभागीत्यालोच्य तं पृथक् । कुमारमभ्यधादेवं प्रज्ञाविक्रमशाखिनम् ॥ ५७७ ॥  
 सत्यन्धरमहाराजं तत्र राजपुरे गुरुम् । हत्वा राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥ ५७८ ॥  
 पितृस्थानपरित्यागो न योग्यस्ते मनस्विनः । इत्यसौ च तदाकर्ण्य प्रतिपद्योदितं तथा ॥ ५७९ ॥  
 अकालसाधनं शौर्यं न फलाय प्रकल्पते । धान्यं वा सम्प्रतीक्ष्यो यः कालः कार्यस्य साधकः ॥ ५८० ॥  
 इति सञ्चित्य सञ्ज्ञातक्रोधोप्याच्छाद्य तं हृदि । अम्बैतत्कार्यपर्याप्तौ बलं नन्दाह्यनायकम् ॥ ५८१ ॥  
 त्वामानेतुं प्रहेष्यामि तावदन्न त्वयास्यताम् । दिनानि कानिचिद्वीतशोकयेति महामतिः ॥ ५८२ ॥  
 तद्योग्यसर्ववस्तूनि परिवारञ्च कञ्चन । तत्सञ्चिधाववस्थाप्य गावा राजपुरं स्वयम् ॥ ५८३ ॥  
 प्राप्य तन्निजभृत्यादीन्पुरः प्रस्थाप्य कस्यचित् । मदागतिनं वाच्येति प्रतिपाद्य पृथक् पृथक् ॥ ५८४ ॥  
 वैश्यवेषं समादाय विद्यामुद्राप्रभावतः । पुरं प्रविश्य कस्मिंश्चिदापणे समवस्थितः ॥ ५८५ ॥  
 तत्र तत्सञ्चिधानेन नानारत्नादिभाण्डकम् । अपूर्वलाभसंबृत्तं दृष्ट्वा सागरदत्तकः ॥ ५८६ ॥

कल्याणोंको प्राप्त हो' इस प्रकार सैकड़ों आशीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी बड़े स्नेहसे इस प्रकार कहने लगी ॥ ५७१ ॥ कि 'हे कुमार ! तुझे देखनेसे जो मुझे सुख उत्पन्न हुआ है उसके समागम रूपी शत्रुसे ही मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मात् भाग गया है' ॥ ५७२ ॥ इस प्रकार वह महादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारके स्नेहसे वह चतुर यक्ष भी बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचा ॥ ५७३ ॥ उसने आकर उत्तम जैनधर्मके वात्सल्यसे स्नान, माला, लेपन, समस्त आभूषण, वस्त्र तथा भोजन आदिके द्वारा सबका अलग-अलग सत्कार किया । तदनन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण और तत्त्वसे भरे हुए मधुर वचनोंसे तथा प्रद्युम्न आदिकी कथाओंसे माता और पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया । इस प्रकार आदर-सत्कार कर वह यक्ष अपने स्थानकी ओर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग आपत्तिके समय अनुभव करते हैं ॥ ५७४-५७६ ॥ इसके बाद विजयादेवीने 'यह महा पुण्यात्मा है' ऐसा विचार कर बुद्धि और बलसे सुशोभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 'राजपुर नगरके सत्यन्धर महाराज तेरे पिता थे उन्हें मार कर ही काष्ठाङ्गारिक राज्य पर बैठा आतः वह तेरा शत्रु है । तू तेजस्वी है अतः तुझे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं है' । इस प्रकार माताके कहे हुए वचन सुनकर और अच्छी तरह समझकर जीवन्धर कुमारने विचार किया कि 'समय और साधनके बिना प्रकट हुई शूर-वीरता फल देनेके लिए समर्थ नहीं है अतः धान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये जो कि कार्यका साधक है' । जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्रोध तो उत्पन्न हुआ था परन्तु उक्त विचार कर उन्होंने उसे हृदयमें ही छिपा लिया और मातासे कहा कि हे अम्ब ! यह कार्य पूरा होने पर मैं तुझे लेनेके लिए नन्दाह्यको सेनापति बनाकर सेना भेजूँगा तब तक कुछ दिन तू शोक रहित हो यहीं पर रह । ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ और कुछ परिवारको उसके समीप रखकर महाबुद्धिमान् जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये ॥ ५७७-५८३ ॥ राजपुर नगरके समीप जाकर उन्होंने अपने सेवक आदि सब लोगोंको अलग-अलग यह कहकर कि 'किसीसे मेरे आनेकी खबर नहीं कहना' पहले ही नगरमें भेज दिया और स्वयं विद्यामयी अँगूठीके प्रभावसे वैश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसीकी दूकान पर जा बैठे ॥ ५८४-५८५ ॥ वहाँ उनक समीप बैठ जानेसे सागरदत्त सेठको अनेक रत्न आदिके पिटारे तथा और भी अपूर्व वस्तुओं का लाभ हुआ । यह देख उसने विचार किया कि 'निमित्तज्ञानीने जिसके लिए कहा था यह वही

वणिगादेशविदिष्टो दैवशैरयमित्यसौ । दत्तवान्विमलां तस्मै सुतां १स्वां कमलोद्भवाम् ॥ ५८७ ॥  
 दिनानि कानिचित्तत्र संघसनं सुखमन्यदा । परिव्राजकवेषेण काष्ठाङ्गारिकसंसदम् ॥ ५८८ ॥  
 प्रविश्य तं समालोक्य कृताशीर्वादसक्त्रियः । शृणु राजन्नहं भोक्तुं याचे त्वामतिथिर्गुणी ॥ ५८९ ॥  
 मां भोजयेत्युवाचैतच्छ्रुत्वा सप्रतिपन्नवान् । मदुद्योगफलस्यैतन्निमित्तं कुसुमं परम् ॥ ५९० ॥  
 इत्यग्रासनमास्थाय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गतः । वशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफलमौषधम् ॥ ५९१ ॥  
 मन्त्रे विद्यते यस्मै रुचिर्गृह्णात्वसाविदम् । इति राजकमभ्येत्य पृथक्पृथग्घोषयत् ॥ ५९२ ॥  
 तच्छ्रुत्वा पश्य नैर्लज्ज्यमस्य वार्धक्यमीदृशम् । वशीकरणचूर्णाक्षनादिबन्धनमप्यदः ॥ ५९३ ॥  
 इति तद्वचनात्सर्वैः कृत्वा हासं द्विजोराम । कन्यका गुणमालाख्या पुरेऽस्मिन्नस्ति विश्रुता ॥ ५९४ ॥  
 जीवन्धरेण मधूर्णवासस्य न कृता स्तुतिः । इति नृद्वेषिणी जाता तां त्वच्चूर्णाक्षनादिभिः ॥ ५९५ ॥  
 वशीकुरुष्व तद्वीक्ष्य तव मन्त्रौषधादिकम् । मौल्येन बहुना सर्वमादविष्यामहे वयम् ॥ ५९६ ॥  
 इत्युक्तसैः सकोपो वा युष्मज्जीवन्धरो विधीः । चूर्णवासादिभेदं किं स जानाति परीक्षितुम् ॥ ५९७ ॥  
 इत्युक्त्वास्ततः सर्वे सकोपा विप्रमब्रुवन् । यथेष्टं किं ब्रवीष्येवं मृसारमविषेवचन् ॥ ५९८ ॥  
 आत्मस्तबोऽन्यनिन्दा च मरणञ्च विशिष्यते । इति लोकप्रसिद्धं किं न श्रुतं दुःश्रुतोद्धत ॥ ५९९ ॥  
 इत्यसौ तैरधिक्षिप्तः किं न सन्ति प्रशंसकाः । युष्मद्विधा ममापीति सम्भाष्यात्मानमुद्धतः ॥ ६०० ॥  
 घटदासीं विधास्यामि गुणमालां सुहृत्ततः । ममेति सङ्गरं कृत्वा प्रस्थितस्तद्गृहं प्रति ॥ ६०१ ॥

पुरुष है, ऐसा विचार कर उसने अपनी स्त्री कमलासे उत्पन्न हुई विमला नामकी पुत्री उन्हें समर्पित कर दी ॥ ५८६-५८७ ॥ विवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेठके यहाँ सुखसे रहे। तदनुसार किसी अन्य समय परिव्राजकका वेष रखकर काष्ठाङ्गारिककी सभामें गये। वहाँ प्रवेश कर तथा काष्ठाङ्गारिकको देखकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'हे राजन् ! सुनो, मैं एक गुणवान् अतिथि हूँ, तुम्हसे भोजन चाहता हूँ, मुझे खिला दे'। यह सुकर काष्ठाङ्गारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया। 'यह निमित्त, मेरे उद्योग रूपी फलको उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल ही है' ऐसा विचार कर उन्होंने अगली आसन पर आरुढ़ होकर भोजन किया और भोजनोपरान्त वहाँसे चल दिया। तदनन्तर उन्होंने राजाओंके समूहमें जाकर अलग-अलग यह घोषणा कर दी कि 'मेरे हाथमें प्रत्यक्ष फल देनेवाला वशीकरण चूर्ण आदि उत्तम औषधि है जिसकी इच्छा हो वह ले ले'। उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हैसी करते हुए कहने लगे कि 'देखो इसकी निर्लज्जता। इसका ऐसा तो लुढ़ापा है फिर भी वशीकरण चूर्ण, अञ्जन तथा बन्धक आदिकी औषधियाँ रखे हुए है। इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने हैसी कर कहा कि 'हे ब्राह्मण ! इस नगरमें एक गुणमाला नामकी प्रसिद्ध कन्या है। 'जीवन्धरने मेरे चूर्णकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की है' इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वेष रखने लगी है। तू अपने चूर्ण तथा अञ्जन आदिसे पहले उसे वशमें कर ले, बादमें यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा औषधि आदिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगे' ॥ ५८८-५९६ ॥ इस प्रकार लोगोंके कहने पर वह ब्राह्मण क्रोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा जीवन्धर मूर्ख होगा, वह चूर्णकी सुगन्धि आदिके भेदकी परीक्षा करना क्या जाने ॥ ५९७ ॥ इसके उत्तरमें सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि 'जीवन्धर मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं' इसका विचार किये बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है ॥ ५९८ ॥ हे मिथ्याशास्त्रसे उद्वेग ! क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें मरणसे कुछ विशेषता (अंतर) नहीं है अर्थात् मरणके ही समान है ॥ ५९९ ॥ इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि तो क्या आप जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं हैं ? 'मैं भी कोई पुरुष हूँ' इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धत ब्राह्मणने प्रतिज्ञा की कि 'मैं क्षणभरमें गुणमालाको अपनी घटदासी बना लूँगा'। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह गुणमालाके

१ स्वाममलोद्भवाम् इति न्वचित् ।

तत्र तच्छेदिकामेकामाहूय स्वामिनीं निजाम् । ज्ञापयेति स्थितः कश्चिद्विप्रो द्वारीत्यबुद्धयत् ॥ ६०२ ॥  
 सापि स्वस्वामिनीमेतद्विप्रप्रोक्तमबोधयत् । ततः स्वानुमतायातं वृद्धविप्रं यथोचितम् ॥ ६०३ ॥  
 प्रतिगृह्य 'कुतो वेतो गमिष्यसि कुतोऽथवा । इति तस्याः परिप्रश्ने पश्चाद्विह समागतः ॥ ६०४ ॥  
 पुनः पुरो गमिष्यामीत्याहासौ तच्छूतेर्जनः । पार्श्ववर्ती व्यधाद्दासं 'दारिकाया द्विजोऽपि तम् ॥ ६०५ ॥  
 न हास्यं कुरुतैव भो वार्धक्यं विपरीतताम् । उत्पादयति युष्माकं किं न भावीति सोऽवदत् ॥ ६०६ ॥  
 पुनः 'पुरः क्व गन्तव्यमिति तत्प्रत्युदीरणे । कन्यातीर्थपरिप्राप्तेर्यावचावद्गतमिमं ॥ ६०७ ॥  
 इति द्विजोदितं श्रुत्वा कायेन वयसाप्ययम् । वृद्धो न चेतसेत्येवं नर्मप्रायोकिपूर्वकम् ॥ ६०८ ॥  
 अग्रासने विधायैतं स्वयमभ्यवहृत्य सा । इदानीं भवतो यत्र वाञ्छा तत्राग्नौ गम्यताम् ॥ ६०९ ॥  
 इत्याह सोऽपि सुदुर्गतं त्वया भद्रे ममेति ताम् । प्रशंसन् प्रस्वलन् कृच्छ्रादुत्थायालम्ब्य यष्टिकाम् ॥ ६१० ॥  
 तदीयशयनारोहं व्यधादुक्त इवैतया । चेटिकास्तद्विलोक्यास्य पद्मय निर्लज्जतामिति ॥ ६११ ॥  
 हस्तावलम्बनेनैतं निराकर्तुं समुद्यताः । युष्माभिः सम्यगेवोक्तं लज्जा स्त्रीविषयैव सा ॥ ६१२ ॥  
 न पुंसु यदि तत्रास्ति लज्जा साधारणी भवेत् । ततः स्त्रीभिः कथं पुंसां सङ्गोऽनङ्गसंस्कृतः ॥ ६१३ ॥  
 इति वृद्धोक्तिमाकर्ण्य ब्राह्मणोऽयं न केवलः । कोऽपि रूपपरावृत्तिविधया 'समुपागतः ॥ ६१४ ॥  
 इत्याकलय्य को दोषो विप्रः प्राधूर्णिको मम । तिष्ठत्वत्रेति तच्छेटिका निवारयति स्म सा ॥ ६१५ ॥  
 तन्निशावसितौ शुद्धदेशजस्वरभेदवित् । गीतवान्मधुरं वृद्धश्चिरं श्रोत्रमनोहरम् ॥ ६१६ ॥  
 गन्धर्वदासकल्याणकाले सालङ्कृत्य कलम् । जीवन्धरकुमारस्य गीतं वैतच्छूतेः सुखम् ॥ ६१७ ॥

घरकी ओर चल पड़ा । वहाँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उससे कहा कि तुम अपनी मालकिनसे कहो कि द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है ॥ ६००-६०२ ॥ दासीने भी अपनी मालकिनको ब्राह्मणकी कही हुई बात समझा दी । गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस वृद्ध ब्राह्मणका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि 'आप कहाँसे आये हैं और यहाँसे कहाँ जावेंगे ?' गुणमालाके इस प्रश्नके उत्तरमें उसने कहा कि 'यहाँ पीछेसे आया हूँ और आगे जाऊँगा' । ब्राह्मणकी बात सुनकर कन्या गुणमालाके समीपवर्ती लोग हँसने लगे । यह देख, ब्राह्मणने भी उनसे कहा कि इस तरह आप लोग हँसी न करें बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा ? ॥ ६०३-६०६ ॥ तदनन्तर उन लोगोंने फिर पूछा कि आप आगे कहाँ जावेंगे ? ब्राह्मणने कहा कि जबतक कन्या तीर्थकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी तबतक मेरा गमन होता रहेगा ॥ ६०७ ॥ इस प्रकार ब्राह्मणका कहा उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कहा कि यह शरीर और अवस्थासे बूढ़ा है, मनसे बूढ़ा नहीं है । तदनन्तर गुणमालाने उसे अग्र आसन पर बैठाकर स्वयं भोजन कराया और फिर कहा कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ शीघ्र ही जाइये ॥ ६०८-६०९ ॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि हे भद्र ! तूने ठीक कहा' इस तरह उसकी प्रशंसा करता और उगमगाता हुआ वह ब्राह्मण लाठी टेक कर बड़ी कठिनाईसे उठा और उसकी शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी आज्ञा ही दे दी हो । यह देख, दासियों कहने लगीं कि इसकी निर्लज्जता देखो । वे हाथ पकड़ कर उसे शय्यासे दूर करनेके लिए उद्यत हो गईं । तब ब्राह्मणने कहा कि आप लोगोंने ठीक ही तो कहा है, यथार्थमें लज्जा स्त्रियोंमें ही होती है पुरुषोंमें नहीं, यदि उनमें भी स्त्रियोंके समान ही लज्जा होने लगे तो फिर स्त्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ? ॥ ६१०-६१३ ॥ इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल ब्राह्मण ही नहीं है किन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा रूप बदल कर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है । ऐसा विचार कर उसने दासियोंको रोक दिया और उस ब्राह्मणसे कहा कि क्या दोष है ? आप मेरे पाहुने हैं अतः इस शय्यापर बैठिये ॥ ६१४-६१५ ॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेदोंको जाननेवाले उस वृद्ध ब्राह्मणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनको हरण करनेवाले मधुर गीत गायें । गन्धर्वदासके विवाहके समय जीवन्धर कुमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गायें थे उन्हें सुन-

इति प्रातः समुत्थाय विनयेनोपसृत्य तम् । साप्राक्षीकेषु शास्त्रेषु प्रबोधो भवतामिति ॥ ६१८ ॥  
 धर्मार्थकामशास्त्राणि भूयोऽभ्यस्तानि यत्नतः । तेषु धर्मार्थयोः कामशास्त्रात्फलविनिश्चयः ॥ ६१९ ॥  
 कथं तदिति चेत्किञ्चिन्मया तत्र निरूप्यते । पञ्चेन्द्रियाणि तेषाञ्च विषयाः पञ्चधा स्मृताः ॥ ६२० ॥  
 स्पर्शावयोऽष्टधा स्पर्शाः कर्कशाद्याः श्रुतोदिताः । रसोऽपि षड्विधः प्रोक्तो मधुरादिर्मनीषिभिः ॥ ६२१ ॥  
 कृतकः सहजश्चेति गन्धोऽपि द्विविधो मतः । सर्वैः सुगन्धदुर्गन्धचेतनेतरवस्तुगः ॥ ६२२ ॥  
 रूपं पञ्चविधं श्वेतकृष्णादिप्रविभागभाक् । षड्जादयः स्वराः सप्त जीवाजीवसमुद्भवाः ॥ ६२३ ॥  
 इत्यष्टाविंशतिर्भूत्वा द्वैगुण्यं पुनरागताः । इष्टानिष्टविकल्पाभ्यां षट्पञ्चाशद्विकल्पनाः ॥ ६२४ ॥  
 तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धर्मतः । निषिद्धविषयत्यागो धर्मः सन्निरुदाहृतः ॥ ६२५ ॥  
 निषिद्धविषयास्तस्मात्परिहृत्य विचक्षणाः । शेषाननुभवन्तोऽत्र कामशास्त्रविदो मताः ॥ ६२६ ॥  
 त्वयानुभूयमानेषु दोषाः सन्तीह केषुचित् । इति तेनोदितं श्रुत्वा तद्दोषविनिवृत्तये ॥ ६२७ ॥  
 त्वयोपदेशः कर्तव्यो यास्यामि तव शिष्यताम् । इत्युदीर्णवतीं विप्रस्तां न्यनैषीत्कलादिषु ॥ ६२८ ॥  
 सर्वे ते पुनरन्येद्युर्विहर्तुं वनभागमन् । स्थितस्तत्रायमेकान्तप्रदेशे गुणमालया ॥ ६२९ ॥  
 सह स्वाभाविकं रूपमात्मनः समदर्शयत् । कन्या इष्टाय तं जातसंशया सन्नपा सती ॥ ६३० ॥  
 मौनेनावस्थिता वीक्ष्य तामेष प्राक्नोकिभिः । चूर्णवासादिजाताभिः प्रत्याययद्विद्रुतम् ॥ ६३१ ॥  
 पुनः प्राक्तनरूपस्थः पुष्पशय्यामधिष्ठितः । क्रुह मत्पदसंचाहमिति प्रेषयति स्म ताम् ॥ ६३२ ॥

कर गुणमालाको जैसा सुख हुआ था वैसा ही सुख इस वृद्धके गीत सुनकर हुआ । सबेरा होनपर गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान है ? ॥ ६१६-६१८ ॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि मैंने बड़े यत्नसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्रका बार-बार अभ्यास किया है । उनमें धर्म और अर्थके फलका निश्चय कामशास्त्रसे ही होता है । वह किस प्रकार होता है ? यदि यह जानना चाहती हो तो मैं इसका कुछ निरूपण करता हूँ । इन्द्रियों पाँच हैं और उनके स्पर्श आदि विषय भी पाँच ही हैं । उनमेंसे स्पर्शके कर्कश आदि आठ भेद शास्त्रोंमें कहे गये हैं । विद्वानोंने मधुर आदिके भेदसे रस भी छह प्रकारका कहा है । सुगन्ध और दुर्गन्ध रूप चेतन अचेतन वस्तुओंमें पाया जानेवाला सब तरहका गन्ध भी कृतक और सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है । श्वेत, कृष्ण आदिके भेदसे रूप पाँच तरहका कहा गया है और जीव तथा अजीवसे उत्पन्न हुए षड्ज आदि स्वर सात तरहके होते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अट्टाईस विषय होते हैं । इनमेंसे प्रत्येकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलाकर छप्पन हो जाते हैं ॥ ६१९-६२४ ॥ इनमें जो इष्ट विषय हैं वे पुण्य करने-वालोंको प्राप्त होते हैं, धर्मसे पुण्य होता है और निषिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सज्जनोंने धर्म कहा है ॥ ६२५ ॥ इसलिए जो बुद्धिमान् मनुष्य निषिद्ध विषयोंको छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते हैं वे ही इस लोकमें कामशास्त्रके जाननेवाले कहे जाते हैं ॥ ६२६ ॥ यह कहनेके बाद उस ब्राह्मणने गुणमालासे कहा कि तू जिन विषयोंका अनुभव करती है उनमेंसे कितनेमें ही अनेक दोष हैं । इस तरह ब्राह्मणका कहा सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए उपदेश कीजिये मैं आपकी शिष्या हो जाऊँगी । ऐसा कहनेपर उस ब्राह्मणने गुणमालाको कला आदिकी शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥ ६२७-६२८ ॥

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए वनमें गये थे । वहाँ जब वह एकान्त स्थानमें गुणमालाके साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया । उसे देखकर कन्याको संशय उत्पन्न हो गया और वह सती लज्जासहित चुप बैठ गई । यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित चूर्णसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथाएँ कह कर बहुत ही शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया ॥ ६२९-६३१ ॥ तदनन्तर वह उसी ब्राह्मणका रूप धारण कर पुष्पशय्यापर बैठ गया और गुणमाला भी



ताञ्च ज्ञेहेन तत्कर्म कुर्वती वीक्ष्य विस्मयात् । ते राजसुनवः सर्वे तन्मन्त्रादिकमस्मरन् ॥ ६३३ ॥  
 अथ तस्माद्गनाद्देहमागतो गुणमालया । मातुः पितृश्च जीवन्धरागतिः कथिता मिथः ॥ ६३४ ॥  
 विवाहविधिना तौ च तां तस्याकुस्तं प्रियाम् । दिनानि कानिचित्तन्न स्थित्वा जीवन्धरस्तया ॥ ६३५ ॥  
 सुखानि सह भुञ्जानः सर्वबन्धुसमन्वितः । जनप्रस्तूयमानोरुभाग्यो गन्धगजं गिरिम् ॥ ६३६ ॥  
 विजयादिं समारुह्य चतुरङ्गबलावृतः । गृहं गन्धोत्कटाख्यस्य प्राविशत्परमोदयः ॥ ६३७ ॥  
 तदुत्सवं समाकर्ण्य स काष्ठाङ्गारिकः क्रुधा । पद्मय वैश्यात्मजो मत्तो मनाक्च न विभेति मत् ॥ ६३८ ॥  
 इति प्रकाशकोपोऽभूत्तद्गीक्ष्य सचिवोचमाः । जीवन्धरकुमारोऽयं दैवादाविष्कृतोदयः ॥ ६३९ ॥  
 गन्धर्वदत्ताया साक्षाल्लक्ष्म्येव समुपाश्रितः । यक्षेण कृतसंबृद्धिमित्रेणान्यभिचारिणा ॥ ६४० ॥  
 मधुरादिसहायैश्च सहितो यत्ततो महान् । भवेद्यविक्रमस्तेन विप्रहो नैव गुज्यते ॥ ६४१ ॥  
 बलिना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विद्यते । इत्यादियुक्तिमद्वाग्भिस्तमाञ्छु समशीशमन् ॥ ६४२ ॥  
 हृदमन्यदितः किञ्चिद्वस्तुतं प्रतिपाद्यते । विदेहविषये ख्यातं विदेहाख्यं पुरं परम् ॥ ६४३ ॥  
 गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य पाता पातितविद्विषः । मुक्पृथिन्यादिसुन्दर्यां राश्यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥  
 चन्द्रकन्यधने दक्षं मालयालङ्कारोऽन्यहम् । नेच्छाम्यन्यं पतिं कञ्चिदकरोदिति सङ्गरम् ॥ ६४५ ॥  
 तज्ज्ञात्वास्याः पिता चापवेदवैद्यदितोदितः । जीवन्धरोऽथ तत्कन्यामिमाम् तत्सञ्चिधिं नये ॥ ६४६ ॥  
 इति राजपुरं गत्वा स्रकन्यः सहसाधनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधिं प्रति ॥ ६४७ ॥  
 तद्घोषणां समाकर्ण्य सर्वे भूलेचरेश्वराः । कन्यापरिग्रहायायान्मंशु राजपुरं प्रति ॥ ६४८ ॥

स्नेह वशा उसके पैर दावने लगी। यह देख, वे सब राजकुमार। आश्चर्यमें पड़ कर ब्राह्मणके मन्त्र आदिकी स्तुति करने लगे ॥ ६३२-६३३ ॥ इसके बाद ब्राह्मण-वेषधारी जीवन्धर कुमार वनसे अपने घर आ गये और गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीवन्धर कुमारके आनेका समाचार कह दिया ॥ ६३४ ॥ निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूर्वक विवाह कर उसे जीवन्धर कुमारकी प्रिया बना दी। इसके बाद वह जीवन्धर कुछ दिन तक वहीं पर गुणमालाके साथ रहा और सब भाई-बन्धुओंके साथ सुखका उपभोग करता रहा। तदनन्तर सब लोग जिनके बड़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे ऐसे, उल्लूक वैभवको धारण करनेवाले जीवन्धर कुमारने विजयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर चतुरङ्ग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्रवेश किया ॥ ६३५-६३६ ॥ इस उत्सवकी बात सुनकर काष्ठाङ्गारिक बहुत क्रुपित हुआ। वह कहने लगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वैश्यका लड़का मुझसे कुछ भी नहीं करता है। इस प्रकार कहकर वह प्रकट रीतिसे क्रोध करने लगा। यह देख, श्रेष्ठ मंत्रियोंने उसे समझाया कि ये जीवन्धर कुमार हैं, पुण्यके उदयसे इन्हें अभ्युदयकी प्राप्ति हुई है, साक्षात् लक्ष्मीके समान गन्धर्वदत्तासे सहित हैं, यक्ष रूपी अखण्ड मित्रने इनकी वृद्धि की है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित हैं अतः महान् हैं और अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ द्वेष करना योग्य नहीं है। फिर बलवान्के साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है। इत्यादि युक्ति-पूर्ण वचनोंके द्वारा मन्त्रियोंने काष्ठाङ्गारिकको शीघ्र ही शान्त कर दिया ॥ ६३७-६४३ ॥

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि अब इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कथा और कहता हूँ। विदेह देशमें एक विदेह नामका प्रसिद्ध नगर है। राजा गोपेन्द्र उसकी रक्षा करते हैं, शत्रुओंको नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम पृथिवी सुन्दरी है और उन दोनोंके एक रत्नवती नामकी कन्या है। रत्नवतीने प्रतिज्ञा की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अलंकृत करूँगी—अन्य किसी पुरुषको अपना पति नहीं बनाऊँगी। कन्याकी ऐसी प्रतिज्ञा जानकर उसके पिताने विचार किया कि इस समय धनुर्वेदको जाननेवाले और अतिशय ऐश्वर्यशाली जीवन्धर कुमार ही हैं अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ। ऐसा विचार कर वह राजा कन्याको साथ लेकर अपनी सब सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्वयंवर विधिकी घोषणा करा दी ॥ ६४४-६४७ ॥ उस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी और विद्याधर

स्वयंवरविधौ तस्मिन्क्षेत्रकन्यधने नृपान् । स्वलितास्ताम्बहून्वीक्ष्य जीवन्धरकुमारकः ॥ ६४९ ॥  
 कृतसिद्धनमस्कारः स्वगुरोश्चार्यवर्मणः । विधाय विनयं कालभानुर्वोदयशैलगतः ॥ ६५० ॥  
 स्थित्वा विभास्वरस्तस्मिन्क्षेत्रे स्वखलनवर्जितम् । कृतवेधो व्यधात्सिंहनादं नादितदिकटम् ॥ ६५१ ॥  
 साधु विद्धमनेनेति प्राशंसन् प्राशिकास्तदा । कण्ठे मालां कुमारस्य सा समासक्षयन्मुदा ॥ ६५२ ॥  
 साधवस्तत्र योग्योऽयमनयोर्ननु सङ्गमः । शरत्समयहंसाल्योरिवेति प्रीतिमागताः ॥ ६५३ ॥  
 सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापन्ना मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६५४ ॥  
 काष्ठाङ्गारिकमुख्यास्ते नीचा प्राप्तपराभवाः । प्राक्तस्मात्तदनुस्मृत्य दुष्प्रकोपप्रचोदिताः ॥ ६५५ ॥  
 पापास्तुमुल्लयुद्धेन कन्यामाहर्तुमुद्यताः । बुध्वा जीवन्धरस्तेषां वैषम्यं नयकोविदः ॥ ६५६ ॥  
 सत्यन्धरमहाराजसामन्ताद्यन्तिकं तदा । प्राहिणोदिति सन्दिष्टान् दूतान् सोपायनान् बहून् ॥ ६५७ ॥  
 अहं सत्यन्धराधीशाद्विजयायां सुतोऽभवम् । मत्पूर्वकृतदैवेन ताभ्यामुत्पत्स्यनन्तरम् ॥ ६५८ ॥  
 वियुक्तोऽस्मि वणिग्वर्यशरणे समवधिषि । काष्ठाङ्गारिकपापोऽयं काष्ठाङ्गारादिविक्रमात् ॥ ६५९ ॥  
 प्राणसन्धारणं कुर्वन्त्युष्मदुर्वीभृता कृतः । द्वितीयप्रकृतिर्नीचो लब्धरन्ध्रो दुराशयः ॥ ६६० ॥  
 तमेवाहिरिवाहस्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छेद्यो न ममैवाशु शत्रुत्वाद्भवतामपि ॥ ६६१ ॥  
 रसातलं गतोऽप्यथ मयावश्यं हनिष्यते । सत्यन्धरमहीशस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥  
 यौधाः पुष्टा महामात्रास्तेनान्ये चानुजीविनः । कृतघ्नममुमुच्छेत्तुमर्हन्ति कृतवेदिनः ॥ ६६३ ॥

राजा उस कन्याके साथ विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥ ६४८ ॥ स्वयंवरके समय उस चन्द्रक यन्त्रके वेधनेमें अनेक राजा स्खलित हो गये-चूक गये । उन्हें देख, जीवन्धर कुमार उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर अपने गुरु आर्यवर्माकी विनय की और फिर जिस प्रकार बालसूर्य उदयाचलकी शिखरपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस चक्र पर आरूढ़ हो गये । उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी भूलके चन्द्रक-यन्त्रका वेध कर दिया । और दिशाओंके तट तक गूँजनेवाला सिंहनाद किया ॥ ६४९-६५१ ॥ उसी समय धनुष विद्याके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने अच्छा निशाना मारा और कन्या रत्नघतीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहिनाई ॥ ६५२ ॥ उस सभामे जो सज्जन पुरुष विद्यमान थे वे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार शरद ऋतु और हंसावलीका समागम योग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोंका समागम भी योग्य हुआ है ॥ ६५३ ॥ जो बुद्धिमान् मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी विजय होती ही है इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ॥ ६५४ ॥ और जो काष्ठाङ्गारिक आदि नीच मनुष्य थे वे जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट क्रोधसे प्रेरित हो रहे थे । वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे । नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विषमता जान ली जिससे उन्होंने उसी समय भेंट लेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुतसे दूत सत्यन्धर महाराजके सामन्तोंके पास भेजे ॥ ६५५-६५७ ॥ 'मैं सत्यन्धर महाराजकी विजया रानीसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ । अपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे मैं उत्पन्न होनेके बाद ही अपने माता-पितासे वियुक्त होकर गन्धोत्कट सेठके घरमें वृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ । यह पापी काष्ठाङ्गारिक काष्ठाङ्गार ( कोयला ) बेचकर अपनी आजीविका करता था परन्तु आपके महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था । यह राजसी प्रकृति अत्यन्त नीच पुरुष है । छिद्र पाकर इस दुराशगने साँपकी तरह उन्हें मार दिया और स्वयं उनके राज्य पर आरूढ़ हो गया । यह न केवल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य है परन्तु शत्रु होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है । यदि आज यह रसातलमें भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायगा । आप लोग सत्यन्धर महाराजके सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं और कृतज्ञ हैं इसलिए आप तथा अन्य अनुजीवी लोग इस कृतघ्नको अवश्य ही नष्ट करें ॥ ६५८-६६३ ॥

ते तत्सन्देशमाकर्ण्य कुमारोऽथ नृपाल्मजः । सत्यमेवेति सम्भाष्य बहवस्तेन सङ्गताः ॥ ६६४ ॥  
 ततः सङ्गदसैन्यः संस्तस्य गत्वोपरि स्वयम् । युध्वा नानाप्रकारेण चिरं निजित्य तद्वलम् ॥ ६६५ ॥  
 गिर्यन्तविजयं गन्धगजं समदमूर्जितम् । समारूढः प्ररूढार्शं काष्ठाङ्गारिकमुद्धतम् ॥ ६६६ ॥  
 उपर्यशनिवेगाख्यविव्यातकरिणः स्थितम् । हत्वा चकार चक्रेण तनुशेषं रुषा द्विषम् ॥ ६६७ ॥  
 विलोक्य तद्वले भङ्गं भयादुपगतं सति । तदाकार्षीत्समाश्रासं विधायाभयघोषणाम् ॥ ६६८ ॥  
 बन्धून्सर्वान् समाहूय विनेयानवलोक्य तान् । तत्कालोचितसम्भाषणादिभिः ह्लादमानयत् ॥ ६६९ ॥  
 जिनपूजां विनिर्वृत्य कृतमङ्गलसक्रियः । यक्षेण भूभुजैः सर्वैश्चासुराज्याभिषेचनः ॥ ६७० ॥  
 रत्नवत्या च सम्प्राप्य स विवाहमहोत्सवम् । कृत्वा गन्धर्वदत्ताया महत्याः पट्टबन्धनम् ॥ ६७१ ॥  
 नन्दाढ्यादिसमानीतमातृजायादिभिर्युतः । सम्प्राप्य परमैश्वर्यमूर्जितो निजितद्विषः ॥ ६७२ ॥  
 यथान्यायं प्रजाः सर्वाः पालयन्हेलयेप्सितान् । लीलयातुभवन् भोगान् स्वपुण्यफलितान् स्थितः ॥ ६७३ ॥  
 सुरादिमलयोद्याने कदाचिद्विहरन् विभुः । वरधर्मयतिं दृष्ट्वा सम्प्राप्य विहितानतिः ॥ ६७४ ॥  
 ततस्तत्त्वं विदित्वात्प्रतोऽभूद्दर्शनेऽमलः । नन्दाढ्याद्याश्च सम्यक्त्वव्रतशीलान्युपागमन् ॥ ६७५ ॥  
 पतैः सुखमसौ स्वाहैः साकं कालमजीगमत् । अथाशोकवनेऽन्येषुर्धुध्यमानं परस्परम् ॥ ६७६ ॥  
 कपीनां यूथमालोक्य ज्वलत्क्रोधदुःखताशनम् । जातसंसारनिर्वैगस्तस्मिन्नेव वनान्तरे ॥ ६७७ ॥  
 प्रशस्तवङ्कनामानं चारणं वीक्ष्य सादरम् । पूर्वश्रुतानुसारेण श्रुतात्मभवसन्ततिः ॥ ६७८ ॥

सामन्त लोग जीवन्धर कुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र है । इस तरह सन्मान कर बहुतसे सामन्त उनके साथ आ मिले ॥ ६६४ ॥ तदनन्तर—अपनी सेना तैयार कर जीवन्धर कुमारने स्वयं ही उस पर चढ़ाई की और चिरकाल तक नाना प्रकारका युद्ध कर उसकी सेनाको हरा दिया ॥ ६६५ ॥ जीवन्धर कुमार, मदोन्मत्त तथा अतिशय बलवान् विजयगिरि नामक हाथी पर सवार थे और जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई थी ऐसी उद्धत काष्ठाङ्गारिक अशनिवेग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ़ था । जीवन्धर कुमारने क्रोधमें आकर चक्रसे शत्रु काष्ठाङ्गारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तब जीवन्धर कुमारने अभय घोषणा कर सबको आश्रासन दिया ॥ ६६६-६६८ ॥ तदनन्तर कुमारने अपने सब भाई-बन्धुओंको बुलाया और सबको नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण आदिके द्वारा सबको हर्ष प्राप्त कराया ॥ ६६९ ॥ इसके बाद जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर उत्तम माङ्गलिक क्रियाएँ की गईं और फिर यक्ष तथा सब राजाओंने मिलकर जीवन्धर कुमारका राष्याभिषेक किया । तदनन्तर रत्नवतीके साथ विवाहका महोत्सव प्राप्त कर गन्धर्वदत्ताको महारानीका पट्टबन्ध बाँधा ॥ ६७०-६७१ ॥ नन्दाढ्य आदि जाकर माता विजयाको तथा हेमाभा आदि अन्य स्त्रियोंको ले आये । उन सबके साथ जीवन्धर कुमार परम ऐश्वर्यको प्राप्त हुए । उस समय वे अतिशय बलवान् थे और जिसके समस्त शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाका नीतिपूर्वक पालन करते थे । अपने पुण्यके फल-स्वरूप अनायास ही प्राप्त हुए इष्ट भोगोंका लीलापूर्वक उपभोग करते हुए सुखसे रहते थे ॥ ६७२-६७३ ॥ किसी एक समय महाराज जीवन्धर सुरमलय नामक उद्यानमें विहार कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने वरधर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वोंका स्वरूप जाना और व्रत लेकर सम्यग्दर्शनको निर्मल किया । नन्दाढ्य आदि भाइयोंने भी सम्यग्दर्शन व्रत और शील धारण किये । इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन प्राप्त जनोंके साथ सुखसे समय बिताने लगे । तदनन्तर वे किसी एक दिन अशोक वनमें गये वहाँ पर जिनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी ऐसे दो बन्दरोंके भुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये । उसी वनके मध्यमें एक प्रशस्तवङ्क नामके चारण मुनि विराजमान थे इसलिए जीवन्धर महाराजने बड़े आदरसे उनके दर्शन किये और पहले सुने अनुसार अपने पूर्वजोंकी परम्परा सुनी ॥ ६७४-६७८ ॥

जिनपूजां विधायाजु वर्धमानविशुद्धिकः । सुरादिमलयोधानायान् वीरजिनेक्षितुः ॥ ६७९ ॥  
 भ्रुत्वा विभूतिमद्रत्वा सम्पूज्य परमेश्वरम् । महादेवीतनूजाय दत्त्वा राज्यं यथाविधि ॥ ६८० ॥  
 वसुन्धरकुमारारय वीतमोहो महामनाः । मातुलादिमहीपालैर्नन्दाढ्यमधुरादिभिः ॥ ६८१ ॥  
 सर्वसङ्गपरित्यागात्संयमं प्रत्यपद्यत । भुक्तभोगा हि निष्काल्क्षा भवन्ति भुवनेश्वराः ॥ ६८२ ॥  
 सत्यन्धरमहादेव्या सहाष्टौ सद्दशः क्षुधाः । सद्यो गन्धर्वदत्ताद्यास्तासामपि च मातरः ॥ ६८३ ॥  
 समीपे चन्दनार्याया जगृहुः संयमं परम् । महानेकोऽभवद्धेतुर्बहूनामर्थसिद्धये ॥ ६८४ ॥  
 भवता परिपृष्टोऽयं जीवन्धरमुनीश्वरः । महीयान् सुतपा राजन् सम्प्रति श्रुतकेवली ॥ ६८५ ॥  
 घातिकर्माणि विध्वंस्य जनिस्त्वा गृहकेवली । सार्धं विहृत्य तीर्थेशा तस्मिन्मुक्तिमधिष्ठिते ॥ ६८६ ॥  
 विपुलाद्रौ हताशेषकर्मा शर्माप्रमेष्यति । द्रष्टाष्टगुणसम्पूर्णो निष्ठितात्मा निरञ्जनः ॥ ६८७ ॥  
 इत्याकर्ण्य सुधर्माख्यगणभृद्रचनामृतम् । प्रीतवान् श्रेणिकः कस्य न धर्मः प्रीतये भवेत् ॥ ६८८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अन्यैर्यः समवाप पूर्वसुकृतात्कन्याप्टकं दुर्लभं

यः शत्रुं पितृघातिर्न रणमुखे लोकान्तरं प्रापयत् ।

यः प्रमज्ज्य विभिन्नकर्मतिमिरोऽभासिष्ट मुक्तिश्रिया

तं वन्दे मुकुलीकृताञ्जलिर्हं जीवन्धरं श्रीवहम् ॥ ६८९ ॥

### वसन्सतिलका

विश्लेष्य षोडशदिनानि स मन्दसान-

शावं विहाय करुणां विमतिः पितृभ्याम् ।

तदनन्तर उन्होंने जिन-पूजाकर अपनी विशुद्धता बढ़ाई फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री वीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते ही बड़े वैभवके साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी पूजा की और गन्धर्वदत्ता महादेवीके पुत्र वसुन्धर कुमारके लिये विधिपूर्वक राज्य दिया। जिनका मोह शान्त हो गया है और जिनका मन अतिशय विशाल है ऐसे उन जीवन्धर महाराजने अपने मामा आदि राजाओं और नन्दाढ्य मधुर आदि भाइयोंके साथ सर्वे परिग्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो राजा लोग भोग भोग चुकते हैं वे अन्तमें आकांक्षा रहित हो ही जाते हैं ॥ ६७९-६८२ ॥ सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ता आदि आठों रानियोंने तथा उन रानियोंकी माताओंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्दना आर्याके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि एक ही बड़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥ ६८३-६८४ ॥ सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्! तूने जिनके विषयमें पूछा था वे यही जीवन्धर मुनिराज हैं, ये बड़े तपस्वी हैं और इस समय श्रुतकेवली हैं। घातिया कर्मोंको नष्ट कर ये अनगरकेवली होंगे और श्री महावीर भगवान्के साथ विहार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुलाचल पर्वत पर समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोक्षका उत्कृष्ट सुख प्राप्त करेंगे—वहाँ ये अष्टगुणोंसे सम्पूर्ण, कृतकृत्य और निरञ्जन—कर्म-कालिमासे रहित हो जावेंगे ॥ ६८५-६८७ ॥ इस प्रकार सुधर्माचार्य गणधरके वचनामृतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि धर्म किसकी प्रीतिके लिए नहीं होता ? ॥ ६८८ ॥ जिन्होंने पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे अन्य लोगोंको दुर्लभ आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करने वाले शत्रुको युद्धमें परलोक पहुँचाया, जिन्होंने दीक्षा लेकर कर्म रूपी अन्धकारको नष्ट किया और जो मुक्ति रूपी लक्ष्मीसे सुशोभित हुए ऐसे लक्ष्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीको मैं हाथ जोड़कर

सम्प्राप्य षोडशसप्ताः ३ स्वसनाभिभेदं

जीवन्धरः कुरुत तद्दुरितं न भव्याः ॥ ६९० ॥

### मालिनी

क र पितृपृष्ट्युः क श्मशाने प्रसूति-

वर्णिगुपगमनं क क स्वयक्षोपकारः ।

क तदुदयविधानं शत्रुवातः क चित्रम्

विधिविलसितमेतत्पश्य जीवन्धरेऽस्मिन् ॥ ६९१ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्दनार्थिका-  
जीवन्धरचरितं नाम पञ्चसप्ततितमं पर्व ॥ ७५ ॥

—:ॐ०ॐ:—

नमस्कार करता हूँ ॥ ६८६ ॥ जीवन्धर कुमारने पूर्वभवमें मूर्खतासे दयाको दूर कर हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे अलग रक्खा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अतः हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ॥ ६९० ॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा सत्यन्धरकी मृत्यु, कहाँ श्मशानमें जन्म लेना, कहाँ वैश्यके घर जाकर पलना, कहाँ अपने द्वारा यज्ञका उपकार होना, कहाँ वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहाँ शत्रुका घात करना । इन जीवन्धर महाराजमें ही यह विचित्र कर्मोंका विपाक है ॥ ६९१ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें चन्दना आर्थिका और जीवन्धर स्वामीका चरित वर्णन करनेवाला यह पचहत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

—:ॐ०ॐ:—

## षट्सप्ततितमं पर्व

अथान्येषुर्भद्रावीरः सुरासुरपरिष्कृतः । विहृत्य विविधान् देशान् पुनस्तत्पुरमागतः ॥ १ ॥  
 गणैर्द्वादशभिः पूज्यः स्थितः स विपुलाचले । गच्छंस्तं श्रेणिकः स्तोतुं वृक्षमूलशिलातले ॥ २ ॥  
 मुनिं धर्मरुचिं नाम्ना निस्तरङ्गमिवोदधिम् । प्रदीपमिव निष्कम्पं साग्धुं वाम्भोदमुन्नतम् ॥ ३ ॥  
 जितेन्द्रियसमाहारं पर्यङ्कविहितासनम् । ईषश्चिरुद्धनिःश्वासं मनाङ्गुलीकृतलोचनम् ॥ ४ ॥  
 ध्यायन्तं वीक्ष्य वन्दित्वा साशङ्कान् विकृताननात् । ततो गत्वा भिनं प्राप्य स्तुरवा मुकुलिताक्षलिः ॥ ५ ॥  
 गौतमञ्च मया दृष्टः कश्चिदेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद्रूपेण व्यवस्थिता ॥ ६ ॥  
 स को मे कौतुकं तस्मिन् ब्रूहि नाथेत्यभाषत । अनुयुक्तो गणी तेन प्रोवाच वचसां पतिः ॥ ७ ॥  
 अस्यत्र विषयोऽङ्गाख्यः सङ्गतः सर्ववस्तुभिः । नगरी तत्र चम्पाख्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं जिनादस्मान्निर्वैगाहिताशयः । राज्यभारं समारोप्य सुते विमलवाहने ॥ ९ ॥  
 संयमं बहुभिः सार्धमनैव प्रतिपन्नवान् । चिरं मुनिगणैः सार्कं विहृत्वाखण्डसंयमः ॥ १० ॥  
 धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्वप्यनिशं जनैः । प्राप्तधर्मरुचिख्यातिः सख्यं यत्सर्वजन्तुषु ॥ ११ ॥  
 अथ मासोपवासान्ते भिक्षार्थं प्राविशत्पुरम् । पुरुषाः संहतास्तत्र तत्समीपमिताख्यः ॥ १२ ॥  
 नरलक्षणशास्त्रज्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य तं मुनिम् । लक्षणान्यस्य साम्राज्यपदवीप्राप्तिहेतवः ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सुर-असुरोंसे धिरे हुए भगवान् महावीर अनेक देशोंमें विहार कर किसी दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे ॥ १ ॥ बारह सभाओंसे पूज्य वे भगवान् विपुलाचल पर्वत पर विराजमान हुए । राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक वृक्षके नीचे शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा । वे मुनिराज निस्तरङ्ग समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे और जल सहित मेघके समान उन्नत थे, उन्होंने इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यङ्कासनसे विराजमान थे, आसोच्छ्वासको उन्होंने थोड़ा रोक रक्खा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे ॥ २-४ ॥ इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर श्रेणिकने उनकी वन्दना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिकको कुछ शङ्का उत्पन्न हो गई । वहाँसे चलकर वह भगवान् महावीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा । वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो ! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात् ध्यान ही विराजमान हो । हे नाथ ! वे कौन हैं ? यह जाननेका मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है सो कृपा कर कहिये । इस प्रकार राजा श्रेणिकके द्वारा पूछे जाने पर वचनोंके स्वामी श्रीगणधर भगवान् इस प्रकार कहने लगे ॥ ५-७ ॥

इसी भरत क्षेत्रके अङ्ग देशमें सर्व वस्तुओंसे सहित एक चम्पा नामकी नगरी है । उसमें राजा श्वेतवाहन राज्य करता था । इन्हीं भगवान् महावीर स्वामीसे धर्मका स्वरूप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर बहुत लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया । बहुत दिन तक मुनियोंके समूहके साथ विहारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आ विराजमान हुए हैं । ये दश धर्मोंमें सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगोंके द्वारा धर्मरुचिके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जो सर्व जीवोंमें होती है ॥ ८-११ ॥ आज ये मुनि एक महीनेके उपवासके बाद नगरमें भिक्षाके लिए गये थे वहाँ तीन मनुष्य मिलकर इनके पास आये । उनमें एक मनुष्य मनुष्योंके लक्षण शास्त्रका जानकार था, उसने इन मुनिराजको देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पदवीके कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके लिए भटकते फिरते हैं इसलिये शास्त्रमें जो कहा है वह

अट्येष च भिक्षायै शाक्योक्तं तन्मृषेत्यसौ । वदन्नभिहितोऽन्येन न मृषा शाक्यभाषितम् ॥ १४ ॥  
 त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽयमृषिः केनापि हेतुना । निर्विण्णस्तनये बाले निधाय व्यावृत्तिं निजाम् ॥ १५ ॥  
 एवं तपः करोतीति श्रुत्वा तद्वचनं परः । अवोचत्किमनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥ १६ ॥  
 दुरात्मनः कृपां हित्वा बालं तमसमर्थकम् । लोकसंभ्यवहारार्थं स्थापयित्वा धरातले ॥ १७ ॥  
 स्वयं स्वार्थं समुद्दिश्य तपः कर्तुमिहागतः । मन्त्रिप्रभृतिभिः सर्वैः कृत्वा तं शृङ्खलाबृत्तम् ॥ १८ ॥  
 राज्यं विभज्य तस्त्वैरं पापैस्तदनुभूयते । इति तद्वचनं श्रुत्वा ज्ञेहमानप्रचोदितः ॥ १९ ॥  
 अमुञ्जानः पुरादाशु निवृत्त्यैव वनान्तरे । वृक्षमूलं समाश्रित्य बाह्यकारणसन्निधौ ॥ २० ॥  
 अन्तःक्रोधकषायानुभागोप्रस्पर्धकोदयात् । संक्षेशाध्यवसानेन वर्धमानत्रिलेश्यकः ॥ २१ ॥  
 मन्व्यादिप्रतिकूलेषु हिंसाद्यलिलनिग्रहान् । ध्यायन् संरक्षणानन्दरौद्रध्यानं प्रविष्टवान् ॥ २२ ॥  
 अतः परं मुहूर्तं चेदेवमेव स्थितिं भजेत् । आयुषो नारकस्यापि प्रायोग्योऽयं भविष्यति ॥ २३ ॥  
 ततस्त्वयाशु सम्बोध्यो ध्यानमेतत्तज्जाशुभम् । शमय क्रोधदुर्वृद्धिं मोहजालं निराकुरु ॥ २४ ॥  
 गृहाण संयमं त्यक्तं पुनस्त्वं मुक्तिसाधनम् । दारदारकबन्धादिसम्बन्धनसम्बन्धुरम् ॥ २५ ॥  
 संसारवर्धनं साधो जह्नीहीत्येवमादिभिः । युक्तिमङ्गिर्वचोभिः सप्रत्यवस्थानमाप्तवान् ॥ २६ ॥  
 शुक्लध्यानाग्निनिर्वृग्धघातिकर्मघनाटविः । नवकेवललब्धधीद्विशुद्धभावो भविष्यति ॥ २७ ॥  
 इत्यसौ च गणाधीशवचनान्मगधाधिपः । गत्वा तदुक्तमार्गेण सद्यः प्रासादयन्मुनिम् ॥ २८ ॥  
 सोऽपि सम्प्राप्य सामग्रीं कषायक्षयक्षान्तिजाम् । द्वितीयशुक्लध्यानेन कैवल्यमुदपादयत् ॥ २९ ॥

भूठ मालूम होता है । इसके उत्तरमें दूसरे मनुष्यने कहा कि शाक्यमे जो कहा गया है वह भूठ नहीं है । ये साम्राज्य तन्त्रका त्यागकर ऋषि हो गये हैं । किसी कारणसे विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बालक-छोटे ही वयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है और स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रहे हैं । इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि 'इसका तप पापका कारण है अतः इससे क्या लाभ है ? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर लोक-व्यवहारसे अन्तर्भङ्ग असमर्थ बालकको राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करनेके लिए आया है । मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रक्खा है और राज्यका विभागकर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं' । तीसरे मनुष्य के उक्त वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह और मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बिना ही नगरसे लौटकर वनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बैठे हैं ॥ १२-२० ॥ बाह्य कारणोंके मिलनेसे उनके अन्तःकरणमें तीव्र अनुभागवाले क्रोध कषायके स्पर्धकोंका उदय हो रहा है । संक्लेशरूप परिणामोंसे उनके तीन अशुभलेश्याओंकी वृद्धि हो रही है । जो मन्त्री आदि प्रतिकूल हो गये हैं उनमें हिंसा आदि सर्व प्रकारके निग्रहोंका चिन्तन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौद्र ध्यानमें प्रविष्ट हो रहे हैं । यदि अब आगे अन्तर्मुहूर्त तक उनकी ऐसी ही स्थिति रही तो वे नरक आयुका बन्ध करनेके योग्य हो जावेंगे ॥ २१-२३ ॥ इसलिए हे श्रेणिक ! तू शीघ्र ही जाकर उसे समझा दे और कह दे कि हे साधो ! शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्निको शान्त करो, मोहके जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रक्खा है उसे फिरसे प्रदण करो, यह स्त्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोज्ञ है तथा संसारका बढ़ानेवाला है । इत्यादि युक्ति पूर्ण वचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर । तेरे उपदेशसे वे पुनः स्वरूपमें स्थित होकर शुक्ल ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया कर्मरूपी सघन अटवीको भस्म कर देंगे और नव केवललब्धियोंसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभावके धारक हो जावेंगे ॥ २४-२७ ॥ गणधर महाराजके उक्त वचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिके पास गया और उनके बताये हुए मार्गसे उन्हें प्रसन्न कर आया ॥ २८ ॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके भयसे उत्पन्न होनेवाली शान्तिसे उत्पन्न होनेवाली सामग्री प्राप्तकर द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥ २९ ॥

तदा पूजां समायातैः श्रेणिको वृत्रहादिभिः । सह धर्मरुचेः कृत्वा पुनर्वीरं समाश्रितः ॥ ३० ॥  
 भरते कोऽत्र पाश्रात्यः स्तुत्यः केवलवीक्षणः । इत्यप्राक्षीद्वृणी चैवं विवक्षुरभवादा ॥ ३१ ॥  
 ब्रह्मकल्पाधिपो ब्रह्महृदयाख्यविमानजः । विद्युन्माली ज्वलन्मौलिः प्रियस्वाद्युक्तिदर्शने ॥ ३२ ॥  
 विद्युदादिप्रभावेगो देव्यांऽन्याश्चास्य तद्वतः । जिनमागत्य वन्दित्वा यथास्थानमुपाविशत् ॥ ३३ ॥  
 तं निरूप्य परिच्छेदोऽनेन स्यात्केवलद्युतः । तत्कथञ्चेद्विष्यामि दिनेऽस्मात्सप्तमे दिनात् ॥ ३४ ॥  
 ब्रह्मेन्द्रोऽर्थं दिवोऽभ्येत्य पुरेऽस्मिन्नेव धारणम् । सरः शालिवनं निर्धूमानलं प्रज्वलच्छिखम् ॥ ३५ ॥  
 द्युक्कुमारसमानीयमानजम्बूफलानि च । स्वप्नानेतान् पुरः कुर्वन्नर्हद्वासामिधानकात् ॥ ३६ ॥  
 इभ्यास्कृती सुतो भावी जिनदास्यां महाद्युतिः । जम्बूवाख्योऽनावृताद्देवादासपूजोऽतिविश्रतः ॥ ३७ ॥  
 विनीतो यौवनारम्भेऽप्यनाविष्कृतविक्रियः । वीरः पावापुरे तस्मिन् काले प्राप्स्यति निर्धूतिम् ॥ ३८ ॥  
 तदैवाहमपि प्राप्य बोधं केवलसम्पन्नम् । सुधर्माख्यगणेशेन सार्धं संसारवह्निना ॥ ३९ ॥  
 करिष्यन्नतितप्तानां ह्लादं धर्माभृताम्बुना । इदमेव पुरं भूयः सम्प्राप्यात्रैव भूधरे ॥ ४० ॥  
 स्थास्याग्न्येतत्समाकर्ण्य कुणिकश्चेलिनीसुतः । तत्पुराधिपतिः सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४१ ॥  
 भागत्याभ्यर्च्य वन्दित्वा श्रुत्वा धर्मं ग्रहीष्यति । दानशीलोपवासादि साधनं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ४२ ॥  
 जम्बूनामपि निर्वेदात्प्रज्याग्रहणोत्सुकः । सहैवाल्पेषु वर्षेषु व्यतीतेषु वयं त्वया ॥ ४३ ॥  
 सर्वे दीक्षां ग्रहीष्याम इति बन्धुजनोदितम् । सोऽशक्नुवन्निराकर्तुमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥  
 मोहं विधित्सुभिस्तस्य बन्धुभिः सुखबन्धनः । आरप्स्यते विवाहस्तैः श्रेयो विद्वा हि बन्धवः ॥ ४५ ॥

उसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिकने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की और फिर वह भगवान् वीरनाथके पास आया ॥ ३० ॥ आते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवलज्ञानी कौन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ देदीप्यमान मुकुटका धारक विद्युन्माली नामका ब्रह्मस्वर्गका इन्द्र आ पहुँचा, वह इन्द्र ब्रह्महृदय नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, प्रियदर्शना, सुदर्शना, विद्युद्वेगा और प्रभावेगा ये चार उसकी देवियाँ थीं, उन सभीके साथ वह वहाँ आया था । आकर उसने जिनन्द्र भगवान्की वन्दना की । तदनन्तर यथास्थान बैठ गया । उसकी ओर दृष्टिपातकर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवलज्ञानका विच्छेद हो जायगा अर्थात् इसके बाद फिर कोई केवलज्ञानी नहीं होगा । वह किस प्रकार होगा यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुन । आजसे सातवें दिन यह ब्रह्मेन्द्र, स्वर्गसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अर्हद्वासकी स्त्री जिनदासीके गर्भमें आवेगा । गर्भमें आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी—हाथी, सरोवर, चाबलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है ऐसी धूम रहित अग्नि और देव-कुमारोंके द्वारा लाये हुए जासुनके फल । यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कान्तिमान् होगा, जम्बूकुमार इसका नाम होगा, अनावृत देव उसकी पूजा करेगा, वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, और यौवनके प्रारम्भसे ही वह विकारसे रहित होगा । जिस समय भगवान् महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान प्राप्त होगा । तदनन्तर सुधर्माचार्य गणधरके साथ संसार रूपी अग्निसे संतप्त हुए पुरुषोंको धर्माभृत रूपी जलसे आनन्दित करता हुआ मैं फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊँगा । मेरे आनेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा और पूजा वन्दना कर तथा धर्मका स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मोक्षका साधनभूत दान, शीलपवासा आदि धारण करेगा ॥ ३१-४२ ॥ उसी समय जम्बूकुमार भी विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए उत्सुक होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समझावेंगे कि थोड़े ही वर्षोंके व्यतीत होनेपर हम लोग भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे । भाई-बन्धुओंके इस कथनको वह टाल नहीं सकेगा और उस समय पुनः नगरमें वापिस आ जावेगा । तदनन्तर भाई-बन्धु लोग उसे मोहमें



सुता सागरदत्तस्य पद्मावत्यां सुलक्षणा । पद्मश्रीरपरा श्रीर्वा कनकश्रीः शुभेक्षणा ॥ ४६ ॥  
 सुता कुबेरदत्तस्य जाता कनकमालया । वीक्ष्या विनयवत्याश्च या वैश्रवणदराजा ॥ ४७ ॥  
 विनयश्री रैदरास्य रूपश्रीश्च धनश्रियः । आभिः सागरदत्तादिपुत्रिकाभिर्यथाविधि ॥ ४८ ॥  
 सौभाग्ये निरस्तान्धकारे सम्मणिदीप्तिभिः । विचित्ररत्नसम्पूर्णरङ्गवल्लीविभूषिते ॥ ४९ ॥  
 नानासुरभिपुण्योपहाराब्धे जगतीतले । स्थास्यत्यासविवाहोऽर्थं पाणिग्रहणपूर्वकम् ॥ ५० ॥  
 सुतो ममार्यं रागेण प्रेरितो विकृतिं भजन् । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिमान्किं भवेन्न वा ॥ ५१ ॥  
 इत्यात्मानं तिरोधाय पश्यन्ती स्थास्यति जिह्वा । माता तस्य तदैवैकः पापिष्ठः प्रथमांशकः ॥ ५२ ॥  
 सुरम्यविषये ख्यातपौदनाख्यपुरेशिनः । विद्युद्वाजस्य तुविद्युत्प्रभो नाम भटाग्रणीः ॥ ५३ ॥  
 तीक्ष्णो विमलवत्याश्च क्रुध्वा केनापि हेतुना । निजाग्रजाय निर्गत्य तस्मात्पञ्चशतैर्भटैः ॥ ५४ ॥  
 विद्युच्चोराङ्ग्यं कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम् । जानन्नदृश्यदेहत्वकवादांदाघाटनादिकम् ॥ ५५ ॥  
 चोरशास्त्रोपदेशेन तन्मन्त्रविधानतः । अर्हद्दासगृहाभ्यन्तरस्थं चोरयितुं धनम् ॥ ५६ ॥  
 प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां जिनदासीं विलोक्य सः । निवेद्यात्मानमेवं किं विनिद्रासीति वक्ष्यति ॥ ५७ ॥  
 सुसुप्तैक एषार्यं प्रातरेव तपोवनम् । अहं गमीति सङ्कल्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥  
 धीमानसि यदीमं त्वं च्यावयस्वाम्रहारातः । उपायैरथ ते सर्वं धनं दास्याम्यभीक्षितम् ॥ ५९ ॥  
 इति वक्त्रे भवेत्सापि सोऽपि सम्प्रतिपद्य तत् । एवं सम्पन्नभोगोऽपि किलैष विरिरंसति ॥ ६० ॥

फँसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक ही है क्योंकि भाई-बन्धु लोग कल्याणमें विन्न करते ही हैं ॥ ४३-४५ ॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी पद्मावती स्त्रीसे उत्पन्न हुई उत्तम लक्ष्मणवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती है। इसी प्रकार कुबेरदत्त सेठकी कनकमाला स्त्रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रोंवाली कनकश्री नामकी कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयवती स्त्रीसे उत्पन्न हुई देखनेके योग्य विनयश्री नामकी पुत्री है और इसके सिवाय धनदत्त सेठकी धनश्री स्त्रीसे उत्पन्न हुई रूपश्री नामकी कन्या है। इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदनन्तर पाणिग्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकोंके द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे निर्मित रङ्गावलीसे सुशोभित है और अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंके उपहारसे सहित है ऐसे महलके भीतर पृथिवी तलपर बैठेगा। 'मेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुआ मन्द मुसकान तथा कटाक्षावलोकन आदिसे युक्त होता है या नहीं' यह देखनेके लिए उसकी माता स्नेह वश अपने आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध पौदनपुर नगरके स्वामी विद्युद्वाजकी रानी विमलमतासे उत्पन्न हुआ विद्युत्प्रभ नामका चोर आवेगा। वह विद्युत्प्रभ महापापी तथा नम्बर एकका चोर होगा, शूद्रवीरोंमें अग्रसर तथा तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा। वह किसी कारण वश अपने बड़े भाईसे कुपित होकर पाँच-सौ योद्धाओंके साथ नगरसे निकलेगा और विद्युच्चोर नाम रखकर इस नगरीमें आवेगा। वह चोर शास्त्रके अनुसार तन्त्र-मन्त्रके विधानसे अदृश्य होकर किवाड़ खोलना आदि सब कार्योंका जानकार होगा और सेठ अर्हद्दासके घरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके घर आवेगा। वहाँ जम्बूकुमारकी माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहेगा कि तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है ? ॥ ४६-५७ ॥ इसके उत्तरमें जिनदासी कहेगी कि 'मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सबेरे ही वीक्षा लेनेके लिए तपोवनको चला जाऊँगा' इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। यदि तू बुद्धिमान् है और किन्हीं उपायोंसे इसे इस आग्रहसे छुड़ाता है—इसका वीक्षा लेनेका आग्रह दूर करता है तो आज मैं तुम्हें तेरा मनचाहा सब धन दे दूँगी। जिनदासीकी बात सुनकर विद्युच्चोरने यह कार्य करना स्वीकृत किया। तदनन्तर

धिष्णं धनमिहाहर्तुं प्रविष्टमिति निन्दनम् । स्वस्य कुर्वन्नाताशङ्कः सम्प्राप्यानु तदन्तिकम् ॥ ६१ ॥  
 कन्यकानां कुमारं तं तासां मध्यमधिष्ठितम् । विजन्ममाणसद्बुद्धिं पञ्जरस्थमिवाण्डजम् ॥ ६२ ॥  
 जाललग्नैणपोतं वा भद्रं वा कुञ्जराधिपम् । अपारकदंमे मग्नं सिंहं वा लोहपञ्जरे ॥ ६३ ॥  
 निरुद्धं लब्धनिर्वेगं प्रत्यासन्नभवक्षयम् । विद्युच्चोरः समीक्ष्यैवं वक्तोद्वाक्यानाकं सुधीः ॥ ६४ ॥  
 कुमारः श्रूयतां कश्चिदेकदा स्वेच्छया चरन् । गिरेः क्रमेलकः स्वादु तृणं तुङ्गात्प्रदेशतः ॥ ६५ ॥  
 पतन्मधुरसोन्मिश्रमास्वाद्य सकृद्दुसुकः । तादृगेवाहरिष्यामीत्येतत्पाताभिवाञ्छया ॥ ६६ ॥  
 मृगान्तरोपयोगादिपराङ्मुखतया स्थितः । मृतस्तथैव त्वं चैतान् भोगान् भोक्तुमुपस्थितान् ॥ ६७ ॥  
 अनिच्छन् स्वर्गभोगार्थी भविता रहितो धिया । ह्यैकागारिकप्रोक्तं तदाकर्ण्य वर्णगवरः ॥ ६८ ॥  
 प्रतिवक्ता स तं चोरं स्पष्टदृष्टान्तपूर्वकम् । नरः कश्चिन्महादाहवरेण परिपीडितः ॥ ६९ ॥  
 नदीसरस्तटाकादिपयः पीत्वा मुहुर्मुहुः । तथाप्यगततृष्णः किं तृणाग्रस्थाम्बुबिन्दुना ॥ ७० ॥  
 तृप्तिं प्राप्नोत्यसौ वायं जीवो दिव्यसुखं चिरम् । मुक्त्वाऽप्रतृप्तः स्वप्नेऽपि गजकणास्थिरात्मना ॥ ७१ ॥  
 सुखेनासाधुनानेन कथं तृप्तिमवाप्नुयात् । इति तद्वाचमाकर्ण्य चारोऽनुव्याहरिष्यति ॥ ७२ ॥  
 वने वनेचरश्चण्डः कृत्वाधारं महाद्रुमम् । गण्डान्ताकृष्टकोदण्डः काण्डेनाखण्ड्य वारणम् ॥ ७३ ॥  
 महीरुदकोटरस्थेन सन्दष्टः फणिना स्वयम् । स चाहिञ्च गजञ्जाशो गत्यन्तरमजीगमत् ॥ ७४ ॥  
 अथ सर्वान् मृतान् दृष्ट्वा <sup>१</sup>तान्कोष्टैकोऽतिलुब्धकः । तावदेतानहं नाश्नि ज्ञायुं मौर्वीद्वयाग्रमम् ॥ ७५ ॥

वह विचार करने लगा कि देखा यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भोग-सामग्री रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं और मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुझे धिक्कार हो । इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्युच्चोर निःशङ्क होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए जीवन्धर कुमारके समीप पहुँचैगा । उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, उन कन्याओंके बीचमें बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथवा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा हुआ उत्तम जानिवाला गजराज ही हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिंह ही हो । वह अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार भ्रमणका क्षय अत्यन्त निकट था । ऐसे उस जम्बूकुमारको देखकर बुद्धिमान् विद्युच्चोर ऊँटकी कथा कहेगा ॥ ५५-६४ ॥ वह कहेगा कि हे कुमार ! सुनिये, किसी समय कोई एक ऊँट स्वेच्छासे मीठे तृण चरता हुआ पहाड़के निकट जा पहुँचा । जहाँ वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पड़ते हुए मधुके रससे मिल जानेके कारण मीठी हो रहा थी । उस ऊँटने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी ही घास खाऊँगा । इस संकल्पसे वह मधुके पड़नेकी इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके उपभोग आदिसे विरक्त होकर वहाँ बैठा रहा तदनन्तर भूखसे पीड़ित हो मर गया । इसी प्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेक्षा कर स्वर्गके भोगोंकी इच्छा करता है सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रहित है । इस प्रकार विद्युच्चोरके द्वारा कही हुई ऊँटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा कि एक ममुष्य महादाह करनेवाले ढवरसे पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या तृणके अग्रभाग पर स्थित जलकी बूँदसे उसकी तृप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोगे हैं फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ सो क्या हाथीके कानके समान चञ्चल इस वर्तमान सुखसे यह तृप्त हो जावेगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्युच्चोर फिर कहेगा ॥ ६५-७२ ॥ कि किसी वनमें एक चण्ड नामका भील रहता था । उसने एक बड़े वृक्षको आधार बनाकर अर्थान् उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथीको मार गिराया । इतनेमें ही उस वृक्षकी कोटरसे निकल कर एक साँपने उसे काट खाया । काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस साँपको भी मार डाला । इस तरह हाथी और साँप दोनोंको मारकर वह स्वयं मर गयीं । तदनन्तर उन

खादामीति कृतोद्योगस्तच्छेदमकरोद्विधीः । सद्यश्चापाग्रनिभिन्नगलः सोऽपि वृथा मृतः ॥ ७६ ॥  
 ततोऽतिगृध्नुता त्याज्येत्यस्योकिविरतौ सुधीः । कुमारः स्मृतिमाधाय सूक्तं <sup>१</sup>प्रत्यभिधास्यति ॥ ७७ ॥  
 चतुर्गणसमायोगदेशमध्ये महाद्युतिम् । रत्नराशिं समभ्येत्य सुग्रहं पथिको विधीः ॥ ७८ ॥  
 तदानादाय केनापि हेतुना गतवान्पुनः । समादित्सुस्तमागत्य किं तद्देशं लभेत सः ॥ ७९ ॥  
 तथा दुष्पामालोक्य गुणमाणिक्यसञ्चयम् । अस्वीकुर्वन् कथं पश्चात्प्राप्तुयाद्भववारिधौ ॥ ८० ॥  
 तदुदीरितमेतस्य कृत्वा चित्तो परस्वहृत् । वदिष्यति तदाख्यानमन्यदन्यायसूचनम् ॥ ८१ ॥  
 शृगालः कश्चिदास्यस्थं मांसपिण्डं विसृष्टवान् । संक्रीडमानमीनादानेच्छुनिपतितोऽम्भसि ॥ ८२ ॥  
 तद्देवत्वप्रवाहेण प्रेर्यमाणोऽगमन्मृतिम् । ततो मीनोऽपि दीर्घायुर्जलमध्ये स्थितः सुखम् ॥ ८३ ॥  
 एवं शृगालवह्नुब्धो मुग्धोऽन्योऽपि विनश्यति । इति तस्करमुख्योकिमाकर्ण्यानाकुलात्मकः ॥ ८४ ॥  
 प्रत्यासन्नग्निनेयत्वाद्भवः प्रतिभणिष्यति । निद्रालुको वणिक्कश्चिद्वासुखविमोहितः ॥ ८५ ॥  
 सुप्तः परार्थ्यमाणिक्यगर्भकक्षपुटे निजे । चौरैरपहृतोऽनेन दुःखेनामृतं दुर्मृतिः ॥ ८६ ॥  
 विषयाल्पसुखेज्वेवं संसक्तो <sup>२</sup>रागचोरकैः । ज्ञानदर्शनचारित्ररत्नेष्वपहृतेष्वयम् ॥ ८७ ॥  
 जन्मी नश्यति निर्मूलमित्यतः स गदिष्यति । स्वमातुलानादुर्वाक्यकोपात्काञ्चिन्मुमुर्षुकाम् ॥ ८८ ॥  
 वृक्षमूले स्थितां वीक्ष्य सर्वाभरणभूषिताम् । अज्ञातोद्वन्धनोपायामाकुलाकुलचेतसम् ॥ ८९ ॥  
<sup>३</sup>सुवर्णदारको नाम पापी मार्दङ्गिकस्तदा । तदाभरणमादित्सुर्मृदङ्गं स्वं तरोरधः ॥ ९० ॥

सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया । वह सोचने लगा कि मैं पहले इन सबको नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोड़ पर लगी हुई ताँतको खाता हूँ । ऐसा विचार कर उस मूर्खने ताँतको काटा ही था कि उसी समय धनुषके अग्रभागसे उसका गला फट गया और वह व्यर्थ ही मर गया । इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान् जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा ॥ ७३-७७ ॥ कि कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहे पर महा देदीप्यमान रत्नोंकी राशि मिली, उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था परन्तु किसी कारणवश उसे बिना लिये ही चला गया । फिर कुछ समय बाद उसे लेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया सो क्या वह उस रत्नराशिको पा सकेगा ? अर्थात् नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्रमें दुर्लभ गुण रूपी मणियोंके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा ? अर्थात् नहीं पा सकेगा ॥ ७८-८० ॥ जम्बूकुमारके द्वारा कही हुई बातको हृदयमें रखकर विद्युच्चोर अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कहेगा ॥ ८१ ॥ वह कहेगा कि एक शृगाल मुखमें मांसका टुकड़ा दाबकर पानीमें जा रहा था वहाँ क्रीड़ा करती हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने वह मांसका टुकड़ा छोड़ दिया और पानीमें कूद पड़ा । पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः वह उसीमें बह कर मर गया उसके मरनेके बाद दीर्घायु मछली पानीमें सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूर्ख, शृगालके समान लोभी होता है वह अवश्य ही नष्ट होता है । इस तरह विद्युच्चोर की बात सुनकर निकट भव्य होनेके कारण जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई है ऐसा जम्बूकुमार कहेगा कि निद्रालु प्रकृतिका एक वैश्य नींदके सुखसे विमोहित होकर सो गया और चोरोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिये । इसी दुःखसे वह मर गया । इसी प्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़ेसे सुखोंमें आसक्त हो रहा है और राग रूपी चोर इसके ज्ञान-दर्शन तथा चारित्र रूपी रत्न चुरा रहे हैं । इन रत्नोंकी चोरी होने पर यह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है । इसके उत्तरमें वह चोर कहेगा कि कोई स्त्री सासुके दुर्वचन सुनकर क्रोधित हुई और मरनेकी इच्छासे किसी वृक्षके नीचे जा बैठी । वह सब आभूषणोंसे सुशोभित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका चित्त बड़ा ही अमाकुल हो रहा था ॥ ८२-८६ ॥ उसी समय सुवर्णदारक नामका मुदङ्ग बजानेवाला

स्थापयित्वा समारुह्य स्वगलोद्भवद्वज्जुकः । उद्वन्धनकर्म तस्या दर्शयन् मृत्युचोदितः ॥ ९१ ॥  
मृदङ्गे पतिते भूमौ सद्यः केनापि हेतुना । रज्जुपाताविलीभूतकण्ठः प्रोद्भवलोचनः ॥ ९२ ॥  
प्रापत्प्रोताचिवासं तद्वीक्षयासौ दुर्धृतेर्भयात् । आयाद्गृहमतस्तद्द्रष्टोभो हेयो महांस्त्वया ॥ ९३ ॥  
इत्यस्य सोऽपि वाग्जालमसोढोदाहरिष्यति । किल धूर्तविटं वीक्ष्य ललिताङ्गाभिधानकम् ॥ ९४ ॥  
कस्यचित्सा महादेवी जाता मद्वनविह्वला । तद्विद्वानयनोपायनिरन्तरनियुक्तया ॥ ९५ ॥  
तद्वान्या गुप्तमानीतः १पथिकोऽन्तः प्रवेशितः । सद् तेन महादेवी रममाणायथेप्सितम् ॥ ९६ ॥  
अहोभिर्बहुभिर्ज्ञांता शुद्धैः शुद्धान्तरक्षिभिः । तन्मुखात्तदुराचारे राज्ञापि विदिते सति ॥ ९७ ॥  
जारापनयनोपायमाज्ञप्ताः २परिचारिकाः । अवस्करगृहं नीत्वा सा तं तत्राक्षिपन्खलम् ॥ ९८ ॥  
स दुर्गन्धेन तज्जन्तुभिश्च ३दुःखमवाप्नुवन् । अत्रैव नरकावासमाप्तवान् पापपाकतः ॥ ९९ ॥  
तद्वदल्पसुखस्याभिलाषिणो नरकादिषु । भवन्ति दुस्तरापारघोरदुःखा गतिष्विति ॥ १०० ॥  
पुनः कुमार एवैकं प्रपञ्चाद्भविता स तम् । येन संसारनिर्वेगो जायते सहसा ४सताम् ॥ १०१ ॥  
भाम्यन्तंसंसारकान्तारे मृत्युमहाद्विपेशिना । रूषा जिघांसुना जन्तुरनुपातोऽतिभीलुकः ॥ १०२ ॥  
पलायमानो मानुष्यभूरुहान्तर्हितात्मकः । तन्मूले कुलगोत्रादिनानावल्लीसमाकुले ॥ १०३ ॥  
जन्मकूपे पतित्वायुर्वल्लीलग्नशरीरकः । सितासितादिनानेकमूषकोच्छेद्यतल्लुकः ॥ १०४ ॥  
नरकव्यात्तवक्त्रोरुसर्पसप्तकसन्निधिः ५ । तद्भूजेष्टार्थसूनोत्थसौख्यक्षौद्ररसोत्सुकः ॥ १०५ ॥

पापी मृत्युसे प्रेरित हो वहाँसे आ निकला । वह उस स्त्रीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए वृत्तके नीचे अपना मृदङ्ग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे मरनेकी रीति दिखलाने लगा । उसने अपने गलेमें रस्सी बाँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका मृदङ्ग जमीन पर लुढ़क गया । फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया और आँखें निकल आईं । इस प्रकार वह मरकर यमराजके घर गया । उसका मरण देख वह स्त्री उस दुःखदायी मरणसे डर गई और अपने घर वापिस आ गई । कहनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस मृदङ्ग वजानेवालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिये ॥ ९०-९३ ॥ इस प्रकार उस चोरका वाग्जाल जम्बू-कुमार सहन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कहेगा । वह कहेगा कि ललिताङ्ग नामके किसी धूर्त व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे विह्वल हो गई । उसने किसी भी उपायसे उस पथिकका लानेके लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूपसे महलके भीतर ले गई । महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी यह बात जान ली और उनके कहनेसे राजाको भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ ९४-९७ ॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेवकोंको आज्ञा दी । यह जानकर रानीने उसे टट्टीमें ले जाकर छिपा दिया । वहाँकी दुर्गन्ध और कीड़ोंसे वह वहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कर्मके उदयसे इसी जन्ममें नरक वासके दुःख भोगने लगा ॥ ९८-९९ ॥ इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं और वहाँके दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥ १०० ॥ इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके कि द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीघ्र ही निर्वेग हो जाता है ॥ १०१ ॥ वह कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वनमें घूम रहा था । एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश उसे मारनेकी इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा । वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्य रूपी वृत्तकी आड़में छिप गया । उस वृत्तके नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआँ था । वह जीव उस जन्मरूपी कुएँमें गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी लतामें उसका शरीर उलझ गया जिससे नीचे नहीं जा सका । वह आयुरूपी लताको शुक्रपक्ष और कृष्णपक्षके दिनरूपी अनेक चूहे कुतर रहे थे । सप्तों नरकरूपी सर्प ऊपरकी ओर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा

१ पथिकान्तप्रवेशिना ज० (१) । २ परिचारिकाः ल० । ३-मवाप्नुयात् ग० । ४ सताम् ल० ।

तद्ग्रहोत्थापितास्त्युग्रव्यापन्माक्षिकभक्षितः । तस्संसेवां सुखं मत्वा कष्टं सर्वोऽपि जीवति ॥ १०६ ॥  
विधीविषयसंसक्तो धीमानपि कथं तथा । वर्तते त्वक्कसङ्गः सच्चक्रुर्वन्दुर्वहं तपः ॥ १०७ ॥  
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य माता कन्याश्च तस्करः । तनुसंसारभोगेषु यातारोऽतिविरागताम् ॥ १०८ ॥  
तदा तमः समाभूय भासमानो दिवाकरः । योजयन् प्रियया कोकं कुमारमिव दीक्षया ॥ १०९ ॥  
करैर्निजैः कुमारस्य मनो वात्पृश्य रक्षयन् । उद्यमस्तपसीवोच्चैः शिखरेऽद्रेरुदेष्यति ॥ ११० ॥  
सर्वसन्तापकृत्तीक्ष्णकरः क्रूरोऽनवस्थितः । रविः कुवलयध्वंसी प्रजिता कुनूपोपमाम् ॥ १११ ॥  
नित्योदयो बुधाधीशो विशुद्धाखण्डमण्डलः । पद्माह्लादी प्रवृद्धोष्मा सुराजानं स जेष्यति ॥ ११२ ॥  
ज्ञात्वा संसारवैमुख्यं कुमारस्यास्य बान्धवाः । तदा कुणिमहाराजः श्रेणयोऽष्टादशापि च ॥ ११३ ॥  
सहानावृतदेवेन परिनिष्क्रमणं प्रति । अभिषेकं करिष्यन्ति सङ्गता मङ्गलैर्जलैः ॥ ११४ ॥  
तत्कालोचितवेधोऽसौ शिबिकां देवनिर्मिताम् । आरुह्य भूतिभूत्योच्चैविपुलाचलमस्तके ॥ ११५ ॥

कर रहे थे । उसी वृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था जिसे खानेके लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था । उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुई भयङ्कर आपत्ति-रूपी मधुकी मन्त्रिखर्यौ उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुओंके उस सेवनको सुख मान रहा था । इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टसे जीवन बिता रहे हैं । जो मूर्ख हैं वे भले ही विषयोंमें आसक्त हो जायं परन्तु जो बुद्धिमान् हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो सब परिग्रहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिये ॥ १०२-१०७ ॥ जम्बूकुमारकी यह बात सुनकर उसकी माता, वे कन्याएं, और वह चोर सब, संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त होंगे ॥ १०८ ॥ तदनन्तर चकवा को चकवीके समान कुमारको दीक्षाके साथ मिलाता हुआ अपनी किरणोंसे कुमारके मनको स्पर्शकर प्रसन्न करता हुआ, तपश्चरणके लिए श्रेष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको नष्टकर उदयाचलकी शिखरपर सूर्य उदित होगा ॥ १०९-११० ॥ उस समय वह सूर्य किसी अन्यायी राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व सन्तापकृत् होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी सबको संताप करने वाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्णकर होता है अर्थात् कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूर्य भी तीक्ष्णकर था अर्थात् उष्ण किरणोंका धारक था, जिस प्रकार अन्यायी राजा क्रूर अर्थात् निर्दय होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी क्रूर अर्थात् अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है—एक समान नहीं रहता है—कभी संतुष्ट रहता है और कभी असंतुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था—एक जगह स्थिर नहीं रहता था और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलयध्वंसी होता है अर्थात् पृथ्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलयध्वंसी था अर्थात् नीलकमलोंको नष्ट करनेवाला था ॥ १११ ॥ अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजाका नित्योदय होता है अर्थात् उसका अभ्युदय निन्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है अर्थात् प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है, जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है अर्थात् विद्वानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात् बुधग्रहका स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल अर्थात् देश विशुद्ध-शत्रुरहित और अखण्ड होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात् बिम्ब भी विशुद्ध और अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माह्लादी होता है अर्थात् लक्ष्मीसे प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माह्लादी था अर्थात् कमलोंको विकसित करनेवाला था और जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्धोष्मा होता है अर्थात् बढ़ते हुए अहंकारको धारण करता है उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोष्मा था अर्थात् उसकी गर्मी निरन्तर बढ़ती जाती थी ॥ ११२ ॥ जम्बूकुमार संसारसे विमुख—विरक्त हुआ है यह जान कर उसके सब भाई-बन्धु, कुणिक राजा, उसकी अठारह प्रकारकी सेनाएं और अनावृत देव आर्षेणों तथा सब लोभ्य आङ्गलिक जैतसे उसका दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥ ११३-११४ ॥ उस समयके योग्य वेधभूषा धारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बड़े वैभवके साथ विपुलाचल

मां निविष्टं समभ्येत्य महासुनिनिषेवितम् । भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य यथाविधि ॥ ११६ ॥  
वर्णत्रयसमुद्भूतैर्विनेयैर्बहुभिः समम् । विद्युच्चोरेण तत्पञ्चशतभृत्यैश्च संयमम् ॥ ११७ ॥  
सुधर्मगणभृत्यार्षैर्व समचित्तो प्रहीष्यति । कैवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्यां गीतमाह्वते ॥ ११८ ॥  
सुधर्मां केवली जम्बूनामा च श्रुतकेवली । भूत्वा पुनस्ततो द्वादशाब्दान्ते निर्धूतिङ्गते ॥ ११९ ॥  
सुधर्मण्यन्तिमं ज्ञानं जम्बूनाम्नो भविष्यति । तस्य शिष्यो भवो नाम चत्वारिंशत्समा महान् ॥ १२० ॥  
इह धर्मोपदेशेन धरिभ्यां विहरिष्यति । इत्यवादीत्तदाकर्ण्य स्थितस्तस्मिन्ननामृतः ॥ १२१ ॥  
देवो मदीयवंशस्य माहात्म्यमिदमद्भुतम् । अन्यत्रादृष्टमित्युच्चैरकृतानन्दनाटकम् ॥ १२२ ॥  
कस्मादनेन बन्धुत्वमस्येति श्रेणिकोऽभ्यधात् । गीतमं विनयात्सोऽपि न्यगदशदतिस्फुटम् ॥ १२३ ॥  
जम्बूनाम्नोऽन्वये पूर्वं धर्मप्रियवर्णकपतेः । गुणदेव्याश्च नाम्नाहं ह्रासः पुत्रोऽजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥  
धनयौवनदुर्षेण शिक्षामगणयन् पितुः । निरंकुशोऽभवत्सप्तम्यसनेषु विधेर्वशात् ॥ १२५ ॥  
स दुश्चेष्टितदौर्गत्यात्सज्जातानुशयो मया । न श्रुता मत्पितुः शिक्षेत्थवासशमभावनः ॥ १२६ ॥  
किञ्चित्पुण्यं समाचर्य व्यन्तरत्नमुपागतः । आददेऽनावृतान्त्वोऽयं तत्र सम्यक्त्वसम्पदम् ॥ १२७ ॥  
इति तद्ब्रह्मप्रान्ते गीतमं मगधाधिपः । अन्वयुक्कागतः कस्मात्किं पुण्यं कृतवानयम् ॥ १२८ ॥  
विद्युन्माली भवेऽतीते प्रभाऽस्यान्तेऽप्यनाहता । इत्यनुग्रहबुद्धयैव भगवानेवमब्रवीत् ॥ १२९ ॥  
अस्मिन्निदेहे पूर्वस्मिन् वीतशोकाङ्ग्यं पुरम् । विषये पुष्कलावत्यां महापद्मोऽस्य पालकः ॥ १३० ॥  
वनमालास्य देव्यस्याः सुतः शिवकुमारकः । नवयौवनसम्पन्नः सवयोभिः समं वने ॥ १३१ ॥

की शिखर पर पहुँचेगा । वहाँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा । उस समय बड़े-बड़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे । वह आकर बड़ी भक्तिसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक नमस्कार करेगा ॥ ११५-११६ ॥ तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूकुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णोंमें उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युच्चर और उसके पाँच सौ भृत्योंके साथ सुधर्माचार्य गणधरके समीप संयम धारण करेगा । जब केवलज्ञानके बारह वर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होगा तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बूकुमार श्रुतकेवली होंगे । उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोक्ष चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको केवलज्ञान होगा । जम्बू-स्वामीका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीसवर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए जम्बू-स्वामी पृथिवीपर विहार करेंगे । इस प्रकार गीतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कही । उसे सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ अनावृत नामका यक्ष कहने लगा कि मेरे वंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता । ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया ॥ ११७-१२२ ॥

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गीतम गणधरसे पूछा कि इस अनावृत देवका जम्बू स्वामीके साथ भाईपना कैसे है ? इसके उत्तरमें गणधर भगवान् स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥ १२३ ॥ कि जम्बूकुमारके वंशमें पहले धर्मप्रिय नामका एक सेठ था । उसकी गुणदेवी नामकी स्त्रीसे एक अर्हह्रास नामका पुत्र हुआ था ॥ १२४ ॥ धन और यौवनके अभिमानसे वह पिताकी शिक्षाको कुछ नहीं गिनता हुआ धर्मोदयसे सातों व्यसनोंमें स्वच्छन्द हो गया था । इन खोटी चेष्टाओंके कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हुआ और 'मैंने पिताकी शिक्षा नहीं सुनी' यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शान्त हो गई ॥ १२५-१२६ ॥ तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर वह अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ है । इसी पर्यायमें उसने सम्यग्दर्शन धारण किया है ॥ १२७ ॥ इस प्रकार जब गीतम स्वामी कह चुके तब राजा श्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया । उसने पूछा कि हे भगवन् ! यह विद्युन्माली कहाँसे आया है ? और इसने पूर्वभवमें कौनसा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिम दिनमें भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई है । इसके उत्तरमें गणधर भगवान् अनुग्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १२८-१२९ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत एक वीतशोक नामका नगर है । वहाँ महापद्म नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका

विहृत्य पुनरागच्छन्तश्चमेण समन्ततः । गन्धपुष्पादिमाङ्गल्यद्रव्यसद्विवस्यथा ॥ १३२ ॥  
 जनानाम्रजतो इष्ट्वा किमेतदिति विस्मयात् । तनूजं पृच्छति स्मासौ बुद्धिसागरमन्त्रिणः ॥ १३३ ॥  
 कुमार शृणु वक्ष्यामि मुनिन्द्रः श्रुतकेवली । ख्यातः सागरदशाख्यस्तपसा दीप्तसञ्ज्ञया ॥ १३४ ॥  
 असौ मासोपवासान्ते पारणायै प्रविष्टवान् । पुरं सामसमृद्धाख्यः श्रेष्ठी तस्मै यथाविधि ॥ १३५ ॥  
 दत्त्वा विष्वग्नं भक्त्या प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । मुनिं मनोहरोद्यानवासिनं तं सकौतुकाः ॥ १३६ ॥  
 सम्पूज्य वन्दितुं यान्ति पौराः परमभक्तितः । इत्याख्यत्सोऽपि तच्छ्रुत्वा पुनरप्यन्वयुक्क सः ॥ १३७ ॥  
 कथं सागरदशाख्यां विविचर्द्धीस्तपः श्रुतीः । प्रापदित्यब्रवीन्मन्त्रिसुतोऽप्यनु यथाश्रुतम् ॥ १३८ ॥  
 विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । वज्रदन्तः पतिस्तस्याश्चक्रेणाक्रान्तभूतलः ॥ १३९ ॥  
 देवी यशोधरा तस्य गर्भिणी जातदौहृदा । महाविभूत्यां गत्वासौ सीतासागरसङ्गमे ॥ १४० ॥  
 महाद्वारेण सम्प्राप्य जलधिं जलजानना । जलकेलीविधौ पुत्रमलब्धाभ्यर्णनिर्द्वैतम् ॥ १४१ ॥  
 तस्मात्सागरदशाख्यामस्याकुर्वन्सनाभयः । अथ यौवनसम्प्राप्तौ स कदाचन नाटकम् ॥ १४२ ॥  
 सार्धं स्वपरिवारेण पश्यन् हर्म्यतले स्थितः । चेटकेनानुकूलाख्यनामधेयेन भाषितः ॥ १४३ ॥  
 कुमार मन्दराकारस्तित्थेष पयोधरः । पश्यशाश्चर्यमिति प्रीत्या प्रोन्मुखो लोचनप्रियम् ॥ १४४ ॥  
 तं निरीक्षितुमैष्टि नष्टस्तत्काल एव सः । जलदस्तद्विचिन्त्यैवं यौवनं विभवो वपुः ॥ १४५ ॥

नाम वनमाला था । उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था । नवयौवनसे सम्पन्न होनेपर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गया था । वहाँ क्रीड़ा कर जब वह वापिस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े संभ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि मङ्गलमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए बहुतसे आदमी देखे । उन्हें देखकर उसने बड़े आश्चर्यके साथ बुद्धिसागर नामक मन्त्रीके पुत्रसे पूछा कि 'यह क्या है ?' ॥ १३०-१३३ ॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि 'हे कुमार ! सुनिये, मैं कहता हूँ, दीप्त नामक तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक श्रुतकेवली मुनिराज हैं । उन्होंने एक मासका उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिए आज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था । वहाँ सामसमृद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपूर्वक भक्तिसे आहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये हैं । वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्तिसे उन्हींकी पूजा-वन्दना करनेके लिए जा रहे हैं' । इस प्रकार मन्त्रीके पुत्रने कहा । यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक श्रद्धियों, तपश्चरण और शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें मन्त्री-पुत्रने भी जैसा सुनं रक्खा था वैसा कहना शुरू किया । वह कहने लगा कि पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है । उसके स्वामीका नाम वज्रदत्त था । वह वज्रदन्त चक्रवर्ती था इसलिए उसने चक्ररत्नसे समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी ॥ १३४-१३६ ॥ जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ और उसी दोहलेके अनुसार वह कमलमुखी बड़े वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिलती है उसी महाद्वारसे जलक्रीड़ा करनेके लिए समुद्रमें गई । वहाँ उसने निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाला पुत्र प्राप्त किया । चूँकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए परिवारके लोगोंने उसका सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर यौवन अवस्था प्राप्त होनेपर किसी दिन वह सागरदत्त महलकी छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रहा था, उसी समय अनुकूल नामक एक सेवकने कहा कि हे कुमार ! यह आश्चर्य देखो, यह बादल मन्दर-गिरिके आकारसे कैसा सुन्दर बना हुआ है ? यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योंही ऊपरकी ओर मुँह कर उस नयनाभिराम दृश्यको देखनेके लिए उद्यत हुआ त्योंही वह बादल नष्ट हो गया । उसे नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार

१ आयुरन्यश्च विध्वंसि यथायं स्तनयिन्नकः । इति संसारनिर्वेगयोगभाक्समजायत ॥ १४६ ॥ --  
 स्वपित्रा सममन्येद्यः सम्प्राप्यामृतसागरम्<sup>१</sup> । स्थितं मनोहरोद्याने धर्मतीर्थस्य नायकम् ॥ १४७ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं तदभ्यर्णे निर्णीतसकलस्थितिः । संयमं बहुभिः सार्धं कृतबन्धुविसर्जनः ॥ १४८ ॥  
 प्रतिगृह्य मनःपर्ययादिं प्राप्यद्धिसम्पदम् । देशान् विहृत्य सद्धर्मदेशेनेह समागतः ॥ १४९ ॥  
 इति तच्छ्रवणात्सद्यः प्रतिचेताः स्वयञ्च सः । गत्वा मुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्वा धर्माद्युतं ततः ॥ १५० ॥  
 भवन्तं भगवन्ष्टु स्नेहो मे समभून्महान् । हेतुना केन वक्तव्यमित्यपृच्छत्स चाब्रवीत् ॥ १५१ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मगधाह्वये । बृद्धग्रामे सुतौ जातौ रेवत्यां नरजन्मनः ॥ १५२ ॥  
 ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रकूटस्य<sup>२</sup> भगदत्ततः परः । भवदेवस्तयोर्यार्थान् संयमं प्रत्यपद्यत ॥ १५३ ॥  
 सुस्थिताख्यगुरुं प्राप्य तेनामा विनयान्वितः । नानादेशान् विहृत्यायात् स्वजन्मग्राममेव सः ॥ १५४ ॥  
 तदा तद्बान्धवाः सर्वे समागत्य ससम्मदाः । मुनिं प्रदक्षिणीकृत्य सम्पूज्यान्तमुद्यताः ॥ १५५ ॥  
 ग्रामे दुर्मर्षणो नाम तस्मिन्नेव गृहाधिपः । तस्य नागवसुभार्यां नागध्रीरनयोः सुता ॥ १५६ ॥  
 ताभ्यां सा भवदेवाय प्रादायि विधिपूर्वकम् । अग्रजागमनं श्रुत्वा सद्यः सञ्जातसम्मदः ॥ १५७ ॥  
 भवदेवोऽप्युपागत्य भगदत्तमुनीश्वरम् । विनयात्प्रणम्यास्त तच्छ्रुताशासनाद्रितः ॥ १५८ ॥  
 आख्याय धर्मयाधाल्म्यं वैरुण्यमपि संसृतेः । गृहीतपाणिरेकान्ते संयमो गृह्यतां त्वया ॥ १५९ ॥  
 इत्याह तं मुनिः सोऽपि प्रत्यवादीदिदं वचः । नागध्रीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितम् ॥ १६० ॥  
 इति तन्मुनिराकर्ण्य जगादाजनने जनः । भार्यादिपाशसंलग्नः करोत्यात्महितं कथम् ॥ १६१ ॥

यह यौवन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसा विचारकर वह संसारसे विरक्त हो गया ॥ १४०-१४६ ॥ दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें स्थित अमृतसागर नामक तीर्थक्षेत्रके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुना । समस्त पदार्थोंकी स्थितिका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया । तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋद्धियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशोंमें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ॥ १४७-१४९ ॥ इस प्रकार मन्त्री-पुत्रके वचन सुनकर वह राजकुमार-शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्मरूपी अमृतका पान किया और तदनन्तर बड़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन ! आपको देखकर मुझे बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है इसका क्या कारण है ? आप कहिये । इसके उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि— ॥ १५०-१५१ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक बृद्ध नामका ग्राम था । उसमें राष्ट्रकूट नामका वैश्य रहता था । उसकी रेवती नामक स्त्रीसे दो पुत्र हुए थे । एक भगदत्त और दूसरा भवदेव । उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली । तदनन्तर उन्हीं गुरुके साथ बड़ी विनयसे अनेक देशोंमें विहार कर वह अपनी जन्मभूमिमें आया ॥ १५२-१५४ ॥ उस समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े हर्षसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूजाकर उन्हें नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १५५ ॥ उसी नगरमें एक दुर्मर्षण नामका गृहस्थ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागवसु था । उन दोनोंके नागश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । उन दोनोंने अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी । बड़े भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ । वह भी उनके समीप गया और विनयके साथ बार-बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया । उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम बहुत ही आर्द्र हो रहे थे ॥ १५६-१५८ ॥ धर्मका यथार्थ स्वरूप और संसारकी विरूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई भवदेवका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि तू संयम ग्रहण कर ले ॥ १५९ ॥ इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि मैं नागश्रीसे छुट्टी लेकर आपका कहा करूँगा ॥ १६० ॥ यह सुनकर मुनिराजने कहा कि इस संसारमें स्त्री आदिकी पाशमें फँसा हुआ यह प्राणी आत्माका हित कैसे कर सकता



त्यज तन्मोहमित्येनं भवदेवोऽप्यनुत्तरः । मतिं ज्येष्ठानुरोधेन व्यधाद्दीक्षाविधौ च सः ॥ १६२ ॥  
 नीत्वा स्वगुरुसामीप्यं भगदत्तो भवच्छिदे । दीक्षामग्राहयन्मीक्षीं सतां १सोदर्यमीदृशम् ॥ १६३ ॥  
 स द्रव्यसंयमी भूत्वा १विधीर्द्वादशवत्सरान् । विहृत्य गुरुभिः सार्धमन्येद्युरसहायकः ॥ १६४ ॥  
 वृद्धग्रामं निजं गत्वा सुव्रतागिनीमभि । समीक्ष्यास्मिन् किमस्त्यम्ब नागश्रीनाम काचन ॥ १६५ ॥  
 इति सम्प्रभयामास सा तस्येकितवेदिनी । नाहं वेद्मि मुने सम्यगुदन्तं तन्निबन्धनम् ॥ १६६ ॥  
 इत्यौदासीन्यमापन्ना गुणवत्यायिकां प्रति । संयमे तं स्थिरीकर्तुमर्थाख्यानकमब्रवीत् ॥ १६७ ॥  
 वैश्यः सर्वसमृद्धाख्यस्तदासीतनयः शुचिः । दारुकाख्यः स्वमात्रास्मच्छ्रेष्ठ्युच्छिष्टाशितं त्वया ॥ १६८ ॥  
 भोक्तव्यमिति निर्बन्धान्नोजितः स जुगुप्सया । वान्तवान् कंसपात्रेण तत्तन्मात्राहितं पुनः ॥ १६९ ॥  
 बुभुक्षुर्मातरं भोक्तुं प्रार्थयामास दारुकः । तथापि कंसपात्रस्थं पुरस्ताद्दुपदौकितम् ॥ १७० ॥  
 बुभुक्षापीडितोऽप्येष नाग्रहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादृशः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सति ॥ १७१ ॥  
 २अथाख्यानमिदञ्चैकं शृणु १रुध्वाशयं स्थिरम् । नरेशो नरपालाख्यः श्वानमेकं सकौतुकः ॥ १७२ ॥  
 मृष्टाशनेन सम्पोष्य स्वर्णाभरणभूषितम् । सदा वनविहृत्यादिगतौ कनककल्पिताम् ॥ १७३ ॥  
 आरोप्य शिविकामेवं मन्दबुद्धिरपालयत् । कदाचिच्छिविकां रूढो गच्छन्कौलेयकाधमः ॥ १७४ ॥  
 विष्टामालोक्य बालस्य लिप्सुरापतति स्म ताम् । तद्दृष्ट्वापाकरोद्भूपो लकुटीताडनेन तम् ॥ १७५ ॥  
 तद्वन्मुनिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । त्यक्ताभिवाञ्छया भूयः सम्प्राप्नोति पराभवम् ॥ १७६ ॥

है ? ॥ १६१ ॥ इसलिए तू खीका मोह छोड़ दे । बड़े भाईके अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया ॥ १६२ ॥ अन्तमें भगदत्तने अपने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा ग्रहण करवा दी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका भाईपना ऐसा ही होता है ॥ १६३ ॥ उस मूर्खने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुओंके साथ विहार किया । एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध ग्राममें आया और सुव्रता नामकी गणिनीके पास जाकर पूछने लगा कि हे माता ! इस नगरमें क्या कोई नागश्री नामकी स्त्री रहती है ? ॥ १६४-१६५ ॥ गणिनीने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मैं उसका वृत्तान्त अच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्य-लिङ्गी मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी आर्यिकासे निम्नलिखित कथा कहनी शुरू कर दी ॥ १६६-१६७ ॥ वह कहने लगी कि एक सर्वसमृद्ध नामका वैश्य था । उसके शुद्ध हृदयवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था । किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा कि तू हमारे सेठका जूठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे जूठा भोजन खिला दिया । वह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने वह सब भोजन वमन कर दिया । उसकी माताने वह सब वमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब उस दारुकको भूख लगी और उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पात्रमें रक्खा हुआ वही वमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि भूखसे पीड़ित था तो भी उसने वह अपना वमन नहीं खाया । जब दासी-पुत्रने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब मुनि छोड़े हुए पदार्थको किस तरह चाहते हैं ? ॥ १६८-१७१ ॥ 'अब मैं एक कथा और कहती हूँ तू चित्त स्थिर कर सुन' यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने लगी । उसने कहा कि एक नरपाल नामका राजा था । कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रक्खा था । वह सींठे-सींठे भोजनके द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्णके आभूषण पहिनाता था । जब वह वनविहार आदि कार्योंके लिए जाता था, तब वह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले आता था । एक दिन वह नीच कुत्ता, पालकीमें बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि किसी बालककी धिष्टापर पड़ी । दृष्टि पड़ते ही वह, उस विष्टाको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कूद पड़ा । यह देखकर जानने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥ १७२-१७५ ॥ इसी प्रकार जो मुनि पहले

इदमन्यत्कचिक्कश्चिस्त्वधिकः सद्गनान्तरे । सुगन्धिफलपुष्पादिसेवयाऽऽयन् सुखं ततः ॥ १७७ ॥  
 गत्वा विहाय सन्मार्गं महागहनसङ्घटे । दृष्ट्वा क्षुधितमस्युग्रं स चमूरं जिघांसुकम् ॥ १७८ ॥  
 भीत्वा धावन् तदैकस्मिन् भीमकूपेऽपतद्विधीः । तत्र शीतादिभिः पापाहोषत्रितयसम्भवे ॥ १७९ ॥  
 वाग्दृष्टिश्रुतिगत्यादिहीनं सर्पादिबाधितम् । तं तस्मिर्गमनोपायमजानन्तं यदृच्छया ॥ १८० ॥  
 कश्चिन्निषग्वरो वीक्ष्य दययाद्गीकृताशयः । निर्गमय्य ततः केनाप्युपायेन महादरात् ॥ १८१ ॥  
 मन्त्रौषधिप्रयोगेण कृतपादप्रसारणम् । सूक्ष्मरूपसमालोकनोन्मीलितविद्योचनम् ॥ १८२ ॥  
 स्पष्टाकर्णनविज्ञातस्वशक्तिश्रवणद्वयम् । व्यक्तवाक्प्रसरोपेतरसनं च व्यधादनु ॥ १८३ ॥  
 स सर्वैरमणीयाख्यं पुरं तन्मार्गदर्शनात् । प्रास्थापयन्न कस्योपकुर्वन्ति विशदाशयाः ॥ १८४ ॥  
 पुनः स विषमासक्तमतिः पथिकदुर्मतिः । प्रकटीकृतदिग्भेदमोहः प्राक्तनकूपकम् ॥ १८५ ॥  
 सन्प्राप्य पतितस्तस्मिस्तथा कांश्चन संसृतौ । मिथ्यात्वादिकपञ्चोप्रबाधियां दीन्युपागतान् ॥ १८६ ॥  
 जन्मकूपे क्षुधादाहाष्टातार्त्न संवीक्ष्य सन्मतिः । गुरुवैद्यो दयालुत्वाद्दुर्माख्योपायपण्डितः ॥ १८७ ॥  
 निर्गमय्य ततो जैनभाषौषधनिषेवणान् । सम्यक्त्वनेत्रसुन्मील्य सम्यग्ज्ञानश्रुतिद्वयम् ॥ १८८ ॥  
 समुद्घटय्य सद्गत्पादौ कृत्वा प्रसारितौ । न्यक्तां दयामयीं जिह्वां विधाय विधिपूर्वकम् ॥ १८९ ॥  
 पञ्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्यभिधाप्य तान् । सुधीरगमयन्मार्गं साधुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ १९० ॥  
 निजपापोदयाहीर्षसंसारस्तत्र केचन । सुगन्धिबन्धुरोऽस्मिन्नचम्पकाम्याशवर्तिनः ॥ १९१ ॥  
 तत्सौरभावबोधावमुक्ताः षट्चरणा यथा । पार्श्वस्थाख्याः सद्गज्ञानचारित्र्योपान्तवर्तनात् ॥ १९२ ॥

सबके पूजनीय होते हैं वही छोड़ी हुई वस्तुकी इच्छाकर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं । इस कथाके बाद एक कथा और कहती हूँ—

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा था परन्तु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वनमें जा पहुँचा । वहाँ उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याघ्र देखा । उसके भयसे वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा । वहाँ पाप-कर्मके उदयसे उसे शीत आदिके कारण वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा चलने आदिमें बाधा होने लगी । इनके सिवाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी । वह पथिक उस कुएँसे निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था । दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आ निकला । उस पथिकको देखकर उसका हृदय दयासे आर्द्र हो गया । उसने बड़े आदरसे किसी उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया और मन्त्र तथा औषधिके प्रयोगसे उसे ठीककर दिया । उसके पाँव पसरने लगे, सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्वासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे ॥ १७६-१८३ ॥ यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैद्यने उसे मार्ग दिखाकर सर्वैरमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्यों कि जिनका अभिप्राय निर्मल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥ १८४ ॥ इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिरसे विषयोंमें आसक्त हो गया, फिरसे दिशा भ्रान्त हो गया और फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर उसमें गिर पड़ा । इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएँमें पड़कर मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे वाधिर्य-बहिरापन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा क्षुधा, दाह आदिसे पीडित हो रहे हैं । उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथा धर्मका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु रूपी वैद्य दयालुताके कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं । तदनन्तर जैनधर्मरूपी औषधिके सेवनसे इनके सम्यग्दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यग्ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते हैं, सम्यक् चारित्ररूपी पैरोंको फैलाते हैं, दयारूपी जिह्वाको विधिपूर्वक प्रकट करते हैं, और पाँच प्रकारके स्वाध्याय रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गमें भेजते हैं । वे गुरुरूपी वैद्य अस्यन्त बुद्धिमान और उत्तम प्रकृतिके होते हैं ॥ १८५-१९० ॥ उनमेंसे बहुतसे लोग पाप-कर्मके उदयसे दीर्घसंसारी हाँते हैं । जिस प्रकार सुगन्धिसे भरं विकसित चम्पाके समीप रहते

कषायविषयारम्भलौकिकज्ञानवेदकैः । जिह्वाषड्भेदसम्बन्धाः कुशीलाख्या दुराशयाः ॥ १९३ ॥  
 संसक्तख्या निषिद्धेषु द्रव्यभावेषु कोलुपाः । अवसन्नाङ्ग्या हीयमानज्ञानादिकत्वतः ॥ १९४ ॥  
 समाचारबहिर्भूता मृगचार्यभिधानकाः । महामोहानिबृत्त्याजवञ्जवाग्धकूपके ॥ १९५ ॥  
 पतन्ति स्म पुनश्चेति भवदेवोऽपि तच्छ्रुतेः । सम्प्राप्तवान्तभावोऽभूद्ज्ञात्वा तत्सार्थिकाम्रणीः ॥ १९६ ॥  
 नागश्रियं च दौर्गत्यभावोत्पादितदुःस्थितिम् । आनाय्यादर्शयत्सोऽपि तां दृष्ट्वा संसृतिस्थितिम् ॥ १९७ ॥  
 स्मृत्वा धिगिति निन्दित्वा गृहीत्वा संयमं पुनः । मात्रा सहायुषः प्रान्ते क्रमात्स्वाराधनां श्रितः ॥ १९८ ॥  
 मृत्वा माहेन्द्रकल्पेऽभूद्ब्रह्मभद्रविमानके । सामानिकः सुरः सप्तसागरोपमजीवितः ॥ १९९ ॥  
 ज्यायानहमजाये त्वं कनिष्ठोऽभूस्ततद्रच्युतः । इति सोऽपि मुनिप्रोक्तश्रवणेन विरक्तवान् ॥ २०० ॥  
 दीक्षां गृहीतुमुद्युक्तो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविश्य नगरं जातसंविदप्रासुकाशनम् ॥ २०१ ॥  
 नाहमाहारयामीति कुमारोऽकृत निश्चितिम् । तद्वार्ताश्रवणाद्भूयो यः कश्चिद्भोजयत्यमुम् ॥ २०२ ॥  
 तस्मै 'सम्प्रार्थितं दास्यामीति संसद्यघोषयत् । तद्ज्ञात्वा दृढवर्माख्यः सप्तस्थानसमाश्रयः ॥ २०३ ॥  
 श्रावकः समुपेत्यैनं कुमार, ज्ञातिशत्रवः । तवैते स्वपरभ्वंसकोविदाः पापहेतवः ॥ २०४ ॥  
 भावसंयमविध्वस्तमकृत्वा प्रासुकाशनैः । करिष्ये भद्रं पर्युष्टिमविमुक्तस्य बन्धुभिः ॥ २०५ ॥  
 दुर्लभा संयमे हृत्तिरित्यबोचद्वितं वचः । सोऽपि मत्वा तदाचाम्लनिर्विकृत्य उरसाशनः ॥ २०६ ॥  
 दिव्यस्त्रीसन्निधौ स्थित्वा सदाविकृतचेतसा । नृणाय मन्यमानस्तास्तपो द्वादशवत्सरान् ॥ २०७ ॥

हुए भी भ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते हैं उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चा-  
 रित्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं ॥१९१-१९२॥  
 जो कषाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक ज्ञानके वशीभूत होकर जिह्वा, इन्द्रिय सम्बन्धी छह रसोंमें  
 आसक्त रहते हैं वे दुष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं ॥१९३॥ जो निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें  
 लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं । जिनके ज्ञान, चारित्र्य आदि घटते रहते हैं वे अवसन्न कह-  
 लाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कहलाते हैं । ये सब लोग महामोहका त्याग  
 नहीं होनेसे संसाररूपी अगाध कुँएमें बार-बार पड़ते हैं । गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव  
 मुनिको भी शान्त भावकी प्राप्ति हुई । यह जानकर गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति  
 हो रही थी ऐसी नागश्रीको बुलवाकर उसे दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका  
 स्मरण किया, अपने आपको धिक्कार दिया, अपनी निन्दाकर फिरसे संयम धारण किया और बड़े  
 भाई भगदत्त मुनिराजके साथ आयुके अन्तमें अनुक्रमसे चारों आराधनाओंका आश्रय लिया ।  
 मरकर अपने भाईके ही साथ माहेन्द्रस्वर्गके बयभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयु वाला  
 सामानिक देव हुआ ॥ १९४-१९६ ॥ वहाँसे चयकर बड़े भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ और  
 छोटे भाई भवदेवका जीव तू हुआ है । इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ  
 ॥ २०० ॥ वह दीक्षा लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । जिसे आत्म-  
 ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रा-  
 सुक आहार नहीं ग्रहण करूँगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोई कुमारको  
 भोजन करा देगा मैं उसे इच्छानुसार धन दूँगा । राजाकी यह घोषणा जानकर सात धर्मक्षेत्रोंका  
 आश्रयभूत दृढवर्मा नामक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! अपने और  
 दूसरेके आत्माको नष्ट करनेमें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए  
 हे भद्र ! भाव-संयमका नाश नहीं कर प्रासुक भोजनके द्वारा मैं तेरी सेवा करूँगा । जो परिवारके  
 लोगोंसे विमुक्त नहीं हुआ है अर्थात् उनके अनुरागमें फँसा हुआ है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना  
 दुर्लभ है, इस प्रकार द्वितकारी वचन कहे । कुमारने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचाम्ल  
 रसका आहार किया ॥ २०१-२०६ ॥ वह यद्यपि सुन्दर स्त्रियोंके समीप रहता था तो भी उसका

शरश्चिव निशातासिधारयां सम्प्रवर्तयन् । सन्न्यस्य जीवितप्रान्ते कल्पे <sup>१</sup>ब्रह्मोन्द्रनामनि ॥ २०८ ॥  
 विद्युन्मात्र्येष देवोऽभूद्देहीप्यास्रदिकटः । इत्यथ श्रेणिकप्रभादिदं शोषाच गौतमः ॥ २०९ ॥  
 विद्युन्मालिन एवामूर्द्ध्व्योऽत्रैत्येभ्यपुत्रिकाः । जम्बुनाम्नश्चतस्रोऽपि भार्यास्तेनाप्य संयमम् ॥ २१० ॥  
 सहान्त्यकल्पे भूत्वेह यास्यन्ति परमं पदम् । गत्वा सागरदत्ताख्यो दिवमत्रैत्य निर्धृतिम् ॥ २११ ॥  
 जम्बुनाम्नो गृहत्यागसमये यास्यतीत्यपि । सर्वमेतद्गणाधीशनायकभ्याहृतं मुदा ॥ २१२ ॥  
 निशम्य मगधाधीशो जिनं तं चान्ववन्दत । मानयन्ति न के सन्तः श्रेयो मार्गोपदेशिनम् ॥ २१३ ॥  
 अधान्येद्यः पुनः प्राप्य भगवन्तं भवान्तकम् <sup>२</sup> । प्रपूज्य प्रणतस्तस्मिन् सदस्युदिततेजसम् ॥ २१४ ॥  
 दृष्ट्वा तारागणे तारापतिं वा प्रीतिकेतनम् । प्रीतिङ्करं पुरानेन किं कृत्वा रूपमीदृशम् ॥ २१५ ॥  
 सम्प्राप्तमिति सोऽप्राङ्गीदृणभृच्चैवमब्रवीत् । एतस्मिन् मगधे देशे सुप्रतिष्ठाङ्ग्यं पुरम् ॥ २१६ ॥  
<sup>३</sup>जयसेनो महीपालः पालकस्तस्य लीलया । तत्र सागरदत्ताख्यः श्रेष्ठी तस्य प्रभाकरी ॥ २१७ ॥  
 भार्या तयोरभूद्भागदत्तो ज्येष्ठः सुतोऽनुजः । कुबेरदसो विशेषसमस्तदगृहवासिनः ॥ २१८ ॥  
 नागदत्तं विवर्ज्यान्ये सर्वेऽभूवृक्षुपासकाः । रत्नाकरेऽपि सद्रत्नं नामोत्पकृतपुण्यकः ॥ २१९ ॥  
 तेषां काले ब्रजत्येवं गिरौ धरणिभूषणे । वने प्रियङ्करोद्याने कदाचित्समवस्थितम् ॥ २२० ॥  
 मुनिं सागरसेनाख्यं जयसेननृपादयः । गत्वा सम्पूज्य वन्दित्वा धर्मं साध्वन्वयुञ्जत ॥ २२१ ॥  
 सोऽप्येचमब्रवीत्प्राप्तसम्यग्दर्शनलोचनाः <sup>४</sup> । दानपूजाभ्रतोपोषितादिभिः प्राप्तपुण्यकाः ॥ २२२ ॥

चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुच्छ मानता था । इस तरह उसने बारह वर्ष तक तीक्ष्ण तलवारकी धारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारणकर आयुके अन्त समयमें संन्यास धारण किया जिसके प्रभावसे ब्रह्मस्वर्गमें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाओंको व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है । यह कथा कहनेके बाद राजा श्रेणिकके पूछनेपर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देवकी जो स्त्रियाँ हैं वे सेठोंकी पुत्रियाँ होकर जम्बूकुमारकी चार स्त्रियाँ होंगी और उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगीं । सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहाँ से आकर जम्बूकुमारकी दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा । इस प्रकार गणधरोंमें प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ । अन्तमें उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गणधर दोनोंको नमस्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सज्जन हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देने वालेको नहीं मानते हैं—उसकी विनय नहीं करते हैं॥२०७—२१३॥

अथानन्तर—दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी भगवान् महावीर स्वामीके समीप पहुँचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया । वहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिङ्कर मुनिको देखकर गणधर देवसे पूछा कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है । राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था । उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम प्रभाकरी था । उन दोनोंके दो पुत्र हुए—उनमें नागदत्त बड़ा था और छोटा कुबेरकी समता रखने वाला कुबेरदत्त था । नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रत्नको नहीं प्राप्त करता है ॥ २१४—२१६ ॥ इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी समय धरणिभूषण नामक पर्वतके प्रियङ्कर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए । यह सुन राजा जयसेन आदिने जाकर उनकी पूजा-वन्दना की तथा धर्मका यथार्थ स्वरूप पूछा ॥ २२०—२२१ ॥ उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दर्शन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं

प्राप्नुवन्ति सुखं स्वर्गं चापवर्गं च संयमात् । मिथ्यादृष्टश्च दानादिपुण्येन स्वर्गजं सुखम् ॥२२३॥  
 सम्प्राप्नुवन्ति तत्रैते शममाहात्म्यतः पुनः । कालादिलुब्धिमिश्रित्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥ २२४ ॥  
 सद्धर्मलाभयोग्याश्च भवन्त्यभ्यर्णमोचनाः । अन्ये तु भोगसंस्का गाढमिथ्यात्वशक्त्याः ॥ २२५ ॥  
 हिंसानृतान्तरैरामारम्भपरिग्रहैः । पापं सञ्चित्य संसारदुष्कृपे निपतन्ति ते ॥ २२६ ॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा बहवो धर्ममाचरन् । अथ सागरदत्ताख्यश्रेष्ठिना स्वायुषोऽवधौ ॥२२७॥  
 परिपृष्टे मुनिश्चाह दिवसास्त्रिंशदित्यसौ । तच्छ्रुत्वा <sup>२</sup>नगरं श्रेष्ठी प्रविश्याष्टाह्निकीं मुदा ॥ २२८ ॥  
 पूजां विधाय दत्त्वात्मपदं ज्येष्ठाय सूनवे । आपृच्छय बान्धवान् सर्वान् द्वाविंशतिदिनानि सः ॥ २२९ ॥  
 सन्न्यस्य विधिवल्लोकमवापदस्मृताशिनाम् । अन्येद्युर्नागदत्तोऽसौ लोभेनाद्येन चोदितः ॥ २३० ॥  
 कुबेरदत्तमाहूय तव सारधनं पिता । किमदर्शयदित्येषं पृष्टवान् दुष्टचेतसा ॥ २३१ ॥  
 तीव्रलोभविषक्तोऽयमित्यसाववगम्य तत् । किमावाभ्यामविज्ञातं धनमस्ति गुरोः पृथक् ॥ २३२ ॥  
 सन्न्यस्य विधिना स्वर्गागतस्योपरि दूषणम् । महत्पापमिदं वक्तुं भ्रातस्त्व न युज्यते ॥ २३३ ॥  
 श्रोतुं ममापि चेत्याह सोऽप्यपास्यास्यं दुर्मतिम् । विभज्य सकलं वस्तु चैत्यचैत्यालयादिकम् ॥२३४॥  
 निर्माप्य जिनपूजाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुर्विधं पात्रत्रये भक्त्या प्रवर्त्य तौ ॥ २३५ ॥  
 कालं गमयतः स्तोत्राल्पिती प्रति परस्परम् । दत्त्वा सागरसेनाय कदाचिद्भक्तिपूर्वकम् ॥ २३६ ॥  
 भिक्षां कुबेरदत्ताख्यः सहितो धनमित्रया । अभिवन्द्य किमावाभ्यां तन्जो लप्स्यते न वा ॥ २३७ ॥  
 नैवं चेत्प्रजिष्याव इत्यप्राक्षीत्स चाब्रवीत् । युवां सुतं महापुण्यभागिनं चरमाज्ञकम् ॥ २३८ ॥

ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वर्गके सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोक्षके सुख पाते हैं । यदि मिथ्यादृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग-सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं । वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभावसे कालादि लुब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मको प्राप्त होनेके योग्य हो जाते हैं । यह बात निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंकी है परन्तु जो तीव्र मिथ्यादृष्टि निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, भ्रूठ, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, आरम्भ और परिग्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दुःखदायी कुर्पमें गिरते हैं ॥ २२२-२२६ ॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर बहुत लोगोंने धर्म धारण कर लिया । इसके पश्चात् सेठ सागरदत्तने अपनी, आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी बतलाई । यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बड़े हर्षसे आष्टाह्निक पूजाकर अपना पद अपने बड़े पुत्रके लिए सौंप दिया । तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्वक बाईस दिनका संन्यास धारण किया और अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया । किसी दूसरे दिन अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागदत्तने कुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखला गये हैं ? ॥ २२७-२३१ ॥ 'यह तीव्र लोभसे आसक्त हो रहा है' ऐसा समझकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्या पिताजीके पास अलगसे ऐसा कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों । वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं अतः उनपर दूषण लगाना बड़ा पाप है । भाई ! यह बात न तो तुम्हें कहनेके योग्य है और न मुझे सुननेके योग्य है । इस तरह कुबेरदत्तने नागदत्तकी सब दुर्बुद्धि दूर कर दी । सब धनका बाँट किया, अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिन-पूजाएँ कीं, तीनों प्रकारके पात्रोंके लिए भक्तिपूर्वक चार प्रकारका दान दिया । इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ रही है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे । किसी एक दिन कुबेरदत्तने अपनी स्त्री, धन, मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया । आहार देनेके बाद नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं ? ॥ २३२-२३७ ॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा धारण कर लें । इसके उत्तरमें

लभेथामिति तद्वाक्यश्रवणात्तोषिताशयौ । यद्येवं पूज्यपादस्य भवतः क्षुल्लकोऽस्त्वसौ ॥ २३९ ॥  
 तस्मिन्नुपश्रवत्येव दास्याव इति तौ सुखम् । भुञ्जानौ कतिचिन्मासांगमयित्वा सुतोत्तमम् ॥ २४० ॥  
 लब्ध्वा प्रीतिङ्कराङ्गानमेतस्याकुरुतां मुदा । करोतु स्वगुणैस्तोषं सर्वेषां जगतामिति ॥ २४१ ॥  
 पञ्चसंवत्सरातीतौ तस्मिन्धान्यपुरान्मुनौ । आगते सति गत्सैनमभिवन्द्य मुनीन्द्र ते ॥ २४२ ॥  
 क्षुल्लकोऽयं गृहाणेति तस्मै दशः स्म ते तदा । प्रतिगृह्य गुरुधान्यपुरमेव गतः पुनः ॥ २४३ ॥  
 तत्र तं सर्वशास्त्राणि दशवर्षाण्यशिक्षयत् । सोऽप्यासन्नविनेयत्वात्संयमग्रहणोत्सुकः ॥ २४४ ॥  
 'गुरुभिर्नार्यं ते दीक्षाकालोऽयमिति वारितः । तथैवास्विति तान्भक्त्या वन्दित्वा पितरौ प्रति ॥ २४५ ॥  
 पथि 'स्वाभ्यस्तशास्त्राणि शिष्टानां समुपादशम् । छात्रवेषधरो गत्वा सर्वबन्धुकदम्बकम् ॥ २४६ ॥  
 विलोक्यानन्तरं राज्ञा सम्यग्विहितसत्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुलादिभिः ॥ २४७ ॥  
 धनं बहुतरं सारं यावन्नावर्जयाम्यहम् । तावन्न संग्रहीष्यामि परनीमिति त्रिचिन्तयन् ॥ २४८ ॥  
 अन्येद्युर्नागरैः कैश्रिज्जलयान्रोमुत्सैः सह । यियासुर्बान्धवान्सर्वानापृच्छयैतत्प्रयोजनम् ॥ २४९ ॥  
 सम्मतस्तैर्नमस्कृतुं गत्वा गुरुमुदात्तधीः । पत्रमेकं निजाभिप्रेतार्थाक्षरसमथितम् ॥ २५० ॥  
 गुरुणापितमादाय कर्णे सुस्थाप्य सादरम् । शकुनाद्यनुकूल्येन ससखः पोतसाधनम् ॥ २५१ ॥  
 अवगाह्य पयोराशिं पुरं भूतिलकाङ्कयम् । परीतं बलयकारगिरिणा प्राप पुण्यवान् ॥ २५२ ॥

मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे । इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया । वे प्रसन्नचित्त होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पूज्यपादके चरणोंमें लुलक होवे । उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे । इस तरह सुखका उपभोग करते हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया । 'यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगा' ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्षसे प्रीतिङ्कर नाम रक्खा ॥ २३८-२४१ ॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये । कुबेरदत्त और धनमित्राने जाकर उनकी वन्दना की तथा कहा कि हे मुनिराज ! यह आपका लुलक है, इसे ग्रहण कीजिए इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया । मुनिराज भी उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमें चले गये ॥ २४२-२४३ ॥ वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वर्ष तक समस्त शास्त्रोंकी शिक्षा दी । यह बालक निकटभय था अतः संयम धारण करनेके लिए उत्सुक हो गया परन्तु गुरुओंने उसे यह कह कर रोक दिया कि हे आर्य ! यह तेरा दीक्षा-ग्रहण करनेका समय नहीं है । प्रीतिङ्करने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली । तदनन्तर वह भक्ति-पूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया । वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रोंका मार्गमें शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था । इस प्रकार वह छात्रका वेष रखकर अपने समस्त बन्धुओंके पास पहुँचा । जब राजाको उसके आनेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया । अपने-आपको कुल आदिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिङ्करने विचार किया कि जब तक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता हूँ तब तक मैं पत्नीको ग्रहण नहीं करूँगा ॥ २४४-२४८ ॥

किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयात्रा-समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए । उनके साथ प्रीतिङ्कर भी जानेके लिए उद्यत हुआ । उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई-बन्धुओंसे पूछा । सम्मति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका धारक प्रीतिङ्कर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया । गुरुने अपने अभिप्रेत अर्थको सूचित करनेवाले अक्षरोंसे परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया । उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँध लिया तथा शकुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जहाज पर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया । तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वह पुण्यात्मा, बलयके

शङ्खद्वार्यादिभिस्तस्मिन् ध्वनन्निः सम्मुखाक्षनान् । निर्गच्छतो प्रपश्यन्निराशङ्क्य वणिजां वरैः ॥ २५३ ॥  
 गत्वैतत्पुरमन्विष्य प्रत्येतुमिह कः सहः । इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रीतिक्रूरकुमारकः ॥ २५४ ॥  
 कर्मणोऽस्य समर्थोऽहमिति सङ्गीर्णवास्तदा । चोचबलकजनिष्पन्नरज्ज्वा तैरवतारितः ॥ २५५ ॥  
 विस्मयात्परितः <sup>१</sup>पश्यन्प्रविश्य नगरं पुरा । निरीक्ष्य भवनं जैनं परीत्य विहितस्तुतिः ॥ २५६ ॥  
 ततो गत्वायुधापातविगतासूक्ष्मरूपयन् । समन्तात्कन्यकां काञ्चिद्गच्छन्तीं सरसो <sup>२</sup>गृहान् ॥ २५७ ॥  
 केयमित्यनुयातोऽसौ तं सालोक्य गृहाङ्गणे । भद्रागतः कुतो चेति पीठमस्मै समर्पयत् ॥ २५८ ॥  
 सोऽपि तस्योपरि स्थित्वा नगरं केन हेतुना । सञ्जातमीदृशं ब्रूहीत्याह तामथ साब्रवीत् ॥ २५९ ॥  
 तद्वक्तुं नास्ति कालोऽस्मान्द्र त्वं याहि सत्वरम् । भयं महत्तवेहास्तीत्येतच्छ्रुत्वा स निर्भयः ॥ २६० ॥  
 यो भयं मम कर्ताऽत्र स किं बाहुसहस्रकः । इत्याह तद्भयोन्मुक्तवाग्गम्भीरविजृम्भणात् ॥ २६१ ॥  
 शिथिलीभूतभीः कन्याप्यवोचद्विस्तरेण तत् । एतत्खगाद्रथुदीच्यालकेश्वराः सहजास्त्रयः ॥ २६२ ॥  
 ज्यायान्हरिबलस्तस्य महासेनोऽनुजोऽनुजः । तस्य भूतिलकस्तेषु धारिण्यां ज्यायसोऽभवत् ॥ २६३ ॥  
 तनूजो भीमकस्तस्मादेव विद्याधरेशिनः । हिरण्यवर्मा श्रीमत्यामजायत सुतोऽपरः ॥ २६४ ॥  
 महासेनस्य सुन्दर्यामुग्रसेनः सुतोऽजनि । वरसेनश्च तस्यानुजा जाताहं वसुन्धरा ॥ २६५ ॥  
 कदाचिन्मत्पिता भौमविहारे विपुलं पुरम् । निरीक्ष्येदं चिरं चिराहारीति स्वीचिकीर्षुकः ॥ २६६ ॥  
 एतच्चिवांसिनीजित्वा रणे व्यन्तरदेवताः । <sup>३</sup>अत्र भूतिलकाख्येन सोदर्येण समन्वितः ॥ २६७ ॥

आकारवाले पर्वतसे घिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमें पहुँचा ॥ २४६-२५२ ॥ उस समय शङ्ख, तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगरके बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें जाकर तथा इस बातका पता चलाकर वापिस आनेके लिए कौन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर प्रीतिक्रूर कुमारने कहा कि मैं यह कार्य करनेके लिए समर्थ हूँ । वैश्योंने उसी समय उसे दालचीनीकी छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥ २५३-२५५ ॥ आश्चर्यसे चारों ओर देखते हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया । उसने मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर स्तुति की । उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगह शस्त्रोंके आघातसे बहुत लोग मरे पड़े हैं । उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी ओर जाती हुई एक कन्या दिखी । यह कौन है ? इस बातका पता चलानेके लिए वह कन्याके पीछे चला गया । घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिक्रूरको देखा तो उसने कहा, हे भद्र ! यहाँ कहाँसे आये हो ? यह कह कर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ॥ २५६-२५८ ॥ कुमारने उस आसन पर बैठ कर कन्यासे पूछा कि कहो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि यह कहनेके लिए समय नहीं है । हे भद्र ! तुम यहाँसे शीघ्र ही चले जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है । कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेवाले कुमारने कहा कि यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भयरहित गम्भीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने लगी । उसने कहा कि इस विजयार्थ पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भाई थे । हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा था । हरिबलकी रानी धारिणीसे भीमक नामका पुत्र हुआ था और उसीकी दूसरी रानी श्रीमतीसे हिरण्यवर्मा नामका दूसरा पुत्र हुआ था । महासेनकी सुन्दरी नामक स्त्रीसे उग्रसेन और वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं वसुन्धरा नामकी कन्या हुई ॥ २५६-२६५ ॥ किसी एक समय मेरे पिता पृथिवी पर विहार करनेके लिए निकले थे उस समय इस मनोहरी विशाल नगरको देख कर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई । पहले यहाँ कुछ व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जीतकर हमारे पिता यहाँ भूतिलक नामके भाईके

१ पुरतः पुरम् म० । नगरं प्रियः क०, घ०, ग० । पुरा ल० । २ यहम् म०, ल० । ३ अतो क०, ग०, घ० ।

इह संवासिभिर्भूयैः सेव्यमानः सुखेन सः । कालं गमयति स्मैवं कञ्चित्सञ्चितपुण्यकः ॥ २६८ ॥  
 इतः कनीयसे विद्यां भीमकायालकश्रियम् । दत्त्वा संसारभीरुत्वाञ्जिविद्य विजितेन्द्रियः ॥ २६९ ॥  
 कर्मनिर्मूलनं कर्तुं दीक्षां हरिबलाङ्गयः । विद्वान्विपुलमत्याख्यचारणस्याप्यसक्षिधौ ॥ २७० ॥  
 शुक्लध्यानानालालीढदुरिताष्टकदुष्टकः । अष्टमीमगमत्पृथ्वीमिष्टामष्टगुणान्वितः ॥ २७१ ॥  
 प्रकुर्वन् भीमको राज्यं विद्याः<sup>१</sup> शाठ्येन केनचित् । हिरण्यवर्मणो हृत्वा तं च हन्तुं समुद्यतः ॥ २७२ ॥  
 ज्ञात्वा हिरण्यवर्मैतत्सम्मेदाद्रिमशिश्रियत् । भीमकस्तं क्रुधान्वित्य गिरिं गन्तुमशक्तकः ॥ २७३ ॥  
 तीर्थेशसन्निधानेन तीर्थत्वादागमत्पुरम् । ततो हिरण्यवर्मापि पितृव्यं समुपागतः ॥ २७४ ॥  
 तच्छ्रुत्वा तं निराकर्तुं पूज्यपादोऽर्हतीत्यसौ । महासेनमहाराजं<sup>२</sup> प्राहिणोत्प्रतिपत्रकम् ॥ २७५ ॥  
 तस्यानिराकृतिं<sup>३</sup> तस्माद्ज्ञात्वात्यातं युयुत्सया । क्रूर एष दुरात्मेति मत्पिता भीमकं रणे ॥ २७६ ॥  
 निजित्य शृङ्खलाक्रान्तमकरोक्कमयोर्द्वयोः । पुनः क्रमेण शान्तात्मा नैतद्युक्तं ममेति तम् ॥ २७७ ॥  
 मुक्त्वा विधाय सन्धानं प्रशमय्य हितोक्तिभिः । हिरण्यवर्मणा सार्धं दत्त्वा राज्यञ्च पूर्ववत् ॥ २७८ ॥  
 विससर्ज तथावज्रा बद्धवैरः स भीमकः । हिरण्यवर्मणि प्रायो विद्यां संसाध्य राक्षसीम् ॥ २७९ ॥  
 तथा हिरण्यवर्मणं पापी मत्पितरं पुरम् । मद्बन्धूनपि विध्वंस्य मामुद्दिश्यागमिष्यति ॥ २८० ॥  
 इति सर्वं समाकर्ण्य कुमारो विस्मयं वहन् । शय्यातलस्थमालोक्य खड्गमेघ सुलक्षणः ॥ २८१ ॥

साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥ २६६-२६८ ॥ उधर इन्द्रियोंको जीतनेवाले विद्वान् राजा हरिबलको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्माके लिए विद्या दी और बड़े पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया । संसारसे भयभीत होनेके कारण विरक्त होकर उसने समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिए विपुलमति नामक चारण मुनिराजके पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोंको जलाकर आठ गुणोंसे सहित हो इष्ट आठवीं पृथिवी प्राप्त कर ली ( मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥ २६९-२७१ ॥ उधर भीमक राज्य करने लगा उसने किसी छलसे हिरण्यवर्माकी विद्याएँ हर लीं । यही नहीं, वह उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया ॥ २७२ ॥ हिरण्यवर्मा यह जानकर सम्मेदशिखर पर्वतपर भाग गया । क्रोधवश भीमकने वहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीर्थकर भगवान्के सन्निधान और स्वयं तीर्थ होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लौट आया । तदनन्तर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेनके पास चला गया ॥ २७३-२७४ ॥ जब भीमकने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं—हमारे पूजनीय हैं इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्माको वहाँसे निकाल दीजिए । महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता । यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ आया । 'यह दुरात्मा बहुत ही क्रूर है' यह समझ कर हमारे पिताने युद्धमें भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों पैर सांकलसे बाँध लिये । तदनन्तर अनुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पिताने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हितसे भरे शब्दोंसे उसे शान्त कर हिरण्यवर्माके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया । भीमक उस समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवर्माके साथ वैर नहीं छोड़ा । फलस्वरूप उस पापी भीमकने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्माको, मेरे पिताने तथा मेरे भाइयोंको मार डाला है, इस नगरको उजाड़ दिया है और अब मुझे लेनेके उद्देश्यसे आनेवाला है ॥ २७५-२८० ॥ यह सब कथा सुनकर आश्चर्यको धारण करते हुए कुमार प्रीतिकरने शय्यातलपर पड़ी हुई एक तलवारको देखकर कहा कि इस तलवारके बहुत ही अच्छे लक्षण हैं । यह तलवार जिसके हाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है । क्या तुम्हारे पिताने इस



यस्य हस्तगतो 'जेतुं तं शक्रोऽपि न शक्नुयात् । इति मत्वा पितानेन किं ते केनापि युद्धवान् ॥ २८२ ॥  
 इत्यप्राङ्गीत्स तां सापि न स्वप्नेऽपीत्यभाषत । तदा प्रीतिङ्करो हस्तगतमस्त्रं विधाय तत् ॥ २८३ ॥  
 तं हन्तुं निर्भयो भीमं गोपुराभ्यन्तरे स्थितः । निगूढतनुराविष्कृतोन्नतिर्वसुदं दधत् ॥ २८४ ॥  
 तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्ताद्दीक्ष्य भीमकः । स्वविद्यां प्रेषयामास इष्ट्वा दुष्टं जहीति तम् ॥ २८५ ॥  
 सम्यग्दृष्टिरयं सप्तविधभीतिविवर्गः । चरमाङ्गो महाशूरो नाहं हन्तुमिमं क्षमा ॥ २८६ ॥  
 इति भीत्वा तदभ्यर्णं सञ्चरन्तीमितस्ततः । विखोष्य भीमको विद्यां शक्तिहीनां व्यसर्जयत् ॥ २८७ ॥  
 निस्सारामूर्ध्वजैत्युक्त्वा साप्यगच्छददृश्यताम् । स्वयमेवासिमुत्खाय भीमकस्तं जिघांसुकः ॥ २८८ ॥  
 सम्प्राप्तवान्कुमारोऽपि तर्जयन्नतिभीषणम् । तद्घातं वञ्चयित्वाहंस्तं प्राणैः सोऽप्यमुच्यत ॥ २८९ ॥  
 ततो विष्वस्य दुष्टारिमायान्तमभिवीक्ष्य सा । कुमारं कन्यकाभ्येत्य व्यधास्त्वं भद्र साहसम् ॥ २९० ॥  
 इत्यारोप्यासनं स्वर्णमयं राजगुहाङ्गणे । अभिषिच्य जलापूर्णैः कलशैः कलधौतकैः ॥ २९१ ॥  
 विन्यस्य मणिभामासि मुकुटं चारुमस्तके । यथास्थानमशेषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥  
 विलासिनीकरोद्धयमानचामरशोभिनम् । भकरोत्तमिरीक्ष्याह प्रीतिङ्करकुमारकः ॥ २९३ ॥  
 किमेतदिति साबोधवदस्म्यस्याः स्वामिनी पुरः । दत्त्वा राज्यं मदीयं ते ३ पद्मवन्धपुरस्सरम् ॥ २९४ ॥  
 रत्नमालां गले कृत्वा त्वां प्रेम्णा समभीभवम् । इति तत्प्रोकमाकर्ण्य कुमारः प्रत्यभाषत ॥ २९५ ॥  
 विना पित्रोरनुज्ञानाञ्चैव स्वीक्रियसे मया । कोऽपि प्रागेव सङ्कल्पो विहितोऽयमिति स्फुटम् ॥ २९६ ॥  
 यद्येवं तत्समायोगकालेऽभीष्टं भविष्यति । इति तद्वचनं कन्या प्रतिपद्य धनं महत् ॥ २९७ ॥

तलवारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा । कन्याने उत्तर दिया कि इस तलवारसे पिताने स्वप्नमें भी युद्ध नहीं किया है । तदनन्तर प्रीतिङ्कर कुमारने वह तलवार अपने हाथमें ले ली ॥ २८१-२८३ ॥ जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रक्खा है और जो देदीप्यमान दिव्य तलवारको धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिङ्कर भीमकको मारनेके लिए गोपुरके भीतर छिप गया । उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सब और देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्याको भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो ॥ २८४-२८५ ॥ विद्या प्रीतिङ्करके पास जाते ही डर गई, वह कहने लगी कि यह सम्यग्दृष्टि है, सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है और महाशूरवीर है; मैं इसे मारनेके लिए समर्थ नहीं हूँ । इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी । यह देख, भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है तब उसने 'तू सारहीन है अतः चली जा' यह कह कर उसे छोड़ दिया और वह भी अदृश्यताको प्राप्त हो गई । विद्याके चले जानेपर प्रीतिङ्करको मारनेकी इच्छासे भीमक स्वयं तलवार उठाकर उस पर झपटा । इधर प्रीतिङ्करने भी उसे बहुत भयंकर डाँट दिखाकर तथा उसके वारको बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गये ॥ २८६-२८९ ॥ तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर आते हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आई और कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बड़ा साहस दिया है ॥ २९० ॥ इतना कहकर उसने राजभवनके आँगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया और जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशोंसे उसका राज्याभिषेक किया ॥ २९१ ॥ मणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दरमस्तक पर बाँधा; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहिनाये और विलासिनी स्त्रियोंके हाथोंसे ढोरे हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया । यह सब देख प्रीतिङ्कर कुमारने कहा कि यह क्या है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि 'मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँध कर अपने लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गलेमें डालकर प्रेमपूर्वक आपकी सहधामणी हो रही हूँ । यह सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाके बिना तुम्हें स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहलेसे ऐसा ही संकल्प कर रक्खा है । यदि तुम्हारा ऐसा आग्रह ही है तो माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा । कन्याने प्रीतिङ्करकी यह बात मान ली और बहुत-सा धन बाँधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा जहाजपर उतारनेके लिए

बभ्वावतरणायामि रज्ज्वा तेन सह स्वयम् । यियासुरासीद्रज्जुं तां <sup>१</sup>प्रमोदात्सोऽप्यचालयत् ॥ २९८ ॥  
सद्यस्तञ्चालनं इष्ट्वा नागदत्तो बहिर्गतः । समाकृष्याग्रहीचञ्च ताञ्च द्रव्यञ्च तुष्टवान् ॥ २९९ ॥  
पोतप्रस्थानकालेऽस्थ्याः साराभरणसंहतिम् । विस्मृतां स कुमारस्तामानेतुं गतवान् पुनः ॥ ३०० ॥  
नागदत्तस्तदा रज्जुमाकृष्य द्रव्यमेतया । सारं सम्प्राप्तमेतन्मे भोक्तुमामरणाञ्जवेत् ॥ ३०१ ॥  
कृतार्थोऽहं कुमारेण यद्वा तद्दानुभूयताम् । इति <sup>२</sup>प्रास्थित सार्धं तैर्लब्धरन्ध्रो वणिग्जनैः ॥ ३०२ ॥  
नागदत्तोऽङ्कितं ज्ञात्वा कन्यका मौनमग्रवीत् । प्रीतिङ्कराद्विनाश्रान्यैर्न वदान्यहमित्यसौ ॥ ३०३ ॥  
नागदत्तोऽपि कन्यैषा मूकीति प्रतिपादयन् । तां द्रव्यरक्षणेऽयौक्षीत्प्रीत्या स्वाङ्कुलिसञ्जया ॥ ३०४ ॥  
क्रमात्स्वनगरं प्राप श्रेष्ठां प्रीतिङ्करस्तदा । गतो भूतिलकं नायात्कुत इत्यवदत्स तम् ॥ ३०५ ॥  
नागदत्तमसौ नाहं जानामीत्युत्तरं ददौ । भूषणानि समादाय समुद्रतटमागतः ॥ ३०६ ॥  
नागदत्तेन पापेन श कुमारोऽतिसन्धितः । अष्टष्टा पोतमुद्रिभः पुरं प्रति निवृत्तवान् ॥ ३०७ ॥  
सचिन्तस्तत्र जैनेन्द्रगोहमेकं विलोक्य तम् । पुष्पादिभिः समभ्यर्च्य विधाय विधिवन्दनाम् ॥ ३०८ ॥  
जिन <sup>३</sup>त्वद्दृष्टमात्रेण मत्पापं क्वाप्यलीयत । निशि दीपेन वा ध्वान्तं समुन्मीलितचक्षुषः ॥ ३०९ ॥  
चेतनः कर्मभिर्प्रस्तः सर्वोऽप्यन्यदचेतनम् । सर्ववित्कर्मनिर्मुक्तो जिन केनोपमीयसे ॥ ३१० ॥  
साङ्कथादीन् लोकविल्यातान् सर्वथा सावधारणान् । एको भवान् जिनाजैषीच्छिन्नं निरवधारणः ॥ ३११ ॥  
अबोधतमसाक्रान्तमनाद्यन्तं जगत्त्रयम् । सुप्तं त्वमेव जागर्सि शश्वद्विषं च पश्यसि ॥ ३१२ ॥

कुमारके साथ किनारे पर आ गई। कुमारने भी बड़े हर्षसे वह रस्सी हिलाई। रस्सीका हिलना देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याको तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपूर्ण आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ॥ २९२-३०० ॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने वह रस्सी खींच ली और 'इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतिङ्करकुमार जैसा-तैसा रहे' ऐसा विचार कर और छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ॥ ३०१-३०२ ॥ कन्याने नागदत्तका अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाजपर प्रीतिङ्करके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूंगी ॥ ३०३ ॥ नागदत्तने भी लोगों पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूँगू है और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके साथ द्रव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ॥ ३०४ ॥ अनुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया। पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिङ्कर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागदत्तने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आभूषण लेकर प्रीतिङ्कर कुमार समुद्रके तटपर आया परन्तु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था। जहाजको न देखकर वह उद्विग्न होता हुआ नगरकी ओर लौट गया ॥ ३०५-३०७ ॥ चिन्तासे भरा प्रीतिङ्कर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिकसे उसने वहाँ विधिपूर्वक भगवान्की पूजा-वन्दना की। तदनन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा ॥ ३०८ ॥

'हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नेत्रवाले मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥ ३०९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे प्रसित संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ॥ ३१० ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आप इन्द्रिय-ज्ञानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-ज्ञानसे सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आश्चर्यकी बात है ॥ ३११ ॥ हे देव ! आदि और अन्तसे रहित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा

वस्तुबोधे विनेयस्य जिनेन्द्र भवदागमः । निर्मलः शर्मदो हेतुरालोको<sup>१</sup> वा सचक्षुषः ॥ ३१३ ॥  
 इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः शुद्धश्रद्धावबोधनः । सम्यक्संसारसंज्ञावं भावयन्कर्मनिर्मितम् ॥ ३१४ ॥  
<sup>२</sup>अभिवेचनशालायां सुसवान्किञ्चिदाकुलः । तदा नन्दमहानन्दावागतौ गुह्यकामरौ ॥ ३१५ ॥  
 वन्दितुं मन्दिरं जैनं वीक्ष्य तं कर्णपत्रकम् । तौ तदीयं समादाय सधर्मा<sup>३</sup>वां कुमारकः ॥ ३१६ ॥  
 इति प्रापयतं वैवौ द्रव्येण महता सह । सुप्रतिष्ठं पुरं प्रीतिङ्करमेनं प्रभोदिनम् ॥ ३१७ ॥  
 प्रेषणं युवयोरेतदस्माकमिति तद्गतम् । गुरोः सन्देशमालोक्य<sup>४</sup> स्मृत्वा प्राग्भववृत्तकम् ॥ ३१८ ॥  
 वाराणस्यां पुरे पूर्वं धनदेववणिक्पतेः । भूत्वावां जिनदत्तायां शान्तवो रमणः सुतौ ॥ ३१९ ॥  
 तत्र शास्त्राणि सर्वाणि विदित्वा ग्रन्थतोऽर्थतः । चोरशास्त्रबलात्पापौ परार्थहरणे रतौ ॥ ३२० ॥  
 अभूवात्सद्गुरुस्तस्मान्निवारयितुमक्षमः । सर्वसङ्गपरित्यागमकरोदतिदुस्तरम् ॥ ३२१ ॥  
 इतो धान्यपुराभ्यर्णशिखिभूधरनामनि । भूधरे मुनिमाहात्म्याद् दुष्ट्याः शार्दूलकादयः ॥ ३२२ ॥  
 मृगाः कांश्चिन्न बाधन्त इति भूत्वा जनोदितम्<sup>५</sup> । कृततद्भूधरावासौ तत्र भूरितपोधनम् ॥ ३२३ ॥  
 इष्ट्वा सागरसेनाख्यं तत्समीपे जिनोदितम् । श्रुत्वा धर्मं परित्यज्य मधुमांसादिभक्षणम् ॥ ३२४ ॥  
 तस्मिन्पुरौ ततः सुप्रतिष्ठाख्यनगरं गते । शार्दूलोपद्रवान्मृत्वा देवभूर्यं गताविदम् ॥ ३२५ ॥  
 सर्वमेतद्गुरोराश्रयतादित्यभिमत्स्य तम् । गत्वा सम्प्राप्य सम्पूज्य किमावाभ्यां निवेशनम् ॥ ३२६ ॥  
 कर्तव्यमिति सम्पृष्टो मुनिनाथोऽब्रवीदसौ । अतः परं दिनैः कैश्चित्कर्तव्यं यद्भवविष्यति ॥ ३२७ ॥

है उसमें केवल आप ही जग रहे हैं और समस्त संसारको देख रहे हैं ॥ ३१२ ॥ हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार चन्द्रसहित मनुष्यको पदार्थका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्यजनोंको वस्तु-तत्त्वका ज्ञान हानेमें आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है ॥ ३१३ ॥ इस प्रकार शुद्ध ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीतिङ्कर कुमारने अपने द्वारा बनाया हुआ स्तोत्र पढ़ा तथा कर्मके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥ ३१४ ॥ तदनन्तर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिवेकशाला ( स्नानगृह ) में सो गया । उसी समय नन्द और महानन्द नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए आये ॥ ३१५ ॥ उन्होंने जिन-मन्दिरके दर्शनकर प्रीतिङ्करके कानमें बँधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया । पत्रमें लिखा था कि 'यह प्रीतिङ्करकुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमारको तुम बहुत भारी द्रव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो । तुम दोनोंके लिए मेरा यही कार्य है' इस प्रकार उन दोनों देवोंने उस पत्रसे अपने गुरुका संदेश तथा अपने पूर्वभवका सब समाचार जान लिया ॥ ३१६-३१८ ॥ पहले बनारस नगरमें धनदेव नामका एक वैश्य रहता था । हम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव और रमण नामके दो पुत्र हुए थे ॥ ३१९ ॥ वहाँ हमने ग्रन्थ और अर्थसे सब शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अभ्यास होनेसे हम दोनों दूसरेका धन-हरण करनेमें तत्पर हो गये ॥ ३२० ॥ हमारे पिता भी हम लोगोंको इस चोरीके कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया अर्थात् मुनिदीक्षा धारण कर ली ॥ ३२१ ॥ इधर धान्यपुर नगरके समीप शिखिभूधर नामक पर्वत पर मुनिराजके माहात्म्यसे वहाँपर रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव भी किसीको बाधा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार लोगोंका कहना सुनकर हम दोनोंने उस पर्वतको सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी मुनिराज रहते थे हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये, उनके समीप जैनधर्मका उपदेश सुना और मधु, मांस आदिका त्याग कर दिया ॥ ३२२-३२४ ॥ तदनन्तर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगरमें चले जानेपर सिंहके उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस देव-पर्यायको प्राप्त हुए हैं ॥ ३२५ ॥ 'यह सब गुरु महाराजसे लिये हुए व्रतके प्रभावसे ही हुआ है' ऐसा जानकर हम दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा की और

भवद्भ्यामेव तद्ज्ञात्वा विधेयमिति सादरम् । स एष तस्य सन्देश इति पत्रं प्रदत्तय तत् ॥ ३२८ ॥  
 द्रव्येण बहुना सार्धं विमानमधिरोष्य तम् । सुप्रतिष्ठपुराभ्यर्णं गिरिं धरणिभूषणम् ॥ ३२९ ॥  
 सद्यः प्रापयतः स्मैतौ किं न कुर्यादयोदयः । तदागमनमाकर्ण्य भूपतिस्तस्य बान्धवाः ॥ ३३० ॥  
 नागराश्च विभूत्यै न सम्मदात्समुपागताः । तेभ्यः प्रीतिङ्करं दत्त्वा स्वावासं जग्मतुः सुरौ ॥ ३३१ ॥  
 पुरं प्रविश्य सद्गन्धैः स महीशमपूजयत् । सोऽपि सम्भाव्य तं स्थानमानादिभिरतोषयत् ॥ ३३२ ॥  
 अथान्येषुः कुमारस्य ज्यायसीं प्रियमित्रिकाम् । मातरं स्वतनूजस्य प्राप्ये परिणयोत्सवे ॥ ३३३ ॥  
 आत्मक्षुषामलङ्कृतुं रत्नाभरणसंहतिम् । गृहीत्वा रथमारुह्य महादर्शनकर्मणे ॥ ३३४ ॥  
 यान्तीं द्रष्टुं समायाता रथ्यायां मूकिका स्वयम् । वीक्ष्य स्वभूषासन्दोहं स्पष्टमङ्गुलिसञ्जया ॥ ३३५ ॥  
 मदीयमेतदित्युक्त्वा जनान् सा तां रथस्थिताम् । रुध्वा स्थितवती सापि प्राहैषा ग्रहिलेति ताम् ॥ ३३६ ॥  
 तद्ज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परीक्ष्येयं न भूतोपसृष्टेति व्यक्तमब्रुवन् ॥ ३३७ ॥  
 कुमारोऽपि तदाकर्ण्य न विभेत् कुमारिका । राजाभ्याशं समभ्येतु तत्राहं चास्म्युपस्थितः ॥ ३३८ ॥  
 इत्यस्याः प्राहिणोत्पत्रं गुढं तद्वीक्ष्य तत्तथा । श्रद्धायाह्लाथिता राज्ञः समीपमगमन्मुदा ॥ ३३९ ॥  
 तदाभरणवृत्तान्तपरिच्छेदाय भूपतिः । धर्माध्यक्षान्समाहूय विचाराय न्ययोजयत् ॥ ३४० ॥  
 वसुन्धराश्च तत्रैव कृत्वा सन्निहितां तदा । राजा कुमारमप्राक्षीद्वैसीदं किं भवानिति ॥ ३४१ ॥  
 अभिधाय स्वविज्ञातं शेषं वेत्तीयमेव तत् । देवता नाहमित्येवं सोऽपि भूपमबोधयत् ॥ ३४२ ॥

तदनन्तर दोनोंने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराज हा वह संदेश यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥ ३२६-३२८ ॥ इसके पश्चात् उन देवोंने बहुतसे धनके साथ उस प्रीतिङ्करको विमानमें बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवर्ती धरणिभूषण नामके पर्वतपर उसे शीघ्र ही पहुँचा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यका उदय क्या नहीं करता है ? प्रीतिङ्करका आना सुनकर राजा, उसके भाई-बन्धु और नगरके लोग बड़े हर्षसे अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये । उन देवोंने वह प्रीतिङ्कर कुमार उन सबके लिए सौपा और उसके बाद वे अपने निवास-स्थानपर चले गये ॥ ३२९-३३१ ॥ प्रीतिङ्करने नगरमें प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा की और राजाने भी योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसे संतुष्ट किया ॥ ३३२ ॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिङ्कर कुमारकी बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके विवाहोत्सवमें अपनी पुत्रवधूको अलङ्कृत करनेके लिए रत्नमय आभूषणोंका समूह लेकर तथा रथपर सवार होकर सबको दिखलानेके लिए जा रही थी । उसे देखनेके लिए वह गूंगी कन्या स्वयं मार्गमें आई और अपने आभूषणोंका समूह देखकर उसने अँगुलीके इशारेसे सबको बतला दिया कि यह आभूषणोंका समूह मेरा है । तदनन्तर वह कन्या रथमें बैठी हुई प्रियमित्राको रोककर खड़ी हो गई । इसके उत्तरमें रथपर बैठी हुई प्रियमित्राने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली है ॥ ३३३-३३६ ॥ तब मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोंने विधिपूर्वक मन्त्र-तन्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया कि न यह पागल है और न इसे भूत लगा है ॥ ३३७ ॥ यह सुनकर प्रीतिङ्कर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारि ! तू बिलकुल भय मत कर, राजाके पास आ, मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा । पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हर्षसे राजाके समीप गई । राजाने भी उसके आभूषणोंका वृत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियोंको बुलाकर नियुक्त किया ॥ ३३८-३४० ॥ राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही आड़में बिठलाकर कुमार प्रीतिङ्करसे पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं ? ॥ ३४१ ॥ इसके उत्तरमें कुमारने अपना जाना हुआ हाल कह दिया और फिर राजासे समझाकर कह दिया कि बाकीका हाल मैं नहीं जानता

गन्धादिभिः समभ्यर्च्य तां पदान्तरितां नृपः । देव ते ब्रूहि यद्दृष्टं तत्रायेत्यनुयुक्तवान् ॥ ३४३ ॥  
 सा नागदत्तबुद्धचेष्टां महीनाथमब्रूषुषत् । श्रुत्वा तत्सुविचार्यास्मै कुपित्वानेन पापिना ॥ ३४४ ॥  
 कृतः पुत्रवधः स्वामिवधश्चेति महीपतिः । सर्वस्वहरणं कृत्वा निगृहीतुं तमुद्यतः ॥ ३४५ ॥  
 प्रतिषिद्धः कुमारेण नैतद्युक्तं तवेति सः । सौजन्यतस्तदा तुष्ट्वा कुमाराय निजात्मजाम् ॥ ३४६ ॥  
 पृथिवीसुन्दरीं नाम्ना कन्यकाञ्च वसुन्धराम् । द्वात्रिंशद्द्वैश्यपुत्रीश्च कल्याणविधिना ददौ ॥ ३४७ ॥  
 सह पूर्वधनस्थानमर्षराज्यञ्च मावते । पुरा विहितपुण्यानां स्वयमायान्ति सम्पदः ॥ ३४८ ॥  
 प्रीतिः प्रीतिङ्करस्तत्र कामभोगान्समीप्सितान् । स्वेच्छया वर्धमानेच्छशिरायानुबभूव सः ॥ ३४९ ॥  
 मुनौ सागरसेनाख्ये सन्न्यस्यान्येद्यरीयुधि । लोकान्तरं तदागत्य चारणौ समुपस्थितौ ॥ ३५० ॥  
 ऋजुञ्ज विपुलाख्यश्च मत्स्यन्तौ मतिभूषणौ । रम्ये मनोहरोद्याने गत्वा स्तुत्वा वणिग्वरः ॥ ३५१ ॥  
 धर्मं समन्वयुक्तैतावित्याहर्जुमतिस्तयोः<sup>१</sup> । धर्मोऽपि द्विविधो ज्ञेयः स गृहगृहभेदतः ॥ ३५२ ॥  
 एकादशविधस्तत्र धर्मो गृहनिवासिनाम् । श्रद्धा न व्रतभेदादिः श्रेयो दशविधः स्मृतः ॥ ३५३ ॥  
 क्षान्त्यादिः कर्मविध्वंसी तच्छ्रुत्वा तदनन्तरम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं पप्रच्छैवञ्च सोऽब्रवीत् ॥ ३५४ ॥  
 शृणु सागरसेनाख्यमुनिमातपयोगिनम् । पुरेऽस्मिन्नेव भूपालप्रमुखा वन्दितुं गताः ॥ ३५५ ॥  
 नानाविधार्चनाद्रव्यैः सम्पुण्य पुरमागताः । शङ्कतूर्पादिनिर्घातं<sup>२</sup> श्रुत्वैकमिह जम्बुकम् ॥ ३५६ ॥  
 कश्चिन्नोकान्तरं यातः पुरेऽधैतं जनो बहिः । क्षिप्त्वा यातु ततो भक्षयिष्यामीत्यागतं<sup>३</sup> मुनिः ॥ ३५७ ॥

यह देवी ही जानती है ॥ ३४२ ॥ राजाने कपड़ेकी आड़मे बैठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे पूजा कर पूछा कि हे देवि ! तूने जो देखा हो वह ज्योंका त्यों कह ॥ ३४३ ॥ इसके उत्तरमें उस देवीने राजाको नागदत्तकी सब दुष्ट चेष्टाएँ बतला दीं । उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ । उसने कहा कि इस पापीने पुत्रवध किया है और स्वामि-द्रोह भी किया है । यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा लिया और उसका निग्रह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिङ्करने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है । उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथिवीसुन्दरी नामकी कन्या, वह वसुन्धरा नामकी कन्या तथा वैश्योंकी अन्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दीं ॥ ३४४-३४७ ॥ इसके सिवाय पहलेका धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य किया है ऐसे मनुष्योंको सम्पदाएँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३४८ ॥ इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिङ्कर कुमारने वहाँ अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया ॥ ३४९ ॥

तदनन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वर्ग चले गये । उसी समय वहाँ बुद्धि-रूपी आभूषणोंसे सहित ऋजुमति और विपुलमति नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये । प्रीतिङ्कर सेठने जाकर उनकी स्तुति की और धर्मका स्वरूप पूछा । उन दोनों मुनियोंमें जो ऋजुमति नामके मुनिराज थे वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए । गृहस्थोंका धर्म दर्शन-प्रतिमा, व्रत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मोंका ज्ञय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है । धर्मका स्वरूप सुननेके बाद प्रीतिङ्करने मुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा । इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि मुनो, मैं कहता हूँ—किसी समय इसी नगरके बाहर सागरसेन मुनिराजने आतापन योग धारण किया था इसलिए उनकी वन्दनाके लिए राजा आदि बहुतसे लोग गये थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शङ्क तुखी आदि बाजोंके साथ नगरमें आये थे । उन बाजोंका शब्द सुनकर एक शृगालने विचार किया

भक्त्योऽथं व्रतमादाय मुक्तिमाशु गमिष्यति । इति मत्वा तमासन्नमसावेवंमभाषत ॥ ३५८ ॥  
 प्रागजन्मकृतपापस्य फलेनाभूः शृगालकः । इदानीञ्च कुधीः साधुसमायोगेऽपि मन्यसे ॥ ३५९ ॥  
 दुष्कर्मं विरमैतस्माद्दुरन्तदुरितावहात् । गृहाण व्रतमध्येहि परिणामशुभावहम् ॥ ३६० ॥  
 इति तद्वचनादेव मुनिर्मन्मनसि स्थितम् । ज्ञातवानिति सक्षात्सम्मदं स शृगालकम् ॥ ३६१ ॥  
 मुनिस्तद्विज्ञिताभिज्ञः पुनरेवं समव्रवीत् । त्वमन्यस्य न शक्नोषि व्रतस्याभिषलाकसः ॥ ३६२ ॥  
 गृहाणेदं व्रतं श्रेष्ठं रात्रिभोजनवर्जनम् । परलोकस्य पाथेयमिति धर्म्यं मुनेर्वचः ॥ ३६३ ॥  
 श्रुत्वा भक्त्या परीत्यैव प्रणम्य कृतसम्मदः । गृहीत्वा तद्व्रतं मद्यमांसादीनि च सांख्यजम् ॥ ३६४ ॥  
 तदा प्रभृति शाल्यादि विशुद्धाशनमाहरन् । अतिकृच्छ्रं तपः कुर्वन् कञ्चिच्छालमजीगमत् ॥ ३६५ ॥  
 शुष्काहारमथाप्येद्युर्मुक्त्वा वृष्णातिबाधितः । अकांस्तमयवेक्षायां पयःपानाभिलाषया ॥ ३६६ ॥  
 कूर्पं सोपानमार्गेण प्रविशयान्तः किमप्यसौ । तत्रालोकमनालोक्य दिनेशांस्तमुपागतः ॥ ३६७ ॥  
 इति निर्गत्य इष्टामां पुनः पातुं प्रविष्टवान् । गोमायुरेवं द्विस्त्रिर्वा कुर्वन्तत्र गमागमौ ॥ ३६८ ॥  
 दिनेशमस्तमानीय सोढवृष्णापरीषहः । विशुद्धपरिणामेन मृतिमित्वा दृढव्रतः ॥ ३६९ ॥  
 एवं कुबेरदास्य भूत्वा प्रीतिङ्करः सुतः । व्रतेन धनमिन्नायामीदृगैश्वर्यमाप्तवान् ॥ ३७० ॥  
 इति तद्वचनाज्जातसंवेगस्तं यतीश्वरम् । हांसन् व्रतस्य माहात्म्यमभिवन्द्य ययौ गृहम् ॥ ३७१ ॥  
 निर्घ्रतः संसृतौ दीर्घमघनन् दुःखान्यनारतम् । अपारं खेदमायाति दुर्भिक्षे दुर्विधो यथा ॥ ३७२ ॥

कि 'आज कोई नगरमें मर गया है इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे खाऊँगा' ऐसा विचार कर वह शृगाल मुनिराजके समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समझ गये कि यह भव्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकटभव्यसे इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अब शृगाल हुआ है और अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलने पर भी उसी दुष्कर्मका विचार कर रहा है। हे भव्य ! तू दुःखदायी पापको देनेवाले इस दुष्कर्मसे विरत हो व्रत ग्रहण कर और शुभ परिणाम धारण कर ॥ ३५०-३६० ॥ मुनिराजके यह वचन सुनकर शृगालको इस बातका बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते हैं। शृगालकी चेष्टाको जाननेवाले मुनिराजने उस शृगालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य व्रत ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है अतः रात्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराजके वचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल (पाथेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपूर्ण वचन सुनकर वह शृगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया और रात्रिभोजन त्यागका व्रत लेकर मद्य-मांस आदिका भी त्याग कर दिया ॥ ३६१-३६४ ॥ उस समयसे वह शृगाल चावल आदिका विशुद्ध आहार लेने लगा। इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया ॥ ३६५ ॥ किसी एक दिन उस शृगालने सूखा आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीढ़ियोंके मार्ग-द्वारा किसी कुएँके भीतर गया। कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि सूर्य अस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये ही बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएँके भीतर गया। इस तरह वह शृगाल दो तीन बार कुएँके भीतर गया और बाहर आया। इतनेमें सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान, उस शृगालने अपने व्रतमें दृढ़ रहकर वृषः-परीषह सहन किया और विशुद्ध परिणामोंसे मरकर कुबेरदत्त सेठकी धनमित्रा स्त्रीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ। व्रतके प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर प्रीतिकर संसारसे भयभीत हो उठा, उसने व्रतके माहात्म्यकी बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजको नमस्कार कर वह अपने घर लौट आया ॥ ३६६-३७१ ॥ आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुःख पढ़ने पर दरिद्र मनुष्य बहुत ही दुःखी होता है उसी प्रकार इस संसारमें व्रतरहित मनुष्य दीर्घकाल तक दुःख भोगता हुआ निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता

व्रतात्प्रत्ययमायाति निव्रतः शङ्कयते जनैः । व्रती सफलवृक्षो वा निव्रतो वन्ध्यवृक्षवत् ॥ ३७३ ॥  
 अभीष्टफलमाप्नोति व्रतवान्परजन्मनि । न व्रतादपरो बन्धुर्नाव्रतादपरो रिपुः ॥ ३७४ ॥  
 सर्वैर्वांग्रतितो प्राह्य निव्रतस्य न केनचित् । उग्राभिर्देवताभिश्च व्रतवाक्त्राभिभूयते ॥ ३७५ ॥  
 जन्तोऽपि नमन्येव व्रतवन्तं १ वयोनवम् । वयोवृद्धो व्रताद्धीनस्तुणवद्गण्यते जनैः ॥ ३७६ ॥  
 प्रवृत्त्यादीयते पापं निवृत्त्या तस्य सङ्क्षयः । व्रतं निवृत्तिमेवाहुस्तद्गृह्णात्युत्तमो व्रतम् ॥ ३७७ ॥  
 व्रतेन जायते सम्पन्नाव्रतं सम्पदे भवेत् । तस्मात्सम्पदमाकांक्षन्तिःकांक्षः सुव्रतो भवेत् ॥ ३७८ ॥  
 स्वर्गापवर्गयोर्बीजं जन्तोः स्वरूपमपि व्रतम् । तत्र प्रीतिङ्करो वाच्यो व्यक्तं दृष्टान्तकांक्षिणाम् ॥ ३७९ ॥  
 पूर्वोपात्तव्रतस्येष्टं फलमत्रानुभूयते । क्वचित्कदाचित्किञ्चित्किञ्चित् जायते कारणाद्दिना ॥ ३८० ॥  
 कारणादिच्छता कार्यं कार्ययोः सुखदुःखयोः । धर्मपापे विपर्यस्ते तदा वान्यरादीक्ष्यताम् ॥ ३८१ ॥  
 धर्मपापे १ विसुख्यान्यद्विदित्यं कारणं वदन् । को विधीर्धर्मसनी नोचेन्निर्युणो नास्तिकोऽथवा ॥ ३८२ ॥  
 धीमानुदीक्षते ३ पश्यन् जन्मनोऽस्य हिताहिते । भाविनस्ते प्रपश्यन्तः स्युर्न धीमत्समाः कैयम् ॥ ३८३ ॥  
 इति मत्वा जिनप्रोक्तं व्रतमादाय बुद्धधीः । स्वर्गापवर्गसौख्याय यतेताविष्कृतोद्यमः ॥ ३८४ ॥  
 अथ प्रियङ्कराख्याय साभिषेकं स्वसम्पदम् । वसुन्धरातुजे प्रीतिङ्करोऽदथ विरक्तधीः ॥ ३८५ ॥  
 पत्य राजगृहं सार्धं बहुभिर्भृत्यबान्धवैः । भगवत्पार्श्वमासाद्य संयमं प्राप्तवानयम् ॥ ३८६ ॥

रहता है ॥ ३७२ ॥ व्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास करते हैं और व्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शङ्कित रहते हैं । व्रती फलसहित वृक्षके समान हैं और अव्रती फलरहित वन्ध्य वृक्षके समान है ॥ ३७३ ॥ व्रती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट फलको प्राप्त होता है इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीवका व्रतसे बढ़कर कोई भाई नहीं है और अव्रतसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है ॥ ३७४ ॥ व्रती मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु व्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता । बड़े-बड़े देवता भी व्रती मनुष्यका तिरस्कार नहीं कर पाते हैं ॥ ३७५ ॥ व्रती मनुष्य अवस्थाका नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं और वृद्धजन व्रतरहित हो तो उसे लोग लृणके समान तुच्छ समझते हैं ॥ ३७६ ॥ प्रवृत्तिसे पापका ग्रहण होता है और निवृत्तिसे उसका क्षय होता है । यथार्थमें निवृत्तिको ही व्रत कहते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य व्रतको अवश्य ही ग्रहण करते हैं ॥ ३७७ ॥ व्रतसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है और अव्रतसे कभी संपत्ति नहीं मिलती इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चाहिये ॥ ३७८ ॥ इस जीवके लिए छोटा-सा व्रत भी स्वर्ग और मोक्षका कारण होता है इस विषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीतिकरका दृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥ ३७९ ॥ जिन्होंने पूर्वभ्रममें अच्छी तरह व्रतका पालन किया है वे इस भ्रममें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है क्योंकि बिना कारणके क्या कभी कोई कार्य होता है ? ॥ ३८० ॥ जो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःख रूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिये अर्थात् धर्मसे सुख और पापसे दुःख होता है ऐसा मानना चाहिये । जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फलकी ही प्राप्ति होती देखी जाती है ॥ ३८१ ॥ यदि वह मूर्ख, व्यसनी, निर्दय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पापको छोड़कर सुख और दुःखका कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कौन कहेगा ? ॥ ३८२ ॥ जो केवल इसी जन्मके हित अहितको देखता है वह भी बुद्धिमान् कहलाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-अहितका विचार रखते हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान् क्यों नहीं कहलावें ? अर्थात् अवश्य ही कहलावें ॥ ३८३ ॥ ऐसा मानकर शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषको चाहिये कि वह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे ॥ ३८४ ॥ तदनन्तर विरक्त बुद्धिको धारण करनेवाले प्रीतिकरने अपनी स्त्री वसुन्धराके पुत्र प्रियङ्करके लिए अभिषेकपूर्वक अपनी सब सम्पदाएँ समर्पित कर दीं और अनेक सेवक तथा भाई-बन्धुओंके साथ राजगृह नगरमें भगवान्

१ वक्षसं नवो वयोनवस्तम् नवयौवनसम्पन्नम् । 'सयौवनम्' इति क्वचित्, नवयौवनम् (?) २ विसुख्यान्यद्विदित्यं ३ प्रपश्यन् ४ ।

निश्चयव्यवहाराम्सारनिर्वाणसाधनम् । निरूपमोक्षसन्मार्गभावनं तद्वहोदयात् ॥ ३८७ ॥  
 निहत्य घातिकर्माणि प्राप्यानन्तचतुष्टयम् । अवातीनि च विध्वंस्य पारमार्थ्यं प्रयास्यति ॥ ३८८ ॥  
 इति श्रीमद्गणाधीशनिवेशान्मगधेश्वरः । प्रीतवानभिवन्द्यायान्मन्वानः स्वकृतार्थताम् ॥ ३८९ ॥  
 अथान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकीं दशम् । दधन्त्वा गणाधीशं कुड्मलीकृतहस्तकः ॥ ३९० ॥  
 शेषावसर्पिणीकालस्थितिं निरवशेषतः । आगाम्युत्सर्पिणीकालस्थितिमप्यनुयुक्तवान् ॥ ३९१ ॥  
 गणी निजद्विजाभीषुप्रसरैः प्रीणयन् सभाम् । गिरा गम्भीरया व्यक्रमुक्तवानिति स क्रमात् ॥ ३९२ ॥  
 चतुर्थकालपर्यन्ते स्थिते संवत्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्यात्सिद्धः सिद्धार्थनन्दनः ॥ ३९३ ॥  
 दुष्पमायाः स्थितिर्वर्षसहस्राण्येकविंशतिः । शतवर्षायुषस्तस्मिन्नुत्कृष्टेन मता मराः ॥ ३९४ ॥  
 सप्तारिप्रमाणान्ना रूक्षच्छाया विरूपकाः । त्रिकालाहारनिरताः सुरतासक्तमानसाः ॥ ३९५ ॥  
 परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां स्युः कालदोषतः । यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिष्यन्ते सहस्रशः ॥ ३९६ ॥  
 यथोक्तभृशुजाभावाज्जाते वर्णादिसङ्करे । दुष्पमायां सहस्राब्दव्यतीतौ धर्महानितः ॥ ३९७ ॥  
 पुरे पाटलिपुत्राख्ये शिशुपालमहीपतेः । पापी तनूजः पृथिवीसुन्दर्यां दुर्जनविमः ॥ ३९८ ॥  
 चतुर्मुखः कल्किराजो वेजितभूतलः । उत्पस्यते माघसंवत्सरयोगसमागमे ॥ ३९९ ॥  
 समानां सप्ततिस्तस्य परमायुः प्रकीर्तितम् । अत्वारिंशत्समा राज्यस्थितिश्चाक्रमकारिणः ॥ ४०० ॥  
 षण्णवत्युक्तपाषण्डिवर्गस्याज्ञाविधायिनः । निजमृत्युत्वमापाद्य महीं कृत्वा स मोक्ष्यति ॥ ४०१ ॥  
 अथान्येषुः स्वमिथ्यात्वपाकाविष्कृतचेतसा । पाषण्डेषु किमस्माकं सन्त्यत्राज्ञापरारुमुखाः ॥ ४०२ ॥

महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है ॥३८५-३८६॥ निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षका साधन, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप मोक्षमार्गकी भावना ही है । सो इसके बलसे ये प्रीतिकर मुनिराज घातिया कर्मको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अघातिया कर्मको नष्ट कर परमात्म-पद प्राप्त करेंगे ॥ ३८७-३८८ ॥ इस प्रकार श्रीमान् गणधरदेवकी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ नगरमें चला गया ॥३८९॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी कालकी स्थिति और आनेवाले उत्सर्पिणी कालकी समस्त स्थिति पूछी ॥ ३९०-३९१ ॥ तब गणधर भगवान् अपने दाँतोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको संतुष्ट करते हुए गम्भीर-वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रमसे स्पष्ट कहने लगे ॥ ३९२ ॥ उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रह जावेंगे तब भगवान् महावीर स्वामी सिद्ध होंगे ॥ ३९३ ॥ दुःषमा नामक पञ्चम कालकी स्थिति इक्कीस हजार सागर वर्षकी है । उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सौ वर्षकी आयुके धारक होंगे ॥ ३९४ ॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायगी, रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे और उनके मन काम-सेवनमें आसक्त रहेंगे ॥ ३९५ ॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्योंकि पाप करनेवाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे ॥ ३९६ ॥ शाब्दोक्त लक्षणवाले राजाओंका अभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जावेंगे । उस दुःषमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिशुपालकी रानी पृथिवीसुन्दरीके चतुर्मुख नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनमें प्रथम संख्याका होगा, पृथिवीको कम्पायमान करेगा और कल्कि राजाके नामसे प्रसिद्ध होगा । यह कल्कि मघा नामके संवत्सरमें होगा ॥ ३९७-३९८ ॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तर वर्षकी होनी और उसका राज्यकाल चालीस वर्ष तक रहेगा ॥ ४०० ॥ पाषण्डी साधुओंके जो द्वियानवें वर्ग हैं उन सबको वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त पृथिवीका उपभोग करेगा ॥ ४०१ ॥ तदनन्तर मिथ्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी कल्कि अपने मन्त्रियोंसे पूछेगा कि कहां इन पाषण्डी साधुओंमें अब भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी



कष्यतामिति पापेन प्रह्वयास्तेन मन्त्रिणः । निर्ग्रन्थाः सन्ति देवेति ते वदिव्यन्ति सोऽपि तान् ॥ ४०३ ॥  
 आचारः क्रीडास्तेषामिति प्रक्ष्यति भूपतिः । निजपाणिपुटामग्रा धनहीना गतस्पृहाः ॥ ४०४ ॥  
 अहिंसाव्रतरक्षार्थं त्यक्चेलादिसंवराः । साधनं तपसो मत्वा देहस्थित्यर्थमाह्वतम् ॥ ४०५ ॥  
 १ एकद्वयुपोषितप्रान्ते भिक्षाकालेऽङ्गदर्शनात् । निर्याचनात्स्वशास्त्रोक्तां ग्रहीतुमभिलाषिणः ॥ ४०६ ॥  
 आत्मनो घातके त्रायके च ते समदर्शिनः । क्षुत्पिपासादिवाधायाः सहाः सत्यपि कारणे ॥ ४०७ ॥  
 परपाषण्डिवञ्चान्यैरक्षमभिलाषुकाः । २ सपां वा विहितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ ४०८ ॥  
 अनुसञ्चारदेशेषु संवसन्ति मृगैः समम् । इति वक्ष्यन्ति द्रष्टुं स्वैर्विशिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४०९ ॥  
 श्रुत्वा तत्सहितं नाहं शक्नोम्यक्रमवर्तनम् । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः शुल्को विधीयताम् ॥ ४१० ॥  
 इति राजोपदेशेन याचिष्यन्ते नियोगिनः । अग्रपिण्डमभुञ्जानाः स्थास्यन्ति मुनयोऽपि ते ॥ ४११ ॥  
 तद्दृष्ट्वा दपिणो नम्रा नाज्ञां राज्ञः प्रतीप्सवः । किं जातमिति ते गत्वा ज्ञापयिष्यन्ति तं नृपम् ४१२ ॥  
 सोपि पापः स्वयं क्रोधादरुणीभूतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहर्तुं प्रस्फुरद्दशनच्छदः ॥ ४१३ ॥  
 सोढुं तवक्षमः कश्चिदसुरः शुद्धदकदा । हनिष्यति तमन्यार्थं शक्तः सन् सहते न हि ॥ ४१४ ॥  
 सोऽपि रश्मप्रभां गत्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुर्मुखो दुःखं लोभादनुभविष्यति ॥ ४१५ ॥  
 धर्मनिर्मूलविध्वंसं सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावद्यलंशेन विना धर्मप्रभावना ॥ ४१६ ॥

आज्ञासे पराङ्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कहेंगे कि हे देव ! निर्ग्रन्थ साधु अब भी आपकी आज्ञासे बहिर्भूत हैं ॥ ४०२-४०३ ॥ यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा है ? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बर्तन है अर्थात् वे हाथमें ही भोजन करते हैं, धनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिए वस्त्रादिका आवरण छोड़कर दिग्म्बर रहते हैं, तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए एक दो उपवासके बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके बिना ही अपने शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार आहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग अपना घात करनेवाले अथवा रक्षा करनेवाले पर समान दृष्टि रखते हैं, जुधा दूषा आदिकी वाधाको सहन करते हैं, कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओंके समान दूसरके द्वारा नहीं दी हुई वस्तुकी कभी अभिलाषा नहीं रखते हैं, वे सर्पके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते हैं, ज्ञान-ध्यानमें तपस रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ रहते हैं । इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेगें ॥ ४०४-४०८ ॥ यह सुनकर राजा कहेंगा कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ, इसलिए इनके हाथमें जो पहला भोजनका भास दिया जाय वही कर रूपमें इनसे वसूल किया जावे ॥ ४१० ॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम भास माँगेंगे और मुनि भोजन किये बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कर्मचारी राजासे जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्या हो गया है ? दिग्म्बर साधु राजाकी आज्ञा माननेको तैयार नहीं हैं ॥ ४११-४१२ ॥ कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र लाल हो जावेंगे और ओंठ फड़कने लगेगा । तदनन्तर वह स्वयं ही भास छीननेका उद्यम करेगा ॥ ४१३ ॥ उस समय शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायको सहन नहीं करता है ॥ ४१४ ॥ यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वीमें जावेगा, वहाँ एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगेगा ॥ ४१५ ॥ प्रभावशाली मनुष्य धर्मका निर्मूल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ साधक (हिंसापूर्ण) कार्यके बिना धर्म-प्रभावना हो नहीं सकती इसलिए सम्यग्दृष्टि असुर अन्यायी

धर्मो माता पिता धर्मो धर्मश्चातामिवधर्मकः । धर्ता भवभृतां धर्मो निर्मले निश्चले पदे ॥ ४१७ ॥  
 धर्मध्वंसे सतां ध्वंसस्तस्माद्धर्मद्रुहोऽधमान् । निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सतां जगत् ॥ ४१८ ॥  
 निमित्तैरष्टधाप्रोक्तैस्तपोभिर्जनरक्षणैः । धर्मोपदेशनैरन्यवादिदर्पातिशातनैः ॥ ४१९ ॥  
 नृपचेतोहरैः श्रव्यैः काव्यैः शब्दार्थसुन्दरैः । सद्भिः शौर्येण वा कार्यं शासनस्य प्रकाशनम् ॥ ४२० ॥  
 चिन्तामणिसमाः केचिन्प्रार्थितार्थप्रदायिनः । दुर्लभा धीमतां पूज्या धन्या धर्मप्रकाशकाः ॥ ४२१ ॥  
 रुचिः प्रवर्तते यस्य जैनशासनभासने । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निगद्यते ॥ ४२२ ॥  
 स शाब्दः स हि तर्कज्ञः स सौदाम्न्तः स सहापाः । यः शासनसमुद्भासी न चेत्किं तैरनर्थकैः ॥ ४२३ ॥  
 भास्वतेव जगद्येन भासते जैनशासनम् । तस्य पादाम्बुजद्वन्द्वं धियते मूर्ध्नि धामिकैः ॥ ४२४ ॥  
 उद्वन्वानिव रत्नस्य मलयश्चन्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान् पुमान् शासनभासनः ॥ ४२५ ॥  
 कण्टकानिव राज्यस्य नेता धर्मस्य कण्टकान् । सदोद्धरतिसोद्योगो यः स लक्ष्मीधरो भवेत् ॥ ४२६ ॥  
 प्रमदप्रसवाकीर्णं मनोरञ्जे महानटः । नटताज्जैनसद्धर्मभासनाभिनयो मम ॥ ४२७ ॥  
 तनूजः कल्किराजस्य बुद्धिमानजितञ्जयः । पत्न्या वालनया सार्धं यत्वेन शरणं सुरम् ॥ ४२८ ॥  
 सम्यग्दर्शनरत्नञ्च महार्धं स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधर्ममाहात्म्यं दृष्ट्वा सुरविनिर्मितम् ॥ ४२९ ॥  
 तदा प्रभृति दुर्दपंस्त्याज्यः पाषण्डिपापिभिः । कञ्चिक्कालं जिनेन्द्रोक्तधर्मो वर्तिष्यतेतराम् ॥ ४३० ॥

चतुर्मुख राजाको मारकर धर्मकी प्रभावना करेगा ॥ ४१६ ॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोंकी माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही बढ़ानेवाला है, और धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोक्ष पदमें धारण करनेवाला है ॥ ४१७ ॥ धर्मका नाश होनेसे सज्जनोंका नाश होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह करनेवाले नीच पुरुषोंका निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषोंसे सज्जन-जगत्की रक्षा होती है ॥ ४१८ ॥ आठ प्रकारके निमित्ताज्ञान, तपश्चरण करना, मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्तको हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अर्थसे सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरीरता दिखाना-इन सब कार्योंके द्वारा सज्जन पुरुषोंको जिन-शासनकी प्रभावना करनी चाहिये ॥ ४१९-४२० ॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्थोंको देकर धर्मकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं ॥ ४२१ ॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि प्रवर्तमान है मानो मुक्ति उसके हाथमें ही स्थित है ऐसा जिनागममें कहा जाता है ॥ ४२२ ॥ जो जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला है वही वैयाकरण है, वही नैयायिक है, वही सिद्धान्तका ज्ञाता है और वही उत्तम तपस्वी है । यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी उपाधियोंसे क्या लाभ है ? ॥ ४२३ ॥ जिस प्रकार सूर्यके द्वारा जगत् प्रकाशमान हो उठता है उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ॥ ४२४ ॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और मलय-गिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला श्रीमान् पुरुष धर्मकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ४२५ ॥ जिस प्रकार राजा राज्यके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार जो सदा धर्मके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है वह लक्ष्मीका धारक होता है ॥ ४२६ ॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष-रूपी फूलोंसे व्याप्त मेरे मन-रूपी रङ्गभूमिमें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका अभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥ ४२७ ॥

तदनन्तर उस कल्किका अजितजय नामका बुद्धिमान् पुत्र, अपनी बालना नामकी पत्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दर्शन रूपीरत्न स्वीकृत करेगा । देवके द्वारा किया हुआ जिनधर्मका माहात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिरसे प्रवर्तमान होगा ॥ ४२८-४२९ ॥

एवं प्रतिसहस्राब्दं तत्र विंशतिकल्किषु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जलमन्थनः ॥ ४३१ ॥  
 राज्ञां स भविता नाम्ना तदा मुनिषु पश्चिमः । चन्द्राचार्यस्य शिष्यः स्यान्मुनिर्वीराङ्गजाह्वयः ॥ ४३२ ॥  
 सर्वश्रीरायिकावर्गे पश्चिमः श्रावकोरामः । अमिलः फल्गुसेनाख्या श्राविका चापि सद्ब्रता ॥ ४३३ ॥  
 एते सर्वेऽपि साकेतवास्तव्या दुष्पमान्यजाः । सत्सु पञ्चमकालस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥ ४३४ ॥  
 मासेष्वहःसु मासार्धमितेषु च सुभावनाः । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाह्ने स्वातिसङ्गमे ॥ ४३५ ॥  
 वीराङ्गजोऽग्निनलः सर्वश्रीस्त्यक्त्वा श्राविकापि सा । देहमायुश्च सद्धर्माद् गमिष्यन्त्यादिर्मां दिवम् ॥ ४३६ ॥  
 मध्याह्ने भूभुजो ध्वंसः सायाह्ने पाकभोजनम् । षट्कर्मकुलदेशार्थहेतुभर्माश्च मूलतः ॥ ४३७ ॥  
 सार्धं स्वहेतुसम्प्राप्तौ प्राप्स्यन्ति विलयं ध्रुवम् । ततोऽतिदुष्पमादौ स्युविशत्यब्दपरायुषः ॥ ४३८ ॥  
 नरोऽर्धान्यधिकारन्निन्नयमानशरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिद्वयसमागताः ॥ ४३९ ॥  
 पुनस्तदेव यास्यन्ति तिर्यङ्नारकनामकम् । कार्पासवसनाभावाद् गतेष्वब्देषु केषुचित् ॥ ४४० ॥  
 पर्णादिवसनाः कालस्यान्ते नम्रा यथेप्सितम् । चरिष्यन्ति फलादीनि दीनाः शाखासृगोपमाः ॥ ४४१ ॥  
 एकविंशतिरब्दानां सहस्राण्यलपृष्टयः । जलदाः कालदोषेण कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ४४२ ॥  
 क्रमाद्धीबलकायायुरादिह्रासो भविष्यति । प्रान्ते षोडशवर्षायुर्जीविनो हस्तदेहकाः ॥ ४४३ ॥  
 अस्थिराद्यशुभान्येव प्रफलिष्यन्ति नामसु । कृष्णा रूक्षतनुच्छाया दुर्भंगा दुस्वराः खलाः ॥ ४४४ ॥  
 दुरीक्ष्या विकटाकारा हुर्बला विरलद्विनाः । निमग्नवक्षोगण्डाक्षिदेशाश्रिपुटनासिकाः ॥ ४४५ ॥

४३० ॥ इस प्रकार दुष्पमा नामक पञ्चम कालमें एक एक हजार वर्षके बाद जब क्रमशः बीस कल्कि हो चुकेंगे तब अस्यन्त पापी जलमन्थन नामका पिछला कल्कि होगा। वह राजाओंमें अन्तिम राजा होगा अर्थात् उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य वीराङ्गज नामके मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे पिछली आर्यिका होंगी, अमिल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करनेवाली फल्गुसेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी ॥ ४३१-४३३ ॥ वे सब अयोध्याके रहनेवाले होंगे, दुष्पमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पञ्चम कालके जब साढ़ेआठ माह बाकी रह जावेंगे तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय स्वातिनक्षत्रका उदय रहते हुए वीराङ्गज मुनि, अग्निनल श्रावक, सर्वश्री आर्यिका और फल्गुसेना श्राविका ये चारों ही जीव, शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धर्मके प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें जावेंगे। मध्याह्नके समय राजाका नाश होगा, और सायंकालके समय अमिका नाश होगा। उसी समय षट्कर्म, कुल, देश और अर्थके कारणभूत धर्मका समूल नाश हो जावेगा। ये सब अपने-अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त होंगे। तदनन्तर अतिदुष्पमा काल आवेगा। उसके प्रारम्भमें मनुष्य बीस वर्षकी आयुवाले, साढ़ेतीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर आहार करनेवाले पापी, नरक अथवा तिर्यञ्च इन दो गतियोंसे आनेवाले और इन्हीं दोनों गतियोंमें जानेवाले होंगे। कपास और वस्त्रोंके अभावसे कुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आदिके वस्त्र पहिनेंगे परन्तु छठवें कालके अन्त समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे और बन्दरोंके समान दीन होकर फलादिका भक्षण करने लगेंगे ॥ ४३४-४४१ ॥ कालदोषके कारण मेघोंने इक्कीस हजार वर्ष तक थोड़ी थोड़ी वर्षा की सो ठीक ही है क्योंकि कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ४४२ ॥ मनुष्योंकी बुद्धि बल काय और आयु आदिका अनुक्रमसे ह्रास होता जावेगा। इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्योंकी आयु सोलह वर्षकी और शरीरकी ऊँचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥ ४४३ ॥ उस समय नामकर्मकी प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल देंगी। उस समयके मनुष्य काले रङ्गके होंगे, उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, वे दुर्भंग, दुःस्वर, खल, दुःखसे देखनेके योग्य, विकट आकारवाले, दुर्बल तथा विरल दाँतोंवाले होंगे। उनके वक्षःस्थल, गाल और नेत्रोंके स्थान, भीतरको धँसे होंगे, उनकी नाक चूपटी होगी, वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे, भूख प्यास आदिसे पीड़ित

स्यक्तसर्वसदाचाराः क्षुत्पिपासादिबाधिताः । सरोगा निष्यतीकारा दुःखात्त्वादिकवेदिनः ॥ ४४६ ॥  
 एवं गच्छति कालेऽस्मिन्नेतस्य परमावधौ । निश्शेषशोषमेताम्बु शरीरमिव संक्षयम् ॥ ४४७ ॥  
 \*अतिरौक्ष्या घरा तत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम् । विनासचिन्तयेवाग्निप्राश्न प्रम्लानयष्ययः ॥ ४४८ ॥  
 प्रलयः प्राणिनामेवं प्रायेणोपजनियते । सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च खेचराद्रेश्च वेदिकाः ॥ ४४९ ॥  
 श्रित्वा नदीसमुद्भूतमीनमण्डूककच्छपान् । कृत्वा कर्कटकादींश्च निजाहारान्मनुष्यकाः ॥ ४५० ॥  
 विष्ट्वा क्षुद्रबिष्ठादीनि द्वासप्ततिकुलोद्भवाः । हीना दीना दुराचारास्तदा स्थास्यन्ति केचन ॥ ४५१ ॥  
 सरसं विरसं तीक्ष्णं रूक्षमुष्णं विषं विषम् । \*क्षारं मेघाः क्षरिष्यन्ति सप्त सप्तदिनान्यलम् ॥ ४५२ ॥  
 ततो धरण्या वैषम्यविगमे सति सर्वतः । भवेच्छिन्ना समा भूमिः समाप्तान्नावसर्पिणी ॥ ४५३ ॥  
 इतोऽतिदुष्पमोत्सर्पिण्याः पूर्वोक्तप्रमाणभाक् । वर्तिष्यति प्रजावृक्ष्यै ततः क्षीरपयोधराः ॥ ४५४ ॥

रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे और केवल दुःखके स्वादका ही अनुभव करनेवाले होंगे ॥ ४४४-४४६ ॥ इस प्रकार समय बीतने पर जब अतिदुःषमा कालका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरीरके समान ही नष्ट हो जावेगा ॥ ४४७ ॥ पृथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब चीजोंके नाश हो जानेकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जावेंगे ॥ ४४८ ॥ प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रलय हो जावेगा । गङ्गा सिन्धु नदी और विजयार्ध पर्वतकी वेदिकापर कुछ थोड़ेसे मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदीके मुखमें उत्पन्न हुए मछली, मेंढक, कछुए और केंकड़ा आदिको खाकर जीवित रहेंगे । उनमेंसे बहत्तर कुलोंमें उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीन-हीन जीव छोटे-छोटे बिलोंमें घुसकर ठहर जावेंगे ॥ ४४९-४५० ॥ तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक क्रमसे सरस, विरस, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, विष-रूप और खारे पानीकी वर्षा करेंगे। इसके बाद पृथिवीकी विषमता ( ऊँच-नीपपना ) नष्ट हो जायगी, सब ओर भूमि चित्रा पृथिवीके समान हो जावेगी और यहाँ वर अपसर्पिणी कालकी सीमा समाप्त हो जायगी ॥ ४५१-४५३ ॥ इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा काल चलेगा, वह भी इक्कीस हजार वर्षका होगा । इसमें प्रजाकी वृद्धि

१ अतिरूक्षाधरा ल० । २ क्षारमेघाः ल० ।

\* त्रिलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुःषमा कालके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन इस प्रकार किया है—

संवत्तयणामणिलो गिरि तरुभूपद्भुदि जुष्णणं करिय ।  
 भमदि दिसंतं जीवा मरंति मुच्छंति छडंते ॥ ८६४ ॥  
 खग गिरि गंग दुवेदी खुद्विजादि विसंति आसण्णा ।  
 गँति दया खचरसुरा मणुस्स जुगल्लादि बहुजीवे ॥ ८६५ ॥  
 छड्ढमचरिमे होति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवही ।  
 अदिसीद खार विसपरुसगीरजभूमवरिसाओ ॥ ८६६ ॥

अर्थात्—छठवें कालके अन्त समय संवर्तक नामका पवन चलता है जो पर्वत, वृक्ष, पृथिवी आदिको पूर्ण कर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिशाओंके अन्त तक भ्रमण करता है । उस पवनके आघातसे वहाँ रहनेवाले जीव मूर्च्छित होकर मर जाते हैं । विजयार्ध पर्वत, गङ्गा सिन्धु नदी, इनकी वेदिका और इनके शुद्ध विल आदिकमें वहाँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य युगलको आदि लेकर बहुतसे जीवोंको बाधारहित स्थानमें ले जाते हैं । छठवें कालके अन्तमें पवन आदि सात वर्षा सात सात दिन पर्यन्त होती है । वे ये हैं—१ पवन २ अनन्यन्त शीत ३ चाररस ४ विष ५ कठोर अग्नि ६ धूलि और ७ धुआँ । इन सात रूप परिणत पुद्गलोंकी वर्षा ४६ दिन तक होती है ।

उत्तर पुराणके ४५१वें श्लोकमें जो क्रम दिया है उसका क्रम कुछ दूसरा ही है । पं० जालारामजीने श्लोकका जो अनुवाद दिया है वह मालूम होता है त्रिलोकसारके आधार पर दिया है ।

तावद्दिननिबन्धेन निविराममहर्दिवम् । पयः पर्यासि दास्यन्ति धात्री त्यक्ष्यति रूक्षताम् ॥ ४५५ ॥  
 तन्निबन्धनवर्णादिगुणं चावाप्स्यति क्रमात् । तथैवामृतमेवाश्च तावद्दिवसगोचराः ॥ ४५६ ॥  
 वृष्टिमापातयिष्यन्ति निष्पत्स्यन्तेऽन्न पूर्ववत् । ओषध्यस्तरवो गुल्मतृणादीन्यप्यनन्तरम् ॥ ४५७ ॥  
 ततो रसाधिकामोदवर्षणात्सब्रसोद्भवः<sup>१</sup> । यस्यामादौ बिलादिभ्यो निर्गत्य मनुजास्तदा ॥ ४५८ ॥  
 तेषां रसोपयोगेन जीविष्यन्त्याप्तसम्मदाः । वृद्धिर्गलति कालेऽस्मिन् क्रमात्प्राग्द्वासमात्मनाम् ॥ ४५९ ॥  
 तन्वादीनां पुनर्दुष्पमासमायाः प्रवेशने । आयुर्विशतित्वर्षाणि नराणां परमं मतम् ॥ ४६० ॥  
 साधारत्तित्रयोत्सेधदेहानां वृद्धिर्मीयुषाम् । प्राक्प्रणीतप्रमाणेऽस्मिन् काले विमलबुद्धयः ॥ ४६१ ॥  
 षोडशाधिर्भविष्यन्ति क्रमेण कुलधारिणः । प्रथमस्य मनागृता तनुश्चतुरत्तिषु ॥ ४६२ ॥  
 अन्यस्यापि तनुः सप्तरत्तिभिः सन्मिता भवेत् । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रभः ॥ ४६३ ॥  
 ततः कनकराजाख्यश्चतुर्थः कनकध्वजः ।<sup>२</sup> कनकः पुङ्गवान्तोऽस्मान्नलिनो नलिनप्रभः ॥ ४६४ ॥  
 ततो नलिनराजाख्यो नवमो नलिनध्वजः । पुङ्गवान्तश्च नलिनः पद्मः पद्मप्रभाङ्कयः ॥ ४६५ ॥  
 पद्मराजस्ततः पद्मध्वजः पद्मादिपुङ्गवः । महापद्मश्च विज्ञेयाः<sup>३</sup> प्रज्ञापरूषशालिनः ॥ ४६६ ॥  
 पृथेषां क्रमशः काले शुभभावेन वर्धनम् । महीसलिलकालानां धान्यादीनाञ्च<sup>४</sup> सङ्गतम् ॥ ४६७ ॥  
 मनुष्याणामनाचारत्यागो योग्यान्नभोजनम् । काले परिभिते मैत्री लज्जा सत्यं दया दमः ॥ ४६८ ॥  
 सन्नुष्टिर्विनयक्षान्ती रागद्वेषाद्यतीव्रता । इत्यादि साधुवृत्ताञ्च वृद्धिपाकेन भोजनम् ॥ ४६९ ॥  
 द्वितीयकाले वर्तेत तृतीयस्य प्रवर्तने । सप्तरत्तिप्रमाणाङ्गाः खद्वथेकाब्दायुषो नराः ॥ ४७० ॥  
 ततस्तीर्थकरोत्पत्तिस्तेषां नामाभिधीयते । आदिमः श्रेणिकस्तस्मात्सुपाथोदङ्कसञ्चकः ॥ ४७१ ॥

होगी । पहले ही क्षीर जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल और दूधकी वर्षा करेंगे जिससे पृथिवी रूक्षता छोड़ देगी और उसीसे पृथिवी अनुक्रमसे वर्षादि गुणोंको प्राप्त होगी । इसके बाद अमृत जातिके मेघ सात दिन तक अमृतकी वर्षा करेंगे जिससे औषधियाँ, वृद्ध, पौधे और घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥ ४५४-४५७ ॥ तदनन्तर रसाधिक जातिके मेघ रसकी वर्षा करेंगे जिससे छद्म रसोंकी उत्पत्ति होगी । जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे अब उनसे बाहर निकलेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्षसे जीवित रहेंगे । ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि होती जावेगी स्यों-स्यों प्राणियोंके शरीर आदिका ह्रास दूर होता जावेगा—उनमें वृद्धि होने लगेगी ॥ ४५८-४५९ ॥ तदनन्तर दुःषमा नामक कालका प्रवेश होगा उस समय मनुष्योंकी उच्छृष्ट आयु बीस वर्षकी और शरीरकी ऊँचाई साढ़ेतीन हाथकी होगी । इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वर्षका ही होगा । इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे । उनमेंसे प्रथम कुलकरका शरीर चार हाथमें कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका शरीर सात हाथ प्रमाण होगा । कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पाँचवाँ कनकपुंगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, आठवाँ नलिनराज, नौवाँ नलिनध्वज, दशवाँ नलिनपुंगव, ग्यारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रभ, तेरहवाँ पद्मराज, चौदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मपुंगव और सोलहवाँ महापद्म नामका कुलकर होगा । ये सभी बुद्धि और बलसे सुशोभित होंगे ॥ ४६०-४६६ ॥ इनके समय में क्रमसे शुभ भावोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ॥ ४६७ ॥ मनुष्य अनाचारका त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, दमन, संतोष, विनय, क्षमा, रागद्वेष आदिकी मन्दता आदि सज्जनोचित चारित्र प्रकट होंगे और लोग अग्निमें पकाकर भोजन करेंगे ॥ ४६८-४६९ ॥ यह सब कार्य दूसरे कालमें होंगे । इसके बाद तीसरा काल लगेगा । उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बीस वर्षकी होगी ॥ ४७० ॥ तदनन्तर इसी कालमें तीर्थकरोंकी उत्पत्ति होगी । जो जीव तीर्थकर होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं—श्रेणिक १, सुपाथ २, उदङ्क ३, प्रोष्ठिल ४, कटप्रू ५, त्रिजय ६, श्रेष्ठी ७, शङ्ख ८,

१ सदसोद्भवः क० । २ कनकपुङ्गवा क० । ३ प्रज्ञाः पौरुषेशालिनः क० (१) । ४ संततम् क० ।

प्रोष्ठिलाख्यः ऋतग्रह क्षत्रियः श्रेष्ठिसम्पन्नः । सप्तमः शङ्खनामा च नन्दनोऽथ सुनन्दवाक् ॥ ४७२ ॥  
 शशाङ्कः सेवकः प्रेमकक्षातोरणसम्पन्नः । रैवतो वासुदेवाख्यो बलदेवस्ततः परः ॥ ४७३ ॥  
 भगलिर्वागलिर्द्वैपायनः कनकसम्पन्नः । पादान्तो नारदश्चारुपादः सत्यकिपुत्रकः ॥ ४७४ ॥  
 त्रयोविंशतिरित्येते सप्तारत्नप्रमादिकाः । तत्रैवान्येऽपि तीर्थेशाश्चतुर्विंशतिसम्गताः ॥ ४७५ ॥  
 तत्राद्यः षोडशप्रान्तशताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितनूत्सेवश्चरमस्तीर्थनायकः ॥ ४७६ ॥  
 पूर्वकोटिमिताब्दायुश्चापपञ्चशतोच्छ्रितः । तेषामाद्यो महापद्मः सुरदेवः सुपार्श्ववाक् ॥ ४७७ ॥  
 स्वयंप्रभश्च सर्वात्मभूताख्यो देवपुत्रवाक् । कुलपुत्रस्तथोदङ्कः प्रोष्ठिलो जयकीर्तिवाक् ॥ ४७८ ॥  
 मुनिसुव्रतनामारसम्पन्नोऽपापाभिधानकः । निष्कषायः सविपुलो निर्मलश्चित्रगुप्तकः ॥ ४७९ ॥  
 समाधिगुप्तसम्पन्नश्च स्वयम्भूरिति नामभाक् । अनिवर्ती च विजयो विमलो देवपालवाक् ॥ ४८० ॥  
 अनन्तवीर्यो विश्वेन्द्रवन्दिताङ्गिप्रसरोरुहः । कालेऽस्मिन्नेव चक्रेशा भाविनो द्वादशोच्छ्रियः ॥ ४८१ ॥  
 भरतो दीर्घदन्तश्च मुक्तदन्तस्तृतीयकः । गूढदन्तश्चतुर्थस्तु श्रीषेणः पञ्चमो बलः ॥ ४८२ ॥  
 षष्ठः श्रीभूतिशब्दाख्यः श्रीकान्तः सप्तमः स्मृतः । पद्मोऽष्टमो महापद्मो विचित्रादिश्च वाहनः ॥ ४८३ ॥  
 दशमोऽस्मात्परः ख्यातश्चक्री विमलवाहनः । अरिष्टसेनः सर्वान्वयः सम्पन्नः सर्वसम्पदा ॥ ४८४ ॥  
 सीरिणोऽपि नवैवात्र तत्राद्यश्चन्द्रनामकः । महाचन्द्रो द्वितीयः स्यात्तत्रश्चक्रधरो भवेत् ॥ ४८५ ॥  
 हरिचन्द्राभिधः सिंहचन्द्रश्चन्द्रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीचन्द्रः केशवाचितः ॥ ४८६ ॥  
 केशवाश्च नवैवात्र तेष्वामो नन्दिनामकः । नन्दिमित्रो द्वितीयः स्यान्नन्दिषेणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥  
 नन्दिभूतिश्चतुर्थस्तु प्रतीतः पञ्चमो बलः । षष्ठो महाबलस्तेषु सप्तमोऽतिबलाङ्गयः ॥ ४८८ ॥  
 अष्टमोऽभूत् त्रिपुष्टाख्यो द्विपुष्टो नवमो विभुः । तद्वैरिणापि तावन्त एव विशेष्यसम्पन्नाः ॥ ४८९ ॥  
 ततस्तत्कालपर्यन्ते भवेत्सुषमदुष्पमा । आदौ तस्या मनुष्याणां पञ्चषापञ्चतोच्छ्रितः ॥ ४९० ॥

नन्दन ६, सुनन्द १०, शशाङ्क ११, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४, रैवत १५, वासुदेव १६, भगलि १७, वागलि १८, द्वैपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चारुपाद २२, और सत्यकिपुत्र २३, ये तेईस जीव आगे तीर्थकर होंगे । सात हाथको आदि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी । इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तीर्थकर होंगे ॥ ४७१-४७५ ॥ उनमेंसे पहले तीर्थकर सोलहवें कुलकर होंगे । सौ वर्ष उनकी आयु होगी और सात अरत्न ऊँचा शरीर होगा । अन्तिम तीर्थकरकी आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी और शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा होगा । उन तीर्थकरोंमें पहले तीर्थकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीर्थकर और होंगे—सुरदेव १, सुपार्श्व २, स्वयंप्रभ ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ५, कुलपुत्र ६, उदङ्क ७, प्रोष्ठिल ८, जयकीर्ति ९, मुनिसुव्रत १०, अरनाथ ११, अपापा १२, निष्कषाय १३, विपुल १४, निर्मल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वयम्भू १८, अनिवर्ती १९, विजय २०, विमल २१, देवपाल २२ और अनन्तवीर्य २३ । इन समस्त तीर्थकरोंके चरण-क्रमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा करेंगे । इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक १२ बारह चक्रवर्ती भी होंगे ॥ ४७६-४८१ ॥ उनके नाम इस प्रकार होंगे—पहला भरत, दूसरा दीर्घदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चौथा गूढदन्त, पाँचवाँ श्रीषेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नौवाँ महापद्म, दशवाँ विचित्र-वाहन, ग्यारहवाँ विमलवाहन और बारहवाँ सब सम्पदाओंसे सम्पन्न अरिष्टसेन ॥ ४८२-४८४ ॥ नौ बलभद्र भी इसी कालमें होंगे । उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं १ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७ पूर्णचन्द्र, ८ सुचन्द्र और नौवाँ नारायणके द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥ ४८५-४८६ ॥ नौ नारायण भी इसी कालमें होंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे । पहला नन्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्दिषेण, चौथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धबल, छठवाँ महाबल, सातवाँ अतिबल, आठवाँ त्रिपुष्ट और नौवाँ द्विपुष्ट नामक विभु होगा । इन नारायणोंके शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे । उनके नाम अन्य ग्रन्थोंसे जान लेना चाहिए ॥ ४८७-४८९ ॥ तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्पम काळ आवेगा उसके

१ 'निष्कषायः सविपुलश्चित्रगुप्तसमाख्यः' इत्यपि पाठः किन्त्वत्रैकतीर्थकरनाम श्रुतिर्भवति ।

साधिका पूर्वकोट्यायुःस्थितिर्यातेषु केषुचित् । वर्षेषु निर्विशेषान्न जघन्यार्थजनस्थितिः ॥ ४९१ ॥  
 ततः पञ्चमकालेऽपि मध्यभोगभुवः स्थितिः । षष्ठकालेऽपि विज्ञेया वर्धभोगभुवः स्थितिः ॥ ४९२ ॥  
 एवं शेषनवस्थानकर्मभूमिषु वर्तनम् । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्वपि च भाषिषु ॥ ४९३ ॥  
 एष एव विधिर्ज्ञेयः कल्पेषु जिनभाषितः । विदेहेषु च सर्वेषु पञ्चापशतोच्छ्रितिः ॥ ४९४ ॥  
 मनुष्याणां परञ्चायुः <sup>१</sup>पूर्वकोटिमितं मतम् । तत्र तीर्थकृतश्चक्रवर्तिनो रामकेशवाः ॥ ४९५ ॥  
 पृथक्पृथक्बहुत्वेन शतं षष्ठ्यधिकं स्मृताः । अल्पत्वेनापि ते विंशतिर्भवन्ति पृथक्पृथक् ॥ ४९६ ॥  
 उक्त्यन्ते शतं सप्ततिश्च स्युः सर्वभूमिजाः । उत्पद्यन्ते नरास्तत्र चतुर्गतिसमागताः ॥ ४९७ ॥  
 गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवशीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कर्मभूमिसमुद्भवाः ॥ ४९८ ॥  
 मनुष्याः सम्भिनस्तिर्षञ्च श्रान्त्युपपादनम् । आदिकल्पद्वये भावनादिदेवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥  
 जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । मनुष्येषूत्तमा भोगभूमिजाः कर्मभूमिभुवः ॥ ५०० ॥  
 निजवृत्तिविशेषेण त्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । शलाकापुरुषाः कामः खगाश्चान्ये सुरार्चिताः ॥ ५०१ ॥  
<sup>१</sup>सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः षष्ठकालाः कनिष्ठकाः । एकोरुकास्तथा भाषाविहीनाः <sup>३</sup>शङ्कुर्णकाः ॥ ५०२ ॥  
 कर्णप्रावरणालम्बशशकाभादिकर्णकाः । अश्वसिंहमुखाश्चान्ये दुष्प्रेक्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३ ॥

प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयु होगी । इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जघन्यभोगभूमिके आर्य जनोके समान सब स्थिति आदि हो जावेगी ॥ ४९०-४९१ ॥ फिर पञ्चम काल आवेगा । उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी और उसके अनन्तर छठवाँ काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥ ४९२ ॥ जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके सिवाय और जो बाकी नौ कर्मभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति बतलाई गई है अर्थात् उत्सर्पिणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर और अवसर्पिणीके १० कोड़ा-कोड़ी सागर दोनों मिलाकर बीस कोड़ा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह सभी उत्सर्पिणियों तथा अवसर्पिणियोंमें होता है । सभी विदेहक्षेत्रोंमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष प्रमाण होती है और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्व प्रमाण रहती है । वहाँ तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सौ साठ होते हैं और कमसे कम हों तो प्रत्येक बीस-बीस होते हैं । भावार्थ—अढ़ाई द्वीपमें पाँच विदेह क्षेत्र हैं और एक-एक विदेह-क्षेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ भेद हो जाते हैं, यदि तीर्थङ्कर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह क्षेत्रमें एक-एक हों तो एक सौ साठ हो जाते हैं और कमसे कम हों तो एक-एक महाविदेह सम्बन्धी चार-चार नगरियोंमें अवश्यमेव होनेके कारण बीस ही होते हैं ॥ ४९३-४९६ ॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए तीर्थङ्कर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैं । इन भूमियोंमें चारों गतियोंसे आये हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपने-अपने आचारके वशीभूत होकर मोक्षसहित पाँचो गतियोंमें जाते हैं । सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज मनुष्य और संज्ञी तिर्यञ्च ही उत्पन्न होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले और दूसरे स्वर्गमें अथवा भवनवासी आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हैं । यह नियम है कि भोगभूमिके सभी मनुष्य और तिर्यञ्च नियमसे देव ही होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्तम ही होते हैं और कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन प्रकारके कहे गये हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य । शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य कहलाते हैं । इनके सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शङ्कुके समान कानवाले, कानको ही ओढ़ने-बिछानेवाले अर्थात्

१ पूर्वकोटीपरं मतम् क०, ख०, ग०, घ० । २ सन्तो दिव्यमनुष्या स्युः षष्ठकालाः कनिष्ठकाः । क०, ग०, घ० । ३ सन्तो दिव्यमनुष्याश्च षष्ठकालाः कनिष्ठकाः म० । सन्तो दिव्यमनुष्यासु षष्ठकालाः कनिष्ठकाः क० । ३ शङ्कु इत्यपि क्वचित् ।

क्रोलव्याघ्रमुखाश्चैवमुल्लूकमुखनामकाः । ज्ञाखामृगमुखा मत्स्यमुखाः कालमुखास्तथा ॥ ५०४ ॥  
 गोमेषमेघवक्त्राश्च विद्युदादर्शवक्त्रकाः । हस्तिवक्त्रा कुमानुष्यजा लाङ्गुलविषाणिनः ॥ ५०५ ॥  
 एते च नीचका यस्मादन्तरद्वीपवासिनः । म्लेच्छखण्डेषु सर्वेषु विजयार्थेषु च स्थितिः ॥ ५०६ ॥  
 तीर्थकृत्कालवद्रुद्धिहासवत्कर्मभूमिषु । इदञ्च श्रेणिकप्रश्नादिन्द्रभूतिगणाधिपः ॥ ५०७ ॥  
 इत्याह वचनाभीषु निरस्तान्तस्तेमस्ततिः । इहान्त्यतीर्थनाथोऽपि विहृत्य विषयान् बहून् ॥ ५०८ ॥  
 क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे । बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥  
 स्थित्वा दिनद्वयं वीरविहारो वृद्धनिर्जरः । कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये ॥ ५१० ॥  
 स्वातियोगे तृतीयेऽशुक्लध्यानपरायणः । कृतत्रियोगसंरोधः समुच्छिन्नक्रियं श्रितः ॥ ५११ ॥  
 हताघातिचतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः । गन्ता मुनिसहस्रेण निर्वाणं सर्ववाञ्छितम् ॥ ५१२ ॥  
 तदेव पुरुषार्थस्य पर्यन्तोऽनन्तसौख्यकृत् । अथ सर्वेऽपि देवेन्द्रा वद्वीन्द्रमुकुटस्फुरत् ॥ ५१३ ॥  
 हुताशनशिखान्यस्ततद्देहा मोहविद्विषम् । अभ्यर्च्य गन्धमाल्यादिद्रव्यैर्दिव्यैर्व्याविधि ॥ ५१४ ॥  
 वन्दिष्यन्ते भवातीतमथैर्वन्दारवः स्तवैः । वीरनिर्भूतिसम्प्राप्तदिन एवास्तघातिकः ॥ ५१५ ॥  
 भविष्याम्यहमप्युत्केवलज्ञानलोचनः । भव्यानां धर्मदेशेन विहृत्य विषयांस्ततः ॥ ५१६ ॥  
 गत्वा विपुलशब्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निर्भूतिम् । मच्चिह्नैतिदिने लब्धा सुधर्मः श्रुतपारगः ॥ ५१७ ॥  
 लोकालोकावलोकैकालोकमन्त्यविलोचनम् । तक्षिर्वाणक्षणे भावी जम्बूनामायुक्तेवलः ॥ ५१८ ॥  
 अन्त्यः केवलिनामस्मिन्भरते स प्ररूप्यते । नन्दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमित्रोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥

लम्बे कानवाले, खरगोशके समान कानवाले, घोड़े आदिके समान कानवाले, अश्वमुख, सिंहमुख, देखनेके अयोग्य महिषमुख, कोलमुख (शूकरमुख), व्याघ्रमुख, उल्लूकमुख, वानरमुख, मत्स्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, आदर्शमुख, हस्तिमुख, पूँछवाले, और सींगवाले ये कुभोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब अन्तर्द्वीपोंमें रहते हैं। सब म्लेच्छखण्डों और विजयार्थ पर्वतोंकी स्थिति तीर्थकरोंके समयके समान होती है और वृद्धि हास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रश्नके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने वचन रूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहको नष्ट करते हुए यह हाल कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान् महावीर भी बहुतसे देशोंमें विहार करेंगे ॥ ४९७-५०५ ॥ अन्तमें वे पावापुर नगरमें पहुँचेंगे वहाँके मनोहर नामके वनके भीतर अनेक सरोवरोंके बीचमें मणिमयी शिलापर विराजमान होंगे। विहार छोड़कर निर्जराको बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे और फिर कार्तिककृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे। तदनन्तर तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको धारण कर चारों अघातिया कर्मोंका त्याग कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप होकर एक हजार मुनियोंके साथ सबके द्वारा वाञ्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे ॥ ५०६-५१२ ॥ वही उनका, अनन्त सुखको करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा—उनके पुरुषार्थकी वही अन्तिम सीमा होगी। तदनन्तर इन्द्रादि सब देव आवेंगे और अग्नीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी शिखा पर भगवान् महावीर स्वामीका शरीर रक्खेंगे। स्वर्गसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थोंके द्वारा मोहके शत्रुभूत उन तीर्थकर भगवान्की विधिपूर्वक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेवाले उन भगवान्की स्तुति करेंगे। जिस दिन भगवान् महावीर स्वामीको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देता हुआ अनेक देशोंमें विहार करूँगा। तदनन्तर विपुलाचल पर्वतपर जाकर निर्वाण प्राप्त करूँगा। मेरे निर्वाण जानेके दिन ही समस्त-श्रुतज्ञानके दारगामी सुधर्म गणधर भी लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान रूपी अन्तिम लोचनको प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जानेके समय ही जम्बू स्वामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। वह जम्बू स्वामी भरत क्षेत्रमें अन्तिम केषली कहलावेंगे।



गोवर्धनश्चतुर्थोऽन्वो भद्रबाहुर्महातपाः । नानानयविचित्रार्थसमस्तश्रुतपूर्णताम् ॥ ५२० ॥  
 एते क्रमेण पञ्चापि प्राप्स्यन्त्याप्तविशुद्धयः । ततो भावी विशाखार्यः प्रोष्ठिलः क्षत्रियान्तकः ॥ ५२१ ॥  
 जयनाम्नानुनागाङ्गः सिद्धार्थो धृतिषेणकः । विजयो बुद्धिलो गङ्गदेवश्च क्रमतो मताः ॥ ५२२ ॥  
 एकादश सह श्रीमद्धर्मसेनेन धीमता । द्वादशाङ्गार्थकुशला दशपूर्वधराश्च ते ॥ ५२३ ॥  
 भव्यानां कल्पवृक्षाः स्युर्जिनधर्मप्रकाशकाः<sup>१</sup> । ततो नक्षत्रनामा च<sup>२</sup> जयपालश्च पाण्डुना ॥ ५२४ ॥  
 द्रुमसेनोऽनुकंसार्यो विदितैकादशाङ्गकाः । सुभद्रश्च यशोभद्रो यशोबाहुः प्रकृष्टधीः ॥ ५२५ ॥  
 लोहनामा चतुर्थः स्यादाचाराङ्गविदस्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्गीर्णं पावनं पापलोपनम् ॥ ५२६ ॥  
 श्रुतं तपोभूतामेघं प्रणेण्यति परम्परा । शेषैरपि श्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥  
 जिनसेनाजुर्गीरसेनैः प्राप्तमहर्द्धिभिः । समाप्ते हुष्पमायाः प्राक्प्रायशो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥  
 भरतः सागराख्योऽणु सत्यवीर्यो<sup>३</sup> जनैः स्तुतः । महीशो मित्रभावाङ्गो मित्रवीर्योऽर्यमद्युतिः ॥ ५२९ ॥  
 धर्मदानादिवीर्यो च मघवान् बुद्धवीर्यकः । सीमन्धरश्चिपृष्ठाख्यः स्वयम्भूः पुरुषोत्तमः ॥ ५३० ॥  
 पुण्डरीकान्तपुरुषो दशः सत्यादिभिः स्तुतः । कुनालः पालकः पृथ्व्याः पतिनारायणो नृणाम् ॥ ५३१ ॥  
 सुभौमः सार्वभौमोऽजितञ्जयो विजयाभिधः । उग्रसेनो महासेनो जिनस्त्वं श्रेणिकेत्यमी ॥ ५३२ ॥  
 सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो धर्मप्रभविदां वराः । चतुर्विंशतितीर्थेशां सन्ततं पादसेविनः ॥ ५३३ ॥  
 पुरूरवाः सुरः प्राण्यकल्पेऽभूद्भरतात्मजः । मरीचिर्ब्रह्मकल्पोत्थस्ततोऽभूज्जटिलद्विजः ॥ ५३४ ॥  
 सुरः सौधर्मकल्पेऽणु पुष्यमित्रद्विजस्ततः । सौधर्मजोऽमरस्तस्माद्विजन्माग्निसमाङ्गयः ॥ ५३५ ॥  
 सनत्कुमारदेवोऽस्मादभिमित्राभिधो द्विजः । मरुन्माहेन्द्रकल्पेऽभूद्भारद्वाजो द्विजान्वये ॥ ५३६ ॥

इनके बाद नन्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और महातपस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे । ये पाँचो ही मुनि अतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र अर्थोंका निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रुतज्ञानको प्राप्त होंगे अर्थात् श्रुतकेवली होंगे । इनके बाद विशाखार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेव और बुद्धिमान् धर्मसेन ये ग्यारह अनुक्रमसे होंगे तथा द्वादशाङ्गका अर्थ कहनेमें कुशल और दश पूर्वके धारक होंगे ॥ ५२३-५२२ ॥ ये ग्यारह मुनि भव्योंके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जैनधर्मका प्रकाश करनेवाले होंगे । उनके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंसार्य ये ग्यारह अङ्गोंके जानकार होंगे । इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान्, यशोबाहु और चौथे लोहाचार्य ये चार आचाराङ्गके जानकार होंगे । इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेवाले शास्त्रोंका प्ररूपण करेंगे । इनके बाद बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले जिनसेन, वीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुतज्ञानके एकदेशका प्ररूपण करेंगे । प्रायः कर श्रुतज्ञानका यह एकदेश दुःधमा नामक पञ्चम कालके अन्त तक चलता रहेगा ॥ ५२३-५२६ ॥ भरत, सागर, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीर्य, राजा मित्रभाव, सूर्यके समान कांतिवाला मित्रवीर्य, धर्मवीर्य, दानवीर्य, मघवा, बुद्धवीर्य, सीमन्धर, त्रिपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्यदत्त, पृथिवीका पालक कुनाल, मनुष्योंका स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, अजितञ्जय, विजय, उग्रसेन, महासेन और आगे चलकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेवाला तू, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! ये सभी पुरुष श्रीमान् हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं, और निरन्तर चौबीस तीर्थकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं ॥ ५२६-५३३ ॥ भगवान् महावीर स्वामीका जीव पहले पुरूरवा नामका भील था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुआ, फिर ब्रह्मस्वर्गमें देव हुआ, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुआ ॥ ५३४ ॥ फिर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर अभिसम नामका ब्राह्मण हुआ ॥ ५३५ ॥ फिर सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ, फिर अभिमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र

जातो माहेन्द्रकल्पेऽनु मनुष्योऽनु ततश्च्युतः । नरकेषु त्रसस्थावरेष्वसंख्यातवत्सरान् ॥ ५३७ ॥  
 भ्रान्त्वा ततो विनिर्गत्य स्थावराख्यो द्विजोऽभवत् । ततश्चतुर्थकल्पेऽभूद्विश्वनन्दी ततश्च्युतः ॥ ५३८ ॥  
 महाशुक्रे ततो देवस्त्रिखण्डेशस्त्रिपृष्ठवाक् । सप्तमे नरके तस्मात्समाह्व गजविद्विपः ॥ ५३९ ॥  
 आदिमे नरके तस्मात्सिंहः सद्धर्मनिर्मलः । ततः सौधर्मकल्पेऽभूत्सिंहकेतुः सुरोरामः ॥ ५४० ॥  
 कनकाञ्ज्वलनामाभूरातो विद्याधराधिपः । देवः सप्तमकल्पेऽनु हरिषेणस्ततो नृपः ॥ ५४१ ॥  
 महाशुक्रे ततो देवः प्रियमित्रोऽनु चक्रमृत् । स सहस्रारकल्पेऽभूद्देवः सूर्यप्रमाह्वयः ॥ ५४२ ॥  
 राजा नन्दाभिधस्तस्मात्पुष्पोत्तरविमानजः । अच्युतेन्द्रस्ततश्च्युत्वा वर्धमानो जिनेश्वरः ॥ ५४३ ॥  
 प्राप्तपञ्चमहाकल्याणद्विः प्रस्तुतसिद्धिभाक् । प्रदिश्याद्गुणभद्रेभ्यः स विभुः सर्वमङ्गलम् ॥ ५४४ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्वाग्वल्लभावाद्भूमयैः

पीयूषैः सुकथारसातिमधुरैर्भक्तयोपयुक्तैश्चिरम् ।

सा संसन्मगाधाधिपश्च महतीं तुष्टिं समं जग्मतुः

पुष्टिं दृष्टिविबोधयोर्विदधतीं सर्वार्थसम्पत्करीम् ॥ ५४५ ॥

### वसन्ततिलका

श्रीवर्धमानमनिशं<sup>१</sup> जिनवर्धमानं

त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि सम्प्रधौते ।

योऽन्वयोऽपि तीर्थंकरमग्रिमप्यजैषीत्

काले कलौ च पृथुलीकृतधर्मतीर्थः ॥ ५४६ ॥

स्वर्गमें देव हुआ, फिर भारद्वाज नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और त्रस स्थावर योनियोंमें भ्रमण करता रहा ॥ ५३६-५३७ ॥ वहाँसे निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर त्रिपृष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी—नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ वहाँसे निकल कर सिंह हुआ ॥ ५३८-५३९ ॥ फिर पहले नरकमें गया, वहाँसे निकल कर फिर सिंह हुआ, उसी सिंहकी पर्यायमें उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोञ्ज्वल नामका विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका देव हुआ, वहाँसे आकर नन्द नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे च्युत होकर वर्धमान तीर्थंकर हुआ है ॥ ५४०-५४३ ॥ जो पञ्चकल्याण रूप महात्रुद्धिको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा गुणोंसे श्रेष्ठ समस्त पुरुषोंके लिए सर्व प्रकारके मङ्गल प्रदान करें ॥ ५४४ ॥

इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आस्वादित, गौतम स्वामीके मुख-कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अमृतसे, वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक दोनों ही, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले एवं ज्ञान और दर्शनको पुष्ट करनेवाले बड़े भारी सन्तोषको प्राप्त हुए ॥ ५४५ ॥ जो निर्मल मोक्षमार्गमें रात-दिन लक्ष्मीसे वदते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीर्थका भारी विस्तार किया है, और जिन्होंने अमितम तीर्थंकरको भी जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको मैं स्तुतिके मार्गमें लिये जाता हूँ—अर्थात् उनकी स्तुति

स्तुत्यं प्रसादयितुमर्थिजनो विनौति  
 न स्वय्यदस्तव स मोहजयस्तवोऽयम् ।  
 तन्नार्थिनः स्तुतिरिहेश ममास्ति बाढं  
 स्तुत्यस्तुतिप्रगथिनोऽर्थपराङ्मुखस्य ॥ ५४७ ॥  
 येषां प्रमेयविमुखं सुमुखप्रमाणं  
 ते न स्तुतेर्हितजुषां विषयीभवेयुः ।  
 त्वं विश्वभावविहितावगमात्मकोऽर्हन्  
 वक्ता हि तस्य तत एव हितैषिवन्धः ॥ ५४८ ॥  
 दातासि न स्तुतिफलं समुपैत्यवदयं  
 स्तोता महज्जटिति शुभमयाचितोऽयम् ।  
 कुर्यां कुतस्तव न संस्तवनं जिनेश  
 दैन्यातिभीरुरहमध्यफलाभिलाषी ॥ ५४९ ॥  
 निष्कारणं तृणलवञ्च ददद्विधीः को  
 लोके जिन स्वयि ददाति निरर्थकृत्त्वम् ।  
 मुक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्तमेव  
 प्रेक्षावतां प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रम् ॥ ५५० ॥  
 सर्वस्वमर्थिजनताः स्वमिह स्वकीयं  
 चक्रुः परे निरुपधिस्थिरसत्त्वसाराः ।  
 प्रोच्छङ्ख्य तान् जिन वदन्ति वदान्यवर्यं  
 त्वां वाग्भिरेव वितरन्तमहो विदग्धाः ॥ ५५१ ॥

करता हूँ ॥ ५४६ ॥ हे ईश ! अर्थी लोग—कुछ पानेकी इच्छा करने वाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थात् स्तुति करनेके योग्य पुरुषकी जो स्तुति करते हैं सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं परन्तु यह बात आपमें नहीं है क्योंकि आप मोहको जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, मैं सब प्रयोजनोंसे विमुख हूँ ॥ ५४७ ॥ हे सुमुख ! जिनका प्रमाण अर्थात् ज्ञान, प्रमेय अर्थात् पदार्थसे रहित है—जो समस्त पदार्थोंको नहीं जानते हैं वे हिताभिलाषी लोगोंकी स्तुतिके विषय नहीं हो सकते । हे अर्हन् ! आप समस्त पदार्थोंको जानते हैं—समस्त पदार्थोंका जानना ही आपका स्वरूप है और आप ही उन समस्त पदार्थोंके वक्ता हैं—उपदेश देनेवाले हैं इसलिए हिताभिलाषी लोगोंके द्वारा आप ही स्तुति किये जानेके योग्य हैं ॥ ५४८ ॥ हे जिनेन्द्र ! यद्यपि आप स्तुतिका फल नहीं देते हैं तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य विना किसी याचनाके शीघ्र ही स्तुतिका बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है इसलिए बीनतासे बहुत डरनेवाला और श्रेष्ठ फलकी इच्छा करने वाला मैं आपका स्तवन क्यों न करूँ ? ॥ ५४९ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए विना कारण तृणका एक टुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहलाता है परन्तु आप विना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं ( इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिये ) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने जाते हैं यह महान् आश्चर्यकी बात है ॥ ५५० ॥ इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना सर्वस्व-धन देकर याचक जनोंके लिए छलरहित स्थायी धनसे श्रेष्ठ बनाया है और हे जिनेन्द्र ! आप केवल वचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चर्यकी बात है कि चतुर मनुष्य उन सबका उल्लङ्घन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं । भावार्थ—धन सम्पत्तिका दान करनेवाले पुरुष संसारमें फँसानेवाले हैं परन्तु आप वैराग्यसे श्रोत-प्रोत उपदेश देकर जीवोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं अतः सब और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं ॥ ५५१ ॥

धीः पौरुषञ्च विजयाज्जनमेव येषां

सौख्यञ्च विश्वविषया विरतोपभोगः ।

तेषां कथं तदुभयप्रतिपक्षरूपं

त्वच्छासनं श्रवणभिज्जिन मा जनिष्ट ॥ ५५२ ॥

पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं

गत्यादिभिः परमनिर्वृत्तिसाधनत्वात् ।

नैवामराखिलसुखं प्रति तच्च यस्माद्

बन्धप्रदं विषयनिष्ठमभीष्टघाति ॥ ५५३ ॥

कायादिकं 'सदसि ते विफलं किलाहु-

नैतद्वचस्तव निशान्य निशान्य साक्षात् ।

त्वां यान्ति निर्वृत्तिमिहैव विनेयमुख्या

मुख्यं फलं ननु फलेषु परोपकारः ॥ ५५४ ॥

यल्लक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कर्म

नामादिकं किमु निहन्ति तबोपयोगम् ।

तत्सत्तया जिन भवन्तमसिद्धमिच्छ-

न्निच्छेदन्धूर्वगमनादतनोरसिद्धिम् ॥ ५५५ ॥

साधन्तहीनमनवद्यमनादिसान्तं

सावद्यमादिरहितानवसानमाहुः ।

हे जिन ! विषयोंका अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विषयों का निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला आपका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेवाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥ ५५२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन होनेसे इष्ट है तथा भव्य जीवोंके द्वारा करनेके योग्य है । देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयोंमें फँसानेवाला है और अभीष्ट ( मोक्ष ) का घात करनेवाला है ॥ ५५३ ॥ हे भगवन् ! समवसरणमें आपके जो शरीरादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात् आपके दर्शन कर इसी लोकमें परम आनन्दको प्राप्त होते हैं - सो ठीक ही है क्योंकि जितने फल हैं उन सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है ॥ ५५४ ॥ हे भगवन् ! ज्ञान दर्शनादिरूप लक्षणोंका घात करनेवाला जो नामादि कर्म आपकी आत्मामें विद्यमान है वह क्या आपके उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । हे जिनेन्द्र ! आत्मामें कर्मोंकी सत्ता होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर ऊर्ध्वगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान् भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं । भावार्थ—यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं हैं अतः उनकी जीवन्मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है ॥ ५५५ ॥ हे प्रभो ! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्त रहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि-अनन्त, पापसहित, पापरहित, दुःखी, सुखी और दुःख-सुख दोनोंसे रहित कहते हैं इसलिए जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ञ हैं वे आपको नहीं जान सकते हैं—उनके द्वारा आप अज्ञेय हैं । भावार्थ—आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध पर्यायकी अपेक्षा आप सादि हैं तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती इसलिए आप अन्तरहित हैं । आपकी संसारी पर्याय आदि-रहित है अतः उसकी अपेक्षा अनादि है और कर्म क्षय हो जाने पर संसारी पर्यायका अन्त हो जाता

स्वां दुःखिनं सुखिनमप्युभयव्यपेतं  
 तेनैव दुर्गमतमोऽसि नयानभिज्ञैः ॥ ५५६ ॥  
 संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि भावो  
 जीवस्य योगविगमाद्विगमी तदुत्थः ।  
 स्वोत्थे स्थितिः परमनिर्वृतिरेष मार्गो  
 दुर्गः परस्य तव वाक्यबहिष्कृतस्य ॥ ५५७ ॥  
 आस्तामनादि निगलच्छिद्यया ददासि  
 यन्मुक्तिमन्तरहितां तदिहालमेषा ।  
 स्नेहादिहेतुषिनिवृत्तसमस्तसत्त्व-  
 सम्पालनप्रवणतैव तवास्यतायै ॥ ५५८ ॥  
 बोधस्तवाखिलविलोकनविभ्रमी किं  
 किं वाग्मितामितपदार्थनिरूपणायाम् ।  
 किं स्वार्थसम्पदि परार्थपराङ्मुखस्त्वं  
 किं नासि सत्सु जिन पूज्यतमस्त्वमेव ॥ ५५९ ॥  
 विश्वावलोकनवितन्वदनन्तवीर्य-  
 व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यात् ।  
 चित्रं तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं  
 सन्तो वदन्ति किमु भक्तिरुतावबोधः ॥ ५६० ॥

है उसकी अपेक्षा अन्तसहित हैं। द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वभावसे आप न  
 आदि हैं और न अन्त हैं अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप-  
 त्याग कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं—निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप  
 प्रकृतियोंका उदय अरहन्त अवस्थामें भी विद्यमान है अतः सावद्य हैं—पाप प्रकृतियोंसे सहित है।  
 अरहन्त अवस्थामें असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुखी हैं, मोह  
 कर्मका अभाव हो जानेसे आकृलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी हैं, और आप  
 अव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं। इस प्रकार भिन्न-  
 भिन्न नयोंकी अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समझता है वह आपके इन  
 विविध रूपोंको कैसे समझ सकता है ? ॥ ५५६ ॥ हे देव ! जीवोंके भाव दो प्रकारके हैं एक संयोग  
 से उत्पन्न होनेवाले और दूसरे स्वाभाविक। जो संयोगसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट  
 हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभाविक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति  
 है वही परमनिर्वृति या परम मुक्ति कहलाती है परन्तु यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य  
 दर्शनकारोंको कठिन है ॥ ५५७ ॥ हे भगवन् ! आप अनादि कर्मबन्धनको छेदकर जो अन्तरहित  
 मुक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त  
 प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी दक्षता है वही आपकी आपत्ता सिद्ध करनेके लिए बहुत है  
 ॥ ५५८ ॥ हे भगवन् ! क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थोंके देखनेके कौतूहलसे सहित नहीं है ?  
 क्या अपरिमित पदार्थोंके निरूपण करनेमें आपको वचन-कुशलता नहीं है ? क्या परपदार्थोंसे  
 पराङ्मुख रहनेवाले आप स्वार्थरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्जनोंके बीच  
 एक आप ही पूज्य नहीं हैं ? ॥ ५५९ ॥ हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाले आपके  
 अन्तवीर्यके व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग  
 आपको ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थज्ञान

भय्यात्मनां परमनिर्वृत्तिसाधनार्थं

त्वच्छेषितं तव न तत्र फलोपलिप्सा ।

तस्मात्त्वमेव जिन वागमृताम्बुबुध्या

सन्तर्पयन् जगत्कारणबन्धुरेकः ॥ ५६१ ॥

जीवोऽयमुद्युपयोगगुणोपलक्ष्य-

स्तस्योपहन्तु ननु घातिचतुष्कमेव ।

घातेन तस्य जिन पुष्कलक्षणस्त्वं

त्वां तादृशं वद वदन्तु कथं न सिद्धम् ॥ ५६२ ॥

साधारणास्तव न सन्तु गुणास्तदिष्टं<sup>१</sup>

<sup>२</sup>इदयो न तेषु जिन सत्सु गुणेषु साक्षात् ।

दृष्टे भवेद्भवति भक्तिरसौ ययाय<sup>३</sup>-

दचेचीयते स्रवति पापमपि ऋप्रभूतम् ॥ ५६३ ॥

देवावगादमभवशव मोहघाता-

च्छ्रद्धानमावृत्तिहतेः परमावगादम् ।

भाष्ये चरित्रपरिपूर्तिरथोत्तरम्-

विशवावबोधविभुतासि ततोऽभिवन्धः ॥ ५६४ ॥

ध्वस्तं त्वया प्रबलपापबलं परञ्च

प्रोम्निन्नपालिजलवत्प्रवहत्पज्जम् ।

श्रद्धादिभिस्त्रिभिरभूत्प्रितथी च सिद्धिः

सद्धर्मचक्रसुभवद्भुवनैकनाथः ॥ ५६५ ॥

देहो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ-

दक्छोत्रनेत्रविषयत्वमुपेत्य सद्यः ।

हे सो जान नहीं पड़ता है ॥ ५६० ॥ हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोंके मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृतरूपी जलकी वृष्टिसे संसारको तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु हैं ॥ ५६१ ॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है और उस उपयोगको नष्ट करनेवाले चार घातिया कर्म हैं । उन घातिया कर्मोंको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है इसलिए हे जिनेन्द्र ! आप ही कहिए कि ऐसे आत्मलक्षणवाले आपको सिद्ध कैसे न कहें ? ॥ ५६२ ॥ हे भगवन् ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता हूँ परन्तु उन असाधारण गुणोंके रहते हुए भी आप साक्षात् दिखते नहीं हैं यह आश्चर्य है, यदि आपके साक्षात् दर्शन हो जावें तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ५६३ ॥ हे देव ! मोहनीय कर्मका घात होनेसे आपके अवगाढ सम्यग्दर्शन हुआ था और अब ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणका क्षय हो जानेसे परमावगाढ सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है । अवगाढ सम्यग्दर्शनमें चारित्रकी पूर्णता होती है और परमावगाढ सम्यग्दर्शनमें समस्त पदार्थोंके जाननेकी सामर्थ्य होती है इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप वन्दनीय हैं—वन्दना करनेके योग्य हैं ॥ ५६४ ॥ हे भगवन् ! आपने प्रबल घातिया कर्मोंकी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था अब अघातिया कर्म भी, जिसका बाँध टूट गया है ऐसे सरोवरके जलके समान निरन्तर बहते रहते हैं—खिरते जाते हैं । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रत्नत्रयके द्वारा आपको निश्चय-रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है और समीचीन धर्मचक्रके द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी हुए हैं ॥ ५६५ ॥ हे कामदेवके मानको मर्दन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीरविकारसे रहित है

१ तदिष्टो म०, ख० । २, यस्योन्नेषु ग०, क०, घ० । इष्टो नु तेषु ख० । ३. पुण्यम् । ४. प्रचुरम् ।

स्वामस्तरागमखिलावगमञ्च कस्य

न स्थापयेन्मनसि मन्मथमानमदिन् ॥ ५६६ ॥

किं वस्त्वहाक्षणिकमन्वयरूपमस्ति

व्यस्तान्वयं वद हि किं क्षणिकञ्च किञ्चित् ।

बुद्धादयो बुधप गर्भगतार्भकाभा

भेदोऽयमर्थविमुखोवगमो ह्यमीषाम् ॥ ५६७ ॥

तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं ते

स्वाभाविकाद्यतिशयेष्वपरोऽपि कश्चित् ।

कस्यापि सम्भवति किं कपिलादिकानां

केनास्य पक्वमुपयान्ति १ तपस्विनोऽमी ॥ ५६८ ॥

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसं

ध्वस्तत्रिवेदमपि किं परमाङ्गसङ्गात् २ ।

किं मोहमखलदहनात्किमनन्तवीर्यात्

किं सिद्धतापरिणतेर्गुणगौरवाद्वा ॥ ५६९ ॥

देहत्रयापनयनेन विनापि सिद्धि-

स्वं शुद्धिशक्तयतुल्यद्युदितोदितत्वात् ।

आधिक्यमस्य ३ धिपते त्वदुदीरितोरु-

सन्मार्गाग्नयसि यत्परमात्मभावम् ॥ ५७० ॥

और आपके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपको देखनेवाले हैं यदि कदाचित् ये दोनों ही नेत्र और कर्ण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागद्वेषसे रहित तथा समस्त पदार्थोंको जाननेवाले आपको किसके मनमें शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात् सभीके मनमें स्थापित कर देंगे। भावार्थ—आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका निरूपण करनेवाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने लगते हैं। आपका शरीर निर्विकार इसलिए है कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थका यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थोंको जाननेवाले हैं—सर्वज्ञ हैं ॥ ५६६ ॥ हे विद्वानोंके पालक ! क्या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय रूपसे क्षणिक है। कैसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें बैठे हुए बच्चेके समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थज्ञानसे विमुख है ॥ ५६७ ॥ हे देव ! आपका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके विषयभूत नहीं है थह बात तो दूर रही परन्तु निःस्वेदस्व आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं उनमेंसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी संभव है ? अर्थात् नहीं है; फिर भला ये बेचारे कपिलादि आपकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते हैं ? आप कैसे कहला सकते हैं ? ॥ ५६८ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमौदारिक शरीरकी संगतिसे कहते हैं ? या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे कहते हैं या गुणोंके गौरवसे कहते हैं ? ॥ ५६९ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि अभी आपने औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी शुद्धि, शक्ति और अनुपम धैर्यके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वामिन् ! आप अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंको, परमात्म-अवस्था प्राप्त

१ तपस्विनोऽपि क०, ख०, ग०, घ०, म० । २ सङ्गम् क०, ख०, ग०, घ० । ३-मप्यधिपते क०, ख०, ग०, घ० ।

अस्त्येव देव तव औदयिकोऽपि भावः

किं त्वेष मोहरहितस्य न बन्धहेतुः ।

योगानुरोधसमवाहस्तुभाणुवेष-

बन्धं निबन्धनं मुद्यान्त्यविरोधकत्वात् ॥ ५७१ ॥

त्वत्पादपङ्कजपङ्कजप्रितयाहपुण्याद्

गण्योऽभवत्सुरगणो गणनातिगश्रीः ।

आनञ्जमौलिरत एव नखोन्मुखाञ्जु-

भास्वन्मुखः शतमुखः सुमुखस्तवाहृद्योः ॥ ५७२ ॥

### मालिनी

प्रशमपरमकाष्ठानिष्ठितोदात्तमूर्तेः

क्रमकरणविहीनज्ञानधामैकधाम्नः ।

द्वितयनयमयोद्यङ्गीरद्विन्यध्वनेस्ते

ननु जिन परमात्मप्राभवं भाति भतुः ॥ ५७३ ॥

### शार्दूलचिक्रीडितम्

ज्ञानं सर्वगतं स्वरूपनियतं ते स्यादहेतुः कृते-

र्वतिच्छायतनाः स्वकृत्यपटवो वाचो विवाचामपि ।

प्रस्थानस्थितयोऽन्यनात्मविहिता मात्मान्यबाधाप्रदाः

स त्वं निर्मलबोधदर्पणतले ज्ञेयाकृतिं धस्त्व मे ॥ ५७४ ॥

विश्वस्यास्खलितं प्रज्ञास्ति तव दान्याथात्म्यमात्मेशिनो

यस्माद्दृष्टविरोधरोधरहिता, रागाद्यविद्याच्छिदः ।

करा देते हैं यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है ॥ ५७० ॥ हे देव ! यद्यपि आपके औदयिक भाव है परन्तु चूँकि आप मोहसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोधसे आपके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका कुछ भी विघात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथार्थमें बन्धरहित ही कहते हैं ॥ ५७१ ॥ हे भगवन् ! आपके चरण-कमलोंका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओंका समूह गणनीय (माननीय) गिना गया है और उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याके बाहर हो गई है। यही कारण है कि नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेवाली किरणोंसे जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र मुकुट झुका कर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है—आपके चरणोंकी ओर निहार रहा है ॥ ५७२ ॥ हे जिनन्द्र ! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भावकी चरम सीमासे परिपूर्ण है, आप क्रम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक मात्र स्थान हैं, आपकी गम्भीर दिव्यध्वनि मिश्रण और व्यवहार-नयसे परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदका प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है ॥ ५७३ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है तो भी स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्यका कारण नहीं है। आपकी वाणी इच्छाके बिना ही खिरती है तो भी वचनरहित (पशु आदि) जीवोंका भी आत्मकल्याण करनेमें समर्थ है। इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है वह भी अपनी इच्छासे किया हुआ नहीं होता है और वह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है। ऐसे हे देव ! आप मेरे निर्मलज्ञानरूपी दर्पणके तलमें ज्ञेयकी आकृतिको धारण करो अर्थात् मेरे ज्ञानके विषय होओ ॥ ५७४ ॥ हे भगवन् ! आप आत्माके स्वामी हैं—अपनी इच्छाओंको अपने आधीन रखते हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका उच्छेद कर दिया है इसलिए आपके वचन प्रत्यक्षादि विरोधसे



तस्माद्धीर विकायसायकशिखामौख्यवीर्यद्रुहो  
 मोहद्रोहजयस्तवैव न परेष्वन्यायविन्यासिषु ॥ ५७५ ॥  
 देवो वीरजिनोऽयमस्तु १जगतां वन्द्यः २सदा मूर्ध्नि मे  
 देवस्त्वं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनाखिलम् ।  
 कारुण्यात्प्रथमानुयोगमवदः श्रद्धाभिवृद्धथावहं  
 मङ्गाग्योदयतः सतां स सहजो भावो ह्ययं तादृशाम् ॥ ५७६ ॥

### मालिनी


इति कतिपयवारिभर्वर्धमानं जिनेन्द्रं  
 मगधपतिरुदीर्णश्रद्धया सिद्धकृत्यः ३ ।  
 गणधत्तमपि जुस्वा गौतमं धर्मधुर्यः ४  
 स्वपुरमविशदुद्यत्तुष्टिरागामिसिद्धिः ॥ ५७७ ॥  
 ५अनुष्टुप्छन्दसा ज्ञेया ग्रन्थसङ्ख्या तु विंशतिः ।  
 सहस्राणां पुराणस्य व्याख्यातृश्रोतृलेखकैः ॥ ५७८ ॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे  
 श्रीवर्धमानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्ततितमं पर्व ।



रहित होकर समस्त संसारके लिए विना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते हैं । इसी तरह हे वीर ! आपने कामदेवके बाणोंकी शिखाकी वाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी है इसलिए मोहकी शत्रुताको जीतना आपके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें नहीं ॥ ५७५ ॥ समस्त जगत्के द्वारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहें और हे गणधर देव ! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे करुणाकर स्पष्ट वाणीके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनेवाला यह प्रथमानुयोग कहा है सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है ॥ ५७६ ॥ इस प्रकार जिसे आगामी कालमें मोक्ष होनेवाला है जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्मका भार धारण करनेवाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है ऐसा मगधपति राजा श्रेणिक, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधरकी स्तुति कर आपने नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥ ५७७ ॥

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले और लिखनेवालोंको इस पुराणकी संख्या अनुष्टुप् छन्दसे बीस हजार समझनी चाहिये ॥ ५७८ ॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, आर्षे नामसे प्रसिद्ध, त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री वर्धमान स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला यह छिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७६ ॥



१ जगताः ख० । २ सता इति क्वचित् । ३ सिद्धकृत्यं ख० । ४ धर्मधुर्यम् ख० । ५ अनुष्टुप् छन्दसा ज्ञेया चतुर्विंशसहस्रिका । पुराणे ग्रन्थके संख्या व्याख्यातृश्रोतृलेखकैः ॥ क०, ख०, ग० ।

## अथ प्रशस्तिः

यस्यानताः पदनलैन्दवबिम्बनुम्बिः चूडामणिप्रकटसन्मुकुटाः सुरेन्द्राः ।

न्यक्कुर्वते स्म हरमर्धशशाङ्कमौलिलीलोद्धतं स जयताज्जिनवर्धमानः ॥ १ ॥

श्रीमूलसङ्घवाराशौ मणीनामिव साविषाम् । महापुरुपरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २ ॥

तत्र विभ्रासिताशेषप्रवादिमद्वारणः । वीरसेनाप्रणीर्वीरसेनभट्टारको बभौ ॥ ३ ॥

शानचारित्रसामग्रीवा प्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥ ४ ॥

यत्कमानम्वराजन्ममुखाब्जान्यादधुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाद्य नखचन्द्रमरीचिभिः ॥ ५ ॥

सिद्धिभूपद्धतिं<sup>३</sup> यस्य<sup>४</sup> टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते ह्येकयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥ ६ ॥

यस्यास्याब्जजवाक्छिया धवलया कीर्त्यैव संश्राव्यया<sup>५</sup>

सम्प्रीतिं सततं समस्तसुधियां सन्पादयन्त्या सताम् ।

विश्वव्याप्तपरिश्रमादिव चिरं लोके स्थितिं<sup>६</sup> संश्रिताः

श्रोत्रालीनमलान्यनाद्युपचितान्यस्तानि निःशेषतः ॥ ७ ॥

अभवदिव हिमाद्रेर्देवसिन्धुप्रवाहो

ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रैकमूर्तिः ।

इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे और इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके विम्बका स्पर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तक पर अर्ध चन्द्रको धारण करनेकी लीलासे उन्मत्त हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जयशील हों ॥ १ ॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देवीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार मूलसंघरूपी समुद्रमें महापुरुषरूपी रत्नोंके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हो गया है ॥ २ ॥ उसमें समस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियोंको त्रास देनेवाले एवं वीरसेन संघमें अग्रणी वीरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे ॥ ३ ॥ वे ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीके समान शरीरको धारण कर रहे थे और शिष्य जनोंका अनुग्रह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे ॥ ४ ॥ यह आश्चर्यकी बात थी कि उन वीरसेन भट्टारकके चरणोंमें नम्र हुए राजा लोगोंके मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रफुल्लित होकर शोभाको धारण कर रहे थे ॥ ५ ॥ सिद्धिभूपद्धति ग्रन्थ यद्यपि पद-पद पर विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥ ६ ॥ जिन वीरसेन स्वामीके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई वचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त बुद्धिमान् सज्जनोंको सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है और समस्त संसारमें फैलनेके परिश्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी वचनरूपी लक्ष्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानांमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं । विशेषार्थ—श्री वीरसेन स्वामीने षट्खण्डागमके ऊपर जो धवल नामकी टीका लिखी है वह मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लक्ष्मी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त लोकमें फैला हुआ है । और वह लोकमें सिद्धान्त ग्रन्थोंकी सीमाके समान स्थित है । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह धवल टीका श्रोतृजनोंके अज्ञान रूपी मैलको त्रिरकाल तक सम्पूर्ण

१ मपुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिकः—‘चतुर्विंशतितीर्थैशां चतुर्पतिनिवृत्तये । दृषभमदिमहावीरपर्यन्तान् प्रणमाम्यहम् ।’ २-मग्रहीदिव ल० । ३ पद्धतिर्यस्य ल० । ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ०<sup>१</sup> । ५ संश्राव्याय क०, घ०, म० । ६ स्थितिः म० ।

उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो

मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥ ८ ॥

यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरङ्गारान्तराविर्भवत्

पादाम्भोजरजःपिवाङ्गमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्युतिः ।

संस्मर्ता स्वममोघवर्षन्नुपतिः पृतोऽहमद्येत्यलम्

स श्रीमान्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥ ९ ॥

प्रावीण्यं पदवाक्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे

सद्भावावगतिः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशलम् ।

ग्रन्थग्रन्थिभिदिः सद्भवकवितेत्यप्रो गुणानां गणो

ये सम्प्राप्य चिरं कलङ्कविकलः काले कलौ सुस्थितः ॥ १० ॥

ज्योत्स्नेव तारकाभीशे सहस्रांशाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सहजास्मिन्सरस्वती ॥ ११ ॥

दशरथगुरुरासीरस्य श्रीमान्सधर्मा

शशिन इव दिनेशो विद्वलोकैकचक्षुः ।

निखिलमिदमदीपि न्यापि तद्वाङ्मथूसैः

प्रकटितनिजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥ १२ ॥

सद्भावः शर्वशास्त्राणां तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापित्तिबिम्बाभो<sup>१</sup> बालैरप्याशु बुध्यते ॥ १३ ॥

प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविद्वोपविद्यां<sup>२</sup> गतः

सिद्धान्ता<sup>३</sup>ऽध्यवसानयानजनित प्रागल्भ्यवृद्धीद्धिः ।

रूपसे नष्ट करता रहे । जिस प्रकार हिमवान् पर्वतसे गङ्गानदीका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा सर्वज्ञ देवसे समस्त शास्त्रोंकी मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती है अथवा उदयाचलके तटसे देदीप्यमान सूर्य प्रकट होता है उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए ॥ ७-८ ॥ श्री जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोंके किरणसमूह धाराके समान फैलते थे और उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-कमलोंकी रजसे जव राजा अमोघवर्षके मुकुटमें लगे हुए नवीन रत्नोंकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब वह अपने आपको ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उन पूजनीय भगवान् जिनसेनाचार्यके चरण संसारके लिए मङ्गल रूप हों ॥ ९ ॥ पद और वाक्यकी रचनामें प्रावीण्य होना, दूसरे पक्षका निराकरण करनेमें तस्परता होना, आगमविषयक उत्तम पदार्थोंको अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमें कुशलता होना, ग्रन्थके गूढ अभिप्रायको प्रकट करना और उत्तम मार्ग युक्त कविताका होना ये सब गुण जिनसेनाचार्यको पाकर कलिकाल में भी चिरकाल तक कलङ्करहित होकर स्थिर रहे थे ॥ १० ॥ जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रभा और स्फटिकमें स्वच्छता स्वभावसे ही रहती है उसी प्रकार जिनसेनाचार्यमें सरस्वती भी स्वभावसे ही रहती थी ॥ ११ ॥ जिस प्रकार समस्त लोकका एक चक्षुस्वरूप सूर्य चन्द्रमाका सधर्मा होता है । उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान् दशरथ गुरु, उन जिनसेनाचार्यके सधर्मा बन्धु थे—एक गुरुभाई थे । जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणोंसे संसारके सब पदार्थोंको प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी अपने वचनरूपी किरणोंसे समस्त जगत्को प्रकाशमान करते थे ॥ १२ ॥ जिस प्रकार दर्पणमें प्रतिबिम्बित सूर्यके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेनाचार्यके शोभायमान वचनोंमें समस्त शास्त्रोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र ही समझ जाते थे ॥ १३ ॥ सिद्धान्त शास्त्र रूपी समुद्रके पारगामी होनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय

१ सिद्धोऽसौ म०, व०, म०, क० । २ विश्वोपविद्यान्तरात् म०, व०, म० । विद्योपविद्यातिमः क० । सिद्धान्ताद्ध्यवहारयान क०, ग०, घ०, म० ।

नानानुनयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैर्गुणैर्भूषितः

शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्जगद्विश्रुतः ॥ १४ ॥

पुण्यश्रियोऽयमजयस्तुभगवददर्प-

मित्याकलय परिशुद्धमतिस्तपत्रीः ।

मुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेव दूती

प्रीत्या महागुणधनं समशिश्रियद्यम् ॥ १५ ॥

तस्य वचनांशुविसरः सन्ततहृतदुस्तरान्तरङ्गतमाः ।

कुवलयपद्माह्लादी जितशिशिराशिशिररश्मिप्रसरः ॥ १६ ॥

कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकायामातृकं पुरोश्चरितम् ।

सकलच्छन्दोलङ्कृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ॥ १७ ॥

व्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रज्ञावम् ।

अपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्यं ध्युत्पन्नमतिभिरादेयम् ॥ १८ ॥

जिनसेनभगवतोक्तं मिथ्याकविदर्पदहनमतिलकितम् ।

सिद्धान्तोपनिबन्धनकर्त्रा भर्त्रा विनेयानाम् ॥ १९ ॥

अतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्टं सङ्गृहीतममलधिया ।

गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥ २० ॥

व्यावर्णनादिरहितं सुबोधमखिलं सुलेखमखिलहितम् ।

महितं महापुराणं पठन्तु शृण्वन्तु भक्तिमद्भक्त्याः ॥ २१ ॥

इदं भावयतां पुंसां भूयो भवविभिस्सया । भक्त्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धदम्बुराविद्वताम् ॥ २२ ॥

शान्तिर्बुद्धिर्जयः श्रेयः प्रायः प्रेयः समागमः । विगमो विप्लवव्याघ्रेरासिरत्यर्थसम्पदाम् ॥ २३ ॥

प्रगल्भ तथा देदीप्यमान ( तीक्ष्ण ) थी, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अगणित गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगत्में प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्राचार्य, उन्हीं जिनसेनाचार्य तथा दशरथ गुरुका शिष्य था ॥ १४ ॥ 'गुणभद्र ने पुण्य-रूपी लक्ष्मीके सौभाग्यशाली होनेका गर्व जीत लिया है' ऐसा समझकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनके पास अस्यन्त चतुर दूतके समान विशुद्ध बुद्धि वाली तपोलक्ष्मीको भेजा था और वह तपोलक्ष्मीरूपी दूती महागुण-रूपी धनसे सन्पन्न रहने-वाले उस गुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी ॥ १५ ॥

उन गुणभद्रके वचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले अज्ञानान्धकारको सदाके लिए नष्ट कर दिया था और वह कुवलय तथा कमल दोनोंको आह्लादित करनेवाला था ( पक्षमें मही-मण्डलकी लक्ष्मीको हर्षित करनेवाला था ) इस तरह उसने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके प्रसारको जीत लिया था ॥ १६ ॥ परमेश्वर कविके द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढपदोंकी रचना है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या कवियोंके दर्पको खण्डित करनेवाला है, और अतिशय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त ग्रन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवान्ने कहा है ॥ १७-१९ ॥ ग्रन्थका जो भाग, भगवान् जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके अनुदोधसे तथा भारी विस्तारके भयसे संक्षेपमें ही संगृहीत किया है ॥ २० ॥ यह महापुराण व्यर्थके वर्णनसे रहित है, सरलतासे समझा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवोंका हित करनेवाला है, तथा पूजित है—सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण ग्रन्थको भक्तिसे भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह पढ़े तथा सुनें ॥ २१ ॥ संसारके छेदकी इच्छासे जो भव्य जीव इस ग्रन्थका बार-बार चिन्तन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यके

बन्धहेतुफलज्ञानं स्याच्छुभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेयो मुक्तिसद्भावो मुक्तिहेतुश्च निश्चितः ॥ २४ ॥  
निर्वेगात्रितयोऽभूतिर्धर्मश्रद्धाप्रवर्धनम् । असङ्ख्येयगुणधेय्या निर्जराशुभकर्मणाम् ॥ २५ ॥  
आत्मवस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविमोक्षणात् । शुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥ २६ ॥  
तदेतदेव व्याख्येयं श्रुत्वा भव्यैरनिरन्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीयञ्च भाक्तिकैः ॥ २७ ॥

विदितसकलशास्त्रो लोकलेनो मुनीशः

कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः ।

सततमिह पुराणे प्रार्थ्यं साहाय्यमुच्चै-

गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥ २८ ॥

यस्योत्तुङ्गमतङ्गजा निजमदञ्जोत्स्विनीसङ्गमा-

ज्ञानं वारि कलङ्कितं कटु मुहुः पीत्वापगच्छत्तृषः ।

कौमारं घनचन्दनं वनमपां पत्युस्तरङ्गानिलै-

र्मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिश्रियन् ॥ २९ ॥

दुग्धाब्धौ गिरिणा हरौ हतसुखा गोपीकुचोद्धृद्नैः

पद्मे भावुकैर्भिदेलिमदले रात्रौ च संकोचने ।

यस्योरःशरणे प्रथीयसि भुजस्तम्भान्तरोत्तम्भित-

स्थेये हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौख्यमगाच्चिरम् ॥ ३० ॥

धारक पुरुषोंको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिलती है, वृद्धि होती है, विजय होती है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता है, उपद्रवोंका नाश होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, शुभ-अशुभ कर्मोंके बन्धके कारण तथा उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका निश्चय होता है, तीनों प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धर्मकी श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा होती है, अशुभ कर्मोंका आस्रव रुकता है और समस्त कर्मोंका क्षय होनेसे वह आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती है जो कि आत्माको सिद्धि कही जाती है । इसलिए भक्तिसे भरे हुए भव्योंको निरन्तर इसी महा-पुराण ग्रन्थकी व्याख्या करनी चाहिये, इसे ही सुनना चाहिये, इसीका चिन्तन करना चाहिये, हर्षसे इसीकी पूजा करनी चाहिये और इसे ही लिखना चाहिये ॥ २२-२७ ॥

समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रिके धारक मुनिराज लोकसेन कवि, गुणभद्रा-चार्यके शिष्योंमें मुख्य शिष्य थे । इन्होंने इस पुराणको सहायता देकर अपनी उत्कृष्ट गुरु-विनयको सत्पुरुषोंके द्वारा मान्यता प्राप्त कराई थी ॥ २८ ॥ जिनके ऊँचे हाथी अपने मद रूपी नदीके समा-गमसे कलङ्कित गङ्गा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्याससे रहित हुए थे तथा समुद्रकी तरङ्गोंसे जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूर्यकी किरणोंकी प्रभा अस्त हो जाती थी ऐसे कुमारीपर्वतके सघन चन्दनवनमें बार बार विश्राम लेते थे । भावार्थ—जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरमें गङ्गा नदी तक कई बार घूमी थी ॥ २९ ॥ लक्ष्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं—एक क्षीर-समुद्र, दूसरा नारायणका वक्षःस्थल और तीसरा कमल । इनमेंसे क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मीको सुख इसलिए नहीं मिला कि वह पर्वतके द्वारा मथा गया था, नारायणके वक्षःस्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंके स्तनोंका बार-बार आघात लगता था और कमलमें इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्यकी किरणोंसे दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे । इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानोंसे हट कर, भुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुदृढ़ तथा हारोंके समूह रूपी तोरणोंसे सुसज्जित जिनके विशाल वक्षःस्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ॥ ३० ॥

अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम् । तस्मिन्निध्वस्तनिशेषद्विपि वीभ्रयशोभुपि ॥ ३१ ॥

पञ्चालयमुकुलकुलप्रविकासकसम्प्रतापततमहसि ।

श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसन्तमसे ॥ ३२ ॥

चेष्टपताके चेष्टध्वजानुजे चेष्टकेतनतनूजे ।

जैनेन्द्रधर्मवृद्धेविधायिनि विधुवीभ्रपृथुयशसि ॥ ३३ ॥

वनवासदेशमखिलं भुञ्जति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् ।

तत्पितृनिजनामकृते ख्याते वङ्गापुरे पुरेष्वधिके ॥ ३४ ॥

शकनृपकालाभ्यन्तरविशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते ।

मङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ ॥

श्रीपञ्चम्यां बुधार्द्रायुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बुधांशे

पूर्वायां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे सैहिकेये तुलायाम् ।

सूर्ये शुके कुळारे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यवर्यैः

प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६ ॥

यावद्धरा जलनिधिर्गगनं हिमांशु-

स्तिग्मद्युतिः सुरगिरिः ककुभां विभागः ।

तावत्सतां वचसि चेतसि पूतमेत-

च्छ्रोतस्यतिस्थितिमुपैतु महापुराणम् ॥ ३७ ॥

धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र

तीर्थैशिनानां चरितमत्र महापुराणे ।

यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्द-

निर्यद्वचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥ ३८ ॥

जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये थे, और जो निर्मल यशको प्राप्त थे ऐसे राजा अकालवर्ष जब इस समस्त पृथिवीका पालन कर रहे थे ॥ ३१ ॥ तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामह मुकुलके वंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप सर्वत्र फैल रहा था, जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शत्रु रूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेल्ल पताकावाला था—जिसकी पताकामें मयूरका चिह्न था—चेल्लध्वजका अनुज था, चेष्टकेतन ( बंकेय ) का पुत्र था, जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्वल यशका धारक था ऐसा श्रीमान् लोकादित्य राजा, अपने पिताके नाम पर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध वङ्गापुर नामके श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त वनवास देशका सुखपूर्वक चिरकालसे पालन करता था ॥ ३२-३४ ॥ तब महामङ्गलकारी और समस्त मनुष्योंको सुख देनेवाले पिङ्गल नामक ८२० शक संवत्में श्री पञ्चमी ( श्रावण वदी ५ ) गुरुववार के दिन पूर्वा फाल्गुनी स्थित सिंह लग्नमें जब कि बुध आर्द्रा नक्षत्र का, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशि का, राहु तुलाराशिका, सूर्य, शुक्र कर्कराशि का, और वृहस्पति वृष राशि पर था तब यह उत्तरपुराण ग्रन्थ पूर्ण हुआ था, उसी दिन भव्यजीवोंने इसकी पूजा की थी। इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ एवं पुण्यरूप यह पुराण संसारमें जयवन्त है ॥ ३५-३६ ॥ जब तक पृथिवी है, आकाश है, चन्द्रमा है, सूर्य है, सुमेरु है, और दिशाओंका विभाग है, तब तक सज्जनोंके वचनमें, चित्तमें और कानमें यह पवित्र महापुराण स्थितिको प्राप्त हो अर्थात् सज्जन पुरुष वचनों-द्वारा इसकी चर्चा करें, हृदयमें इसका विचार करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ॥३७॥ इस महापुराणमें धर्मशास्त्र, मोक्षका मार्ग है, कविता है, और तीर्थकरोंका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन

महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किञ्चित् ।

कवीशिनानेन यथा न काव्यचर्चासु चेतोविकलाः कवीन्द्राः ॥ ३९ ॥

१स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः कवीड्यः

विमलमुनिगणेड्यः भव्यमालासमीड्यः ।

सकलगुणसमाड्यो दुष्टवादीभसिंहो-

विदितसकलशास्त्रः सर्वराजेन्द्रवन्द्यः ॥ ४० ॥

यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचार-

श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखे स्याः ।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्द-

प्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥ ४१ ॥

२स जयति गुणभद्रः सर्वयोगीन्द्रवन्द्यः

सकलकविवराणामग्रिमः सूरिवन्द्यः ।

जितमदनविलासो दिक्बलस्कीर्तिकेतु-

दुरिततरुकुठारः सर्वभूपालवन्द्यः ॥ ४२ ॥

धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्

श्रव्याः किन्तु कथास्त्रिषष्टिपुरुषाख्यानं चरित्रार्णवः ।


किनका मन हरण नहीं करते ? अर्थात् समीका करते हैं ॥३८॥ महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान् आदि-  
नाथके इस पुराणमें कवियोंके स्वामी इन जिनसेनाचार्यने ऐसा कुछ अद्भुत कार्य किया है कि इसके  
रहते कविलोग काव्यकी चर्चाओंमें कभी भी हृदयरहित नहीं होते ॥३९॥ वे जिनसेनाचार्य जयवन्त रहें  
जो कि कवियोंके द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मल मुनियोंके समूह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्यजीवोंका समूह  
जिनका स्तवन करना है, जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्टवादी रूपी हाथियोंको जीतनेके लिए सिंहके  
समान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं ॥ ४० ॥ हे  
मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त कवियोंके द्वारा कहे हुए सुभाषितोंका समूह सुननेमें सरस है तो तू कवि  
श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके मुखारविन्दसे कहे हुए इस पुराणके सुननेमें अपने कर्ण निकट कर ॥ ४१ ॥  
वे गुणभद्राचार्य भी जयवन्त रहें जो कि समस्त योगियोंके द्वारा वन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कवियोंमें  
अग्रगामी हैं, आचार्योंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य हैं, जिन्होंने कामके विलासको जीत लिया है,  
जिनकी कीर्ति रूपी पताका समस्त दिशाओंमें फहरा रही है, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें कुठार  
के समान हैं और समस्त राजाओंके द्वारा वन्दनीय हैं ॥ ४२ ॥ 'यह महापुराण केवल पुराण ही है,  
ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अद्भुत धर्मशास्त्र है, इसकी कथाएं श्रवणीय हैं—अत्यन्त

१ कविवरजिनसेनाचार्यवर्यार्यमासौ मधुरमणिनवाच्यं नाभिस्रुः पुराणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाचो  
विचित्राः सकलकविकरीन्द्राम्बतसिंहा जयन्ति ॥ म०, क०, ग०, घ० । २ असौ श्लोकः क०, ग०, घ०, म०  
पुस्तके नास्ति ।

काऽप्यस्मिन्कवितागुणाऽस्ति कवयोऽप्येतद्वचोब्जालयः


कोऽसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्राचार्यवर्यः स्वयम् ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रशस्तिव्यावर्णनं  
नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥ ७७ ॥



मनोहर है, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही है, इसमें कोई अद्भुत कविताका गुण है, और कविलोग भी इसके वचनरूपी कमलों पर भ्रमरोंके समान आसक्त है, यथार्थमें इस ग्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचार्य स्वयं कोई अद्भुत कवि हैं ॥४३॥

इस प्रकार ऋषि प्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाला सतहत्तरहौ पर्व पूर्ण हुआ ।



पुराणाब्धिरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः ।

सर्वथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम् ॥

पारम्प्राप्तो जन्मभूमिर्द्यदीया

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः ।

पन्नालालः स्वल्पबुद्धिः स चाहं

टीकामेतांमल्पबुद्ध्या चकार ॥

मधुमासासितपक्षे शुक्रे वारेऽपराह्णवेलायाम् ।

शून्याष्टचतुर्युग्म-वर्षे वीराब्दसंज्ञिते पूर्णा ॥

ते ते जयन्तु विद्वान्सो वन्दनीयगुणाकराः ।

यत्कृपाकोणमालम्ब्य तीर्णोऽयं शास्त्रसागरः ॥

येषां कृपाकोमलदृष्टिपातैः सुपुष्पिताभून्ममसूक्तिवल्ली ।

तान्प्रार्थये वर्णिगणेशपादान् फलोदयं तत्र नतेन भूर्ना ॥

यस्यानुकम्पामृतपानतृप्ता बुधा न हीच्छन्ति सुधासमूहम् ।

भूयात्प्रमोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशिः स गुरुर्गणेशः ॥





## उत्तरपुराणस्थश्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

[ अ ]					
अंसवारिपयोपेतः	१५	अङ्गं ससममाख्येयं	१६५	अत्र जम्बूदुमालक्ष्य	१७२
अकम्पनाद्या भूपाला	४४६	अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पर्श-	१५०	अत्र नाभङ्करं किञ्चि-	१६५
अकम्पनोऽन्धवेत्ताख्यः	४६८	अङ्गरागं समालोक्य	२५४	अत्र पाण्डुतनूजानां	४२०
अकम्पित सर्वेऽपि	५०७	अङ्गरागोऽङ्गलभोऽस्य	४६३	अत्रामुत्र च मित्रवन्न हितकृत्	१२
अकरोद्दूषणं धिग्धिङ्	४८७	अङ्गहारैः सकरणैः	१७०	अत्रैव भरते राजा	२४५
अकषायमनारम्भ-	१८०	अङ्गाङ्गबाह्यसद्भाव-	४७३	अत्रैव भरते वङ्ग-	२३४
अकारणसमुद्भूत-	५७	अङ्गिनीं वत सीदन्ति	१०२	अत्रैव भारते श्रीमान्	६३
अकारपञ्चकोच्चार-	२१०	अचल्लोऽपि तदुद्वेगाद्-	६५	अथ कंसवधूमुक्त-	३७५
अकार्यमवशिष्टं यत्-	४१३	अचेतने कथं पूजा	४३२	अथ कश्चित्त्वगो मध्ये	१६२
अकालवधंभूपाले	५७७	अच्छेदो मुक्तियोग्याया	४७६	अथ कृत्वा महापूजां	२६१
अकालसाधनं शौर्यं	५२०	अच्युतेन्द्रोऽजनिष्ठात्-	५३	अथ कौशाम्ब्यधीशास्य	१६२
अकाले चम्पकाशोक-	४१७	अजनि वैश्रवणो धरणीश्वरः	२३७	अथ क्षेमङ्करः पृथ्व्याः	१८०
अकीर्तिनिष्फलाऽऽचन्द्र-	३०७	अजन्यन्धकवृष्ट्याख्य	३५१	अथ गौरीभवं चैवं	४०३
अकुर्वन् पञ्चमं देवाः	३२६	अज्ञानतपसानेन	४३६	अथ चक्रपुरं खङ्ग-	१८६
अकृत्रिमजिनागारा-	१६०	अज्ञानबीजसंरूढा	१२२	अथ चन्द्रप्रभः स्वामी	६४
अकृत्रिमाणि निर्जेतुं	४४६	अज्ञानसंशयैकान्त-	१५८	अथ जम्बूदुमालक्ष्ये	४४४
अकृत्वा मे कुमारोऽञ्जः	४३५	अज्ञानात्माङ्गनौ श्रद्धा-	१८९	अथ जम्बूमति द्वीपे	१२९
अखण्डस्य त्रिलण्डस्याधिपत्यं	६४	अटत्येष च भिक्षायै	५३०	अथ जाम्बूमति द्वीपे	३२९
अखण्डे धातकीखण्डे	२५	अणिमादिगुणः सप्त-	५०	अथ तन्नगराधीशः	१६१
अगत्या क्षणिकत्वं	१७६	अणिमादिगुणोपेतं	१५	अथ तस्माद्दनाद्देह-	५२४
अगन्धनस्तु तद्बहौ	११२	अणुमानिति हर्षेण	२६७	अथ तौ रेणुकीपुत्रौ	२२७
अगमन्युतना तासु	३६७	अतः परं मुहूर्तं चे-	५३०	अथ तौ सह गच्छन्ता-	१७८
अगात्तदनुमार्गेषा	४८८	अतिक्रम्य कुतूथीनि	४४३	अथ दर्पां दुराचारः	२३१
अगान्द्रणिनक्षत्रे	२१०	अतिक्रम्यादिमं मार्गं	२७४	अथ दिव्यध्वनेर्हेतुः	४६७
अगाधोऽयं पुराणाब्धिः	४४१	अतिपातनिपीतास-	३१०	अथ नेमिकुमारोऽपि	३०५
अगुर्गुणा गुणीभाव-	८६	अतिरौक्ष्या धरा तत्र	५५०	अथ पुत्रौ वनात्पुष्प-	२२५
अग्रजं तव पापोऽयं	१०८	अतिवाह्यागतो वीर-	३४३	अथ मौनव्रतेनैते	२३
अग्रजास्यास्तदागत्य	४८६	अतिविस्तरभीरुत्वा-	५७५	अथ मौनव्रतेनायं	१७
अग्रजोऽस्यैव भद्राया	१४४	अतीक्ष्णनखदंष्ट्रोऽय-	४६४	अथ प्रियङ्कराख्याय	५५४
अग्रमन्दरशैलस्य	६०	अतीतान् विश्वभूयेशान्	१४०	अथ भट्टारकोऽप्यस्मा-	४६४
अग्रासने विधायैनां	५२२	अतुल्यबलमखण्डा-	३७३	अथ मन्दरपर्यन्त-	१७६
अग्निभूतिरभूत्सु-	४०७	अतृप्यदेश भूपाल-	१०२	अथ भ्रान्त्वा भवे दीर्घं	१०६
अग्निभूतौ गतप्राणे	४८७	अतोऽन्यत्प्रकृतं ब्रूमो	३६२	अथ युद्धे कुरुक्षेत्रे	४२१
अग्निष्वा गृह्णीतौकौ	१६०	अतो विजयदेवी च	४६७	अथ वत्साह्वये देशे	४८५
अग्निष्वायां भनश्रीः	४२२	अत्यल्पं तृप्तिमापन्न-	२१६	अथ वज्रायुजाधीशां	१८४
अग्नेसरस्करञ्चक-	३१६	अत्र का गतिरन्येषां	२५०	अथवाऽहर्नमतेनेद-	१६६

अथ विद्याधराधीशः	१५७
अथ शत्रून् समुज्जेतुं	३८०
अथ शीलवतीं सीता-	३२३
अथ शौर्यादिभी राम-	२६१
अथ श्रीनागदत्तोऽपि	४६२
अथ सर्वान् मृतान् दृष्ट्वा	५३३
अथ स्वज्ञातपूर्वञ्च	४०७
अथ स्वविष्टराकम्प-	३७७
अथ स्वपुण्यकर्माप्त-	१६२
अथ स्वपुरमानीय	३६४
अथाकस्मात्पुरे तस्मिन्	१६६
अथाख्यानमिदं चैकं	५४०
अथागते मधौ मासे	४६५
अथातोऽन्वकवृष्टिश्च	३४८
अथातो रामरूपेण	२६२
अथात्र नारदं काम-	४१५
अथात्र नागरेष्वात्म-	५०६
अथात्र भारते खेचरा-	५०२
अथात्रैत्य विहारार्थं	३४५
अथानन्तरमेवैनं	३६५
अथानन्तरमेवैनं	४०१
अथान्यदा किलानन्दं	४३३
अथान्यदा कुमारोऽसौ	४४६
अथान्यदा जिनं नेमिं	४१६
अथान्यदा मधौ मासे	५०५
अथान्यदा महाराजः	५५५
अथान्यदा ययौ सार्द्धं	२२५
अथान्यदा समासाद्य	१२१
अथान्येद्युः कुमारस्य	५२१
अथान्येद्युर्जगन्नन्द-	१४१
अथान्येद्युर्नटप्रेक्षां	३५२
अथान्येद्युः पुनः प्राप्य	५४३
अथान्येद्युर्महाराजः	४७६
अथान्येद्युर्महावीरः	५२६
अथान्येद्युर्वणिग्वर्यां	४६५
अथान्येद्युर्विलोक्यैन-	३६१
अथान्येद्युः समासीनं	४८२
अथान्येद्युः स्वमिथ्यात्व-	५५५
अथापराजितोऽप्यात्म-	१७५
अथाप्य पूज्यं साम्राज्य-	६८
अथाभिव्यज्यते तस्य	२७३

अथाभूद्भारते क्षेत्रे	११३
अथासुरो जगत्प्रत्य-	२७५
अथास्ति नागलोकामो-	२७८
अथास्मिन्नेव तीर्थेऽभू-	२२१
अथास्मिन्भारते क्षेत्रे	२७६
अथास्मिन्भारते वर्षे	१६८
अथास्मै भोक्तुकामाय	४७५
अथास्य द्वीपनाथस्य	१३६
अथेत्वा तेन यन्त्रेण	४६८
अथेष्टोऽन्यतिरेकेण	१७६
अथेह भारते द्वारवत्यां	१२५
अथोपगम्य तं स्नेहात्	४६६
अदत्त्वा पापबुद्ध्यस्मान्	४६६
अदित द्वादशग्रामान्	३६३
अदृष्टं किं किमस्पृष्ट-	३६
अदृष्टवदनम्भोज-	४८
अदृष्टान्विष्य सीतां च	२६४
अदृष्ट्वा मत्सुतां तत्र	१८२
अद्य मासोपवासान्ते	५२६
अद्य वारावतद्वन्द्वं	५१३
अद्य प्रभृति संसार-	४५६
अद्य सर्वेऽपि जाताः स्मः	४६१
अद्रिमस्तकमारुह्य	३५२
अधस्तादष्टमाहार-	४३८
अधस्ताद्योषितं काञ्चि-	४७०
अधिरत्नायुधं राज्यं	११५
अधिरुह्याहिजां शर्यां	३६६
अधीत्य सर्वशास्त्राणि	६३
अधीत्यैकादशङ्गानि	८७
अध्यास्य काममेवाय-	१६
अध्वन्यैरभ्य-	४५३
अनगाराख्यमुख्यैका	७४
अनङ्गपूर्वङ्गस्य	५५
अनङ्गस्तद्दलेनैनं	७१
अनणीयान् स्वपुण्येन	२८४
अनन्तजिनसन्ताने	१२६
अनन्तोऽनन्तदोषाणां	१२१
अनन्तवीर्ययत्यन्ते	३६६
अनन्तवीर्यां विश्वेन्द्र-	५६१
अनन्तशोऽहमिन्द्रत्वं	६८
अनन्यगोचरा लक्ष्मी	४५१

अनन्यवेद्यमागत्य	२६६
अनन्यशरणस्याहुः	२८३
अनभिव्यक्तमाहात्म्या-	४२६
अनयोरनुरूपोऽयं	२६१
अनर्पयन्तं सीतां त्वां	३१२
अनादिनिघने बाल-	३७७
अनादिबन्धनैर्गाढं	३३४
अनादौ जन्मकान्तारे	८६
अनालीढमनोजापि	१४१
अनावरणमस्थान-	१८०
अनाहतस्वलौक्यस्य	२५३
अन्विच्छन् स्वर्गभोगार्थां	५३३
अनित्याशुचिदुःखत्वं	६०
अनित्ये नित्यबुद्धिर्मे	५६
अनिरिद्य न भोक्ष्येऽहं	३४०
अनिष्टलक्षणान्यै-	२८६
अनीकदत्तश्चानीक-	३६४
अनुकसिद्धमेतत्तु	२६७
अनुकङ्क्षं ततो गत्वा	३२३
अनुग्रह्यास्य वक्तव्य-	२२६
अनुग्रहार्थं स्वस्याति-	७७
अनुग्रहार्थं स्वस्याति-	१६३
अनुजाभ्यां समं चिन्ता-	३४१
अनुरारे जयन्ताख्ये	३४२
अनुभावन्पतन्नेव	३५०
अनुप्रेक्षां स्वरूपाख्या	२५०
अनुभूय दिनान्यत्र	३५६
अनुभूय महादुःखं	४१०
अनुभूय सुखं तस्मिन्	८०
अनुभूयात्र साकेत-	७
अनुमानप्रधानस्य	४७७
अनुयुज्यावधिज्ञान-	२१६
अनुसक्तं व्यधात्कुत्सन-	३३२
अनुष्टुप्कन्दसा ज्ञेया	५७२
अनुष्टुप् तथा सोऽपि	२५५
अनुष्ठेयः स धर्मिष्ठै-	२७६
अनुसृत्य हृतं ताभ्यां	५१४
अनृत्यच्चोदितानन्दो	२०४
अनृत्यश्चारदेशेषु	५५३
अनेनेयमवस्थाम्भू-	२७४
अनेनैव विधानेन	१४६

अन्तको दुर्निवारोऽत्र	१५७
अन्तःक्रोधकषायानु-	५३०
अन्तःपुरान्वितोऽन्येषुः	३४२
अन्त्यः केवल्लिनामस्मिन्	५६३
अन्त्यद्वयं परित्यज्य	१०
अन्त्यस्यापि तनुः सता-	५६०
अन्त्यादप्यल्पसावद्या-	७६
अन्तरिक्षसभौमाङ्ग-	१५०
अन्तर्ग्रन्थपरित्यागा-	४६४
अन्तमु हूर्तकालेन	४७२
अन्वसर्पविलायान-	२६४
अन्नमाश्राणयत्तस्मै	४६६
अन्यत्संभितसतोऽत्रान्यत्	२५१
अन्यथा निग्रहीष्यामि	१११
अन्यदा नगरे तस्मिन्-	४८६
अन्यदाऽमिततेजःश्री-	१५५
अन्यदा रत्नसेनाख्यो	१८४
अन्यदाराहृतिर्नाम	२८६
अन्यदा सुव्रताख्यायै	१७२
अन्यदासौ निष्ठुष्टार्थ	४३७
अन्यदासौ महाराज	४६४
अन्यदैशानकल्पेशो	१६५
अन्यदोपेन्द्रसेनाख्य-	२३१
अन्यवाक्श्रोत्रयोः कीर्ति-	१६
अन्यायेनान्यविचस्य	११०
अन्ये तावदिहासतां भगवतां	२११
अन्येद्युरशनेः पातात्	३४३
अन्येषु देवताव्यापि	३६७
अन्येषुर्नगरोद्याने	४६६
अन्येषुर्नन्दगोपस्य	३६७
अन्येषुर्नन्दनाख्याद्रौ	१७७
अन्येषुर्नगारैः कैश्चिद्	५४५
अन्येषुः पुण्डरीकिण्या-	३४१
अन्येषुर्वसुमाकाश-	२७३
अन्येषुर्वारिदान्तेऽन्तः	३८३
अन्येषुः शरदभ्रस्य	४४६
अन्येषुः सञ्जयन्ताख्यं	१०६
अन्येषुः सिद्धकूटस्थ-	४०२
अन्येषुः सुप्रतिष्ठाख्यो	३४६
अन्येषुः सपकारोऽस्त्	२२६
अन्येषुस्तपुरे गौतमा-	२५०

अन्यैर्यः समवाप पूर्वमुक्ता	५२७
अन्यैश्च पुत्रपौत्राद्यैः	३२६
अन्योन्यदुःखहेतुत्वा-	१८६
अन्वभूत्स महाशुक	४१०
अन्वभूद्प्रवीचारं	२१३
अन्वभूवृक्षिरं भोगां-	४२३
अन्वयुक्त्त गणाधीशं	४६६
अन्वयुक्त्त स तं सोऽपि	२२३
अन्विच्छन्तं विलोक्याह	३४५
अन्विष्य प्रतियोद्धार-	६४
अन्वेषितारौ पुरुषं	२६८
अपक्षपतितान् प्राज्ञान्	५०४
अपत्यजननाभावे	२८६
अपत्यमिति संश्राव्य	३०५
अपबोधचतुष्कालमा	४६४
अपरश्च महादुःखं	४५६
अपरस्मिन्दिने व्याधै-	३६६
अपराजितनामोरु-	२४६
अपरायारामच्छिन्न-	५२
अपराह्णे सहस्रेण	४,३३५
अपरित्यक्तसङ्गस्य	२१५
अपवर्त्यायुषः केचिद्	१०
अपहृत्य सुरङ्गापातेन	४२०
अपाण्यां चक्रबालान्तं	१३६
अपापं सुखमच्छिन्नं	४७
अपापमाप्सितन्विज्या-	४६७
अपास्यन्ती प्रयत्नेन	३६७
अपास्य मधुरालापै-	५२०
अपि त्वं वयसाल्पीयान्	५००
अपिघाय सरः सद्यः	१८१
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति	२२३
अपृच्छत्स्लेचराशीशो	५०२
अपृच्छत् फलमेतेषां	३३३
अप्रतीषातगामिन्या	१६४
अप्रतीपप्रतापोऽयं	१७८
अप्रतीपा प्रभा याति	६४
अप्रत्याख्यानमिश्राख्य-	१५६
अप्रत्याख्यानमोहाना-	१५८
अप्रमत्तगुणस्थाने	४६४
अप्रमादोरुचारित्राः	१९९
अप्राचीक्ष्यरोक्षोऽयं	१६१

अप्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा	२६१
अफलन् शक्तयस्तिष्ठः	२१
अबुद्ध्या धर्मभक्तं तत्	१६
अबोधतमसाक्रान्त-	५४९
अभयाख्यः सुतो धीमा-	४७९
अभवलोपदनाख्येऽपि	१५५
अभवत्प्रियमित्रायां	१८५
अभवदिव हिमाद्रे-	५७३
अभात्तस्यात्तसौन्दर्ये	२४०
अभात् सुमनसां वृष्टिः	६२
अभादस्य प्रभामध्ये	६२
अभानिभामभ्येऽमुक्त-	३२१
अभाषत द्विजो राजन्	३५८
अभिगम्य तमाक्रम्य	१३३
अभिजातपरीवारो	५४
अभिजानासि कि	१७५
अभिज्ञानं च तस्यैतदि-	११०
अभिज्ञानैर्नृपेन्द्रेण	२९९
अभिज्ञानमिदं तस्य	४९५
अभिज्ञानमिदं भावि	२२७
अभिधाय स्वविज्ञातं	५५१
अभिधाय स्ववृत्तान्त-	४१७
अभिधायाम्ब पापिष्ठां	३९७
अभिनन्द्य जिनं सर्वे	१६४
अभिभूताखिलाराति-	२२९
अभिधाता पुरारुहा	३१४
अभिभूयान्यतेर्जासि	२१
अभियुक्ततरैरन्यै	४७७
अभिलाषातपातप्ता-	१४
अभिवन्द्य जिनाधीश-	१९१
अभिवन्द्य ततो धर्म	३९३
अभिवन्द्य शमं याता	१७२
अभिवन्द्य ततः श्रुत्वा	२४८
अभिवन्द्य समाकर्ण्य	४३२
अभिवन्द्यात्सामन्तैः	३८१
अभिषिच्य त्रिखण्डाधिराज्ये	३२४
अभिषिच्य यथाकाम-	३७८
अभिषिच्य विभूष्येनं	२१४
अभिषिच्य त्रिभूष्योच्चै-	१२९
अभिषेचनशालायां	५५०
अभिषुत्य पुनर्नीत्वा	३४

अभीष्टफलमाप्नोति	५५४
अभुञ्जानः पुरादाशु-	५३०
अभूच्चित्ररथो नाम	३९३
अभूच्छ्रीविजयोऽप्यत्र	१६५
अभूत्कल्याणयोग्योऽय-	३८४
अभूत्पूर्वं तं दृष्ट्वा	१४५
अभूतां तद्विलोक्याह	२५३
अभूतां भूतदेवादि-	१८८
अभूतामेतयोः पुत्रौ	४२९
अभूत् सिंहरथो नाम	२१३
अभूदखण्डितं सख्यं	२२२
अभूद् गुणमयः कि वे-	२२०
अभूदनिन्दिताऽऽर्थोऽयं	१६२
अभूवन्नक्षमास्तत्र	५०५
अभूवास्मद्गुरुस्तस्मा-	५५०
अभ्ययोध्यां पुरीं सीता	२८०
अभ्यर्च्य भक्त्या वन्दित्वा	२९७
अभ्यर्च्यार्थमुंदा व्यग्र-	५०९
अभ्यर्णे यौवने यावद्-	४८७
अभ्यासे श्रीप्रमेशस्य	५०९
अभ्रितां वाअप्रदवीं	१९
अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं	१६७
अभ्येत्य पुण्यकर्माणः	४९४
अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा	१७१
अभ्रेऽमितगुणेनामा	४५४
अमराणां कुमारो वा	३५३
अमात्योत्तमविद्वांस्त्वं	२७१
अमी च विषयाः कच्छ-	१८९
अमुष्मान्मरणाद्भाग्य	३५२
अमुस्मिन् भारते वर्षे	१०२
अमू क्रूरौ प्रकृत्यैव	४३८
अमृतं निःप्रवीचार-	२१८
अमृतैस्तनुमेतस्य	५७
अमेयवीर्यौ हंसांश-	२५५
अम्बिकायां सुतोऽस्यैव	१३३
अग्भो वाम्भोजपत्रेषु	४१३
अयं चाद्य महाकाले-	२५६
अयं पापी महाकायो	१०६
अयं विनिर्जिताशेषं	२०५
अयाचितमनादान-	१४८
अयोगदमासाद्य	६४

अयोध्यापुरवास्तव्यो	१८६
अयोध्यामधुनाध्यास्य	३०६
अयोध्येशोऽपि लेखार्थं	२५७
अयोध्याहं नृपस्तस्मिन्	५०
अर्जनानुभवार्थं	९७
अरजाविरजाश्चैव	१८९
अरण्यमप्रयाणार्थं	५१९
अरविन्दमहाराज	४३०
अरिञ्जयाख्यलिपुरे	१४२
अरिञ्जयाह्वयः शत्रु-	५१४
अरिञ्जसेनाद्यनल-	१३१
अरिष्टाख्यसुरोऽन्येद्यु-	३६७
अरीरमन्मनः पत्यु-	४७
अरेर्गदस्य चात्मज्ञः	१४६
अरेशतीर्थसन्तान-	२२८, २३५
अरो जिनोऽजनि श्रीमान्-	२१९
अर्ककीर्तिसुतः कुर्वन्न-	१६४
अर्ककीर्तिस्तयोः सूनुः	४५२
अर्ककीर्तेः कुमारस्य	१४८
अर्थिनः किं पुनर्वाच्याः	४६२
अर्थिनो घनसन्तुप्या	८०
अर्थे चतुष्टयी वृत्ति-	२५
अर्थे सत्ये वचः सत्यं	१९
अर्द्धदग्धशवं मत्वा	१२४
अर्द्धराज्यञ्च पूर्वोक्तं	५०८
अर्द्धहासादिभिः सार्धं	४०८
अर्द्धिभिर्भाषितं सूक्त-	४४
अलं तदिति तं भक्त्या	४६१
अलङ्कारः कुलस्याभू-	४६०
अलङ्कुर्वन्नजञ्ज्याया-	२०८
अलङ्कुर खजं धेहि	५१५
अलङ्घ्य केनचिच्चात्र	३०२
अलङ्घ्यत्वात्परैः पुण्यं	३७८
अलङ्घराज्यं प्राप्ता-	३५
अलमामूलतो दधुं	३१२
अलिपुस्कोकिलालापै-	२९८
अलग्गोमण्डलस्यार्जु-	४२१
अवगम्य फलं तेषां	१२२
अवगाह्य पयोराशि	५४५
अवतीर्णमिव स्वर्गा-	४१२
अवतीर्य समुत्पन्न-	३३४

अवधार्य वचस्तस्य	१४२
अवधार्य स्वपुत्रेण	३६९
अवन्तिविषयं गत्वा	३८९
अवबोधय तमात्मानं	४९८
अवबोधितवैधव्य-	२९३
अवमत्य गुरुन्काश्चित्	३५४
अवमन्ये पुनः किन्तु	४३६
अवख्य नभोभागा-	४१०
अवर्तितान्द्रसूत्रस्य	४३२
अवर्द्धन्त कुमारेण	४९९
अवर्द्धन्त गुणास्तस्मिन्	६६
अवर्द्धितातां तावेवं	१६७
अवर्द्धित वपुस्तस्य	१७७
अवलोक्य स्मराक्रान्त-	४१२
अवश्यं भङ्गुरा भोगा	२२
अवश्यं युवयोर्मुक्ति-	१७६
अवताराद्धिमानस्य	४३४
अवस्थितिं स सम्प्राप्य	४३४
अवातरन्सुराः सर्वे-	४६१
अवादीधरदेकादशा-	२४४
अवाप्य सह सनुभ्याम्-	१८७
अवाप्यसि पदं मुक्ते-	४७९
अवार्थं निजशौर्येण	३४५
अविचार्य तदाविष्टः	४३५
अविज्ञातफलाभक्षणं	४०५
अविन्दिरिव शास्त्रार्थं	२५२
अविद्ययैवमाक्रान्तो	५९
अविभक्तश्रियो प्रीति	२३१
अविभक्तापि दोषाय	१३३
अविभक्तां महीमेता-	९३
अविवेकस्तयोरसीद-	९३
अविश चापि निःशङ्कं	३७०
अवीवृधदृष्टहीनैः-	३६२
अवृष्टीत गुणालिस्तं	३३२
अव्रतस्य मनःकाय-	१५८
अशक्तधोरिवान्योन्यं	४८
अशक्यमिति गोपाल-	३६९
अशिक्ष्यच्च तद्रक्षा-	३८५
अशीतिचापदेहैस्ता-	८५
अशीलभूपण्य यत्र	१४०
अशीचत्पुत्रमालोक्य	५१९

अश्राणयद्विभूत्यास्मै	५१०
अश्वग्रीवाः खरग्रीवाः	१४६
अश्वग्रीवसुतौ रत्न	१८४
अश्वग्रीवश्च सम्भ्रन्तः	१४६
अश्वग्रीवस्य कनक-	१४२
अश्वग्रीवेण देवेन	१४६
अश्वग्रीवे त एतेऽपि	१४२
अश्वग्रीवोऽग्रिमो नील-	१४२
अश्वाकृतिधरं देवं	३७६
अश्वै रथैर्गजेन्द्रैश्च	४५३
अष्टमोऽभूत् त्रिपुष्पाख्यो	५६१
अष्टपष्टिसहस्रोक्त-	१००
अष्टाङ्गानि निमित्तानि	१५०
अष्टादशसमाः लक्षाः	८९
अष्टाधिकसहस्रेण	३७८
अष्टापदमयैः कुम्भैः	१५३
अष्टावह्ललयस्तस्य	२०६
अष्टाविंशतिपूर्वाङ्ग-	६८
अष्टाविंशतिरस्यासन्	२३६
अष्टोत्तरसहस्रो-	३२३
अष्टोपवासमादाय	३७६
अष्टौ विजयरामाद्याः	३२७
अष्टौ शिष्टतमानि	१८
असंख्यदेवदेवीडय	१७, १२३
असख्यातो महत्सङ्घः	२४७
असंयमादिकं सर्व-	५५
असंयमे त्रयं द्वे स्तः	५५
असंहतमनासेव्य-	३७९
असह्यवेदनार्तस्य	४१४
असारप्राग्ग्रहीतार्थ	१३८
असि दानविभागश्चो	१९४
असिः शङ्को धनुश्चक्रं	१४८
असुरत्वं समासाद्य	१७७
असौ कदाचिदाषाड-	५०
असौ मनोहरोद्याने	५३
असौ मासोपवासान्ते	५३८
अस्तमभ्युद्यताको वा	४३८
अस्ति किं नास्ति वा जीव-	४६७
अस्ति चेद् द्रव्यमेकं ते	१७८
अस्ति तत्रैव देशोऽन्धो-	६१
अस्ति मण्डोदरीनाम	२६३

अस्ति जीवः स चोपात्त-	४६७
अस्ति द्विजतनूजाया	४७३
अस्तु कर्णाभिधानोऽय-	३४६
अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः	८६
अस्तु चेन्मत्स्यबन्धादि-	२७२
अस्तु वा नाहतव्यक्ति-	२७३
अस्तु साङ्गथादिवादानां-	४७८
अस्मत्कुमारयोस्तत्र	२७६
अस्त्यत्र पुष्करद्वीपः	४४
अस्त्यत्र विषयोऽङ्गाख्यः	५२६
अस्त्यन्योऽपि तदुच्छ्रित्या-	२८६
अस्त्येव देव तव चौदधि-	५७१
अस्त्येव सुश्रुताख्यातं	१४२
अस्थानस्थं समीक्ष्यैव	१६८
अस्थिराद्यशुभान्येव	५५८
अस्मिन् खगपुराधीश-	१३२
अस्मिन् जन्मन्यसुं मन्ये	१०८
अस्मिञ्ज्वालाकरालामौ	३७६
अस्मिन् त्रिलोकप्रज्ञासि	११७
अस्मिन्नेवाभवतीर्थे	१३२
अस्मिन्निवेहे पूर्वस्मिन्	५३७
अस्मिन्नेवोजयिन्याख्य-	४०४, ४८८
अस्मिन्नैरावते ख्याते	१८२
अस्मिन्नैरावते रत्नपुरे	१८६
अस्मिन्नुत्तरश्रेण्याम-	१४२
अस्यात्मानोघसद्भावा-	६४
अस्यावयवभावात्ते	२०६
अस्यैव तीर्थसन्ताने	४२८
अस्योत्पत्तौ समुत्पत्ति-	३४
अहं किल सुखी सौख्य-	७३
अहं गुरुस्तपस्वीति	४३६
अहञ्च तन्निमित्तोऽहं	४८७
अहं प्रभुर्ममायं किं	४३६
अहं मम शुभं नित्यं	६६
अहं सत्यन्धराधीशा-	५२५
अहमन्यदिति द्वाभ्यां	६६
अहार्यं तद्विषं ज्ञात्वा	१५४
अहिंसात्रतरक्षार्थ	५५६
अहिसालक्षणं धर्म	२६३
अहिसालक्षणो धर्मो	२०१
अहिर्वा स्वाङ्गतावासः	१३७

अहो पापस्य कोऽप्येव	२६६
अहो प्रवृद्धमज्ञानं	४५५
अहोभिः कैश्चिदासाद्य	३६२
अहोभिर्बहुभिर्जाता	५३५
[ आ ]	
आकण्ठपूर्णाहारोऽपि	३५०
आकर्णाङ्गनिर्मुक्त-	३१०
आकर्ण्य तत्पुराणञ्च	४१२
आकर्ण्य नारदाद्दूत	१०४
आकारेणैव कन्यार्था-	२२४
आक्रोशद्भिः सकारुण्यो	५१६
आख्याय धर्मयाथात्म्यं	५३६
आगतः कंसमञ्जुषा-	३६३
आगतामन्तरे हृष्टा	१७६
आगतामेव मत्पुत्रो	३०२
आगत्य नृपतेरग्रे	३६३
आगत्याभ्यर्च्य वन्दित्वा	५३६
आगन्तास्मै पुनर्नेतु-	४६०
आगाम्युत्सर्पिणीकाल-	४७३
आग्रहं निग्रहं कृत्वा	३१४
आचारः कीदृशस्तेषा-	५५६
आच्छिद्यहं ग्रहीष्यामि	४००
आज्ञा यद्यस्ति देवस्य	२८१
आश्चर्यपञ्चकं प्राग्य	४०४
आतृतीयभवात्तस्य	८४
आत्तसामायिकः शुद्धया	४३७
आत्मना मन्त्रिभिर्बन्धु-	२५३
आत्मनो घातके त्रायके	५५६
आत्मप्रदेशसञ्चारो	१५६
आत्मस्तवोऽन्यनिन्दा च	५२१
आत्मस्तुषामलङ्घितुं	५५१
आत्मायमात्मनात्माय-	६७
आत्मेन्द्रियायुरिष्टार्थ-	१६
आददे संयमं परचा-	३५१
आदाज्जैनेश्वरं रूपं	१४८
आदातुमिच्छतो गन्तुं	३०८
आदात्संयममासाद्य	१६
आदाय कृत्रिमं रागं	३६०
आदाय तां यथायोग्यं	१७०
आदाय धीमांस्तां विद्यां	४१२
आदाय विद्ववान् लक्ष्य	५१०

आदाय संयमं प्राप्य	१७६
आदायं साधुमूर्धन्यं	१०६
आदावनिन्दिताभोग-	२११
आदावेवाच्छिनत्तन्त्री	३५६
आदिकल्याणसत्पूजां	७३
आदितीर्थकृतो ज्येष्ठ-	४४६
आदिभट्टारकोत्पन्न-	४५३
आदिमध्यान्तगम्भी-	४३८
आदिम नरके तस्मा-	५६५
आदित्यपादशैलेन्द्रे-	३१४
आदित्यामस्ततो मेरुः	११६
आदित्यामस्तदा दैवो	१०७
आदित्यामः स एवाहं	१७७
आदित्योद्गमवेलायाम्	५१४
आद्यचक्रिन्देवोऽपि	७
आद्यमाजन्मनो लोभ-	११०
आद्यश्रेणी समारह्य	१६१
आधानप्रीतिसुप्रीति-	१७७
आधाराधेयभावोऽय-	६३
आधावन्तं विलोक्यासौ	३७१
आधिक्यं चक्षुषोः प्राहुः	२०५
आधिक्याद्भावलाश्येव	५७
आधिपत्यं तदावाप्यं	१०४
आधिपत्यं त्रिखण्डस्य	१७६
आधिपत्यं द्वयोः श्रेण्यो-	१४८
आनन्दनाटकं चास्य	५७
आनन्दस्तस्य भार्यायां	४०४
आनन्नामरमूनमश्वरिः	३२६
आनाय्य तेन निर्माय	२६४
आनुषङ्गिकमेतत्ते	४६४
आनेतुं तान्यशक्यानि	२२६
आपञ्चमक्षितिव्यास-	४३३
आपञ्चमावेनाराम-	२४५
आपतदगृह्यपक्षानि-	३२०
आपतन्ती विलोक्योत्का-	६८
आपत्य खादशनिवद्-	३७३
आपाण्डुगण्डमाभासि	१४१
आपूर्णाथौवनारम्भा	५११
आपेनुर्नभस्तदा	३७३
आसागमोदिनानात्वा-	१५८
आसैः कतिपयैरेव	२१४

आतैर्दुःखेन तद्दुःखाद्	३०३
आप्यस्थाशुत्वमित्याह	४६५
आभाषमाणमाक्षिप्य	२८४
आभ्यामाद्यन्तदानाभ्या-	७६
आमर्ष्यं रसिकामूला-	२००
आमनन्ति पुराणशाः	३१२
आमूलात्कार्यमाख्याय	४६२
आमूलाद् भस्मितं वीक्ष्य	४३३
आम्नाः क्रमाः फलैर्नम्राः	१६६
आयद्वाजपुरं प्रीतिः	५१०
आयसान्यग्निवृत्तानि	४२५
आयान्तमवधीत्सोऽपि	४६०
आयान्तीं दूरतो दृष्ट्वा	१५५
आयुः परमसङ्ख्यातः	१४
आयुर्दशसहस्राणि	३३३
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्ना-	४०
आयुरन्तेऽवधिस्थान-	१४८
आयुरन्ते समाधाना-	२६
आयुरन्यच्च विध्वंसि	५३६
आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं	१६
आयुपीते चतुर्भागे	१६
आयुषोऽन्ते स संन्यस्य	१६
आयुषोऽन्ते समाधानं	२
आयुषो वसतिः काये	१
आरनालेन सम्मिश्रं	४६६
आरम्य विरहाद्दृष्टं	३२३
आर्थिकाणाञ्च दीक्षायाः	३६१
आर्षमत्रश्रुतं चास्त-	७७
आर्षोपासकवेदोक्त-	२५८
आराधनां समाराध्य	२५०
आरुह्य जाम्बवंयुद्धे	४००
आरुह्य नावमम्मोधि-	४८६
आरुह्य शत्रुसैन्यस्य	५०५
आरुह्य शिविकां सूर्य-	६६
आरुदतुर्ध्वचारित्र-	२०६
आरोपयत चापौघान्	३८०
आरोप्य शिविकामेवं	५४०
आरोह्य शिविकां तस्मा-	२६२
आलम्ब्य लक्ष्मणैर्लक्ष्यं	८
आलोक्य मन्त्रिभिः सार्द्ध-	१५६
आवर्जयन्त्याः केशाभां	४८५

आवर्तनी संग्रहणी	१६४
आवस्तत्र निश्शङ्कं	४६५
आवां तपः करिष्याव	४२४
आवां त्वाभागतौ	१४६
आवां संन्यस्य तत्रैव	१७६
आवाभ्यामावयोः कार्य-	२५३
आवामप्रश्नयावेदं	१७६
आवेशिनी दशमन्या	१६४
आशास्य क्षीत्ववदात्रा	३६६
आशास्यासौ सुखं सुता	३३६
आश्चर्यपञ्चकं चापि	८६
आश्वसौ मे प्रहेतव्यो	६४
आषष्ठ्यथिवीभागा-	४५६
आषाढमासि ज्योत्स्नायाः	४२५
आषाढस्य सिते पद्मे	४६०
आषाढे स्वातियोगे तं	३३३
आष्टाहिकमहापूजां	३३६
आसंश्रकातपत्रासि	२४६
आसक्तिस्तेषु चेदस्ति	२२६
आसाद्यैकादशाङ्गोऽ-	२१८
आसीत्सिहरथो	२१६
आसीदिहैव मलये	३२६
आस्तां तावदिदं भद्र	१०८
आस्तामन्यत्र तस्मिन्त्या	६४
आस्तामनादिनिगल-	५६८
आस्रवस्य च संरोधः	५७६
आहन्तुमसमर्थाः स्म	३६७
आहमिन्द्रं सुखं मुख्य-	२६
आहर्तुमुद्यताः सर्वे	३६०
आहारं धर्ममित्राख्यः	२१५
आहारादित्रयोत्सर्गः	१६०
आहितान्यमताः सन्तु	१२१
आहितो देहिना देहे	३६
आहितो बहुधा मोहा-	७६
आहूतोऽसि महीशोन	२२८
आह्वयद्वा प्रसूनौघैः	४६३

[ ३ ]

इक्ष्वाकुः काश्यपो वंश-	५६-६७
इक्ष्वाकुर्वंशविख्यातो	८०
इक्ष्वाकोः पद्मनाभस्य	२३८
इक्ष्वाकेश्चैतैस्तस्याः	५०६

इतः कनीयसे विद्यां	५४७	इति तद्भुगाकर्ण्यं	११७	इति निर्व्याय निर्विद्य	३८६
इतः क्षेत्रभूमर्तु-	४५२	इति तद्वचनं चित्ते	१४४	इति निर्मास्तितो भूयः	६२
इतः परिजनो रामं	२६४	इति तद्वचनं श्रुत्वा	१४३, ३४४, ३६३, ४०७, ५४४	इति निर्विद्य याद्वक्त	३७०
इतः प्रकृतमन्यतु	३६०	इति तद्वचनप्रान्ते	४७४, ५३७	इति निर्विद्य संसारात्	१०२
इतरेऽपि तयोरेव	३६२	इति तद्वचनाज्जात-	५५३	इति निर्वेदसंयोगाद्भो-	३३४
इतश्चमरचञ्चवाख्य-	१५३	इति तद्वचनास्तोऽपि	५२१	इति निश्चित्य पापात्मा	२६८
इतः सत्यन्धराख्यस्य	४६६	इति तद्वचनास्तोऽपि	३७६	इति नैमित्तिकं दृष्ट्वा	१४६
इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो	६३	इति तद्वचनाद्वीत-	१६३	इति नैसर्गिकाशेष-	३६५
इतः सुताविद्योगेन	४११	इति तद्वचनादेश	५५३	इति परममवाप्य-	२१०
इतस्ततो भया व्यस्ताः	३२१	इति तद्वचनान्त्वन्ध-	२६५	इति पूर्वार्धवाक्यस्य	२७१
इतस्तृतीये कन्यैषा	५१२	इति तद्वचनसम्भूत-	६८	इति पृष्ठे जिनाधीशो	१७२
इतः स्वामित्त्वमेहीति	५७	इति तन्मुनिराकर्ण्यं	५३६	इति पृष्ठे वा प्रतोष्येनं	१६१
इति कतिपयवाग्भिर्बर्धमानं	५७२	इति तल्लोकमौढ्यञ्च	४७६	इति प्रकाशकोपोऽभू-	५२४
इति कामान्नितप्तेन	२८५	इति तस्मिन् महीं पाति	५३	इति प्रतिनिवृत्त्याशु-	३७६
इति केनाप्युपायेन	४६६	इति तस्मै सुतां योग्यां	५०६	इति प्रत्याप्य तं पापः	२६६
इति क्षीरकदम्बान्ध-	२६८	इति तस्याः परिग्रहे	४१७	इति प्रत्याइतः कर्ण-	२४२
इति गर्भसमाक्रान्त-	३१५	इति तां जन्मनिर्वाण-	१५६	इति प्रभूतद्रव्येण	२७६
इति गोपान्समुत्साह्य	३७१	इति तां मामिवापुण्यः	३०१	इति प्रलम्भनं तस्य	२२६
इति चक्री समालोच्य	२३६	इति तान् वारयन् क्रुद्धान्	३०८	इति प्रबृद्धपुण्यानु-	२३३
इति चित्ते विनम्यैत-	३०३	इति तापसवेषेण	५००	इति प्रातः समुत्थाय	५२३
इति चिन्तयतस्तस्य	८६	इति तीर्थेशिना प्रोक्तं	४१६	इति प्रापयतं देवौ	५५०
इति चेतसि सम्पश्यन्	२०८	इति तुष्ट्वा निर्वायं द्राक्-	३६०	इति प्राहैवमुक्तेऽपि	७७
इति चेतोहरैः सीतां	१८८	इति तेन खगाः मुग्धाः	१०६	इति भक्त्येन तेनोक्त-	७८
इति चेतस्यतौ जन्तौ	३०१	इति तेन स पृष्ठः सन्	१८६	इति भक्त्या कृतालापा	२३६
इति जीवस्य याथात्म्यं	४६८	इति तेनोक्तमाकर्ण्यं	२६८	इति भावयतां पुंसां	५७१
इति जैनीमिमां वागी-	१६३	इति त्वत्कान्तया राजन्	१५५	इति भीत्वा तदभ्यर्थो	५४८
इति तं च ततो देवो	११८	इति त्रिविधनिवेद-	३६	इति भूयो नरेन्द्रेण	६
इति तद्गूढहासोक्ति-	३०८	इति दासीसुतं गेहा-	१६०	इति मत्वा जिनप्रोक्तं	५५४
इति तद्गोतमाधीश-	४६४	इति दूतं तदायातं	१४५	इति मत्वानुमानेन	४८३
इति तच्छ्रवणात्सद्यः	५३६	इति देवः समम्येत्य	११	इति मत्वापि साशङ्कः	३६५
इति तत्कालञ्च सर्वं	१८७	इति देवोऽप्यसौ तस्य	१८०	इति मत्वा विसृज्यैतान्	१७६
इति तान्जिनशीतांशु-	१६४	इति देव्या कनीयस्याः	१८५	इति मत्वा सुते राज्य-	११७
इति तत्र तयोरासीद्	७	इति द्वादशनिर्दिष्ट-	२३	इति मत्वा स्वनामाङ्कः-	२६८
इति तत्रावतीर्थैष	१७२	इति द्वादशभेदोक्त-	१३१	इति मन्त्रिणयां सर्व-	३०६
इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्यं	३०६	इति द्विजोदितं श्रुत्वा	५२२	इति मानोदयात्पापी	४४७
इति तत्त्वं जिनादिष्ट-	५५	इति द्वितीयकर्त्याया-	२०४	इति युद्धान्तामावाद्य	१७१
इति तत्सम्यगाकर्ण्यं	१८७	इति द्विलक्षपञ्चारात्-	५८	इति युव्या चिरं व्यापान्	५०१
इति तद्द्वयतद्रूप-	१७०	इति धर्मं विनिश्चित्य	४५८	इति रक्तं स्वयं भूयो	३०६
इति तद्देवताप्रोक्त-	४७०	इति धर्मविशेषं तत्	३२६	इति राजपुरं गत्वा	५२४
इति तद्देववाक्प्रोक्त-	११८	इति नान्मा सुपुत्राय	७६	इति राजोपदेशेन	५५६
इति तद्भ्रातृत्वं श्रुत्वा	५००	इति निर्गत्य दृष्ट्वा मां	५५३	इति वकी भवेत्सापि	५३१

इति वामनरूपेषु	३५८	इति स्मरंश्च भव्यानां	१८६	इत्यप्राज्ञं तदावोच-	५०२
इति विशाततत्त्वं	२९५	इति स्तुत्वादिकल्पेशो	१५	इत्यप्राज्ञीचतोऽस्माभिः	२५३
इति विद्वत्सभामध्ये	५०५	इति हस्ततलास्फालनेन	२६७	इत्यप्राज्ञीदसौ वास्य	१६८
इति विन्यासिते सैन्ये	३८१	इति हितकृतवेदी	२११	इत्यप्राज्ञीस्त तां सापि	५४८
इति विरचमुचं भूयः	२७१	इतीत्यादिदुष्टघान्त-	३९५	इत्यप्राज्ञीकूपोऽप्यस्य	२१५
इति वृद्धोक्तिमाकर्ण्य	५२२	इतीदं जनतासर्वं	१११	इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्य	१४९
इति शङ्खेन पृष्ठोऽसौ	३९३	हीतदनुचितं कार्य-	३०४	इत्यब्रवीत्तदादाय	३०९
इति शब्दार्थगम्भीर-	६४	इतीमं शपयं गन्तुं	२२३	इत्यब्रवीददः श्रुत्वा	१६९
इति श्रीमद्रथावीश-	५५५	इतो जलनिषेस्तीरे	३७६	इत्यब्रवीदसौ सोऽपि	४४८
इति श्रीविजयं दोभ्या-	१५५	इतोऽपितदुष्यमोर्त्वापिण्याः	५५९	इत्यब्रवीदियं हेतुः	३६०
इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं	५१३	इतो घान्यपुराम्यर्ण-	५५०	इत्यभिष्टूयमानस्य	३७५
इति श्रुत्वा वचो राज्ञा	१४७	इतो नलिनकेतुश्च	१८२	इत्यमात्यस्य दुर्बलं	१११
इति श्रुत्वा समागत्य	३६६	इतो लङ्कामधिष्ठाय	२८४	इत्यमुञ्चत्सद्वाचैस्तै	३०५
इति संसारसद्भावं	४९७	इतो विनीतानगरात्	२९५	इत्यथेनायतेनैव	५९
इति सङ्गीतवीणादि-	३५८	इतोऽश्वग्रीवचक्रेशो	१४५	इत्यवादीत्ततः पापी	२६५
इति स चिन्तयन् लब्ध-	८२	इतोऽस्मिन्दशमे भावी	४५६	इत्यवादीत्तदाकर्ण्य	१३३, २९२
इति सञ्चिन्त्य तौ	१७५	इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्र-	५६५	इत्यवोचत्तदाकर्ण्य	१७६
इति सञ्चिन्त्य सञ्जात-	५२०	इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः	५५०	इत्यवोचदसौ चैत-	३५८
इति सत्यात्रसम्भन्न-	११६	इत्थं तेनेङ्गित्थेन	७७	इत्यवोचन्वचस्तेषा-	२०८
इति सत्यात्रनिष्पन्न-	११६	इत्थं षोडशभावनाहित-	६	इत्यशेषं गणेशोक्त-	४१९
इति सद्यस्ततो दूतौ	१४७	इत्यग्रासनमास्थाय	५२१	इत्यष्टाविंशतिर्भूत्वा	५२३
इति सन्तुष्य तत्सर्व-	३६६	इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रह्मि	२२३	इत्यसभ्यमस्योद्व्यं	९४
इति सम्पूर्णांश्याय	१४२	इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा	९२	इत्यसावपि योग्येन	३०६
इति सम्प्रनयामास	५४०	इत्यतोऽलकमुन्दर्या	५१३	इत्यसौ च गणावीश-	५३०
इति सर्वं मनोहारि	४८०	इत्यत्यतर्जयतोऽपि	३४९	इत्यसौ तैरधिक्षितः	५२१
इति सर्वं समाकर्ण्य	५६९	इत्यत्र परशब्दार्थे	१०९	इत्यसौसिंहचन्द्रोक्तं	११४
इति सर्वमिदं श्रुत्वा	३५३	इत्यभ्यक्षिपतां सोऽपि	४०७	इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ	३५
इति सर्वेऽपि संगत्य	२७१	इत्यनालोचितार्थस्य	४७७	इत्यस्य सोऽपि वाग्वाज-	५३५
इति सर्वे समासीना-	४८०	इत्यनालोक्यकार्याङ्गं	९५	इत्यस्या धेनुमादाय	२२५
इति सा तद्वचः श्रुत्वा	१९५	इत्यनुष्ठातसर्वाङ्ग-	४६८	इत्यस्याः प्राहियोतत्रं	५५१
इति सावेद्य भूपालं	१०९	इत्यनुश्रेयिकप्रश्ना	४७२	इत्याकथिततद्वाक्यः	३०९
इति सीतावचःश्रुत्वा	२९२	इत्यनेन स मन्वी च	२७६	इत्याकर्ण्य तदोक्तं	१७९
इति सोऽपि कथामित्यं	३८८	इत्यन्तस्तत्त्वतो शात्वा	५६	इत्याकर्ण्य फणीन्द्रस्त-	१०८
इति सोऽपि दयालुत्वा-	४९५	इत्यन्यांऽन्यकथाकाले	३९०	इत्याकर्ण्य वचस्तस्य	५२६
इति सोऽपि समासन्न-	३३४	इत्यन्योऽन्यान्वितापत्य-	१४९	इत्याकर्ण्यं सुधर्माख्य-	५२७
इति स्याद्वादसन्देहं	२६६	इत्यन्वतोऽङ्गनासुनु-	३०७	इत्याकलय्य कालादि-	३३७
इति स्वकुलयोग्याय	२५४	इत्यन्वयुङ्क्त सुग्रीवः	२९७	इत्याकलय्य को दोषो	५२२
इति स्वगतवृत्तान्त-	२९०	इत्यन्वाख्यत् स तच्छ्रुत्वा	१५१	इत्याकलय्य याथात्म्यं	७४
इति स्वपुण्यमाहात्म्य-	६७	इत्यपर्यचतदैवैन-	२२	इत्याकाशो विमानैस्ता-	२६९
इति स्वपुत्रपौत्रादि-	१८५	इत्यपार्यं विचिन्त्यैकं	९४	इत्परीः सम्पदस्त्यक्त्वा	१३६
इति स्वानुजसम्प्रश्ना-	१९३	इत्यपृच्छदसौ न्वाह	४३२	इत्याख्यतत्समाकर्ण्य	५००



इत्याख्यतद्वचः साढु-	३११	इत्युक्तः संसृतेभूपो	६	इदमिति विधिपाकाद्	६६
इत्याख्यत्साप्यदः पापा-	२६१	इत्युक्तः स भवेद्देव	११०	इदमेव किमस्त्यन्य-	१६२
इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं	२८६	इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः	१०७	इदं सरस्त्यया केन	५१७
इत्याख्यबकुलेनामा	४८६	इत्युक्तस्तेः सकोपो वा	५२१	इदानीं पुण्डरीकियां	१८७
इत्याख्याताः पुराणैः-	२७७	इत्युक्तिभिरिमां मूर्का-	२८७	इदानीमप्यसौ दुष्टो	१४६
इत्यात्तत्त्वधारं तं	१६	इत्युक्तिभिमर्नस्तस्य	२७०	इन्दुः कामयते कान्ति	२१
इत्यात्मस्वामिनीदाक्ष्य	५०५	इत्युक्तो नैगमाख्येन	३७६	इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तो	२२४
इत्यात्मानं तिरोधाय	५३२	इत्युक्त्वा काललब्ध्येव	२२५	इन्द्रकोशैर्बृहद्यन्त्रैः-	२०१
इत्यात्मानं विनिन्द्यै	४६०	इत्युक्त्वा जुत्पिपासादि-	१५१	इन्द्रजितप्रमुखान्भूप-	२६८
इत्यादि चिन्तयन् राज्यं	१४	इत्युक्त्वा तौ सुयौ सुक्तं	१३६	इन्द्रजित्तेन्द्रचर्माति-	३०८
इत्यादि चिन्तयन् सद्य-	१६१	इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेदो	१५३	इन्द्रनीलच्छर्विं देहं	२६३
इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं	२४४	इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थ-	२६६	इन्द्रवर्माभिधानेन	३१५, ३२२
इत्यादिद्वयो योग्य-	५७	इत्युक्त्वास्ताद्विजोद्भूत-	४७५	इन्द्रियायेंषु संसक्तो	३३४
इत्यादि तेन गम्भीर-	६५	इत्युक्त्वा स्वयमित्वानु-	४८२	इन्द्रोपेन्द्रादिसेनान्तौ	१६१
इत्यादियुक्तिमद्वाभिः	४६८	इत्युक्ते देव किं सत्य-	११	इभ्याल्लुती सुतो भावी	५३१
इत्यादियुक्तिवादेन	२३६	इत्युक्त्यैव परीत्य	१७२	इमां तद्वर्द्धुर्माषां	३१०
इत्यादिशति वां देव-	६४	इत्युग्रचंशवाधीन्दो-	३८४	इमा रम्या महानद्य-	१८८
इत्यादिहेतुभिर्जाति-	४७६	इत्युग्रसेनवाचोद्यत्	३८५	इमे द्वे दीक्षिते केन	५२४
इत्यादेशं समाकर्ण्य	४१८	इत्युच्चैर्गणानायको	४०५	इमे राज्यस्थिते प्राज्ञैः	२८३
इत्याधिपत्यमासाद्य	२०७	इत्युदात्तवचोमाला	५२	इमं कन्येति समृष्टा	४२०
इत्यारोपितरत्नोद-	३२५	इत्युदाचो मनोमोघौ	४१	इयन्तोऽस्मिन्भाविव्यन्ति	२८
इत्यारोप्य सुते राज्यं	२३८	इत्युदीर्यं कुमारं तं	१८८	इयोर्व्यश्वादिना राज-	२६८
इत्यारोप्यासनं स्वर्ण-	५४८	इत्युदतोदितैः कोप-	२६६	इष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो	४७७
इत्यार्हलोकं तत्तर्ष्यं	४७८	इत्युपायमसावाह	२७६	इष्टाष्टादशधान्यानां	८८
इत्याविष्कृतवस्त्रिन्तः	३६	इत्युपसृज्यभावेन स	३३	इह क्षत्रपुरे दास-	११७
इत्याशापाशमाच्छिद्य	२	इत्येकान्ते वचस्तस्य	३२७	इह जम्बूमति द्वीपे १, २१३, ४०३	
इत्यारवाचं मुनिस्तस्त	४६१	इत्येतदुक्तं शात्वापि	४३६	इह धर्मोपदेशेन	५३७
इत्याह तं मुनिः सोऽपि	५३६	इत्येतदुक्तमाकर्ण्य	२८५	इह पूर्वविदेहेऽस्ति	४०२
इत्याह तद्वचः श्रुत्वा १६२, २६६	२६०, ३६३	इत्येतदभिधायाशु-	४६६	इह प्रत्येकमेतेषां	११६
इत्याह तद्वचः श्रुत्वा १६२, २६६	१४७	इत्येतदुपदेशेन	३०५	इह प्रेम्णागतोऽस्मीति	२८५
इत्याह तौ च किं	१४६	इत्येतानि समस्तानि	१६८	इह लोकादिपर्यन्त-	२३६
इत्याह वचनामीषु	५६३	इत्येवं प्रेरितस्तेन	१६८	इह संवाचिभिर्भूपैः	५४७
इत्याह सादरं सापि	२८६	इत्यौदासीन्यमापन्ना	५४०	इह सचिवतनुज-	३३०
इत्याह सोऽपि तद्राक्य-	११	इदं च स्वयमाहासौ	३०५	इहाप्यवश्यमेष्यन्ति	४२१
इत्याह सोऽपि सुभ्रुकं	५२२	इदञ्चावश्यकर्तव्यं	४८३	इहैव भारते क्षेत्रे	२५०
इत्याहुः सोऽपि तच्छ्रुत्वा	४१४	इदं तावद्विचाराहं	२७२	इहैव श्रीधराख्यस्य	६३
इत्याहैतद्वचः श्रुत्वा	११८	इदं प्रकृतमत्रान्य-२६२, ५१३, ५१८			
इत्युक्तं तदमात्यस्य	२३६	इदं प्रत्येयमत्योक्तं	१५१		
इत्युक्तवन्तौ तत्कोप-	१३३	इदमन्यत्काचित्कश्चि-	५४१		
इत्युक्तंवास्ततः सर्वे	५२१	इदमन्यादतः किञ्चि-	५२४		

[ ३ ]

ईदश्येतत्प्रमाणाणि १०६  
ईदृशां संसृतेर्मावं ११३  
ईदृशी नश्यती शता ४१  
ईशानेन्द्रो विदित्वैत- १६४

ईशानोऽर्न्थां दशां यातो	५२	उपविष्टानिजाचारं	३६७	एकधर्मात्मकं सर्वं	४७६
ईषन्निमीलितालोल-	२८८	उपविष्टो मुदा तेन	३०४	एकदिशतिरब्दानां	५५८
[ ३ ]		उपसर्गं विजित्यास्य	३४६	एकलिलोकशिखरं	३२६
उग्रसेनस्तदालोक्य	३६५	उपसर्गं व्यधात्तेषु	५२५	एकादशविधस्तत्र	५५२
उद्यताभिनयप्रायं	२०	उपसर्गं व्यधान्मन्त्री	३५८	एकादशसह श्रीमद् -	५६४
उच्चैःस्थितमिदं पश्य	३३७	उपाध्यायत्वमध्यास्य	४८६	एकादशसहस्रारी सन् १४,४०, १२८	
उच्छ्रेय कोटिमारुढौ	६४	उपाध्यायोऽपि कालान्तरेणा-	५०१	एकादशसहस्रावधी	३१
उज्जिन्यामथान्येदु-	४६५	उपायमेकमालोच्य	८	एकादश्यां सिते चैत्रे	३१
उत्कृष्टजीवितं तत्र	४२४	उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि	२६६	एकीकृतयतिव्रात	७४
उत्कृष्टाशुःस्थितित्तत्र	४१६	उपाया येन सञ्चिन्त्य	४७	एकोऽपि सिंहसदृशः	२३०
उत्कृष्टेन शतं सप्त-	५६२	उपायोऽयं व्यधात्येवं	२७१	एतत्पृथ्वैः प्रवालैश्च	२८७
उत्तराभिमुखः पौत्रे	४३७	उपायैस्ताभिरुद्धूत-	२६३	एतत्पृथ्वारतो ज्येष्ठं	२५१
उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्ता-	८	उपार्जितपरार्थे-	१०८	एतदर्थं कुलीनानां	१६१
उत्पन्नं यौवनं तस्य	१४१	उपासकद्विलक्ष्याभ्यां	७४	एतदेव विधातारं	२७०
उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद्	१५५	उपोक्षितोऽयमद्यैव	१०६	एतदेवार्थशास्त्रस्य	१०६
उत्पन्नमायुषागारे	२६४	उमयनयमेदान्यां	२४	एतद्विद्यमन्त्रैव	४४४
उत्पाताश्च पुरेऽभूवन्	२६४	उमयायत्तसिद्धित्वाद्	१४०	एतद्भावना वध्ना	१६८
उदककुक्षु निर्बिष्ट-	४०३	उमयोः सेनयोस्तत्र	१४७	एतद्वाज्यं परित्यज्य	२२६
उदकक्रेण्यां खगाभीशो	४५१	उमया सममाख्याय	४६६	एतन्निवासिनीर्जित्वा	५४६
उद्गमेनैव निर्धूत-	४५१	उल्कापातनमालोक्य	३४२	एतन्मां मधुरं रत्याः	३०३
उद्वतिष्ठत्तदैवाग्नी-	३६१	उल्मुकालीरिवायोद्बुध-	३१६	एतयोपेन्द्रसेनस्य	१६२
उदन्वानिव रत्नस्य	५५७	[ ऊ ]		एतत्स्थानन्दमत्याश्च	१७५
उदयादिविकल्पेन	२४४	ऊर्ध्वग्रे वैयकस्याधो	१८५	एतस्यैव गुणैर्लक्ष्मी	५८
उदयाद्रिमिवारुह्य	३१६	ऊर्ध्ववक्त्रवमद्वह्नि-	३२०	एतस्मिन् भारते वर्षे	१२४
उदयाभ्योदयादस्य	२४०	ऊर्ध्वत्रज्यास्वभावत्वा-	३८८	एतस्मिन्सम्भवेदेत-	४१३
उदयास्तमयौ नित्यं	२३६	[ ऋ ]		एतानि सन्ति मे नैव	११०
उदरस्पर्शमार्गेषु	२३५	ऋक्षे षष्ठोपवासेन	२०८	एतान् सहजशत्रुत्वाद्	४२०
उदगमेऽपि प्रतापोऽस्य	२२	ऋचो वेदरहस्यानी-	२६६	एतत्स्वपि महाभाग	४५३
उदधृत्याशनिवेगस्य	३५६	ऋजवो धार्मिका वीतदोषाः	४४	एतु गृह्णातु को दोष	१२६
उदधृत्येलाख्ययाच्यद्रे-	१०६	ऋजुश्च विपुलाख्यश्च	५५२	एते क्रमेण पञ्चापि	५६४
उदमूतविस्मयोऽपृच्छन्	३८४	ऋजुश्च विपुलाख्यश्च	५५२	एते च नीचका यस्मा-	५६३
उन्नतनूर्जितं तेजो	३३७	ऋजुञ्जवहरे प्राणान्	३१६	एते त्रयोऽपि विद्यानां	२६२
उन्मादीव मदीवान्धो	६७	ऋर्णं सृष्टिर्कं तावत्	३३१	एतेन परिहारेण	१७६
उपकारं महान्तं मे	३४२	ऋतं वाचि दद्याचिते	५२	एतेषां क्रमशः काले	५६०
उपचारवदस्येत्य-	३७७	ऋद्धयः सप्तसर्वाङ्गा-	४६८	एते सर्वेऽपि साकेत-	५५८
उपयन्यापरां श्रेष्ठी	४८८	[ ए ]		एतैः सुखमलौ स्वान्तैः	५२६
उपयान्तीमिमां वीच्य	२८६	एककोऽपि हली सर्वात्	१७१	एतौ तत्र त्रयञ्जित्	१६८
उपयोगज्ञमाशेष-	५४	एकत्रिंशत्समुद्रायु-	३४	एत्य राजग्रहं सार्द्धं	५४४
उपर्यशनिवेगाख्य-	५२५	एकत्रिंशत्सहस्राब्दै-	३४	एभिर्वर्मोपदेशार्थं	२२१
उपलारुफालान्क्षेप-	४२०	एकदशुपोषितप्रान्ते -	५५६	एवं कर्मवशात्पुण्डः	११८
उपविश्य तदन्धशो	३५६			एवं काले प्रयात्येषां	३६०

एवं कुबेरदत्तस्य	५५३	एवं श्रावकसद्धर्म	४६२	कः सामवित्प्रयोक्तव्य-	३०४
एवं केवलबोधेन	३२८	एवं सङ्गमयन् कालं	२६	कश्चिन्मत्तगजं वीत-	३७१
एवं गच्छति कालेऽस्मिन्	५५६	एवं संवत्सराज्ञीत्वा	३२६	कटकं साङ्गदं चूलामणिं	३२४
एवं चतुर्गतिषु ते चिर-	१२०	एवं संसारघारोरु-	२२	कटी तटी कटीसूत्र-	२०६
एवं जलं चिरं रन्वा	२८८	एवं सम्प्राप्तकल्याणाः	४२१	कण्टकानिव राज्यस्य	५५७
एवं तत्र स्थिते तस्मिन्	३५७	एवं सर्वाङ्गशोभास्य	२६	कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्या-	२८
एवं तपः करोतीति	५३०	एवं सुखसुखेनैव	१५३	कथं क्व कस्माज्जातो	१३०
एवं तपस्यतस्तस्य	३८७	एवं सुखेन कालेऽस्य	२३६	कथं तदिति चेत्किञ्चि-	५२३
एवं तपस्यतो याताः	६६	एवं सुखेन भूभर्तुः	१८१	कथं तदिति चेदस्मिन्	२५६
एवं तयोर्महाभाग	३२५	एवं सुखेन सर्वेषां	३५३	कथं सागरदत्ताख्यं	५३८
एवं तयोः समुद्रभूत-	५०५	एवं स्वकृतपुण्यस्य	४२२	कथनं परलोकश्चे-	२३६
एवं तुमुलयुद्धेन	३८२	एवं स्वपुण्यपाकात्	२८१	कथमुन्मत्तकस्यैव	२५७
एवं त्रिरूपममार्गात्	१५६	एवमन्येऽपि तैरन्ये	३२२	कथाः प्ररूपयन्प्रीत्या	७७१
एवं दिनेषु गच्छन्तु	५०३	एवमुक्तवते तस्मै	३५६	कथाकथकयोस्ताव-	४४३
एवं दुष्परिणामेन	३६२	एवमेतं स्वयंबुद्धं	१३०	कथ्यतामिति दिव्याव-	५१३
एवं देवगतौ दिव्य-	३४३	एष एव पुत्रमुक्ति-	४३७	कथ्यतामिति पापेन	५५६
एवं देव्यां तुजा साकं	५२०	एष एव मम प्रैषो	६	कदम्बवालुकाताप-	४५५
एवं द्वादशमिदं वो	४	एष एव विधिर्ज्ञेयः	५६२	कदम्बद्वन्द्वमूलस्थ-	६०
एवं द्वादशसङ्ख्यान-	३३५	एष देवोपनीतं तद्राज्यं	३४४	कदलीफलमादर्श्यं	२२४
एवं नित्यं निशाप्रान्ते	१०६	एष पूर्वभवे शत्रु-	१८१	कदाचिच्च महोपालः	१६१
एवं पञ्चखलपद्मान्वि-	८२	एष राज्यभ्रियं भुञ्जन्	२६१	कदाचित्त्वचपधीश-	१६५
एवं परम्परायात-	१५६	एषोऽपि पर्वतो विद्याधर	११६	कदाचिच्चेटकाख्यस्य	४६६
एवं पित्रा सशोकेन	२६६	[ ए ]		कदाचिच्चेटको गत्वा	४८३
एवं पृथग्विनिर्दिश्य	१३६	ऐक्यसङ्करेऽप्येतन्न	१७८	कदाचिच्छारदाम्मोद-	२२०
एवं प्रतिसहस्राब्दं	५५८	ऐरावतगजरकन्ध-	८१	कदाचिज्जलयात्राया-	५१२
एवं प्रयाति कालेऽस्य	४१८	ऐरावतीनदीतीरे	१०८, १६४	कदाचिज्जातत्रैराग्यः	१६
एवं प्रार्थयमानो मां	३०६	ऐरावतीसरिद्विज्ञान्ते	४८४	कदाचिज्जिनपित्रामा	३४०
एवं कन्धविधानोक्त-	४६४	ऐन्द्रस्यामिसुखो भूत्वा	३२४	कदाचित्कानने तस्मिन्	४४४
एवं बहिः कृतः सर्व-	२६७	[ औ ]		कदाचित्कार्तिके मासे	७७, २४६
एवं मवान्तपबद्ध-	१७५	श्रौत्यक्तिकादिषीयुक्ताः	४६६	कदाचित्काललब्ध्यास्य	४१
एवं मवान्तपवर्जितो-	३३	श्रौत्युक्त्याचद्वनं गत्वा	१८१	कदाचित्काललामेन	१६०
एवं सुलेचपधीशं	३११	श्रौदासीन्यं सुखं तच्च	७४	कदाचित्केनचिद्धेतु-	४७१
एवं महाशुनिस्तत्र	३५६	[ क ]		कदाचित्तल्पप्रत्या-	५१२
एवं रामरिचरं रन्वा	२८७	कंसं यथार्हमालोक्य	३६६	कदाचित्तेन गत्वामा	६४८
एवं राज्यसुखं श्रीमान्	३६	कंसाम्ना समाहूतः	३६३	कदाचित्ते सुता हताः	६
एवं विनादैरन्यैश्च	५१८	कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा	३६६	कदाचित्पाट्टडारस्मे	२३३, ३४८
एवं विहरमाणं तं	३५४	कंसेन निजभत्येन	३६३	कदाचित्स्निहसेनो	११२
एवं वैषयिकं सौख्यं	४५५	कंसोऽन्युत्पत्तिमात्रेण	३६३	कदाचिदिति सञ्चिन्त्य	५१५
एवं त्रेतेन सन्न्यस्य	४५७	कः कं किं वक्ति केनेति	४१३	कदाचिद्धरपाधीर्ता	२१८
एवं शेषनवस्थान-	५६२			कदाचिद्धमसेनाख्य	४०१
एवं शृगालवल्गुब्धो	५३४			कदाचिद्दतिषेषोऽभूत्	६

कदाचिद्भ्रमिवेगो	११४	करौष शरसेनोऽहं	३६०	कस्मिन् केन कथं कस्मात्	७६
कदाचिद्राजसिंहाख्यः	१३२	करौषुमार्गमालोक्य	२६४	कस्य कस्मिन् समीप्येति	३५
कदाचिद्द्विजया देवी	४६४	करैः प्रविकसत्युष्करै-	३१८	कस्य का वृज्जता नाम	२३३
कदाचिन्निशि केनापि	५०८	करौर्निजैः कुमारस्य	५३६	कस्यचिद्भूतभावेन	४५०
कदाचिन्मत्पिता भौम-	५४६	करोति कुत्सितं कर्म	१०३	कस्यचित्सा महादेवी	५३५
कदाचिन्मत्पिता मन्त्र-	४६०	करौ प्रसार्यं सस्नेहं	४६८	कस्यान्यस्य स्थिरीभावो	८२
कदाचिन्मन्दरे विद्यां	१७७	कस्याभ्यर्थां प्रवर्तित्वा-	३१७	कांस्यपात्रत्रयापूर्ण-	११०
कदाचिन्मुनिसङ्घस्य	१६७	कस्यां तस्य न वप्यंते	२०५	काकर्मासिनिवृत्त्यासौ	४७०
कदाचिल्लक्ष्मणो नाग-	३२६	कस्यां लम्बासम्पुशौ	२७	कस्यवत्सर्वसु भ्रान्तः	३४६
कदाचित्स्य नृपो दानं	१६४	कर्तव्यमिति सम्युद्यो	५५०	काञ्चनाख्यगुहायां	११४
कदाचित्सानुकम्पेन	३६३	कर्मथोऽस्य समथोऽहं-	५४६	काठिन्यं कुचयोरेव	४४४
कनकश्रीः सहाभ्येत्य	१७२	कर्मनिर्मूलनं कर्तुं	५४७	कात्र प्रीतिरहं जन्म-	८७
कनकोज्ज्वलनगामू-	५६५	कर्मभेदात् फलं तेषां	३२६	कार्तिके कालपद्मस्य	३६
कनकनकविग्रहो	३३६	कर्म स्यात्किं न वा पुण्यं	७४	कार्तिके मासि रेवत्यां	१२२
कनीयसी गुणैर्ज्येष्ठा	४०२	कर्माण्यनादिबद्धानि	१५७	का त्वं वद कुतस्त्या वे	२८६
कनीयान् जिनदत्तोऽथ	४२३	कर्माण्यष्ट सकारणानि	२१०	कान्तः कुवलयाद्द्वितीया	१२८
कन्दमूलफलान्वेषी	१८३	कर्माग्निभिरीदं सर्वं	८	कान्ता कल्पलतारम्यो	१६
कन्यकानां कुमारं तं	५३३	कर्मदमुचितं ख्यात-	३११	कान्तापल्पलतारोह	१७०
कन्यकामिः शतैः सार्द्धं	१७६	कर्मैवं निवृत्त्यासी-	२७६	कान्ताभिः करणैः सर्वै-	६८
कन्यां गवेषयेति	५११	कर्वटाः खत्रयद्वयेक-	३२५	कान्तिं लज्जां धृतिं कौर्तिं	५६
कन्याकुञ्जमहीशस्य	२२२	कस्यामरैः समं सर्वै-	१७	कान्तेः का वर्षानां तस्य	२०७
कन्यारतं ममास्त्यत्र	२२४	कलङ्कक्षीणते यस्मिं	४४४	कान्त्या कुवलयाद्द्वितीया	१६६
कन्याहस्तिदुवर्णवाजिकपिला	७८	कलङ्कविकलः कान्तः	१२५	कामकल्पद्रुमोदभूतं	५५
कान्ताभिः कमनीयाभिः	२६	कलापी गतवानेकः	२६५	कामजे व्यसने ध्रुते	१०२
कपिलादिस्त्रिष्व्याशां	४४७	कलापे पलितं प्राच्यं	२५६	कामधेन्वभिषां विद्या-	२०५
कपीनां यूथमालोक्य	५२६	कलाभिरिव बालेन्दुं	५४	कामयन्ते स्त्रियःपुंस	३५
कर्पोलफलकौ ऋक्षयौ	२०५	कलाविदग्धविघ्नेश-	५०३	कामरगकथामेव	११६
कमठः कुङ्कुटसर्पः	४४२	कल्पवल्लीव दावेन	२६६	कामशोकभयोन्माद-	६६
कमठः प्राक्तनः पापी	४३३	कल्पवृक्षश्च दीनेभ्यो	४३३	कामादिशत्रुविनाशे	२८२
कम्पमानैरघोवज्रैः	४६७	कल्पातीला विरागास्ते	८०	कामिनां खण्डयन्मानं	२८१
करं परापर्यर्द्धानि	१३३	कल्पाधिर्वाणकल्याण-	२३७	कामिनी नीलनीरेज-	२०७
करजालमतिकान्त-	२५३	कल्याणविधिपर्याप्तौ	२६१	कामिल्यायां घराधीशो	४२०
करणात्रयसंयोगात्	६०	कल्याणभिषवं कृत्वा	४६०	कामो नाम खलः कौऽपि	७२
करणात्रयसंशान्त	१५६	कविपरमेस्वरनिगादित-	५७५	कायः सर्वां शुचिप्रायो	६६७
करणप्राक्स्थालम्ब-	५६२	कश्चिच्चक्रीविजयाधीशं	१४६	कायवाक्येतेषां वृत्ति	१५८
करणाणामभीष्टा ये	४४६	कश्चिद्भिषग्वरो वीक्ष्य	५४१	काग्रस्थितिसमादानं	३०४
करवाणि कथङ्कारं	१२१	कश्चिद्भिप्रसृतो वेदा-	४७४	कायादिकं सदपि ते विफलं	५६७
कराप्रकर्णैर्योपलक्ष्य-	३४६	कश्चिल्लोकान्तरं यातः	५५२	कारणं किं तयोः कौ च	१८६
करालकरवालाग्र-	३८१	कथायमत्तमातङ्गः-	४६५	कारणं तीर्थङ्गान्भो	१८७
करिष्यन्नतितसानां	५३१	कथायविषयारम्भ-	५४२	कारणं प्रकृतं भावि-	२५६
करी ह्रमकराकीर्ण	३११	कस्मादनेन बन्धुत्व-	५३७		

कारणद्वयसन्निध्या-	४३२	किं तेन यदि शीलस्य	२६३	कुतो धर्मत्ववेत्येत-	४६०
कारणादिच्छतां कार्यं	५५५	किं ध्यानात्कथिनः फणीन्द्र-	४४१	कुतो ममेति सक्रोधं	३६१
कारणान्यपि पञ्चैव	५५	किं न कुर्वन्त्यमी मूढाः	३८६	कुनयधनतमोऽर्धं	१२४
कार्त्स्नं कर्मणां कृत्वा	४८०	किं न वेत्सि ममैवं त्वं	४७५	कुन्त्या सहाकृतोत्पन्न-	३४६
कार्यं कारयतो गुण्यं च गुण्यिनो	२४८	किं प्रत्येयमिदं नेति	४१३	कुन्धुतोयेशसन्ताने	२१६
कार्यं साधु करिष्यामि-	३८४	किं वस्त्वहात्पिण्डमन्वय-	५७०	कुन्दहासा गुण्यास्तस्य	१८
कार्यकारणभावेन	१७६	किं सुखं यदि न स्वस्मा-	५६	कुन्देन्दुनीलसङ्काशा-	६३
कार्यमित्येतदेकान्त-	२६६	किं सेव्यं क्रमयुग्ममञ्जविजया-	३७	कुपिता विषसम्मिश्रं	४२२
कार्याकार्यविकस्ते	२६६	किञ्चित्कारणमुद्दिश्य	१८५	कुपितेयं विना हेतोः	२८७
कालं गमयतः स्मोद्य-	५४४	किञ्चित्कालं समासाद्य	१६५	कुपित्वा चेट्काचै तं	५१७
कालदृष्टस्य वा मन्त्रो	७८	किञ्चित्कालं समासाद्य	१६५	कुबेरदत्तमाहूय	५४४
कालमेधमहागन्ध-	३१६	किञ्चित्त्विष्णामिवातक्ष्य	२८८	कुबेरदिरुखोबद्ध-	२०८
काललब्धिं समाश्रित्य	३६१	किञ्चित्पुण्यं समावर्ज्यं	५३७	कुमारं तदनुशान्त्	५०७
काललब्ध्या समासाद्य	३६७	किञ्चित्प्रदक्षिणीकृत्य	४६१	कुमारं भास्वराकारं	४६२
कालालीलाविलव्यालं	५२	किञ्चिद्विदितं प्रियं चोक्तं	१०	कुमारः श्रुयतां कश्चि-	५३३
कालसंवरविद्याधरेशः	४१०	किन्तु प्रुवो वियोगोऽत्र	८६	कुमार इति सञ्चित्य	३५४
कालादिलम्बिमासाद्य	३८८	किन्तु नाकाशगामित्व-	३०५	कुमारकाले निःक्रान्ते	२५५
कालाद्युक्तचतुर्भेद-	१६०	किन्तु विद्याबलादिषु	११८	कुमारकाले पूर्वाणां	२६
कालान्ते कालदूतो वा	३१५	किमङ्गस्तीति सोऽप्याह	५१०	कुमारत्वे दशाष्टौ च	७
कालान्ते कृतन्यासविधिः	७	किमनेनेति यज्ञेशं	५१५	कुमारदत्तवैश्यस्य	५०५
कालान्ते केशवोऽयासीद्	११७	किम यप्रतिपाद्यास्यै	१६८	कुमारमन्दराकार-	५३८
काले गच्छति जीवान्ते	४६३	किमर्थमिदमेकत्र	३८५	कुमार श्रुणु बक्ष्यामि	५३८
काले गच्छति तस्यैवं	३३१	किमलौ लभ्यते ब्रह्मं	१७०	कुमारस्य न भीरस्ति	५०७
काले गच्छति सत्येव	१११	किमित्यधोगति यास्य-	४७३	कुमारान् भस्मयार्शि वा	१०
काले सुखेन यात्येवं	३७५	किमित्येभ्यामि यातेति	२२८	कुमारपायार्पयामास	५१५
कालो माण्डलिकत्वेन	२१५	किमेतदिति तेऽवोचन्	४८३	कुमारेश समं गत्वा	३६०
काशिदेशे रुपो	१२६	किमेतदिति सावोच-	५४८	कुमारेति तमभ्यर्ध्वं	५०६
काशिदेशे समायात-	२८१	किमेतेन भवच्छौर्यं	३०८	कुमारोऽस्मिन्मम स्नेहोऽभू-	५००
काश्चित्कारिताः काश्चित्	२८१	किमेतेषां फलं ब्रूहि	३६६	कुमारोऽपि गृहीतारणु-	५१६
काश्चित्स्विन्तसर्वाङ्गाः	३५४	किरातवैश्यरूपाणि	४६५	कुमारोऽपि ततः किञ्चि-	५०८
कारमपायाश्च पुत्रौ तौ	४०६	किरातेनेति सम्भृष्टः	४६६	कुमारोऽपि प्रतिज्ञाय	५५१
कापायवस्त्रः कक्षाव-	२६७	कीर्तिगुणमयी वाचि	८७	कुमारोऽपि रविर्वाम्भो	५००
काडाङ्गारिकपापोऽपि	४६६	कीर्तिवल्लीजगत्प्रान्तं	२०७	कुमारोऽपि त्रिदिवैत-	५०१
काडाङ्गारिकपुत्रेण	५०४	कीर्तिस्तस्य लला सत्यं	१२६	कुमार्गवारिणी यस्मा-	४२६
काडाङ्गारिकमुखास्ते	५२५	कीर्तौ श्रुतिः स्वतौ तस्य	२१	कुम्भपूर्वापयोमिस्ता-	३६८
काडाङ्गारिकमेवैन-	५०७	कुङ्कुरो वार्षितालानो	३४४	कुम्भार्थाद्या गणेशोऽस्य	२२०
कागौ किं तां न वेत्सि त्वं	४८३	कुण्डलाविषये सुकेतु-	१०५	कुम्भाहारय यातं तं	१५२
किं कृतं भवता पूर्व	४८०	कुण्डलाख्यपुरे राजा	१५०	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
किं कृत्यनत्रं संग्रामे	३०८	कुतापसत्रतं दीर्घ-	१६४	कुञ्जाङ्गलदेशेऽस्मिन्	३६२
किं गोत्रः किं गुह्यं हि	१५०	कुतो जानुक्रियेत्येत्	२८		
किं तेन जन्मना तेन	६				

कुक्षते मां मधि प्रीता	५१४	कृतसिद्धनमस्कारः	२३६, ४३७, ५२५	कृष्णाचार्यं समासाद्य	१३२
कुक्ष्वमिति सन्प्रोष्य	२६६	कृताञ्जलिभिरासेव्यो	३२४	कृष्णायां वास्यो योगे	८८
कुक्ष्वागं श्रियो वृद्धयै	२५५	कृताञ्जलिरहं याचे	३०२	कृष्णेन सह रङ्गं वा	३७१
कुक्ष् संग्रहमन्यञ्च	२६६	कृतारुरुपविनया	२१४	केचिदङ्कुष्ठमातव्यं	३८७
कुर्मस्तथेति सन्तोष्य	५१६	कृतान्तरुपविनया	५०७	केचिदेवं परे नाना	३८७
कुयुः कुवहलोत्पत्तिं	४८	कृतान्तरोद्दृशासन्न-	२६८	केचिद्दामकरोपात्त-	३८२
कुर्वन्स्तापस्योश्चैः	४७६	कृतापराधे भ्राता ते	१०८	केतवश्चानुकूलानि	३१८
कुर्वन् नैर्बनारलेर्ष	२६१	कृताभिवदनो योग्यं	५१६	केतुमात्राचलद्दोभि-	१४५
कुर्वन् वोरं तपो विरव-	६५०	कृतार्थः सन् जगत्त्रातुं	१६३	केनचित् कौलितो वेतो	१७१
कुर्वन् धर्मोपदेशेन	३७	कृतार्थोऽहं कुमारेण	५४६	केनचित्पथिकेनामा	४७४
कुर्वन्नेवं महासत्त्व-	११३	कृताष्टाङ्गिकसत्पूजौ	१६५	केनचिन्मुनिनाधीत-	५१६
कुर्वन् पर्वशाशाङ्कामो	३३७	कृतोपचारा संविष्य	४३४	केनापि तपसा कार्यं	२२६
कुर्वन्ति स्मापरागाणि	३१६	कृतोपायो धृष्टीत्वैनां	४६६	केनापि हेतुनावाप्य	४५६
कुर्वाणः पञ्चमिमांसे-	४३६	कृत्तिकाभिर्निशाताभि-	४६७	केनाप्यसह्यमापाते	५०१
कुर्वाणः समर्थं कति प्रकृतिषु	५	कृत्तिकायां तृतीयायां	८६६	केयमित्यनुयातोऽवौ	५४६
कुलं कुलवत्यास्य	५७	कृत्याकृत्यविवेकाति-	६५२	केवलज्ञानिमानोक्त-	१३१
कुलं चेद्रक्षितुं तिष्ठे-	३००	कृत्याकृत्यविवेकोऽस्य	२५१	केवलावगमं प्रापत्-	१००
कुलनाशोऽजातिमुक्ते	२६०	कृत्यानामुपजापिन	२८३	केवलावगमात्प्राप्य	३३८
कुलपुत्रमहाम्भोर्धेनं	३०६	कृत्रिमाः केन जायन्ते	१६६	केवलावगमालोकिता-	४७३
कुलरूपवयःशील-	२०७	कृत्रिमैषच्छुलात्तस्मान्	१५३	केवलावगमास्तत्र	४
कुलरूपादयः केन	११६	कृत्वा कृष्णं च गोपाल-	३६८	केवलद्युतिरिवैवं	६१
कुलारोग्यवयोरूपा-	१४३	कृत्रा जीवन्वरस्तस्य	५०७	केशरोमलवादीनां	५०४
कुले मही भुजां ज्येष्ठो	२६०	कृत्वा तज्जनितक्षीम-	४४६	केशवत्या महाभ्राता	२४२
कुलोचिता सुषोषा त्वं	५०४	कृत्वा तपः समुत्कृष्टं	२४८	केशवाक्ष नवैवात्र	५६१
कुशलाक्षन्दनोशीर-	५११	कृत्रा दिग्बिचर्यं जित्वा	६५	केशवत्यादिमत्येयं	४५२
कूपं सोपानमार्गेण	५५३	कृत्राऽन्येष्टिं तदाम्येत्य	१०१	केशवो जीवितान्ते	१२७
कूर्मपृष्ठौ क्रमौ तस्य	२०६	कृत्रा नान्दीश्वरीं पूजां	१६२	केशवोऽपि तमन्वेष्टु-	१०४
कूलनाम महीपालो	४६४	कृत्रा निदानं संन्यस्य	१०३	केशान्विमोचितास्तस्य	४१७
कृकवाक् च चेदेव-	१६०	कृत्या पञ्चमकल्याण-	७५, २४७	कैलासपर्वते दीक्षां	१२
कृतः किलैवमादेशो	५१०	कृत्या पापमदः कृधा	२७७	कोकालोकावलोकाका	५६३
कृतकः सहचरचेति	५२३	कृत्या भगीरथे राज्यं	११	कोकिलानां कलालापौ	१८०
कृतः पुत्रवधः स्वामी-	५५२	कृत्या भवान्ते मन्दोदरी	२७६	कोकिलाप्रथमालापै-	१८३
कृतदोषोऽस्त्ययं नाग-	१०७	कृत्याऽभिवेचनं दत्त्वा	३४६	कोकिलालिकलालापा-	७१
कृतदोषो हतः सीता	३२३	कृत्या राज्यमनू सहैव	८६	कोकिलाक्ष पुषा मुक्ती	५०६
कृतनिर्वाणकल्याणाः	४३६	कृत्या राज्येऽनुजन्मानं	११२	कोटिकाख्यशिलां तस्मि-	३२३
कृतपञ्चमकल्याणाः	४२	कृत्रा शरीरसंकार-	३२७	कोटीर्वाद्दशरत्नानां	३८६
कृतमञ्जलनेपथ्यां	३२४	कृत्या स्नानाभिहोत्रादि-	२६४	कोटीनवसहस्रेषु	४०
कृतमातृपरिभ्रमनः	४८६	कृत्यैतान् बुद्धिवैकल्यात्	५२	कोऽपराधस्तवेदं न-	१२
कृतवर्मा महोदधी	६८	कृत्स्नकर्मज्ञेयोमोक्षो	२४४	कोऽपीति देवैः सम्पृष्टः	१३६
कृतवीरोऽन्नवीत्सापि	२२५	कृशामप्यकृशं मध्यं	२८	कोऽभिप्रायो महीशस्य	३६२
कृतशोभो जगन्नाथ-	४२०	कृष्णपद्मे त्रयोदश्यां	३४, २५४	कोकशले विषये रम्ये	३३४

कोशातकीफलं पक्वं	३६३	क तद्वैरं वृथा शान्ति-	४३६	खचतुष्केन्द्रियत् कैः	५६
कोऽसाधन्याय इत्येतत्	१८१	क मे श्रीविजयः स्वामी	१५४	खचतुष्केन्द्रियत्वमिमित-	२२
कौटिल्यकोटयः क्रौर्य-	३६१	क सकलपृथुशत्रु-	४२७	खचतुष्केन्द्रियद्वयवन्दे	१२२
कौतुस्तुतः किमर्थं वा	२८४	क स पितृदुःपमृत्युः	५२८	खचराधिपदुतं खादवतीर्णं	१४४
कौमाररत्नचरित्तं	२२३	क स विदित्तत्त्वः	४८१	खचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्षं	११२
कौमारमिति रूपेण	२६	काचित्कव्यमिचाराच्चे-	४७८	खण्डद्वयं हयग्रीव-	४५४
कौलीन्यादनुसक्तत्वाद्-	१४१	काद्य वर्तत इत्येतत्	४०६	खत्रयत्वेकसङ्ख्यानैः	२३
कौशले विषयेऽप्योप्या-	४३२	क्षिणिकत्वे पदार्थानां	४७६	खत्रयाग्निरिवर्षान्ते	१४
कौशले विषये वृद्धग्रामे	११२	क्षिणिकाः सर्वपर्यायाः	३३	खत्रयायनपक्षोक्त-	१२२
कौशाम्यां प्रथितस्तृतीयजनने	३३६	क्षिणिकैकान्तदुर्वादं	१७६	खत्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता	२३७
कौशाम्याख्ये सुदिख्यालो	३४३	क्षपकश्रेयिमादह्य	१३७	खत्रयैकैकानिर्दिष्ट-	४२
कौशाम्बिनगरं तत्र	३४२	क्षमा मूर्तिमतीं वेयं	४८६	खत्रियपञ्चद्वयवह्युक्त-	१००
क्रमात्केवलमप्याप्य	१८०	क्षमानात् क्षमाविभागो वा	१३७	खद्वयद्विनवान्म्युक्त	६०
क्रमात्पाचापुरं प्राप्य	५६३	क्षयी कलङ्की पङ्कोत्थं	२०५	खद्वयत्वेर्द्विवादीशः	६२
क्रमात्सदनगरं प्राप	५४६	क्षयोपशमसम्प्राप्त-	३३४	खद्वयत्वेष्टसम्प्रोक्त-	१००
क्रमादेकादशाङ्गाग्नि-	६७	क्षान्ति वारिदाः काले	२८०	खद्वयद्वयष्टवाप्युक्त-	८२
क्रमादेवं तपः कुर्वन्नुषीं	२०६	क्षान्त्यादिः कर्मविष्वंसी	५५२	खद्वयष्टपडेकाङ्क-	३७
क्रमाद्धोत्रलकायायुः	५५८	क्षान्त्यादिदशधर्मा-	३३६	खद्वयेन्द्रियपक्षोक्ता-	२१६
क्रमाद्भ्रातृग्रहं प्राप्य	४६६	क्षिप्त्वा लौकान्तिका	६६	खद्वयेन्द्रियपञ्चाधिगम्य	१००
क्रमाल्लङ्कामवाप्येना-	२६२	क्षीराभपेकं भूषान्ते	६८	खद्वयेन्द्रियपञ्चामिधेय-	१००
क्रमेण कृतपुण्योऽसौ	४११	क्षीरोदा च सशीतोदा	१८६	खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रि-	६६
क्रमेण विहरन्देशान्	११८	क्षुद्रुट्भयादिकर्म-	२२१	खद्वयेन्द्रियरन्ध्रामि-	१२३
क्रमेण श्रवणव्यवहार्य-	२८८	क्षुल्लकोऽयं गृह्याप्येति	५४५	खद्वयेन्द्रियपक्षाङ्क-	२४६
क्रमेणैवं तपः कुर्वन्	३६१	क्षेत्राणि सर्वधान्यानि	४५	खद्वयैकेन्द्रियज्ञान-	२१६
क्रमेणोऽग्रं तपः कुर्वन्	१३२	क्षेमं श्रीविजयाधीशो	१५५	खाद्विकेन्द्रियसतोक्त-	७४
क्रियमाणां दुरात्माऽसौ	५०७	क्षेमङ्कराख्यमष्टार-	४३१	खपञ्चकनवद्युक्तैः	३०
क्रौडर्षं जाम्बवत्याप-	४११	क्षेमपञ्चेदान्मिमच्छास्ति	४५६	खपञ्चकेन्द्रियैकोक्त-	६८
क्रौडार्थं स्वबलेनामा	४३५	क्षेमाख्यपरत्नपति-	४३	खपञ्चकेन्द्रियैकोक्त-	१२२
क्रौडितुं याचते मृदो	१३३	क्षेमा क्षेमपुरी चान्या	१८६	खपञ्चमुनिवह्निदि-	२१४
क्रुद्धः कटीद्रितय-	३७३	क्षेमाह्वयमवाप्यास्य	५०६	खरदूषण धूमाख्य-	३१५
क्रुद्धैः कुमारैरन्यैश्च	३०८	[ ख ]		खलखगम कृत्वोग्रोपद्रवं	१२०
क्रुधात्मभ्रातृपुत्रोऽसौ	२७८	खगाः सम्भिन्ननामाऽयं	१५५	खसप्तकदिवाप्युक्ता	३२५
क्रुधा तौ युद्धसन्नद्धा	४५३	खगाधीन्द्रदत्ताख्यः	१८१	खाक्षखद्वयवह्निदि-	२३
क्रोधजेतुं शिशूकृतेषु	१०२	खगेशश्चक्रमादाय	१७१	खादामीति कृतोद्योग-	५३४
क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि	१०५	खगेशो दक्षिणश्रेण्यां	२७८, ४०२	खादेत्य नारदोऽन्येषुः	२८४
क्रोधान्मातापि सक्रोधा	४६०	खगेशो दक्षिणश्रेण्यां	१५४	खादैकमानुषं चेति	१५२
क्रोधाभिन्नं भवेच्छत्रुः	४६०	खगेशोऽपि तत्क्षत्रु-	१४७	खाष्टिकहस्तसददेहो	१२६
क्रोल्यामसुखारचैव	५६४	खचतुष्केन्द्रियवह्युक्ता	३१	खेटकरथां समादाय	४१४
क्रौर्यधुर्येण शौर्येण	६१	खचतुष्केन्द्रियवह्युक्तधर्मा	१७	खेचराचलवाराशि-	३८३
क गम्यते त्वया राजन	३६६	खचतुष्केन्द्रियवह्युक्तधर्मा	३७	खेचराधीश्वरो योऽसु	३१६
कचिदात्यन्तिकीं पुंसि	४७७	खचतुष्केन्द्रियवह्युक्तधर्मा	३५	खेचरोऽपि तच्छ्रुत्वा	१४८
		खचतुष्केन्द्रियवह्युक्तधर्मा		खत्वातो नन्दपुत्राधीशो	३६२

[ ग ]

गङ्गासिन्धुश्च रोहिच्व	१८८	गत्वा तौ रामसन्देशात्	३०६	गान्धाराविषये पुष्कला-	४०३
गच्छत्येवं चिरं काले	२५	गत्वा तौ स्वगतिं पूर्वं	१४६	गान्धारी गौरी पद्मावती	४०२
गच्छत्येवं क्षणे वास्य	३७८	गत्वात्मपरिवारेण	२४४	गान्धारी च सुता प्रादु-	३४५
गच्छत्येवं तयोः काले	२६७	गत्वात्र सुलमास्त्राम्बे-	४१८	गान्धारीत्याख्यया ख्याता	४०३
गच्छन्तो दण्डकारण्ये	५१८	गत्वा द्विषोऽग्निराजस्य	४११	गिर्यन्तत्रियं गन्ध-	५२६
गच्छन्त्यदृच्छ्या व्योम्नि	४१०	गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे	४२४	गुणगुण्यमिसम्बन्धे	४८०
गजः कण्ठीरवेणैव	४५४	गत्वा निष्ठितकार्यत्वा-	२६०	गुणपालामिधानस्य	५०३
गजराजं च वक्रत्रं स्वं	२४५	गत्वा पद्मरथाम्यर्था-	३५८	गुणप्रसवतन्ध्वा	१११
गजवृद्धितनाशेरु-	३१६	गत्वा प्रविश्य तामुच्चैः	२८३	गुणत्वार्यिकाभ्याशे	४२३
गजात्पुत्रं गभीरं गोः	५०	गत्वाऽभ्यर्च्य चिरं स्तुत्वा	७६	गुणा सत्यादयस्तस्मिन्	६८
गजादिषोडशस्वप्न-	३४	गत्वा राजकुलं वैनतेय-	४६५	गुणा गुणार्थिभिः प्रार्थ्या	१
गजारिर्गंजयर्थं वा	३२१	गत्वा विहाय सन्मार्गं	५४१	गुणाढ्यं भावुको मात्रि	५६
गजेन्द्रवृषसिंहिन्दु-	५०	गत्वा श्वेतवनोद्यान-	२३६	गुणा वस्य तेऽयोध्यापुरेशे	२५६
गजो नाम क्रियान्	६४	गत्वा षष्ठोपवासेन	२१५	गुणास्तस्य धनं लक्ष्मी	८७
गण्पिनीं संयमं श्रित्वा	१८३	गवैतत्पुरमन्विष्य	५४६	गुणिनां निरवचेन	१६७
गण्पिन्याश्चन्दनार्थायाः	४८२	गन्धपुष्पादिभिर्विस्व-	३८१	गुणी गुणमयस्तस्य	८६
गण्पी निजद्विजामीषु प्रसरैः	५५५	गन्धमादनकुञ्जोत्प-	३६५	गुणैः कुलत्रलादिभिर्भुवि	१७०
गण्णेशा दश तस्यासन्	४३६	गन्धर्वादत्ता सा त्वा-	५२४	गुणैः प्रागेव सम्पूर्णाः	२१
गण्णैर्द्वादशभिः पूज्यः	५२६	गन्धर्वदत्ता कृत्याण-	५२२	गुणैः सार्द्धमवदन्त-	८१
गतधनरिपुरोधः	१७४	गन्धर्वदत्ता सम्गृष्टा	५१८	गुरुः प्रथमकच्छेशं	१४४
गतयोर्जनकागारं	२७६	गन्धर्वदत्ता सुम्प्राप्य	५१०	गुरुः श्रुतधरो नाम	२६२
गतिं प्रयातसंशुद्धा	३१६	गन्धर्वनरेशैव	२२	गुरुष्णार्पितमादाय	५४५
गतिजीवगुणस्थान-	६१	गन्धवारणमासह्य	३५३	गुरुपत्याप्तनिर्दिष्टं	२७४
गतियुद्धं स्वया पूर्व-	३४१	गन्धादिभिर्मयि दिव्यै-	१८५	गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्-	३६६
गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि	५६२	गन्धादिभिर्विभूष्यैत-	४६४	गुरुभिनयिते वीक्षा-	५४५
गतेऽनन्तरमन्ताने	५७	गन्धादिभिः समन्वय्यं	५३२	गुरुमाश्रित्य सम्भाधि-	४०४
गतेऽधिद्वत्राकुमुल्येषु	२५५	गन्धाराविषयस्वधात-	२०२	गुल्फवीरिण मन्त्रस्य	२०६
गते स्वायुश्चतुर्भागे	७३	गन्धा सुगन्धा गन्धावान्	१८६	गुल्मवृत्तीहिमाः सर्वे	१६६
गतोऽमितप्रभार्हद्भ्यः	१६२	गन्धोदकैः स्वयं देव्या	४८	गृहकार्यं भवद्वाक्य-	२६०
गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता	४६८	गन्मीरा दक्षिणावर्ति	२०६	गृहाण येन प्राप्तापि	२२५
गत्यादिशुभनामानि	७३	गर्भसूतिसमुत्पन्न-	२६०	गृहाण वेषमन्यं त्वं	४७७
गत्वा कदाचिद्वेतेन	२६७	गर्भागमन्यैर्द्वादश्यां	४२	गृहाण संयमं त्यक्तं	५३०
गत्वा गमनमालोक्य	५१०	गर्भाधानादिनिर्वाण-	१६६	गृहाणोति ब्रह्मी पाणि-	३५८
गत्वाऽचलेशे संस्थाप्य	२२५	गर्भान्वयक्रियाः पूर्वं	१६५	गृहाणोदं त्रतं श्रेष्ठं	५५३
गत्वा चैत्रवनोद्यानं	३३५	गर्भावतारनक्षत्रे	४२	गृहिणी तुम्भूवास्या	११६
गत्वा बिनयद्दे प्रोष-	१६८	गर्हण्यै स्वदुराचारे	४०६	गृहीतधर्मत्वोऽसौ	१४४
गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित्	२६४	गलन्ति गर्मास्तन्नाम्ना	६४	गृहीतवनपुण्यात्मा	५३
गत्वा तपोगुहं कृत्वा	३३	गाढं पाशेन बध्नाषो	४१५	गृहीतमेव नेत्येतन्न-	२८६
गत्वा तत्र मनोहारि	५१३	गान्धर्वादि विवादिषु	४१६	गृहीतशरान्येषु-	४२३
		गान्धाराविषये ख्यातो	४८२	गृहीत्वा तामैवो क्रुद्ध-	४३३
				गृहीत्वा याविति त्यक्तं	३६०



गृहीत्वायास मायावी	२६५	चक्रं सुदर्शनाख्यानं	३२५	चतुर्धिरशदीशोच-	१७,६१
गृहीत्वा रोहिणी राहौ	२६५	चक्ररत्नं समुत्पन्नं	२६४	चत्वारिंशच्चतुर्लोकैः	१६
गृहीत्वा शुद्धसम्यक्त्वाः	४३८	चक्रवर्तित्वसम्प्राप्त्यान्	२२६	चत्वारोऽत्र महौपाला	२७३
गृहीत्वा सख्यारोऽप्यात्	४३८	चक्रवर्तिभिर्यं प्राप्य	१८१	चन्दना च यशस्वत्या	४८४
गृहीत्वा सुष्ठु सन्तुष्ट-	५०६	चक्रस्य परिपाकं च	३१२	चन्दनाधारिकाः शून्य-	४६८
गोत्रेण कारयपतत्स्य	२४५	चक्राद्यनयवैभ्रमै-	३२१	चन्दनायास्तदालोक्य	४८५
गोषावनमहानाग-	३६६	चक्रायुषस्ततोऽस्यैव	११५	चन्दनैषाच्युतात्कल्पात्	४६३
गोपुरेण प्रविश्यादिध	३२३	चक्रायुषाद्ययश्चास्य	२०६	चन्दनोशीरसम्मिश्रवलिलैः	११
गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य	५०४	चक्रायुषाद्योऽन्येव-	२१०	चन्द्रकव्यधने दत्तं	५२४
गोमिथ्या सद् सीतापि	३०५	चक्रायुषादितद्वाशं	२०८	चन्द्रचूलमुनिदंष्ट्रं वा	२५४
गोमेषमेघवक्राश्च	५३३	चक्रिचक्रं पुरस्कृत्य	३८२	चन्द्रप्रभाख्यशिविका	४६३
गोवर्द्धनश्चतुर्थोऽन्यो	५६४	चक्रेण तं कुमारोऽपि	२२८	चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो	१८६
गौतमश्च मया दृष्टो	५२६	चक्रेण तस्य युधितं	१७३	चन्द्रस्येवोदयेऽस्यापि	५८
गौरीति रूपलावण्य	४०४	चक्रेण विक्रमेणैत्र	३२२	चन्द्रामो मे सखा तस्य	५१७
गौरी षडङ्गिका श्रीमत्	१६५	चक्रमाक्रान्तदिक्चक्र-	४१	चन्द्रोदयमलित्रातो	५०५
ग्रन्थद्वयपरित्यागे	२४४	चतुर्दिचाकुर्वंशस्य	३३१	चन्द्रोदयोन्वयाम्भोधेः	४८
ग्रन्थान् कन्धामिव त्यक्त्वा	२१३	चचालाकालकालान्त-	३७६	चपेटमुष्टिदण्डादि	३६२
ग्रहीष्यामीति तेनापि	४१०	चतुरङ्गत्रेलेनामा	२५६, ३०८	चम्पापुरसनीपस्य -	३५६
ग्रामाः कुक्कुटसम्पत्त्याः	४५	चतुरङ्गत्रेलेनासौ	१४७	चम्पापुरेश्वरो यान्ती	३४६
ग्रामान्तरं समं गत्वा	३६७	चतुरङ्गत्रलोपितः	१४१	चरंस्तपः समुल्लूढं	२७८
ग्रामान्तरगत्समायातं	४०७	चतुर्गतिमयः सोऽपि	८६	चरन्निव निशातासि	५४३
ग्रामे दुर्मर्षयो नाम	५१६	चतुर्गुणत्वमायातौ	१५६	चरमाङ्गल्य केनेदं	४१०
ग्रामे पलाशकूटस्थे	३५२	चतुर्ज्ञानो द्वितीयेऽह्नि	७४	चरित्वा निरतीचारं	५३
श्रीवाभङ्गेन वा परयन्	२६२	चतुर्थकालपर्यन्ते	५५५	चरोपनीततद्वाता-	४५३
श्रीधर्माकण्डलाभत्वा-	२३१	चतुर्थशाननेत्रस्य	४६४	चर्यो शैलपुरे पुष्प-	६६
		चतुर्थशानसम्पन्न-	४, ३६, १३०	चलस्त्रभावे कुटिले	१३६
[ घ ]		चतुर्थोऽन्यत्रबोधोऽस्य	४६४	चाणूरमेणमिव	४२७
घटदासीं विधात्यामि	५२१	चतुर्दशमहारबभूव्ये	१३५	चापाशीतिसमुत्सेधो	८१
घटमयति कोकानां	२६४	चतुर्दशसदृशोक्त-	६२	चापबाणधरो गत्वा	५१०
घटमयति युक्त्यैव	१३८	चतुर्भागसमायोग-	५२४	चामरैरामरैरेष	६१
घनच्छायासमाः सर्व-	२०८	चतुर्मुखाङ्गयः कल्किराजो	५५५	चार्यात्वं समासाद्य	८
घनधृतपरिधानो	३७२	चतुर्विधामराः सेन्द्राः	२१०	चारशाल्वमपि प्राप्य	३३८
घनान्तरितकायाम-	३८७	चतुर्विधामरैः सार्धं	४६७	चारित्र्यं गन्धोऽपि	८६
घनान् मताङ्कितः कृष्यान्	३१७	चतुर्विधोपधाशुद्धं	१०६	चारुदत्तादिभिः श्रोतु-	३५७
घातिकर्माणि निर्मूल्य	१४६, ४६७	चतुर्विधोपसर्गोऽत्र-	४६५	चालयन्ति स्थिरामूर्त्वीं	४१३
घातिकर्माणि विध्वंस्य	५२७	चतुर्विधभक्तपक्षोप-	२०४	चित्रं नीचकुलोत्पन्ना-	३६७
घातीति नाम तद्घाता-	६१	चतुःशतानि पञ्चाशदु-	७	चित्रकूर्टाभिषोद्याने	२८६
[ च ]		चतुःशतानि सम्भोक्ता	४६८	चित्रचूलः पुनश्चास्य	१८४
चकार बोधयां पुर्या-	३६१	चतुःशतेषु पञ्चोत्तरेष्वहः	४०	चित्रपद्मादिकूटस्थौ	१८६
चकार शान्तिपूजां च	३२७	चतुःसहस्रसङ्ख्योक्त-	२६६	चित्रायां केवलज्ञान-	३८७
चक्रं शक्तिर्दा शङ्को	३८३		२१०		

चिन्तामणिप्रथमाः केचित्	५५७
चिन्वन् शुभाश्रवैः पुष्पं	३६
चिरं त्रिलङ्गसाम्राज्यं	६५
चिरं परिचितस्थानं	३८२
चिरं राज्यसुखं भुक्त्वा	२४१
चिरं वने विहृत्यैव	५०६
चिरं सोढवा तपःकलेशं	४४६
चिरं सोऽपि तपः कृत्वा	३५३
चिरमेकादशश्वक्रधरः	३३७
चिरमेवं तपः कुर्वन्	४३०
चिरमेवं तपः कृत्वा	२४५
चिरासतो विनिर्गत्य	४०४
चिरात्तस्माद्विनिर्गत्य	४३१
चूडामणिप्रथमासि-	३७०
चेटकस्ते तदाकर्ण्य	५१७
चेट्काखमहीशस्य	४८३
चेटकेन हतो हंसः	५१८
चेतनः कर्मभिर्गन्तः	५४६
चेलिनी कुटिला ज्येष्ठा	४८४
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा	४८२
चेलाषताके चेलश्वचातुजे	५७७
चेष्टामालोकिनीविधातो	४८४
चैत्रयोस्तनापणे पञ्चम्यां	५
चैत्रमासे सिते पद्मे	२३४
चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां	५६
चैत्रे मासि सिते पद्मे	१८
चैत्रेऽमा मास्यहःप्रान्ते	१२३
चैत्रे स देवः स्वर्गाग्रात्	७३
चोदितास्तैर्युक्तानामा	४६१
चोदितो वा स तैर्मूर्धो	१०२
चोरशाब्जोपदेशेन	५३२
चौयैश्च रावणस्यैव	२६६
च्युतप्राणान्च्युतेन्द्रस्य	३६७
च्युतो हृदरयो बभूव	२११
च्युत्वा ततो विदर्भाख्य	३६७

[ छ ]

छात्रस्थेन ततः काले	३३५
छात्रस्थेन नयनबन्धान्	४
छात्रस्थेन समास्तित्वो	७४
छेदिनी सर्वविद्यानां	१६५

[ ज ]

जगत्त्रयजयोरितिक-	३३६
जगाद भवता प्रोक्तं	१५३
जगाम सम्मुखं धाम्नः	५२०
जघन्यशुक्रद्वयभाग्	६७
जघानेव वनं वज्रं	३१०
जद्यकलापसम्भूत-	३६१
जनकोक्त निवेद्यात्र	२५७
जननमृतितरङ्गाद्	२३७
जनयतु बलदेवो देवदेवो दुरन्ताद्	३३०
जनस्य चेदयं तोष-	८०
जनानाव्रजतो हृष्टवा	५३८
जनापुरागः प्रागेव	१७८
जनुत्तकदन्तस्थो	१४
जनुत्तैर्भ्रम्यते भूयो	१५६
जन्तोः किं कुशलं कस्मान्	२५
जन्मकूपे लुभादाहा-	५४१
जन्मकूपे पतित्वायु--	५३५
जन्मदुःखजन्ममृत्यु-	६६
जन्मन्येवाभ्युपेतैषा	४८७
जन्ममृत्युवाराग-	१५६
जन्मज्ञं कार्तिके कृष्ण-	१७
जन्माद्यन्तर्मुहूर्ते चै-	१६०
जन्मान्तरस्मृतैर्मूर्च्छां	५१३
जन्मान्तरे फलेनास्य	२६१
जन्माभिषेक कल्याण-	६८, ४३५
जन्मी नश्यति निर्मूल-	५३४
जमदग्निमुनेदीर्घ-	२३३
जम्बूद्वीपसुकच्छारख्य-	१८१, २
जम्बूद्वीपेऽत्र कौशाभ्यां	३४
जम्बुनामापि निर्वेदा-	५३१
जम्बूनाम्नो गृहत्याग-	५४३
जम्बुनाम्नोऽन्वये पूर्व-	५३७
जम्बूपलक्षितं द्वीपं-	२३३
जम्बूपलक्षिते द्वीपे १६, १६०, ३४६	
जम्बूविशेषण द्वीप	४२६
जम्बूसम्भाविते द्वीपे	४२२
जयः पराजयो हानि-	१५०
जय जीवेति बन्दारु-	३८०
जयनामानुनामाहः	५६४

जयन्तेऽनुत्तरे जातो	३३८
जयन्तो धरणाधीशो	११६
जयश्यामा महादेवी	१२२
जयसेनो जनैः सेव्यो	६
जयसेनो महीपालः	५४३
जयारख्यसुख्यपञ्चारा-	१२३
जयोऽस्मात्त्रित वा मन्दं	३१८
जरन्तोऽपि नमन्त्येव	५५४
जराङ्गनासमासङ्ग-	२६८
जरसन्धं हृत्नोजितमिव गजं	४२७
जरसन्धोऽपि युद्धं द्रष्टु-	३८०
जरासन्धोऽपि संग्राम-	३८१
जलं गद्गदकण्ठया	३०२
जलं पीत्वा मयूरार्यां	२६४
जल वेर्जलमुल्लंघ्य-	३१३
जलपेस्तटमाश्रित्य	३१३
जलाशयस्तुधार्तस्य	४११
जलाशयश्च सुस्पच्छाः	४५
जातः प्राङ्मन्यभूति	४४१
जा.ल्यं जलेषु नान्येषु	४४५
जातकोपः क्रयतोऽसुं	५१२
जातबातिस्मृतिर्मूर्च्छां	५११
जाततोषो नृपस्तस्य	५१६
जातमीहकस्त्वयं का वे .	४८६
जातरूपच्छविः श्रीमा-	२१६
जातरूपद्युतिः सार्द्ध-	३३३
जातयन्तौ तदुत्कृष्ट-	२५४
जाज्वल्यमानकोपाग्नि	१६७
जातां पवनवेगाया-	३५६
जाताः शेषाश्च बुद्धयादि-	३२८
जातिगोत्रादिकर्माणि	४७६
जातिमान्नेष सर्वाश्च	३६१
जातु तौ दम्पती दृष्ट्वा	३४४
जातो माहेन्द्रकल्पोऽनु-	५६५
जातो वनेचरः काल-	३६५
जातो व्रतधरस्तस्मिन्	४०५
जातो नृतीयजनने	२३२
जातो मेधौ पुनस्तत्रा-	३४७
जातो साकतेपुर्यां-	२४२
जानकी तामिरीत्युक्ता	२६३

जानाम्यनमिजातत्त्व-	४१२	जिनोपदिष्टनिर्मन्थ-	१६६	शानदर्शनचारित्र-	१६८
जानाम्यहं महच्चत्स्य	१८२	जिह्वालोलुपमालक्ष्य	२२६	शानहीनपरिक्लेशो	४३६
जायते नन्दयशसः	३६४	जीर्णार्ण्यवदागण्य	७	शानादिषु च तद्वत्सु	१६७
जरापनयनोपाय-	५३५	जीव जीवेति जीवन्ध-	४६८	शानेन तपसा जैन-	१६७
जाललनैषोपोतं वा	५३३	जीवद्यशाश्च तत्सर्व-	३६४	शानोपयोगार्थोद्योभौ	१६७
जिगूप मत्पदं दृष्ट्वा	६६	जीवन्धरः सहायैः स्वैः	५०१	श्रेयसागमशाब्दाख्यं	२५७
जितारिभूमज्जत्यास्य	३६	जीवंधरकुमाराव-	५०६	श्रेयाः षष्टिसहस्राणि	२२०
जितेन्द्रियसमाहारं	५२६	जीवंधरकुमारेण	५१६	ज्यायानहमजाये त्वं	५४२
जित्वा चिन्तागतिर्वेगात्	३४१	जीवंधरकुमारोऽपि	५१०	ज्यायान् हरिबलस्तस्य	५४३
जित्वा जिनेन्द्रवपुपेन्द्र-	१३७	जीवंधरेण मञ्चूर्ण-	५२१	ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां	२१०
जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्री	४५१	जीवंधरोऽपि यद्वस्य	५०७	ज्येष्ठसुनोर्विवाहेन	१८५
जित्वा नरेन्द्रजालाख्य-	४१८	जीवंधरोऽवदन्मूर्च्छा-	५१३	ज्येष्ठे मासि कलारोष-	२
जित्वा प्रतिद्वलचपान्	१७३	जीव पुत्रात्र तिष्ठेति	४८६	ज्येष्ठे मास्यचिते पञ्च्यां	८०
जित्वा मां विग्रहेषाशु-	३०७	जीवाद्याः कालपर्यन्ताः	४७६	ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन	१२३
जित्वास्य कुन्दसौन्दर्यं	२७	जीवाजीवादित्स्वार्थो	३३८	ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रकूटस्य	५३६
जिनं प्रदक्षिणीकृत्य	१५७	जीवितान्ते गुरुस्तस्य	३५२	ज्योतिषप्रभं कनोयासं	४५५
जिनं मनोहरोद्याने	६७, ३२५	जीवितान्ते नियोगेन	५६०	ज्योतिर्वने वियोगेन-	१५४
जिनं श्रीपवनमान-	४६	जीवितान्तेऽभवद्देवी	४०६	ज्योतिर्लोकेशमरो भूत्वा	२२६
जिनं सागरसेनाख्यं	५०३	जीवितान्ते समाऽद्य	४५६	ज्योत्स्नेव तारकाधीरो	५७४
जिनं स्वदृष्ट्वात्रेण	५४६	जीवितान्ते स संन्यस्य	३४३	ज्वलज्ज्वालकाश्रमलोत्था	४५५
जिनदत्ताधिकान्याशे	३५१	जीवितान्तेऽहिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलत्यस्य प्रतापाम्नि	१६८
जिनदत्तार्थिकोद्यान्ते	४०१	जीवितान्तवसितौ सम्यक्	४४४	ज्वलनादिजटी खयातो	४५३
जिनपूजां विनिर्हृत्य	५२६	जीवितान्ते स्वया स्थान-	३०३	ज्वलनादिजटी चाशु	४५३
जिनपूजां विधायानु	५२७	जीनोऽप्यस्यदुपयोगगुणोपलक्ष्य	५६६	ज्वलनादिजटी तस्याः	१४०
जिनप्रणीतसद्धर्मा-	१६७	जैनगेहे समन्यर्च्य	३४०	ज्वलनादिजटी पाति	४५३
जिनप्रतिनिधिपूर्व-	४८३	जैनशासनमर्यादा-	४६०	ज्वलितचलितनेत्रो	३७२
जिनसेनभगवतोक्तं	५७५	जैन्याश्च तनयो विश्व-	४४६		
जिनसेनानुशायास्मै	८४	जोषमाध्वमहं कुर्वे	४८३		
जिनसेनानुसौवीर-	५६४	शतजीवंधराकृत-	५०७		
जिनस्यास्वैव तीर्थोऽग्नौ	१०५	शतात्पदेद्द्विसम्भेयः	३८८		
जिनार्हभन्दानभ्याशे	२६	शातारनान्यभवो धिक्	३६		
जिनेन्द्रजननीमैर्या	२०३	शाल्वा तत्तस्य वैसुख्य-	८		
जिनेन्द्रभवने भूतां	४३२	शाल्वा ताम्भ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जिनेन्द्रवदनेन्दुत्थ	१७६	शाल्वा परशुरामीय-	२२६		
जिनेन्द्रस्यालयास्तस्त	४३२	शाल्वापि तन्मूर्ति भूप-	१०		
जिनेन्द्रानहमन्येषु-	५०२	शाल्वा विभङ्गशानोप-	२६२		
जिनैर्होऽप्यत्रहीदित्यं	३५२	शाल्वा संघारवैसुख्यं	५३६		
जिनेषु गयानायेषु	१६७	शाल्वा क्षिरण्यवर्मेत-	५४७		
जिनोक्तधर्मशास्त्रानु-	४६२	शानं सर्वथातं स्वरूपनियतं	५७१		
जिनो नैमिः समुत्सवः	३७८	शानचारित्रवामप्रदी-	५७३		
				[ त ]	
				तं कदाचिद्विहारार्थं	७३
				तं शात्वावधिजोषेन	४३८
				तं तदा भोगिनीविद्या	५११
				तं तदावाप्य देवेन्द्रः	२०
				तं त्रिः परीत्य वन्दित्वा	१८३
				तं दण्डयितुमैच्छेद्-	२७०
				तं ध्याना नलानिर्गन्ध	७२
				तं निरीक्षितुमैच्छेद्-	५३८
				तं निरुप्य परिक्लेशोऽ-	५३१
				तं निशम्य महाकालः	२६८
				तं मनोहारिणं दृष्ट्वा	२६२
				तं विलोक्य महोपालः	२३२
				तं वीच्य तदयो दत्तौ	३२३

तं वीक्ष्य न विपद्भोऽस्य	२३६	ततः पद्मावतीजग्म	४०४	ततस्तत्त्वं विदित्वात्-	५२६
तं वीक्ष्य बालवृत्तांतं	४११	ततः परं जिनेन्द्रस्य	४६८	ततस्तदवगम्यायात्	१२६
तं शक्त्यापातयद्राम-	३२२	ततः परीतदात्रामि-	१२१	ततस्तत्रोर्विवाहेन	५०५
तं सम्पूर्णकलं प्र.प्य	५४	तः पार्थास्तुभद्राया-	४-१	ततस्तीर्थकरोरपत्ति-	५६०
तं सानःदयशो ज्येष्ठ-	३६२	ततः पुष्यं न पापं वा-	४७४	तंतस्त्रुष्टः खगधीशः	५०३
तं सुदुकृतवृत्तान्तं	४१६	ततः पुनर्गते मासे	३६१	ततस्ते तेन रामेण	२८५
तं हन्तुं निर्भयो भीमं	५४८	ततः पुरं समानीय	८१	ततस्तत्रयाशु सम्बोध्यो	५३०
त एव लब्धकालादि	४६४	ततः पुत्रोपसः प्राशुं	४७	ततस्त्वमपि केनापि	४७१
तच्चङ्गमणवेलायां	३६७	ततः प्रतीचीमागत्य	३२४	ततो गत्वान्तरं किञ्चि-	४१६
तच्चेटिकावचः श्रुत्वा	१८७	ततः प्रच्युत्य कल्पान्ताद्	१८७	ततो गत्वानुधापात-	५६६
तच्छ्रुत्वाचुष्टुताप्यस्य	४४७	तत प्रच्युत्य भूपस्य	२४१	ततो गन्धोक्तयो मुक्त्वा	५००
तच्छिष्येषु निमित्तानि	१५०	ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभू-	३६४	ततो गलति निःशेषं	१
तच्छोकात्सीरपाणिश्च	१७३	ततः प्रच्युत्य सूते	१४३	ततो यत्रो न तत्पात्रं	१६४
तच्छ्रुत्वा खेचराधीशः	१४५	ततः प्रत्यागतः कस्मात्	११६	ततोऽतिस्थन्नुता त्याज्ये-	५३४
तच्छ्रुत्वा तं निराकर्तुं	५४७	ततः प्रभृति तत्प्राहुः	१५२	ततो दीक्षावेन मासे	२२०
तच्छ्रुत्वा मत्प्रभोरैषा	१५४	ततः प्रसन्नया सार्धे	८७	ततो द्वारवतीपुर्यां	१०२
तच्छ्रुत्वाग्निव्यतां सोऽभ्य-	३६६	ततः शीलोपवासादि-	२७१	ततो द्विसागरायुज्को	४५७
तच्छ्रुत्वा पश्य नैर्लज्य-	५२१	ततः श्रीनागदत्तस्य	६६३	ततो धरण्या वैषम्य-	५५६
तच्छ्रुत्वा सकिमर्षी चाह	४१८	ततः सन्नद्धतैस्यः सं-	५२६	ततोऽननुगुणं वैदं	३१२
तच्छ्रुत्वा सुमतिः प्राह	१५१	ततः समुचितप्रेम्णा	५०७	ततो नलिनराजाख्यो	५६०
तच्छ्रुत्वा सोऽपि कोपाग्नि-	६५	ततः सर्वर्षु प्रेम्णा	२८१	ततो निःशेषमहासि	१४६
तच्छ्रुत्वाैष कः प्रैष	६	ततः सर्वेऽगमन् राम-	३१०	ततो निर्गत्य तिर्यङ्मु	११८
तच्छ्रुत्वाैष क्रौर्यसन्दीप्यं	४४७	ततः सर्वे प्रहृष्यास्य	३५६	ततो निवृत्तः सम्प्राप्य	४८६
तज्जन्मनः प्रभृत्यन्यै-	३३६	ततः साकेतमध्यास्य	२६६	ततो निवृत्त्य साकेतं	७
तज्जन्मवैरसंस्कार-	१०३	ततः सिन्धोस्तटे गच्छन्	३२४	ततो निवर्तमानोऽसौ	३६१
तज्जानन्नपि पापेन	४६०	ततः सुरगणाधीश-	२-८	ततो निर्विघ्न संसारात्	३६१
तज्जैनमवनाभ्यर्षा-	५०६	ततः रूपकरग्रामा-	३६३	ततोऽनुजलाधिं गत्वा	३२४
तज्ज्वात्सात्याः पिता चाप-	५२४	ततः सूर्योदये राजगेहे	३३५	ततोऽनुवत्समाप्येन	२०७
तत एव त्यजन्त्येतौ	२३०	ततः सेनापतिं पट-	३०४	ततोऽनुवदनं तत्याः	१५
ततः कनकमालैव	१६३	ततः सोप्यवतीर्यात्र	१०३	ततोऽन्धाहिः समुत्सन्नो	३६६
ततः कनकराजाख्य-	५६०	ततः स्वर्गावतरणफल्यार्या	१२२	ततोऽन्येषुः खगो नाम्ना	२७५
ततः कपोतमेतं मे	१६३	ततः स्वविष्टराकम्पा	६८	ततोऽपीह समुद्भूय	४५५
ततः कान्तपुरं लज्जा-	४८७	ततः स्वायुमेते तस्मिन्	४५०	ततो भगवतो ध्यान-	४३८
ततः कापालिकं शोकान्	१६१	ततश्चक्रधरोऽनुमङ्गं	४१८	ततो भवद्भिरैवायं	३५८
ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः	३८१	ततश्चक्षुष्येन भूत्वाज-	३४०	ततो भवन्मतं भद्र	१७१
ततः केनाप्युपायेन	४१२	ततश्चानिमिषाधीरौ-	४६३	ततोऽभूदत्यदा तस्य	२६६
ततः क्षीरकदम्बे च	२६७	ततश्च्युतेन भूत्वाज-	४३१	ततो भूपतिमासाद्य	२५१
ततः क्षुल्लकवैषेण	४१७	ततश्च्युत्वा महामस्यो	३४६	ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो	२४१
ततः खगाद्रचवाकश्रेणी	४८४	ततश्चौर्यादिदुष्कर्म-	३४६	ततो मन्दरमालिन्यां	१७२
ततः पञ्चमकालेऽपि	५६२	ततस्तं स समानीय	४६१	ततो मासादशेषायुः	२३७
		ततस्तत्कालपर्यन्ते	५३१	ततो मियुनमेतत्त्वं	३४४

ततो मेघरथो राज्य-	१६०	तत्तीर्थे सागरामिष्यो	६	तत्र तच्चेटिकामेका	५२२
ततो रत्नानि शेषाणि	२०६	तस्यक्त्रैकान्तदुर्वाद-	४८०	तत्र तन्मातुलः सोम-	१५१
ततो स्वाधिकाम्मोद-	५६०	तत्त्वं सत्वादिना येन	३६	तत्र तत्सन्निधानेन	५२०
ततो राज्ञः पुरं गत्वा	५१६	तत्स्वगर्भगमी रार्थ-	४५६	तत्र तादात्विकाः सर्वे	२०२
ततो राज्यभरं पुत्रे	८७	तत्त्वश्रेऽप्यपचारित्रे	१३८	तत्र ताम्बूलवलयन्ताः	१६८
ततोऽरिखेपुत्रोऽगच्छः	३२३	तत्त्वया सर्वथा साध्य	२६०	तत्रत्यं बालिनो दूतः	३०६
ततो युदां जिनाकारान्	२७५	तत्स्ववन्द्रासमानेगु	१६७	तत्र दिव्यं सुखं मुक्त्वा	३५०
ततो यौवनमालम्ब्य	२६	तत्स्वश्रद्धानमासाद्य	४१७	तत्र धन्याख्यभूपालः	४३७
ततो वज्रायुधश्च्युत्वा	१८५	तत्स्वार्थनिर्णयाध्याप्य	४४३	तत्र निर्विघ्नदिव्योद्य-	४६३
ततोऽवतीर्थं देशोऽस्मिन्	४४६	तत्पुष्करं विभिन्नासौ	३२२	तत्र नेमीशितुः सत्यमामाया-	३८३
ततोऽवतीर्थं वर्षेऽस्मिन्	६३	तत्पतिदृढमित्याख्यो	५१०	तत्र पण्यस्त्रियो वीक्ष्य	४५६
ततो बन्दित्रचोयाम-	३७७	तत्पदे तौ समासाद्य	१६७	तत्र पूर्वकृतं पुण्यं	५१०
ततो विध्वंस्य दुष्टारि-	५४८	तत्परिज्ञार्थमायान्तु	२२७	तत्र प्रवृत्तवृत्तान्त-	३७५
ततो विभिन्नमर्षादाः-	३५६	तत्परिव्य स्थितं बाह्वौ	६५	तत्र प्रवर्द्धमानोऽस्मि	२२२
ततोऽविहितसंन्यासः	१२५	तत्प्रादपङ्कजश्लेषा-	१४२	तत्र ब्रह्मा मर्ह्यपाल-	४
ततोऽस्य भोगवस्तुनां	४१	तत्पिष्यावत्कुतो रन्ता	६८३	तत्र भोगान्बहून्भुक्त्वा	३४१
ततोऽहं प्रेपितस्तेन	३०६	तत्पुण्यपरिपाकेन	५१	तत्र भोगान्यथायोग्यं	४३०
ततो हठात्तवायातं	३०६	तत्पुरुस्थापनाद्देतु-	३६८	तत्र मायामये युद्धे	३४२
तत्कण्ठे पन्नमादाय	३५५	तत्पुरायां ततो वक्ष्ये	४४	तत्र रात्रौ कृता रक्षा	४६७
तत्कथावसरे लोक-	४३२	तत्पुराधिपतिः खेचरे	५०२	तत्र वाच्यो मनुष्याणां	३८२
तत्कश्चिन्नाम येनास्य	६८६	तत्पुराधिपसोमप्रभा-	२५४	तत्र विशति वाराशि	४३३
तत्कल्याणस्य द्वेवैन्द्रैः-	७	तत्पुराधीश्वरारिन्द-	४०६	तत्र वित्रासिताशेष-	५७३
तत्काल खेचरद्वन्द्वं	२६७	तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीर्ति-	३४४	तत्र शाङ्गोपशाखाः स्वाः	२३३
तत्कालोचितकार्याणि	४३६	तत्पुर्यां सोधकूटाग्र-	२०१	तत्र शस्त्राणि सर्वाणि	२७७-२५०
तत्कालोचितनेपथ्या	२०३	तत्पूर्वभावसम्बद्धा-	२७६	तत्र शोको न कर्तव्यो	२५३
तत्कालोचित, षोऽसौ	५३६	तत्पूर्वापरसम्बन्ध-	२७६	तत्र षोडशवाराशि-	२२२ ४५१
तत्कुमारौ प्रहेतव्या-	२८०	तत्प्रत्ययसमुत्पन्न-	२४६	तत्र सन्निहतो दैवा-	४८४
तत्कृतं भानुनैवेति	३६६	तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा	२६३	तत्र स्वभवसम्बन्धं	३३४
तत्कृतासहस्रकण्डवा-	४७५	तत्प्रमावधिशेषेण	२०	तत्र स्थितः स्वयं धर्म-	३४०
तत्कृपागतद्वेन्द्र-	४३७	तत्प्रमाणबलस्तेजो	१२२	तत्रश्चैरेव भुञ्जन्ते	२०२
तत्कृपो सम्भ्रमाक्रान्तो	२६५	तत्प्रयोचनमुद्दिश्य	६२	तत्राकम्पनगुर्वाद्य-	३५७
तत्कृत्वापराधं मे	२५१	तत्कल्याण्यवबुध्यात्म-	२६	तत्राकृत्रिमसम्भूत-	६२
तत्कृत्वेनमितमाशक्ति-	२३४	तत्कल्याण्यवबुध्यासौ	८०	तत्रादायाधसंस्थानं	२
तत्कृत्वेनमितवीर्याभा-	१६८	तत्र किं ज्ञातमप्येष-	५६	तत्राद्यः षोडशप्रान्त-	५६१
तत्कृत्वेनिक्रयद्धीशः	३४	तत्र कश्चित्तनूत्वं त्वं	४६५	तत्रानुभूयच्छ्रीगान्	४०८
तत्कलेचराचले राजा	४३१	तत्र किन्नरगीताख्या-	२८१	तत्रान्यानि च रत्नानि	११०
तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य २४२, ३८२, ४५४	३५	तत्र कृष्णं समालम्ब्य	३६८	तत्राप्रकाशमेवैषा	४६८
तत्तनावेव सर्वेषां	३५	तत्र कौरवनाथस्य	४२५	तत्राभूत्पुण्डरीकिण्यां	६६
तत्तीर्थं एव चक्रेशो	६४८	तत्र गन्धोकटः स्वस्य	४६८	तत्रामोरकालाप-	८८
तत्तीर्थस्यान्तरं चक्री	१३४	तत्र जन्मान्तरद्वेषात्	३४७	तत्रावधार्थं निर्वेदहेतुं	५६
		तत्र तं सर्वशास्त्राणि	५४५	तत्राष्टादशवार्षायु-	५१८

तत्रात्य देव्यां कल्याञ्चिद-	२५५	तथा नानिष्टसंयोगो	२९	तदाखिलामराधीशाः	४३५
तत्रैकं चारणं वीक्ष्य	५१६	तथान्यथा प्रयुक्तं त-	२७२	तदा गतामराधीश-	२१९
तत्रैकस्मिन् समामन्न-	२९९	तथा परांश्च दुडुञ्जीन्	३९५	तदागत्य मरुन्मुख्या	१२२
तत्रैव कल्पे देवीत्वं	४०५	तथापि यज्ञमेवाशः	२७५	तदागत्य वणिकपुत्रो	३४७
तत्रैव चन्दना तस्य	४८५	तथा प्राप्नोषि सन्तोषा-	५११	तदागत्य सुराधीशाः	२२१
तत्रैव घनदेवाख्य-	४८८	तथा वस्तोकसाराख्य-	१८३	तदागत्यासुरी देवी	१५७
तत्रैव नगरे भूति-	७७	तथा शुभकिनोदेसु	८२	तदा गन्धर्वदत्तापि	५०४
तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः	२६२	तथा सीता महादेवी	३२८	तदागमनमाकर्ण्य	४५३
तत्रैव लक्ष्मणोऽप्येवं	२८७	तथास्त्विति तमाशीभिः	३६५	तदागमनमात्रेण	२८१
तत्रैवारदि पुत्रेण	४८९	तथेन्द्रियततिस्तेन	५४	तदागमनमालोक्य	१७१
तत्रैवायो पुनर्मृत्वा	३९६	तथैव गगनादीपशिखो	१५५	तदागमोपदेशेन	४८०
तत्रैव विश्वभूत्याख्यो	४२९	तथैव रूपमन्यस्य	३५	तदा गरुडदण्डेन	१११
तत्रैव सचिवो विश्वभू-	२५९	तथैव वासुदेवोऽपि	४११	तदा चतुर्थकल्याणपूजां	८२
तत्रैव सुप्रभो रामः	१२४	तथैव संन्यस्याभूच्च	१३२	तदाश्याऽग्रहीदर्म	४७८
तत्रोकेदेहेलेरथाविद्	२०	तदप्रजः समादाय	२२६	तदाश्याय मारीचः	२९२
तत्रोत्सवे जनाः पूजां	४६	तदद्रिमस्तकं गत्वा	२५२	तदा तच्छ्रुतिमात्रेण	१७०
तत्सर्वं पर्वतनोक्तं	२७३	तद्वेदरवतार्येनं	५०८	तदा तदुत्सवं भूयो	२८०
तत्सन्देहे गते तान्यां	४६२	तदधीशो बलीन्द्राख्यो	२९७	तदा तद्वान्मवाः सर्वे	५३९
तत्समायामभूत्प्रनः	३३४	तदनुग्रहदुःखयैव	४७४	तदा तमः समाधूय	५३६
तत्समाप्तौ स्मृतिं कृत्वा	२६२	तदन्तकप्रतीकारे	१५७	तदा तदैव सम्भूय	३६४
तत्समीपे निधायार्थं	२२६	तदन्तेऽप्रशयदन्यच्च	४६०	तदा तीर्थकराख्योर-	२०९
तत्समीपेऽनुजा ग्रामे	४९१	तदमिप्रायमाशाय	३०२	तदात्र मिथमित्रायाः	१८५
तत्समीपे समादाय	३४१	तदमिप्रायमालक्ष्य	५८	तदा दशरथान्यर्था-	२८०
तत्सर्गस्यैव साधुत्वा-	३७२	तदभ्यन्तरभागो स्तो	४४	तदा दानादिनाडं- ७३, ८८, १२९	५१८
तत्समुत्सामित्रेण	३४९	तदभ्यन्तरवर्त्यायु-	३६६	तदादिश विशामीश	९
तत्साहस्येन तत्कीर्ति-	३०३	तदर्पचिदुमायासो	३६९	तदा दृष्टापदानस्य	४१२
तत्सिद्धिर्विचिहेतुत्वात्	२७९	तदवस्थोचितश्रय-	४९८	तदा चुमुनयः प्राप्य	२३६
तत्सुतासुपवासेन	५०२	तदा कंसशया विष्णु-	३७१	तदा द्वारवतीदाहः	४२२
तत्सुता वारुणी संशा	११२	तदोर्क्यानकालान्त-	१२६	तदा नमिक्कुमारस्य	४००
तत्सूक्तमिदं सर्वं	१४६	तदाकर्ण्य तदैवासौ	१४६	तदानादार्य केनापि	५३४
ततोऽबुमक्षमो गाढ-	१९१	तदाकर्ण्य नृपाः केचि-	३८०	तदा नापितकः कोऽपि	४१७
तद्यौरमावधोवाव-	५४१	तदाकर्ण्य मवत्प्रीत्या	१८८	तदा निजासनाकम्पाद्	४२५
तत्स्वादलोऽपः पापी	१५२	तदाकर्ण्य महीनाथं	३६६	तदानीमेव कैवल्यं	१८३
तथा करिण्याः पादाभ्यां	२६५	तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः	९	तदानीमेव तं दीक्षा-	१८३
तथा कालगुहायाञ्च	४१४	तदाकर्ण्य विचिन्त्यैत-	५१६	तदानीमेव तं नीत्वा	३०६
तथागत्य कुमारोऽसौ	२२८	तदाकर्ण्यार्ककीर्तिश्च	१४९	तदानीमेव देवेन्द्रा-	३४
तथा चक्रधरे राज्य-	१८३	तदाकर्ण्यार्ह सच्च राजा	१०	तदानीमेव निर्गल्य	१५५
तथा चोपचयः शत्रो-	३०९	यदाकर्ण्यैष बन्धत्वा-	३६५	तदानीमेव हस्तीर्नं	९८
तथा बरल्लुमारश्च	४१९	तदा कुमारसन्देशा-	५०२	तदानन्तमपुत्रान्ताः	१६३
तथा तीर्थगयाधीश-	२५८	तदा कैवलपूजाञ्च	४३८	तदान्याभिर्भि रामस्य	२८१
तथा दुष्प्रापमालोक्य	५३४	तदा कैवल्यसम्प्राप्ति-	१९१	तदा पर्वतमातापि	२६५

तदा पूजां समायातैः	५३१	तदाचौ न समाकर्ण्य	२६०	तदैवाकुरुतां तौ च	४८८
तदा प्रभृति कन्यायाः	२६०	तदा स्वस्थानमापन्तौ	३१०	तदैवागत्य तं नीत्वा	७३
तदा प्रभृति तीर्थलं	१२	तदा हरिबले युद्ध-	३८०	तदैवागत्य तौ देवौ	१८८
तदा प्रभृति ते कन्ये	५०५	तदित्यादाय बन्दित्वा	४६६	तदैवागत्य तन्मूर्च्छां	५११
तदा प्रभृति दुर्दर्प-	५५७	तदिन्द्रियार्थसान्निध्य	१२१	तदैवागत्य देवेन्द्राः	२४७, ३३३
तदा प्रभृति नागेन्द्रो	४३०	तदीयशयनारोहं	५२२	तदैवागत्य मद्वप्राप्तं	४६७
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्	१०१	तदुक्तं ते समाकर्ण्य	५१६	तदैवानिमिषाधीशा-	१२६
तदा प्रभृति शाल्यादि	५५३	तदुक्तमतिराज्याशः	२३०	तदैवापेत्य नत्वापि-	२१३
तदा प्रभृत्यगाल्काम-	५०६	तदुक्तमहावीरभगेहैः	४६	तदैवाभेत्य नाकीशो-	५६
तदा ब्राह्मणरूपेण	१०	तदुत्पत्तिफलस्यास्था-	२६४	तदैवायातधारस्वतादि-	६६
तदा भक्त्या नताश्चाङ्गा-	२३	तदुत्सर्धं समाकर्ण्य	५२४	तदैवाशानिषोषाख्यां	१६४
तदाभरणवृत्तान्त-	५५१	तदुद्भवे प्रसन्नानि	८०	तदैवाचौ दिवो देव-	२०२
तदा मनोहरयोद्यानगतं	३३६	तदुदीरितमेतस्य	५३४	तदैवाहमपि प्राप्य	५३१
तदामरसदल्यासी-	१७८	तदुपद्भवमाकर्ण्य	५१५	तदैवाहूय सम्भिन्न-	४५२
तदा मलयदेशेशो	७६	तदुपायसहायांश्च	२६२	तदोदपादि षट्खण्ड-	७
तदामाल्योचमः पौषन्-	२५१	तदेतदेव व्याख्येयं	५७६	तदोदासीन्यसुत्वन्न-	३६२
तदामृताशनावीशाः	१३१	तदेव पुष्पमाघाय	१६२	तद्गतं मार्गमन्वेत्य	२२६
तदामृताशिनः सर्वे	२३५	तदेव पुरुषायेत्य	५६३	तद्गत्वाऽऽशु परीत्यैनं	१०४
तदा रामेण संग्रामे	३२२	तदेव सर्ववस्तुना-	४६	तद्गृह्यं तां स्वयं गत्वा	३८४
तदा लब्धेयनो वामिः	१७१	तदेवादाय सक्रोधः	१०४	तद्गृहीतं धनं सर्वं	५१६
तदालोक्य किमित्येष	२५१	तदेवानुमतं सर्वै-	१४३	तद्गोत्रे क्षत्रियोऽस्तारिः	३६
तदालोक्य हरिः क्रुद्धो	३८२	तदैवानुत्तयदन्त्या-	१२६	तद्गृह्येत्यापितासुप्र-	६३६
तदा लौकान्तिकाः प्राप्य	२०८	तदैव कातरः शूर्पणखा-	२८६	तद्घोषणां समाकर्ण्य	५२४
तदावशिष्टपीलस्य-	३२२	तदैव खेचरौ कौचित्	१५४	तद्दृशश्च मन्त्रतन्त्रादि-	५५१
तदा विद्याधरः कश्चित्	४६१	तदैव गर्भसंस्कृन्ति-	४८	तद्दर्शनसमुद्भूत-	१७१
तदा विद्याधर भूमि	३५८	तदैव तं समुत्साहा	४१४	तद्दानफलमालोक्य	५१६
तदा विद्याय देवेन्द्रा	३	तदैव तीर्थकृष्णात-	६७	तद्दूतप्रेषणादेव	१६८
तदा विशालभूतिश्च	४५०	तदैव तोषो रोषश्च	४१३	तद् दृष्ट्वा क्षिप्र्यो नम्रा	५५६
तदा विस्मयमापन्ना	४१७	तदैव तौ समाहूय	१६७	तद् दृष्ट्वा देहिनी सुग्धा	२६६
तदा शची महादेवी	२०३	तदैव दत्त्वा त्वं राज्यं	११७	तद् देव्या नन्दयशसः	३६२
तदा शरण्यामायाता-	४०८	तदैव नर्तकीवार्ता	१६८	तद् धान्या गुप्तमानीतः	५३५
तदा शीतक्रिया सीता-	२६५	तदैव निमिषाधीशाः	२१४	तद्भुवं मम हन्त्यो	१०७
तदा शक्राशया यक्ष-	३४०	तदैव भोगनिर्विण्णौ	११६	तद्भवनिर्व्याप दिक्प्रान्ताच्	१४७
तदा संभावयामास	३८४	तदैव मङ्गलान्मुञ्चैः	२३४	तदाचाहुशिखरे मन्ये	२८
तदा सर्वतैस्तत्र	८०	तदैव मदनामोघ-	२६६	तद् भयाच्चावमयं पाप-	१८२
तदा सविस्मयो राजा	११६	तदैव धाममेरी च	२०२	तद् वक्तुं नास्ति कालोऽस्मा-	५४६
तदा साकेतवास्तव्य-	२२८	तदैव विजयाचारि-	४१०	तद्बालालानासीत्वा	५४१
तदा साधितविद्याः सन्	१५७	तदैव शूरसेनोऽपि	३६०	तद्बुद्ध्यां क्रोधसन्तप्तो	१५६
तदा सुराधिपाः प्राप्य-	४२५	तदैव स प्रसन्नात्मा	४४४	तद् भवान्तरक्षुत्तान्तं	५१३
तदा सेनापतिर्नाम्ना	२७६	तदैव स महीशोऽपि	३४२	तद् यशसवसितौ जाल्यं	२६६
तदा शूर्पणखागत्य	३८८	तदैव सोऽपि राज्ञश्च	२५१	तदयोग्यसर्ववस्तुनि	५२०

तद्द्वाराधानीनाथस्य	२०२	तन्निर्वेदेन रामोजपि	२४२	तयोः परस्परप्रेमवृ-	५०५
तद्दुःखं वर्षायन्तीयं	२८८	तन्निवासी सुनन्दाख्यो	३२३	तयोः पराक्रमप्रज्ञा	१८५
तद्देशेन केनापि	४८६	तन्निश्याम्नास्तिकाः सर्वे	३८८	तयोः पुण्योदशासद्य	१६६
तद्दक्षः श्रवणा तौ च	१३३	तन्निशावसितौ शुद्ध-	५२२	तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो	३६३
तद्दक्षः श्रवणोत्पन्न-	२४६	तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि	२०६	तयोर्जयध्वजं प्राप	४०८
तद्दक्षोऽवसितौ प्राञ्चः	१५१	तन्मध्ये लक्ष्मणस्तूर्ण-	३२२	तयोस्तुमुल्युद्धेन	२४२
तद्दक्षदल्पसुखस्याभि-	५३५	तन्मांसजीवितः क्रूरः	१५२	तयोर्नरपतिर्दीक्षा-	४०३
तद्दक्षनिश्च सर्वेषाम्	५४०	तन्मातरीय तज्जन्मलोषः	१७७	तयोर्मन्त्रत्रयायात-	२३१
तद्दक्षार्ताकर्णनादाच-	१५५	तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं	४७६	तयोर्मिततेजाश्च	१४८
तद्दक्षार्तां खेचराधोशः	१७१	तन्मृषा किमसौ वेत्ति	२७०	तयोर्विक्रमप्रीत्या याति	१४६
तद्दक्षार्ताश्रवणादिदिव-	३६६	तन्वादीनां पुनर्दुर्ण-	५६०	तयोर्विद्युत्प्रभः सुत-	१४३
तद्विक्रमरेण सप्ताचि-	२६७	तन्व्या रोमावली तन्वी	१४१	तयोर्प्रास्थानकं वक्ष्ये	१३२
तद्विष्णुपूर्वकं लङ्का	३१४	तपः कुर्वन्तमालोक्य	४३५	तयोर्विरुद्धचारित्वा-	४८८
तद्वितीर्णमहामोदक्रो-	४१७	तपः पञ्चाग्निमध्येऽसौ	३४८	तर्पकायि सुखान्याहुः	१६०
तद्विद्विवाप्रतिथिर्युक्ति-	२६०	तपस्तनूनापात्ताप-	६२	तर्पणस्तापनो मोह-	४१५
तद्वियोगमहादुःख-	५१२	तपस्यतश्चिरं घोरं	२४६	तले कपोलयोः स्त्रीयां	५८
तद्वियोगेन शोकाग्नि-	३२७	तपस्यन् सुचिरं तीव्रं	२	तव ज्योतिःप्रभाकान्ता-	१६३
तद्विलोक्य महीपालो	१५४	तपोधनस्य चक्रेशो	४३१	तव विद्वद्यग्रतो नीतं	१०
तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः	३६४	तपो नाधिकमस्त्यस्मा-	४३६	तव स्यादित्यभिप्रायो	२५८
तद्विलोक्य सदुत्पन्न-	५०६	तपोमाहात्म्यतस्तस्य	३६१	तवाङ्गचूते प्रीणन्ति	१५
तद्वीक्ष्य जानकी सर्वं	३०२	तपोलक्ष्या निगूढेऽभू-	४६४	तवाग्नि तनूजेयमयं	१८३
तद्वृत्तान्तं विचार्यासौ	४७०	तपोवगममाहात्म्या-	४८६	तवादेशोऽस्ति चेद्वेदव्याः	२६८
तद्वेगवत्प्रवाहेण	५३४	तपोवनं सतां सेव्य-	४६५	तवाद्य तच्छिलास्तम्भ-	४५१
तद्व्याख्यातं श्रुतं सम्यक्	७६	तपोवचनविद्यानां	२२५	तवात्ये मामिवासक्तं	२८७
तनया लक्ष्मणा कामो-	४०२	तपोवनोन्मुखेनायं	२७३	तवाह्मिन्द्र इत्येना-	२३४
तनवः कुञ्चिताः स्निग्धाः	२७	तप्तचामीकरच्छ्वायः	३३७	तवेदशीमुपायेन	३५४
तनुजो वेदवेदांगपारगो	३६५	तप्तायसपिण्डनिर्घातै-	४५५	तस्यावेवं प्रयात्यस्य	२६४
तनुर्मथेष्ठितैः सर्वैः	२२	तमःप्रभावधिव्याप्त-	५३	तस्मात्तदाशामुञ्चिस्त्वा	३०१
तनुजः कल्किराजस्य	५५७	तमप्याक्रम्य भोगेच्छं	२६०	तस्मात्तन्नाकलोकाञ्च	१३६
तनुजा चानुजास्यावी-	४८८	तमभ्येत्य तदेवास्मै	५०७	तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं	४१०
तनुजस्तस्य सुन्दर्या	३३१	तमयोव्यापतौ युद्धे	४०१	तस्मात्सागरदत्ताख्या-	५३८
तनुजस्पर्शसम्भूत-	५१६	तमस्ययं पुनः कर्तुं	२६४	तस्मादभ्यूत्तरिपुः	४२६
तनुजो भीमकस्तस्मा-	५४६	तमस्तमः प्रजातानां	३५०	तस्माद्युक्तं युष्माकं	२५२
तनुजो मित्रसेनायां	१६२	तमस्तमःप्रमायाञ्च	४३७	तस्मादस्थानकोपेन	३००
तन्वावापगतं चिन्तां	३४०	तमादायोदरं तस्या	२५३	तस्मादागत्य हेमाभ-	५१८
तन्वावापविभागोक्त-	६७	तमालायमनिर्भाषि	५०१	तस्मादानीय मौलीन्द्र-	३७८
तन्नामश्रुतमात्रेण	२२६	तमुद्धे पिता चास्य	३६५	तस्माद्दानेषु तच्छ्रेष्ठं	७६
तन्निष्कवनवर्णादि	५६०	तमुपासकसदमं	१६६	तस्मादुपेहि मोक्षस्य	२२३
तन्निमित्तसमुद्भूत-	४३३	तमेवाहिरिवाहस्य	२२५	तस्मादेव्यलकाली ते	४१७
तन्निरीक्ष्य भवन्माता	५१७	तयार्हदासवाक्छेष्टी	४०८	तस्माद्विस्मयमौपन्ना	४१४
तन्निर्वेगेण चित्राङ्ग-	३६२	तया हिरण्यवर्माणं	५४७	तस्माद्वैरातनुजधेन	११८



तस्मान्न प्रतिविध्योऽह-	२५२	तस्य प्रीतिकृरी देवी	३६२	तस्यैवाचौ सुषेणाख्यो	६३
तस्मान्नास्मै प्रदातव्या	१४३	तस्य पुत्रः शतग्रीव-	२७८	तस्योपरि मुहुर्धावन्-	३६६
तस्मान्नद्वचनं यवं	१०६	तस्य भार्या सुभद्राख्या	४६६	तां किंवदन्तीमाकर्ण्य	५०१
तस्मान्महीं महाभागो	२	तस्य भोगोपभोगैक-	८८५	तां दुरात्माऽऽत्मसात्कर्तुं	२७६
तस्मिन् काले वने रन्तुं	१८१	तस्य माताभितर्जनं	३६८	तां भुजङ्गमिवाग्नीषी-	२६२
तस्मिन् कोपं परित्यज्य	१८४	तस्य माता सुमित्राख्या	१११	तां वरीतुं समायात-	२५६
तस्मिन्क्षणे समागत्य	५४८	तस्य मध्ये शुमस्थाने	४६	तां विद्यादेवतां वाम-	४८४
तस्मिन्गते स विप्रोऽपि	३४६	तस्य मे किं करोम्येतत्	३८४	तां वीक्ष्यापूर्वांसौन्दर्यां	४४२
तस्मिन्पुरौ ततः सुप्रतिष्ठा	५५०	तस्य थावन्न याम्यन्त-	६६	तां सम्बोध्य सुखालापै-	५११
तस्मिन्देशे जनाः सर्वे	४४	तस्य राज्ये रवावेव	३३२	ताञ्च स्नेहेन तत्कर्म-	५२४
तस्मिन्नागपुरे ख्याते	२७८	तस्य वचनार्शुविसरः	५७५	तादृशं तादृशामाची-	४२२
तस्मिन्सुतन्नवत्वेव	५४५	तस्य विप्रकुलायोग्य-	१६०	तात्स्यात्साहचर्याद्वा	१५०
तस्मिन्सुप्रदेव शान्ते	१५३	तस्य शक्राशया गेहे	२	तावत्स्वकायसंरक्षा	२६६
तस्मिन्सुपुरते तस्य	७७	तस्य शून्यात्रिकैकद्वि-	२२०	तानभङ्गन् सयुद्धृत्य	३१४
तस्मिन्नेव पुरे मृत्वा	४२३	तस्य शौर्यानिर्लो	१६६	तान् स्वयंवरशालायां	३५७
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि	२६७	तस्य षष्टिसहस्राणि	७	तापसव्रतमन्तेऽभू-	२२२
तस्मिन्नेव पुरे वंशे	५१२	तस्य षष्ठोपवासस्य	३३५	तापसाकारमादाय	२७४
तस्मिन्नेव पुरे शक्ति-	१८६	तस्य सत्येन वर्षन्ति	३३	तापसानामभूत्पल्ली-	३६०
तस्मिन्प्राक्कनचौशद्रात्	४३०	तस्य सोमप्रमादीनां	५५	तापसाश्च दयाधर्म-	२७५
तस्मिन्सुघं समायाति	७२	तस्य हस्ते स्वरत्नानि	१०८	तापसैरन्यथावीति	२७१
तस्मिन्मन्त्रिणि भूषे च	२६२	तस्याः श्यामलता चेट-	५०५	ताभ्यां स भवदेवाय	५३६
तस्मिन्वह्निषि चैद्वैरं	११	तस्याः स्वानुचरैणां	२५१	तामन्वेष्टुं ब्रजन् रात्रौ	३८६
तस्मिन्प्यास-	५६, २४५, ४६०	तस्याञ्जतेजसा रत्नदीपिका	४६	तामादाय कुमारिण	५०४
तस्मिन् विद्विबने	७	तस्यान्तमतिर्दवी	४४६	तामादाय महीनाथो	१४२
तस्मिन्सुखामिलाषित्वं	२६०	तस्या निराकृतिं तस्माद्	१४७	तामाहरित्ये तौ हतुं	२८६
तस्मै दिव्ये ददौ रत्न-	४१४	तस्यानुपदमेवान्यो	१६३	तारकोऽपि चिरं युद्ध्वा	६५
तस्मै वरसुगौः सर्वैः	१४३	तस्यान्यदा वणिग्वर्यः	४६८	तालध्वजः समारुह्य	३१६
तस्मै संप्राप्तितं दास्या-	५४२	तस्या मापद्मत्वेन	४८	तावदित्यात्मसंस्कारं	१६५
तस्मै हेमद्युतिर्नन्द-	८२	तस्याभूत्सुप्रभा देवी	४८२	तावत्वेव गते काले	२२०
तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य	३५६	तस्यामेवात्तरश्रेण्या-	३४१	तावद्दिननिबन्धेन	५६०
तस्य कालोऽयमित्येक-	३१६	तस्यावमतिविध्यर्थं	४७४	तावन्तः कैवलशानाः	२४७
तस्य कालवयोवाञ्छा	१४६२	तस्या व्यावर्णयत्सापि	३६७	तावन्तः खड्गान्याञ्चि-	२२०
तस्य किं प्रेक्षामित्युक्तौ	१४४	तस्याश्चानुपदं कश्चित्	१८१	तावन्तः पञ्चम-	२३६, ३३५, ३८७
तस्य जन्मोत्सवत्यालं	२१६	तस्यासीदनयोः सुतः	३४०	तावन्त्येधुरशोकाख्यवने	१०६
तस्य त्रिवर्गानिष्पत्ये	१४०	तस्यास्तदा तदानीय	४५१	तावर्कविभुसङ्काशौ	१४८
तस्य देवी सुभद्राख्या	४८२	तस्यैव सुषेणाख्यः	१२५	तावर्पितौ मया सोऽपि	२५३
तस्य देवी भ्रामीमाख्या	३४	तस्यैवानुमतौ देव्यां	१६६	तावासम्भविनेयत्वात्	११६
तस्य नाम्नैव निर्मित-	१६०	तस्यैवानुपदं काचिद्दु-	१८१	तापुमाविव चन्द्राकौ	२३१
तस्य पद्मावती सुत-	५०३	तस्यैवामितवत्यां स	११६	तापुमौ सुचिरं कृत्वा	१८५
तस्य पादौ समालम्ब्य	१८४	तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि	१८५	तापुः चित्तपरीक्षायै	२८३
तस्य पाषण्डमौक्यञ्च	४७६				

तासां त्वं स्वामिनी मूत्वा	३००	तृतीयोऽपि ततोऽवादी-	२६३	तेषां रसोपयोगेन	५६०
तासु धोषवती नाम	३५६	तृतीयो वसुगिर्याख्यः	३५५	तेषामाद्येषु षट्सु स्यु-	१८८
तिरश्चामपि चेद्वै-	१५७	तृप्तिं प्राप्नोत्यसौ वायं	५३३	तेषु चक्रातपत्राति-	२०७
तिलकान्तदिवीत्यासीत् १४०,	१८६	तृप्तो रूपप्रवीचारात्	६७	तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां	५२३
तिष्ठतः शशांगोमायू-	३१५	ते कालान्तेऽभवन्	३६२	तेष्वेकोऽमापतात्मज्ञः	२६२
तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं तै	५७०	ते च तं च निरीक्ष्यैव	११५	तेष्वेकोऽस्ति स्त्रियः सत्तै-	२६४
तिष्ठन्वनेव देवोऽहं	३०६	तेजस्वी भास्वतो मत्स्य-	४३४	ते सर्वेऽपि पुरोपाच-	४५२
तिष्ठो नाद्यापि दीयन्ते	४८३	तेनो महामणिवार्द्धि-	८१	ते सर्वे सिद्धसाध्यत्वा-	५१५
तीक्ष्णदंष्ट्राकरलाननः	४५४	ते तत्सन्देशमाकर्ण्य	५६	तौ च गन्धोक्त्येनैव	४६६
तीक्ष्णो विमलवत्याश्व	५३२	ते तेन मुचिरं युद्ध्वा	१७१	तौ च तद्वचनात्पूजा	२६८
तीव्रलोमविषाक्तोऽय-	५४४	ते द्विषष्टिसहस्राणि	२१०	तौ च संग्रामसन्नद्धौ	१०४
तीर्थकृत्कालवदृष्टि-	५६३	तेन ज्योत्स्नेव तत्कीर्ति-	३६८	तौ तं बालं समादाय	४१०
तीर्थकृत्सामप्रपत्	१६	तेन तत्पादसंस्पर्श	३८६	तौ तदोदयिनौ श्रुत्वा	१२६
तीर्थकृत्सुद्वितीयोऽपि	६	तेन तेजस्विना राजा	५१	तौ त्रिखण्डाधिपत्येन	१३३
तीर्थकृत्सुवि केषाञ्चिदे-	२३६	तेन याल्यस्यलौ पृथ्वी	४७४	तौ षट्पत्वा नागदत्तोऽपि	४६१
तीर्थान्मुसम्भतोऽन्नादि	२८४	तेन सकृद्ध्य ते ताभ्यां	४०८	तौ पञ्चदश चापोञ्चौ-	२५५
तीर्थं विमलनायस्य	१०२	तेन स्थाने यथाकालं	१४०	तौ परस्परसंदर्शा-	३२३
तीर्थेशात्त्रिधानेन	५४७	तेनानर्थ्यं नभो याधि	४१५	तौ राजसुवराजौ च	३२८
तीर्थेशाः सदृशो गुणैरगुणभिः ४४०		तेनापि पट्टवन्धेन	४०२	तौ समुत्कृष्टचारित्रौ	२५४
तीर्थेशा जगदाद्येन	२५८	तेनापि न प्रवेष्टव्या	२६०	तौ सम्बोध्य समाज्ञास्य	३४२
तीर्थं श्रीवासुपूज्यस्य	६१	तेनान्तकेन ते नीताः	११	त्यज तन्मोहमित्येन	५४०
तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान्	८४	ते निदानं विमूढत्वा-	३६४	त्यज दुर्वाचनां पापं	४७५
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भृता-	२५०	ते नैगमविषया नीताः	३६४	त्यज सीतागतं मोह-	३०२
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भृतौ	२४१	तेनैव पापं प्रक्षाल्यं	४७५	त्यज सीतागतं मोह-	३०३
तुक्कालाङ्कारिकस्तस्य	४६६	तेनैव भवतो भवि	१४४	त्यजेमीत्यवदत्सीता	३०३
तुक् तस्य गुणकान्तायां	१५०	तेनैवास्मदभिप्रेत-	५०३	त्यजेमामिति मारीच-	२७६
तुक्तु रज्यमनिच्छस्यु	३३७	तेऽन्धेषुः पुनरपासाद्य	६	त्यागेन तस्य दागिद्व्य-	३३
तुक्तुत्वादतिशुद्धत्वात्	१२६	तेऽपि तन्वृत्तकारोऽ	१७१	त्यागोऽयमेव दोषोऽस्य	४६२
तुक्तुषु कुचयोरेव	४५	तेऽपि तद्वचनात्प्रापन्	१२	त्यागो भोगाव धर्मस्य	११७
तुक्तेऽपरजिताख्याय	३४०	तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य	१६६	त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव-	२२१
तुम्भीफलेषु दण्डेषु	३५७	तेऽपि तद्वचनात्प्रापन्	१२	त्यक्तसर्वसदाचारः	५५६
तुरङ्गमखुपोद्धूत-	२३५	तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य	१६६	त्यक्तघान्नाख्यतन्त्रोऽय	५३०
तुरासहं पुरोधाय	२१४	तेऽपि तिलश्चतस्रश्च	३५७	त्यक्तवान्यं चेदृशं वास्तां	२६०
तुष्टा कतिपयैर्मते-	५१	तेऽपि भीतास्तथा बाढं	४०८	त्यक्त्वा सव समागत्य-	८४
तुर्णं भवत्प्रभावेन	३७६	तेऽपि सन्नाह्य सैन्यं स्वं	३७५	चतुर्विधामरपीशा-	६६
तुषान्तरोपयोगादि-	५३३	ते पुनस्तं समानीय	२३५	त्रयः साताहिका मेधा	८६
तुषायमन्यमानाः स्वान्	३२०	तेभ्यस्तौ धर्मसद्भावं	२५३	त्रयस्त्रिंशत्सोऽन्यायु-	३३२
तृतीयजन्मनीत्याह	२५२	तेभ्यो नाना मुदा दत्त्वा	४६२	त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुः	१२८
तृतीयशुक्लसदध्यान-	१५६	तेषां काले व्रजत्येवं	५४३	त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्त-	२३४
तृतीयै जन्मनीहासी-	२४४	तेषां गङ्गां प्रकुर्वीञ्चं	१०	त्रयोऽग्रयः समुद्दिष्टाः	२५८
तृतीयै पुष्करख्यात-	१६३	तेषां तदुदितं तस्य	४	त्रयोदशसहस्राब्दे	२५४
		तेषां पात्रस्थतद्वान्	२२७	त्रयोदशास्त्रिंशमानायु-	४५८
				त्रयोविंशतिवार्यायुः स	१४

जसरेणुप्रमाथं त्वं	२६७	त्वं जीवादिपदार्यानां	१७८	दमितारेः पिता कीर्तिधरो	१७२
जसस्थाव रमभ्रान्तः	१२०	त्वं दुष्टनिग्रहे शिष्टपालने	१८१	दशमुनिगिरास्यन्ती	४५७
त्रिशाच्चापतनुत्सेधः	२१९	त्वं मे प्राणसमो बन्धु-	४७७	दशवक्रोभयोर्मोक्ष-	१४१
त्रिशाच्छ्रुतचहृत्स्वन्द-	९९	त्वमेव सत्यवादीति	२७३	दरनिद्रावक्रोकिष्ट	४६०
त्रिशाच्छ्रुद्भिस्तत्स्यैवं	४६३	त्वयानुभूयमानेषु	१२३	दरनिद्रासदुद्भूत-	२०२
त्रिशाद्वर्षसहस्रायु-	२३८	त्वया पूज्य यथोद्दिष्ट	२६६	दशकण्ठान्वयायात-	३२२
त्रिशात्सहस्रवर्षायु-	२४६	त्वयाभिलषितं कार्यं	३१५	दशति स्म गजोऽप्येतद्वि-	११३
त्रिशाल्लक्षसमात्मायुः	१२२	त्वया मयोपनोदार्थं	४७०	दशधर्माः पुरेवैनं	२०६
त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य	४९	त्वया राज्यस्य यो दौघो	१९६	दशभिर्नित्यपूजायां	३४८
त्रिःपरीत्याभिवन्द्यैर्न	१३५	त्वया वास्त्यावयोरत्र	४५३	दशमासान्तर्निश्वासी	४३३
त्रिकालयोगवीरास-	१३७	त्वया सम्भोगलौख्यस्य	३	दशमोऽन्त्यात्परः ख्यातः	४६१
त्रिलखण्डजातरत्नानां	३८४	त्वयैव रक्षितं पापा-	३०५	दशान्यां माघमासस्य	३
त्रिलखण्डाधिपतितं तौ	१२७	त्वयैवैकेन कर्माग्निं	६३	दशरथगुरुरासीत्	५७४
त्रिलखण्डमण्डले क्षेत्रे	४५५	त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां	३०५	दशाङ्गभोगसम्भोग-	१३६
त्रिलखण्डराज्यभोगेशौ	१४४	त्वयोपदेशः कर्तव्यो	५२३	दशाननबलान्यापन्	३२०
त्रिलखण्डवायिदेवाश्च	३२४	त्वच्छ्रव्येगयसह्लापैः	२८७	दशाननोऽप्यतिक्रान्ते	३००
त्रिलोकैकोक्तैर्गणाधीशौ-	२३	त्वजन्माभिषवोत्सवे सुरगिरौ	४३९	दशार्थाविषये राजा	४८२
त्रिजगद्द्रुमसालोल-	३१५	त्वत्पादपङ्कजप्रदङ्घ्रितायाष्ट-	५७१	दशास्ये साम सामोक्त्या	३१०
त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं	२६	त्वत्पादापादपोद्भूत-	६३	दण्डशस्त्रे तुलायाश्च	४५
त्रिदण्डधरकोऽप्येष	४४७	त्वसुरे कारयेत्येन-	५०३	दण्डो दारुषु शस्त्रेषु	२००
त्रिपृष्ठस्य धनुः शंख-	८५	त्वद्दर्शनप्रदेशं च	३४०	दण्डोपनतसामन्त-	२८४
त्रिपृष्ठाय प्रदातव्या	१४४	त्वद्भक्तं दर्पणे वीक्ष्य	२८७	दत्तं जरत्तृणां मत्वा	३५७
त्रिपृष्ठो नाम दर्पिष्ठः	१४६	त्वद्भक्तो वाचि धर्मस्ते	६३	दत्तं स्वस्यै श्रिताशोक	४९४
त्रिपृष्ठो निष्ठुराराति-	१४९	त्वद्विवाहे व्ययोर्कर्तु-	३८५	दत्तादित्रिनवत्युक्त-	६२
त्रिमिः शिवं पदं प्राप्य	६५	त्वां दु खिनं दुखिनमप्यु-	५६८	दत्ताशिषं किमुद्दिश्य-	१६८
त्रिलक्ष्णश्रावकः पञ्च-	४२	त्वां नमस्तुभ्यः स्तोता-	६३	दत्त्वा गजं कुरूपातं	३१०
त्रिलक्ष्णश्रावकान्यर्च्यः	६२	त्वां मे भावयितुं वष्टि	३०२	दत्त्वाजितञ्जयाख्याय	३२७
त्रिलक्ष्णश्रावकोपेतः	३७	त्वां लोकः स्नेहसंवृद्धो	१५	दत्त्वा तत्साधनोपाय-	४००
त्रिलक्षा श्राविका देवा	३८७	त्वाद्दरी वनिता लोके	२९३	दत्त्वा ताभ्यां कुमारभ्यां	२४२
त्रिलोकनायकान्यर्च्यः	३७८	त्वामय योजयिष्यामः	२८९	दत्त्वा वृष्टिघ्नं प्राप्त-	२४९
त्रिलोकमाद्रुः पुरतो	२०३	त्वामनाहत्य योग्यां ते	२८५	दत्त्वा निष्पामत्याख्य-	१०९
त्रिवत्सरमिते याते	१००	त्वामानेषु प्रहेष्यामि	५२०	दत्त्वाजदानमेताभ्यां	१६२, १६३
त्रिविष्टपर्य सिंहेन	४३४	त्वामामनन्ति मुनयः	५७०	दत्त्वा राज्यं सत्तां पूज्यो	२५०
त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे	२०३	त्वामिष्यकल्पके त्रष्टु-	१९५	दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय	१२५
त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्	१२८	[ द ]		दत्त्वा विजयभद्राय	१४९
त्रौन् मासान् जिनकल्पेन	६०	दक्षिणे घातकीखण्डे	५०	दत्त्वा विपक्वानं भक्त्या	५३८
त्रैलोक्यजयिनं जेतुं	५३	ददासि परमं सौख्यं-	६२	दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य	९२
त्र्यशानदर्शनोपेत-	१५९	ददौ दन्तद्वयेनालौ	११३	दन्ता यस्यांशिनं भूत्वा	२२७
त्वं कस्यवागतः कसमाद्	३४४	दधन् माघमसीवर्षा-	३५०	दपार्द्रिदं न वक्तव्य-	१४७
त्वं कुतस्ते कुतः कोऽयं	३९५	दमितारं यमं वैकं	१७१	दशार्थिभिति लाक्ष्यै-	२३३
त्वं च देवी कुबेरस्य	१७६	दमितारिं सभामध्ये	१६८	दशार्थिताऽवदत्सर्वं	३९०

दर्शयित्वाऽऽह यद्येनं	१८५	दीक्षां क्षेमङ्कराख्यान-	१८४	दुर्लभा संयमे वृत्ति-	५४१
दश वसन्तकालोत्त-	३८६	दीक्षां यहीतुयद्युक्तो	५४२	दुर्वांशु दुःखितोरशनुसमिति-	४२
दशो नद्यायुक्तो जातो	४८८	दीक्षां घनरथाम्ययं	१६२	दुर्वांशु दुष्टविभ्वंसी	३६०
दहमानेन्धनान्तःस्थ-	३६१	दीक्षां जैनेश्वरीमादात्	२२२	दुर्दिदग्धेनसाङ्कत्यमनेन	१३०
दाता च शक्तिविज्ञान-	१६३	दीक्षां षष्ठोपवासेन	२२, ३०, ६६	दुर्दिग्धाः वधनाः पुण्यात्	४६२
दातासि न स्तुतिफलं	५६६	दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य	४४८	दुःश्रितज्ञानहारम्भा-	४७२
दातुं भानुकुमारस्य	४१६	दीक्षां सागरसेनस्य	४०२	दुःश्रेष्ठस्थास्तपुण्यस्य	३१५
दानं पूजां तथा न्यञ्च	४४	दीक्षान्वयक्रियाश्चाष्ट-	१६६	दुःशर्म विरमैतस्मात्	५५३
दानपूजातपःशील-	१३८	दीक्षामादाय निर्वाणमार्ग-	१६३	दुष्टनिग्रहशिष्टानु-	२८३
दानयोग्यकुला नाहम्-	११६	दीक्षालक्ष्म्याः स्वयं प्राप्ता	६०	दुष्टानुपागतौ दृष्ट्वा	४०७
दानशीलोपवासादि-	२६०	दीनारैर्हृतां पूःां	३४८	दुष्प्रमायाः स्थितिवर्ष-	५५५
दानाहमवराख्याय	१७५	दीयमानां समालोक्य	२५०	दूतं मरीचिनामान-	१५६
दानेषु कृतमहानं	७६	दीर्घं तत्र सुखं भुक्त्वा	६७	दूतीव मे श्रितवती	३७४
दामद्वयाचलोकेन	४३४	दीर्घकालमलं तप्त्वा	१०३	दूतोऽपि सत्वरं गत्वा	६२
दारिद्र्यं विदूतं दूरं	३५	दीव्यकल्पद्रुमोपेत	३००	दूतो रामस्य गत्वान्तः-	२६६
दाष्मानीत्यभिभूषालान्	४६३	दुःखं तजानुभूयन्ते	४२३	दूरस्थाभिराविक्रियस्य भवतो	४४०
दिङ्मातङ्गकपोलमूलगदितै-	७५	दुःखं स्वकर्मपाकेन	५१	दूरात् फलिफलो दृष्ट्वा	१६०
दिनद्वयोपवासः सन्	६६	दुःखदावामिसन्तापो	२८१	दूष्यलक्ष्म्याभिमित्युक्त्वा	२५५
दिनद्वयोपवासित्वा	६०	दुःखदुःखिनिमित्ताख्य-	७३	दृढमिच्छादयः सर्वे	५१५
दिनद्वयोपवासेन	७४, ८२	दुःखदुःखलसन्नानां	१२३	दृढतुर्जयभूयोध-	२८४
दिनषट्के गते तस्य	२३६	दुःखमेव सुखं मत्वा	१३७	दृष्टौ तत्रापि संरम्भ-	१८६
दिनादौ च दिनान्ते च	४३२	दुःशास्त्रमुत्तिदरिष्यः	१५१	दृष्टं शक्यमपहोतु-	३७१
दिनानि कानिचित्तत्र	२८०, ५२१	दुःसाध्यानामयेनाऽद्यौ	३२७	दृष्टमार्गः परापृथ्व्यः	३०५
दिनानि कानिचिद्याता-	१६१	दुःशाब्धौ गिरिणा इरौ	५७६	दृष्टवन्तौ खगाधीशं	१७०
दिनानि कानिचिन्नीत्वा	२२६	दुरात्मनः कृपां हित्वा	५३०	दृष्टेस्तदस्तु चेन्मूल-	४७७
दिनान्येवं बहुन्यासीत्	३२१	दुराशयः सुराधीश-	३८५	दृष्ट्वा केनाप्युपायेन	४६७
दिने तृतीयनन्दाया-	३३५	दुरीच्या विकटकारा	५५८	दृष्ट्वा क्षान्तिवर्मीपेऽस्याः	४८४
दिने भरणिनक्षत्रे	२०२	दुरुक्तवचनानीव	३१७	दृष्ट्वा जैनेन्द्रविभ्वानि	२७६
दिनेशमस्तमानीय	५५३	दुर्गं मार्गं परेशं सुगममभिगमात्	७०	दृष्ट्वा तं तत्र तेनामा	४०३
दिनेषु केशुचित्तश्चाद्यातेषु-	४६	दुर्गाण्यासन् यथारथानं	४६	दृष्ट्वा तं तत्र मिथ्यात्वा-	२२२
दिनेषु केशुचिद्यातेषु-	२६२	दुर्गातिप्राप्तिहेतुत्वा-	४७०	दृष्ट्वा तं पितरौ तस्य	३६२
दिने सम्प्रेदगिर्यंश्रे	३२८	दुर्गापालाः पुरं लङ्का	३०१	दृष्ट्वा तं त्रिस्रयापन्नो	८
दियसैः सहवासेन	३५०	दुर्जयेन कलिङ्गेशा	३८०	दृष्ट्वा तं स्वोचितं देव	२६०
द्विविजो नैगमाशाख्यो	३६५	दुःशायाभिसुखो मूर्ख-	६५	दृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह	३६१
दिव्यं सर्वरत्नं भोज्यं	४५४	दुर्दमा विद्विषस्तेन	१६६	दृष्ट्वा ताभ्यां कुतो मद्र	३६५
दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा	५३	दुर्दरं तव दुष्टं द्वे-	३११	दृष्ट्वा तारागव्यौ तारापति	५४३
दिव्यश्रीमानुषी च श्रीः	२६	दुर्निवारो रिपुं कोप-	३१६	दृष्ट्वा तावस्य सर्वेषां	४०७
दिव्यस्त्रीसन्निधौ स्थित्वा	५४२	दुर्भंगत्वेन कान्तानां	२८६	दृष्ट्वा द्विगुणितारा-	४१२
दिव्याभरणदानेन	१६०	दुर्मर्षयाद्याः सर्वेऽपि	३४६	दृष्ट्वा धर्मस्य याथात्म्यं	१६५
दिशो विलोक्य मां दृष्ट्वा-	१६१	दुर्मागौ द्विषतानेन	२७१	दृष्ट्वा भवानहो नागदत्	४६२

दृष्ट्वाऽमात्यमुखाद्दो	१६८	देवावागाममवत्तव मोहवाता	५६६	देशो विकाररहितस्तव वांग्य-	५६६
दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं	३३१	देवी गह्वयन्त्रस्था	४६६	दोषद्वयानुरुपं त्वं	३१०
दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या	२८०	देवी तद्वदुना लिप्ता	१६५	शुकुमारसमानीय	५३१
दृष्ट्वा यथोपचारेण	२२५	देवीं परिजनः सर्वः	२६५	श्रुतिविनिहतमिन्नो	१०५
दृष्ट्वा रूपपरावृत्त्या	१७८	देवीं विजयसेनाख्यां	३	श्रुतिस्तस्य श्रुतिर्वाभात्	५८
दृष्ट्वा विविच्यैष	४६६	देवीति गतवांस्तस्मा-	२२६	श्रूतं युधिष्ठिरस्वात्र	४२१
दृष्ट्वा सागरसेनाख्यं	५५०	देवी पञ्चशतेऽयस्यां	१२४	श्रूतेन मोहविहितेन	१०५
दृष्ट्वा स्वप्नान् फलं तेषां	८८	देवीभिर्दिव्यभावाभिः	८०	श्रोतितालिखदिवचकं	३८२
दृष्ट्वेनै सविरोदगमोग्रनयनो	३७३	देवी यशोधरा तस्य	५३८	द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं	४०७
दृष्ट्वोद्याननने यज्ञ-	४६२	देवी वसुन्धरा जात-	१६६	द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे	१५८
देवं वनिविहाराय	३३३	देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा	२६	द्रव्यरूपेण पर्यायैः	४६७
देवः सन्निहितः कश्चित्	१६३	देवैतद्वासुदेवेन	३८६	द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं	६४
देवकी च मुदा पश्चात्	२६४	देवैरन्धकशुद्धिश्च	३७७	द्रव्यार्जनं परित्यज्य	१५१
देवकी वसुदेवश्च	३६४, ३६८	देवोपनीतमोगानां	३२४	द्रव्येण बहुना सार्धं	५५१
देवक्याः स्तनयोः शात-	३६८	देवोऽपि स्वायुन्तेऽस्मि-	११६	द्रुपदाद्युग्रवंशोत्प-	४२१
देवताधिष्ठिता नाम्ना	५११	देवोऽभवदनिर्देशयः	४७०	द्रुमसेनोऽनुकंठार्था	५६४
देवतेति समन्वयं	३६६	देवो मदीयवंशस्य	५३७	द्रोहान्मुनेः पलापचः	४२६
देवतोपास्यमानांश्चि-	३७७	देवो विचित्रचूलाख्य-	१७८	द्रुपेन तेन बध्नाति	१११
देवदत्तां समारुह्य	६६	देवो वीरजिनोऽयमस्तु जगतां	५७२	द्रव्योर्वचनमाकर्ण्य	२६७
देवदास्यने पुष्य-	३५५	देवौ मेघरथं पश्चात्	१६४	द्राक्षिशत्त्वत्रयान्दानौ	२४१
देवदुन्दभयो बाहं	६२	देव्यः स्वयम्प्रमामुख्या	८५, १४८	द्राक्षिशता चिरं रेमे	५०८
देवदुन्दुभिमुख्याष्ट-	१००	देव्यां तुमेषमालिन्यां	१७७	द्रादशाब्देः समावर्त्य	३४८
देवदेवः समस्तेन्द्र-	६१	देव्या भानुमहाराज-	१२८	द्रादशो नामतः सप्त	४२८
देवदेवत्सेदैवाशा-	६६	देव्योपोऽन निवाधिन्या	४१४	द्राविशतिसहस्राब्दे-	७२
देव देवस्य क्रो वक्ता	१६०	देव्योऽपि दिव्यवचनं	४०६	द्राविश- ७२, १२१, १८७, ४३१	
देवदेव्यस्त्वसंख्याता-	२१६	देव्यो दानानुमोदेन	१६२	द्राविशाल्यन्विभेषायुः	२३८ ४५६
देव देवी च देवा च	२६५	देव्यो विमलमत्याख्य-	१८४	द्रासप्ततिसमाः किञ्चि-	४६२
देव देवे भराचक्रं	१०	देव्यो स्वं रूपमादाय	१६५	द्रासप्ततियुगा लक्षाः	३
देवमानुषरक्षोविभागै-	१५०	देशो सारसमुच्चये नरपति-	३२६	द्रासप्ततिसमा लक्षाः	६३
देवलोकात्स्थितिं लेभे	४६५	देशकोऽस्ति न मार्गस्य	४७८	द्रिगुपाष्टसहस्राणां	८५
देव विद्याधराधीश-	५१	देशार्धेन समं तस्मै	३६३	द्रिगुपाष्टसहस्राणि	३२४
देवविद्याधरैः सेव्यः	१३६	देशान्विद्वत्य मासायुः	२१६	द्रिजद्वयमपि शतत्रा	१६४
देवसेनस्य चोत्पन्ना-	३६४	देशोऽर्धित्वा परादश्ये	२६५	द्रिजेषु समादाय	२५५
देवाः खलु सहायत्वं	४७५	देशोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिन्न-	११७	द्रिजाख्या धारिण्यां थादिः	४६
देवामनमालोक्य	१८४	देहचूते कुमारस्य	५०२	द्रितीयकाले वर्तेत	५६०
देवा द्वितीयकल्याण-	३३३	देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः	२१७	द्रितीयशानवेदस्य	२५६
देवा दिव्यस्वसंख्यातः	२२७	देहजयापनयने विनापि सिद्धि-	५७०	द्रितीयतीर्थसंगाने	१६
देवा दिव्योऽन्य- २१-४३६, ४६८		देहप्रमेव वाग्यस्याह्लादिन्यापि	४४	द्रितीययनरक्तं गत्वा	४२३
देवादशोऽस्ति चेद्वत्त्वा	३१३	देहाद्यष्टान्वसद्भाव-	१६६	द्रितीयशुक्लव्यानेन	६१, ४३८
देवानामधुना शशो	४६२	देहि नापेहि धर्माखं	४५८	द्रितीयशुक्लव्यानेन	१५६, २०६
देवाक्रोक्तवैश्वक्रो	४४३				

द्वितीये दिवसेऽविज्ञन् ८६  
 द्वितीये धातकीखण्डे ३३  
 द्वितीयेऽहनि तद्दाल ४१०  
 द्वितीयेऽहनि साकेतं २३  
 द्वितीयेऽह्नि पुरं नन्दनामिषं १००  
 द्विप्रष्टाचलयोर्द्विं ६४  
 द्विप्रष्टः सप्रुद्रतस्त्रिखण्डेश- ६५  
 द्विप्रष्टो मत्तमातङ्ग- ३५  
 द्विलक्ष्मणश्रवकोपेतः ६०, १००, १३१  
 द्विलोकभोगमिध्याहक् १६६  
 द्विपतो वा न सत्वाभि- ३१६  
 द्विषट्कयोऽननायामं २६७  
 द्विषां भयं प्रकुर्वन्तो ३१६  
 द्विषो भीषयितुं वोन्वे- ३१७  
 द्विसंवत्सरमानेन ८२  
 द्विसारोपमं कालं ४२३  
 द्विसमुद्रोपमं कालं ४४८  
 द्विसागरोपमातीतौ ४०६  
 द्विसागरोपमायुष्का- ३६१  
 द्वीपादयुष्माग्निर्गन्तुं ३५६  
 द्वीपायननिदानाव- ४२०  
 द्वीपार्द्धचक्रवालौ वा ४७  
 द्वीपे जम्बूद्व मख्याते २१८  
 द्वीपेऽपपरिवेदेऽस्मिन् १०६  
 द्वीपेऽत्र खगभूमर्तु- ४०३  
 द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहृत्य ६  
 द्वीपेऽत्रैव विनीतायां ३४८  
 द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मि- १६२  
 द्वीपेऽस्मिन् कोचले देशे ४५८  
 द्वीपेऽस्मिन्दक्षिणश्रेण्यां १५४  
 द्वीपेऽस्मिन्दक्षिणे भागे १२२  
 द्वीपेऽस्मिन्नादिमे पूर्व- १४  
 द्वीपेऽस्मिन्नुत्तरे भागे ३३७  
 द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाम्भ्यां ४०४  
 द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलावत्यां १४४  
 द्वीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहृत्य- १६६  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहृत्य २१३  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहे- १४३, ३३३  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे

द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचरा- १७७  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते गङ्गा ४५४  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते चम्पा- ८८  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते देशः ४४४  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते रत्न- १२८  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वपं २, १५, २०, ६१, ३३१  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते शालि- ४०१  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंह- १०८  
 द्वीपेऽस्मिन् मगधे देशे ४०७  
 द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि- १३२  
 द्वीपेऽस्मिन् सिन्धुकूटस्य ४५४  
 द्वीपेऽस्ति तेषु लङ्काख्या- २६६  
 द्वैधामेदमयाद्वाधि- ३७६  
 द्वैधीभावश्च षट् प्रोक्ता २८२  
 द्वौ देवौ भुवमागत्य १३६  
 द्वन्द्वयुद्धे न तौ जेतु- १४७  
 द्वचष्टकारणसम्प्राप्त- ५६

[ ध ]

धनं दाने मतिर्वर्मे ५२  
 धनं बहुतरं सारं ५५५  
 धनज्ञयोऽप्य सर्वश्री- ३६२  
 धनमिन्द्रोऽभवन्नन्दि- १६३  
 धनयौवनदर्पेण ५३७  
 धनाश्रियोऽयं बन्धेन ३६२  
 धनादिदेवपालाख्यौ ३५१  
 धनुर्विद्याविदः सर्वे ५१०  
 धनेन महता सार्धं ४८५  
 धन्यपेषणमहीपालो १३०  
 धन्यान्वत्र न सा स्यादुं २८५  
 धन्विनः पातयन्ति स्म ३२०  
 धरयोन्नात् पितृषु ध्वा १७६  
 धरयोन्नेऽभवन्मृत्वा १०६  
 धरान्तः कृतमञ्जुषो २७६  
 धरालक्ष्मीं समाहृतुं २८  
 धरित्री सुखसम्भोग्या १२६  
 धरेयं सर्वभावेन २८  
 धर्मं यशो महत्त्वं च १०६  
 धर्मं समन्वयुङ्क्तेता- ५५२  
 धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं ५७८

धर्मं एवापरे धर्म- ७६  
 धर्मजो भीमयेनश्च ४२४  
 धर्मञ्च कथयामास ४८५  
 धर्मतत्त्वं मुनेः सम्यग् ४३०  
 धर्मदानादि वीर्यो च ५६४  
 धर्मद्वयोपलम्भाम्नां ४७६  
 धर्मध्यानं प्रविश्यासौ ४३१  
 धर्मध्वंसेनिमित्तेषु १६७  
 धर्मध्वंसे सतां ध्वंस- ५५७  
 धर्मनिर्मुलविध्वंसं ५५६  
 धर्मपापे विमुच्यन्त्यत् ५५४  
 धर्मं लामोऽस्तु तेऽर्शोते ४६६  
 धर्मशील इति ख्याति ३४८  
 धर्मश्वेतातपत्रं ते ४२६  
 धर्मसद्भावमाकर्ण्य ५१३  
 धर्मादयत्ततोऽर्थोऽर्थात् १  
 धर्मादयो व्यवर्द्धन्त ५८  
 धर्मादस्मादवाप्यन्ति १३०  
 धर्मात्प्रतमयीं वाणीं ४२  
 धर्मात्प्रतमयीं वृष्टि- ३५१, ४२०  
 धर्मायंकारमाशास्त्राणि ५२३  
 धर्मा वाचकवृष्टेश्च ३४५  
 धर्मो यस्मिन् समुद्भूता १२८  
 धर्मेषु सचिमातन्वन् ५२६  
 धर्मो जैनेन्द्र एवास्मिन् ४६  
 धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र ५७७  
 धर्मो दया कथमसौ ६१  
 धर्मो दयामयो धर्म ४५८  
 धर्मी बलः स्वयम्भूश्च १०३  
 धर्मो माता पिता धर्मो ५५७  
 धर्मो यागोऽयमित्येतत्- २५७  
 धवलाश्वयुजाद्यन्मां ७५  
 धवले नवमासान्ते १२६  
 धातकीखण्डपूर्वार्द्ध- १६२, ४०१  
 धातकीखण्डप्राग्-१२१, १२८, १६२, १८७, ५१७  
 धातकीखण्डप्राग्भन्द्- ४०४  
 धात्री च प्रस्तुतार्थस्य २६०  
 धात्री मन्वोदरी नाम २५६  
 धारागृहे वने रम्ये ३५४  
 धात्रन्तो दैवसंयोगा- ५०८

८४, ८५, २१६, ३४२, ३४७, ३६३, ३६६, ५३६

चिक्रष्टमिष्टमिलेतत्	१६०
चिगस्तु संपुतेमार्त्तं	२४६
चिन्मोगानीहरान्	८
चिह्नमां धनमिहाहर्तुं	५३
चिबमस्य गुणाः प्राप्य	८८
चियोऽस्य सहजन्मना कुशलिनाः	४८०
धीःपौरुषञ्च विजयाजनेमेव	५६७
धीमानसि यदीमं त्वं	५३२
धीमानुदीक्षते पश्यन्	५५४
धीरो मेघरथो नाम	१६४
धूपानुलेपनीमाल्यै-	४४
धूमध्वजसलोऽस्थालुः	५२
धूमोपलम्भनादिनि-	४६६
धृतदण्डप्रवृत्तित्वाद्	३१८
धृतराष्ट्रय गान्धारी	३४६
धृतदृढाहृतिं वीक्ष्य	३७५
धृतिषेणाय मद्राज्यं	५००
धैर्यांशुधारा निर्भिन्न-	२५३
ध्याति धर्मैव नैर्मलय-	३०१
ध्यानद्वयसमुन्मुखिता-	१३५
ध्यायन्तं वीक्ष्य वन्दित्वा	५२६
ध्यायन् वैराग्यसम्भवा	२०
ध्रुवं तन्नारदनेको-	२६६
ध्वजदण्डप्रानिर्मिन्न-	२६१
ध्वजीकृतनिशातोप्र-	२२६
ध्वनिरेकोऽपि दिव्योऽस्य	६१
ध्वनिरचेनिर्गतस्तरना-	२०५
ध्वस्तं स्वया प्रबलपापवत्त्वं परञ्च	५६६
ध्वस्तो सुक्तिपयःपुत्रप्रभृतिभि-	२१२
[ न ]	
न काचिञ्चेदृशी क्षीणु	३००
न कामनीयकं कामे-	३५
नकुलः संवृत्तौ भ्रान्त्वा	४६३
नकुलः सहदेवश्च	४२४, ४२५
न केवलोऽयमित्येहि	३६६
न क्रोपोऽस्मिन्स्तवास्त्येव	२५१
नमर्त्तं प्राविशत् कारकटं	१५२
नमरे पविनीखेटे-	१६३
न गोमिन्यां न कौल्यां च	४६२
नकदिवं निजप्राञ्च-	४६६
नृचाराणि प्रहृत्कारकश्च	२६६

न चेतद्वशीं न वाधं	३०२
य चेदमि विभाग्यत्वा-	३०१
न चेद्दिनमिंशैक-	३०६
न चेदत्र सुरेन्द्रत्व-	२१५
न चौर्वैण शिना तोषः	११०
न जाने त्वां विलोक्याद्य	३०२
न शतः कः करो नाम	१२६
न शानात्सन्ति दानानि	७६
न तयोर्भिःप्रहो यानं	१६६
नताखिलखगार्धश-	२६८
न तावदर्थकामान्यां	२८
न तु मांसा दकं देयं	१६४
न त्यक्तुं शक्य इत्यादि	४७६
नत्वा किं बहुनोक्तेन	३०८
न दागतोऽयं नृभिर्दन्ती	२५१
नदीमुखेषु सम्भूता-	२४६
नदीसस्सतयाकादि-	५३३
ननादानकसङ्घातो	४६१
न निर्वृतस्य संसारो	४६७
न नेपथ्यादिभिर्भेद-	२०१
नन्दगोपसमोपिऽस्थान्	३७१
नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ	३७०
नन्दगोपोऽपि तं बाल-	३६६
नन्दं न जगदानन्द-	२०३
नन्दने नन्दिघोषाख्ये	४०७
नन्दाब्बादिसमानीत-	५२६
नन्दाब्बाय ददुर्भूरि-	५१६
नन्दासन्दरानेनासौ	१२४
नन्दिग्रामनिवासिन्यः	४७१
नन्दिभूतिश्चतुर्थस्तु	५६१
नन्दिषेणो बलः पुण्डरीको	२३०
नन्दीरवरे महापूजां	१६४
नन्धावर्तयहे रत्न-	४६०
न पुं सु यदि तत्रास्ति	५२२
न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं	३०६
न प्राप्यतेऽन रंसारे	३६७
न बुद्धिमान् न दुबुद्धि-	२५१
नमश्चक्रुमारयां	२६७
नमसः शुद्धरूपस्य	३१८
नमस्तलगतो देवकुमारो	३३३
नम्रे न्यक्तवत्प्राणु-	३८१

नमम्भमरवैरोचनोद्धत-	३७७
न मत्सरेण न क्रोधान्न	३८२
न मां प्रतिप्रयोगो यं	४७७
नमिताखिलभूषाल	२१
नमिताशेषदेवेन्द्री	२०६
न मर्नमितवामरामरपतिः	३३६
नमर्मंगवत्सतीर्थ-	३७८
नयसै कार्यसिद्धयर्थ-	३०४
नयन्त चतुरो मासान्	४३८
न युक्तमिति विबन्धा-	४६२
नरक्यात्तवक्रोच-	५३५
नरकायुःप्रभृत्यष्ट-	२७०
नरके घोरदुःखानां	४७०
नरपतिरिह नाम्ना	१३५
नरलक्षणाशास्त्र-	५२६
नरादिदृष्टमः पुरे	१३४
नरेन्द्रषट्सुता वीक्षां	३६४
नरेन्द्रैर्बहुभिः सार्धं	३६
नरोऽर्धान्यधिकारनि	५५८
नर्तकी वर्षवीत्येका	१६७
नर्तक्यो ऽ प्रभावोऽयं	१७१
नलिनप्रभमानामभू-	७६
नवकेवललक्ष्मीशो	१३५
नवकैवल तन्वीद्ध-	२४०
नवकोऽयविधमानोक्त-	७३
न वञ्चको फलावन्तौ	१६६
नवप्रसूतसंकुद्ध-	४५१
नवमासान् यथोक्तेन	८०
नवमुक्ता फलालोल	३८५
नवमे मासि वैशाख-	२१४
नवमे मासि सप्यूर्णौ	४३५, ४६०
नवमेदं विनोदिष्ट-	४८८
नवयोजनावितारं	३७६
नवव्रतवर्षेषु	४२५
नवलक्ष्मिणकोटीषु	२७
न वाय्यः पृथगुत्साहो	२२
नवापि निषयः पूज्या	२०७
नवापि विधिना संन्यस्यन्ते	३५१
नवाभ्युपमसन्ताने	१२२
नवारस्मिन्तनूत्सेधो	४३५
नवे वयसि दीक्षित्वा	३६४

न श्रुणोषि वचः पथ्यं	३११	नानाविधार्चनाद्रव्यैः	५५२	नामुज्ज्वेनेन कोऽप्याचीन्न-	५१
नष्टकर्माष्टकोऽभीष्टा	१४६	नानावीरल्लतादृक्षै-	८४	नास्माकं देव दाषोऽस्ति-	१०७
न सन्ति सहजास्तरथ	१६६	नानालङ्काररम्योक्ति-	४८८	नास्तिका. पापिनः केचिद्	६३
न स्थास्तु न शुभं किञ्चि-	६६	नानामुद्रमिपुष्पोप-	५३२	नास्ति जातिकृतो मेदो	४७६
न स्थिरं क्षणिकं ज्ञान-	६४	नानिन्दुशालिकाभूमि-	४४५	नास्ति भट्टारकस्याशा	३०३
न स्वानं भोजनं स्वापो-	१०३	नानोपायप्रवीणोऽय-	४७२	नास्याश्चिचं त्वयाभेदि-	२६१
न हास्यं कुसुतैवं भो	५२२	नान्तरायः परं तस्य	५६	नास्त्यातो नागमो नैव	४०७
न हिंसा न मृदा तस्य	२६	नापनापन्नभोगेन	२४०	नाहमाहारयामीति	५४२
न हि मूलहरः कोऽपि	५२	नाभिः प्रदक्षिणावर्ता	२८	निःखण्डमण्डलक्षण्डः	२५५
न हि हितमिह किञ्चि-	४०६	नाभूदस्यास्ततोऽप्योऽपि	४६७	नि प्रभं निःप्रतापं च	३२०
न हास्यकथनीयं मे	५११	नामग्रहोऽपि यस्यार्घं	४४	निःप्रवीचारवौल्याब्धौ	१६८
नाकाण्डमृत्यवः सन्ति	२००	नामान्दराणि तस्यासौ	३६०	निःशङ्कादिगुणास्तन्वन्	१६४
नाक्रामति प्रजा न्यायं	६७	नामादिचतुर्यैषु	२६६	निःशेष्यकृताघाति	३२८
नागतो रावणः केन	३१४	नामुञ्चन् केचनानादि-	३८८	निःसपत्न. शिवः सोऽभूत्	१६
नागतं विवर्णान्ये	५४३	नामृतांशोर्निशासङ्गा-	२०७	निःसावद्योऽस्ति घर्मोऽप्य-	२६
नागतमसौ नाहं	५४६	नाम्ना घनपतिः याता	११८	निःस्वेदत्वादिषण्णाम	४१
नागतस्तदा रज्जु-	५४६	नाम्ना नन्दीत्यसौ	३५२	निकटे राजिमत्प्राख्य-	४२४
नागतोऽङ्कितं ज्ञात्वा	५४६	नाम्ना भवत्सकोपानां	४३६	निकृष्य कन्यां श्रीषेण-	५१४
नागतत्वेन पापेन	५४६	नाम्ना नरपतिर्दत्त्वा-	७४	निक्षेप्तुं स्वयमेवोच्चै-	४३५
नागतलोऽपि कन्यैषा	५४६	नाम्ना नरपतिस्तस्य	१४	निग्रहीतकथायारि-	६०
नागराक्ष निभूत्सैनं	५५१	नाम्ना विभीषणी जातो	११७	निग्रहीतुमिदोऽग्राशु-	३३
नागराडुपकृतोऽभू-	२५६	नायकभ्यां ततः सुग्रीवा-	३१४	निग्रहानुग्रहो तस्य	१२६
नागरिम्यो महीमत्रे	२५२	नारदं शिलयाच्छाद्य	४१६	निग्रहीष्यामि मृत्यैनां	४८७
नागाविद्याश्च दिद्यानु-	२७५	नारदः स तदागत्य	४१८	निग्रहेषु ग्रहः क्रूरं	४८५
नागश्रियं च दौर्गत्य	५४२	नारदस्ततदा ज्ञात्वा	३७६	निब्रह्मनादेन चाक्र-	२१५
नागश्रितरास्यै त्वं	४२२	नारदस्तत्समाकर्ष्य	४११	निब्रजाल्यनुरूपये	५०७
नागश्रान्निहिताकृत्यं	४२३	नारदस्त्विदित्वाशु-	४००	निब्रतजाऽर्घं घ.यास्त-	२
नागाः शेषेषु तन्नाम-	१८६	नारदागमनाच्चापि	४२१	निब्रदीक्षावनं षष्ठे	२१५
नागादुरैः सदा क्रुद्धै-	२५६	नारदागमहेतुञ्च	४१६	निब्रपापादयाहार्ध-	५४१
नागी नागश्च तच्छेदात्	४३६	नारदेन समावह्य	४१६	निब्रमत्सै. समागच्छे-	३७१
नागिन्द्रस्कन्धमारोप्य	४६१	नारदेनैव धर्मस्य	२७५	निब्रराज्येन संक्रातं	२३८
नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं	२४६	नारदोक्तमपाकर्ष्य-	२७५	निब्रवृत्तिविशेषेण	५६२
नास्तिह्रस्वोभ्य संसार-	६	नारदोऽपि वनं यातोऽ-	२६६	निबागमनवृत्तान्तं	२२४
नाथः षण्डवनं प्राप्य	४६३	नारदा विशिखारुदो	२६७	निबाव्याभिमानेन	३६०
नाथेति रावधं तप्य-	३२१	नारी च नरकान्ता च	१८८	निबामिशुलमाचीनं	२६६
नाथो नाथकुलस्यैकः	४८२	नाहृतानां विचाताय	४७४	निबासने समाचीनं	२८४
नाथरत्याघराख्या त्या-	२७	नालय्यते लपस्यास्य	२७	निबोत्कृष्टानुभागाना-	२१
नानापक्षिमृगैः काल-	४५५	नावतो मण्डलं राहोः	५८	नितान्तमथकामार्थं	३७१
नानापुष्पफलानम्र-	२०१	नावबोधः क्रियाशून्यो	४५५	नित्यत्वस्यापचारिण	४७६
नानामसूतसुत्वाद्-	४६	नाविदग्धाश्च गोपाला-	४५५	नित्यत्वेऽपि तैमोः	१७८
नानामवनवर्णायै	२६८	नावोच्चैः क्षयायात्स्यु-	२६४	नित्यमिष्टविद्वजामानि-	२५८



नित्यालोकपुरे श्रीम-	३६१	निर्नामकमलधोक्तं	३६५	निषिद्धावपि तौ तेन	२८२
नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगत-	१७४	निर्मलसंयन्तो बोद्धव्य-	३१६	निषिद्धविषयांस्तरसा-	५६३
नित्योत्सवाः निरातङ्गा-	२००	निर्मूर्ध्निच्छिद्रमच्छिद्रं	१६६	निष्कम्पं तव शुक्रतासुपगतं	४४०
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्	५१	निर्ममं निरहंकारं	१८०	निष्कषायतयां बद्धा	४४८
नित्योदयो बुधाधीशो	५३६	निर्माप्य जिनपूजाश्च	५४४	निष्कारणं वृषालयश्च	५६६
निदानं मनसा मूढो	१६४	निर्मूल्याखिलकर्माणि	३६	निष्ठिता विफलानीति	२२६
निदानदूषितो बालतपा	१६७	निर्यातमिति वैषम्या	२७४	निष्पन्नमारघवसूनां	२०२
निदानमकरोजीवितान्ते	४२४	निर्यातिसंहतरं घमा	५००	निसर्गाद्रावण्यो दृष्टा-	३०४
निदानशाल्यदोषेण	३२६, ३२७	निल्लोपोऽम्बुदमागो	१३७	निर्झिराशब्दः खड्गेषु	४६
निधाय मुनिपादाब्ज-	३६०	निर्वर्त्यामिमत्तं यज्ञ-	२८०	निःस्वेदादिनिर्दिष्ट-	४६२
निपत्याकीर्तिभीर्मातृ-	३५५	निर्वाणगमनं श्रुत्वा	१२	निःमापभूत्रजेष्युका	५४८
निमित्तैरेष्टषा प्रोक्तै-	५५७	निर्वाणप्रार्थनं तेषां	४३६	निहृष्य घातिकर्माणि	५५५
नियुक्ता दर्शयन्ति स्म	२२८	निर्वाणितोऽहं निर्मल्यं	३११	निहृतसकलघाती	१३१
नियोज्य स्वात्मजे राज्यं	२४०	निर्विघ्नं यज्ञनिर्वृत्तौ	२७६	नीतिविक्रमयोर्लक्ष्मी-	१४१
निरङ्कुश न वैराग्यं	३०	निर्विघ्ना सा निवृत्तार्थि-	३४१	नीतिशास्त्रेषु तस्नेह-	२५२
निरविचिन्वंश्च भूपेन	२५६	निर्विघ्न संसृतः शांति-	१८३	नीत्वा पयोदमार्गेण	३७७
निर्वाचीदधिद्विष्य	३१४	निर्विघ्नोपोपदेशोऽहं	२६४	नीत्वास्वगुरुक्षानीयं	५४०
निरुत्तराय संखिदौ	२५७	निर्विघ्नस्य तद्गतान् भोगान्	४०१	नीत्वाैकवर्णांतां सर्वां	४४
निरुत्तरोष्णनिःश्वास-	५१६	निर्वेगात्रितयोद्भूति-	५७६	नीलादिभिषि गङ्गोरु	२६६
निरुत्तद्गतस्नेह-	३२७	निर्वेगात्तापसो भूत्वा	३२२	नृखेचरसुराधीश-	२५४
निरुत्तातिमिरादोषो	३६५	निर्वेदकारणं किञ्चि-	३८५	नृत्यत्कवचके सद्यः	३२०
नि राकरोत्परात्समा-	४७१	निर्व्रतः संसृतौ दीर्घ-	५५२	नृपं निवेद्य संयुद्ध	२२४
निरीक्ष्य तत्र चेलिन्या	४८३	निर्विश्योदङ्मुखो वीरो	४६३	नृपं सामिनिवेद्यात्म-	२०३
निरीक्ष्य रथाशुप्रेतस्य	४६४	निविष्टं तं समाक्रम्य	१६१	नृपं स्वमृत्युमांशंक्य	४६६
निरुद्धं लब्धनिर्वेगं	५३३	निविष्टो मनसालोच्य	४००	नृपः कदाचिदास्थानी	२५६
निरुद्धसर्वदुर्वृतः	४५७	निवृत्तिमेव सम्मोहा-	२७६	नृपः सुदर्शनोद्याने	३५१
निरुध्यतामिति प्रीत्या	२७५	निवृत्तौ व्रतशन्दार्थो	२४४	नृपः सुपेन दराक्ष्यः	१६
निरुप्येन्नवचः सत्यकू-	१६५	निवृत्त्याख्यां समारुह्य	३६	नृपचेतोद्भैरः श्रव्यैः	५५७
निर्गमय्य ततो जैन-	५४१	निवृत्त्यागत्य साकेतं	२०	नृपमावेदयत्स्वप्ना-	२४५
निर्गमेष्य कुमारस्य	३५३	निवेश्य निजस्त्रायां	३१४	नृपस्तवैकशय्या-	४६
निर्ग्रयो नीरजा वीत-	२०६	निवेश्य पोदनाधीश	१५३	नृपस्य मेघनादस्य	४०९
निर्जिता प्राग्निदुष्पिण्या	३५७	निशम्य मगधाधीशो	५४३	नृपत्येक्ष्वाकुर्वशस्य	३३७
निर्जित्य दशरथः स	१३१	निशम्य धामभेयादि	२१४	नृपात्स्वप्नफलैस्तृष्टा	२०
निर्जित्य शृङ्खलाक्रान्त-	५४७	निशायाः पश्चिमे यामे	४६५	नृपात् भद्रासनारुढान्	२३१
निर्जित्य किन्धुरारति	३०८	निशिताः पवनोपेत-	२६६	नृपेण सह त्वेषु	५०५
निर्णाय धर्मसद्भावं	३३७	निशुम्भो मारकोऽजीयां	२३१	नृपेऽनुबन्धवैरः सन्	११०
निर्दिष्टश्च मया स्पष्टं	४६६	निशयव्यवहारात्म-	५५५	नृपेऽत्रैः खेचराधीशै-	१४८
निर्दोषा दीयतां वीरो-	५०४	निश्चितं कामभोगेषु	२६	नृपैर्वाहानां समादाय	१६६
निर्दोषैश्चक्रमेणासा-	३६२	निश्चितो राघवाः शौर्य-	२५६	नृपो घनपतिस्तस्य	५०८
निर्द्वैतः परलोकार्थं	३६५	निरचेतः कृतभ्रूवालो	१३६		
निर्वृत्तः यस्य निजजन्मानि	८३				

दुषो मेघरथो नाम्ना	३५१	पञ्चाशद्विचक्राद्यौ	१२६	परच्छु सोऽपि नैतेषु	३८८
नेत्रगोचरमात्राखिला-	२८५	पञ्चाशत्पञ्चपूर्वाद्युः	२१	परतेजांसि ते तेजो	१५
नेत्रे विलासिनी स्तिग्धे	२७	पञ्चाश्र्वयं समापाप्यं	१००	परत्रायेवमेवैभि-	३५१
नेदुर्दुन्दुभयो ह्यद्याः	८१	पञ्चोत्तरशतोदितै-	१७	परपाषण्डिवन्नात्नै-	५५६
नेन्द्रियैरामनस्तृप्ति-	३६	पट्टके सम्यगालिख्य	४८३	परप्रणयेयवृत्तित्वा	३१८
नेम्यन्तरे खपञ्चस्त्व-	४३५	पट्टबन्धं त्वपुण्येन	३५१	परप्रेरितवृत्तीनां	३२०
नेयानीत्यब्रवीत्कृष्णं	३७०	पट्टबन्धेऽस्य स्र्दस्य	३५	परमात्मपदं प्राप्ता-	२५८
नेया श्रीरागिणी वास्या-	२१	पठच्छात्रश्रयस्यास्य	२६२	परलोकमनुष्ठातु-	२६७
नैवे शक्त्या निराकर्तुं	२६६	पतन्ति स्म पुनश्चेति	५४२	परब्रीहण्यां शौर्ये	३११
नैवं चेत् प्रव्रजिष्याव	५४४	पतनमधुरसोन्मिश्र-	५३३	परस्परानुकूप्येन	१३३
नैमित्तिकं समाहूय	१५३	पतिः कनकपुङ्गाख्य-	४५८	परामृशान किं शुक्तं	२१२
नोपमानस्तयोः कामो	१६६	पतिः पद्मरथस्तस्य	१२१	परार्थयूरिरत्नत्वा-	३७६
न्यदिशन्नप्रतस्तत्समा-	३५६	पतिः पवनवेगाख्यो	५१२	परार्थग्रहणं नाम	३३२
न्यघाच्चाम्रे तदादाय	२६५	पतिमकत्या निरर्गात्म-	३८०	परार्थं यद्धन लोके	२२५
न्यघादकं प्रवार्योच्चै-	३५८	पतिभिर्दां ददस्वेति	१६१	परार्थं पञ्चधा प्रोक्तं	४५४
न्यबोधयन् समस्तं तत्	५०६	पतिमेव न ते तेन	३६४	परार्थं परिप्राप्तो	३०२
न्यार्यार्जितार्थसन्तर्पि-	७१	पतिर्नरथस्तस्य	१८५	परामवति मामेव	४३६
न्यार्यो नृपः प्रजा धर्म्या-	२०१	पतिर्जन्यन्वरस्तस्य	५१७	परारवाहं सम्यक्त्वं	६१
[ प ]		पतिर्दशरथस्तस्य	१२८	परार्थत्वा कपेर्मूर्त्या	३०३
पङ्के पुनः समुत्थातुं	४३०	पतिर्महाबलोऽद्यास्य	४६०	परा वैश्यसुता सुत-	४८६
पद्मादावर्थरूपेण	४६८	पतिष्यति ततो विद्धि	२७०	परिच्छेदो हि पाण्डित्य	४७८
पद्मे चित्राख्यनक्षत्रे	३८६	पत्युः किन्नरगीतस्य	३५६	परिदुष्य नृपं श्रित्वा	१६२
पद्मेस्तावत्सहस्राब्दे-	४५६	पथि स्वाम्यस्तशाब्जाणि	५४५	परित्यज्य तपः प्राप्य	२६३
पद्मकल्प्याण्यभेदेषु	२५६	पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठि	१०८	परित्यज्यवितुं ब्रूहि	३००
पद्मपत्न्योपमप्राप्ते	१६३	पद्मगुल्ममखिलैः सुतै	७५	परिनिर्वाणकल्याण-	६०
पद्मप्रका रत्वाप्याय	५४१	पद्मनाभश्च तत्रैव	५४	परिपीडयितुं चालं	३६७
पद्ममिर्व्यथेते मिथ्या-	१५६	पद्मनाभः सुतो जातः	५४	परिपृष्टे मुनिश्चाह	५४४
पद्मभिः सद्व्रतैः पूज्यः	१३६	पद्मनीव तदाकर्ण्य	२०२	परिप्राप्तोदयो रामो	२८५
पद्मनः शरदेवाख्यः	३८८	पद्मराजस्ततः पद्म-	५६०	परिभूतिपदं नेष्या-	४७४
पद्ममावगमेशं तं	१८	पद्मलेख्यः श्वसन्मासै-	८८	परिभ्रमणमेतत्ते	२६८
पद्ममावारपारात्त-	८१	पद्मलेनो महीशोऽत्र	६७	परिभ्रम्य मवे भूयः	१६३
पद्ममुष्टिभिरुत्तुज्य	२०८	पद्मानन्दकरो भास्व-	१६६	परित्यज्य कुरौ वृत्तौ	२८७
पद्मरत्नमयं रम्यं	३८५	पद्मालयमुकुलकुल-	५७७	परिवारजना दृष्ट्वा	५१६
पद्मरत्नसमारण्य-	१३०	पद्मावती च कौलीन्यं	५०३	परिवारैश्च स प्रत्यग्	२८०
पद्मवर्गसहस्राब्दकाले	२०७	पद्मावती च देव्योऽमू-	३८३	परिव्राजकदीक्षायाः	४४७
पद्मवह्वक्षत्रपद्माग्नि-	२२०	पद्मावतीनिमित्तेन	३०१	परिव्राजकदीक्षार्याः	४४८
पद्मसंवत्सरातीतौ	५४५	पद्मावतीवियोगेन	३३७	परिव्राजकदीक्षाया-	४४६
पद्माग्निमध्यवर्तित्वं	७३६	पद्मावत्या द्वितीयस्य	३४५	परिव्राजकमार्गस्य	४४८
पद्माप्याराप्य तेऽभूव-	४२३	पद्मावत्याश्च पुत्रोऽय-	३६३	परिवर्ज्यायुज्युज्याङ्ग	२६६
पद्माशद्द्विसहस्राणि	२१६	पद्मेऽऽथारानुनं भातीव	३३	परिचित्त्यैः सोऽस्मासु	१४६
		पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि	६१	परपृथ्य सत्या सम्फल्या-	२८६

परीतां शिशापाक्षमाज-	२६६	पश्चिमे दिवसे सोमखेटे	४२	पिण्डतार्थिद्विलक्षेशः	७०
परितः शिविकां चित्रा-	३८५	परयतान्यानि च स्वैरं	१६०	पिण्डीकृतचतुःपात्रि-	१३१
परीतो भय्यपद्मानां	३८७	परयन् स्वदेवै राधायै	३४६	पिण्डीकृतत्रिलक्षोक्त -	४२
परे च परितः प्रापुः	३१७	परय पुण्यस्य माहात्म्यं	४६२	पितरं तं महीपाल-	४३५
परे चारवादयः प्रापन्	२५३	परयैतौ कृतवेदिनौ	४४०	पितरं वनराजस्य	५१६
परेण तस्मै भूमतां	३६६	परनादिलक्ष्यः सर्गो	२७२	पितरो तस्य सौधर्मः	८१
परेद्युः पापकर्माद्यौ	४०८	पाकं प्रकल्पयामास	३५८	पिता गन्धर्वदत्ताया	५०५
परेद्युः समये पाणि-	३८५	पाकशासनमुखयाश्च	२०६	पिता तु पुत्रमद्रस्तु	४८६
परेद्युर्नस्तदेशस्य	४६६	पाण्डवाः संयमं प्रापन्	४२४	पितामुष्य प्रमावेण	३७०
परेद्युर्हिमगिर्यन्त्रि-	४३१	पातुं प्रविष्टस्तं वीक्ष्य	११३	पितास्यास्तदने रन्तुं	५१३
परे निस्तारकेश्या -	३८०	पतितानां परैः सूक्ष्म	३८१	पितुः कैवल्यसम्प्राप्ति	१०६
परेऽपि दोषाः प्रायेण	५५५	पाति तस्मिन् भुवं भूपे	८७	पितुर्मरणवृत्तान्तं	२२७
परेषां प्राणपर्यन्ताः	३६१	पाति तस्मिन् महीं नासीद्	१६	पितृभ्योऽपि च्युतस्तस्मा-	८५
परेषां वात्यरूपादि	३३	पाति यस्मिन् भुवं जिष्णौ	४७	पितृलेखार्यमन्याय	२६६
पर्यालम्ब्याख्यका वेगा-	१६५	पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः	२४६	पितृसल्लालितौ बालौ	२५०
पर्यादिवसनाः काल-	५५८	पाथेयं दुर्लभं तस्मा-	३६७	पितृस्थानपरित्यागो	२५०
पर्यटन्बहुभिः साधं	३५५	पानीयं खननाद्बह्वि-	२४३	पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य	३६६
पर्यायनतीतं प्रेक्ष्य	३७१	प्रापं कल्पान्तत्स्यायि	३१२	पिष्टकिष्वादिबंधयोगे	२३६
प्रयथिविवेच सर्वेषां	४६७	पापधर्माभिधाना	१५८	पीडा तिलात्सर्वीक्षणां	४४५
पर्ययो राज्यभोग्यस्य	१३७	पापानुबन्धकमेद-	३४४	पीडितोऽय मद्बुद्धे	१६१
पर्वतं वस्तुराजं च	२७४	पापापापोपलेपाप-	६६	पीताम्बरं समुद्बृष्ट्य	३७०
पर्वतस्तद्विपर्यास-	२७३	पायामीरोरभद्रस्य	७७	पीनावग्रोन्नतौ सुरथौ	२०६
पर्वताख्यो विधीः क्रूरो	२६३	पापबुद्धिमिथोऽवादी	४६६	पीत्वा स्वभवसम्बन्ध-	५३
पर्वतोक्तं मयं हित्वा	२७४	पापस्त्वपतिना सत्यभामा	१६१	पुण्डरीकश्चिरं मुक्त्वा	२३१
पर्वतोद्दिष्टदुर्मागं	२७६	पापास्तुमुल्लुब्धेन	५२५	पुण्डरीकस्तया पुण्डरीको	१८८
पर्वतोऽपि पितृस्थान-	२६७	पापिष्ठाऽसहमानाऽलौ	४८७	पुण्डरीकान्तपुरुषो	५६४
पर्वतोऽप्यबशब्देन	२६७	पापिष्ठौ श्रीनदीतरे	१८६	पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेय	५६७
पर्वतो मेपरूपेण	४१४	पापेनानेन मासेन	४७०	पुण्यबोधणकृद्यच्च	४२०
पलायत निजस्थानात्	४२०	पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति	५	पुण्यपापफलानपि	४७४
पलायमानो मानुष्य-	५३५	पापैः समानशूलानां	४५५	पुण्यप्रलाधनोपेता	५६
पलालवर्षां सावेष्ट्य	३८६	पारणादिवसे तस्मै	३८६	पुण्यवानसत्यं किन्तु	६८
पलाशनगरे नाग-	४६३	पारंताख्य महीशल्य	२२२	पुण्यश्रियोऽयमजयत्	५७५
पल्लोपमायुष्कालान्ते	४०४	पारिपन्थिकवन्मागं	३१०	पुण्यहेतुर्विनेयानां	४६५
पल्लवोद्यः प्रसूताढ्या-	१६६	पालकस्तस्य हेमाभो	४०३	पुण्याञ्जलापते वह्नि	४६२
पवनानात्मजं क्षत्र्य-	३८५	पालको मारको वेति	५१	पुण्याद् दृढयो दीर्घ-	२०४
प्रभ्रात्यस्त्रयतैः साधं	४२५	पालनीयौ त्वया भद्र	२६७	पुण्यान्ममादा सम्भ्रा	३१३
प्रभाप्रसारिताम्राङ्गुली	३१८	पालयन्नभ्यदा कान्ता	२०८	पुण्यैकवीर्यमवलम्ब्य	६५
प्रभ्रादन्तर्गुहूर्तायु	१३७	पावनीं स्तुष्यतां नीत्वा	५७	पुण्योद्यान्कमेणाप्य	३३६
प्रभ्रादव्यावर्षायाभास	४३७	पारवैशतीर्यस्तनानै	४६२	पुण्योद्यात् समुद्भूत-	३३६
प्रभ्रानन्ददपुरे नन्द-	१६८	पिङ्गोत्तुङ्गजयजट-	३८४	पुण्योद्यात्सुरूपदि	१३१
प्रभ्रास्यट्कृतकोऽप्यन्दा-	२३०				

पुण्योदयोदितान् मोगान्	३४२	पुराणपति सन्मार्गं	६६	पुण्यपाद त्वयात्रैव	४४६
पुत्रं पिताप्यनुद्योगं	२८३	पुराणश्रुतसम्भूत-	४७२	पुण्यञ्छिशिर्हवांस	५०१
पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान्	५४	पुराणमिदं शास्त्र-	२६०	पूर्णचन्द्रः परित्यज्य	११२
पुत्रपौत्रादिभिः साढ्वं	३४६	पुरादितीर्थशुक्लाले	१०७	पूर्णमास्यां च पुण्यह्नौ	१३०
पुत्रस्नानावसानेऽयं	५००	पुरा पुरुखा भूत्वा	४५६	पूर्वकोटिमिताब्दायु-	५६१
पुत्रिकास्तस्य सहासन्	३५२	पुराहितः पुनश्चास्मै	२७८	पूर्वं तालपुराणाशौ	२४६
पुत्रेणानेन साधे-	४७२	पुरीं प्रापत्य कान्तां स्वां	१७६	पूर्वजन्मस्मृतेर्नघ-	११५
पुत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य	३६२	पुरुषव्रतसम्यक्-	४१२	पूर्वदादशलक्षेषु	२१
पुमानेकः स्त्रियश्चान्यः	२६५	पुरुषार्थत्रयं चैत-	३१६	पूर्वक्षत्रयात्मायु-	६८
पुनः कुमार एवैकं	५३५	पुरुषार्थत्रयं तस्मिन्ने-	३६	पूर्वैरानुन्वेन	४३०
पुनः पितृनिदेशेन	३७५	पुरुषोत्तमानामा च	२५४	पूर्वसम्बन्धमाख्याय	११३
पुनः पुरः कं गन्तव्य-	५२२	पुरुखाः प्रियास्थायी-	४४४	पूर्वाङ्गविशितिन्यूनलक्ष-	४१
पुनः पुरो गमिष्यामि	५२२	पुरुखावनाधीशो	१४४	पूर्वाणां पश्चिमे भागे	४६८
पुनः प्रवृत्तसंप्रामाः	३८१	पुरुखाः सुराः प्राच्यकल्पे	५६४	पूर्वाणां लक्षया हीनं	३
पुनः प्राक्तनरूपस्यः	५२३	पुरे तस्मिन्वाणिङ्गुल्यो	५०५	पूर्वानुपूर्वा वक्ष्येऽहं	३३६
पुनः श्रीविजयोऽप्राप्ती-	१६५	पुरेऽत्र कनकादिके	६६	पूर्वापरविरोधादि-	७६
पुनः स त्रिषयासक्त-	५४१	पुरे पायलिपुरात्रये	५५५	पूर्वाभादे माघमासे	७४
पुनः स्नानाविनोदावसाने	३८४	पुरेऽभूदुत्तरश्रेण्यां	१८६	पूर्वाह्ने जन्मनीवात्र	२३६
पुनरभ्येत्य रत्नानि	१०८	पुरे राजग्रहे पूज्या-	३५१	पूर्वोपात्तव्रतस्येऽहं	५५४
पुनर्जिनमतिज्ञान्ति-	४०४	पुरेव पुच्छेवं तं	२०३	पृथक् विभेदनिर्घातिशक्ति-	७६
पुनर्युन्याभ्रमं गत्वा	३५०	पुरे श्वेतविकानाम्नि	३६४	पृथक् पृथक् सर्वं नाख्येयं	२८
पुनर्निरनुकम्पश्च	३६४	पुरे सिंहपुरे ख्यातो	३३६	पृथक्पृथक् बहुल्येन	५६२
पुनर्निहृत्य सद्धर्मं	१३७	पुरेऽस्मिन् पुण्डरीकिण्यां	२५	पृथिवीसुःसुरी नाम्ना	५२९
पुनस्तदेव थास्यन्ति	५५८	पुरोषसि क्रमात्सर्वान्	४२१	पृथिवीसुन्दरीमुख्याः	२३६, ३२५
पुनस्तयोरभूद्युद्धं	३१०	पुरोषाः रथपतिः सेना-	२०७	पृथ्वीपथप्रवृत्तान्य-	४२०
पुरं चक्रध्वजस्तस्य	१६३	पुरोहितस्तवाकर्ण्यं	३२६, ४६६	पृथौ तस्मिन् रजः क्षोमे	३१६
पुरं प्रत्यागमे सः च	५१६	पुरोहितो गृहपतिः	२४६	पृथ्वा तां प्राक्तनं वृत्तं	४८६
पुरं प्रविश्य चक्रत्य	२४६	पुष्करद्वीपपूर्वाद्ध-	७१, १७५	पृथ्वा विशाय तत्सर्वं	२२६
पुरं प्रविश्य भूपोक्ते	२८०	पुष्कराद्धन्द्रदिग्भागे	६६	पृथ्वौ सहैव गत्वासी	४६१
पुरं प्रविश्य सद्रत्नैः	५५१	पुष्कराद्धन्द्रदिग्मेरु-	७६, ८७	पोतप्रस्थानकालेऽस्या	५४१
पुरं विनरसञ्चारं	४८६	पुष्करलं प्राग्भवायातं	२२	पोतभूतं भवाग्निं तत्त-	३१२
पुरं विश्रावसुस्तस्य	२६२	पुष्कला पुष्कलावत्यो	१८६	पोदनाख्यं पतिस्तस्य	१४४
पुरं सुरेन्द्रकान्तार-	१४३	पुष्कलाख्ये वने तौ च	५१३	पोदनाख्यपुरे चन्द्र-	४२१
पुरं सौमनसं नाम-	३०	पुष्पचूलाह्वयो नन्दन	३६२	पोदनाधिपतिं स प्रथाम-	४५२
पुरः सन्निहितं दृष्ट्वा	२७५	पुष्पदन्तादयः पञ्चाश-	२४७	पोदनाधिपतेर्मूर्ध्नि-	१४६
पुरगोपुरनियाया-	४१६	पुष्पनेत्राः समसुञ्जा-	६६	पौरत्रालकसंघाते-	३५०
पुरमेकं तनुस्थित्यै-	२६१	पुष्पाङ्गरागधूपादि-	२०१	पौर्यामास्यां घनिष्ठ्यां	८३
पुरसक्तमाह्वय	२५१	पुष्पोत्तरविमानेऽसौ	८०	पौर्यामास्यामवापार्च्य-	१५
पुरां चैषु व्यतीतेषु	२७३	पूर्वां निर्बर्त्तयन्द्रष्टु-	४३२	पौषासितिकदश्यां सा	५६
पुरायां तस्य वक्ष्येऽहं	१	पूर्वां विधाय दत्वात्म-	५४४	प्रकटीकृततन्मायो	१२
पुरायां भूमामागंस्य	६४	पूज्याद्विस्त्रिमया किन्दुः	४८३	प्रकटीकृत्यै तौ भूतं	१८८
				प्रकाशयन्त्या स्वान्तःस्थं	४१२

प्रकाशयितुमासीयं	४४५	प्रतिमायोगाधारी-	१२४	प्रपीतामितसेनाख्या-	१६३
प्रकाशयुद्धमुज्ज्वला	३२१	प्रतिमायोगमापाग्र्यं	४२	प्रप्रणम्य समम्यर्च्यं	३३६
प्रकीर्णकरिद्वेष-	२०३	प्रतिमायोगनालम्य	३४६	प्रभुव्याधिकसन्तोषा-	२३४
प्रकुर्वन् भीमको राज्यं	५४७	प्रतिवक्ता स तं चोरं	३३३	प्रबोधमहतां स्त्रीत्व-	५७
प्रकृत्या स्वस्तुतो मन्दो	२६५	प्रतिषिद्धः कुमारिण्य	५२२	प्रबोधितः प्रसन्नात्मा	१२७
प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वा-	४३६	प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः-	४८	प्रबोधितोऽनुवादेन	२२०
प्रकृष्टदिव्यभोगानां	४७१	प्रतिष्ठापयितुं धान्यां	२६७	प्रबोधो मूर्च्छितस्यैव	४६
प्रह्वालनाद्वि पंकस्य	१६६	प्रतिद्वेषपरसैन्यौ	१३३	प्रभञ्जनखगाधीश-	२६७
प्रच्युत्यागत्य साकेते	४४८	प्रतीक्ष्वात्र मां स्थित्ये	२२३	प्रभञ्जनाख्यवृपते-	३४३
प्रजाः स भक्ष्यामस	१५२	प्रतीचि घातकीखण्डे	६७	प्रमाकरीपुराधीशो	१७०
प्रजानां पालको भोक्ता	१२५	प्रतीयमानशानामि-	४७६	प्रभाते षोडशस्वप्नान्	६७
प्रजा नां पालको राजा	१५२	प्रत्यक्षमविवंवादि	४७८	प्रभावती प्रलापिन्या	१६५
प्रजागतिमहाराजः	१४८, ४५३	प्रत्यन्तवासिंक्षोभे	३५७	प्रभावदर्शनं श्रेयो	२७६
प्रजापतिस्तुतो चैतद्	१७७	प्रत्यभाषत लङ्केशो	२६४	प्रभावमस्याः पर्यामी-	३४६
प्रजापालनकार्यैक-	२८३	प्रत्ययः कोऽप्य चेदव्यक्तं	५०५	प्रमूतप्रसवानम्र-	२८८
प्रजावती महादेवी	२३४	प्रत्ययस्तत्फलञ्चैतत्	४६६	प्रभो यद्वाण्य चेतुभ्यं	३०७
प्रशक्तिकामरूपिण्या-	१६४	प्रत्यागतो मनोवेगो	४८४	प्रभोरिच्छाकुक्षशस्य	२४८
प्रशस्तिं निजरूपेण्य	४१५	प्रत्यागत्य करिष्यामि	४८६	प्रमदप्रसवाकीर्णौ	५५७
प्रशस्तिविद्यामित्युक्त	४१२	प्रत्यागत्य कुमारं तं	५०६	प्रमाख्यानयनिक्षेपा	१४०, ३२६, ४७३
प्रशस्तिं साधयमास	३११	प्रत्यासन्नविनेयत्वा-	५३४	प्रमाख्यभूयं वाक्यस्य	२५७
प्रशावारीपरिषेक-	७१	प्रत्यासन्नविनेयानां	४५६	प्रमाख्यवचनः किं वा	४१३
प्रशाविक्रममुक्तस्य	३६	प्रत्याह सिंहचन्द्रोऽपि	११२	प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि	६६
प्रशाविक्रमयोलक्ष्मी	४४६	प्रत्युत्थाय यमाकाये	३७०	प्रमोदात् प्राप्य राजानं	४८
प्रणम्य तां स्वदृष्टान्तं	३०३	प्रत्युद्यातौ महीशेन	२८०	प्रमोदाय सुनस्येह	६८
प्रणम्य पादयोर्मूर्ध्नां	४६४	प्रत्युद्भवजन्ती विच्छिन्न-	४६६	प्रययुस्ते गतिं पापा-	२७६
प्रणम्य स्थितवान् विप्रो	४७५	प्रत्येययुक्तिमद्भाग्भिः	४३७	प्रयाति तव विशानं	२६४
प्रणम्य सोऽपि तत्याद-	३०४	प्रत्येच्छत्सापि सन्तुष्टा	४६८	प्रयात्यैवं तयोःकाले	२२४
प्रणिधानाचदाकार्यं	२६३	प्रथममजनि राजा	२४१	प्रयोगविक्रितं भर्तु-	३६२
प्रणिपत्य तयोर्देवता	३४०	प्रदाय प्रत्युक्काहारं	२४७	प्रवर्द्धमानमाग्यस्य	४६
प्रतर्दनादिभिश्चैनां	४८५	प्रदाय राज्यं पुत्राय	२३४	प्रविशान्तं गर्जं चाल्ये	७३
प्रतापवाडवात्सोल-	७१	प्रद्युम्नसुनिना सार्धं	४२०	प्रविश्य तं समालोच्य	५२१
प्रतापादिद्विषो यस्य	१४०	प्रद्युम्नसम्भवोत्पत्ति-	४०७	प्रविश्य तस्युरं तत्र	४८६
प्रतापोपनताशोधा-	४५२	प्रद्युम्नादिसुता देव्यो	४१६	प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां	५३२
प्रतिग्रह्य कुतो वेतो	५२२	प्रधानप्रकृतः प्रायः	४४५	प्रविश्य स्वोचितस्थाने	१४५
प्रतिग्रह्य नमस्कारं	५०६	प्रध्वंसघातस्यतिक्रान्तः	१८०	प्रविश्याधोगतीः सर्वाः	३४६
प्रतिग्रह्य मनःपर्य-	५३६	प्रपन्नवान् गते चास्मिन्	२६१	प्रविशान्तं यद्दं भिक्षा-	४२२
प्रतिपञ्चन्दरेखेव	१४०	प्रपन्नस्तद्विदित्वागु-	२६१	प्रविष्टवन्तं तं देव-	३८३
प्रतिपञ्चन्दः परस्त्रीयां	४७	प्रपलायन्त तं दृष्ट्वा	४६२	प्रविष्टवान् विनाष्टाभ-	४५०
प्रतिपक्षाद्भवदृष्टि-	५२०	प्रपश्यन् सह भुञ्जानान्	३६२	प्रविष्टाय प्रदायान्तं	२०६
प्रतिपन्नं मया तस्मै	३५७	प्रयात्येवं सुखेनाङ्ग	१३६	प्रविश्य भूषिता स्तनैः	४२१

प्रज्ञानामेष रक्तत्वात्	१०२	प्रागालीढरिवर्मानामद्वपति-	२४८	प्राथिवैतत्पुरं धीरं	४८६
प्रवृत्त्या दीयते पारं	५५४	प्रागालीदमृतरसायनस्तृतीये	४२६	प्रातगीर्वाणनिर्वाण्य-	२१६
प्रवृद्धतेजसा यूना	१७३	प्रागुक्तैकादशोपास-	१६५	प्रातवेगोद्धतौ तस्मि-	३७६
प्रवृद्धरागप्रदेष-	४७४	प्राग्जन्मकृतपापस्य	५५३	प्रातापमानेन रषा	११६
प्रलयः प्राण्यिनामेवं	५५६	प्राग्जन्मसुकृतायेन	८१	प्रातावशोकदत्तायां	४२३
प्रलयः प्रातिका लस्त. वा.	६	प्राग्जन्माजितपापस्य	३६७	प्रातोऽहमिति शंखन्तं	२७०
प्रलापारुन्दरोदादि-	४५५	प्राग्भूभुजः प्रथितराजगृहे	१३४	प्राणुवन्ति सुखं स्वर्गं	५५४
प्रशमपरमकाशा-	५७१	प्राग्योऽभून्पतिर्महान्	घनपति. २२१	प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारि-	२५४
प्रशमप्य किमस्थाने	३०१	प्राग्विस्वनन्दीति विशामधीशः	८६	प्राप्य चूडामणिं मृदुः	५१५
प्रशस्तवङ्कानामानं	५२६	प्राधूर्णकविधिं विश्वं	१५६	प्राप्य तन्निजयत्यादीन्	५२०
प्रशस्ताशस्तभाषासु	३१	प्राधूर्णैकोऽहं दृष्ट्वेमां	४६०	प्राप्य द्वारवतीं केचित्	३७८
प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्याम्बु	५१४	प्राङ्मुखो बाह्यसामर्थी	२०६	प्राप्य निष्कमण्यलान-	८२
प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि	१५७	प्राच्यवृत्तिविपर्यासः	२००	प्राप्य पञ्च महाकल्पा	५६५
प्रष्टव्योऽपि स्वयम्भूत्वं	२५७	प्राच्यां दिशीव बालाकौ	४६१	प्राप्य मानुकुमारय	४१७
प्रसवं मधुमासो वा	५१८	प्राज्ञापत्येन सम्बन्धो	३४४	प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं	८१
प्रसन्नोऽनपवर्त्यासु-	४१	प्राज्ञालिभंगवन्नेष	४६४	प्राप्य षष्ठोपवासेन	२४६
प्रसाधनाविशेषाया-	२०४	प्राज्ञाप्रिया महादेवी	८५	प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां	२५२
प्रसाधितत्रिलण्डोऽपि	४०	प्राज्ञासन्धारणं कुर्वन्	५२५	प्राबोधयच्चयोस्तस्मा-	४११
प्रसाधिताङ्गी सान्येद्यु-	३६६	प्राज्ञीति वार्यमाणोऽपि	४३५	प्रायोपगमनं प्राप्य	४३३
प्रसाध्यादहृष्टमिगेऽपि	४०७	प्राज्ञेभ्योऽप्यधिकान् का वा	२६३	प्रायोपगमनस्यास-	१६५
प्रसूतिरुपमेऽव्याप्य	३६४	प्रातःछायायुगत्मीयाः	२०८	प्रातःस्वकार्यसंविद्धा-	३००
प्रसूत्य पतितान् वीक्ष्य	२६३	प्रातः पृष्टवतीं स्वप्नान्	३	प्रातःस्वपूजादानादि-	१५३
प्रसवेदमलदिग्बाह्यो	३६६	प्रातः शीतजलस्नानात्	४४०	प्रातःस्ववान् भयाद् रात्वा	४५०
प्रहारवरणोनापि	३२२	प्रादक्षिण्येन मन्व्येषां	६२	प्रातःस्व पर्वतो यागं	२६६
प्रहितोऽहं विवाहेऽद्य	४१७	प्रादक्षिण्येन बक्षार-	१८६	प्राप्त्यै चतुर्थकल्याण-	२१६
प्रहित्य मद्रनं दत्तं	४५०	प्रादुर्भाषितदुःप्रेक्ष्य-	३१३	प्राजाजीत् पूज्यपादस्य	३३१
प्रहृत्य हेलया तदधौ	४१४	प्रादुर्भूता रुचिस्तज्जैः	४७३	प्राविशत्यापि तं दृष्ट्वा	११६
प्रहृत्य साहसात्स्मात्	३७०	प्रादुरासंस्तदोत्पाता-	२६४	प्राविशन्नगरीं घोरां	३१४
प्राकृतोऽयं न केनापि	४१०	प्रादुरालीत्तरश्च्युत्वा	३५३	प्राविशन्प्रकृतं तस्मिन्-	३८६
प्राकिं क्लृवागता चन्दना-	४८६	प्राप्तौ तस्माद्विनिर्गत्य	४१६	प्रावीण्यं पदवाक्ययोः	५७४
प्राक्चिन्तागतिरावभावन् ततः	४२५	प्राप्तौ प्राप्य सहस्रार-	४५६	प्राहिणोत्तदमिप्रायं	३००
प्राक् पालकः प्रथितपद्मरयः	१२४	प्राप्तौ माहेन्द्रकल्पेऽभूद्-	१४३	प्राहिणोत्तत्रिरीक्ष्यार्द्र-	५०७
प्राक् पोषयन्निति शक्तिरिति	१५१	प्राप्तौ यौद्राभिसन्धाना-	२३१	प्राहिणोद् द्वादशब्दानां	३४३
प्राक् प्रच्युत्याच्युताधीशो	१७७	प्राप्तौ विष्वस्य कर्माणि	४६५	प्राहिणोद्ब्रह्मकावत्याः	१६८
प्राक् षष्ठनरकादव्यास-	७२	प्राप्तौ संन्यस्य बद्धञ्चायु-	२६	प्राहिणोत्स पुनः कोपा-	३७५
प्राक्तनाः षट्कुमाराश्च	३६४	प्राप्तौ संन्यस्य सा प्रायात्	१८३	प्राहुनांस्तीति यं केचित्	३८७
प्राक्तनोऽजगरः षष्ठ-	४३१	प्राप्तौ संन्यस्य सौधर्म-	२७८	प्रियं हितं वचः काय-	२८२
प्राक्तनो नारकस्तस्मात्	१३४	प्राप्तौ स्वाराधनां प्राप्य	१२१	प्रियकान्तांविभोगोत्य-	२६६
प्राक्तनो नारकः पञ्चप्रभाया ११७, ११८		प्रापत्प्रताविवातं तद्	५३५	प्रियदर्शनाभ्येष्टा च	३५२
प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य	५५	प्रापत्सम्पत्स्वशुद्धिञ्च	५०८	प्रियमित्रस्त्वयोराली-	४५६

प्रियमित्राय पुत्राय	१३५	फाल्गुने मासि चित्रायां	३७	बली तलपद्मारेण	४५०
प्रियमित्रोऽग्रमो बर्न	३५१	फाल्गुने शुक्लसप्तम्यां	६४	बलीन्द्रामिधया ख्यातो	२४१
प्रियाजनि सुप्रदाख्या	३५२	फाल्गुने श्रवणे कृष्ण-	२४७	बलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा	२४२
प्रिया जयावती प्राप्त-	८८	[ व ]		बलेन महता योद्धुं	५१६
प्रिया दुग्धनराजोऽस्या-	५१३	ब्रज्यायुधे समारोप्य	११५	बलोऽपि तद्वियोगोत्थ-	१०४
प्रिया वसन्तसेनापि	१८३	बद्धः सिंहरयः कर्म	३६३	बहवोऽख्यायुषोऽभूव-	४६५
प्रीतः प्रीतिक्रस्तत्र	५५२	बद्धदेवायुषोन्यायु-	४७२	बहिस्त्वया न गन्तव्य-	३५५
प्रीतिः सैवानुभूतिश्च	४६	बद्धो बहुविवर्धन्यै-	४५५	बहिः स्थितः कुमारोऽसौ	४८७
प्रीतिक्रूरः पुरे चर्यो	११६	बद्ध्या तत्कारणीस्तीर्थ-	२१३	बहुनाहुः सद्ब्रह्मचो	२०
प्रीतिक्रूरवने सर्वगुप्त-	६७	बद्ध्यायुः क्रोधलोमान्या-	३४७	बहुभिः सह सम्प्राप्य	२५०, ४०८
प्रीतिक्रूरापि निर्वेगात्-	१८३	बद्ध्यानीतवते देश-	३६३	बहुयोनिपरिभ्रान्तो	१२०
प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्नः	१०४	बद्ध्या बलिनमुद्वृत्तं	३५६	बहूनि रत्नान्यादाय	३७८
प्रीत्या षोडशमानामि-	२८१	बद्ध्यायुराप दृशमग्र्य-	४२७	बाजिनोऽत्र समुच्छिन्न-	३२१
प्रीत्या सुरवरैः सार्द्धं	२०४	बन्दिमागधसतादि-	३५३	ब.युपातान्यरेषाञ्च	५०१
प्रेयसी तस्य नन्दाख्या	३६५	बन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्-	२४४	बाधाभावादरक्षात्र	४४४
प्रेयान् ममैक एवासी	१०	बन्ध्यास्तनन्धयस्यैव	२३६	बालकं धर्धयिष्याव	३६५
प्रेरितास्तेन मार्गेण	११०	बन्धवो बन्धनान्येते	१६०	बालक्रीडाधिशोचैस्तां	४१७
प्रेषणं युवयोरेत-	५५०	बन्धहेतुफलज्ञानं	५७६	बालकोऽयमिति ज्ञाना-	२२६
प्रेषितः श्रीमता तेन	१६६	बन्धुः कः को न वा बन्धुः	१८७	बालचन्द्रादिसुख्यन	२०२
प्रेषयामास कंसारिः	४०२	बन्धुभिः स परित्यक्तो	१०३	बालवद्धं लया बलां	६५
प्रेषयामास तं दृष्ट्वा	३६३	बन्धुभिर्यां त्वमेवैका	१७२	बालार्कसर्निर्भनं बालं	२०
प्रेषिताः खचराधोशाः	३१५	बन्धून विस्ज्व्यं प्रायोप-	३४२	बालिकोऽन्तरपत्तिं	३१४
प्रेषितावनु तेनेत्वा	५१४	बन्धुसर्दान्समाहूय	५२६	बालिसुप्रियवनामाना-	२६७
प्रोक्ताः पञ्चदशैतस्य	१५८	बन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते	४४५	बालीं कालानुकारिं तं	३१०
प्रोद्दृष्टाः कंसमल्लाश्च	३७२	बन्धुः सत्यभामाया	४१६	बाहु बहुतरं तस्य	२०५
प्रोद्दृष्टान्तिदमनोऽजनि	१३४	बन्धार भास्वर्यां लक्ष्मीं	६३	बाह्यं पुरधरोद्याने	४६६
प्रोम्बुल्य बानरानीक-	३२४	बन्धुव क्षीणपुण्यस्य	३२७	बाह्यस्थैर्यत्रचः श्रुत्या-	२६१
प्रोल्लङ्घ्य गोपदमिवाम्बुनिधिं	३२८	बन्धुवतरहीन्द्रश्च	४३७	बाह्याभ्यन्तरसंयुद्धः	१३७
प्लवनेः समवस्थानै-	३७१	बन्धुव स्थविरारूप-	२८८	बाह्यं तपश्चिषड्भेद-	१४८
[ फ ]		बन्धुवस्थाः पतिः पंक्तेः	४४६	बालाचिर्गत्य नाशश्च	४१५
फणिवैद्यास्तदाकर्ण्य	५०८	बन्धुर्वैः प्राणिनः कम्प-	२७४	बीजजालो पदार्थानां	४७३
फलं चेदस्ति चर्याया	१३२	बलं कलाकलं किञ्चि-	३१६	बुद्ध्यादिकर्द्धयस्तस्य	३५०
फलं जैनमुनेर्विष्य-	२७०	बलं परशुरामः स्वं	२२८	बुद्ध्या ततः स निर्यातां	११८
फलं त्रिलोकसाम्राज्यं	६३	बलकेशवसुख्याव-	३८६	बुद्धिं शक्तिमुपायं च	२८२
फलं स्वानिमित्तस्य	१३२	बलतेजोमहाविक्रियाभिः	५०	बुद्धिपूर्वा क्रियालिङ्गा-	२३६
फलन्त्यकार्यचर्यायां	२२६	बलदेवश्च सम्प्राप्य	३८७	बुद्ध्या सपर्ययं सर्वं	१३८
फलप्रसवहीनं वा	२८३	बलस्थाष्टसहस्राणि	३८३	बुभुक्षापीडितोऽप्येष	५४०
फलायनुक्रमोत्तेषां	२१४	बलाख्यसुख्यपञ्चान्त-	४२	बुभुक्षुमातरं भोक्तुं	५४०
फलानाधोगतीः सर्वाः	४४८	बलात्कारेण तां तस्माद्	२८५	बुभुक्षुस्तत्र विप्रोऽसौ	४४५
फलैरनापि समासेन	२७१	बलावष्टम्भलिङ्गावनी-	३१८	बोधस्तवाङ्गिलिङ्गोक्तन-	५६८
फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां	६०	बलीना सह बुद्धस्य	५१४	बोधपादयो गुण्याः स्वेऽप्यी	१३०

बोधितः समतीतात्म-	३८६
बोधिता ह्य देवेन्द्राः	२३६
बोधौ श्रद्धा त्रिशेषस्य	२२४
ब्रह्मकल्पाधिपो ब्रह्म-	५३१
ब्रह्मकल्पादिहागत्य	११८
ब्रह्मकल्पेऽभवद् देवो	११८
ब्रह्मलोकात्तदाम्येत्य	३
ब्रह्मवत्करदो नैतौ	८४
ब्रह्मस्थानोचरे भागे	२०२
ब्रह्मेन्द्रोऽयं दिवोऽमेत्य	५३१
ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां	१६३
ब्रूहि किं कर्म पुण्यं मे	२७०
ब्रूहान्यमिति तद्ब्रह्म-	२२३
[ भ ]	
भक्त्या दमवराख्याय	१८७
भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य	४५८, ५०२
भगलिवांगलिर्देपायनः	५६१
भगवन् किञ्चिदिच्छामि	१६०
भगवत्त्र को दोषो	३०४
भगवन्तावहं पूज्यौ	३४०
भगवन्मद्ग्रहं द्वौ द्वौ	३८८
भगवन् वासुदेवस्य	४१६
भगवान् वर्धमानोऽपि	४६६
भगीरथोऽपि तान् गत्वा	१२
भङ्गेन मार्गात्प्रच्युत्य	२६१
भट्टैः परस्परास्त्राणि	३८१
भट्टारिके खगेन्द्रस्य	३००
भट्टारिके वदैतत्	५११
भद्रं तमस्थादाहृत्य	४३८
भद्रत्वात् बहुदानत्वात्	१२६
भद्रं द्वादशवर्षान्ते	४१६
भद्रमित्रवाणिक्	१२०
भद्रमित्रोऽपि पापेन	१०६
भद्रमित्रोऽपि पूत्कारं	१०८
भद्रान्तरुणवीरान्यां	३६१
भद्रिलाख्यपुरे देशे	३६४
भद्रैषा कामरूपस्य	३४६
भयंकराख्यपल्कीश	४८५
भयादिव तमहोऽरि-	२१३
भयेन लज्जयाराम-	२६३
भरतः प्रथमो देश-	१८८

भरतः सागराख्योऽनु-	५६४
भरताचमहीनाथो	३८२
भरते कोऽत्र पाश्चात्यः	५३१
भरतो दीर्घदन्तरश्च	५६६
भर्ता गन्धर्वदत्ताया-	३५६
भर्तुः सुवर्षावर्षास्य	३
भर्त्सयन्ति स्म चापल्यात्	५०६
भर्मद्युतिर्भवंध्वंती	४६१
भवतः शत्रुरूपज्ञः	२२७
भवता परिपृष्टोऽयं	५२७
भवतापि महाप्रीत्या	४८४
भवतीमिर्वरकीभि-	३१५
भवतोऽपि नमोः कृच्छ्र-	१४४
भवतो विप्रकन्यायां	४७२
भवत्यचेतनं किन्तु	४३२
भवत्या. स नमिनाम्ना	४००
भवदेवोऽनुपागत्य	५३६
भवद्भाषा बृहन्नावा	१५७
भवद्भ्यामेव तद् शत्वा	५५१
भवद्भिः कैश्चिदप्याभ्यां	४०७
भवन्तं भगवन्द्ष्टवा	५३६
भवन्त्यकलां कल्यां	१७०
भवन्निरूपितं कार्यं	२८६
भवत्स्थितिवशाद्बद्ध-	४७३
भवतापपरिम्पान-	१००
भवान्प्रमाणाभित्याख्य-	५००
भवान् रक्तं तयोश्चितं	४८३
भविता कथमरुनाकं	५०३
भविष्यति कृतप्रोषणस्य	२६८
भविष्यति महादेवो	३६६
भविष्यतीति यत्प्रोक्तं	२४२
भविष्यद्बलदेवोऽपि	२६७
भविष्याम्यहमप्युद्यत्	५६३
भवेच्छिबुकमन्येषां	२०५
भवे भाव्यत्र नवमे	१६४
भवे भ्राभ्यत्याविश्राम्यन्	३३४
भव्य मच्चितपूर्वै ते	४६६
भव्यभूपसहस्रेण	४५६
भव्यात्तमनां परमनिष्ठैतिसाध-	५६६
भव्यानां कल्पवृक्षाः स्यु-	५६४
भव्यानुग्रहसुख्यात्म-	३२६
भव्ये भगलिदेशेश-	११

भव्योऽयं व्रतमादाय	५५३
भव्योऽयमिति तं मत्वा	४७१
भव्यो व्यस्तैः समस्तैश्च	४७३
भागयाचनयात्रादि-	४८२
भागे जयन्तदेवस्य	२१६
भागे मनोहरे यामे	२१४
भागे विशालनक्षत्रे	४३८ ४३६
भाजनं भोजनं शय्या	५३
भाण्डागारावलोकायं	१११
भाति पिण्डीह्रमो भद्र-	६१
भानावुदयमायाति	२६४
भानुमारं कण्ठुपद्मानां	४६१
भार्या जयावती श्रीमती	४६६
भार्या तयोरभूलाग-	५४३
भार्या तौ शङ्करौलस्या	१६२
भावयित्वा भवञ्छंति	४५६
भावयित्वा ययौ दीक्षां	४५०
भावसंयमविष्कृति-	५४२
भावानामनुमानेन	४७७
भाविचक्रधरं विद्धि	३६६
भावि चक्रिप्रभावेन	३६५
भावितादायिकाः शून्य-	२१६
भाविनी रावयां हृत्वे-	२७७
भाव्यनामान्यनामासौ	४१६
भासमानौ नयौ बोधौ	३२७
भास्करस्योद्याद्बान्ध-	३८२
भास्वतेव जगद्येन	५५७
भिक्षां कुबेरदत्ताख्यः	५४४
भिक्षाचरमथान्येषु-	१६२
भिक्षार्यं देवकीगेहं	३६४
भिन्नश्चेच्छून्यताप्राप्ति	१७८
भिया भियेव कापिन	२५३
भिया स्नेहेन लीमेन	४१३
भिषक्यायोर्जितोपायैः	६
भीत्वा धावन् तदैकस्मिन्	५४१
भीमसेनोऽनुपार्थश्च	३४६
भीमस्य भोजनाद् गन्ध-	४२१
भीमां वैतरणीं तत्र	४५५
मुक्तमेव पुनर्मुक्तं	३६
मुक्त्वा कोपद्रयापेतं	१३२
मुक्त्वा ततः समागत्य	४४८
मुष्यमानेषु वैरस्यं	३१२



भुञ्जाना इव सप्राप्त	३१७	भोगभूतभोगादि	१३६	मत्वा मर्कटकान् काश्चित्-	३५४
भुञ्जानो निःप्रवीचारं	३४३	भोगानुभव एकात्मै	२१३	मस्तुता मामिनीवात्य	४५२
भुञ्जेऽहमिति येदित्वा	५००	भोगोपभोगद्वारेण	२६१	मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे	३६३
भुवनत्रयसंज्ञोभ	४४७	भोगोपभोगयोऽन्येभ-	५७	मत्स्वामिनो महादेवी	३०३
भुखेचराः कुमारेण	३६०	भोजनावखरेऽन्येभु-	१५१	मथुराया बहिर्भागि	४१६
भूत्वा भवनवासीन्द्र-	४०४	भोजयित्वाथ तद्दाना-	४८६	मदनादिलतायाश्च	५१३
भूत्वा वने भ्रमन् मत्तो	११३	भो भवद्भिः कुतो लब्ध-	३७८	मदनानलसन्तप्त-	१८२
भूत्वा वृषभसेनस्य	४६३	भौमोपाध्यायसान्निध्ये	२६८	मदनोद्दीपनद्रव्यै-	२०१
भूत्वाऽऽसुरौ तमन्येत्य	१८४	भ्रमन् विशाखनन्दी च	८५	मदनोद्दीपनैर्दंशै-	२६६
भूपः क्रोऽपि पुरा श्रिया	२५०	भ्रमर्याः कङ्ककं मुक्त्वा	२८८	मदीयमेतदित्युक्त्वा	५५१
भूपतिः पद्मगुल्माख्यो	७१	भ्रमित्वा भवकान्तारे	६७	मदीययागरक्षार्थं	२५६
भूपती तौ तयोवृत्त्यं	१६७	भ्राता तस्य सुमित्राख्यो	५११	मद्भाग्यादिति निर्भिद्य	३०३
भूपतेरशनेः पातो	१५२	भ्रान्तो जातिवराभ्यु-	४५६	मद्मर्दः कुशलोदन्तं	३००
भूपाल भूपतिरसङ्गा तपो	२३०	भ्रान्त्वा क्रमेण सञ्चिन्त्य	२३१	मद्यमांशनिवृत्तेश्च	१४४
भूपालो नाम संग्रामे	२२२	भ्रान्त्वा ततो विनिर्गत्य	५६५	मद्योग्यवस्तुस्वीकार-	३०७
भूपस्वमर्थवचस्मिन्	७६	भ्रान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थ-	३४८	ऋषुक्रीडवयोरेवं	४०६
भूमिसंशोभने लाङ्गलाग्र-	२७६	भ्रामर्या भोगिनीत्यादि	१६५	मधुपैश्च पल्लोलै-	५६
भूमिस्थानादिभेदेन	१५०	भ्रामन्सारकान्तारे	५३५	मधुरं बहुलञ्चान्य-	४६६
भूमौ सिंहपुरे जातो	३४१	[ म ]		मधुरादिदृष्टायैश्च	५२४
भूयः संवारभीरुष्या	७६	मकारादिभयं तत्र	१५१	मधुरापि तयोर्जाता	११३
भूयादस्माकमप्येव-	२०६	मघवाज्ञाम पुण्यात्मा	१३४	मधुरा रामदत्तानु-	११६
भूयान्मे चक्रवर्तित्व-	२२२	मघायां चैत्रमासस्य	३०	मधुरेण मृगाणाञ्च	५०४
भूयो निवारयामास	३६८	मघायां श्रावणे मासि	२६	मधुः सत्त्वं समुत्पत्य	१०४
भूयो विफालनोऽनाद-	३८४	मघा शशिनि वैशाखे	३०	मघोः केनापि भूपे च	१०४
भूरिनीरम्बवानेक-	२०१	महत्तु दूतमुखादेत-	२६५	मध्याह्ने भूयतां ध्वंसः	५५८
भूषणानां कुलं लेभे	२०७	मङ्गलाभिषवाविष्ट-	४३४	मध्ये तस्य गिरिर्भाति	१३६
भूषणानैव शालोऽस्त्याः	४४५	मङ्गलैश्च प्रबुद्धयष्टु	४६०	मध्ये तस्य विनीताख्या	५४५
भूसुवर्णादितप्रोक्त-	७७	मङ्गी वनेत्याकुलो माता	३८६	मध्ये प्रवर्तते तस्मा-	३७६
भूसुवर्णादिभूषिष्ट-	७७	मज्जनन्यनुजादीना-	१५५	मध्ये रङ्गमुदात्तचित्तविसर्गे	३७२
भूत्वान्द्विर्भातिः स्नेहात्	३५५	मञ्जूषायां विनिश्चिप्य २६०,	३६२	मध्ये वनं परिक्रम्य	२८७
भूत्यां दृढप्रहारार्थयः	३८६	मणिकेतुः पुनश्चात्य	१०	मध्ये विधाय गत्वा द्वाक्	३१२
भूत्यो वृषभसेनस्य	४६३	मणिमतिः खचरी गुणाभूषणा	३३०	मनः पर्ययसंज्ञानः	१६, २५२
भूत्यैस्ततस्तमानाव्य	५०६	मतिः ध्रुतं तपः शान्तिः	४४८	मनःपर्ययसद्वोध-	२१०
भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ	३०४	मतिरस्तु ममैषाल्या	४४३	मनागवसरवेद्धी	३००
भेदोऽग्नेः फणिमण्डपः	४४१	मत्करे विद्यते यस्मै	५२१	मनुष्यजन्मनः सारं	८
भोक्तुं वीरपुरं तस्मै	३३५	मत्सेति तान्यो दस्वैष्टं	४८	मनुष्यजन्मसम्प्राप्तं	५१५
भोक्तव्यमिति निर्बन्धा-	५४०	मत्सेति वा हुतं पेट-	३१७	मनुष्यः संज्ञितस्तिर्य-	५६२
भोक्तव्यमिति विप्राय	४७५	मत्प्रिया पुत्रलाभार्थं	३६६	मनुष्याणां परञ्चयुः	५६२
भोगदृष्ट्यामपास्त्याश्च	४६	मत्युत्रस्य युवां जन्तु-	१५७	मनुष्याणामनाचार-	५६०
भोगनिर्घेगयोगेन	४५८	मत्वाकृष्य धनुर्बोध-	१६३	मनोवाक्कायवृत्तेन	१५८
				मनोवाक्कायसंशुद्धि-	१६१

मनोवैगोऽन्यजन्मोऽद्य-	४६३	मया विनाऽऽस्त्यशोभा स्या -	२७	महाभ्युदयसम्पादि-	२८३
मनोहरमहोद्याने	८२, ११५	मयुग्मीवसंशस्य	८५	महाभारिणिवाम्भोषी	२०४
मनोहरवनेऽगच्छत्	१७६	मयेयं कन्यका तस्मै	५०८	महामल्लो बहून् जित्वा	१३२
मनोहरवने धर्मं	५४	मयेत्येवं यदि त्याज्यं	४६६	महामोहप्रदग्रस्त-	१०६
मनोहरवनोद्याने	११२, ४६५	मयैवं सुलहा हृतो-	२७६	महायतिः समुत्तुङ्गः	१२५
मनोहरादिरामाभिः	५८३	मरीचिरेष दुर्मागं-	१४४	महायोगात् प्रतिशतात्	१७७
मन्त्रशालां प्रविश्यात्म	२८५	मर्याकारं प्रपन्नो वा	५०१	महारत्नपुरे विश्व-	१४२
मन्त्रियेव कृतं सर्व-	२४१	मर्यादाकारि यत्तस्मा -	२०६	महावतोऽपि तत्रैव	७
मन्त्रिवर्गं ममाहूय	१४२	मलघारी परिभ्रष्ट-	३५०	महावंशो महीं तस्य	२३३
मन्त्री चिरं जनवारिनिधौ	२४३	मलयाधिपचण्डशासनो	१२७	महाविभूतितर्पणः	५८
मन्त्रोत्साहप्रभृत् च	२८२	मलयाधीश्वरो नाम्ना	१२४	महाविभूत्या प्रत्येय	१५६
मन्त्रौषधिप्रयोगेण	५४१	मलयानिलनिःश्वासा	७१	महाविभूत्या सम्प्राप्य	१४५
मन्त्र्यादि. तिकृतेषु	५३०	मलये कुब्जकाख्याने	४३०	महाव्रतमहासाम-	४६५
मन्दगन्धवहोद्भूत-	२६६	मलिनाः कुटिला मुग्धैः	४६३	महाशिलाखिलाङ्गानि-	४१०
मन्दमन्दप्रमे भानौ	२६६	मल्लिनर्जिविवाहार्यं	२३५	महाशिलामितैः सर्वै-	४१५
मन्दराग इवोत्तुङ्गे	२४०	मल्लिप्रभृतयोऽभूव-	२४७	महाशुकविमानेऽभूव-	८८
मन्दरादिगन्धाधीश-	१००	मल्लोर्जिनस्य सन्तानेऽ-	२३८	महाशुके ततो देवलि-	५६५
मन्दमानशिशोः पित्रो	५१८	महाकालेन दृष्टः सन्	२६८	महाशुके ततो देवः	५६५
मन्दारप्रसन्नारब्ध-	३०१	महाकालोऽप्यभिप्रेतं	२७६	महाशुके विमानेऽभूद्	११४
मन्दारशुभानुमागोऽयं	४१	महाकालोऽभवत्तत्र	२६२	महाशुके समुत्पन्नाः	३६४
मन्दिारख्येऽग्निमित्राख्यो	४४८	महागुणेषु यत्तस्य-	१०३	महासेनस्य सुन्दर्या-	५४६
मन्दिारयां जगत्ख्यातो	४४८	महाजलाशय्या नित्य-	१६६	महीपतिग्रहं देवीं	४६६
मन्दोदर्याः कुलं रूपं	२५६	महादुःखोर्मिसङ्कीर्णं-	१५७	महीपतिः सुवर्षाम्भः	२२०
मन्दोदर्यादितदेवी	३२२	महादेवी च तान् दृष्ट्वा	५१८	महीमुजः परे चाति-	३५५
मन्दोदर्युपरुष्यास्या	३०८	महाद्वारेण सम्प्राप्य	५३८	महीमुञ्जो निशाम्यैक	१६५
मन्ये नैषपिकं तस्य	५२	महानुदयनत्तस्य	४८२	महीशोऽप्युपायेन	२८६
मम नेत्रालिनोः प्रीत्यै	२८७	महान्ममैव योग्योऽसौ	२४१	महीरुद् कोटरस्थेन	५३३
ममागमनमेतच्च	२६८	महापुराणवापशि-	४४३	महीशमण्डले चाकेते	२५६
ममापि युवराजत्व-	२६७	महापुराणस्य पुराणसुंः	५७७	महीशोऽप्यपुराधीशो	४३१
ममायमकरोदीदृक्	३४८	महापुराधिपाद्याश्च	२७५	महेन्द्रजागलकानीत-	४४७
ममात्य च युवनाय्यो	२७१	महापुरे वायुरयो महीपतिः	६६	महेन्द्रविक्रमत्येष्ट-	१८२
ममेति मन्यमानोऽन्यः	३१६	महापूजां सदा कुर्वन्	१६४	महेन्द्रविक्रमार्थेषा	४०३
ममेति शेषमप्याह-	१५६	महाप्रस्थानकर्माणाः	४२२	महोद्योगो विधातव्यो	२८२
ममेदमिति मात्येव	३०३	महाफलप्रदास्तुङ्गा	१६८	महोपसर्गं पूज्यस्य	३४७
ममैव सर्वरत्नानि	३०७	महाजलमहीशास्य	४८८	महं मनोहरोद्यानं	४४६
ममोपकारकावेता-	२२४	महाजलाख्यः पुरि नन्दने दृपः	१२७	मां निविष्टं समन्येय	४३७
मया कृतो महान्दोषः	२५४	महाबलोऽभवत्सुपु-	७	मां भोजनेत्युवाचैत-	५११
मयाऽं तदुक्तमित्येत-	२६५	महाभये वा सम्प्राप्ते	३१६	मांसाद्याहारसंलको	४७४
मया त्रैलोक्यराज्यस्य	०७	महाभयेषु सन्वर्तुं	२३३	मा कृष्याः पापदुःखाप-	३१२
मया नीतमिदं देवी-	३०३	महामागाहमर्थी त्वां	३५८	मागघाटीन् सुरान् जित्वा	३८२
मया रथलां निश्चित्य	१५१	महाभिमानमादित्य -	४६७	मागघोऽपि शरं वीक्ष्य	३२३

माघज्योत्स्ना त्रयोदश्या	१३०	माघोनवत्यरे याते	२४७	सुहृविष्वत्सुहृन्मूः	३१८
माघशुक्लचतुर्थ्यां सा	६८	मासैः षोडशभिः पञ्च-	२, २६	मूढः प्राणी परां प्रौढि-	३०
माघशुक्लचतुर्थ्याहः	१६	मासैः षोडशभिः षाड्-	१६८	मूढात्मनः स्वयं चैत-	३३६
माघे मासि चिते पक्षे	४	माहाद्यः कुलचौरूप्य	२८६	मूलमेदेन तान्यष्टौ	२२४
मातङ्गास्तुद्धदेहत्वा-	३१८	माहेन्द्रे दिधिजी भूत्वा	४०१	मूलात्मभृति भूजस्य	४६२
मातरः केवलं नेताः	३६०	मित्रवीरो वनेशस्य	४८५	मूलान्मुत्खन्य सङ्गह्नुच	३४७
माताग्निना च तस्यैव	४०६	मित्रस्य रुद्रदत्तस्य	३४८	मूले ह्युपविशेषस्या-	३४७
माता ते दान्तमत्यन्ते	११३	मिथिलां प्राशित्तस्यै	२३३	मृगाः कांश्चिन् वाघन्त	५५०
माताऽपराजिता केशवतो	२४१	मिथिलार्यां महीपालः	३३२	मृगानितस्ततो घोरं	३८५
माता श्रीनागदत्तस्य	४६३	मिथ्यात्वं संयमाभावं	१४८	मृगावत्यामभूत्पुत्र-	४५१
मातैर्षा यमुनादत्ता	३८८	मिथ्यात्वाज्ज्योतिषां लोके	२२२	मृगोऽगाद्वायुवेगेन	१५३
मात्रा संयोज्येत्याह	५१७	मिथ्यात्वोदयसम्भूत-	१५८	मृग्यमायो हि मे वल्की	५१०
माघे मासि चिते पक्षे	१००	मिथ्यापापापवादाभ्या-	२७४	मृताः केचित्पुनः केचित्	३२०
माघधे शुक्लपक्षान्ते	१२८	मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त	४८०	मृतिप्रयोगसम्पादी	२७०
मानभङ्गः सपत्नीषु	२६०	मुक्तावलीमुपोष्यासी-	४०२	मृत्युं वा धर्मचक्रेण	१७१
मानभङ्गेन भनः	१३२	मुक्त्वा विधाय सन्धानं	५४७	मृत्वा जाताष्टमे कल्पे	४०२
मानसः स चतुर्भेद-	१५६	मुक्तिमार्गं नयन् भव्य-	२३७	मृत्वा तत्रैव कालान्ते	१५१
मानस्तम्भा सरास्येता	१७२	मुक्तिमार्गं समाश्रित्य	७६	मृत्वात्र खगशैलोदक	११८
मानुषायां सुयायाञ्च	४६१	मुक्ताम्भोजानि सर्वेषां	४६१	मृत्वा माहेन्द्रकल्पेऽभू-	५४२
मानुषोत्तरमूर्धान्त-	१८८	मुखेनाम्भोजमक्षिभ्या-	१४१	मृत्वा पुलिन्दीसञ्जाता	४०२
मा मैथीरिति चौहार्द	४५०	मुख्यसर्वशर्षसिद्धिं	४७७	मृत्वा सम्प्राप्य तद्ब्रह्मं	५१२
मा मैथीस्त्वं वरकोऽसौ	३६०	मुग्धे फणीन्द्रनिश्वास-	२६१	मृत्वासावसुरेन्द्रस्य	२६१
मा माया मा वृथा यामा	११	मुच्यतां मङ्क्षिष्यं याव-	२६४	मृत्वा हैमवते भूत्वा	४०५
मामिहान्योऽहमत्यन्त-	३८३	मुद्रिकाञ्च प्रयत्नौ तौ	४१५	मृदङ्गादिगजेन्द्रादि	१५०
मायथाऽसुरापस्य	२७०	मुनि धर्मरक्षि नाम्ना	५२६	मृदङ्गे पतिते भूमौ	५३५
मायीचमानसे स्निग्धः	२७६	मुनि सागरसेनाख्यं	५४३	मृदवः शीतला ऋक्षणा	३६१
मार्गंशा गुणजीवानां	३२६	मुनिः संन्यस्य कालान्ते	१७७	मृदवस्तनवः स्निग्धाः	२०४
मार्गशीर्षसिधिकादशी-	२३५	मुनियुतामिषं कीक्ष्य	४८८	मृदुवाहुयुगान्नीत्वा	२०३
मार्गशीर्षे चिते पक्षे	६८, २१६	मुनितापगणाकीर्णः	१७	मृष्टाशनेन सम्प्रोष्य	५४०
मार्गे स्थितां सदा यादवेशिनां	३७५	मुनिवैभाषे भो भूप	११६	मेघनादः प्रवीन्द्रोऽभू-	२११
मार्गेऽस्मिन्वतमानस्य	१६६	मुनिभिर्बहुभिः प्राहे	२३	मेकमालेव कालेन	४११
मालां वा लुप्तचारां तां	४१८	मुनिमातपयोगेन	२१५	मेघभीरनयोः सूनुः	२७८
मालां सन्तानकाख्यानं	३२४	मुनिश्च तद्वचश्चेत-	४५१	मेघादिद्युद्विशेषो वा	४५६
मालां सम्प्राप्यवमीत्या	३६२	मुनिसुव्रततीर्थेश-	२५६	मेघामरकुमारोप-	४२०
मालान्तकनका सिद्ध-	४०२	मुनिसुव्रततीर्थेशसन्ताने	३३२	मैत्रीभावः ससन्धिः स्या-	२८२
मासमार्गं परित्यज्य	१६८	मुनिस्तदिङ्गिताभिः	५५३	मेरुमन्दरमहाभिधानकौ	१२०
मासान्धश्चदशप्राप्त-	२०३	मुनीनां दुर्विधानां च	७७	मेरुषेयायैकाद्यायैकामि-	२२
मासान् षोडश मासाद्	२३४	मुनीन्द्रादावयोर्यस्याः	४१७	मेरुरूपेण सम्पातात्	४१८
मासाद् द्वादसंप्रानो	१५७	मुनेर्षी विनयेनैव	४४५	मोक्षमार्गं इति श्रुत्वा	४७२
मासे भाद्रपदे ज्योत्स्ना	६०	मुनी सागरसेनाख्ये	५५२	मोक्षमार्गमनुष्ठाय	३२८
मासेष्वहःसु माघार्ध-	५५८	मुमुक्षोर्हृत्तत्त्वस्य	७६		
		मुह्युह्युस्तदाकर्ण	१०६		

तेहमागं रिधतः पाता	१६३	यथा बहुगुणीभूता-	२०८	यस्यास्यान्वज्जवाभिङ्गया-	१७३
मोचयित्वाऽनुवृष्येती	१७३	यथाविधिप्रतीक्ष्येन-	४१५	यस्योऽनुक्कतकृत्वा	५५६
मोहं विधित्पुमिस्तस्य	५३१	यथा वृत्तान्तमेवैषु	५१८	यस्योत्पादमनुप्रसादमगम-	७५
मोहनिद्रां विहास्यन्ति	३४	यथा शाब्दादिभिः प्राची	२७२	यागः सिद्धयति शकाणां	२५६
मोहमल्लममल्ल यो	२३३	यथास्थाननिवेशेन	२०२	यागमृत्युफलं साक्षा-	२७२
मोहशत्रुर्हृतच्छायो	३४	यथेष्टे विचरेत्येतत्	३५४	यागमृत्युफलैर्नैषा	२४०
मोहोदयोमयाविद्ध-	३६	यथोक्तं भावयित्वा-	४३३	यागव्याजं समारभ्य	३५८
मौनेनावस्थिता वीक्ष्य	५२३	यथोक्तमभुञ्जा भावा-	५५५	यागे यज्ञः त्रैतुः पूजा	२५७
मौलिमौषधिमालाञ्च	४१५	यथोक्तमिष्टुत्य	४५३	यातु मत्यादशेषां स	३१०
	[ य ]	यथातश्चनक्तरेण	६०	यातैः कतिपयैर्देवी	४८
यः कर्मव्यतिहारेषु	१६०	यदातश्चनक्तरेण	२२३	यादवाक्ष तदायान-	३७५
यः पातालमुखीवाप्यां	४१५	यदि कश्चिच्चतुर्थोऽस्ति	१८०	यादवैः सविरादाख्यैः	३८०
यः पुत्रवदनाम्भोजं	४७	यदि कुप्येदियं ताप-	४८५	याद्विच्छिन्नं न चेदन्यत्	२८८
यः संघलनसंघस्य	१५८	यदि क्षत्रियपुत्राणां	६	यान्तीं ह्रष्टुं समायाता	५५१
यः स्वर्गधारसौख्याम्बि-	६८	यदि निर्मलसरासि त्वं	५०४	या प्रागवतरद्भार्गी	१७५
यक्षिणाख्योऽनुजस्तस्य	४००	यदि पूज्य प्रियां प्रेक्षे	३८३	यामेति दूतेनालप्य	१७०
यक्षी भविष्यतो राज-	४६५	यदि रोगजरदुःख-	१३६	यावदौदयिको भाव-	५५
यक्षो राजमती काल्या-	३८७	यदि वाञ्छेरिति क्रोधायां	४८४	यावद्भार जलनिधि-	५७७
यक्षं कथं चरन्त्यार्या	२५८	यदि विद्येत चर्यायाः	१२५	याही पञ्चलता सापि	४६३
यक्षिण्यं समालोक्य	२७५	यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्त-	५७८	या स्वस्वैवास्त्य सा विद्या	२५
यक्षशब्दाभिषेधोद-	२५७	यदृच्छ्याप्यसम्भेदं	२३	युक्तमेतदयुक्तं चे-	३३८
यज्ञाय वंधसा सृष्टा	२६६	यदृच्छ्या वनं यात-	१११	युगपत्त्रितयं कर्म	३६६
यज्ञार्थस्त्रात्र तस्यास्ति	२७२	यद्यज्जनपदस्योक्तं	४५	युद्धं धनरयाधीशो	१८६
यज्ञेन प्रीयिता देवाः	२७०	यद्यदालोक्यते तत्तत्स्व-	४६	युद्धभूमिमभिधाय	३१६
यज्ञे पशुवधाद्धर्मो	२७२	यद्यद्याच्छिष्टदोषञ्च-	४७५	युद्धवीर्यं प्रहरणावरणां	१५६
यतः परं तदुद्भूतेः	३४३	यद्येष तत्समायोग-	५४८	युद्धान्ते नौ तदा धीरो	२४२
यतः समुद्रमुत्स्य	४३३	यमाच् सोऽपि गतप्राणान्	३६५	युद्धायास्फाल्यतां मेरी	३१५
यतयोऽयुतपूर्वाणि	४३६	यशः कुन्देन्दुनिर्भासि	१६६	युद्धे पुरुषकारेण	५१६
यतोऽभीष्टार्थसंविद्धि-	२६	यशः प्रकाशयत्याशाः	६६	युद्धे भङ्गं विधायेन्द्र-	४०३
यत्किञ्चित् सञ्चितं पापं	२०१	यशसा लेशयथा चास्य	५७	युद्धे श्रीविंजयोप्येन	१५६
यत्कामान्नराजन्य-	५७३	यशोशुरुहिष्ठं	७	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१६२
यत्कृत्वात्तत्क्रुदात्मनि तद्धि	५६७	यशोधरा तयो रबायुधः	११५	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
यत्सर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा	४२२	यस्मान्दान्यां कुमाराभ्यां	२८६	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
यथाक्रमं नृपोऽप्युक्त्वा	२३४	यस्य जीवादिभावानां	४७६	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
यथा तथाहं कर्तास्मि-	२५६	यस्य नामापि घर्तृणां	३३१	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
यथान्यायं प्रजाः सर्वाः	५३६	यस्य निष्क्रममाक्रम्य	४६७	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
यथान्यथोपयुक्तं सः	२७२	यस्य प्रांशुनखांशुजालप्रखर	५७४	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
यथा न्यासीकृतं इत्ते	१०६	यस्य हस्तगतो जेतुं	५४८	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
		यस्याज्ञां मालतीमाला	४४६	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७
		यस्यानताः पदनलै-	५७३	युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१४७

सुध्मदीर्घं भुवि ख्यातं	१६६	रत्नमाला इत्वं भास्वद्	१४८	राजपुत्रस्यूहेन	२२७
सुध्मदग्ने महाखलं	६२	रत्नवत्या च सम्प्राप्य	५२६	राजभिर्वहुभिः सार्धं	५६, २३४
येन तादृग्विषं ग्रन्थं	२६०	रत्नसंचयनामात्र	४०६	राजमार्गा विराजन्ते	२०१
येनाप्तानिनिषेधैरयमयी	२४	रत्नहारं तिरिदं च	३२४	राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि	५१
येन शिष्टमुक्त्वन् विमुक्ते	२३७	रत्नाद्युपायनोपेतं	६२	राजसिंहचये लङ्घि-	१३३
येन सिद्धो हतः सिन्धुदेशे	१४६	रत्नानि चात्मसात्कृत्य	३२४	राजाऽत्र व्याकुलीभूय	११५
येषां प्रमेयवेसुं सुमुखप्रमार्शुः	५६६	रत्नानि निषयश्चास्य	५३	राजा तामिन्द्रसेनस्य	१६२
योगालम्बनसंघं ह्यं	१२२	रत्नान्युपायनीकृत्य	३७८	राजा नन्दामिधस्तस्मात्	५६५
योगस्ताप्यो महास्तस्य	२३३	रत्नान्येतानि सतैव	३२५	राजा प्रागपराजितो जितरिपुः	३८
योगोऽयमुपिभिः प्रोक्तो	२५६	रत्नान्युपोऽन्यकल्पोत्थ	११६	राजा मद्रपुरे वंशे	७२
योऽजायत क्षितिभूदत्र	७०	रत्नावलंसिका माला	३२५	राजामूर्खलिनप्रमः प्रमुतमः	८३
यो ज्ञानशायकक्षेय-	१५८	रत्नैरपूरयन् देवाः	७२	राजा महाबलस्तत्र	१६
योद्वुं प्रक्रममार्शुं मां	१५४	रथनूपुरनाथेन	१४६	राजा राजपुरे सत्य	५०२
योद्वुमाभ्यां समं भीम	२४२	रथनूपुरसुहृश्य	१५६	राजापि श्यामलाख्यां स्थां	३५५
योभयं मम कर्ताऽत्र	५४६	रथनूपुरराजासौ	१४७	राजा श्रीधरदेवोऽपि	११४
यो रत्नसञ्चयपुरेशमहाबलाख्यो	२४	रथान्तकनकस्य स्वं	४०६	राजा सिंहपुरस्थाह-	५००
योषितां भूषणं लजा	४८	रथान्तकनकस्यायं	४१०	राजा सिंहस्यः ख्यातः	१४२
योषित्सु त्रतशीलादि-	४१३	रथैर्दिकचक्रमाक्रम्य	३१८	राजा सूर्यप्रमस्तस्य	३४०
यौषाः पुष्टा महामात्रा	५२५	रथपीयाभिषं कृतव	५०२	राजास्वयम्बरोनाम्ना	२०
यौवनं जरसा प्राप्त्यं	८	रथ्मास्तम्भादयोऽप्येषा-	२८	राजेव रञ्जिताशेषः	४६४
यौवनापूर्णसर्वाङ्ग-	१४२	रथ्यरामामुल्लाम्भोज-	१६	राशः काश्यपगोत्रस्य	३७७
[ र ]		रथ्या च रथ्यकाख्या	१८६	राशः कुण्डपुरेशस्य	४६०
रक्तस्य मनसा वृत्तिः	२५	रथिमवेगसुवेगादि	१५६	राशः क्षमकराख्यस्य	१७७
रञ्जितास्यारविन्दारब्धो	४२६	रथिमवेगादिभिः सार्धं	१५६	राशां महागुण्यास्तास्मिन्	३३
रञ्जिताऽस्यात्कुमारं तं	२२८	रथमावसमाविष्टं	४१५	राशां स भविता नाम्ना	५५८
रञ्जितैस्तस्योऽप्येषां	५१७	रथातलं गतोऽप्यद्य	५२५	राशा तुष्टवतावादि	३५७
रघुः पुरातनो भूपः	३४४	रथानादिपाकाख्य-	१५२	राशा स्वं प्रतिषिद्धोऽपि	३५४
रत्नस्येवं नमोभाग-	३१६	रहस्यकार्यवाह्यत्वं	२६०	राशाप्याशापिता यूयं	१०
रञ्जितस्फटिके तत्र	१५१	राक्षसेन विवाहेन	३२०	राशीं राजा समालोक्य	४६५
रतिरञ्जिन्नसन्ताना	६६	राक्षसेन हतस्तस्मात्	४६०	राशीं चैष महापुण्य-	५२०
रतिषेधा रतिश्चैत्य	१६५	रागादिदोषनिर्मुक्तो	४४३	राक्षेव योग्यदण्डेन	२६८
रत्नं ममानिवेधेदं	३०७	रागादि दोषहीनत्वा-	४३३	राशोक्ते प्रथितो हन्तुं	२५१
रत्नतेजाः मिथा तस्य	५१२	राघवः कुराली देवं	३०६	राज्यं विनिजिताराति	२५
रत्नत्रयेषा येनाप्तं	६२	राजगेहं जरासन्ध-	३६१	राज्यं विभज्य तत्सैरं	५३०
रत्नप्रमां प्रविश्यैव	४५४	राजगेहं समीक्ष्यैर्न	३६४	राज्यं विभज्य दिक्पालै-	३५३
रत्नप्रमां प्रविष्टः सन्	४७३	राजगेहं समुहृश्य	४६६	राज्यभारं परित्यज्य	५१८
रत्नप्रमाबिले सर्पा-	४०६	राजगेहाद्विनिर्गन्तु-	३५४	राज्यमीरं समारोप्य	७२, २१२, २४६, ३३१
रत्नमालां गले कृत्या	५४८	राजते स्म तपोराज्ये	११	राज्यभोगैः स्वकान्तामि-	१६५
रत्नमाला गदा सीरो	३८३	राजन्नेतानि शास्त्रोक्त-	३६८	राज्यमस्यैव मे स्थाहाद्	४५०
रत्नमाला तपोरासीत्	११७	राजपुत्रमनुस्ताई	२८३		

राज्यलक्ष्मी चिरं भुक्त्वा	४५५
राज्यलक्ष्म्या ध्यमाल्लक्ष्मी	१७८
राज्यसंप्राप्तिकालस्ते	२३६
राज्यस्य कृतमोऽत्रेति	४७१
राज्यस्य दुर्भारं भारं	२६
राज्यस्याहोऽयमेवेति	४७१
राज्ये पञ्चसहस्राणि	३३३
रामं वा दुरगारुद्ध-	२६२
रामदत्ता ततश्च्युत्वा	११४
रामभट्टारकेषाहं	३०५
रामस्यापि गदा रत्नमाला	८५
रामाभिप्रेतकार्यस्य	३०५
रामे चेत्प्रेम तद्विद्धि	३०१
रामो नाम बलो भावि	२६४
रावणस्तेषु नः शत्रु-	३०६
रावणानु जसुग्रीव-	३०३
राष्ट्रेऽस्मिन्नैव विख्याते	५११
रासमीरूपमापाद्य	३६७
राहुप्रसार्कसम्पाताद्	३२७
रिपुत्रयमदण्डः पुंडरीकि-	३१
रक्षिमण्यौ सत्यमामा च	३२३, ४१६
रक्षिमण्यथा महादेव्या	३६६
रुचकाख्ये विमानेऽयं	११५
रुचिः प्रवर्तते तस्य	५५७
रुद्रदत्त त्वया प्रशा-	४६६
रुद्रदत्तोऽगमत्पञ्चाश्रौ	४६६
रुचिषो रावणो वृते	३१३
रुद्रं पञ्चविधं श्वेत-	५२३
रूपमालोक्य तत्कोऽय-	१५३
रूपयौवनसौन्दर्यं	१३६
रूपलावण्यकान्त्यादिः	२०१
रूपशोभां विना नेमः	२८
रूपादिगुणसम्पत्ति	१४१
रूपादिगुणसम्पत्त्या-	२८०, ३३६
रूपाद्याः स्त्रीगुणास्तस्याः	४७
रूपान्वयवयःशिञ्जा	५४
रूपिणी सुमगावृत्त्यगीत-	६१
रूपीव शौभमखिलं	३७२
रूपेण केवलेनेयं	१७५
रेणुकीत्यभिधां तस्या	२२४

रोगोरगायां तु श्रेयं	३६
रोचो गुत्यादिभिस्तेषां	२४४
रोहिण्याः पुण्यभाक्पद्म-	३६०
रोहिण्यतो मनोबिगा	१६५
रौद्रराक्षसगन्धर्व-	४६०
रौरवेऽजनि दुष्टात्मा	२७०

[ ल ]

लक्षं त्रयं विनिर्दिष्टा	२२१
लक्ष्णैरेष भिन्नाशी	२६१
लक्षत्रयायुःपूर्वोक्त	१३५
लक्षत्रितयसंमिष्टि-	२३
लक्षपञ्चप्रमाप्रोक्त	२३
लक्षपञ्च दुर्पूर्वायां	४०
लक्ष्मासमायुश्चत्वारिंश	२०४
लक्ष्मणां नायकं कृत्वा	३१०
लक्ष्मणप्रमुखान्मुखान्	३१३
लक्ष्मणश्च जगत्याद-	३११
लक्ष्मणप्राक्रमविक्रान्ति-	२८८
लक्ष्मण्यापि सुनि नत्वा	४०१
लक्ष्मीः परिकरस्य	१४०
लक्ष्मीः सद्गचरी तस्य	६८
लक्ष्मीरनक्षरी तेषां	२५
लक्ष्मीरिवादिचक्रेशं	५१५
लक्ष्मीर्लाटपट्टेऽस्मि-	२०५
लक्ष्मीर्विक्रमशमस्यायात्	३४
लक्ष्मीर्लाञ्छनमेनास्य	४५१
लक्ष्म्यौ कपोलयोर्लक्ष्म्या	२७
लक्ष्म्यौ नवे युवानौ	१६७
लक्ष्म्याभ्यांनिवृत्तः सन्	५१०
लक्ष्मणो चरसंशुद्ध-	३२४
लक्ष्मादाहेन दाहं च	३१३
लक्ष्माद्रीपादिषु स्वैरं	३४७
लक्ष्मानगरमासाद्य	२६८
लक्ष्मापुरत्रिभुगि	२१४
लक्ष्मापुरेऽप्यशुभतो	३११
लतां समुत्सुकस्तन्वीं	२८७
लब्धकालादिरासोऽपि	३६
लब्धनिष्क्रान्तिकल्याण-	४
लब्धवोधर्मितज्ञान-	२०८
लब्धवोधिः समाभिस्य	१७७

लब्धवोधिःसमुत्पन्न-	१६
लब्धलोकान्तिकस्तोत्रः	७४
लब्धा प्रीतिङ्कराह्वान-	५४५
लभेयामिति तद्वाक्य-	५४५
ललाञ्जिहाशताल्युग्र-	४६३
लामो लामेषु पुत्रायां	६
लिखितौ वा सजीवनां	४५७
लिलङ्कयिषवोऽन्योऽन्यं	२२
लीलावलोकनैर्हासै-	३६०
लुब्धो न लभते पुण्यं	५२
लेश्या यस्य मृशालनालधवला	६५
लोकद्वयहितं मत्वा	३२७
लोकद्वयहितो नान्य-	२५३
लोकनानन्तरं नत्वा	५०६
लोकनाल्पन्तरव्यापि	१२८
लोकपा लाञ्छिलोकानां	२०४
लोकमानो नभो राम-	२६२
लोकमानो विभङ्गेन	४३८
लोकेन च विमुञ्जाकुली-	४७४
लोकोऽयं देवलोको वा	८१
लोचनाभ्यां हरेर्वाभ्य-	४५६
लोभघर्मासुराह्वादि-	३०४
लोभाक्रान्ताशयो देशात्	२६७
लोभात्सहस्रबाहुश्च	२३०
लोहनामा चतुर्थः स्या-	५६४
लौकान्तिकैः समभ्येत्य	१२३

[ व ]

वक्तुं धारयता यशो	२६८
वकील्येतन्निमित्तानि	४१३
वक्तृश्रावुकथांभेदान्	१३८
वक्त्रलीलां दधद्राष्ट्र-	१३६
वक्तोदन्मलौ वारि	२८८
वङ्गाख्यदेशो मिथिलानगरे	३३४
वचस्ववसिते तस्य	२५७
वचोऽवोचद्विचार्योञ्चै-	३१३
वज्रपातायितात्समा-	३७०
वज्रमुष्टिस्तद्रालोक्य	३६०
वज्रायुधकुमारस्य	१८०
वज्रायुधेऽय भूनाथे	१८०
वज्रपाय वदितेवङ्गै	२८
वट्टमसनीपस्यो-	४७०



बाष्पाविलविशालाक्षी	५१६	विशाय तां निवेद्यैत-	५०७	विद्वत्स्वरुचिरत्रले	१३८
वासुदेवस्य रूपेणा-	४१८	विशयाद्यात्र विश्रम्य	५१६	विधाय जिनिविन्नाति	४८
वासुपुण्यजिनेशस्य	१३४	विडम्बनामिदं सर्वं	२३६	विधाय दशधात्मनं	८६
वासुपुण्येशसन्ताने	६८	वितर्कयन् कदम्बोद-	३००	विधाय निहृतस्थूया-	४२१
वायोरेन्द्रस्य पूज्योऽयं	८७	वितर्कयन्तमित्येनं	१६०	विधाय मद्यमार्तादि-	५१७
विंशतिः स्युः सहस्राणि	३३५	वितीर्णवान् सुतां तुभ्यं	४७१	विधाय यौवराज्यञ्च	४४६
विंशतिं वत्सराग्नीत्वा	३०	विदधात्यस्य दुश्चेष्टा	४१०	विधाय वाङ्मुपूज्यं च	८८
विंशत्यभ्युपमात्तायुः	६७	विदर्भनाममुखाद्या-	६६	विधाय विचया प्राग्व-	४१६
विकसनीलनीरेजसरोजालि-	४६	विदार्थं प्रविशत्याया	२६४	विधाय विधिवद्भक्त्या	१५३
विकायसायकैस्तीक्ष्णैः	३४३	विदितकलशालाभो	५७६	विधाय विपुले मार्गे	६६
विकृत्य रूपं स्वं तत्र	४८४	विदुरेषु दृपैर्यै-	३८०	विधाय विमलां प्राप	४०६
विकृत्य विविधान् बाहून्	३७८	विदेहे धातकोत्पण्डे	३६	विधाय सङ्करे भङ्गं	६२
विक्रमेषुव वक्राणां	३३	विदेहे मङ्गलावत्यां	४५८	विधाय स महानिद्रा-	४१०
विक्रियाबलतेजोभिः	६७	विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासी-	१०२	विधास्यते ददामीति	५०१
विक्रियावधिवीर्यवित्	४०	विद्यां सा भ्रामरीं नाम्ना	१५३	विधाय हृदि योगीन्द्र-	४५६
विख्यातविन्ध्यनगरे	६६	विद्याधराद्वयप्राग्भागे	१८३	विधायार्हमनाहार-	४३७
विगलन्मालतीमालाः	४६६	विद्याधरीः समाहूय	२६३	विधित्सुपुं क्युश्रुषा-	२७३
विग्रहं तदग्रहं मत्वा	६	विद्याधरेण केनापि	४१४	विधित्सुर्निग्रहं सुग्रं	४७१
विचार्यं ते त्रिदोषोत्थ	११६	विद्याधर्यो वयं लङ्का-	२६३	विधीविषयसंस्तौ	८६, ५३६
विचिकित्सा नदीतीर-	३६७	विद्यापूर्वां विधाय्यास्य	५४	विधीर्वैधा न चैदस्मि	५१
विचित्रकरवन्देय	४६४	विद्याम्याठाद्विना बाल्यं	४४५	विधुं सोऽबो विधावैव	१८
विचित्ररङ्गवल्लीभि-	२३५	विद्याविनाशामयान्ति	३०१	विधूमन्मन्मकूप-	४३४
विचिन्त्येति यतीन् भक्त्या	२६३	विद्यासाधनविघ्नार्थं	१८२	विध्वंस्य विश्वकर्माणि	८३
विच्छिन्नचरणाः पेतु-	३८१	विद्युच्चौराह्वयं कृत्वा	५३२	विनम्रविश्वविद्येश-	१६६
विजयाख्यं पुरं गत्वा	३५५	विद्युत्प्रभः सौमनसः	१८६	विनयव्युत्तभूपाल-	३७१
विजयादागतं देवं	३	विद्युत्प्रभाह्वय ख्यातो	१८८	विनयश्रीः सुता तस्या	४०४
विजयाब्जं समापूर्यं	३२२	विद्युदादिप्रभावेणो	५३१	विनयश्रीरिति ख्याता	४०३
विजयाया ह्लेशस्य	१७५	विद्युद्द्यूतिवल्ग्वनी-	१६	विनयश्रीं रैदसस्त	५३२
विजयादिसमाचक्ष	५२४	विद्युद्दंष्ट्रं च सामोक्तै-	११६	विनयोन्नयनिर्णीत-	५०६
विजयाद्विगिरेमुं धिन	२६७	विद्युद्दंष्ट्रः सुतो जातः	११८	विनश्यति न मे शीलं	२६३
विजयाद्वेगुहायां तन्नि-	१५२	विद्युद्दंष्ट्रादिकान्यञ्च-	४१२	विनष्टेयवदत्तस्य	३४५
विजयाद्वीलाकाख्येशो	१६१	विद्युद्दंष्ट्राह्यो विद्याधरो	१०६	विन्यस्य मणीभामासि-	५४८
विजयाद्वीलकापुर्याः	३६५	विद्युन्मत्याश्च तस्यैव	१६३	विन्यस्य राज्ययोग्योद्-	२८३
विजयावर्षं सुरीभूत्वा	४०१	विद्युन्माला तयोः सूत्र	४३१	विना पित्रोरनुशाना-	५४८
विजयेनात्र लम्बेन	४५४	विद्युन्मालिन एवामू-	४५३	विनार्थिभिरपि त्यागी	२१८
विजिगीषुः किलाद्याभू-	३७६	विद्युन्माली भवेऽतीते	५३७	विनाशो रावणस्येति	२७६
विजिगीषुर्षुयैः षड्भिः	६०	विद्युन्मालेति भूत्वा तुक्	३४४	विनिःक्रमयकल्याण-	६०
विजुन्मयाएवार्ह्याम्भो	४६३	विद्युन्माल्येष देवोऽभू-	५४३	विनिहृतपरत्तेन	१०१
विजुन्मितमतिशान-	४३७	विद्युललाताभिधा चूर्ण्य-	५०५	विनीतचाराख्यास्येन्दु-	४०३
विज्ञापयति मत्त्वामी	३०६	विद्युललातेव देवादि	१६४	विनीतो यौवुनारम्भो-	५३१
विज्ञाप्यादापयन् कन्यां	५०२	विद्वत्सं सम्भरिञ्चत्वं	१३८	विनिघातस्य जन्तूनां	३२८



विनेयोऽहं कृतश्राद्धो	४६८	दिलोक्य गन्धमाःयादि-	३६८	वश्वभूतिः पतिस्तस्य	८४
विपाकसूत्रपर्यन्त-	७२	दिलोक्य चारुशद्वन्द्वं	५१७	विश्वभूतिस्तपः प्रायात्	८४
विपुलावनललक्ष्मी-	१८	दिलोक्य चित्रचूलाख्य	१८४	विश्वभूतिःशशाखादि	८४
विपुलाद्रौ हताशेष	५२७	दिलोक्य तं महानाग-	४३०	विश्वव्याखलितं प्रशस्ति-	५७१
विप्रस्थं षट्प्रमाणादी	४७८	दिलोक्य तं मृगं मत्वा	४४४	विश्वान् देशान् विद्वत्पान्ते	३८७
विफलानिनिषत्वा स्तो	८३	दिलोक्य तद्वले मङ्गं	५२६	विश्वान्वैषयिकान्भोगान्	४३४
विमज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां	६६	दिलोक्य पाण्डुभूपालो	३४५	विशवावलोकनवितन्वदनन्त-	५६८
विमाति गोपुरोपेत-	२०१	दिलोक्य भवति-प्रीत्या	४८४	विशवासा व्यानशो तस्य	१७८
दिभासि भयतोस्तेजो	२८१	दिलोक्य मुद्रामुद्भिद्य	४५२	विषयद्रुमसङ्कीर्णं	४६५
विमीः शकनोषि किं मर्तु-	२५२	दिलोक्य रागाद् भूपेन	१४५	विषयार्थपतिभूत्वा-	२७१
विमीषणशानित्वेन	२७०	दिलोक्य विद्विक्त्रोद्यौ	१७३	विषयाल्पसुखेभ्यं	५३४
विमीषणाद्यः केचित्	३२८	दिलोक्य स्वयमायेत-	४७८	विषये पुण्डरीकिण्या-	४०१
विमीषणादिमिश्रामा	३२८	दिलोक्यानङ्कनिसुक्त-	४८४	विषये पुष्कलावत्यां	३४१, ४४४, ४५६, ५३८
विभूतिमद्वितीयैवं	३६४	दिलोक्यानन्तरं राशा	५४४	विषये मङ्गलावत्यां	५३
विभूष्य पितरौ चास्य	४६१	दिलोक्यापातमुल्काया	५०	विषये वरवासाख्ये	४८२
विभूष्य भूषणैः सर्वै-	५७	दिलोक्यास्मात्क्रियद्वूरं	४६६	विषयेषु तदैवासौ	३
विभ्यन्त्योस्तमाधावन्	३३४	दिलोपितस्तदा पद्म-	४०५	विषयेषु विषक्तः सन्	३३७
विमलबाह्वनमाहवदुद्धरं	५	विनिर्जितार्तध्यानस्य	४३१	विषयेव चेत्सौख्यं	७४
विमलायाः सुता मङ्गी	३८६	विवादोऽभूमहास्तत्र	२६७	विषवल्लीफलान्याशु-	४०५
विमलेऽब्दवसे बोधे	६७	विवादी यदि मङ्गोऽत्र	२७३	विषस्तनपयःपाय-	३६७
विमानेऽनुपमे नाम्ना	६३	विवाहविधिना तौ च	५२४	विष्टामालोक्य बालस्य	५४०
विमाने श्रीशरो देवो	११३	विवाहविधिना पद्म-	४६२	विष्ट्वा क्षुद्रविलादीनि	५५६
विमाने स्थापयित्वाशु-	४१८	विवाहाचितविन्यासे-	१४५	विष्णुयोगे महाभाग-	८०
विमुक्तमन्त्रिभिः सार्धं	४६६	विशाखनन्दः संसारे	४४१	विष्णोः स्वयम्प्रभायां च	१४८
विमुक्तविद्वत्सिर्मातं	३१	विशाखनन्दस्तं दृष्ट्वा	४४६	विष्णार्जुनकुमारेण	४१६
विमुज्य लोचने तस्मै	२७६	विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा	८५	विस्वर्जनाय मद्रस्ते	४६८
विमुक्तोऽस्मि वशिष्ण्वर्य-	५२५	विशाखनन्दी विहित-	८६	विस्वर्जितवतो नन्द-	३७५
विभागमेतयोः सोढु-	२८१	विशाखभूतिपुत्रेण	८४	विस्वर्ज्यं बन्धुवर्ग्यं	४२४
विरक्तः संयुतेः पूर्व-	६६	विशाखभूतिरेतस्य	४४६	विस्वर्ज्यं तथावशा	५७७
विरक्ता चेत्यया देव	२८६	विशाखभूतिर्यरणीपतिर्यमी	८६	विस्वर्ज्यविलोकयैनं	३५३
विरजेन शिरोजेन	२६८	विशाखभूतिस्तस्मै	१२३	विस्वर्ज्यतामिति प्रोक्तोऽ-	३११
विरज्य राज्यमोगात्-	२१८	विशाखर्षे चतुर्दश्यां	८६	विस्वरेण किमुक्तेन	३१२
विरज्य राज्यमोगेषु	२१५	विशाखर्षे स चक्राङ्को	२५५	विस्तृताभिनिशनस्य-	३८५
विपाटभूपतेर्भूरि-	४२१	विशुद्धपदुगलारब्ध-	४६१	विस्मयात्परितः पर्यन्	५४६
विरन्तव्यमितो धर्मा-	४०८	विशुद्धयोः प्रसिद्धित्वात्	४५३	विहरन्ती वने वीक्ष्य	२६८
विरसान् सरसान् मत्वा	१६	विशुद्धिपरिणामाना-	२४०	विहरन्नासमात्रायुः	२१०
विलाङ्कितं बलं विष्णो-	३८२	विश्रम्भहासतंस्यर्श-	५५	विहर्तुं श्रित्यतस्तस्य	५१७
विलासिनीं करोद्ध-य-	५४८	विरलेष्य षोडशदिनानि	५२७	विहर्तुं विपुलोद्याने	१५४
विलासैर्विभ्रमैर्हवि-	१६४	विश्वकर्ममलैर्युक्ता	४२५	विहर्तुमुद्यताः सर्वे	३८६
विलोक्य किल कालेन	८२	विश्वनन्दिनमाहूय	४४६	विहायादिक्रमायातं	७८
विलोकिनीनां कान्तानां	५६	विश्वनन्दी तदाकर्ण्य-	४५०		

वहारमन्ते संहृत्य	६४	वैड्याधिपतिश्चायं	११४	व्रीडया पीडितः सोऽपि	२२४
विद्वत्य भाक्तिकाः काश्चि-	४२५	वैराग्यकाष्ठामारुहा	१३४	[ श ]	
वि स्य मासमात्रायुः	२५७	वैजयन्ते त्रयस्त्रिंशत्	५६	शंसन्ति निरिचते कृत्ये	३०८
विद्वत्य पुनरागच्छन्	५३८	वैजयन्तो नृपस्तस्य	१०६	शकटं भाण्डसम्पूर्णं	३६४
विद्वत्य विविधान् देशान्	७५	वैजयन्त्यां बलो देवो	२३१	शकटाकारमादाय	३६७
विद्वत्य विषयान् प्राप	७०	वैरं वृहसि ते भ्राता	१०७	शकटपकालान्धन्तर-	५७७
विद्वत्य विद्वति त्यक्त्वा	३२६	वैराज्यपरिचारे वा	२८८	शक्तयो देवतानाञ्च	३६७
वीक्षते स्म प्रियामीषञ्चे-	३८६	वैशालकुम्भपक्षस्य	४३४	शक्तिव्रतयसम्पत्त्या	२३८
वीक्ष्य मङ्गला परीक्षार्थं	३८६	वैशालज्यौत्सपक्षादि-	२१६	शक्तिनाममद्वीशस्य	३४५
वीक्ष्य वचःस्थले सान्नात्	४३०	वैशाले मासि कृष्णार्था	३२६	शक्तिसिद्धित्रयोपेतो	?
वीक्ष्य विनाशतृत्वात्	१६१	वैशालस्य विते पत्ने	२०	शक्तिविद्ययुगामित्वा-	१४०
वीणां घोषवतीं चासु	३५६	वैश्वदेवं समादाय	५२०	शक्राशया तदा तत्र	३७६
वीणावाद्येन हृद्येन	५८	वैश्यः सर्वसमृद्धाख्य-	५४०	शक्राशया सनानीय	४६२
वीणास्वयं वरे तस्य	५०२	व्यजिज्ञपन्तुं सोऽपि	२२८	शक्राद्योऽपि कैङ्कर्यं	५८
वीतदण्डादिशक्त्याभिगमाः	४५	व्यतीतवति सध्यान-	३२८	शक्राद्या व्योम्नि दूरा-	४२५
वीरोति कन्वया प्राक्तो	३५७	व्यधात्तदैव ससाहा-	४३८	शक्रमानेति सा वीक्ष्य	३०३
वीतनीह्वारसज्योत्सना	७१	व्यधायि वेधसा तस्य	२०५	शङ्खं विजयचोषाख्यं	४१४
वीतबाह्वाधिकारोद-	७२	व्यरमत् सा समासक्ता	२६१	शङ्खदर्शादिभस्तिस्मिन्	५४६
वीतरागो पि सोऽप्याह	३४८	व्यस्तानानभिमीष्माणि	४६५	शङ्खनिर्नामिकाख्दाभ्यां	३५२
वीतलज्जा विमर्षाद्वा	३५४	व्याख्येयानि त्वया सर्व-	२६६	शङ्खनिर्नामिका राश्या	३६३
वीतभ्रमस्तमस्यन्दं	५०६	व्याजह्वार दुःपत्मानं	३०७	शङ्खमेरिगजारति-	२०३
वीरवत्याश्च नन्दाख्य-	४५६	व्यासं स्वल्पमया सद्ये विजयते	२४७	शङ्खा च नलिनान्या च	१८६
वीरसेनो महावीरो	४४१	व्याधः शृगालत्रनाम	११३	शङ्खिका च परिभ्रम्य	१६२
वीराङ्गजोऽभिलः सर्व-	५५८	व्याधाधिपैशृत्तानीतं	३०५	शङ्खेन्द्रनीलसङ्काशौ	८५
बुद्धिबेषो क्यादिश्च	४६६	व्याप्तमथ्यमणिच्छाया-	२०६	शङ्खो नाम धनद्वयाद्यौ	३६२
बृहन्मूले स्थितां वीक्ष्य	५३४	व्यामोहास्तुलसाप्रियस्तसुलसः	२७७	शतक्रतुः शतमखः	२५८
बृहत्कं तव वक्ष्यामो	४६६	व्यावर्णनादिरहितं	५७५	शतत्रयं स षट्चत्वारि-	३७५
बृहत्कं तस्य वक्ष्यामो	६१	व्यावर्णानानुसारं	५७५	शतसंनस्यरे याते	२३५
बुधो रक्षस्यो सुखस्पर्शो	२०६	व्युच्छिन्नायां तदभ्यन्तरायुः	८१	शतानि त्रीणि पूर्वाणां	४६८
बुधाटनं परित्याज्यं	३५४	व्युच्छिन्नेयुक्तिसन्मार्गे	२०४	शतानि पञ्च मन्थयत्य	१४२
बुधा त्वं याचितो विप्र-	३५६	ब्रजन्वने स्ववेलायां	४३०	शतानि नव विज्ञेया	३८७, ४६८
बुद्धग्रामं निजं गत्वा	५४७	ब्रह्मवक्त्रगलद्वारा-	४६७	शतानि षट्सहस्रं च	२२०
बुद्धिक्रियात्मधर्मस्य	१६७	ब्रह्मवैगन्ध्यसंस्क-	३५०	शतानि सप्तपूर्वाणां	२१६
बुद्धिरस्य स्वपक्षस्य	३७५	ब्रतं तपोधनाभ्याशे	४७०	शत्रुं मम समुत्पन्न-	३६७
बुद्धिमापातयिष्यन्ति	५६०	ब्रतं नैतस्य सामान्यं	४५७	शत्रुञ्चयकरं कर्म	२८२
वेदकोऽसि न वेद्योऽसि	६३	ब्रतं प्राणव्ययात्तेन	४५७	शब्दनिष्पादने लोपः	२००
वेदविद्भ्ररहिंसोक्ता	२७१	ब्रतशीलनिधिष्ठेषु	१६७	शम्भवाख्योऽभवत्सामी	१६
वेदान्त सूक्ष्मबुद्धित्वा-	१६०	ब्रतस्याभीप्सितं सौख्यं	७७१	शय्यातले दिनिचिप्य	२६६
वेश्यां वसन्तसेनाख्या-	४२४	ब्रतात्प्रत्ययमायाति	५५४	शरकुन्ताद्भिश्चौषे-	१०६
वेष्टिता रत्नशालेन	१३६	ब्रतितं तं ब्रतलोऽपि	१८४	शर्यादिविद्वितीयायां	३३३
वेत्ति चेद्ब्रह्मि सीता-	२८६	ब्रतेन जायते सम्पन्ना	५५४		

शरव्याप्तिः सरित्सेव	३३२	शिवङ्करे तदीशस्य	४६३	शून्यत्रयद्विसप्तोक्त-	६०
शराचनानि सन्ध्याय	३१७	शिवपुताभिधानस्य	३२७	शून्यत्रयसुनिप्रोक्त-	६६
शरीरं न भिन्नरूपं	३६	शिवशुभसुनेपन्ते	२४१	शून्यत्रयगुणाष्टोक्त-	८३
शरीरभोगसंसार-	१६६	शिवभूतेः समापभा	४८७	शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त-	१२३
शरीरबुद्धिस्तस्यासीद्	४६	शिवभूतेः शुद्धार्या	४८७	शून्यत्रिकर्तुर्विख्यात-	६०
शल्येन वृषसेनेन	३८०	शीतलाख्यजिनाधीश-	३६५	शून्यत्रिकदशश्लेष-	३७
शशस्य सिंहघोतेन	२६६	शीतलाम्मस्तटाकं वा	४४४	शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्त-	२४६
शशाङ्कः सेवकः प्रेमक-	५६१	शीतलेशस्य तीर्थान्ते	७५	शून्यत्रितयपक्षैक-	१७
शश्लेणाहन्तुमुद्युक्ता	४०८	शीतलो यस्य सद्धर्मः	७१	शून्यत्रितयरत्नत्रि-	२३६
शाण्डिलाख्यस्य मुख्यस्य	४४८	शीलदत्तगुरोः पार्श्वे	४८८	शून्यत्रितयसप्तोक्त-	७४
शातङ्करे समुत्पद्य	३५२	शीलमाहात्म्यसम्भूत-	४६६	शून्यद्वयचतुःपक्ष-	३०
शान्तचित्तः स निवेदो	११३	शीलायुधो गुणव्रात-	४६५	शून्यद्वयचतुः शून्य-	६२
शातं वपुश्वययाहारिवचक्षरित्रं	७०	शीलावहा महादेवी	४०५	शून्यद्वयद्विरत्रैन्द्रि-	७४
शान्तिरभ्येति निर्दिष्टं	४७०	शुक्तिर्मुक्ताविरोषेण	२१४	शून्यद्वयगुणाष्टैक-	३१
शान्तिबुद्धिर्जयः श्रेयः	५७५	शुक्लकृष्णरिवधौ	१२६	शून्याद्वयर्तुरत्रोक्त-	३७
शान्तीशतीर्थसन्तान-	२१४	शुक्लध्यानं समापूर्थ	४२०	शून्यद्वयार्द्धिशून्याग्नि-	३११
शाङ्गपञ्चमुखः पाञ्च-	३२५	शुक्लध्याननिर्दग्ध-	५२०	शून्यद्वयान्निपक्षोक्त-	३७
शालयो लीलाया वृद्धि-	२००	शुक्लध्यानानालीद-	५४७	शून्यद्वयष्टरत्रैक-	१७
शालाख्यवैद्यवेषेण	४१६	शुक्लध्यानोद्सद्ध्यात्वा-	६०	शून्यद्वयेन्द्रियर्तुक्त-	८२
शास्वतं पदनन्विच्छन्	२४७	शुक्लध्यानेन कर्माणि	३७	शून्यद्वयेन्द्रियद्वयुक्त-	६६
शास्त्रबालस्योरके-	२६३	शुक्लफाल्गुनजाष्टम्यां	१५	शून्यद्वितयवस्वैक-	२०६
शास्त्राभ्यासदानानि	७६	शुक्ललेखाः श्वसन्मातै-	५३	शून्यद्वितयवस्वैकै-	३८७
शास्त्राभ्यासनशालो-	४४४	शुक्ललेखाः स्वतंत्रोऽव-	२६	शून्यद्वितयवस्वैक-	१७
शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या	४३३	शुक्ललेखाद्वयः सार्द्धै-	२१८	शून्यद्विरत्रप्रनाभ्याग्नि-	४२
शिक्षकाः खड्गयत्क-	४	शुक्ललेखाः द्विहस्ताङ्गको	४०	शून्यं पञ्चाष्टरत्रोक्त-	३२५
शिक्षकाः षट्शतद्वादश-	३३५	शुक्लेऽग्नान्मार्गशीर्षस्य	२२०	शून्यपञ्चकपक्षाग्नि-	३२५
शिक्षकास्तस्य सद्गन्धाः	२४७	शुचिशुक्लचतुर्ध्वन्त-	१३१	शून्यपञ्चचतुःश्लैक-	३१
शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ	७६	शुचौ कृष्णदशम्यन्त-	६८	शून्यपञ्चचतुर्द्वयक-	४
शिक्षिलीमृतमीः कन्या	५४६	शुद्ध एव चरन्पक्षे	१७	शून्यपञ्चद्विकैकोक्ता	३३५
शिक्षिकां नागदत्ताख्या	१३०	शुद्धदेशजमेदं तत्	४५५	शून्यपञ्चसुनीन्द्रैक-	२३७
शिक्षिकां देवकुर्वाख्या-	३८६	शुद्धश्रद्धानचारित्रः	१३५	शून्यपञ्चतुःपक्षोक्त-	२३
शिक्षिकां देवसंरुद्धा-	८६	शुद्धश्रद्धानमक्षय-	२१	शून्यपञ्चैकपक्षोक्त-	१७
शिक्षिकां वैषयन्त्याख्यां	२२०	शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं	१६२	शून्यपञ्चैकारत्रोक्त-	४२
शिरस्तत्परशयो भर्तु-	३२१	शुभः स्थाने स्थितो दीनो	५२	शून्यषट्कैकपूर्वायुः	५७
शिरुमुखादिंसंजात-	१५०	शुभयोगे सितज्येष्ठ-	४०	शून्यषड्युगपक्षोक्त-	४०
शिरौ विपजते तस्य	२०४	शुभा शब्दाभिधाना च	१८६	शून्यषड्वाधिपूर्वायुः	२७
शिलां बध्ना नृपारुद्धा	१६१	शुभाशुभविपाकानां	३०८	शून्यसप्तकवस्वग्नि-	३२५
शिलां हस्ततलेनाह-	१८१	शुभाशुभविभागोक्त-	१५०	शरो लक्ष्ममुत्थानः	६२
शिलातले निविश्योच्चै-	४५४	शुभ्राष्टपृथ्वीधुर्मान्	४०	शृगालः कश्चिदवास्यस्यं	५३४
शिलातलेनैवोत्तौ	४४७	शुभ्राष्टारमथान्येषु-	५५३	शृगु चित्रं समाधाय	४७०
शिल्पिभिः कापयित्वाक-	४३३	शून्यशेषेऽतिदुःखेन	३६६	शृगु देव महाशिव-	३७८

शृणु महारक स्वामिन्	२८६	श्रीचन्द्रार्हं न भोक्ष्येऽस्म-	५१४	श्रुता तत्तौ च गत्वेन	३५२
शृणु मध्य भस्वस्थस्य	१५८	श्रीत्रिपृष्ठः कुमाराणां	१४५	श्रुत्वा तत्सोदनाधीशो	१५५
शृणु भद्र प्रवक्ष्यामि	५१७	श्रीदत्तायां कुशाक्षरः	१६३	श्रुत्वा तत्सौवर्णं ख्यातं	३६८
शृणु वैरं विरुज्यास्मिन्	१०८	श्रीधराख्यगुरोः पाश्र्वे	४४६	श्रुत्वा तत्सद्विदुं नादं	५५६
शृणु श्रेणिक जम्बू भू	४६४	श्रीधरस्य सुता भूत्वा	४०५	श्रुत्वा तत्स्वाम्भोजो राम-	२५५
शृणु सागरसेनाख्य-	५५२	श्रीधराख्या सुता जाता	११४	श्रुत्वा तद्वैत तं लब्ध-	३७७
शृण्वेते जनमनि प्राचि	४२४	श्रीधरा चागता नाकात्	११५	श्रुत्वा तद्गोपितः शोका	३७७
शेषयोस्तु चतुर्थं स्या-	४७६	श्रीनागजिनमासाद्य	२५०	श्रुत्वा तद्वचनं क्रोधे-	३७६
शेषाः कल्पे भवन्नादौ	३२८	श्रीनागदत्तमातापि	४८१	श्रुत्वा तद्वचनं चक्रौ	३८४
शेषाः प्रकृतयस्तेन	६६	श्रीनागद	४६१	श्रुत्वा तद्वचनं चित्तो	४४६
शेषमालां समादाय	५०२	श्रीपञ्चम्यां बुधाद्वा-	५७७	श्रुत्वा तद्वचनं तौ च	२४१
शेषावसर्पिण्यांकाल-	५५५	श्रीपुरेशः प्रजापाल-	२३८	श्रुत्वा तद्वचनं मन्द-	२२४
शेषौ यथोपदिष्टार्थ-	२६२	श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे	५०	श्रुत्वा तद्वचनं राजा	२५३, ३४२
शैलस्तम्भं समुद्धतुं	३७०	श्रीभूतिः सत्यबोधाङ्को	१०८	श्रुत्वा तद्वचनं विप्र-	४७६
शैशवोचितसर्वार्थै-	२७	श्रीभूतिसचिवो नागक्षमरः	११६	श्रुत्वा तद्वचनं सर्ग-	२६१
शोकदधानलम्भाना-	१७३	श्रीमती बज्रजघं वा	२६३	श्रुत्वा तत्सागरजोऽपि	१०७
शोकाकुलः सुनिर्विण्ण-	३४३	श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः	३४२	श्रुत्वा तत्साहमस्य स्या-	४६६
शौर्यदेशाधिपः शूर-	३८८	श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये	६२	श्रुत्वा ताक्षिचमेतस्या-	२८६
शौर्यस्य सम्भवो याव-	२८२	श्रीमान् जिनेऽजितो बीयाद्	१	श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि	४३४
शौर्योर्विजितत्वादुत्साह-	२८२	श्रीमानसुक्तिपर्यन्तं	४६८	श्रुत्वा दूतोऽप्युपलैष-	३१०
श्मशाने राक्षसः पापी	१५२	श्रीमानितः खगवीशो	४५३	श्रुत्वा धर्मं च सत्यवत्सवं	११४
श्रद्धादिगुणसम्पन्नः	५३, ३८६	श्रीमूलसंघवाराशौ	५७३	श्रुत्वा धर्मं जगत्सूत्र्य-	५०२
श्रद्धानबोधरदनं	१०१	श्रीवर्धमानमनिशं	५६५	श्रुत्वा धर्मं जिनादस्मा-	५२६
श्रद्धाय बोधिनासाद्य	३६३	श्रीवर्धमानमानस्य	४६८	श्रुत्वा धर्मं तदभ्यर्णं	५३६
श्रद्धालुधर्ममप्राप्ती-	३२५	श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या	५०	श्रुत्वा धर्मं त्रैतेः सार्द्ध-	१७६
श्रद्धा सद्यः समुत्पन्ना	४७३	श्रीवर्मा श्रीधरा देवोऽजित-	६५	श्रुत्वा धर्मं सतां त्याज्यं	५१
श्रवणाद् लादिवादित्र-	३७१	श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या-	११८	श्रुत्वा धर्मं घर्षिणादत्त-	३६७
श्रवणो संयमं प्राप्य	८२	श्रीबृहत्स्वस्तिका	१५०	श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म-	११२
श्रव्यैर्हितमितालापैः	३०६	श्रीषेणः कुशजः सुरः	२११	श्रुत्वाऽऽवययनसम्पन्न-	१६०
श्रावकः कपिरोमाख्य-	४७५	श्रीषेणश्चान्यदा गत्वा	५१४	श्रुत्वा वृषे वधिङ्गुख्यो	३८८
श्रावकः समुपलैर्न	५४२	श्रीषेणख्यमहीशस्य	४२४	श्रुत्वा परशुरामस्त-	२८८
श्रावकाः सुरकीर्त्याद्याः	२१०	श्रीषेणार्थां सुतस्तस्य	१७७	श्रुत्वाऽऽपराजितो धर्म-	११५
श्रावका लक्ष्मेकं तु	३३५	श्रीषेणो नाम तस्यावीत्	४७	श्रुत्वापि तीर्थकृद्वाचं	४४७
श्रावकास्त्रीणि लक्षाणि	४	श्रुतं तयोभूतामेधां	५६४	श्रुत्वा प्रोद्यदपंपंश	१६३
श्राविकापञ्चलक्षार्घ्यः	७०	श्रुतं त्वयेत्यसौ शास्त्रे-	२७१	श्रुत्वा मक्त्या परीत्यैनं	५५३
श्रित्वा नदी समुद्भूत-	५५६	श्रुतं वस्तुविशेषेण	४०७	श्रुत्वा यथार्थमस्याविभूत	१४२
श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्मं	४१२	श्रुततद्वचना साह	३४१	श्रुत्वा यथा कर्म्ममिति-	२२७
श्रियं क्रियास्त मे निम्न-	१४	श्रुतधर्मकथो जात-	२७८	श्रुत्वा यस्य वचोऽभूत्	श्रुतिसुखं ४४१
श्रियो माया सुखं दुःखं	८७	श्रुतप्राप्तुञ्चनध्वान-	१५५	श्रुत्वा रामोदयापादि-	३०७
श्रीकान्ता नाम तस्यावीद्	४७	श्रुतस्वप्नफला देवी	४६०	श्रुत्वा लक्षणवत्तेषां	३५८
श्रीपदे काकिणीचर्म-	२४६	श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रि-	४६६	श्रुत्वावधार्थं तद्राजा	३५३

श्रुत्वा विभूतिमद्गत्वा	५२७
श्रुत्वा शाङ्गधरः शत्रु-	३७६
श्रुत्वा श्रीनागदत्तोऽपि	४६०
श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा	४६
श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्म-	८७
श्रुत्वा सुव्रतनामार्हत्पार्ष्ण	६३
श्रुत्वाहं तत्र गत्वाख्यं	१५४
श्रुत्वाैतत्कर्म किं कर्तुं	३६६
श्रुत्वाैतत्प्रितरो कन्या	५११
श्रुत्वाैतदतिशोकार्ता	१७३
श्रुत्वाैतद्वाञ्छ्यभारं स्वं	१६६
श्रूयते तत्तथैवास्तं	२२६
श्रीशिव्याधिपत्येन	१६५, ४५४
श्रेयः श्रेयेषु नास्त्यन्यः	७६
श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्च-	८८
श्रेयो गणधरं प्राप्य	१२५
श्रेयो वातुं ततो यत्नं	४७५
श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन	२०६
श्रेष्ठिना वयमाहूता-	४६१
श्रेष्ठिनी किं करोतीति	४८६
श्रोतुं ममापि चेत्साह	५४४
श्लाघ्यमानः स्वयं केनचि-	३५६
[ ष ]	
षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं	२८१
षट्त्रिंशन्मुनिभिः साधै	४३६
षट्पञ्चाशत्सहाद्रीपा-	२६६
षट्शून्यवह्निपूर्वाद्युः	३५
षट्शक्तिमित्तधर्मादि-	६०
षट्सहस्रचतुर्ज्ञान-	६०
षट्सहस्रप्रामाप्रोक्त-	८३
षट्सागरोपमात्मायु-	२४८
षट्क्वचलसंयुक्तः	२१५
षड्विंशतितनूत्लेधौ	२३१
षण्णवत्युक्तपाषण्ड-	५५५
षण्मासान् सारजानि	४०
षण्मासैर्मौनमास्थाय	३७
षण्मासैरन्तिमैस्तस्मिन्	४३४
षष्टिलक्षमिताब्दायुः	६८
षष्टः श्रीभूर्गतिशब्दाब्दायुः	५६१
षष्ट्यामथोत्तरपाष्टे	३७७
षष्ठोपवासयुक्तस्य	३८७

षष्ठोपवासेनाह्वय	२२०
पाट्टगुण्यं तत्र नैगुण्य-	१६
षोडशाब्ध्यायुषा दिव्य-	८५
षोडशाब्ध्युपमस्वायु-	३३७
षोडशाविर्भविष्यन्ति	५६०
[ स ]	
संक्रुद्धमतमातङ्ग-	३८१
संग्रामाम्भोनिधेः प्रोताः	३१७
संग्रामासहनाचत्र	८४
संज्ञयत्तनूजाय	१०६
संज्ञया सर्वकल्याणी	१५४
संज्ञाप्रशास्त्रचिह्नादि	१७६
संतप्तसर्वमूर्धन्यः	६४
सन्व्यस्यन्ति सहस्रारं	१२५
सन्व्यस्येशानकल्पे	१८२
सन्व्यस्यान्तपरित्यक्त-	३४
संन्यासविधिना त्यक्त-	१४
संवर्द्धय विषवृक्षं च	१०७
संयमं बहुभिः सार्धं-	५०६
संयमं सम्यगादाय	१८५, ३३७
संयमं स्वयमादाय	३४६
संयमप्रत्ययोत्पन्न-	२३६
संयमस्य परां कोटि-	१६८
संयमासंयमादूर्ध्वं	४५७
सयमीव शर्म यातः	१६४
संयमोऽयं स्वयैवापि	२५४
संयोगजः स्वज हति द्विविधो	५६८
संयोगो देहिनां देहे	१२१
संयत्सरं समादाय	१७२
संयत्सरद्वये याते	१२३
संयत्सरसहस्राणां	२४५
संवाहमाना देशीभि-	२१६
संश्रिसंदमानेन	२७५
संशेगजननं पुण्यं	३३६
संशयामस्तथान्येषु-	२६६
संस्तकाख्या निषिद्धेषु	५४२
संसक्तमुद्धर्ता सा विका-	२३४
संसारभीरुपप्रोक्त-	१३८
संसारवर्धनं साधो	५३०
संसारी निर्द्वैतश्चेति	४६७
संसारी मुक्त इत्यास्ता	२४४

संसारे चक्रकम्रान्त्या	३६
संसारे पञ्चधा प्रोक्तं	४६४
संसारे प्रलयं याते	५५
स षष्ठोऽन्यथाभ्यत्वा-	४६३
स कदम्बसुखी वाप्यां	४१५
स कदाचिच्छुरीरादि-	१२५
स कदाचित्तनूजाप्यै	५०
स कदाचित्सभागहे	७६
स कदाचित्समासाद्य	१०२
स कदाचित् समासीनं	८७
स कदाचित् समुत्पन्नबोधिः	१
स कदाचित् सुखासीनः	३
स कदाचित्सञ्जामातुः	१४६
स कदाचिदयोध्यायां	३४६
स कदाचिदुपरलोक-	४८६
स कदाचिदुपाध्यायः	२६५
स कदाचिदिवं गत्वा	१६३
स कदाचिद् दिवोल्लायाः	२१३
स कदाचिद्वने रज्जुं	४०१
स कदाचिद् विलोक्योल्ला-	२३८
स कदाचिन्महावर्षी-	३६८
स कदाचिन्महीनाथो	४७
सकलाभरसन्दोह-	४०३
स कोऽपि पापपाको मे	६२
स को मे कौतुकं तस्मिन्	५२६
स कौतुकः समभ्येत्य	४६४
सक्रियं धर्ममाकर्ण्य	३५१
सक्तो रत्नायुषो भोगे	११५
स खनयर्तुपन्नतुं-	८१
सखाथी वनराजस्य	५१४
सगरश्चक्रनृत्यं ष शोषैः	८
स घोरतपसा दीर्घं	१३२
सङ्कलप्य नरेन्द्रोऽपि	३७७
संकुलीकृतलोचौर-	३७८
सङ्कशेन सदाबद्ध-	४७४
संक्षेपाद्विस्तृतेरथा-	४७२
स चक्रलक्षितां लक्ष्मी	४३१
सचामरां महीशा वा	३१७
सचिन्तस्तत्र जैनेन्द्र-	५४६
स चैतकमहाराजः	४८३
सचरितेऽन्यथाज्ञे	१३८

स जयति गुणभद्रः	५७८	सदा त्रिभुवनारण्ये	१८	स धर्मस्तस्य लाभो यो	४६६
स जयति जयसेनो यो	१३	सदादित्रितयं नङ्क्यत्	५५	स धीमान् बृद्धसंयोगं	५४
स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः	५७७	स दायदभयाद् गत्वा	५१३	स धीमान् षोडशे वर्षे	५४
सर्जानि जयसेनारथ्यं	६१३	सदा विनिद्रो मृगवत्	१३७	स धीरललितः पूर्वं	२१
स जीवितान्ते सम्भूय	४४७	सदा शब्दः प्रवीचारश्चतुर्थ-	८८	स धृत्रेकादशाङ्गानि	३३१
सज्जनावर्यं निर्णिक-	३८१	स दुर्गन्धेन तज्जन्तु-	५३५	सनकुमारकल्पस्य	२५४
सज्जयन्तमहाचैत्य-	१५६	स दुश्चेष्टितदौर्गत्या-	५३७	सनकुमारचक्रेशं	१३६
सज्जयत्यार्थसन्देहे	४६२	स दूत. सत्वरं गत्वा	१४५	सनकुमारदेवोऽस्मा-	५६४
सज्जातसम्मदाः प्राप्य	३७७	स दूतो राजगेहं स्वं	१४५	सनकुमारादैरश्वया	२०२
संज्ञानैस्त्रिभिरज्येभिः	६६	स देवदेव्यसंख्यात-	३१	स नापितं विकाराणा-	४१८
स तं निरीक्ष्य तत्रैव	२१५	स देवरमणोद्याने	१६१	स नारदः पुनस्तत्र	२८५
स तथैवाचरन् मोरं	२२२	स देवाचनवेलायां	४८३	सनिदानोऽभवत्प्राप्ते	४५१
स तदैव सभामभ्याञ्चि-	१६७	सद्ग्रहैर्ह्यादिसिद्धयन्ताः	१६६	सन्त्या मलसञ्चयः परिश्रुतौ	१०१
स तद्धेतुसमुद्भूत-	७३	सद्दृष्टथा सौकुमार्येण	१६६	सन्ततो मायया सीता-	३२१
सति व्ययेऽपि बन्धानां	४६७	सद्धर्मलामयोग्याश्च	५४४	सन्तस्तद्बान्धवाश्चान्ये	२६१
सती प्रीतिमती मेरुगिरेः	३४१	सद्भावप्रतिपद्यानां	१०६	सन्तानिन्यः ससन्तानः	१७६
सती विजयदेवस्य	४०४	सद्भावः सर्वशास्त्राणां	५७४	सन्ति तलेवकाः सर्वे-	३०४
स तेन मानमङ्गेन	६२	सद्यः कृत्वा सनुद्वातं	१००	सन्तुष्टिर्विनयज्ञान्ती-	५६०
स तैः श्लाघ्यषडङ्गेन	२४६	सद्यः प्रापयतः स्मैतौ	५५१	सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै	११०
स तैः सदाबह्वृत्त्याखिलार्य-	६०	सद्यः शीलवती स्पर्शा-	२६३	सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः	५६२
सत्कर्म भावितैर्मावैः	४४६	सद्यश्चतुर्विधा देवाः	८१	सन्दर्भस्फूर्तिं मुञ्च-	५०१
सत्कुलोपु समुद्भूतास्तत्र	४६	सद्यः सम्भक्तवमादाय	१८०	सन्धि तपोधनेः साद्ध-	२८०
सत्यं प्रकुर्वता सद्यः	२८५	सद्यः सर्पाणि शुष्कारिणि	२७४	सन्ध्ये भानुमस्तादा-	३८६
सत्यं सार्वदयामयं तव वचः	८३	सद्यः सामयिकीं शुद्धिं	२०८	सन्ध्याः सन्तु नो युद्धे	३१८
सत्यकोषो मृधावादी	११०	सद्यः सीतालतां दग्धुं	३०१	सन्निधाने च तस्यायः	५०
सत्यन्धरमहादेव्या	५२७	सद्यस्तच्छालनं हृष्ट्वा	५४६	सन्मार्गदूषणं कृत्वा	४५६
सत्यन्धरमहारारजं	५२०	सद्यस्तामेत्य सत्कर्म	३६५	सन्म्यस्य विधिना स्वर्ग-	५४४
सत्यन्धरोऽददादेतद्	५०६	सद्यो जयानकानीकं	३८२	सन्म्यस्य विधिवल्लोक-	५४४
सत्यप्ययं रतिर्न स्यात्-	४६७	सद्यो जातं जिनेः	३२	सपत्न्या इव सम्भ्र-	३१७
सत्यप्यास्मिन् कौमारे	२३६	सद्यो जातिस्मृतिं गत्वा	४५६	स पञ्चाग्निपतः कुर्वन्	११८
सत्यमाया गृहं गत्वा	४१७	सद्यो द्युत्समृद्दोऽपि	१२४	स पातु पार्वनाथोऽस्मान्	४२१
सत्यमामा सुताराभूत्	१६४	सद्यो निर्वर्तते स्मास्मान्	३६१	स पुनः श्रावणे शुक्ल-	३७७
सत्यमामासुतोद्दिष्ट-	४१८	सद्यो निर्विद्य संसारत्	१०३	सप्तपुत्राः समाप्स्यन्ते	३६४
सत्यवत्यां सुधीर्वासः	३४५	सद्यो मनोहरोद्याने	३३१	सप्तप्रकृतिनिर्मूल-	४७२
सत्यां प्रयाति कालोऽथा-	५६	सद्यो मन्त्रिपदाद् भ्रष्टो	१११	सप्तप्रकृतिनिर्नाश-	१५६
सत्याद्युधि मृतिस्तास्मिन्-	२२	सद्यो यज्ञी च सुत्याप्य	४१७	सप्तमः सकलां पृथ्वीं	३६४
सस्तु भाविषु च प्रीति-	४६७	सद्यो विलोक्य सोऽप्याशु-	१६८	सप्तमीं पृथिवीं पायाद्	११७
सस्तु सस्त्वपि भोगेषु	४६६	स द्रव्यसंयमी भूत्वा	५४०	सप्तमे संवमस्थाने	१०६
सदसद्भुभयमेतैकशब्देन	६१	सद्दृष्टस्तेजसो मूर्ति-	१०४	सप्तमेऽहनि यज्ञस्य	१५३
सदसद्भाहसद्भाव-	१२३	सद्देवोदयसम्भूत-	२१८	सप्तर्वणो ऽप्युष्यञ्च	४८२
				सप्तविंशतिवाद्द्व्यासु-	१३४

सप्तविंशतिवाराशि-	४३२	सप्तादशत्पुरा गर्वं	५०६	सम्पाद्य तीर्थं कृत्वा	२३४
सप्तव्यसनसम्पन्ना	३८८	सप्ताधिगुप्तनामानं	४२३	सम्पूज्य वन्दितुं यान्ति	५३८
सप्तव्यसनसंसक्तौ	१६८	सप्ताधिगुप्तमासाद्य	१६२, ४३१	सम्पूर्णाः किमयं शरच्छशधरः	६४
सप्तसप्ततिकुण्ड्यादि-	८२	सप्ताधिगुप्तयोगीशो	४०४	सम्पूर्णां यौवना यान्ती	४०६
सप्त सस्यान्गतौ ख्यात-	४०६	सप्ताधिगुप्तसंज्ञश्च	५६१	सम्पूज्य पालयामास	६६
सप्तापि काननेऽन्येषु-	३६१	समानां पञ्चपञ्चाशत्	२३५	सम्पूञ्छन्तिस्म सर्वेऽपि	१७३
सप्ताभ्युपमितायुष्को	४४८	समानां सप्ततिस्तस्य	५५५	सम्प्रत्यपि दुःखकोऽहं	३१३
सप्ताभ्युपमितायुः सन्	४४८	सम्पादयदाकर्ण्यं	३५६	सम्प्रत्यप्रतिमल्लौ वा	१६८
सप्तारत्निप्रमाणाङ्गा	५५५	समायुतमिताल्मायुः	२४८	सम्प्रविश्यायुधागारं	३८४
सप्रतापा प्रमेयाभात्	३६०	समारोपितकोदण्ड-	४१६	सम्प्राप्तवान् कुमारोऽपि	५४८
सप्रश्रयं प्रब्रानाथ-	४४३	समाश्लिष्य सुखप्रश्न-	५११	सम्प्राप्तार्षासना स्वप्ना-	४६०
सप्रश्रयं समीक्ष्यैन-	४६५	समीक्ष्य तं जनोऽन्योन्य-	३५२	सम्प्राप्तोपात्यसंज्ञानः	१२३
सफला सर्वदा वृष्टि-	६३६	समीक्ष्या वैशिकप्रोक्त-	३५५	सम्प्राण्वन्ति तत्रैते	५४४
सबलं पितरं हत्वा	१७२	समीपं प्राप्य भद्रव्यातो	४७४	सम्प्राप्य खेचरेशेभ्य-	३५६
सु बालवत्सया धेन्वा	८५	समीपे चन्दनार्थाया	५२७	सम्प्राप्य गगनाभोगं	१८८
सु बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं	२३२	समीपे तस्य तत्सुतुः	२६२	सम्प्राप्य चित्रकूटाख्यं	२६१
समयस्तानि दृष्ट्वाख्य-	३६८	समीपे रामदत्तापि	११२	सम्प्राप्य बीवितस्यान्तं	७२
स मन्व्योऽतिविरक्तः सन्न-	३६०	समुच्चासनमारोप्य	१६०	सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्यं	४५६
समां भीष्मा खगेशो	१५७	समुत्कृष्टाष्टशुद्धीद-	२३८	सम्प्राप्य बहवो नोप-	५०८
समार्यं श्रेष्ठिनं मैव-	४६२	समुत्तानयितुं शक्ता	२६१	सम्प्राप्य मुक्तभोगाङ्गो	४५६
समं जनन्या सन्नान्दि-	४७२	समुत्पन्नमहाबोधिः	४६३	सम्प्राप्य मेरुमारोप्य	४६१
समं प्राचौरियं त्याज्ये-	३०२	समुद्गगतकच्छ्रादि-	३२८	सम्प्राप्य पतितस्तरिभन्	५४१
समं भानुश्च सञ्जात-	४१७	समुद्घटय्य सद्बृत्त-	५४१	सम्प्राप्य युद्धयमानेषु	३१४
समत्वं भूपतेरात्म-	१०६	समुद्भूतेन तपसो	२२६	सम्प्राप्य यौवनं तन्वी	४५२
समनन्तरमेवास्य	१३५	समुद्भूतोऽभ्यमाश्लिष्य	२२७	सम्प्राप्य राघवं सोप-	२६६
समभावनया तृप्यन्	२४७	समुद्भ्रान्तो निवार्योऽन्यै-	५०६	सम्प्राप्य संयमं प्राप्य	३४१
समभाषत मायाशो	२२२	समुद्रविजयाख्याय	३५३	सम्प्राप्योपशमं भावं	४०६
समयुञ्जत रामेण	३२३	समुद्रविजयादीनां	३५५	सम्प्राप्यं विविधाहारान्	४१७
समर्चितो महादेवैः	३७	समुद्रविजयाधीशं	३६०	सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ	५६
समर्प्यन्तां कलत्राणि	३८०	समुद्रविजये पाति	३५३	सम्भवे तव लोकानां	१५
समवर्तानरान् सर्वान्	३२०	समुद्रविजये पाति	३५३	सम्भावयतु पिङ्गावं	२६०
समवसरणलक्ष्म्या	५	समुद्रसेननामानं	३५०	सम्भावयन्तमात्मानं	२८४
समभ्राथयतां वैश्य	५१२	स मुनिस्तीर्थनाथेन	४५४	सम्भूतपरिणामेन	२७०
समस्तव्रतसम्पन्नो	४७०	समुन्मूल्य निहन्तुं तं	४५०	सम्भूय पौदनपुरे	१२७
समस्ताङ्गादकेनाधी-	१५	समुपाविद्धदेकत्र	२६८	सम्भूयैतौ द्वितीयेऽह्नि	३२४
समस्तैः शीशवं तस्य	३४	समुपेत्य रथाङ्गेश	४०२	सम्मतैस्तैनमस्कृतुं	५४५
समाः पञ्च सहस्रान-	२१४	समुत्साङ्क्षितमर्यादः	६५	सम्मेदं पर्वतं प्राप्य	१८
समाकर्ण्य समुत्पन्न-	३३१	समेतमेव सम्यक्त्व-	४८०	सम्मेद्विगिमासाद्य	८३, ११३
समाकर्षणं रज्ज्वाव-	४६१	सम्भवत्यान्तरे जाते	२०	सम्मेदपर्वतं मासं	३७
समागत्य तयोः कृत्वा	२३५	सम्पत्तिर्वा चरित्रस्य	४११	सम्मेदशीलमासाद्य	७५
समाचारविभूतान-	५४२	सम्पद्यते न वेत्येतद्	२६८	सम्यक्त्वमपरे सद्यः	४६६
		सम्यक् मनसा नत्वा	४८५	सम्यक्त्वादिचतुष्केण	४७५

सम्यक्त्वाभावत-	१७२	सर्वभाषां भवद्भाषां	४२६	स विद्यया समाहूतां-	२७५
सम्यक्त्वादियु बध्नासौ	३४२	सर्वभाषास्त्वभावेन	३५१	स विलङ्घो ह्यग्रीवो	४५४
सम्यक् प्रार्थयतैर्तांस्ते	५१६	सर्वमेतद्गुरोरात्त-	५५०	सविषं वाशनं मित्रं	४६७
सम्यक् श्रद्धया तत्सर्वं	४१५	सर्वलक्षणसम्पूर्णां	११५	सवित्स्वयौ विलंघ्यैनां	३६५
सम्यगाराधय सम्भूतः	३६३	सर्वलक्षणसम्पूर्णौ	३३७	सव्यापसव्यमुक्तार्ष-	३१६
सम्यगेवं तपः कुर्वन्	२२०	सर्वचित्तमनतश्रद्धा	४८०	सत्रतौ जीवितत्यान्ते	४०८
सत्यगज्ञानविहीनत्वा-	४४७	सर्वाविद्याच्छिदा श्रुत्वा	४००	सशाल्यः सोऽपि तच्छ्रुत्वा	८५
सम्यग्दर्शनमादाय	१४१	सर्वशस्त्रसमुद्भिन्न-	३८२	स शब्दः स हि तर्कज्ञः	५५७
सम्यग्दर्शनरत्नञ्च	५५७	सर्वशान्तिः दो देवः	२०४	स शीलगुणसम्पन्नः	८४
सम्यग्दृष्टिगृहीते ह्य्	५०१	सर्वश्रोतार्यिकानर्णे	५५८	सशोको गृहमागत्य	२६४
सम्यग्दृष्टिरयं सप्त	५४८	सर्वसङ्कपरित्यागाद्यत्र	१३६, ५२७	स श्रीगौतमनामापि	३५०
सम्यग्भवति विज्ञात-	३५६	सर्वसन्तापकृतीक्ष्ण-	५३६	स श्रीवृद्धि च सम्प्राप्त	२१
स यः षोडशभेदेन	१५८	सर्वस्थानानि दुःस्थानि	४६७	स श्रुतो मद्गुरोर्धर्म-	२७२
सयत्नां शीलमालां वा	२६६	सर्वस्वमार्थिजनताः स्वमिह-	५६६	स श्रेष्ठी वनमाला च	३४३
स योगभावपर्यन्ते	४६७	सर्वस्वहरजोद्भूत	१०६	स षट् प्रकृतिभिर्भूष्य-	३३
सरः सूर्येन्दुकलम-	२५४	सर्वो निर्गम्य विश्रम्य	५१६	स संख्य चिरं तामि-	८६
स रक्तो गुणमन्त्रयाः	६२	सर्वाणि जलपुष्पाणि	५०६	स सद्बुद्धिस्तमादाय	५०१
स रत्नकवचं लेख्य-	३४६	सर्वाण्येतानि सम्भूय	७३	स सर्वरमणीयाख्यं	५४१
सरतारं परं सारं-	२१८	सर्वभरणदृश्याङ्गी	४८६	स सहस्रसमायुक्तो	३८३
सरसं विरसं तीक्ष्णं	५५६	सर्वार्थसिद्धानुत्पन्ने	२५५	स सन्नद्धबलोऽधाव-	५०७
सूरयः सागरात्सर्व-	४३४	सर्वार्थसिद्धिदेवस्य	२१४	स सुखेऽसुखेऽसन्तश्री-	७२
सरसा शङ्खचक्रादि	५१	सर्वार्थसिद्धि शिबिका-	२०८	स सुवर्णवसुगैर्ह	१६१
स राजभूजितस्तत्र	१६०	सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्र	११६	स स्नेहसूतसम्पृक्त-	६७
स राजा तेन पुत्रेण	४४६	सर्वार्थसिद्धौ सत्त्वोख्यं	१२८	स स्नेहात्प्रामदत्तायाः	१११
स रामचरणाभ्योर्ब	२६८	सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो	५६४	सह ताम्बां समप्राचीं-	३०४
सरोपाः प्रापुरायुष्यं	८०	सर्वे ते पिण्डताः सन्तो	४	सह तेन महीपालाः	८६
सरोर्बं वोदयान्द्रानोः	४८	सर्वे ते पुनरन्येषु-	५२३	सह देवोऽपि सम्भ्रम्य	४६३
सर्पशय्या धनुःशङ्खौ	३६८	सर्वे ते सुचिरं कृत्वा	१२	सह देव्याश्च सम्भूतः	१३५
सर्वे निधाय तच्चित्तै	४७२	सर्वे दीक्षां ग्रहीष्याम	५३१	सह पूर्णघनत्यान-	५५२
सर्वे स्वयंप्रभाख्येन	३४१	सर्वे निर्वाणकल्पयाथ-	१०७	सहयोगो युत्राभ्याञ्च	४११
सर्वैकर्मचण्डोभाल्यः	४६४	सर्वेन्द्रियसमाह्लाद-	३५	सह विष्णुकुमारिणा	३५७
सर्वैषः सर्वलाकेशः	६१	सर्वे वाग्जितिनो प्राज्ञा	५५४	सह सञ्जात इत्येत-	५१८
सर्वैस्तस्य त्रिरागत्य	४७७	सर्वेषां दृशिता व्याक्तं	२७१	सहवा वेष्टते वार्कं	४१६
सर्वैश्चासनिभिरान	४७२	सर्वेषां दिव्यभूषाभिः	५०६	सहतेत्यद्भुतं कर्म	३८५
सर्वत्र विजयः पुण्य-	५२५	सर्वैर्वरगुरौर्गण्यो	२६०	सहतेव सुमीमत्या-	२२८
सर्वत्र सर्वदा सर्वं	६३	सलक्ष्णसहस्रैकां-	१२३	सहतेवात्मनो रगं	५०६
सर्वथाष्मादितत्त्वानां	४७६	सलज्जः संयमी भूत्वा	२५५	सहोदुःस्मरारख्येन	३६६
सर्वदानिष्टसंयोगो	८	सलखं वा तृषार्त्स्य	२५४	सहस्रदेवतारक्ष्यं	२२८
सर्वदोषमयो भावो	४१३	सलेखं प्राप्तं दत्त्वा	४५२	सहस्रपत्रमभ्योच-	३७०
सर्वप्रकृतिसान्निध्ये	३२७	सलेखोपायनं सन्तं	२५७	सहस्रबाहुं सम्भाष्य	२२५
सर्वमव्यहितं वाञ्छन्	१६५	सवस्त्राका हवाम्भोदिभ	३१८	सहस्रबाहुमीहत्य	२२६
				सहस्रबाहुरिचवाङ्गः	२२२



सहस्रभूयैः सायाह्ने	२४६	साङ्ख्यवादीन् लोकविख्यातान्	५४६	साम्राज्यसारसौख्यं	१२७
सहस्रमन्तिमज्ञाना-	४३६	साङ्ख्याद्यातप्रवादानां	४७६	सारभूतानि वस्तूनि	१६८
सहस्रमुनिभिः सार्द्धं	७०, २२१	सा जिह्वा तौ मनः कर्णां	४४	सारमामोदमादाय	२-१
सहस्रमेकं विज्ञान-	४६८	सातकरे विमानेऽभू-	३४२	सारसौख्यात्समागच्छन्	४३०
सहस्रपक्षराशि	२३०	सातपञ्चशुभैः सौख्य-	२	सारस्वतादिस्तोत्र-	२१५
सहस्रपरिमना सार्द्धं	१५६	सा तेषां फलमाकर्ण्य	१५	सारधनाचतुष्कः सन्	४३३
सहस्राद्यव्येभ्योऽन्त-	७६	सा देवैर्वसुधारादिपूजां	६७	सार्येन सममागच्छ-	३४३
सहस्रारं करे कृत्वा	२२८	साद्यन्तहीनमनवद्यमनादि-	५६७	सार्द्धत्रिकोटिस्तथातं	३०६
सहस्रायविमानेश-	६७	साधनं क्रमशो मुक्ते	१६३	सार्द्धद्विचत्वारिंश-	१३५
सहस्रार्द्धं सहस्रं तु	२४७	साधयन्त्यथा द्र्यादिमे	१-६	सार्द्धदशमासान्त-	३४३
सहस्रेषु समादाय	३८६	साधयामासमासांस्ते	४००	सार्द्धरत्नत्रयोत्सेध	५६०
सहस्रेषुपाय द्रुयाधिबोधिं	२१५	साधवस्तत्रयोऽय-	५२५	सार्धं कनकवत्यासौ	४५८
सहस्रेषुपाय नैर्ग्रन्थं	६०	साधारणास्तव न सन्तु	५६६	सार्धं स्वपितृवारेण	५३८
सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं	१४६	साधिका पूर्वकोट्यायुः	५६२	सार्धं स्वहेतुसम्प्राप्तौ	५५८
सहस्रैर्व्यानमास्याय	२३७	साधुविद्वमनेनेति	५३५	सार्धंभौमी श्रियं सम्यक्	२२७
सह स्वामाविकं रूप-	५२३	साध्याया इव श्रवसाध्यन्ते	४६	सा लक्ष्मीः सकलामारचितपदा	४२६
सहानादृतदेवेन	५३६	साध्यसाधनसम्बन्धो	४७८	सावधिर्विजयं तेन	३७६
सहान्यकल्पे भूत्वेह	५४३	साङ्नागदत्तदुश्चेष्टां	५५२	सावष्टम्भं वचः भुत्वा	१५०
सहाभ्येतु मया लङ्का	३०६	सान्द्रं कुर्वती वृद्धिं	१७६	साऽविशम्भन्नेखाभा-	२०३
सहायांश्चादिशक्तस्य	३१३	सापि कालानिबोद्धता	७२	सा विहृतं वनं याता	५०८
सहाया बान्धवाश्चात्स्य	५०७	सापि गर्भार्थकन्योर्यान्	३६३	सा वीतपगता प्रीति-	२३५
सहायीकृत्य सम्पूज्य	३०५	सापि दृष्ट्वा महीनायमभ्युत्थातुं	४६	सा सुमतायिकान्यरां	३६६
सहायै सह संधिरय	५००	सापि पञ्चनमसत्कार	४८४	सा स्त्रीत्वाभ्यावबुद्धयेत्	४१४
सहायैः वाधित कार्यं	३१५	सापि पद्मावती ज्ञान्ति	४०५	साहस्रं पर्य भुञ्जेऽहं	६६
सहावश्यमहं तान्यां	३१५	सापि स्वस्वामिनीमेत-	५२२	सिंहकेतोर्बिधायाभिषेकं	३४५
सहासो विद्यते नान्य-	४७५	साप्याचारभरणाऽऽगत्य	४८४	सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य	११५
सहोत्पत्तौ श्रियोऽनेन	५८	साप्याह तेषु मे वाञ्छा	२२३	सिंहचन्द्रोऽभवद्वाजा	११२
सा क्रया यां समाकर्ण्य	३४३	साप्याह सुजनं देशे	५१८	सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि	११४
साकल्पेन तदाख्यातं	१६५	साप्याह सुतवाच राजा	४६६	सिंहनादं तदा कुर्वन्	३२२
साकेतनगरं गत्वा	२६१	सा प्रबुध्य फलान्यात्मपते	१२६	सिंहनिःक्रीडितायुधं	५६
साकेतनगपधीशो	४३७	साभिषेकं सुरैः प्राप्य	३३५	सिंहभद्रः सुकम्भोजो	४८२
साकेतपतिना किं ते	२६०	सामग्रीसन्निधानेन	४७७	सिंहविष्टरमव्यस्ये	४६८
साकेतपुरमन्येषु-	११६	सामभेदविधानज्ञाः	५१५	सिंहशैवीऽयमित्येषो	४५१
साकेतपुरमन्येत्य	३२७	साम वाचि दया चित्तं	८७	सिंहसेनमहाराज-	१०६
साकेतस्य विभूतिं ते	४३७	सामानिकादिभिर्देवै-	४६०	सिंहसेनादयस्तस्य	४
साक्षालसक्ष्मीरिवाक्षुषां	५०६	सामानिकादिष्वर्षिर्द्धिं	४३३	सिंहसेनोऽपि कालान्ते	११२
सागरो घनपालाख्य-	४६६	सामाधिकं समादाय	३०, १०४	सिंहसेनोऽपि कालान्ते	११६
सागरोऽन्तकान्तारं	६३	सामाधिकादिषट्कृत्य	१६७	सिंहकृत्तिः स सहसा	३७३
सागरोपमकोटीनां	३, ६६	सामायोपप्रदां भेदं	३८२	सिंहासनं समारोप्य	३२४
सागरोपमविशल्या-	२४५	सामीप्याद्ब्रह्मानन्द-	२७४	सिंहासने समासीनं	१६५
सामिजुल्लसितसूला-	२२६	साम्राज्यसम्बन्धस्य	२०७	सिंहाद्विविद्विद्वद्वाहिन्यौ	१४५

सिद्धेनैव मया प्राप्तं	४६४	सुखं नाम तदेषात्र	२६	सुतो यत्नादिदत्तायां	३६३
सितपद्मत्रयोदश्यां	१२६	सुखं विषयजं प्राप्तुं	३६०	सुतो राजपुरे जाति	५१७
सिते पौषे चतुर्दश्यां	२३	सुखगर्भा जयश्यामा	१२२	सुतो विजयरामाख्यो	३२६
सिद्धकूटमगारस्तोतुं	५४३	सुखदुःखादि संवेधं	२३६	सुतोऽप्यास्तव भतरं	३६४
सिद्धभूपद्वर्ति यस्य	५७३	सुखानि धर्मसाराणि	१२८	सुतो तौ यौटनापूर्णां	१८५
सिद्धराक्षसविद्यत्वा-	४८६	सुखानि सह भुञ्जानः	५२४	सुतो समुद्रभूतां ताव-	४०८
सिद्धाचले कदाचित्तं	१८४	सुखस्य तस्य को वेत्ति	६६	सुदत्तस्तेन निर्विण्णः	१८२
सिद्धार्थशिविकामृदां	१६	सुखेन नवमे मासि	२३५	सुदत्तो नाम तस्यासी-	१८२
सिद्धार्थसुरसम्बोध-	४१६	सुखेनासाधुनानेन	५३३	सुदर्शनायिकाम्यथै	३५१
सिद्धार्थो व्यातसम्बोधो	३३१	सुररुद्रमषेणारख्यः	३५२	सुदुर्तमिन्दुनामानं	१४४
सिद्ध वैकत्र घातोक्ते	२५७	सुग्रहं तलहस्तेन	२६१	सुधर्मगणधृत्यारथं	५३७
सिन्धुसिन्धुखगाद्रथन्त-	३८२	सुग्रीवः कुम्भकर्णेन	३२१	सुधर्मण्यन्तिमं शानं	५३७
सिन्ध्वाख्यविषये भूभृद्-	४८२	सुमीनासुमदाद्यात्म-	३२१	सुधर्मनामि स ज्येष्ठे	१३०
सिरावनद्धदुष्कायो	३७६	सुमीवानिलपुत्रादि-	३१६	सुधर्मा केवली जम्बू	५३७
सीतां नेति विनिश्चित्य	३१२	सुमोषः शतघोषाख्याः	१५६	सुधर्माचार्यमावाद्य	३४८
सीतां नेतुमतोऽस्माक-	३११	सुघोषविद्युद्घृष्टाख्यौ	१७३	सुधीः कथं सुखारोपुः	३०
सीतां मिथः श्रिताभावि	३०२	सुघोषाहेतुना प्राप्त-	५०४	सुधीर्मदनवेगा च	१६२
सीतां शीलवतीं कश्चिदपि	३२१	सुघोषाहेतुना प्राप्त-	३१२	सुधीर्मनोहरोद्याने	१३५
सीताद्यष्टसहस्राणि	३२५	सुज्ञानमप्यविशेषं	३४२	सुन्दरो नन्दिपेशश्च	३६२
सीता वैय्यांभुधि प्राप्य	३०१	सुतं योग्यतमं मत्वा	५०१	सुनीताख्या च शीता च	३४५
सीता न्यस्थेति नीता सा-	३०६	सुतं समर्पयामास	४३१	सुन्दर्यामभवत्स्य	११६
सीता मया हृतेत्येत किं-	३०८	सुतं स्वपत्न्ये संस्थाप्य	३४५	सुपारथं मौनमात्थाय	४२
सीताशपेन दाहोऽयौ	२६६	सुतस्य शूरवीरस्य	१७५	सुपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं	३४४
सीता शीलवती सेयं	२६४	सुतां च स्यन्दनारूढां	१८३	सुतः परार्थमाणिक्य-	५३४
सीतोत्सुकस्तथा गच्छन्	२६१	सुता कनकमालेति	५३२	सुप्रकारपुराधीशः	४०२
सीतोदोदक्ते दुर्गा-	४४	सुता कुबेरदत्तस्य	४२४	सुप्रतिष्ठिनाम्यथै	३५३
सीमङ्करसुनि श्रित्वा	१८२	सुता हृदरथायाश्च	१८२	सुप्रतिष्ठिनाम्यथै	४०
सीरपाणिश्च तद्दुःखात्त-	८६	सुता मम सुकान्ताया-	२७६	सुप्रतिष्ठोऽपि तत्राज्ये	३४२
सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य	३६८	सुताममितवेगस्य	४	सुप्रमाणाग्निनीपारथै	१७३
सीरादिप्रभृतप्रसिद्ध विलसद्-	३८६	सुतायाञ्जितसेनाय	१६६	सुप्रमार्याद्वयः सत	३३५
सीरिणोऽपि नवैवात्र	५६१	सुताय मेघसेनाय	३३१	सुप्रभूतमिदं लब्धं	३४७
सुकण्ठान् गायकान्	४०	सुताय श्रुतशास्त्राय	१५३	सुप्रमोऽपि प्रभाजालं	१२६
सुकुमारी च निर्विण्णया	४२४	सुतास्या सह ज्योतिर्वनं	१६०	सुकण्ठ्याख्यो भ्रशं स्वास्त्य-	२२७
सुकुमारीति संशाल्या	४२३	सुतारां मेऽनुजामेव	५३२	सुबोर्जं सुप्रभूतं च	७७
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्या-	४२३	सुता चागरदत्तस्य	११२	सुबीजमल्पमप्युतं	७८
सुकुम्भेन निकुम्भेन	३१५	सुता हिरण्यवत्यासीत्	२५२	सुमानुरभवत्ततः	४२६
सुक्रेत्वरिति सर्वस्व	१०३	सुते निःस्निग्धतां भर्तुं-	३४१	सुमानुर्भानुनामानं	३६६
सुक्रेतोरेव दृष्टान्तो	१०३	सुतो गगनसुन्दर्या	३४६	सुमौमः सार्वभौमोऽपि	५६४
सुक्रेतुजातौ धूतेन	१०३	सुतो गोतमपुत्रस्य	२८४	सुमौमोऽपि विपद्यान्ते	२३०
सुक्रेतोर्विजयार्थादौ	३६६	सुतो दशरथाख्यस्य	४३२	सुमतिं गणिनीं प्राप्य	१८७
सुक्रेत्वाश्रयशाल्येन	२३०	सुतो देव्यां प्रमंकर्या-	५३२	सुमन्दरिगिनाभ्याशो	३४२
		सुतो ममायं रायेण		सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो	१३२

सुमित्रो धनमित्रोऽन्य-	५१०	सुवर्णदारको नाम	५३४	सोऽपि गत्या भवद्वातां	११
सुसुखाक्षरपद्मैश्च	३८०	सुविरक्तां वनेशोऽसौ	५१४	सोऽपि शतानुभावत्वा-	३१३
सुसुखो नाम तन्नैव	३४३	सुविहितमहापाथी	१७३	सोऽपि तं प्रतिग्रहैर्धं	४६८
सुरः सौधर्मकल्पेऽनु-	५६४	सुव्रता .यार्थिकाम्भारो	३६४	सोऽपि तज्ज्ञायते किञ्चि-	५०८
सुरङ्गे समवस्थाप्य	५१४	सुसप्तपरमस्थान-	१६२	सोऽपि तत्स्वसद्भाव	२४४
सुरतेषु विलाज्ज्वलं	२००	सुसिद्धसुनिनिर्दिष्ट-	२२७	सोऽपि तत्सम्भ्रमं दृष्ट्वा	४६१
सुरदुःसुभिनिषोषं	४८६	सुसीमा कुण्डला सार्द्ध-	१८८	सोऽपि तद्गुणिकावातां	११६
सुरदेवादिगुर्वन्त-	३४७	सुसीमानगरं तरिम्न	१, ३३	सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा	१३३
सुरम्यविषयान्तःस्थ-	३६२	सुरिथिताख्यगुरुं प्राप्य	५३६	सोऽपि तत्योपरि स्थित्वा	५४६
सुरम्यविषये ख्यात-	५३२	सुरिथिताऽर्द्धिचने सापि	२३४	सोऽपि तेनैव दण्डेन	२२६
सुरम्यविषये पोदनेशः	३४८	सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो	४१०	सोऽपि तेनोपरदृष्टः सं-	३६४
सुरम्यविषये रम्ये	४५१	सुनवे धनदाख्याय	६७	सोऽपि दिव्यो गजो गत्यो-	३४४
सुरलोकादिमं लोकमिन्द्रे	६८	सनुः कुर्याकभूपस्य	४७१	सोऽपि दुःश्रितस्तास्य	३१३
सुराः केऽत्र नराः के वा	४४६	सनुर्ममैक एवायं	५३२	सोऽपि पापः स्वयं क्रीधाः	५५६
सुराः पद्मावती दीक्ष्य	१६३	सनुर्विजयमद्रोऽस्य	१४३	सोऽपि प्रकटितात्मीय	४१८
सुराः सर्वेऽपि नलैन-	४६४	सनुस्तयोः प्रतीःोऽभूत्	१७८	सोऽपि प्रागेव बद्धासु	३२२
सुराः सौधर्मसुख्यास्तं	८८	सनुं वनरथे राज्यं	१२१	सोऽपि भीतो गतो दूरं	३७१
सुराकस्तस्य नाभूवन्	२३८	सुपकारोऽपि कालान्ते	३६३	सोऽपि सद्येवमेतस्य	११६
सुरादिमलयोधाने	५२६	सुरसेनो महाराजः	२१४	सोऽपि यत्नमनुस्मृत्य	९०८
सुराधीशः स्वहस्तेन	४६४	सुर्यकान्तसमुद्भूत	१५४	सोऽपि विप्रोऽपिदिदिदिदि-	१६१
सुरा निर्वाणकल्याण-	६४	सुर्याचन्द्रमसौ जिल्वा	६	सोऽपि व्यापारयायास	३६५
सुराश्रवणनाख्यस्य	४०१	सुर्याचन्द्रमसौ सैहिकेयो	१६७	सोऽपि रत्नप्रभां गतः	५५६
सुरास्तत्र समागत्य	४४५	सुर्यावर्ते तपो याते	११४	सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा	३६२
सुरायां बालिकां वीक्ष्य	२७६	सेनयोश्चमयोगसीत्	१२६	सोऽपि श्रीधरसान्निध्ये	५५
सुराप्रख्यसुता विद्यु-	४०३	सेनापतिं समप्राचीत्	२५६	सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो	१२
रुषा वसुधा देवी	२५६	सेव्यमानः सदा रक्तैः	२६	सोऽपि सन्निहितस्तत्र	५१६
सुरेन्द्रनालं बालान्त-	४१५	सेव्यस्तेजस्विभिः सर्वै-	१२६	सोऽपि सम्प्राप्तसम्मान-	४५३
सुरेन्द्रेणाल्य दुग्धाग्नि-	१२	सैन्ययोरुमयोरसीत्	१०४	सोऽपि सम्प्राप्य सामग्री-	५३०
सुरेन्द्रैर्मन्दरस्थान्ते	४०	सैहिकेयनिगीर्णार्क-	३२६	सोऽपि सर्वसहिष्णुः	१०७
सुरैः सम्प्राप्ततत्त्वो	३०	सोढुं तदहमः कश्चि-	५५६	सोऽपि स्थावधिबोधे	५६
सुरैरुद्धां समाह्वय	४१	सोढुं तनुजयोर्दुःख-	१६२	सोऽप्यदानुदिकां काम-	४१८
सुरैस्तदानसंतुष्टै-	६०	सोदसिद्धोपसर्गोऽसौ	४३३	सोऽप्यद्य तत्र सोदयोऽ	५१३
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां	१२३	सोद्वा व्याघकृतं	११७	साऽप्यन्यश्च मुनेर्ज्ञातं	५०३
सुलक्ष्णायानां तस्याभूत्	१८२	सोत्सवः सहसोदस्था-	३२०	सोऽप्येवमवधौत्प्राप्त-	५४३
सुलोचनाद्याः पद्त्रिंशत्	४३६	सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म	२३६	सोऽप्यत्रैव नियान्णकाले	३५४
सुवर्णगजवत्स्यौ च	१०६	सोऽनुत्तरविमानेषु	२३४	सोमदेवो नृपस्तस्मै	३६
सुवर्णतिलकासाद्धं	१८७	सोऽनीतस्तद्गयान्मुक्त्वा	३५६	सोमदेवो नृपो गौरः	६०
सुवर्णतेजसा प्रीति-	५१४	सोपदेशं धृतं सर्वै-	२६३	सोमदेवो मुनिर्विद्य-	४२२
सुवर्णतेजा नाम्नाभू-	५१२	सोऽप्यशसो गिरौ सम्मे-	३११	सोमदेवो द्विजोऽत्रैव	४२२
सुवर्णतेजास्तस्माच्च	५१६	सोऽपि कालान्तरे बुद्धि-	४८८	सोमभूतिश्च वेदाङ्ग-	४२२
		सोऽपि कोपप्रहाविद्ध-	६२	सोमवशासमुद्भूतः	२१६

सोमश्रीस्तत्रिया	१५२	स्थितां कुक्कुटसर्पेण	१५४	स्वचन्द्रककलापाम्भो-	२६५
सोमिलाम्भोजयत्स्यै	४८७	स्थिता जीवन्धरस्तस्या	५०४	स्वच्छन्दं चिरमाकीर्ण-	४८४
सोमिलार्यां कृत्वाप-	४९३	स्थितो मोक्षसौ नन्द-	३९३	स्वस्थातिस्तनु तत्र	१५२
सौजन्यं बन्धवो धर्मो	१०३	स्थित्वापियितुमन्यस्त-	२५८	स्वदीक्षापञ्चनक्षत्र-	२४७
सौजन्यं हन्यते भ्रंशो	१११	स्थित्वाऽत्र निष्क्रियं मासं	९०	स्वदुःखेनापि निर्विण्ण-	३८६
सौधर्मकल्पे चित्राङ्ग-	३४८	स्थित्वा दिनद्वयं वीत-	५६३	स्वद्विजोत्सर्पिभामार-	४७९
सौधर्मकल्पे देवीतत्र-	४०३	स्थित्वा त्रिमासरस्तास्मि-	५२५	स्वनामश्रवणदेशं	२८४
सौधर्मकल्पे देवोऽभू-	४७८	स्थित्वा षष्ठोपवासेन	४२६	स्वनामश्रुतिसंशु-यन्	२०७
सौधर्मकल्पे श्रीपेणो	१६३	स्थिरचरणत्रिवेशो	३७२	स्वपादनखसंक्रान्त-	४१
सौधर्मसुख्यदेवेन्द्रा	९०	स्थिररौद्ररसः सद्यः	४५७	स्वपादननटनृतार्थ-	३१७
सौधर्माधिपतिर्मन्त्या	३७७	स्थिरावत्युन्नतौ शुक्लनीतौ	९३	स्वपादशरणौ भद्रौ	४८६
सौधर्गागारिभिक्षानेऽभू	५३२	स्थूयागाराभिधानेऽभू	४८८	स्वपितामहसन्त्यागो	४४६
सौधर्गागारिभिक्षानेऽभू	५३२	स्थूयास्थूलपकफलाः प्रोचद्	१९९	स्वपित्रा सममन्येद्युः	५३९
सौन्दर्यस्य समुद्रोऽभू-	२१९	स्थूलवेतालरूपाणि	४६५	स्वपुत्रञ्छात्रयोर्भाव-	२६५
सौमुख्यं लोकविज्ञानं	१३८	स्नानस्नानेपनाशेष-	५२०	स्वपुण्यफलकारेण	३८८
स्नानानां क्षणिकत्वेऽपि	१७९	स्नातामलं कृतां शुद्ध-	२६१	स्वपूर्वकृतपुण्यस्य	३८३
स्तनप्रसूतिमित्येवं	३०२	स्नाहि चित्तं समाधेहि	४९८	स्वपूर्वजन्यपापेन	१८६
स्तनयोर्बलवत्पीडां	३६७	स्तुषाम्यसूयया कार्ये	३८९	स्वपूर्वभयसम्बन्धं	१८८
स्तिमिततमसमाधिध्वस्त-	१०१	स्नेहोद्ग्रहप्रस्तो	१३०	स्वपूर्वभयसम्बन्ध-	४२२, ५११
स्तुतस्तदैव संस्तोत्रेः	३०	स्नेहोदन्त्योन्यसंशक्तं	५१२	स्वप्नान् कृष्णद्वितीयायां	२४५
स्तुत्यं प्रसादयितुमर्थिजनो	५६६	स्पर्द्धमानमुजाग्राम्यां	२०५	स्वप्नानन्तरेऽस्या	३३९
स्तुत्वा सतामभिष्टुत्य	१९०	स्पर्शादयोऽष्टधा स्पर्शाः	५२३	स्वप्नान् पांडश संवीक्ष्य	४०
स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं	१८६	स्पष्टमथ मया दृष्टं	६८	स्वप्ने किं फलमेतस्ये-	२९५
स्तोत्रमारोभिरे भक्त्या	४३३	स्पष्टकार्यनिश्चात-	५४१	स्वप्ने दृष्ट्वा समुत्थाय	३२६
स्त्रियः संसारवृत्तलयः	४७	स्फुरद्दुःखातखङ्गाशु-	३१७	स्वप्नेऽपि केनचित्तादृग्	१३६
स्त्रीशुभैः सकलैः शस्त्या	४२०	स्मरन् देवकुमारोऽज्ये	१३६	स्वप्नभावं प्रकारयास्य	२६९
स्त्री तामनुभवन्तीभि-	२८९	स्मरन् सदृशविशस्त्या	६७	स्वप्नान् जन्माकृतिं तस्य	२३०
स्त्रीत्वं सतीत्वमेवैक-	२९०	स्मरत्यावां यदिष्यावस्तत्त्वं	८	स्वप्नान् तुलतयैवैनं	२५९
स्त्रीलक्षणाणि सर्वाणि	४५२	स्मर्त्या देवता चित्तो	२५३	स्वप्नान् तुलतयैवैनं	४०१
स्त्रीश्च तादृग्युगोपिता	४१	स्मितमेवाः सरस्वत्याः	२०५	स्वप्नान् तुलानीपुत्राय	४८९
स्त्रीसुतादिव्यया शक्तो-	११०	स्मितताद्यैः स्वं जयं सोऽपि	३७९	स्वयं यद्दं समागत्य	५१२
स्त्रीसुतादिव्यया शक्तो-	३०१	स्मितपूर्वमवा राष्ठा	४०३	स्वयं यद्गतां लक्ष्मीं	२९४
स्थानं ता एव निन्दायाः	३९०	स्मृत्या धिगिति निन्दित्वा	५४२	स्वयं यद्गतीतुमारब्धः	४४७
स्थानभ्रंशास्तुलोच्छेदो	३१२	स्यां समाहितमोहोऽहं	२१३	स्वयं चेत्वा प्रदेशं तं	५१२
स्थापयित्वा समादष्ट	५३५	स्याच्छब्दलाञ्छितास्तित्त्व-	३२६	स्वयं चैत्याक्षपाभ्यासं	५१२
स्थापितः स शिरोमागे	४१८	स्यात्तद्रामाय शक्ताय	२५६	स्वयं पतितपर्यादि-	४३६
स्थास्तु नाशानवैपाय-	२३४	स्याद्दीस्तत्रविमर्शनी कृतधियः	४८१	स्वयं परिजनेनापि	२९५
स्थास्तु बुद्ध्याः विसुग्धत्वा-	२३८	स्याद्दैननस्यं तेऽवश्यं	५००	स्वयं प्रमथ सर्वस्वम्-	५६१
स्थास्याप्येतस्वमाकर्ण्य	५३१	स्वं करोष्यमिलाषात्म-	३१२	स्वयं प्रमथ ज्ञातानि	४११
स्थितं पिण्डीमूढमत्स्या धो	४९४	स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा	१९४	स्वयं प्रमथिष्येदेवस्य	४०५
स्थितस्तलोषणोद्योगे	५१७	स्वचक्रमिध तस्यैस्त्री-	१०२	स्वयं प्रागतं तं हन्तुं	४१२



